

श्रीमद्विजयानंदसूरिविरचित

श्री जैनतत्त्वादर्शः

ज्ञापान्तर करनार,

वकील मुलचंद नथुभाई

जावनगर

छपावी प्रसिद्ध करनार,

श्रीआत्मारामंजी जैनज्ञानशाला तथा

पुस्तकालयनी कार्यदक्ष सजा.

जावनगर

संवत् १९५६. कार्तिक सुद १५ एते १८९९.

मुल्य चार रुपीआ.

आ ग्रंथ मुंबई निर्णयसागर प्रेसमां छाप्यो.

ग्रंथस्वामित्वना सर्व हक्क प्रसिद्ध करनाराए पोताने
स्वाधिन राखेदा वे.

आ ग्रंथ मलवाना ठेकाणां.

- १ अमारे त्यांथी. दोशी गुलावचंद आणंदजी.
लाह्वेरीयन मारफत.
- २ मुंवइ शा. जीमशी माणक जैनपुस्तक
वेचनार मांडवीवंदर.
- ३ ज्ञावनगर जैनधर्म प्रसारक सज्ञा आफीस.

अर्पण पत्रिका.

अनेक गुणगणालंकृत सुद्ध मुरवी शेट

आणंदजी परशोतमनी सेवामां

मु० जावनगर.

वाढ्यावस्थार्थी स्वशक्तिवले सांसारिक व्यापारमां अच्युदय प्राप्त थवाथी आपे स्वोपार्जित ड्रव्यनो, अन्य अन्य प्रसंगे, तीर्थ-यात्रा, उद्यापन (उजमणु) अछाइ महोत्सव, शत्रुंजय महातीर्थ उपर जीनविंबोतुं स्थापन, अक्षयनीधिआदि धर्मकार्योमां अंतःकरणना धार्मिक उत्साहार्थी व्यय करी पोताना आत्माने निर्मल करेलो ठे, अने तेवी निर्मलता प्राप्त थवाथी वृद्धावस्थामां शांतरसनो आपना अंतःकरणमां जमाव थयोठे, तेनो प्रत्यक्ष अनुभव जावनगरना जैनसमुदायमां प्रसंगे प्रसंगे थता उंचा मनने शांति पमाडवामां आपनुं अंतःकरण साधनचूत थायठे, एवां अनेक कारणोने लीधे, तेमज मारा उपर आप अत्यंत प्रीति राखो ठो; तेथी आ जाषान्तररूप ग्रंथ आपने सविनय अर्पण करुंठुं ते स्विकारशो.

जावनगर,
ता० १७ नोवेंबर
१८९९

ली. आझांकित,
जाषांतर कर्ता.

प्रस्तावना.

नमे ज्ञाता महावीरो, नद्वेषो कपिलादिषु ॥

युक्तिमद् वचनयस्य तस्यकार्यः परिग्रहः ॥ १ ॥

इत्याचार्य श्री हरिजिद् सूरिः ॥

जैनदर्शन सर्व दर्शनोमां श्रेष्ठ ठे, एम पूर्वाचार्य श्रीमद् हरिजिद् सूरिण् पददर्शन समुच्चय नामना ग्रंथमां ठ ए दर्शनोना देवता तत्वप्रमुखना यथार्थ विचार प्रदर्शित करी सिद्ध करी वताव्युं ठे. मोक्षाजिलापी आत्माउने मोक्षपद प्राप्त करवामां जैनदर्शननुं आराधन एज सत्य साधन ठे. साधन रत्नत्रयीनुं आराधन करवुं तेज ठे. ज्ञान, दर्शन, चारित्र रत्नत्रय ठे. श्री तत्वार्थमां “सम्यग् ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्षमार्गः” एम यथार्थ सिद्ध करी वताव्युं ठे.

वेदांत आदि दर्शनमां मात्र ज्ञाननेज मुक्तिनुं साधन मानेळुं ठे. दर्शन, चारित्र तो तेमनी गणनामांज नथी. जुड शंकराचार्यकृत अपरोक्षानुभूति, तथा विद्यारण्य स्वामिकृत पंचदशी. श्री शंकराचार्यकृत आत्मबोधमां चारित्र अर्थात् क्रियानी जरुरीआत वतावी ठे, परंतु दर्शन अर्थात् सम्यग्दर्शननी मोक्षप्राप्तिमां केटली आवश्यकता ठे ते संबंधी विचार जैनदर्शन शिवाय बीजा कोष्पण दर्शनमां विलकुल वताव्या नथी. सम्यग्दर्शननुं यथार्थ स्वरूप तो मात्र जैनदर्शनना पूर्वाचार्य प्रणीत गहन ग्रंथोनुं अवलोकन करवाथीज जाणी शकाय ठे, तेमां पण गुरुगम ज्ञाननी आवश्यकता ठे. जैनदर्शनमां सम्यग्दर्शननी मुख्यता ठे, कारण के ते शिवाय ज्ञान अने चारित्र मोक्ष प्राप्त करावामां असमर्थ ठे; आप्रमाणे ठे ठतां सम्यग्दर्शन अने सम्यग्चारित्रनु मूल कारण सम्यग् ज्ञान ठे. जो सम्यग् ज्ञान प्राप्त थाय तो सम्यग् दर्शन अने सम्यग् चारित्र सेहेजे प्राप्त थाय ठे, परंतु सम्यक् ज्ञान प्राप्त थवुं ते अति दुर्लज ठे. जुदा जुदा दर्शनना आचार्योनी विद्वत्ता तेउना ग्रंथोनुं अवलोकन करवाथी स्पष्ट रीते मालम पडे ठे. जुदा जुदा दर्शनना ग्रंथो अवलोकन करशो तो आपने सिद्ध थशे के सम्यग् ज्ञान मात्र जैनदर्शनना ग्रंथोमांज ठे. अवलोकन करती वखते निष्पक्षपात मतिनी पुरी जरूर ठे. वी-

जाऊं वास्ते तो शुंज बोलवुं, परंतु वेदांतमतना धुरंधर श्री माधवाचार्ये पोताना सर्वदर्शन संग्रह नामना ग्रंथमां जुदा जुदा शोल दर्शनना विचारो बतावेलाठे, एकतुं वीजामां एम उत्तरोत्तर खंडन करेलुं ठे, तेमां आर्हत (जैन) दर्शन संबंधी विचारो बतावतां जेजे बाबतोनुं जेजे रूपे खंडन करेलुं ठे ते एवुं तो विचित्र ठे के, आ प्रसंगे हुं हिंमतथी लखी शकुं तुं के, तेवा महान् आचार्यने पण जैनदर्शननुं यथार्थज्ञान न होतुं. सर्व दर्शनसंग्रहमां आर्हत दर्शननुं स्वरूप बताववामां ठ ड्रव्यसंबंधी तथा सप्तज्ञंगीसंबंधी विचारो बताव्या ठे. ठ ड्रव्यमां “धर्म अने अधर्म” जे प्रथमना वे ड्रव्यो ठे, तेनुं स्वरूप तदन असत्य ते स्थले बतावेलुं ठे; जैनदर्शननुं सत्यज्ञान जो तेमने होत तो ते वने पदार्थोनो जेवो तेमणे अर्थ कर्यो ठे तेवो करतज नहि; खोटो अर्थ करी असत्य खंडन कर्युं ठे. खेर ! मात्र तेडलुंज नहि परंतु सप्तज्ञंगीनी गहन शैली पण तेवा विद्वान् आचार्यने समजवामां आवी नथी, उतां “नैकस्मिन्नसंज्ञवात्” एम सूत्र लखी असत्य कल्पनाठ वतावी ठे. सप्तज्ञंगीना असत्य खंडननुं खंडन श्रीमद्विजयानंदसूरिजीए बहुज विस्तारथी करेलुं ठे जे थोडा वखत पठी ठपाववामां आवशे, ते अवलोकन करवाथी वाचकवर्गने सिद्ध यशे के जैनदर्शन अति गहन दर्शन ठे, अने तेनुंज यथार्थ ज्ञान ते सम्यग् ज्ञान ठे. श्री माधवाचार्य जेवा महान् आचार्यपण जैनदर्शनना परम रहस्यथी अज्ञात हता, तो सामान्य विद्वानो माटे तो शुंज बोलवुं? आमारा लखाणनी सावित्री माटे जीज्ञासुए जैनदर्शनना प्रवीण पुरुष पासे जैनदर्शननुं यथार्थ ज्ञान नवतत्व प्रमुखनुं प्राप्त करी सर्व दर्शनसंग्रहमां वर्णवेला आर्हत दर्शनसंबंधी विचारो तथा तेनुं खंडन अवलोकन करवुं, आर्यावर्तमां वसनारा तेमज वहारना विद्वानो मध्येनो मोटो जाग वेदांतदर्शनने सर्वोत्तम दर्शन माने ठे, परंतु दिलगिरी मात्र ए ठे के वेदांतनुं ज्ञान धरावनारा महाविद्वानो पण जैनदर्शननुं यथार्थ ज्ञान प्राप्त करवा सारु तेना गहन ग्रंथोनो लेशमात्र अज्यास करता नथी. जैनदर्शननुं यथार्थ ज्ञान पूर्वाचार्य श्रीमद्हरिजडसूरि तथा श्रीमद् हेमचंद्राचार्य प्रमुखना रचेलो ड्रव्यानुयोग संबंधी ग्रंथोनुं सदगुरु समक्ष अध्ययन करवाथी थाय ठे. संस्कृत जापाना वेत्ताठ, तर्कना नियमो लक्ष्मां

खड़, पूर्वाचार्यप्रणीत जैनदर्शनना गहन ग्रंथोनुं अध्ययन करे ठे, त्यारेज तेउने सर्व दर्शनो करतां जैनदर्शननी महत्त्वतानुं जासन थाय ठे. जैन-दर्शननुं यथार्थ ज्ञान थवा सारू प्राचीन तथा अर्वाचीन महान् आचा-र्योण अनेक ग्रंथोनी रचना करेली ठे; परंतु एवा निःस्वार्थ परोपकारी म-हात्मारुण ज्ञानरूप लक्ष्मी जैनोने वारसामां आपतां उत्तरोत्तर प्राप्त थतां वर्त्तमान कालना जैनोना कवजामां ते एवी तो बंधनमां पडेली ठे के, ते ज्ञानरूप लक्ष्मीना उत्तम नगीना अति जीज्ञासुउने पण दृष्टिपथे आववा पामता नथी. आप्रमाणे लखवानो हेतु ए ठे के परमकृपालु श्री-मद् विजयानंदसूरिजीने (ग्रंथकर्त्ताने) एक प्रसंगे अमुक शोहेरनो ज्ञान चंडार अवलोकन करवानी जीज्ञासा थइ हती. तेवा-धर्मधुरंधर महान् आचार्यने पण त्यांना आवकोण ज्ञानचंडार बताववामां थानाकानी करी हती. आवी अज्ञानता ज्यांज्यां व्यापेली ठे, ते ते स्थलना जैनो जैनदर्श-ननी ज्ञानरूप लक्ष्मीनो सद्गुपयोग करताज नथी, तेमज बीजा जीज्ञासुउने पण करवा देता नथी. महाविद्वान् आचार्योण परम उपगार बुद्धिण अति प्रयासथी अमूल्य ग्रंथोनी रचना करी जैनीउने जे स्वाधिन करेला ठे, ते मात्र सिंदुकमां राखवासारू तेमज वार मासे एक दिवस धूप देवा थने वज नाखवासारू नहि, परंतु नदीना जलनी जेम ज्ञाननी पिपासावालाने तृपा ठीपाववासारू प्रगट दृष्टिपथे आवे तेवी रीते राखवासारू स्वाधिन करेला ठे. मारो लखवानो हेतु ए ठे के जैनदर्शननुं ज्ञान बीजा दर्शनवालाउना ज्ञानना प्रमाणमां बहु अल्प विस्तारमां प्रसिद्धिमां आवेलुं ठे. अन्य द-र्शनवालाउना जेजे महान् ग्रंथो ठे ते सर्वे प्रगट थएला ठे, त्यारे जैन-दर्शनना महान् ग्रंथो ज्ञानचंडारोमांज मात्र विराजे ठे. जुठ सम्मतिर्तक, रत्नावतारिका प्रमुख. जैनदर्शनधारी आवक समुदायतो आवे अमूल्य ग्रंथोना ज्ञानथी अतिदूर ठे. साधु समुदायमां पण विरला ठे. सारांश के वर्त्तमान कालना जैनोने ज्ञान प्राप्त करवानी बहुज अल्प जिज्ञासा ठे. जैनदर्शनमां सात क्षेत्रमां इव्यनो व्यय करवानी जिनाज्ञा ठे. सात क्षे-त्रमां ज्ञानक्षेत्रनो समावेश ठे; आ क्षेत्र एवुं तो बलवान ठे के तेना रक्षण उपर जैनदर्शनना अस्तित्वनो परम आधार ठे. ए प्रमाणे जिनाज्ञा ठे ठतां वर्त्तमान कालना जैनो आ आधारभूत क्षेत्रमां विलकुल व्यय श-

क्तिना प्रमाणमां करताज नथी. जे कांइ व्यय करे ठे ते वीजाउंना प्रमाणमां यत्किंचित् ठे. आ प्रसंगे कोइ सवाल करशे के हालमां जैनशालाउं अनेक स्थले स्थापवामां आवी ठे ते शुं ज्ञानक्षेत्रमां व्यय नथी ? उत्तर त मात्र एटलोज ठे के ते व्ययनी वीजा क्षेत्रना व्यवनी साथे सरखामणी करशो, त्यारेज यथार्थ समजवामां आवशे. आवी जैनशालाउंमां महत्त्वा विद्वान् शिक्षकोने राखी तीक्ष्ण बुद्धिवाला जैनना वालकोने उत्तरोत्तर गहन ग्रंथोनुं अध्ययन कराववामां पुष्कल अव्ययो व्यय करवानी जरूर ठे, एटले सुधी के जे दरजे वैत्यक्षेत्र तथा प्रतिमाक्षेत्र वर्तमान कालमां प्रकाशित थयेल ठे, ते दरजे ज्ञानक्षेत्रने प्रकाशित करवानी जरूर ठे. ज्ञानीने पुष्टि आपवी तेज ज्ञाननी पुष्टि ठे, अने ज्ञानने पुष्टि आपवी ते ज्ञानीने खोराक आपवातुल्य ठे. आ वावतमां वर्तमान कालना अन्यदर्शनीउंनी पद्धति तरफ दृष्टि करवी जोइए. अन्यदर्शनोना तमाम महान् ग्रंथो प्रगट थएला ठे. विद्वान् पुरुषो ते प्रगट थएला ग्रंथोनुं अवलोकन करी शके ठे. जेवी तुट विद्वानोने अन्यदर्शनोना ग्रंथोनी ठे, तेवी जैनदर्शनना ग्रंथोनी नथी. टुंकामां कहीए तो जैनदर्शनना ग्रंथो विलकुल विस्तार पा-मेला नथी. जे प्रगट थयेला ठे ते पण एवी पद्धतिमां के प्रवेशकने सहायक शिवाय मार्ग पण सूजे नहि. सारांश के जैनदर्शननुं ज्ञान केलवणी रूप थवामां तेवा प्रकारनी रचनानी वर्तमानमां अत्यंत खामी ठे. आवी अनेक मुश्केलीउंना कारणथी सम्यग्ज्ञान प्राप्त थुं ते वर्तमान कालना मनुष्योने अति दुर्लभ ठे.

सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन, सम्यक् चारित्र ते मोक्षमार्ग एवुं जे प्रथम दर्शावेल ठे तेनो सामान्य अर्थ आ प्रसंगे बताववानी जरूर ठे.

सम्यग् ज्ञान—ते आप्तप्रणीत तत्वस्वरूपनो यथार्थ अवबोध.

सम्यग् दर्शन ते आप्त प्रणीत तत्व स्वरूपना यथार्थ अवबोधनो अनुभव, वा यथार्थ तत्व रुचि.

सम्यक्चारित्र. ते आत्मस्वरूपमां, कर्मक्षय करवा निमित्ते रमणताकरवी.

सम्यग् दर्शन अने सम्यक् चारित्रनुं विस्तारथी स्वरूप बताववानो आ स्थले प्रसंग नथी. मात्र सम्यग् ज्ञानसंबंधी कांइक लखवानी आ-

वश्यकता ठे, तेथी पूर्वाचार्यप्रणीत ग्रंथनु अनुकरण करी नवतत्वसंबंधी चांश्क विचार जाहेर करवा रजा खंडं ठुं.

क. आप्तप्रणीत तत्व वे ठे. १ जीव, २ अजीव. वे तत्वना विस्ताररूप सात ठे १ नव तत्व ठे. ते आ प्रमाणे १ जीव, २ अजीव, ३ पुण्य, ४ पाप, ५ आ-अथ ६ संवर, ७ निर्जरा, ८ वंध, ९ मोक्ष. पुण्य, पापने वंधमां अंत-जीव करवाथी सात तत्व थाय ठे.

प्रमुप्रथम जीवतत्व—जीव शब्द चेतन, आत्मा इत्यादि अर्थवाची ठे. शब्दतत्वनो यथार्थ अवबोध तेज अति गहन ज्ञान ठे. जीवनु अस्तित्व वेननारा विद्वानोना विचारमां पण बहुज विचित्रता ठे. जीव, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्युक्त, सुख दुःख वीर्यवान् ठे. जव्यत्व, अजव्यत्व, प्रमेयत्व, सत्व, अजव्यत्व, प्राणधारित्व, संसारित्व, सिद्धत्व, आदि स्व अने परपर्याय जीवने ठे. ज्ञानादि जीवना धर्म ठे, तेमना थकी जीव जिन्न पण नथी अने अजिन्न पण नथी, परंतु ते वनेथी जिन्न जातिरूप जिन्नाजिन्न ठे. जो ज्ञानादि धर्मोथी जीव जिन्न होय तो हुं जाणुं ठुं, हुं जोठं ठुं, हुं सुखी, हुं दुःखी, हुं जव्य इत्यादि अज्ञेद प्रतिपत्ति न थवी जोइए, अने ते तो प्राणीमात्रने ठे; तेमज जो ज्ञानादि धर्मोथी जीव अजिन्न होय तो, आ धर्मी अने आ तेना धर्म ठे, एवी जेदबुद्धि न थवी जोइए. माटे ज्ञानादि धर्म थकी जिन्नाजिन्न एवोज जीव मान्यो जोइए. वली जीव केवो ठे ? कर्मना जेदोनो कर्ता ठे, तेमज ते कर्मोना फलनो पण जोक्ता ठे, चतुर्गतिरूप संसारमां कर्मना संबंधथी परित्रमण करनारो ठे. तेमज द्वादशविध तपप्रयोगथी सकल कर्मनो द्य करी सिद्धत्व प्राप्त करनारो ठे. आ सर्व लक्षणो जीवना, चेतनना, आत्माना ठे. जीव, पृथ्वी, अप, तेज, वायु वनस्पतिकायनो तेमज वे, त्रण, चार के पांच इंद्रियवालो ठे, एम नव प्रकारनो ठे. प्रकारांतरे तेना ५६३ जेद पण थाय ठे.

वीजुं अजीवतत्व—जीव करतां जेनां लक्षणो विपरीत होय ते अजीव, अज्ञानादि धर्मवान्, रूप, रस, गंध, स्पर्शादिथी जिन्नाजिन्न, नरदेवादि जवांतरमां नहि गमन करनार, ज्ञानावरणीयादि कर्मनो अकर्ता, तेमना फलनो अजोक्ता, अने जडस्वरूप, सडन, पडन, विध्वंसनादि धर्मवान्,

ते अजीव ठे. तेना धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल अने काल, एवा पांच जेद ठे.

त्रीजुं पुण्यतत्व अने चोथुं पापतत्व—सत्कर्मपुद्गल ते पुण्य ठे, अने तेनाथी विपरीत ते पाप ठे. पुण्य पापथीज जीवने उत्तरोत्तर सुखदुःख प्राप्त थाय ठे. दानादि शुभ क्रिया पुण्यनुं कारण ठे; अने हिंसादि अशुभक्रिया पापनुं कारण ठे. जीवमात्रमां आत्मत्व तो सरखुंज ठे, उतां मनुष्य, शुआदि देहप्रमुख विचित्रता जे जणाय ठे, तेनुं कारण पुण्यपाप ठे.

पांचमुं आश्रव तत्व ठे. जेनाथी जीवने कर्म प्राप्त थाय ते आश्रव. ते मिथ्यात्व, अविरति, कपाय, योग, आ हेतु ठे. असद् देव, गुरु, धर्मने सरूपे मानवानी जे बुद्धि ते मिथ्यात्व, हिंसादिथी न विरमवुं ते अविरति, क्रोध, मान, प्रमुख ते कपाय, अने मन, वचन, कायानो व्यापार ते योग. सारांश के ज्ञानावरणीयादि कर्म बंधना हेतु ते आश्रव तत्व ठे.

ठठुं संवर तत्व ठे. मिथ्यात्व, अविरति, कपाय अने योग रूप आश्रवनाो सम्यग् दर्शन, विरति, क्षमादि अने त्रिशुक्ति आदि धर्मना आचरणथी निरोध अर्थात् निवारण ते संवर. सारांश के जीवने कर्म उपादान हेतुचूत परिणामनो अज्ञाव ते संवर ठे.

सातमुं निर्जरा तत्व ठे. जीवसाथे वंधायेला ज्ञानावरणीयादि कर्मनुं चार प्रकारना तपथी लुटा पडवुं ते निर्जरा ठे तेना वे प्रकार ठे. १ सकाम, २ अकाम. अति दुष्करतपश्चर्या करनारा, कायोत्सर्गमां रहेनारा, वावीस परीपह सहनकरनारा, लोचादि काय क्लेश जोगवनारा, अष्टादश शीलांग रथना धारण करनारा, वाह्य, अच्यंतर सर्व परिग्रहना त्यागनारा, चारित्री-आर्ज सकाम निर्जरावालां ठे. देशविरतिउने पण सकाम निर्जरा थाय ठे वाकीनाळ अकाम निर्जरावालां ठे.

आठमुं बंध तत्व ठे. बंध अर्थात् बंधन, अर्थात् जीव अने कर्मप्रदेश पुद्गलनो क्षीरनीर जेवो संबंध.

सवाल—जीव अने कर्मनो संबंध कंचुकिक अने कंचुकना जेवो ठे के अन्य तरेहनो ठे ?

उत्तर—कंचुकिक अने कंचुकना जेवो नथी, परंतु अग्नि अने लोहना जेवो तेमज क्षीर अने नीरना जेवो, कर्म अने जीवनो संबंध परस्पर अ-

नुप्रवेशात्मक अर्थात् परिणामन धर्मवालो संबंध ठे. आ प्रसंगे कोइ शंका करे के जीवतो अमूर्त ठे, तेने हस्त प्रमुख तो ठे नहि, एटले लेवा मुकवानी शक्ति पण नथी, तो तेने कर्म ग्रहण केम संजवे ? समाधान ए ठे के जीवने अमूर्त कोणे मान्यो ठे ? जीवने कर्मनो संबंध अनादि ठे, अर्थात् वंने क्षीरनीरनी जेम एक होय तेम परिणाम पामे ठे. ए प्रमाणे जीव मूर्त होवार्थी कर्म ग्रहण करे ठे. कर्मने लेवा मुकवामां कांइ हस्त प्रमुखनी जरूर पडती नथी; परंतु राग द्वेष, मोहरूप परिणामनी चीकाशथी, तेलमां पडेला वखने रज चोटवानी जेम जीव कर्मने ग्रहण करे ठे, अने तेनार्थीज विपरीत एवा सद् अध्यवसायथी जीव कर्मने मुके ठे. सारांश के संसार अवस्थामां जीव मूर्त ठे. आवो जे वंध ते प्रकृति, स्थिति, रस अने प्रदेश एवा चार जेदथी प्रशस्त अने अप्रशस्त एम वे प्रकारनो ठे.

नवमुं मोक्ष तत्व ठे. शरीर, इंद्रिय, आयुष्य आदि बाह्य प्राण, पुण्य, पाप, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, पुनर्जन्मग्रहण, वेदत्रय, कपायादि संग, अज्ञान, असिद्धत्व इत्यादि समेत देहादिनो जे आत्यंतिक वियोग ते मोक्ष ठे. सारांश के सकल कर्मनुं सर्वथा दाय लक्षण ते मोक्ष ठे.

आ नव तत्त्वनुं स्वरूप अति सूक्ष्म ठे, अति विस्तारवालुं ठे अने तेनुं अनुचक्ररूपस्वरूप समजवामां स्वसंवेदनत्व तथा गुरुगम अवबोधनी संपूर्ण आवश्यकता ठे. नवतत्त्वनुं प्रकरण कंठाग्र करवार्थी जे पोपटीयुं ज्ञान प्राप्त थाय ठे, ते मुमुक्षु थवानी अजिलापा राखनारा प्राणीजने वस नथी; कारण के शास्त्रमां कह्युं ठे के “ श्रावक तेजे जाणे तत्व ” आ सूत्रनो अर्थ समजनारा एम मानता होय के अमे नवतत्व कंठे कयां एटले श्रावक थया, तो एवुं तेमनुं मानवुं यथार्थ नथी. ज्यारे तत्त्वनुं स्वरूप यथार्थ रीते जाणवामां आवे अने ते प्रमाणे गुण धारण करवामां आवे त्यारेज श्रावकपणुं प्राप्त थाय ठे. तेवी अजिलापा धारण करनारा उत्तम जीवोना हीतने अर्थे परम ऋषाबु महाराजे अनेक प्राचीन, अर्वाचीन महान ग्रंथकारोना अति उत्तम ग्रंथोमांथी जीन वचनामृतनुं दोहन करी आ जैनतत्त्वादर्श ग्रंथरूप क्यारीमां तेनुं सिंचन करेल ठे. ग्रंथकर्त्ताए आ ग्रंथनुं नाम “ जैनतत्त्वादर्श आपेलुं ठे ते यथार्थ ठे, कारण के आ ग्रंथना अ-

ते अजीव ठे. तेना धर्म, अधर्म, आकाश, पुजल अने काल, एवा पांच जेद ठे.

त्रीजुं पुण्यतत्व अने चोथुं पापतत्व—सत्कर्मपुजल ते पुण्य ठे, अने नार्थी विपरीत ते पाप ठे. पुण्य पापशीज जीवने उत्तरोत्तर सुखदुःख प्रथाय ठे. दानादि शुभ क्रिया पुण्यतुं कारण ठे; अने हिंसादि अशुभक्रिया पापतुं कारण ठे. जीवमात्रमां आत्मत्व तो सरखुंज ठे, उतां मनुष्य, शु आदि देहप्रमुख विचित्रता जे जणाय ठे, तेतुं कारण पुण्यपाप ठे.

पांचमुं आश्रव तत्व ठे. जेनाथी जीवने कर्म प्राप्त थाय ते आश्रव. ते मिथ्यात्व, अविरति, कपाय, योग, आ हेतु ठे. असद् देव, गुरु, धर्मने सरूपे मानवानी जे बुद्धि ते मिथ्यात्व, हिंसादिथी न विरमवुं ते अविरति, क्रोध, मान, प्रमुख ते कपाय, अने मन, वचन, कायानो व्यापार ते योग. सारांश के ज्ञानावरणीयादि कर्म बंधना हेतु ते आश्रव तत्व ठे.

ठठुं संवर तत्व ठे. मिथ्यात्व, अविरति, कपाय अने योग रूप आश्रवनो सम्यग् दर्शन, विरति, क्षमादि अने त्रियुक्ति आदि धर्मना आचरणथी निरोध अर्थात् निवारण ते संवर. सारांश के जीवने कर्म उपादान हेतुचूत परिणामनो अज्ञाव ते संवर ठे.

सातमुं निर्जरा तत्व ठे. जीवसाथे बंधायेला ज्ञानावरणीयादि कर्मतुं वार प्रकारना तपथी टुटा पडवुं ते निर्जरा ठे तेना वे प्रकार ठे. १ सकाम, २ अकाम. अति दुष्करतपश्चर्या करनारा, कायोत्सर्गमां रहेनारा, वाकीस परीपह सहनकरनारा, लोचादि काय क्लेश जोगवनारा, अष्टादश शीलांग रथना धारण करनारा, बाह्य, अज्यंतर सर्व परिग्रहना त्यागनारा, चारित्री-आठ सकाम निर्जरावालां ठे. देशविरतिठने पण सकाम निर्जरा थाय ठे वाकीनाठ अकाम निर्जरावालां ठे.

आठमुं बंध तत्व ठे. बंध अर्थात् बंधन, अर्थात् जीव अने कर्मप्रदेश पुजलनो क्षीरनीर जेवो संबंध.

सवाल—जीव अने कर्मनो संबंध कंचुकिक अने कंचुकना जेवो ठे के अन्य तरेहनो ठे ?

उत्तर—कंचुकिक अने कंचुकना जेवो नथी, परंतु अग्नि अने लोहना जेवो तेमज क्षीर अने नीरना जेवो, कर्म अने जीवनो संबंध परस्पर अ-

नुप्रवेशात्मकअर्थात् परिणामन धर्मवालो संबंध ठे. आ प्रसंगे कोइ शंका करे के जीवतो अमूर्त ठे, तेने हस्त प्रमुख तो ठे नहि, एटले लेवा मुकवानी शक्ति पण नथी, तो तेने कर्म ग्रहण केम संजवे ? समाधान ए ठे के जीवने अमूर्त कोणे मान्यो ठे ? जीवने कर्मनो संबंध अनादि ठे, अर्थात् वने क्षीरनीरनी जेम एक होय तेम परिणाम पामे ठे. ए प्रमाणे जीव मूर्त होवार्थी कर्म ग्रहण करे ठे. कर्मने लेवा मुकवामां कांइ हस्त प्रमुखनी जरूर पडती नथी; परंतु राग छेप, मोहरूप परिणामनी चीकाशथी, तेलमां पडेला वखने रज चोटवानी जेम जीव कर्मने ग्रहण करे ठे, अने तेनाथीज विपरीत एवा सद् अध्यवसायथी जीव कर्मने मुके ठे. सारांश के संसार अवस्थामां जीव मूर्त ठे. आवो जे वंध ते प्रकृति, स्थिति, रस अने प्रदेश एवा चार जेदथी प्रशस्त अने अप्रशस्त एम वे प्रकारनो ठे.

नवमुं मोक्ष तत्व ठे. शरीर, इंद्रिय, आयुष्य आदि वाह्य प्राण, पुण्य, पाप, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, पुनर्जन्मग्रहण, वेदत्रय, कपायादि संग, अज्ञान, असिद्धत्व इत्यादि समेत देहादिनो जे आत्यंतिक वियोग ते मोक्ष ठे. सारांश के सकल कर्मनुं सर्वथा क्षय लक्षण ते मोक्ष ठे.

आ नव तत्वनुं स्वरूप अति सूक्ष्म ठे, अति विस्तारवालुं ठे अने तेनुं अनुभवरूप स्वरूप समजवामां स्वसंवेदनत्व तथा गुरुगम अवबोधनी संपूर्ण आवश्यकता ठे. नवतत्वनुं प्रकरण कंठाग्र करवार्थी जे पोपटीयुं ज्ञान प्राप्त थाय ठे, ते मुमुक्षु थवानी अजिलापा राखनारा प्राणीउने वस नथी; कारण के शास्त्रमां कहुं ठे के “ श्रावक तेजे जाणे तत्व ” आ सूत्रनो अर्थ समजनारा एम मानता होय के अमे नवतत्व कंठे कयां एटले श्रावक थया, तो एवुं तेमनुं मानवुं यथार्थ नथी. ज्यारे तत्वनुं स्वरूप यथार्थ रीते जाणवामां आवे अने ते प्रमाणे गुण धारण करवामां आवे त्यारेज श्रावकपणुं प्राप्त थाय ठे. तेवी अजिलापा धारण करनारा उत्तम जीवोना हीतने अर्थे परम ऋपालु महाराजे अनेक प्राचीन, अर्वाचीन महान ग्रंथकारोना अति उत्तम ग्रंथोमांथी जीन वचनामृतनुं दोहन करी आ जैनतत्वादर्श ग्रंथरूप क्यारीमां तेनुं सिंचन करेल ठे. ग्रंथकर्ताए आ ग्रंथुं नाम “ जैनतत्वादर्श आपेलुं ठे ते यथार्थ ठे, कारण के आ ग्रंथना

ध्ययन करनार, आदर्श (आरीसा) मां जोनार जेम पोताना प्रतिबिंबने जुए ठे, तेम आ ग्रंथरूप आदर्शमां तत्व स्वरूप जुए ठे.

आ प्रसंगे मारे जणावतुं जोइए के, मात्र सांसारिक विद्याना अच्यासीउ वारंवार एवो सवाल करे ठे के अमोने जैनदर्शननुं ज्ञान मेलवानी तो बहुज जीज्ञासा थाय ठे, परंतु पद्धतिप्रमाणे ज्ञान प्राप्त करवानुं कोइए ग्रंथकारे अत्यारसुधीमां एक पण साधन योजेखुं होय तेम अमारी नजरे आवतुं नथी. तेवा जीज्ञासुउने मारी नम्र विनंति एवी ठे के सांसारिक तत्वनुं ज्ञान एकडेएकथी ते महान पाठशालाउनी उंचा प्रकारनी केलवणी सुधी प्राप्त करतां केटलां वर्षों व्यतीत थाय ठे, तेमां जेवी धीरज अने खंत राखो ठो, तेना करतां आ अति गहन धर्मतत्व विषयमां विशेष धीरज अने खंत राखवानी जरूर ठे. तत्वज्ञाननी जीज्ञासावालाने शुरुआत करवामां आ ग्रंथ अति उत्तम ठे; ज्यां ज्यां पारिजापिक कठिनता लागे, त्यां त्यां तत्ववेत्ताउनी सहाय लेवी. तत्वनुं ज्ञान लेशमात्र नहि उतां मात्र सांसारिक विद्याना कारणथी पोताने कृतकृत्य मानवा ते मिथ्याजिमान ठे. सांसारिक विद्या ऐहिक सुखनां साधनोनी योजना करी आपे ठे, परंतु आमुष्मिक सुखनां साधनो योजवामां तो तत्वविद्यानुंज साम्राज्य ठे. सांसारिक विद्याना उत्कर्षरूप ज्वरने शांत करवामां आ ग्रंथ परम उपाध ठे.

आ ग्रंथ हिंदुस्तानी जापामां ग्रंथकर्ताए रचेलो ठे, तेनुं गुजराती जापामां जापान्तर करी आपवानी मने मारा मित्रोए तथा गुरुराजना केटलाएक शिष्योए जलामण करी. में तेमने कछुं के हिंदुस्तानी जापामां जे खुवी समायेली ठे, ते गुजराती जापामां कोइए रीते आववानी नथी. उतांपि तेमनो आग्रह एवो थयो के कागीआवाड गुजरातना बहु लोको हिंदुस्तानी जापा घरावर समजी शकता नथी, ते वाउना हीतने अर्थे जापान्तर करी आपो, ते कारणथी आ जापान्तर मारी अल्पमति अनुसार में कथुं ठे. आ जापान्तरमां जेजे स्थले चूख चूक मा लम पडे ते सर्वे सुझजनोए सुधारी वांचवा कृपा करवी. एज विनंति.

ली. जापान्तर कर्ता.

॥ आ ग्रंथनी अनुक्रमणिका लखीये ठीये ॥

॥ प्रथम परिच्छेदमां देवतत्वनुं स्वरूप ठे तेनी अनुक्रमणिका लखीये ठीये ॥

अंक	विषय	पृष्ठ.
१	ग्रंथ करवानुं प्रयोजन	१
२	देवादिक त्रण तत्वोमां प्रथम देवतत्वनुं स्वरूप, तेमां अंतर्गत श्रीशरीहंतना वार गुण कहेल ठे, ते वार गुणोमां पण वचनातिशय नामे जे वीजो गुण ठे, तेना पांत्रीश जेद तथा वार गुणोमां त्रीजो अपायापगमातिशय गुण, अने चोथो पूजातिशय गुण, ए वंने गुणोना विस्तार रूप चोत्रीश अतिशय थाय ठे तेनुं स्वरूप.	२
३	श्री देवाधिदेव अठार दोषथी रहित होय ठे तेना नाम.	४
४	श्री देवाधिदेवना चोवीस नाम वे श्लोकोमां कहेल ठे.	७
५	पाठली उत्सर्पिणीमां जे चोवीश तीर्थकरो थया ठे तेउंना नाम.	९
६	वर्तमान श्री रूपजादि चोवीश अरिहंतना नाम.	९
७	चोवीश तीर्थकरोना नाम क्या क्या कारणोथी ठे, ते सामान्य तथा विशेष ए वंने अर्थ सहित कहेल ठे.	९
८	चोवीश तीर्थकरोना कुल तथा शरीरना वर्ण कहेल ठे.	१४
९	चोवीश तीर्थकरोना जमणा पगोमां जे चीहो होय ठे ते कहेल ठे.	१४
१०	चोवीश तीर्थकरोना पिताउंना नाम.	१४
११	चोवीश तीर्थकरोनी माताउंना नाम.	१६
१२	चोवीश तीर्थकरनी साथे वावन बोळनो संबंध ठे, ते वावन बोळना नाम तथा स्वरूप यंत्रबंध लखेल ठे.	१७
१३	जे तीर्थकरोना निर्वाण थया पठी तीर्थनो व्यवच्छेद थयो ते.	३४
॥ बीजा परिच्छेदमां कुदेवनुं स्वरूप ठे, तेनी अनुक्रमणिका ॥		
१	कुदेवमां स्त्री सेवनादिक घणा डुपणो वताव्यां ठे.	३५
२	जैन मतवाला ईश्वरने माने ठे ए वात सिरू करी ठे.	३७
३	जगत्ना कर्ता ईश्वर नथी ए वातनो निर्णय अहींथी चाळ्यो ठे.	४०
४	एक तो जगत् उत्पत्तिनी पहेलां केवल जगत्ना उपादाना-	

ध्ययन करनार, आदर्श (आरीसा) मां जोनार जेम पोताना प्रतिबिंबने जुए ठे, तेम आ ग्रंथरूप आदर्शमां तत्व स्वरूप जुए ठे.

आ प्रसंगे मारे जणावतुं जोइए के, मात्र सांसारिक विद्याना अर्च्या-सीउं वारंवार एवो सवाल करे ठे के अमोने जैनदर्शननुं ज्ञान मेलवानी तो बहुज जीज्ञासा थाय ठे, परंतु पद्धतिप्रमाणे ज्ञान प्राप्त करवानुं कौ-इपण ग्रंथकारे अत्यारसुधीमां एक पण साधन योजेखुं होय तेम अमारी नजरे आवतुं नथी. तेवा जीज्ञासुउने मारी नम्र विनंति एवी ठे के सां-सारिक तत्वनुं ज्ञान एकडेएकथी ते महान पाठशालाउनी उंचा प्रकारनी केलवणी सुधी प्राप्त करतां केटलां वर्षों व्यतीत थाय ठे, तेमां जेवी धीरज अने खंत राखो ठो, तेना करतां आ अति गहन धर्मतत्व विषयमां विशेष धीरज अने खंत राखवानी जरूर ठे. तत्वज्ञाननी जीज्ञासा-वालाने शुरुआत करवामां आ ग्रंथ अति उत्तम ठे; ज्यां ज्यां पारिजापिक कठिनता लागे, त्यां त्यां तत्ववेत्ताउनी सहाय लेवी. तत्वनुं ज्ञान लेशमात्र नहि ठतां मात्र सांसारिक विद्याना कारणथी पोताने कृतकृत्य मानवा ते मिथ्याजिमान ठे. सांसारिक विद्या ऐहिक सुखनां साधनोनी योजना करी आपे ठे, परंतु आमुष्मिक सुखनां साधनो योजवामां तो तत्वविद्यानुंज साम्राज्य ठे. सांसारिक विद्याना उत्कर्षरूप ज्वरने शांत करवामां आ ग्रंथ परम उषध ठे.

आ ग्रंथ हिंदुस्तानी जापामां ग्रंथकर्ताए रचेलो ठे, तेनुं गुजराती जापामां जापान्तर करी आपवानी मने मारा मित्रोए तथा गुरुराजना केटलाएक शिष्योए जलामण करी. में तेमने कछुं के हिंदुस्तानी जापामां जे खुवी समायेली ठे, ते गुजराती जापामां कोइपण रीते आववानी नथी. ठतांपि तेमनो आग्रह एवो थयो के काठीआवाड गुजरातना बहु लोको हिंदुस्तानी जापा वरावर समजी शकता नथी, ते वार्जना हीतने अर्थे जापान्तर करी आपो, ते कारणथी आ जापान्तर मारी अल्पमति अनुसार में कर्तुं ठे. आ जापान्तरमां जेजे स्थले झूल चूक मा लम पडे ते सर्वे सुझजनोए सुधारी वांचवा कृपा करवी. एज विनंति.

ली. जापान्तर कर्ता.

॥ आ ग्रंथनी अनुक्रमणिका लखीये तीये ॥

१ प्रथम परिच्छेदमां देवतत्त्वनुं स्वरूप ठे तेनी अनुक्रमणिका लखीये तीये ॥

अंक	विषय	पृष्ठ.
१	ग्रंथ करवानुं प्रयोजन	१
२	देवादिक त्रण तत्वोमां प्रथम देवतत्त्वनुं स्वरूप, तेमां अंतर्गत श्रीश्रीरिहंतना वार गुण कहेल ठे, ते वार गुणोमां पण वचनातिशय नामे जे बीजो गुण ठे, तेना पांत्रीश जेद तथा वार गुणोमां त्रीजो अपायापगमातिशय गुण, अने चोथो पूजातिशय गुण, ए वंने गुणोना विस्तार रूप चोत्रीश अतिशय थाय ठे तेनुं स्वरूप.	१
३	श्री देवाधिदेव अठार दोपथी रहित होय ठे तेना नाम.	४
४	श्री देवाधिदेवना चोवीस नाम वे श्लोकोमां कहेल ठे.	७
५	पाठली उत्सर्पिणीमां जे चोवीश तीर्थकरो थया ठे तेउंना नाम.	ए
६	वर्तमान श्री रूपजादि चोवीश अरिहंतना नाम.	ए
७	चोवीश तीर्थकरोना नाम क्या क्या कारणोथी ठे, ते सामान्य तथा विशेष ए वंने अर्थ सहित कहेल ठे.	ए
८	चोवीश तीर्थकरोना कुल तथा शरीरना वर्ण कहेल ठे.	१४
९	चोवीश तीर्थकरोना जमणा पगोमां जे चीहो होय ठे ते कहेल ठे.	१४
१०	चोवीश तीर्थकरोना पिताउंना नाम.	१४
११	चोवीश तीर्थकरोनी माताउंना नाम.	१६
१२	चोवीश तीर्थकरनी साथे वावन वोळनो संबंध ठे, ते वावन वोळना नाम तथा स्वरूप यंत्रबंध लखेल ठे.	१७
१३	जे तीर्थकरोना निर्वाण थया पठी तीर्थनो व्यवच्छेद थयो ते.	३४
॥ बीजा परिच्छेदमां कुदेवनुं स्वरूप ठे, तेनी अनुक्रमणिका ॥		
१	कुदेवमां स्त्री सेवनादिक घणा छुपणो वताव्यां ठे.	३५
२	जैन मतवाला ईश्वरने माने ठे ए वात सिद्ध करी ठे.	३७
३	जगत्ना कर्ता ईश्वर नथी ए वातनो निर्णय अहीथी चाळ्यो ठे.	४०
४	एक तो जगत् उत्पत्तिनी पहेलां केवल जगत्ना उपादाना-	

दिक कोइ पण कारण अथवा वीजी वस्तु न होती, एकला शुरू बुरू सच्चिदानंदादि स्वरूपयुक्त परमेश्वर हुता, एवा ईश्वर जगत् अथवा सर्व वस्तुना बनाववावाला केटलाक मतावलंबियो माने ठे, अने केटलाएक मतावलंबीयो तो एक ईश्वर अने वीजुं जगत् उत्पन्न करवानी सामग्री ए वंने कोइए बनावेल नथी एम माने ठे. ए प्रमाणे, वंने प्रकारना परमेश्वरमां पहेला जे केवल एकला ईश्वर हुता, तेणे आ जगत् रचेल ठे ए प्रमाणेना मतावलंबियोनुं खंडन.

५ ईश्वरनी शक्ति ठे ते जगत्तुं उपादान कारण ठे, ए प्रश्नो उत्तर. ४१

६ ईश्वर उपादान कारण विना जगत् रची शके ठे, तेतो उत्तर. ४२

७ ईश्वर सृष्टिकर्ता प्रत्यक्ष प्रमाणथी सिद्ध करवावाला पूर्वपक्षीउनुं खंडन. ४३

८ जगत्ना कर्ता वीना जगत् केम थयुं? ए प्रमाणेना प्रश्नना जूदा जूदा ठ पक्षो करीने उत्तर दइ समाधान करेल ठे. ४३

९ ईश्वर जगत्मां आपणी ईश्वरता प्रगट करवा सृष्टि रचे ठे एवुं मानवा वाला मतावलंबियोनुं खंडन. ४६

१० ईश्वरे परोपकार करवा माटे सृष्टि रची ठे, एवा पूर्वपक्षीनुं खंडन. ४६

११ ईश्वरज पुण्य पापादि करावे ठे, एवा पूर्वपक्षीनुं खंडन. ४७

१२ आ जगत् वाजीगरनी वाजी जेवुं ठे, नरक स्वर्ग अने पुण्य पापादि कांइ नथी, एवुं कहेवावाला पूर्वपक्षीनुं खंडन. ४७

१३ एकज परम ब्रह्म पारमार्थिक सद्गुण मानवावाला पुर्व पक्षीउना प्रश्नोना उत्तर पुर्वक खंडन, तेमां अद्वैत मतनुं पण खंडन ठे. ४७

१४ शंकरस्वामीना शिष्य आनंदगीरीए शंकरदिग्विजय ग्रंथना अठावनमा प्रकरणमां जे शंकरस्वामीनुं वृतांत लखेल ठे, तेनाथी एवी प्रतीत थाय ठे के, वेदांतीउनुं अद्वैत ब्रह्मज्ञान ज्यांसुधी आ स्थूल देह रदेशे, त्यांसुधी रदेशे, तथा शंकरस्वामी पोते पण अज्ञानी तथा कामी वनी गया ठे, तेनुं हास्यकारक कथा पूर्वक अद्वैत मतनुं खंडन. ५४

१५ वीजा जे जगतने उपादान कारणवाला एक ईश्वर तथावीजुं

- जगत् उत्पन्न करवानी सामग्री, एवंने पदार्थों अनादि ठे, ए प्र-
 माणे कहेवावाला मतवालां वियोनुं पुर्व पक्ष उत्तर पक्षपूर्वक खंडन. ६२
- १६ ईश्वरने जगत्ना कर्ता सिद्ध करवावाळुं अनुमान प्रमाण ठे, ए
 प्रमाणे कथन करवावाला पूर्वपक्षीयोना प्रश्नोनुं समाधान. ६५
- १७ ईश्वर जगवान् सर्व जीवोनुं शुद्धकर्म करवामांज प्रवृत्त क-
 र्ता ठे ए प्रमाणे कहेवावाला पुर्व पक्षीउनुं खंडन. ६७
- १८ शुद्ध कर्म करवामां जीव पोतेज प्रवृत्त होय ठे, अने ते कर्म-
 नुं फल देवावाला ईश्वर ठे, ए प्रमाणेना पुर्वपक्षीउनुं खंडन. ६८
- १९ ईश्वर आपणी क्रीडाने माटे कोझे नरकमां नांखे ठे, कोझे
 तिर्यचमां उत्पन्न करे ठे, इत्यादि विरुद्ध वाक्यो कहेवावाला
 मतवादीयोनुं पुर्वपक्ष उत्तरपक्ष पूर्वक खंडन. ७०
- २०: एक ईश्वर ठे, ए वात सिद्ध करवावाला मतवादीयोनुं खंडन. ७२
- २१ ईश्वरने देहधारी मानवावाला मतवादीयोनुं खंडन. ७३
- २२ जगत्ना कर्ता ईश्वर अवश्य होवाज जोइए, ए प्रमाणे खरड
 ज्ञानीयोना ईश्वरवादानुं खंडन. ७६
- २३ सर्व प्रकारे जगत् कर्ता कोइ तरेहथी ईश्वर सिद्ध न थइ शकता,
 ए वात विशेष प्रकारे जाणवानी चाहना राखवावाला सुद्ध ज-
 नोए सम्मत्तितर्कादि ग्रंथो जोवा, तेमांथी वीस ग्रंथोना नाम. ८१
- ॥ त्रीजा परिच्छेदमां गुरुतत्त्वनुं स्वरूप कहेल ठे, तेनी अनुक्रमणिका ॥
- १ शुद्ध गुरुनुं लक्षण जैनमतानु सारे करेल ठे. ८२
- २ प्राणातिपातादिक पांच महावृतोनुं स्वरूप. ८३
- ३ प्राणातिपातादिक पांच महावृतोमां प्रत्येकव्रतनी पांच पांच जावना. ८५
- ४ चरणसिचरीना सित्तेर जेद, जेम के पांच महाव्रत, दश प्रका-
 रना श्रमण धर्म, सत्तर प्रकारना संयम, दश प्रकारना वैद्या-
 वृत, नव प्रकारे ब्रह्मचर्यनी गुप्ति, ज्ञानादिक त्रिक, वार प्र-
 कारना तप, क्रोधादिक चारना नियह, ए सर्व सित्तेर जेदोनुं स्वरूप. ९०
- ५ करणसिचरीना सित्तेर जेद, जेम के चार प्रकारनी पिंडवि-
 शुद्धि, पांच प्रकारनी समिति, वार प्रकारनी जावना, अग्नि-
 यार प्रकारनी पडिमा, पांच प्रकारना इंद्रियोना निरोध, पचिस

- प्रतिलेखना, त्रण गुप्ति, अने चार प्रकारना अजिग्रह, ए सि-
त्तेरं जेदनुं स्वरूप. १६
- ६ जे प्रमाणे जैनमतना शास्त्रोमां गुरुनुं स्वरूप लेखेल ठे, ते प्र-
माणेनी वृत्तिवाला कोइ पण जैनना साधु देखवामां नथी आ-
वता, एवी आशंका करवावालानुं समाधान, तथा आ पंचम
कालमां केवी तरेहंनी प्रवृत्तिवालाने संयमी कहेवा, तथा वकु-
शादि पांच चारित्रनुं स्वरूप. १००
- ॥ चोथा परिच्छेदमां कुगुरुनुं स्वरूप कहेल ठे, तेनी अनुक्रमणिका ॥
- १ प्रथम क्रियावादीयोनां कालवादी, ईश्वरवादी, आत्मवादी, नि-
यतवादी अने स्वभाववादी, ए पांच विकल्प करीने तेना पृथक्
पृथक् जेद मेलवीने एकसो एंसी मत कहेल ठे. ११५
- २ वीजा अक्रियावादीयोना स्वरूपपूर्वक चोराशी मतोदेखाडेल ठे. ११०
- ३ त्रीजा अज्ञानवादीयोनुं स्वरूप, अने तेना सडसठ मत. १२०
- ४ चोथा विनयवादीयोना वत्रीश मत. १२४
- ५ क्रियावादीयोमां प्रथम कालवादीयोना मतनुं खंडन. १२५
- ६ क्रियावादीयोमां वीजा ईश्वरवादीयोना मतनुं खंडन. १२६
- ७ क्रियावादीयोमां त्रीजा आत्मवादी (अद्वैत) वादीयोनुं खंडन. १२७
- ८ क्रियावादीयोमां चोथा नियतवादीयोना मतनुं खंडन. १२७
- ९ क्रियावादीयोमां पांचमां स्वभाववादीयोना मतनुं खंडन. १३१
- १० वीजा अक्रियावादीयोमां यदृष्टा वादीयोना मतनुं खंडन. १३२
- ११ त्रीजा अज्ञानवादीयोना मतनुं खंडन. १३३
- १२ चोथा विनयवादीयोना मतनुं खंडन. १३६
- १३ जव्य जीवोने शीघ्र बोध थवाने माटे पटुदर्शननुं किंचित् स्वरूप, तेमां प्रथम बौद्ध दर्शननास्वरूपमां बौद्ध मतना गुरुना
लिंग, बौद्ध जगवान्ना वत्रीश नाम, सात बुद्धना नाम, तथा
सातमांथी पाठला जे शाक्यसिंह बुद्ध ठे, तेना आठ नाम
तथा शून्यवादी बौद्धना ठ नाम, तथा ग्रंथ करवावाला गुरुर्जना
नाम, तथा तर्कशास्त्रोना नाम, बौद्धोनी चार शाखाना नाम,
तथा बौद्ध मतमां चार वस्तु माने ठे, तेना नाम इत्यादि. १३७

- १४ वीजा नैयायिक दर्शनना स्वरूपमां नैयायिक मतना गुरुना लिंग, तेना देवना श्रद्धार श्रवतारना नाम, प्रत्यक्षादि चार प्रमाण, अने सोल पदार्थना नाम, तथा तेना तर्कशास्त्रोनानाम. १४०
- १५ वैशेषिक मतनुं संक्षेपशी स्वरूप. १४१
- १६ चोथा सांख्यमतनुं स्वरूप घणुं विस्तारशी. १४१
- १७ पांचमां मीमांसक मत, तेनुं वीजुं नाम जैमिनीय, तेनुं स्वरूप. १४७
- १८ नास्तिक चार्वाक दर्शन तेने लोक वाममार्गी कहे ठे ए नास्तिक दर्शन पददर्शनमां गणानुं नथी, तेनुं स्वरूप, तथा आमत बृहस्पति नामना पुरुषशी उत्पन्न थयेल ठे, तेनी कथा. १५१
- १९ प्रथम बौद्धमतमां पूर्वापर विरोध तथा ते मतनुं खंडन. १६०
- २० वीजा नैयायिक मतमां पुर्वापर विरोध, तथा ते मतनुं खंडन. १६५
- २१ त्रीजा वैशेषिक मतनुं खंडन. १७०
- २२ चोथा सांख्य मतनुं खंडन. १७१
- २३ पांचमां मीमांसक मतना खंडनमां वेदांतीयोना ब्रह्म (अद्वैत) नुं खंडन तो प्रथमज ईश्वरवादमां करी चुक्या ठीये, परंतु तेनुं श्रपर नाम जैमिनीय मत ठे. तेनुं स्वरूप तथा खंडन. १७५
- २४ वेदोमां जे यज्ञादि करीने हिंसा करवी लखेल ठे, तेनुं खंडन. १७५
- २५ चार्वाक (नास्तिक) मतनुं पुर्वपक्ष उतरपक्ष पूर्वक खंडन. १९७
- ॥ पांचमा परिच्छेदमां शुद्ध धर्मतत्त्वनुं स्वरूप कहेल ठे, तेनी अनुक्रमणिका ॥
- १ नव तत्वमां प्रथम जीव तत्त्वनुं स्वरूप. २०६
- २ पृथ्वी आदि पांच स्थावरोमां जीवत्व सिद्ध करेल ठे. २०७
- ३ वीजा अजीव तत्वना स्वरूपमां धर्मास्तिकायादिक ड्रव्योनुं लक्षण २११
- ४ त्रीजा पुण्य तत्वना स्वरूपमां पुण्य उपार्जन करवाना नंव प्रकार, तथा ते वेंताक्षीश प्रकारे जोगववामां आवे ठे, तेना नाम २१३
- ५ चोथा पाप तत्वना स्वरूपमां कर्माजाव वादी नास्तिक तथा वेदांती कहे ठे के, पुण्य पाप जे ठे, ते आकाशना फुलनी माफक असत् ठे तथा तेना फल जोगववानुं स्थान जे स्वर्ग अने नरक ते पण नथी, ए प्रमाणे कथन करवावावानुं निराकरण करीने पाप श्रद्धार प्रकारे बंधाय ठे, अने ते व्याप्ती प्रकारे

- जोगववामां श्रावे ठे, तेना नाम, तदंतर्गत २२६ मा पानामां
नीच उच्च वर्ण नहीं मानवावाला लोकोनुं पण निराकरण ठे, २१६
६. पांचमा आश्रव तत्वना स्वरूपमां आश्रवना उत्तर जेद, जे
पांच इंद्रिय, चार कषाय, पांच अत्रत, पच्चीश असत्क्रिया
तथा त्रण योग, ए वेंतालीश जेद कहेल ठे, तेमां आठ म-
दनुं स्वरूप, तथा पांच अत्रत द्रव्य तथा जाव, ए वे जेदे क-
रीने बतावेल ठे, तथा द्रव्यहिंसा तथा जावहिंसानुं स्वरू-
प चउजंगी करीने कहेल ठे; ए प्रमाणे पांचे व्रतोनुं स्वरूप
चउजंगीपुर्वक कहेल ठे. २२७
७. ठठा संवर तत्वना स्वरूपमां पांच समिति आदिक सत्तावन
जेद कहेल ठे, तेनुं स्वरूप गुरुतत्वमां लखेल ठे, पण अहीं-
यां तो तेमांथी वावीश परीसहनुं स्वरूप विस्तारथी ठे. २२६
८. सातमा निर्जारा तत्वनुं स्वरूप गुरु तत्वमां संक्षेपथी कहेल ठे. २२७
- ए. आठमा बंध तत्वना स्वरूपमां कोइएंक वादी कहे ठे के,
जीव प्रथम पुण्य पापनो बंध करीने रहित थया, पठीथी पुण्य
पापनो बंध थाय ठे, इत्यादि ठ विकल्पनुं समाधान करीने
पठी बंधना मुल हेतु चार तथा पांच प्रकारना मिथ्यात्व, वार
प्रकारनी अविरति, पच्चीश कषाय, तथा पंदर योग, मली स-
त्तावन उत्तर हेतुना नाम. २३७
- २० नवमां तत्वमां सत्पदादि नव द्वारोथी सिद्ध जगवाननुं स्वरूप. २५१
- ॥ ठठा परिच्छेदमां चौद गुणस्थाननुं स्वरूप ठे, तेनी अनुक्रमणिका ॥
- १ प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थानकना स्वरूपमां मिथ्यात्वनुं गुणस्था-
नक केवी रीते कहेवाय ठे ? एवी आशंकानुं समाधान, तथा
मिथ्यात्वनुं कांशंक स्वरूप पण कहेल ठे. २५५
- २ बीजा सास्वादान गुणस्थानकना स्वरूपमां तेनुं कारणचूत जे
श्रौपशमिक सम्यक्त्व ठे, तेनुं स्वरूप. २५७
- ३ त्रीजुं मिश्रगुण स्थानकनुं स्वरूप. २५७
- ४ चोथा अविरति सम्यग्दृष्टि गुणस्थानकना स्वरूपमां सम्यक्-
दृष्टि जीवनुं लक्षण, अने यथाप्रवृत्त्यादि त्रण करणोनुं लक्षण २६०

- ५ पांचमां देशविरति गुणस्थानकना स्वरूपमां श्रावकना पट्टकर्मादि १६३
- ६ ठगा प्रमत संयत गुणस्थानकना स्वरूपमां किंचित् धर्मध्यान-
ननुं स्वरूप, तथा आ गुणस्थानकमां निरालंबन ध्यान होतुं
नथी, तेनो निश्चय करीने, आ कालमां केटलाएक पोतानी
कढपनाथी कांइने कांइ बोले ठे, तेउने उपदेश दीधेल ठे. १६५
- ७ सातमा अप्रमत गुणस्थानकना स्वरूपमां धर्मध्याननुं स्वरूप
मैत्रीआदि अनेक जेदरूप, तथा आ गुणस्थानकमां सामायि-
कादि पट्ट आवश्यक नथी, तेनुं व्याख्यानादि करेल ठे. १६६
- ८ आठमा, नवमा, दशमा, अर्गीयारमा, अने वारमा, ए पांच
गुण स्थानकोनुं स्वरूप एकतुं कहेल ठे, तेमां उपशमश्रेणि
तथा क्लृपकश्रेणिनुं किंचित् स्वरूप, तथा शुक्लध्याननुं स्व-
रूप सारी रीते विस्तार पुर्वक, रेचक, पूरक, कुंजकादि ध्या-
ननी व्युत्पत्ति सहित अर्थ करीने, तथा स्वरूप कहीने निरु-
पण करेल ठे. १७३
- ९ तेरमा सयोगीगुणस्थानमां सयोगी केवलीना जाव कहेल ठे,
तथा तीर्थकरनाम कर्म उपार्जन करवाना वीश स्थानक तथा
तीर्थकर जगवाननो महीमा, तथा तीर्थकर नाम कर्म वेदवानुं
स्वरूप, केवली समुद्घातनुं स्वरूप, तथा कोण समुद्घात करे
ठे ? तथा कया केवली नथी करता ? तेनुं स्वरूप, तथा मनादि
योगोने केवी रीते सूक्ष्म करे ठे, इत्यादि स्वरूप. १७४
- १० चौदमा अयोगी गुणस्थानकनुं स्वरूप, तेमां कर्मरहित जी-
वोनी जे उर्ध्व गति थाय ठे तेनो हेतु, तथा सिद्धोनी स्थिति,
सिद्धना आठ गुण, सिद्धोना सुख तथा मुक्तिनुं स्वरूप. १७६
- ॥ सातमा परिच्छेदमां सम्यग् दर्शननुं स्वरूप लखेल ठे, तेनी अनुक्रमणिका ॥
- १ व्यवहार अने निश्चय ए वंने प्रकारे सम्यक्त्वना स्वरूपमां
देवादि त्रण तत्वोपरव्यवहार तथा निश्चय ए वंने प्रकारे श्र-
द्धान थाय ठे, तेमां प्रथम व्यवहार श्रद्धाननुं कथन, तथा त्र-
ण तत्वोमां पण प्रथम देव तत्वनुं स्वरूप कथनमां श्री अरिहं-
तजीना नामादि चार निक्षेपनुं स्वरूप. १७४

- १ श्री अरिहंतजीनी प्रतिमाजीने पुजवीं, नमस्कार करवो, तेनुं स्वरूप प्रतिपादनमां मूर्ति अपूजक लोकोना प्रश्नोत्तर पूर्वक ते-
उंनी कुयुक्तिउनुं सारी रीते खंडन करेल ठे. २९५
- ३ गुरु तत्त्वनुं स्वरूप. २९६
- ४ धर्म तत्त्वना स्वरूपमां दयानुं स्वरूप अनेक प्रकारे कहेल ठे. २९७
- ५ निश्चय धर्मनुं स्वरूप. ३०१
- ६ निश्चय सम्यक्त्वनुं स्वरूप. ३०३
- ७ सम्यक्त्वनी करणी. ३०३
- ८ सम्यक्त्वना शंका नाम अतिचारमां पांचमा कालमां एकशो
वीश वर्षना आयुष्यनी शंकांनुं समाधान तथा जरत क्षेत्रना स-
मुद्र तथा जूमी संवंधी आशंकांनुं समाधान, तथा पृथ्वीनो
गोलो फरे ठे, ए प्रमाणेनी आशंकांनुं समाधान तथा वेदोनो
प्राचीन अर्थ ठोडीने नवीन अर्थ वनाववानुं कारण तथा जैन
मतना ग्रंथो पुस्तकारूढ क्यांथी थयां इत्यादि. ३०४
- ९ बीजा आकांक्षा नामा अतिचारनुं स्वरूप. ३१५
- १० त्रीजा वित्तिगिष्ठा नामा अतिचारनुं स्वरूप, तेमां पुण्य पापा-
दिनुं फल जीवने अवश्य प्राप्त थाय ठे, ए वातनो निश्चय त-
था कुयुरुठनो अनाचार प्रदर्शित करेल ठे. ३१५
- ११ चोथा मिथ्यादृष्टिनी प्रशंशा रूप अतिचारनुं स्वरूप. ३१७
- १२ पांचमा मिथ्यादृष्टिनो परिचय करवाना अतिचार. ३१८
- १३ रायानियोगेणादि ठ आगारनुं स्वरूप. ३१८
- १४ अन्नत्यणाजोगेणादि चार आगारनुं स्वरूप. ३१९
- ॥ आठमा परिच्छेदमां चारित्रनुं स्वरूप कहेल ठे, तेनी अनुक्रमणिका ॥
- १ ब्रह्मस्थना देश विरति चारित्रमां उव्य जावथी प्रथम व्रतनुं स्वरूप ३२०
- २ आकुटी आदिक चार प्रकारनी हिंसांनुं स्वरूप. ३२०
- ३ ब्रह्मस्थथी सवाविश्वा दया पत्नी शके ठे तेनुं स्वरूप. ३२१
- ४ प्राणातिपात विरमण व्रतना पांच अतिचारनुं स्वरूप. ३२५
- ५ बीजा स्थूल मृपावादविरमण व्रतनुं स्वरूप. ३२६
- ६ त्रीजा स्थूल अदत्तादानविरमण व्रतनुं स्वरूप. ३२९

- ७ चोथा मैथुनत्याग व्रतनुं स्वरूप. ३३२
- ८ पांचमा स्थूल परिग्रहपरिमाण व्रतनुं स्वरूप. ३३६
- ए षष्ठादिकू परिमाण व्रतनुं स्वरूप. ३४०
- १० सातमा जोगोपजोग व्रतनुं स्वरूप. ३४१
- ११ मदिरापान करवामां एकावन दोपो वतावेल ठे. ३४२
- १२ मांस जक्षण करवामां अनेक प्रकारना दूपणो वतावेल ठे. ३४४
- १३ निर्विवेकी लोक, व्याघ्र, काग प्रमुख हिंसक जीवोने पोताना धर्मोपशेक गुरु माने ठे. तेना मतनुं खंडन. ३४५
- १४ मांसाहारी पोतेज पोताने अधर्मी वनावे ठे तेनुं स्वरूप. ३४७
- १५ मांसजक्षण करनारा महा मूढ ठे, ए सिरू करेल ठे. ३४७
- १६ मांस खावामां अनुत्तर दुपण वतावेल ठे. ३४८
- १७ मांस खावुं ते जेणे कथन करेल ठे तेना शास्त्र वनाववावालाना नाम. ३४८
- १८ जेम विचारा निरपराधी पशुर्तनुं मांस खावुं, एम दुष्ट लोकोए पोताना वनावेल कुशास्त्रमां लखेल ठे, तेम मनुष्यनुं मांस खावुं एवुं कोइ शास्त्रमां लखेल नथी, तेनो हेतु. ३४८
- १९ माखण तथा मधुआदिक अजड्य वस्तुना जक्षणमां दोषोत्पत्ति. ३५०
- २० रात्रिजोजन करवामां आ लोकोमां तो प्रत्यक्ष दुपण तथा परलोकमां दुःखनो हेतु थाय ठे, इत्यादि रात्रिजोजननो निषेध. ३५३
- २१ बहुबीजादि अजड्य वस्तु खावानो निषेध. ३५७
- २२ वत्रीश अनंतकाय अजड्य वस्तु ठे, तेना नाम. ३५८
- २३ सचित्त परिमाणादि चौद नियमोनुं स्वरूप. ३६०
- २४ इंगालकर्म आदिक पंदर कर्मादानोनुं स्वरूप. ३६३
- २५ सातमा जोगोपजोग व्रतना पांच अतिचारोनुं कथन. ३६६
- २६ आठमा अनर्थदंडविरमण व्रतनुं स्वरूप. ३६८
- २७ आर्त्तध्यानना अनिष्टार्थ संयोगादि चार जेदोनुं स्वरूप. ३६८
- २८ रौद्र ध्यानना हिंसानंद आदिक. चार जेदो. ३७०
- २९ बीजा पापकर्मोपदेश अनर्थदंड, तथा त्रीजा हिंसप्रदान अनर्थदंड, तथा चोथा प्रमादाचरण अनर्थदंडनुं स्वरूप. ३७३
- ३० अनर्थदंड विरमण व्रतना पांच अतिचार. ३७५

- ३१ नवमा सामायिक व्रतना स्वरूपमां वत्रीश दोषादिना नामो. ३७६
- ३२ दशमा देशावकाशिक व्रतनुं स्वरूप. ३७७
- ३३ अगीयारमा पौषधोपवास व्रतनुं स्वरूप. ३७८
- ३४ वारमां अतिथिसंविज्ञाग व्रतनुं स्वरूप. ३७९
- नवमा परिच्छेदमां श्रावकोनो दिनकृत्य विधि कहेलठे, तेनी अनुक्रमणिका.
- १ श्रावकोए निद्रा स्वद्वप लेवी एक प्रहरादि रात्रिमां जागवुं. ३७७
- २ सवारमां निद्रा ठेदवाना वखते पृथ्वी आदिक तत्वना वहे-
वामां सुखदुःखादिकनुं कथन, तथा पृथ्वी आदिक पांच त-
त्वोनुं स्वरूप. ३७९
- ३ क्या क्या कार्यमां क्या क्या तत्व शुज अशुज ठे. ३८०
- ४ पंच परमेष्ठी आदिक जाप केवी तरेहथी करवो. ३८१
- ५ धर्मजागरणा केवी रीते करवी. ३८२
- ६ स्वप्न नव कारणोथी आवे ठे, तेना शुजाशुज कारणादि. ४८४
- ७ प्रजातमां मातपितादिने नमस्कार करवो, इत्यादि कृत्य. ३८५
- ८ श्रावकोने सवारे उठीने चौद नियमादि करवानो उपदेश,
तथा ग्रहण करवानी विधी, तथा सचित्त वस्तुनुं स्वरूप. ३८५
- ९ मीठाइनी मर्यादा, विदलनो निषेध, तथा रींगणा टींवरुआदिक
वस्तु नहीं खावानो उपदेश. ४००
- १० श्रावके निरवद्य आहार करवो तेनुं, तथा नवकारसी आदिक
नियमोनुं स्वरूप, तथा चार प्रकारना आहारना विज्ञाग. ४०१
- ११ मलोत्सर्ग, दंतधावन, केश समारन, स्नान करवुं इत्यादि. ४०२
- १२ जिनपूजादि करवामां प्रथम अंगपूजानी विधि. ४०७
- १३ प्रथम मूलनायकजीने पूजवा, तथा पठी वीजा विंविनी पूजा
करवी, एतो स्वामीसेवक जाव ठयों, एवी आशंकानुं समाधान. ४१२
- १४ वीजी अग्रपूजानुं स्वरूप. ४१४
- १५ त्रीजी ज्ञावपूजानुं स्वरूप. ४१५
- १६ पंचोपचारादि बहु प्रकारे पूजानां जेदो. ४१६
- १७ पूजा करवानी विधि वत्रीश प्रकारनी. ४१७
- १८ पूजाना एकवीश प्रकारना नाम. ४१९

- १ए विपमासनादिथी वेसीने पूजा न करवी, इत्यादि स्वरूप. ४१ए
- २० स्नात्र कर्या पठी जलधारा देवानी विधि. ४१०
- २१ आरति तथा मंगलदीवो करवानी विधि. ४११
- २२ स्नात्रादिकमां समाचारी विशेषे विविध प्रकारनी विधि देख-
वामां व्यामोह न करवो, इत्यादि स्वरूप. ४१२
- २३ जिनप्रतिमा पण अनेक प्रकारनी होय ठे, इत्यादि. ४१२
- २४ अविधिथी जिनमंदिर तथा जिनप्रतिमा बनी होय, तेने न
पूजवा विकल्प न करवो, इत्यादि स्वरूप. ४१३
- २५ जिनमंदीरमांथी करोळीयाना जालां उतारवानो उपदेश. ४१३
- २६ सामायिक त्यागीने ड्रव्य पूजा करवी उचित नहीं, एवी आ-
शंकांनुं निराकरण. ४१४
- २७ विधि न थाय तो न करवी श्रेष्ठ ठे, ए कहेवुं पण अयुक्त ठे. ४१४
- २८ अंग तथा अग्रादि त्रणे पूजांनुं फल. ४१५
- २९ ड्रव्यपूजामां यद्यपि षट्कायनी किंचित् विराधना थाय ठे, तो
पण ते करवी योग्य ठे, तेनुं उदाहरण. ४१६
- ३० प्रतिदिन त्रण संध्याएं पूजा करवानो विधि. ४१७
- ३१ हृदयमां बहुमान पूर्वक देवपूजादि करवा, अहींया प्रिति,
ऋक्ति आदिक चार प्रकारना अनुष्ठाननुं स्वरूप कहेल ठे. ४१७
- ३२ श्री जिनमंदीरोना प्रमार्जन तथा समारन प्रमुखनो अधिकार. ४१८
- ३३ जिनमंदीरमां जघन्य दश, तथा मध्यम चालीश, तथा उत्कृष्टथी
चोराशी प्रकारनी आशातना वर्जवी, तेना नामो. ४१ए
- ३४ गुरुनी तेत्रीश आशातना वर्जवी तेना नामो. ४३२
- ३५ स्थापनाचार्यनी त्रण प्रकारनी आशातना. ४३३
- ३६ देवड्रव्य, ज्ञानड्रव्य, साधारणड्रव्य अने गुरुड्रव्यनो विनाश
करवावालाउने साधु जो न हठगवे, तो ते अनंत संसारी थाय ठे. ४३३
- ३७ जिनमंदिरनी आमदानीने जंग करवावाला, तथा जे मुखथी क-
हीने देव ड्रव्य न दे, ते संसारत्रमण करे, तेनुं स्वरूप. ४३५
- ३८ जे ड्रव्य, देवना नामनुं बोड्या होइए, ते तत्काल देवुं. ४३५
- ३९ देवादिकनी कोइ पण वस्तु आपणा (पोताना) काममां न लेवी, ४३६

- ४० देवादिकना घरादिक पण श्रावकोए जाडे लेवां नहीं. ४३६
- ४१ घरदेरासरमां चढेला अक्षतादिकनी व्यवस्थाना प्रकार, तथा देवादि ड्रव्य लेवा खरचवाना प्रकार, इत्यादि. ४३७
- ४२ गुरुवंदनानी विधि, तथा नियमादिक पण गुरुने साक्षी करी करवा. ४३८
- ४३ धन उपार्जन करवानी चिंताना स्वरूपमां व्यापारादिक सात प्रकारे करीने आजीविका चलाववानुं स्वरूप. ४४१
- ४४ ऋण अठाइ आदिक पर्वतिथिना दिवसोमां व्यापारन करवो. ४४५
- ४५ देवुं होय तो करार उपर विना मांग्याज दइ देवुं. ४४६
- ४६ श्रावकने मुख्य वृत्तिथी तो धर्मिजनोथीज व्यापार करवो. ४४६
- ४७ घणुंज धन जतुं रहे तो पण धर्म करवामां आलस न करवुं. ४४६
- ४८ घणो पैसावालो थइ जाय तो पण अजिमान न करवुं. ४४७
- ४९ स्वामिद्रोह तथा मित्रद्रोहादि न करवा, इत्यादि. ४४७
- ५० पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, तथा पापानुबंधी पाप, ए चार प्रकारनुं किंचित स्वरूप. ४४८
- ५१ यथार्थ कहेवाथी मित्रनुं मनहरण. ४४९
- ५२ साक्षिविना मित्रना घरमां पण धन राखवुं नहीं. ४४९
- ५३ मुख्य वृत्तिथी तो जे गाममां रहेवुं, त्यांज वेपार करवो, परंतु जो परदेश जवुं पडे तो केवी रीते जवुं तेनुं कथन. ४४९
- ५४ जला वस्त्रादि पेहेरवानो आडंबर न ठोडवो. ४५१
- ५५ धन प्राप्त होय (थाय)के तरत धर्ममां लागीने मनोरथ सफल करवो. ४५१
- ५६ न्यायोपार्जितादिक धन खरचवाना चार जांगा. ४५१
- ५७ देशविरुद्ध, कालविरुद्ध, राज्यविरुद्ध, लोकविरुद्ध, तथा धर्म-विरुद्ध कार्य करवुं नहीं, तेनुं स्वरूप. ४५३
- ५८ पितानी साथे तथा मातानी साथे उचित् आचरणनुं स्वरूप. ४५४
- ५९ सहोदरनी साथे तथा स्त्रीनी साथे उचित् आचरणनु स्वरूप. ४५६
- ६० पुत्रनी साथे तथा सगाडनी साथे उचित् आचरणनुं स्वरूप. ४५९
- ६१ गुरुनी साथे उचित् आचरणनुं स्वरूप. ४६१
- ६२ नगरनिवासी जनोनी साथे उचित् आचरणनुं स्वरूप. ४६१
- ६३ परतीर्थिजनी साथे उचित् आचरणनुं स्वरूप. ४६१

- ६४ कोइ पण अवसरमां उचित बोलवुं, तथा कुशोच्चाकारी त्यागवुं. ४६४
- ६५ सुपात्रोने दानादिक देवानी युक्ति. ४६३
- ६६ मातापितादिक तथा गुरु प्रमुखनी चिंताना प्रकार. ४६६
- ६७ नोजन करवानी विधि. ४६६
- दशमा परिच्छेदमां रात्रिकृत्यादिक पांच कृत्यो कहेल ठे, तेनी अनुक्रमणिका.
- १ पौषधशालादिकमां यत्न पूर्वक प्रतिक्रमणादिक करवानी विधि. ४६९
- २ सकल परिवारने, धन खरचवुं, आदिक धर्मोपदेश करवानी रीति. ४६९
- ३ निद्रा लेवानी विधि तथा सूता पठी रात्रीमां ज्यारे जागी जवाय, त्यारे कदाचित् काम पीडा करे तो स्त्रीना शरीरनुं अशुचिपणुं विचारे. ४७०
- ४ कपाय जीतवानो उपाय, तथा जवस्थितिने महादुखरूप विचारे. ४७२
- ५ धर्म मनोरथ जाववो, तथा अष्टमी आदिक पर्वकृत्यनुं स्वरूप. ४७३
- ६ चातुर्मासिक कृत्यनुं स्वरूप. ४७६
- ७ वर्षकृत्यना बार द्वारोमां प्रथम संघपूजांनुं स्वरूप. ४७७
- ८ वीजुं साधर्मिकवात्सल्यनुं स्वरूप. ४७९
- ९ त्रीजुं यात्राविधिनुं स्वरूप तथा चोथुं स्नात्र विधिनुं स्वरूप. ४७९
- १० पांचमुं देव द्रव्यनी वृद्धिनुं, ठठुं सुंदर आंगी आदिकनुं, सातमुं देवनी आगल विविध प्रकारना गीत नृत्यादिक करवानुं. ४८१
- ११ आठमा श्रुतज्ञाननी पूजा कर्पूरादिथी करवानी विधि. ४८२
- १२ नवमा पंच परमेष्टि नमस्कारनी तथा तप करवानी विधि. ४८२
- १३ दशमातीर्थनी प्रजावना करे तेनी विधि. ४८२
- १४ अगीयारमा गुरुनो योग मलेथी आलोचना करे, तेनी विधि. ४८२
- १५ श्रावकनुं जन्मकृत्य अठार द्वारोए करीने कहेल ठे, तेमां प्रथम वसवानुं स्थान जे घर बनाववुं तेनुं स्वरूप. ४८५
- १६ वीजुं विद्याज्यास करवानुं, तथा त्रीजुं विवाह करवानुं स्वरूप. ४८७
- १७ चोथुं मित्र करवानुं तथा पांचमुं जिनमंदिर बनाववानुं स्वरूप. ४९०
- १८ ठठुं प्रतिमा बनाववानुं, सातमुं प्रतिमानी प्रतिष्ठानुं, आठमुं वीजाने दीक्षा देवानुं, नवमुं तत्पदस्थापननुं स्वरूप. ४९१
- १९ दशमुं पुस्तक लखाववानुं द्वार. ४९५

- २० अग्नीधारमुं पौषधशाला वनाववानुं द्वार, वारमुं सम्यक्त्व द-
शननुं द्वार, तेरमुं व्रतादि पालवानुं द्वार, चौदमुं दीक्षा ग्रहण
करवानुं स्वरूप, तेमां जावश्रावकना सतर गुणो कहेल ठे. ४९६
- २१ पंदरमुं आरंजत्यागनुं, शोलमुं ब्रह्मचर्य पालवानुं, सतरमुं प्र-
तिमादि तप विशेषनुं तथा अठारमुं आराधनानुं द्वार. ४९७
- ॥ अग्नीधारमां परिष्ठेदमां श्री रूपजादिथी महावीरपर्यंत जैनमतादि
शास्त्रोना अनुसारे इतिहास कहेल ठे, तेनी अनुक्रमणिका. ॥
- १ जैनमत क्यारथी प्रचलित थयो, एवी त्रांतिनुं समाधान. ५००
- २ जगतना स्वरूपमां उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल तथा सुखम-
सुखमादिक ठ आरानुं, तथा सात कुलकरोनुं किंचित स्वरूप. ५०१
- ३ रूपजदेवस्वामिनुं किंचित् वृत्तांत तथा तेमना सो पुत्रोना नाम.
तथा हाथी घोडादिकना संग्रहनी विधि. ५०४
- ४ आहारनी विधि, तथा शिल्पना जेद. ५०७
- ५ कर्मद्वारमां खेती वाणिज्यादिकनुं स्वरूप, तथा पुरुषनी बहो-
तेर कला, तथा स्त्रीनी चोसठ कला, तथा अठार प्रकारनी क्षीपी. ५०९
- ६ मातापितानी दीधेल कन्याना विवाहप्रवर्तननुं स्वरूप. ५११
- ७ कोइ सृष्टिनो कर्ता नथी, तेनुं स्वरूप. ५११.
- ८ ब्रह्मादि शब्दोथी ध्यान करवानी प्रवृत्ति, तथा ज्ञिज्ञा देवानी रीति. ५१२
- ९ धर्मचक्र तीर्थ विक्रम राजासुधी चाळ्युं, तेनुं वृत्तांत. ५१२
- १० म्लेच्छ, निर्दयी, अने अनार्य लोक थयानुं वृत्तांत. ५१४
- ११ श्री रूपजदेवनुं ब्रह्मा नाम प्रचलित थयानुं वृत्तांत. ५१४
- १२ श्री शत्रुंजयनुं पुडरिकगिरि नाम थयानुं वृत्तांत. ५१४
- १३ परिव्राजकोना लिंग उत्पन्न थयानुं स्वरूप. ५१४
- १४ मरिचीथी कपिलादि मत उत्पन्न थयानुं स्वरूप. ५१५
- १५ आ जरतखंडनुं नाम जरतखंड राखवानो हेतु. ५१६
- १६ श्रावकोनुं ब्राह्मण नाम क्यारथी प्रचलित थयुं, तेनुं स्वरूप. ५१६
- १७ कुरुवंशनी उत्पत्ति, यज्ञोपवीतनी उत्पत्ति, चार वेदोना नाम व-
दलवानो तथा मतलव फेरववानो हेतु, चारे वेदोनी उत्पत्ति. ५१७
- १८ याज्ञवल्क्य, सुलसा, पीप्पलाद, तथा पर्वत प्रमुखथी फरी अ-

- सख वेदोने फेरवीने हिंसायुक्त वेदोनी रचना थइ, तेनुं स्वरूप पुर्वोक्त पुरुषोना कथानक सहित. ५१ए
- १ए आ वर्तमान कालमां जे चार वेदो ठे, तेनी उत्पत्ति. ५३०
- २० तेत्रीश क्रोड देवताउना मुख अग्नि ठे, ए कथन कयांथी चाल्युं. ५३१
- २१ ब्राह्मणोने आहिताग्नय कहेवा लागवानुं कारण, तथा राखनुं मस्तकपर त्रिपुंडाकारे लगाववानुं तथा कैलास पर्वतनी उत्पत्ति. ५३१
- २२ श्री अजितनाथ तथा पेहेलां सगर चक्रवर्तीनो अधीकार. ५३२
- २३ श्रीसंज्ञवनाथजीथी लइने नवमा तीर्थंकर सुधी तो सर्व जैनधर्मी ब्राह्मणज श्रावक हता, तेनुं स्वरूप. ५३४
- २४ दशमा तीर्थंकरना शासनमां हरिवंशनी उत्पत्ति थइ, तेनुं स्वरूप. ५३५
- २५ वेदोमां प्रजापतिवै स्वां॥ ए श्रुति लखी गयेल ठे तेनो हेतु, तथा चक्रवर्ती आदिकनी क्रमथी उत्पत्ति, तथा परशुरामनी उत्पत्ति. ५३६
- २६ ब्राह्मणो जेजे राजाउने पोताना शास्त्रोमां दैत्य तथा राक्षसना नामथी लखी गयेल ठे तेनो हेतु. ५४४
- २७ विष्णुकुमारनी किंचित् कथा, तथा ब्राह्मणोए जे पुराणोमां लखेल ठे के, विष्णु जगवाने वामनरूप करीने यइ करेल ठे, अने ते यइ करीने वली राजाने ठळ्या ठे, ए वात कयांथी उत्पन्न थएल ठे. ५४६
- २८ असली पार्श्वनाथनी मूर्तिनुं वज्रीनाथ नाम राखवानो हेतु. ५४८
- २ए श्री कृष्णने जगवान कहेवानो हेतु. ५४ए
- ॥ चारमां परिच्छेदमां श्री महावीर जगवानथी लइने आज पर्यंत केटळुंक वृतांत लखेल ठे, तेनी अनुक्रमणिका ॥
- १ सत्यकी श्रावकना संबंधमां महेश्वरनी उत्पत्ति ५५२
- २ मृतकने पिंडप्रदान श्राद्धादि प्रवृत्त होवानी विधि. ५५७
- ३ प्रयाग तीर्थनी मानता चालवानो हेतु. ५५७
- ४ श्री महावीर प्रजुना गौतमादि गणधरोनुं वृतांत, कथा सहित. ५५८
- ५ श्री महावीर प्रजुनी गादी (पाट) उपर श्री सुधर्मास्वामि वेठा, त्यांथी लइने आठमा श्रीस्थूलीजइजी सुधी आठ पाटनुं संक्षेप वृतांत. ५६५

- ६ सुहस्तिसूरिना वखतमां संप्रति राजा थया तेनुं वृतांत. ५९०
- ७ उज्जयनमां शिवनुं लिंग फाटीने पार्श्वनाथनी मूर्ति प्रगट थइ तेनुं, कुमुदचंद्र आचार्यनी कथा पूर्वक वृतांत. ५९१
- ८ तेरमा श्री सिंहगिरिजीनी पाट उपर श्री वज्रस्वामि थया, जेणे जावडशाह शेठने कहीने शत्रुंजय तीर्थना उद्धारनी प्रतिष्ठा करावी. ५९९
- ९ श्री महावीरथी (५४८) में वर्षे त्रैराशिक मत नीकल्यो. ५८०
- १० चौदमां श्री वज्रासेनसूरिना वखतमां नागेंद्रादि चार कुल थयां. ५८०
- ११ पंदरमा श्री चंद्रसूरिनी पाटथी लइने एकावनमा श्री मुनि सुंदरसूरि पर्यंत बहुज चमत्कारिक वातोना किंचित् इतिहास. ५८०
- १२ वावनमा श्री रत्नशेखरसूरिना समयमां जिनप्रतिमाने उत्थापन करनार लुं कामत चलाव्यो, तेनी कथा. ५९३
- १३ त्रेपनमा श्री लक्ष्मीसागर सूरिथी लइने सत्तावनमां श्री विजय दान सूरिसुधीना आचार्योनी कथाळ थोडा इतिहासो युक्त संक्षेप लखेल ठे. ५९५
- १४ अठावनमी पाटे श्री हीरविजयसूरि थया तेनी कथा, थोडांक अकवर वादशाहनां वृतांतयुक्त संक्षेपथी लखेल ठे. ५९७
- १५ वाशठमी पाटे श्री विजयप्रजसूरिना समयमां मुखबंधा लुंडीयानो पंथ निकल्यो, तेनी उत्पत्तिनुं कारण, तथा ए दिवसथी मांडीने आजसुधी विद्यमान विचरवावाला लुंडीयाळना नाम. ६०४
- १६ त्रेशठमी पाटथी लइने वर्तमान लंगणोतेरमी पाट सुधी थएल आचार्योना नाम, तथा आ ग्रंथ वनावनारनी गुर्वावलीना नाम, तथा आ ग्रंथ वनावनारना समयमां जेटला नविन पंथो निकल्ला तेना नाम. ६०७
- १७ जामनगर निवासि पंडित श्रावक हीराखासे रचेसुं नक्तामर पादपूतिरुपं श्री विजयानंद स्तोत्रं (थयवा आ ग्रंथना कर्ता श्री आत्मारामजी सूरेश्वर महाराजनी स्तुति) ६०९
- १८ शुद्धिपत्र. ६१४

॥ ॐ नमः स्याद्वादवादिने ॥

॥ अथ तपागच्छीय ॥

॥ मुनिश्री आनंदविजय (आत्मारामजी) विरचित ॥

॥ जैनतत्त्वादर्श नामक ग्रंथ प्रारंभः ॥



॥ तत्र प्रथम परिच्छेद ॥

॥ अनुष्टुप् वृत्तम् ॥

स्यात्कारमुजितानेकं, सदसजाववेदिनम् ॥

प्रमाणरूपमव्यक्तं, जगवंतमुपास्महे ॥ १ ॥

प्रथम देव, गुरु अने धर्म, आ त्रण तत्वोनुं कांश्क स्वरूप लखीए ठीए.

विदित करीए ठीए के आ जैनमतनुं स्वरूप श्रीतीर्थकर, गणधर तेमज पूर्वाचार्य आदि पुरुषोए, आगम निर्युक्ति, जाण्य, चूर्णि, टीका तेमज प्रकरणो अने तर्कशास्त्रादि अनेक ग्रंथोनी रचना करी स्पष्ट वतावेळ ठे; परंतु पूर्वाचार्य रचित ते सर्व ग्रंथो प्राकृत तेमज संस्कृत जापामां हो वाथी तेमज वर्तमान कालमां जेनिउना विद्याज्यासमां उद्यमनो अजाव होवाथी ते अत्यंत उत्तम ग्रंथोनी आशय नाश पामवा योग्य थयेळ ठे. तेथी केटलाएक जव्य जीवोनी प्रेरणाथी तथा स्वकर्मनिर्जराना हेतुथी जेउने संस्कृत तेमज प्राकृत कठिन लागेठे तेमना उपकार माटे देव, गुरु अने धर्मनुं कांश्क स्वरूप जापामां (गुजरातीमां) लखीए ठीए.

श्रीसंघना वाचक वर्गने नम्रतापूर्वक विनति ठे के आ ग्रंथमां जैन मार्गथी विपरीत ज्यां माराथी लखायुं होय त्यां यथार्थ जे होय ते वता वशे तो तेउनो मारा उपर अत्यंत उपकार अशे; आ कालमां लोकोए स्वकपोलकल्पित घणां नवीन मतो प्रगट करेळठे तथा अंग्रेजी अने फा रसी विद्याज्यासथी तथा अनेक मत मतांतरोनी वातो श्रवण करवाथी अनेक जव्यजीवोने अनेक तरेहना संशय उत्पन्न थया करेठे, ते दूर क रवाने कांश्क लखवुं एज आ ग्रंथ लखवानो उद्देशठे. प्रथम कहेलां त्रण तत्वो मध्येथी देव तत्वनुं स्वरूप नीचे मुजव-

देव नाम परमेश्वरानुं ठे. ते परमेश्वरना स्वरूपमां अनेक प्रकारना विकल्प मतांतरी पुरुषो करेठे. जैनमतमां परमेश्वरानुं स्वरूप केवुं कथन करेलेठे, ते नाम, रूप तेमज विशेषणसंयुक्त वतावुंतुं. जैनमतमां जे परमेश्वर मानेलेठे. ते वार गुण सहित तेमज अढार दोपरहित अर्हंत परमेश्वर ठे. अने जे परमेश्वर वार गुण रहित तेमज अढार दोष सहित हशे तेनामां परमेश्वरता कदापि सिद्ध थशे नहि. आ विवेचन आगल करवामां आवशे.

प्रथम वार गुण तेमां अशोक वृक्षादि अष्ट महाप्रातिहार्य सर्व जैन समुदायमां प्रसिद्ध ठे ते तथा चार मूल अतिशय ए रीते वार गुण ए वार गुणमध्येना. चार मूल अतिशयनां नाम (१) ज्ञानातिशय (२) वा गतिशय (३) अपायापगमातिशय (४) पूजातिशय प्रथम ज्ञानातिशय नुं स्वरूप आ प्रमाणे केवलज्ञान तथा केवल दर्शनकरी झूत, जविष्य, वर्तमानकालमां जे सामान्य विशेषात्मक वस्तु ठे तेनुं, तथा उत्पाद, व्यय, ध्रौव्ययुक्त त्रिकाल संबंधी जे सत् वस्तुर्जनुं, जाणवुं तेनुं नाम ज्ञानातिशय वीजो वचनातिशय तेमां जगवंतनां वचन पांत्रीश अतिशयें युक्त होय ठे. ते पांत्रीश अतिशयानुं स्वरूप आ प्रमाणे (१) संस्कारवत्त्वं (संस्कृतादि लक्षण युक्त) (२) औदात्त्यं (शब्दमां उच्चपणुं) (उपचार प रीतता) (३) अग्राम्यत्वं (गामडाना रेहेनार पुरुपना वचन समान जेम नुं वचन नहि) (४) मेघगंजीरघोषत्वं (मेघनी समान गंजीर शब्द) (५) प्रतिनाद विधायिता (सर्ववाजीत्रोनी साथ मलता शब्द) (६) दक्षिणत्वं (वचननी सरलतासंयुक्त) (७) उपनीतरागत्वं (मालकोशादि ग्राम राग संयुक्त) आ सात अतिशय शब्दनी अपेक्षाथी जाणवा—वाकीना वीजा अतिशयो अर्थ आश्रय जाणवा (८) महार्थता (अत्यंत मोटो जे मां अजिधेय कहेवा योग्य अर्थ ठे) (९) अव्याहृतत्वं (पूर्वापरविरोध रहित) (१०) शिष्टत्वं (अजिमत सिद्धांत उक्त अर्थता) एटले के अजिमत सिद्धांतनुं जे कहेवुं ते वक्ताना शिष्टपणानुं सूचक ठे (११) संशयानामसंज्ञवः (जेना कथनमां श्रोताने संशय थतो नथी) (१२) निराकृताऽन्योत्तरत्वं जेना कथनमां कोइपण दूषण नहि, श्रोताने संशय उत्पन्न थाय नहि तेम जगवान् वीजीवार उत्तर दे नहि) (१३) हृदय गमता (हृदयमां ग्रहणकरवा योग्य) (१४) मिथः साकांक्षता (अरस पर

स पद वाक्योऽनुं सापेक्षपणुं) (१५) प्रस्तावोचित्यं (देशकाल युक्त, विरुद्धनहिं) (१६) तत्त्वनिष्ठता (विवक्षित वस्तुना स्वरूपने अनुसरवापणुं) (१७) अप्रकीर्ण प्रसृतत्वं (सुसंबंधनो विस्तारअथवा असंबंध अधिकार नो अतिविस्तार नहिं) (१८) अस्वश्लाघाज्यनिंदता (आत्मोत्कर्ष तथा परनिंदा रहित) (१९) आजिजात्यं (प्रतिपाद्य वस्तुनी जूमिकाने अनुसरवारूप) (२०) अति स्निग्ध मधुरत्वं (धीगोलनी पेटे सुखकारी) (२१) प्रशस्यता (कहेला गुणोनी योग्यताथी प्राप्त थइ ठे श्लाघा) (२२) अमर्मवेधिता (पारकां मर्म जेमां उघाड्यां होय नहिं) (२३) औदार्यं (अजिधेय अर्थनुं तुडपणुं नहिं) (२४) धर्मार्थप्रतिवक्रता (धर्म तेमज अर्थ संयुक्त) (२५) कारकाद्यविपर्या (कारक, काल, वचन तेमज लिंगादि ज्यां विपर्यय नहिं) (२६) वित्रमादिवियुक्तता (वक्ताना मनमां त्रांति विक्षेपादि दोष रहित) (२७) चित्रकृत्व (कुतूहल पणानो जेमां अज्ञा व ठे) (२८) अद्भुतत्वं (अद्भुतपणुं) (२९) अनतिविलंबिता (अति विलंब रहित) (३०) अनेकजाति वैचित्र्य (जाति आदि वर्णन करवा योग्य वस्तु स्वरूपना आश्रय युक्त) (३१) आरोपिता विशेषता (वचनां तरनी अपेक्षार्थी विशेषपणुं जेमां स्थापन थयेल ठे) (३२) सत्त्वप्रधानता (साहस करी संयुक्त) (३३) वर्णपदवाक्य विविक्तता (वर्णादिनुं विद्विन्नपणुं) (३४) अव्युत्थितिः (विवक्षित अर्थनी सम्यक् प्रकारें सिद्धि ज्यां सुधी न थाय त्यां सुधी अव्यवद्विन्न वचननुं प्रमेयपणुं) (३५) अखेदित्वं (श्रमरहित) जगवंतना वीजा वचनातिशयना ए पांत्रीशजेद-त्रीजो अपायापगमातिशय एटले उपद्रव निवारक. चोथो पूजातिशय. जेथी जगवान् त्रण लोकना पूजनीय ठे. आ वे अतिशयना विस्ताररूप चोत्रीश अतिशय ठे. ते आ प्रमाणे.

(१) तीर्थंकर जगवानना देहनुं रूप तथा सुगंध सर्वथी उत्कृष्ट तेमज रोग, परसेवो अने मलें करी रहित शरीर (२) श्वास निःश्वास पन्नकमलना जेवो सुगंधमय (३) रुधिर अने मांस गायना दुध जेवुं उज्वल (४) आहार निहारनो विधि चर्मचक्षु वाळां देखे नहिं. आचार अतिशय जन्मथीज (१) एक योजन समवसरणनुं क्षेत्र उतां देवता, मनुष्य, तिर्यं चोनी कोडाकोडी पण ज्यां समाश्रयके अने जीड थाय नहिं (२) वाणी

ज्ञाया अर्धमागधी, देवता, मनुष्य अने तिर्यचोने पोतपोतानी ज्ञापामां समजाइ जाय तेमज एक योजन सुधी सांजली शकाय (३) प्रज्ञामंजल मस्तकना पाठलना जागमां सूर्यना विंवीनी साथे जाणे हरीफाइ करतुं होयनी! पोतानी शोचायुक्त मनोहर ज्ञामंजल शोत्रे ठे (४) चारे दिशामां साडीपचवीश योजन सुधी उपद्रव रूप ज्वरादि रोग होय नहि (५) वै र (परस्पर विरोध होय नहि) (६) (इति) धान्यने उपद्रव कारी उं दरादि न होय (७) मारिमरीनो उपद्रव न होय (८) (अति वृष्टि) नि रंतर वरसाद नहि (९) (अवृष्टि) वरसादनो अज्ञाव नहि (१०) दुर्जिह्व न होय (११) स्वचक्र परचक्रनो जय न होय. आ अगीयार अतिशय ज्ञानावरणीय आदि चार घातिकर्मना क्षयथी उत्पन्न थाय ठे. (१) आ काशमां धर्मप्रकाशक चक्र चाखे ठे. (२) आकाशमां चामर विंजाय ठे (३) आकाशमां पादपीठ सहित स्फटिकमय सिंहासन होय ठे (४) आ काशमां त्रण ठत्र (५) रत्न मय ध्वज फरके ठे (६) जगवान् ज्यारे चाखे ठे त्यारे पगनी नीचे सुवर्ण कमल देवता रचे ठे (७) समवसरणमां रत्न, सु वर्ण अने रूपामय त्रणकोट मनोहर होय ठे (८) समवसरणमां प्रजुनां चार मुख देखाय ठे (९) अशोक वृक्ष ठाया करे ठे (१०) कांटा अधोमुख थइ जाय ठे (११) वृक्षो एवी रीते नमी जाय ठे के जाणें नमस्कार करतां होय (१२) उच्चनादें हुंहुजि जुवनव्यापक नाद ध्वनि करे ठे. (१३) पवन सुखदायक वाय ठे. (१४) पक्षी प्रदक्षिणा दे ठे (१५) सुगंध मय पाणीनो वरसाद थाय ठे. (१६) ढींचण प्रमाण पांच वर्णना फुलनो वरसाद थाय ठे. (१७) केश दाढी मुठ अवस्थित रहे ठे (१८) चार प्र कारना देवता जघन्यथी जघन्य एक क्रोड जगवंतनी पासे रहे ठे. (१९) ठ ए क्रतु सानुकूल शुभस्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्दयुक्त; अशुभ नाश पामे ठे अने सुंदर प्रगट थाय ठे. आ उंगणीश अतिशय देवकृत ठे. म तांतर तथा वांचनांतरमां कोइ कोइ अतिशय अन्यतरेइथी ठे. पूर्वोक्त चार मूल अतिशय अने आठ महाप्रातिहार्य मली चार गुणमय विरा जमान अर्हत जगवंत परमेश्वर ठे तेज अहारे दोपरहित ठे तेथी अ हारदोपनुं वर्णन आ प्रमाणेः—

श्लोक ॥ अंतरायदानलाज, वीर्यजोगोपज्ञोगगाः ॥ हासोरत्नरती जीति,

जुगुप्सा शोकएव च ॥१॥ कामोमिथ्यात्वमज्ञानं, निद्रा च विरतिस्तथा ॥
 रागोद्वेषश्च नो दोषा, स्तेपामष्टादशाऽप्यमी ॥ १ ॥ अर्थ (१) दान देवामां
 अंतराय, (२) लाजगत अंतराय, (३) वीर्यगत अंतराय. (४) जे एक वखत
 जोगववामां आवे ते जोग, पुष्पमालाप्रमुख तजत अंतराय ते जोगांत
 राय (५) वारंवार जोगववामां आवे जेम के स्त्री, घर, कंकण, कुंडलादि
 तजत अंतराय ते उपजोगांतराय, (६) हास्य (७) (रति)पदार्थोंपर प्रीति
 (८) अरति (रतिथी विपरीत) (९) सात प्रकारना जय. (१०) जुगुप्सा-
 मक्षीन वस्तुने देखी नाक मचकोडवुं. (११) शोक-चिन्तुं विकल्पणुं
 (१२) काम-स्त्री, पुरुष, नपुंसक ए त्रणेनो वेदविकार (१३) मिथ्यात्व-द
 र्शनमोह (१४) अज्ञान-मूढपणुं (१५) निद्रा (१६) अविरति-प्रत्याख्याननो
 अज्ञाव (१७) राग-पूर्वसुखना साधनमां शृङ्खणुं (१८) द्वेष-पूर्व दुःखो
 नुं स्मरण तेमज पूर्व दुःखमां अथवा तेना साधनमां क्रोध-आ अठार
 दूषण जेमां न होय ते अर्हंत, जगवंत, परमेश्वर ठे. ए अठार दूषणोमां
 थी एक पण दूषण जेमां होय ते कदापि अर्हंत, जगवंत, परमेश्वर होइ
 शके नहि. प्रथमना पांच विघ्नो जेमां लागी रहेल ठे ते परमेश्वर
 केवी रीते होइ शके ?

प्रश्न-दानांतरायनो नाश थवाथी शुं परमेश्वर दान दे ठे ? तेमज
 लाजांतरायनो नाश थवाथी परमेश्वरने शुं लाज प्राप्त थाय ठे ? तथा
 वीर्यांतरायनो नाश थवाथी परमेश्वर शुं शक्ति वतावे ठे ? तथा जोगां
 तरायनो नाश थवाथी शुं परमेश्वर जोग करे ठे ? अने उपजोगांतरा
 यनो क्षय थवाथी शुं परमेश्वर उपजोग करे ठे ?

उत्तर-पूर्वोक्त पांच विघ्न क्षय थवाथी जगवंतमां पांच शक्तिं प्रग
 ट थाय ठे. जेम निर्मल चक्षुंती आमां आवेलां परुलादि नाश पासवा
 थी जोवानी शक्ति प्रगट थाय ठे तेम- मरजी होय तो देखे अथवा न
 देखे परंतु देखवानी शक्ति विद्यमान ठे; तेवीज रीतिं अर्हंत जगवंतने
 पांच शक्तिं प्रगट थाय ठे, पठी मरजी होयतो दानादि करे अथवा
 न करे परंतु शक्ति विद्यमान ठे, जे पूर्वोक्त पांच शक्तिंथी रहित ठे
 ते परमेश्वर केवी रीते होइ शके ?

६ हास्य-हसतुं जे आवेठे ते अपूर्व वस्तु देखवाथी अथवा अपूर्व

वस्तु सांज्ञलवाची अथवा अपूर्व आश्चर्यना अनुज्ञवतुं स्मरण यवाची. ए विगेरे हास्यनां निमित्तठे; तेमज मोहकर्मनी प्रकृति हास्यतुं उपादान कारणठे तेथी ए वने कारण अर्हत जगवंतमां नथी. प्रथमना निमित्त कारणनो अर्हत जगवंतमां संज्ञवज केम होय, कारण के अर्हत जगवंत सर्वज्ञ सर्वदर्शी ठे तेमना ज्ञानमां एवी अपूर्व वस्तु नथी के जेने देख वाची सांज्ञलवाची के अनुज्ञववाची आश्चर्य उत्पन्न थाय, तेथी हास्यतुं निमित्त कारण कांइ नथी; अने मोहकर्म तो अर्हत जगवंतें सर्वथा ह्य कथुंठे तेथी उपादान कारणनो पण संज्ञव नथी. ए हेतुथी अर्हतमां हा स्वरूप दूषण नथी. जे हसनशील हशे ते अवश्य असर्वज्ञ, असर्वदर्शी तेमज मोहयुक्त हशे तेथी ते परमेश्वर केम होइ शकशे ?

७ रति—जेनी प्रीति पदार्थों उपर होय ते अवश्य सुंदर शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्त्री आदि उपर प्रीतिमान् होय, जे प्रीतिमान् होय ते अवश्य ते पदार्थनी लालसावाला होय अने जे लालसावाला होय ते अवश्य ते पदार्थनी अप्राप्तिथी दुःखी होय, ते अर्हत परमेश्वर केवी रीतें होइ शके?

८ अरति—जेनी पदार्थों उपर अप्रीति होय ते तो पोतेज अप्रीति रूप दुःखें करी दुःखी ठे ते अर्हत जगवंत केवीरीतें होइ शके ?

९ जय—जेणें पोतानोज जय दूर कर्यों नहि ते अर्हत जगवंत केम होइ शके?

१० जुगुप्सा—मलीन वस्तु देखीने नाक चढावतुं. परमेश्वरना ज्ञान मां सर्ववस्तुतुं चासन थाय ठे. जो परमेश्वरमां जुगुप्सा होय तो अत्यंत दुःख होय तेथी जुगुप्सावंत अर्हत जगवंत केम होइ शके ?

११ शोक—जे पोतेज शोक वालोठे ते परमेश्वर केम होय ?

१२ काम—जे पोतेज विपथीठे, स्त्रियोनी साथे जोग करे ठे एवा विपयान्जिलापीने कथो बुद्धिमान् पुरुष परमेश्वर माने ?

१३ मिथ्यात्व—जे दर्शनमोहें करी दोषायेळ ठे ते जगवंत नहीं.

१४ अज्ञान—जे पोतेज मूढ ठे ते जगवंत नहीं.

१५ निद्रा—जेने निद्रा आवे ठे ते निद्रामां केटलुं एक जाणता नथी. तेथी निद्रावान्, अर्हत जगवंत सदा सर्वज्ञ, केम होइ शके ?

१६ अप्रत्याख्यान—जे प्रत्याख्यानरहितठे ते सर्वाजिलापी ठे तेथी वृष्णावाला अर्हत जगवंत केम होइ शके ?

१७-१८ राग अने द्वेष- रागद्वेषवान् मध्यस्थ होइ शकता नथी. तेमज रागीद्वेषीमां क्रोध, मान, मायानो संजवठे. जगवान् वीतराग, समशत्रुमित्र, सर्वजीवपर समबुद्धि न कोइने दुःखी अथवा सुखी करे जो दुःखी सुखी करे तो वीतराग करुणासमुद्र कदापि न होइ शके, ए कारणथी राग द्वेष वाला अर्हत जगवंत परमेश्वर नहीं. पूर्वोक्त अठार दूपणरहित अर्हत जगवंत परमेश्वर ठे, बीजा कोइ परमेश्वर नथी.

अथ अर्हतनां नाम वे श्लोकथी लखीए ठीए. “अर्हन् जिनः पारग तस्त्रिकालवित्, ह्रीणाष्टकर्मा परमेष्ठयऽधीश्वरः ॥ शंभुः स्वयंभूर्जगवान् जगत्प्रभु, स्तीर्थकरस्तीर्थकरोजिनेश्वरः ॥ १ ॥ स्याद्वाद्यऽजयदसर्वाः, सर्वज्ञः सर्वदंशिकेवलिनी ॥ देवाधिदेववोधिद, पुरुषोत्तमवीतरागात्ताः ॥ २ ॥ अर्थ-चोत्रीश अतिशयें करी सर्वथी अधिक होवार्थी सुरेंद्र आदिएं क रेती अष्ट महाप्रातिहार्य तथा जन्म स्नात्रादि पूजाने जे पात्र ठे ते अर्हन् अथवा ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मरूप शत्रुर्जनो नाश करवार्थी अर्हन् अथवा बांधेती कर्मरजनो नाश करवार्थी अर्हन् अथवा कोइ प दार्थ जेना ज्ञानमां गुप्त नथी ते अर्हन् तथा नामांतरथी अरुहन् जेने जवरूप अंकुर उत्पन्न थवानो नथी ते (१) जीत्यां ठे राग द्वेष मोहादि अठार दूपणो जेणें ते जिन (३) संसारना तेमज प्रयोजन मात्रना अंतने जे प्राप्त थया ठे एटले के संसारमां जेने कोइ प्रयोजन नथी ते पारगत (४) भूत, जविष्य, वर्तमान ए त्रये कालने जे जाणें ते त्रिकालवित् (५) ह्य थयां ठे आठ ज्ञानावरणीय आदि कर्म जेनां ते ह्रीणाष्टकर्मा (६) परम उत्कृष्ट पदमां जे रहे ते परमेष्ठी (७) जगतना ईश्वर ते अधीश्वर (८) शाश्वत सुखमां जे होय ते शंभु (९) पोते पोतानाज आत्माथी तथा जव्यत्व आदि सामग्रीनी परिपकताथी तथा बीजाना उपदेश विना होय ते स्वयंभु (आ कथन तेज जवनी अपेहानुं ठे) (१०) जग शब्दना चौद अर्थ ठे तेमांथी अर्क अने योनि ए वे अर्थ वाद करीने वार अर्थवंत जे होइ शके ठे. तेनां नाम (१) ज्ञानवंत (२) माहात्म्यवंत (३) शाश्वत वैरियोना वैर उपशमाववार्थी यशस्वी (४) राज्य लक्ष्मीनो त्याग करवार्थी वैराग्यवंत (५) मुक्तिवंत (६) रूपवंत (७) अनंत बल होवार्थी वीर्यवंत (८) तप करवामां उत्साहवान् होवार्थी प्रयत्नवंत (९) संसारमांथी जीवो

वस्तु सांज्ञलवाची अथवा अपूर्व आश्चर्यना अनुभवनुं स्मरण थावाची. ए विगेरे हास्यनां निमित्तठे; तेमज मोहकर्मनी प्रकृति हास्यनुं उपादान कारणठे तेथी ए वंने कारण अर्हत जगवंतमां नथी. प्रथमना निमित्त कारणनो अर्हत जगवंतमां संज्ञवज केम होय, कारण के अर्हत जगवंत सर्वज्ञ सर्वदर्शी ठे तेमना ज्ञानमां एवी अपूर्व वस्तु नथी के जेने देख वाची सांज्ञलवाची के अनुभववाची आश्चर्य उत्पन्न थाय, तेथी हास्यनुं निमित्त कारण कांइ नथी; अने मोहकर्म तो अर्हत जगवंतें सर्वथा क्षय कर्तुंठे तेथी उपादान कारणनो पण संज्ञव नथी. ए हेतुथी अर्हतमां हा स्यरूप दूषण नथी. जे हसनशील हशे ते अवश्य असर्वज्ञ, असर्वदर्शी तेमज मोहयुक्त हशे तेथी ते परमेश्वर केम होइ शकशे ?

७ रति—जेनी प्रीति पदार्थो उपर होय ते अवश्य सुंदर शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्त्री आदि उपर प्रीतिमान् होय, जे प्रीतिमान् होय ते अवश्य ते पदार्थनी लालसावाला होय अने जे लालसावाला होय ते अवश्य ते पदार्थनी अप्राप्तिथी दुःखी होय, ते अर्हत परमेश्वर केवी रीतें होइ शके?

८ अरति—जेनी पदार्थो उपर अप्रीति होय ते तो पोतेज अप्रीति रूप दुःखें करी दुःखी ठे ते अर्हत जगवंत केवीरीतें होइ शके ?

९ जय—जेणें पोतानोज जय दूर कर्तोनहि ते अर्हत जगवंत केम होइ शके?

१० जुगुप्सा—मलीन वस्तु देखीने नाक चढाववुं. परमेश्वरना ज्ञान मां सर्ववस्तुनुं ज्ञासन थाय ठे. जो परमेश्वरमां जुगुप्सा होय तो अत्यंत दुःख होय तेथी जुगुप्सावंत अर्हत जगवंत केम होइ शके ?

११ शोक—जे पोतेज शोक चालोठे ते परमेश्वर केम होय ?

१२ काम—जे पोतेज विपयीठे, स्त्रियोनी साथे जोग करे ठे एवा विपयान्जिलापीने कयो बुद्धिमान् पुरुष परमेश्वर माने ?

१३ मिथ्यात्व—जे दर्शनमोहें करी लेपायेल ठे ते जगवंत नहीं.

१४ अज्ञान—जे पोतेज मूढ ठे ते जगवंत नहीं.

१५ निद्रा—जेने निद्रा आवे ठे ते निद्रामां केटलुंएक जाणता नथी. तेथी निद्रावांनु, अर्हत जगवंत सदा सर्वज्ञ, केम होइ शके ?

१६ अप्रत्याख्यान—जे प्रत्याख्यानरहितठे ते सर्वाजिलापी ठे तेथी वृष्णावाला अर्हत जगवंत केम होइ शके ?

१७-१८ राग अने द्वेष- रागद्वेषवान् मध्यस्थ होइ शकता नथी. तेमज रागीद्वेषीमां क्रोध, मान, मायानो संजवठे. जगवान् वीतराग, समशत्रुमित्र, सर्वजीवपर समबुद्धि न कोइने दुःखी अथवा सुखी करे जो दुःखी सुखी करे तो वीतराग करुणासमुद्र कदापि न होइ शके, ए कारणथी राग द्वेष वात्ता अर्हत जगवंत परमेश्वर नहीं. पूर्वोक्त अढार दूषणरहित अर्हत जगवंत परमेश्वर ठे, बीजा कोइ परमेश्वर नथी.

अथ अर्हतनां नाम वे श्लोकथी लखीए ठीए. “अर्हन् जिनः पारग तस्त्रिकालवित्, क्षीणाष्टकर्मा परमेष्ठयःश्रीश्वरः ॥ शंजुः स्वयंचूर्जगवान् जगत्प्रजु, स्तीर्थकरस्तीर्थकरोजिनेश्वरः ॥ १ ॥ स्याद्वाच्यःजयदसर्वाः, सर्वज्ञः सर्वदर्शिकेवलिनौ ॥ देवाधिदेवबोधिद, पुरुषोत्तमवीतरागात्ताः॥२॥ अर्थ-चोत्रीश अतिशयें करी सर्वथी अधिक होवाथी सुरेंद्र आदिएं क रेती अष्ट महाप्रातिहार्य तथा जन्म स्नात्रादि पूजाने जे पात्र ठे ते अर्हन् अथवा ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मरूप शत्रुर्जनो नाश करवाथी अर्हन् अथवा वांधेती कर्मरजनो नाश करवाथी अर्हन् अथवा कोइ प दार्थ जेना ज्ञानमां गुप्त नथी ते अर्हन् तथा नामांतरथी अरुहन् जेने जवरूप अंकुर उत्पन्न थवानो नथी ते (१) जीत्यां ठे राग द्वेष मोहादि अढार दूषणो जेणें ते जिन (३) संसारना तेमज प्रयोजन मात्रना अंतने जे प्राप्त थया ठे एटले के संसारमां जेने कोइ प्रयोजन नथी ते पारगत (४) जूत, जविष्य, वर्तमान ए त्रणे कालने जे जाणे ते त्रिकालवित् (५) क्य थयां ठे आठ ज्ञानावरणीय आदि कर्म जेनां ते क्षीणाष्टकर्मा (६) परम उत्कृष्ट पदमां जे रहे ते परमेष्ठी (७) जगतना ईश्वर ते अधीश्वर (८) शाश्वत सुखमां जे होय ते शंजु (९) पोते पोतानाज आत्माथी तथा जव्यत्व आदि सामग्रीनी परिपक्वताथी तथा बीजाना उपदेश विना होय ते स्वयंचु (आ कथन तेज जवनी अपेक्षानुं ठे) (१०) जग शब्दना चौद अर्थ ठे तेमांथी अर्क अने योनि ए वे अर्थ वाद करीने वार अर्थवंत जे होइ शके ठे. तेनां नाम (१) ज्ञानवंत (२) माहात्म्यवंत (३) शाश्वत वैरियोना वैर उपशमाववाथी यशस्वी (४) राज्य लक्ष्मीनो त्याग करवाथी वैराग्यवंत (५) मुक्तिवंत (६) रूपवंत (७) अनंत बल होवाथी वीर्यवंत (८) तप करवामां उत्साहवान् होवाथी प्रयत्नवंत (९) संसारमांथी जीवो

नो उद्धार करवानी मरजी होवाथी इष्टावंत (१०) चोत्रीश अतिशयरूप लक्ष्मीए विराजमान होवाथी श्रीमंत (११) धर्मवंत (१२) अनेक कोटि देवोथी सेव्यमान होवाथी ऐश्वर्यवंत आ वार अर्थ युक्त ते जगवान् (११) जगत्नां परमेश्वर तेथी जगत्प्रभु (१२) तरीए संसारसमुद्र जेनाथी ते तीर्थ, प्रवचनना आधार, चार प्रकारना संघ अथवा प्रथम गणधर तेम ने स्थापन करवानो खजाव होवाथी तीर्थकर (१३) रागादिने जीतनारा जिन (केवली) तेना जे ईश्वर ते जिनेश्वर (१४) स्यात् अव्यय अनेकांत वाचक ठे तेथी वस्तुठने अनेकांत पणें, अनेक स्वरूपथी केहेवानुं शील ठे जेमने ते स्याद्वादि (१५) जय सात प्रकारना ठे. (१) मनुष्यने खजा तिथी अर्थात् एक मनुष्यने बीजा मनुष्यथी जय ते इहलोकजय (२) वि जातीय तिर्यंच देवताथी जे जय उत्पन्न थाय ते परलोकजय (३) धना दिना कारणथी चोर प्रमुखथी जे जय थाय ते आदानजय (४) वाहार ना निमित्त विना घरादिनेविपे वेसनारने रात्रिआदिने समये जे जय उत्पन्न थाय ते अकस्मात् जय (५) हुं निर्धन हुं डुकालमां केवी रीते जीवितव्य धारण करीश एवो जे जय ते आजीविका जय (६) मरणजय (७) आ प्रमाणे करीश तो मारी मोटी अपकीर्ति थशे एम धारी अय शना जयथी प्रवर्त्ते नही ते अश्लाघानजय. ए सात प्रकारना जयनो जे प्रतिपद्दी ते अजय. ते अजय शुं वस्तु ठे ? विशिष्ट आत्मानुं स्वस्थपणुं, निःश्रेयस धर्मनिर्वंधन चूमिकाचूत ते गुणनीं प्रकर्षताथी अचिंत्य शक्ति युक्त होवाथी सर्व प्रकारें परहितकारी होय; एवुं जे अजय आपे ते अजयद (१६) सर्व प्राणींठं प्रत्ये जे हित चाहे ते सर्वाः (१७) सर्व जे जाणे ते सर्वज्ञ (१८) सर्व जे देखे ते सर्वदर्शी (१९) सर्व प्रकारें कर्म आ वरणने छूर करवाथी चेतनस्वरूप प्रगट थयुं ठे ते “केवल” केवलज्ञान ठे जेने ते केवली (२०) देवताठना जे अधिपति ते देवाधिदेव (२१) जि नप्रणीत धर्मेनी प्राप्ति जे करावे ते बोधिद (२२) पुरुषोमांहे उत्तम सह ज तथा जव्यत्वादि जव करी श्रेष्ठ ते पुरुषोत्तम (२३) गया ठे राग द्वेष जेमांथी ते वीतराग (२४) हितोपदेशक होवाथी आस ए रीते चोवी शनाम तथा बीजां हजारो नाम परमेश्वरनां ठे.

पूर्वांक्त परमेश्वरनुं स्वरूप श्रीहेमचंद्राचार्यकृत ग्रंथोने अनुसार तथा

समवायांग राजप्रश्रीय प्रमुख शास्त्रानुसार लखेल ठे. अन्यथा जिनसह
स्र नामना ग्रंथमां एक हजार आठनाम अन्वयार्थ सहित वर्णवेल ठे.
सर्वनाम व्युत्पत्ति सहित अर्हंत परमेश्वरनां ठे. “ अर्हंत पद ” अनादि
अनंत ठे परंतु ते पदना धारण करनारा जीव अनंत अतीत कालमां थई
गया. कारण के एकेक उत्सर्पिणि अवसर्पिणि कालमां चारत वर्षमां चो
विश चोवीश जीव अर्हंत पदने धारण करी सिद्ध पदने प्राप्त थयेला ठे.

आ वर्तमान अवसर्पिणिथी आगलनी उत्सर्पिणिमां जे जीवो अर्हंत
पदने धारण करनारा थई गया तेमनां नाम. (१) केवल ज्ञानी (२) नि
र्वाणी (३) सागर (४) महायश (५) विमलनाथ (६) सर्वानुभूति (७) श्री
धर (८) दत्त (९) दामोदर (१०) सुतेज (११) स्वामी (१२) मुनिसुव्रत
(१३) सुमति (१४) शिवगति, (१५) अस्ताग (१६) नेमीश्वर (१७) अनि
ल (१८) यशोधर (१९) कृतार्थ (२०) जिनेश्वर (२१) शुद्धमति (२२.)
शिवकर (२३) स्यंदन (२४) संप्रति.

वर्तमान चोवीश अर्हंतनां नाम. (१) श्रीरूपजनाथ (२) श्री अजित
नाथ (३) श्री संजवनाथ (४) श्री अजिनंदन नाथ (५) श्री सुमतिनाथ
(६) श्री पद्मप्रज्ञ (७) श्रीसुपार्श्वनाथ (८) श्री चंद्रप्रज्ञ (९) श्रीसुविधि
नाथ वीजुं नाम पुष्पदंत (१०) श्रीशीतलनाथ (११) श्रीश्रियांसनाथ (१२)
श्री वासुपूज्य स्वामी (१३) श्री विमल नाथ (१४) श्री अनंतनाथ (१५)
श्रीधर्मनाथ (१६) श्रीशांतिनाथ (१७) श्री कुंथुनाथ (१८) श्री अरनाथ
(१९) श्रीमह्विनाथ (२०) श्री मुनिसुव्रत स्वामी (२१) श्री नमिनाथ(२२)
श्रीअरिष्टनेमि (२३) श्री पार्श्वनाथ (२४) श्री महावीर.

वर्तमान चोवीश तीर्थकर जगवंतनां नाम शा शा कारणथी थयां ते
तथा नामोना सामान्यार्थ जे सर्व तीर्थकरोमां पामी शकाय तथा विशे
पार्थ जे ते एकज तीर्थकरना नामने निमित्तं ठे ते लखीयें ठीयें.

“रूपति गच्छति परमपदमिति रूपज्ञः” जाय जे परमपदने ते रूपज्ञ आ
अर्थ सर्व तीर्थकरमां व्यापक ठे तथा “ उर्वोर्वृषजलांठनमचूद्गवतो ज
नन्या चतुर्दशानां स्वप्नानामादौ वृषजोदृष्टः तेन रूपज्ञः ” जगवानना वंने
साथलोमां वलदनुं लांठन हतुं अथवा जगवंतनी माता मरुदेवीए चौद
स्वप्ननी आदिमां वलदनुं स्वप्न दीतुं ते कारणथी रूपज्ञ एवुं नाम दीधुं.

एवी रीते सर्व तीर्थकरनो प्रथम सामान्यार्थ अने पठी विशेषार्थ जाणवो.

२ “परिसहादिजिर्नजित इत्यजितः” चावीश परिसह आदि शब्दधी चार कपाय, आठकर्म, चारप्रकारना उपसर्ग इत्यादिधी न जीताय, ते अजित; तथा “यद्वा गर्जस्थेऽस्मिन् द्यूते राज्ञा जननी न जितेलजितः” ज्यारे जगवान् गर्जमां हता त्यारे जुगार खेलतां राजा राणीने न जी ती शक्या ते हेतुधी अजित नाम दीधुं.

३ “शं सुखं ज्वत्यस्मिन् स्तुते संजवः” शं नाम सुखवाचक ठे सुख थाय जेनी स्तुति करतां ते संजव “यद्वा गर्जगतेऽप्यस्मिन्नन्यधिकसस्य संजवात् संजवोपि ” अथवा ज्यारे जगवान् गर्जमां हता त्यारे पृथ्वीमां अधिक धान्यनो संजव होवार्थी संजव.

४ “अजिनंयते देवेंद्रादिजिरित्यजिनंदनः” जेनी स्तुति करायेली ठे देवेंद्रादिधी ते अजिनंदन “यद्वा गर्जात् प्रचृत्येवाजीदणं शक्रेणाजिनंद नादजिनंदनः” अथवा जे दिवसे जगवान् गर्जमां आव्या ते दिवसधी लइने वारंवार शक्रेडें स्तुति करी तेधी अजिनंदन.

५ “शोचना मतिरस्येति सुमतिः” जली ठे बुद्धि ते जेनी ते सुमति, “यद्वा गर्जस्थे जनन्याः सुनिश्चिता मतिरभूदिति सुमतिः” अथवा जगवान् गर्जमां आव्या त्यारधी मातानी बहुज निर्मल निश्चित बुद्धि थइते कारणधी सुमति.

६ “निष्पंकतामंगीकृत्य पद्मस्येव प्रजाऽस्य पद्मप्रजः” विषयतृष्णा कर्मकलंकरूप कीचडधी रहित पद्मनी पेठे प्रजा ठे जेनी ते पद्मप्रज “यद्वा पद्मशयनदोहदो मातुर्देवतया पूरितइति पद्मवर्णश्च जगवानिति पद्मप्रजः” अथवा पद्मशयन दोहलो माताने उत्पन्न थयो ते देवतायें पूर्ण कर्यो ते कारणधी प्रजप्रज अथवा पद्मकमल समान जगवानना श रीरनो वर्ण हतो ते कारणधी पद्मप्रज.

७ “शोचनौ पाश्र्वावस्य सुपार्श्वः” शोचनिक ठे वंने पासां जेनां ते सुपार्श्व. “यद्वा गर्जस्थे जगवति जनन्यपि सुपार्श्वाऽभूदिति सुपार्श्वः” अथवा जग वान् गर्जमां रह्या त्यारधी मातानां वंने पासां बहुज सुंदर थइगयातेधी सुपार्श्व.

८ “चंद्रस्येव प्रजा ज्योत्स्ना सौम्यलेश्याविशोपाऽस्य चंद्रप्रजः” चंद्र मानी पेठे सौम्य लेश्या ठे जेनी ते चंद्रप्रज, तथा “गर्जस्थे देव्याः चं डपानदोहदोऽभूत् इति चंद्रप्रजः” गर्जमां ज्यारे जगवान् हता त्यारे

माताने चंद्रमा पीवानो दोहद उत्पन्न थयो ते कारणथी चंद्रप्रज्ञ.

७ “ शोचनो विधिर्विधानमस्य सुविधिः” रूडो ठे विधि ते जेनो तेसुविधि. तथा “यद्वा गर्जस्थे जगवति जनन्यप्येवमिति सुविधिः” जगवान् गर्जमां रेहेवाथी माता पण शोचनिक विधिवाली थइ ते कारणथी सुविधि.

१० “ सकलसत्त्वसंतापहरणात् शीतलः ” सर्वजीवनो संताप दूर करवाथी शीतल तथा “ गर्जस्थे जगवति पितुः पूर्वोत्पन्नाऽचिकित्स्यपि तदाहोजननीकरस्पर्शाऽपशांत इति शीतलः ” जगवंतना पिताना शरीरमां पित्तदाह्नो रोग हतो तेनी वैद्योथी शांति न थई परंतु जगवान् माताना गर्जमां आववाथी जगवंतनी माताना हाथस्पर्शोथी राजानुं शरीर शीतल थई गयुं ते कारणथी शीतल.

११ “ श्रेयान् समस्तज्वनस्यैव हितकरः प्राकृतशैल्या वांसत्वाच्च श्रेयांसश्च्युच्यते” सर्वजगतनुं जे हित करे ते श्रेयांस “यद्वा गर्जस्थेऽस्मिन् केनापि नाक्रांतपूर्वी देवताधिष्ठितशय्या जनन्या आक्रांतेति श्रेयोजातमिति श्रेयांसः ” ज्यारे जगवान् गर्जमां हता त्यारे जगवानना पिताना घरमां देवताऽधिष्ठित शय्या हती ते उपर जे वेसता तेने असमाधि उत्पन्न थती जगवाननी माताने ते शय्यापर सुवानो दोहद थयो, माता ते शय्यापर सुती, देवतायें उपद्रव न कयों पण शांत थयो ते कारणथी श्रेयांस.

१२ “ तत्र वसूनां पूज्यः वसुपूज्यः वसवो देवाः ” देवताउथी जे पूजनीय ते वसुपूज्य “ वसुपूज्यन्तपतेरपत्यं वासुपूज्यः ” वसुपूज्य नामना राजाना जे पुत्र ते वासुपूज्य “ वासवो देवराया तस्स गप्पगयस्स अज्जिक्कणं अज्जिक्कणं जणणीए पूयं करेति तेण वासुपुद्योति अहवा वसुणि रयणाणि वासवो वेसमणो सो गप्पगए अज्जिक्कणं अज्जिक्कणं तं रायकुलं रयणेहिं पूरेयति वासुपुद्योत्ति. अर्थः—वासव नाम इंद्रनुं ठे. जगवान् ज्यारे गर्जमां आव्या त्यारे वारंवार इंद्रं जगवाननी मातानी पूजा करी ते कारणथी वासुपूज्य अथवा वसु एटले रत्न अने वासव नाम वैश्रमणुं ठे. जगवान् ज्यारे गर्जमां हता त्यारे वैश्रमणें जगवानना कुलमां वारंवार रत्नोनी पूर्णता करी ते हेतुथी वासुपूज्य.

१३ “ विगतो मलोऽस्य विमलः विमलज्ञानादियोगाद्वा विमलः ” दू र थया ठे आठ कर्मरूप मल जेना ते विमल, अथवा निर्मलज्ञानादि यो

गें करी विमल, “ यद्वा गर्जस्थे मातुर्मतिस्तनुश्च विमला जातेति विमलः ” तथा जगवान् ज्यारे गर्जमां हता त्यारे मातानी बुद्धि तथा शरीर निर्मल थई गयां ते कारणथी विमल.

१४ “ न विद्यते गुणानामंतोऽस्य अनंतः अनंतकर्मांशजयाद्वाऽनंतः अनंतानि वा ज्ञानादीनि यस्येत्यनंतः ” जेना गुणनो अंत न जाणी शकियें ते अनंत, अथवा अनंत कर्मांश जीतवाथी अनंत अथवा अनंत ठे ज्ञानादि गुण जेने ते अनंत, “ रयण विचित्तं रयण खवियं अणंतं अतिमह पमाणं, दामं सुमिणे जणणीयें, दिठं तउ अणंतोत्ति ” विचित्ररत्नं जडित अति मोटी दाममाला मातायें खममां दीठी ते कारणथी अनंत.

१५ “ दुर्गतौ पतन्तं सत्त्वं संघातं धारयतीति धर्मः ” दुर्गतिमां पढता जीवोना समूहने जे धारण करे ते धर्म, तथा “ गर्जस्थे जननी दानादिधर्मपरा जातेति धर्मः ” परमेश्वर गर्जमां आववाथी माता दानादि धर्ममां तत्पर थई तेशी धर्म.

१६ “ शांतियोगात्तदात्मकत्वात्तत्कर्तृकत्वाच्चायं शांतिः ” शांतिना थोगथी अथवा शांतिरूप होवाथी अथवा शांति करवाथी शांति, तथा “ गर्जस्थे पूर्वोत्पन्ना शिवं शांतिरचूदिति शांतिः ” तथा जगवान् गर्जमां उत्पन्न थवाथी पूर्वं जे अशिव उत्पन्न थयुं हतुं ते शांत थई गयुं तेशी शांति.

१७ “ कुः पृथ्वी तस्यां स्थितिवानिति कुंथुः पृषोदरादित्वात् ” कु नाम पृथ्वीतुं ठे ते पृथ्वीमां जे स्थित थया ते कुंथु तथा “ गर्जस्थे जगवति जननी रत्नानां कुंथुं राशिं दृष्टवतीति कुंथुः ” जगवान् गर्जमां आव्या पढी मातायें रत्नमय कुंथुतनो राशि दीठो ते कारणथी कुंथु.

१८ “ सर्वोत्तममहासत्त्वः, कुले यत्प्रजायते ॥ तस्याजिद्वृद्धये वृद्धैरसा वरउदाहृतः ” ॥ १ ॥ इतिवचनादरः सर्वथी उत्तम महासात्त्विक कुलमां जे उत्पन्न थाय तथा ते कुलनी वृद्धिकारक जे होय तेने वृद्धुरूप प्रधान अर कहेठे तथा “ गर्जस्थे जगवति जनन्या खप्ने सर्वरत्नमयोऽरोदृष्ट इत्यपरः ” तथा जगवान् गर्जमां हता त्यारे मातायें सर्वरत्नमय अर स्वप्नमां दीठो ते कारणथी अर.

१९ “ परिसहादिमहजयनात्रिरुक्तान् मह्विः ” परिसहादि मह्वोने जीतवाथी मह्वि तथा “ गर्जस्थे जगवति मातुः सुरजिकुसुममाद्यशय

नीयदोहदो देवतया पूरित इति मल्लिः ” तथा जगवान् गर्जमां श्राव्या पठी माताने सुगंधी फुलोनी मालावाली शय्या उपर सुवानो दोहद उ त्पन्न थयो ते देवतायें पूर्ण कयों ते कारणथी मल्लि.

१० “ मन्यते जगतस्त्रिकालावस्थामिति मुनिः शोचनानि व्रतान्यस्ये ति सुव्रतः मुनिश्चासौ सुव्रतश्च मुनिसुव्रतः ” व्रणे कालमां जे जगतने माने ते मुनि, जलां ठे व्रत जेनां ते सुव्रत आ वंने पद एकत्र करवाथी मुनिसुव्रत, तथा “ गर्जस्थे जननी मुनिवत् सुव्रता जातेति मुनिसुव्रतः ” तथा जगवंत गर्जमां रक्षां थकां माता रूडा व्रतवाली थइ तेथी मुनिसुव्रत.

११ “ परीसहोपसर्गादीनां नामनात् नमेस्तुवेति विकल्पेनोपांत्य स्येकाराज्ञावपदे नमिः ” परिसह उपसर्गोने नमाववाथी नमि, तथा “ यद्वा गर्जस्थे जगवति परचक्रनृपैरपि प्रणतिः कृतेति नमिः ” जगवान् गर्जमां श्राववाथी वैरीराजाज्यें पण नमस्कार कयों ते कारणथी नमि.

१२ “ धर्मचक्रस्य नेमिवन्नेमिः ” धर्मचक्रनी धारासमान ते नेमि तथा “ गङ्गाए तस्स मायाए, रिठरयणा मउमहति महालउ नेमि ॥ उप्प यमाणो सुमिणे, दिठोत्ति तेणसेरिठनेमिन्ति नामं कयंति ” तथा ज गवान् गर्जमां श्राव्यापठी मातायें अरिष्ट रत्नमय मोटो नेमि (चक्रधारा) आकाशमां उत्पन्न थयो एम स्वप्नमां दीठो ते कारणथी अरिष्टनेमि.

१३ “ स्पृशति ज्ञानेन सर्वज्ञानिति पार्श्वः ” सर्वपदार्थोने ज्ञानें करी स्पर्शें जाणे ते पार्श्व. तथा “ गर्जस्थे जनन्या निशि शयनीयस्थयांऽधकारे सर्पो दृष्टइति गर्जानुज्ञावोयमिति पश्यतीति निरुक्तात् पार्श्वः पार्श्वोऽस्यवैयावृत्य करो यद्दस्तस्य नाथः पार्श्वनाथः जीमो जीमसेन इति न्यायाद्वा पार्श्वः ” तथा जगवान् गर्जमां रक्षा थका मातायें रात्रिमां शय्या उपर वेठां थकां अंधारामां सर्प जातो दीठो, माता पितायें विचाखुं के आ गर्जनो प्रजाव ठे अथवा पार्श्वनामा वैयावच्च करनारा देवताना जे नाथ ते पार्श्वनाथ.

१४ “ विशेषेण ईरयति प्रेरयति कर्माणीति वीरः ” विशेषें करी प्रेरे जे कर्मोने ते वीर तथा अत्यंत उग्र परीसह उपसर्ग सहन करवाथी देवता ज्यें श्रमण जगवान् महावीर एवुं तथा माता पितायें धनधान्यादिनी वृद्धि थवाथी वर्धमान एवुं नाम दीधुं.

ए प्रकारें आ अवसरिपिण्णिमां जे तीर्थकर थया तेमनां नाम तथा शा हेतुथी ते नाम राख्यां ते समाप्त थयुं.

आ चोवीश तीर्थकर मध्येथी वावीश अर्हत इद्वाकुकुलमां उत्पन्न थया एटले के ऋषजदेवजीना वंशमां थया, इद्वाकुकुल ऋषजदेवजीथी प्रसिद्ध ठे, तेनुं स्वरूप आगल केहेवामां आवशे, वाकीना वीशमा मुनि सुव्रतस्वामी तथा वावीशमा अरिष्टनेमि जगवान् ए वंने तीर्थकर हरिवंशमां उत्पन्न थया. चोवीश तीर्थकरोमां ठठा पद्मप्रज्ज अने वारमा वासु पूज्य लाल वर्ण शरीरवाला थया, आठमा चंद्रप्रज्ज तथा नवमा सुविधि नाथ (पुष्पदंत) ए वे तीर्थकर श्वेतवर्ण स्फटिकवत् उज्वल शरीरवाला थया, जंगलीशमा मद्धिनाथ तथा त्रेविशमा पार्श्वनाथ हरितवर्ण शरीरवाला थया, तथा वीशमा मुनिसुव्रत स्वामी तथा वावीशमा अरिष्टनेमि जगवान् श्यामवर्ण रंगें अलसीना फुलजेवा शरीरवाला थया. वाकीना सोल सुवर्णवर्ण शरीरवाला थया.

चोवीश तीर्थकरोनां चिह्न तेमना दक्षिण पगमां हतांतथा तेमनी ध्वजामां ते चिह्न होय ठे, हालपण तेमनी प्रतिमाना आसनमां ते चिह्न होय ठे ते चिह्नो आ प्रमाणे— (१) ऋषजदेवजीनुं वलदनुं चिह्न (२) अजित नाथजीनुं हाथीनुं चिह्न (३) संजवनाथजीनुं घोडानुं चिह्न (४) अजिनंदनजीनुं वांदरानुं चिह्न (५) सुमतिनाथजीनुं कौंच पक्षीनुं चिह्न (६) पद्मप्रज्जजीनुं कमलनुं चिह्न (७) सुपार्श्वनाथजीनुं साथीयानुं चिह्न (८) चंद्रप्रज्जजीनुं चंद्रमानुं चिह्न (९) सुविधिनाथ (पुष्पदंत) जीनुं मकरनुं चिह्न (१०) शीतलनाथजीनुं श्रीवत्सनुं चिह्न (११) श्रेयांसनाथजीनुं गेंमानुं चिह्न (१२) वासुपूज्यजीनुं महिषनुं चिह्न (१३) विमलनाथजीनुं सूअरनुं चिह्न (१४) अनंतनाथजीनुं वाजनुं चिह्न (१५) धर्मनाथजीनुं वज्रनुं चिह्न (१६) शांतिनाथजीनुं हरणनुं चिह्न (१७) कुंथुनाथजीनुं बोकडानुं चिह्न (१८) अरनाथजीनुं नंदावर्तनुं चिह्न (१९) मद्धिनाथजीनुं कुंजनुं चिह्न (२०) मुनिसुव्रतस्वामिनुं काचवानुं चिह्न (२१) नमीनाथजीनुं लीला कमलनुं चिह्न (२२) अरिष्टनेमिजीनुं शंखनुं चिह्न (२३) श्रीपार्श्वनाथजीनुं सर्पनुं चिह्न (२४) श्रीमहावीरस्वामिनुं सिंहनुं चिह्न.

हवे चोवीश तीर्थकरोना पितानां तथा मातानां नाम कहीयें ठीयें.

- (१) नाजिनह्यत्यन्यायिनोहकारादिजिर्नीतिजिरिति नाजिरंत्यकुलकरः,
 (हकारादि नीतिये अन्यायिर्जनो दंड करनार ठेलो कुलकर ते नाजि)
 (२) जिताः शत्रवोऽनेन जितशत्रुः (जीत्या ठे शत्रुठे जेणें ते जितशत्रु)
 (३) जिताश्चरयोऽनेन जितारिः (जित्या ठे चेरियो जेणें ते जितारि)
 (४) संबृणोर्तींद्रियाणि संवरः (वश करी ठे इंद्रियो जेणें ते संवर)
 (५) सकलसत्वसंतापहरणात् मेघश्च मेघः (मेघनी पेठे सकल जीवोनो
 संताप हरवाथी मेघ) (६) धरति धात्रीमिति धरः (धारण करे जे पृथ्वी
 ने ते धर) (७) प्रतिष्ठति धर्मकार्ये प्रतिष्ठः (धर्मना कार्यमां जे रहे
 ते प्रतिष्ठ) (८) महती पूज्या सेनाऽस्य महासेनः (मोटी पूजवा योग्य
 सेना ठे जेनी ते महासेन) (९) शोचना ग्रीवाऽस्य सुग्रीवः (जल्ली ठे ग्रीवा
 जेनी ते सुग्रीव) (१०) दृढोरथोऽस्य दृढरथः (बलवान् ठे रथ जेनो
 ते दृढरथ) (११) वेवेष्टि बलैः पृथिवीं विष्णुः (वींटी ठे सेनाथी पृथ्वी
 ने जेणे ते विष्णु) (१२) अन्ये राजजिर्वसुजिर्धनेः पूज्यते इति वसुपूज्यः
 सचासौ राट्च वसुपूज्यराट् (वीजा राजाठयें धनेकरी पूजा करी ठे जे
 नी ते वसुपूज्य राजा) (१३) कृतं वर्मानेन कृतवर्मा (कर्यो ठे सन्नाह
 जेणें ते कृतवर्मा) (१४) सिंहवत् पराक्रमवती सेनाऽस्य सिंहसेनः
 (सिंह समान पराक्रमवादी सेना जेनी ठे ते सिंहसेन) (१५) ज्ञाति
 त्रिवर्गेण ज्ञानुः (धर्म अर्थ अने कामथी जे शोभे ठे ते ज्ञानु) (१६)
 विश्वव्यापिनी सेनाऽस्य विश्वसेनः (जेनी सेना जगतमां व्यापेदी ठे ते
 विश्वसेन) सचासौराट् च विश्वसेनराट् (१७) तेजसा सूरश्च सूरः (तेजें
 करी सूर्यसरखा ते सूर) (१८) शोचनं दर्शनमस्य सुदर्शनः (जहुं दर्शन
 ठे जेनुं ते सुदर्शन) (१९) गुणपयसामाधारभूतत्वात् कुंजश्च कुंजः (गु
 णरूप पाणीने आधाररूप होवाथी कुंजनी पेठे कुंज) (२०) शोचनानि
 मित्राणि अस्य सुमित्रः (जला ठे मित्रो जेना ते सुमित्र) विजयते शत्रून्निति
 विजयः (जीत्या ठे शत्रुठेने जेणें ते विजय) (२१) गंजीर्येण समुद्रस्यापि
 विजेता समुद्रविजयः (गंजीरताथी समुद्रने जीतनार ते समुद्रविजय
 (२२) अश्वप्रधाना सेनाऽस्य अश्वसेनः (घोडाठे करी प्रधान ठे सेनाजेनी
 ते अश्वसेन) (२४) सिद्धार्थाः पुरुषार्थाश्च सिद्धार्थः (सिद्ध थया ठे पुरुषा
 र्थो ते जेना ते सिद्धार्थ. चोबीश तीर्थकरोना पितानां अनुक्रमे नाम कथां.

हवे चोवीश तीर्थकरोनी मातानां नाम लखीयें ठीयें.

(१) मरुद्भिर्दीव्यते स्तूयते मरुदेवा पृपोदरादित्वात् तलोपः मुरदेव्य
 पि स्यात् (देवताजयें करी ठे स्तवना जेनी ते मरुदेवी मुरदेवी एम पण
 नाम ठे) (२) विजयते विजया (जयवंतविजया) (३) सह अनेन जि
 तारिस्वामिना वर्त्तते सेना (जितारि राजानी साथ जे वर्ते ते सेना)
 (४) सिद्धोर्थोऽस्याः सिद्धार्था (सिद्ध थया ठे अर्थ जेना ते सिद्धार्था)
 (५) मंगलहेतुत्वात् मंगला (मंगलहेतुचूत होवार्थी मंगला) (६) शो
 चना सीमा मर्यादाऽस्याः सुसीमा (जली ठे मर्यादा जेनी ते सुसीमा)
 (७) स्थेन्ना पृथ्वीव पृथ्वी (स्थिर ठे पृथ्वीना जेवी ते पृथ्वी) (८) लक्ष्मीः
 शोचाऽस्त्यस्याः लक्ष्मणा (लक्ष्मीनी पेठे शोचा ठे जेनी ते लक्ष्मणा) (९)
 धर्मकृत्येषु रमते रामा (धर्मकृत्यमां जे रमे ते रामा) (१०) नंदति सु
 पात्रेण नंदा (सुपात्रदान देवार्थी वृद्धिमती थाय ते नंदा) (११) वेवेष्टि
 गुणैर्जगदिति विष्णुः (गुणैकरी जगतने वींटाळे ते विष्णु) (१२) जयति
 सतीत्वेन जया (उत्कृष्टपणें वर्ते ठे सतीपणुं जेनुं ते जया) (१३) श्यामव
 र्णत्वात् श्यामा (श्यामवर्ण होवार्थी श्यामां) (१४) शोचनं यशोऽस्याः
 सुयशाः (जलुं ठे यश जेनुं ते सुयशाः) (१५) शोचनं व्रतमस्याः सुव्रता
 पतिव्रतात्वात् (जलां ठे व्रत जेनां ते सुव्रता पतिव्रता होवार्थी सुव्रता)
 (१६) न चिरयति धर्मकार्येष्वचिरा (धर्मकार्योमां जे ढील करती नथी ते
 अचिरा) (१७) श्रीरिव श्रीदेवीव देवी प्रजाऽस्त्यस्याः श्रीः (लक्ष्मीनी
 पेठे प्रजा ठे जेनी ते श्री) (१८) देवीनी पेठे प्रजा ठे जेनी ते देवी
 (१९) प्रजावती प्रजावती (२०) पद्मश्च पद्मावती (पद्मनी जेवी ते पद्मा-
 वती) (२१) धर्मवीजमिति वप्रा (२२) शिवहेतुत्वात् शिवा (२३) मनो
 झत्वात् वामा पापकार्येषु प्रातिकूल्यात् वामा (मनोज्ञ होवार्थी वामा)
 (पापकार्योथी प्रतिकूल होवार्थी वामा) (२४) त्रीणि ज्ञानदर्शनचारि
 त्राणि शलयति प्राप्नोतीति त्रिशला (ज्ञानदर्शन चारित्र ए त्रणेने जे
 प्राप्त करे ठे ते त्रिशला)

ए प्रमाणे तीर्थकरोनी मातानां नाम कलां. अथवा सुगमताने माटे
 चोवीश तीर्थकरोनी साथे वावन बोलनो संबंध ठे तेनुं स्वरूप यंत्रबंध ल
 खीयें ठीयें. वावन बोलनां नाम आ प्रमाणेः—

वाचन बोलनां नाम कहेते.

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| १ श्रीतीर्थकर नाम. | २७ गणधरोनी संख्या. |
| २ च्यवन तिथि. | २८ साधुर्जनी संख्या. |
| ३ कया विमानथी आब्या. | ३० साध्वीयोनी संख्या. |
| ४ कइ नगरीमां जन्म थयो. | ३१ वैक्रियलब्धिवंतोनी संख्या. |
| ५ जन्मतिथि. | ३२ अवधिज्ञानियोनी संख्या. |
| ६ पितार्जनां नाम. | ३३ केवलज्ञानियोनी संख्या. |
| ७ मातार्जनां नाम. | ३४ मनःपर्यवज्ञानियोनी संख्या. |
| ८ कया नक्षत्रमां जन्म्या. | ३५ चौदपूर्वधारियोनी संख्या. |
| ९ जन्मराशि. | ३६ वादियोनी संख्या. |
| १० लांठननां नाम. | ३७ श्रावकोनी संख्या. |
| ११ शरीरनी उंचाईनुं प्रमाण. | ३८ श्राविकार्जनी संख्या. |
| १२ आयुपना वर्षनुं प्रमाण. | ३९ शासनना यक्षोनां नाम. |
| १३ शरीरनो वर्ण. | ४० शासननी यक्षिणीयोनां नाम. |
| १४ पदवी. | ४१ प्रथम गणधरनुं नाम. |
| १५ परणोला के कुंवारा ? | ४२ प्रथम आर्यानुं नाम. |
| १६ केटला जणोनी साथे दीक्षा लीधी. | ४३ मोक्ष थवानुं स्थान. |
| १७ दीक्षा कइ नगरीमां लीधी. | ४४ मोक्ष पहुचवानी तिथि. |
| १८ दीक्षाने दिवसे केटलुं तप. | ४५ मोक्ष दिनें तप. |
| १९ प्रथम पारणे शुं आहार मळ्यो. | ४६ मोक्ष जवानुं आसन. |
| २० प्रथम पारणानुं घर. | ४७ परस्पर अंतरनुं मान. |
| २१ केटला दिवसनुं पारणुं. | ४८ गण नाम. |
| २२ दीक्षानी तिथि. | ४९ योनि नाम. |
| २३ उन्नस्थपणाना कालनुं प्रमाण. | ५० मोक्ष परिवार. |
| २४ कइनगरीमां केवलज्ञान प्राप्तथयुं | ५१ सम्यक्त्व पाम्यापठीमहोटो जव. |
| २५ ज्ञानोत्पत्तिने दिनें कयुं तपकखुं | ५२ कया कुलमां उत्पन्न थया. |
| २६ कया वृद्धनी नीचे दीक्षा लीधी. | ५३ गर्भवासना कालनुं प्रमाण. |
| २७ कइ तिथियें ज्ञान उत्पन्न थयुं. | |

आ वावन वोढ प्रत्येक तीर्थकरमां कहेते.

१ श्रीतीर्थकर नाम.	१ श्रीरूपज देव.	२ श्रीअजितनाथ	३ श्रीसंज्ञवनाथ.
२ च्यवन तिथि.	अपारुवदी ४	वैशाख शुदि १३	फाल्गुन शुदि ८
३ विमान नाम.	सर्वार्थ सिद्धि	विजय विमान	उपरला ग्रैवेयक
४ जन्म नगरी.	विनीता भूमि	अयोध्या	सावत्री
५ जन्म तिथि.	चैत्रवदी ८	माघशुदी ८	महाशुदी १४
६ पितानां नाम.	नाजिकुलकर	जितशत्रु	जितारि
७ मातानां नाम.	मरुदेवी	विजया	सेना
८ जन्म नक्षत्र.	उत्तराषाढा	रोहिणी	मृगशिर
९ जन्म राशि.	धन	वृष	मिथुन
१० लांठन नाम.	वृषज	हस्ती	अश्व
११ शरीरनुं मान.	५००) धनुष	४५०) धनुष	४००) धनुष.
१२ आयुर्मान.	८४) लक्षपूर्व	७२) लक्षपूर्व	६०) लक्षपूर्व.
१३ शरीरना वर्ण.	सुवर्ण वर्ण.	सुवर्ण वर्ण.	सुवर्णवर्ण.
१४ पदवी राजनी.	राज पदवी	राज पदवी	राज पदवी
१५ पाणिग्रहण.	विवाह थयो	विवाह थयो	विवाह थयो
१६ केटला साथे दीक्षा.	४०००) साधु	१०००) साधु	१०००) साधु
१७ दीक्षा नगरी.	विनीता.	अयोध्या.	सावत्री.
१८ दीक्षा तप.	वे उपवास	वे उपवास	वे उपवास
१९ प्रथमपारणानोआ०	इष्टु रस	परमान्नहीर	परमान्नहीर
२० पारणानां स्थान.	श्रेयांसने घेर	ब्रह्मदत्तने घेर	सुरेंद्रदत्तने घेर
२१ केटलादिवसनांपा०	एक वर्षे पठी	वे दिवसपठी	वे दिवसपठी
२२ दीक्षा तिथि.	चैत्रवदि ८	महावदी ९	मार्गशिरशु० १५
२३ उद्भव काल.	१०००) वर्षे	१२) वर्षे	१४) वर्षे
२४ ज्ञान नगरी.	पुरिमताल	अयोध्या	सावत्री
२५ ज्ञान तप.	त्रण उपवास	वे उपवास	वे उपवास
२६ दीक्षा वृद्ध.	चट वृद्ध	शाल वृद्ध	प्रियाल वृद्ध
२७ ज्ञानतिथि.	फाल्गुन वदि ११	मोषवदि ११	फाल्गुन वदि ११

आ वाचन बोल प्रत्येक तीर्थंकरमां कहेटे.

२७ गणधरसंख्या.	८४)	९५)	१०२)
२९ साधुर्जनी संख्या.	८४०००)	१०००००)	२०००००)
३० साधवीयोनीसंख्या.	३०००००)	३३००००)	३३६०००)
३१ वैक्रियलब्धिवंत.	१०६००)	१०४००)	१९८००)
३२ वादियोनी संख्या.	१२६५०)	१२४००)	१२०००)
३३ अवधिज्ञानी संख्या.	९०००)	९४००)	९६००)
३४ केवली संख्या.	१००००)	११०००)	१५०००)
३५ मनःपर्यवसंख्या.	१२९५०)	१२५५०)	१२१५०)
३६ चौदपूर्वी संख्या.	४९५०)	३९२०)	२१५०)
३७ श्रावक संख्या.	३५००००)	१९८०००)	१९३०००)
३८ श्राविका संख्या.	५५४०००)	५४५०००)	६३६०००)
३९ शासनयद्गोनां नाम.	गोमुखयद्ग	महायद्ग	त्रिमुखयद्ग
४० शासननी यक्षिणी.	चक्रेश्वरी	अजितवाला.	दुरितारि
४१ प्रथम गणधर नाम.	पुंरुरीक.	सिंहसेन.	चारु.
४२ प्रथम आर्या नाम.	ब्राह्मी	फाट्यु	श्यामा
४३ मोक्षस्थान.	अष्टपद	समेतशिखर	समेतशिखर
४४ मोक्षतिथि.	माघ वदि १३	चैत्र शुदि ५	चैत्रशुदि ५
४५ मोक्षसंक्षेपणा.	ठ उपवास	एक मास	एकमास
४६ मोक्षआसन.	पद्मासन	कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग
४७ अंतर मान.	५०लाखकोटीसा	३०लाखकोटीसा	१०लाखकोटीसा
४८ गण नाम.	मानवगण	मानवगण	देवगण
४९ योनि नाम.	नकुलयोनि	सर्पयोनि	सर्पयोनि
५० मोक्षपरिवार.	१००००)	१०००)	१०००)
५१ जवसंख्या.	तेर जव कख्या.	त्रणजवकख्या	त्रण जव कख्या
५२ कुलगोत्र नाम.	इदवाकुकुल	इदवाकुकुल	इदवाकुकुल
५३ गर्जकाल मान.	नवमासचारदि	८ मासपच्चीशदि.	नवमास८ दिवस

आ वाचन बोल प्रत्येक तीर्थकरमां कहेठे.

१ श्री तीर्थकरनाम.	४ श्रीअजिनंदन	५ श्रीसुमतिनाथ	६ श्री पद्मप्रज
२ च्यवनतिथि.	वैशाख शुदि ४	श्रावणशुदि २	माघवदि ६
३ विमान नाम.	जयंत विमान	जयंत विमान	उपरिमग्रैवेयक
४ जन्मनगरी.	अयोध्या	अयोध्या	कौसुंबी
५ जन्मतिथि.	माघशुदि २	वैशाख शुदि ७	कार्तिकवदि १२
६ पितानां नाम.	संवर राजा	मेघराजा	श्रीधरराजा
७ मातानां नाम.	सिद्धार्था	मंगला	सुसीमा
८ जन्मनक्षत्र.	पुनर्वसु	मघा	चित्रा
९ जन्म राशि.	मिथुन	सिंह	कन्या
१० लाठननां नाम.	वांदरानुं	क्रौंच पक्षीनुं	पद्मकमलनुं
११ शरीर मान.	३५०) धनुप	३००) धनुप	२५०) धनुप
१२ आयुनुं प्रमाण.	५०) लाखपूर्व	४०) लाख पूर्व	३०) लाखपूर्व
१३ शरीरना वर्ण.	सुवर्णवर्ण	सुवर्णवर्ण	रक्तवर्ण
१४ पदवी राजानी.	राजा	राजा	राजा
१५ पाणि ग्रहण.	परण्या	परण्या	परण्या
१६ केटला साये दीक्षा.	१०००) साधु	१०००) साधु	१०००) साधु
१७ दीक्षानगरी.	अयोध्या	अयोध्या	कौसुंबी
१८ दीक्षातप.	वे उपवास	नित्यजक्त	एक उपवास
१९ प्रथमपारणानोआ०	क्षीर	क्षीर	क्षीर
२० पारणानां स्थान.	इंद्रदत्तने घेर	पद्मने घेर	सोमदेवने घेर
२१ केटला दिवसनांपा०	वे दिवस (२)	वे दिवस (२)	वे दिवस (२)
२२ दीक्षा तिथि.	माघशुदि १२	वैशाखशुदि ९	कार्तिकवदि १३
२३ उग्रस्य काल.	अटार वर्ष	वीश वर्ष	उमास
२४ ज्ञाननगरी.	अयोध्या	अयोध्या	कौसुंबी
२५ ज्ञान तप.	वे उपवास	वे उपवास	चोथनक्त
२६ दीक्षारूढ.	प्रियंगुगृह	सास गृह	उग्रगृह
२७ ज्ञानतिथि.	पौषदि १४	चैत्रशुदि ११	चैत्रशुदि १५

प्रथम परिच्छेद.

आ-वाचन बोल प्रत्येक तीर्थंकरमां कहे ठे.

२७ गणधरसंख्या.	११६)	१००)	१०७)
२८ साधुर्जनीसंख्या.	३०००००)	३२००००)	३३००००)
३० साधवीयोनी संख्या.	६३००००)	५३००००)	४२००००)
३१ वैक्रिय लब्धिवंत.	१९०००)	१८४००)	१६१००)
३२ वादियोनी संख्या.	११०००)	१०४००)	९६००)
३३ अविधिज्ञानी संख्या.	९८००)	११०००)	१००००)
३४ केवली संख्या.	१४०००)	१३०००)	१२०००)
३५ मनःपर्यव संख्या.	११६५०)	१०४५०)	१०३००)
३६ चौद पूर्वीसंख्या.	१५००)	२४००)	२३००)
३७ श्रावकसंख्या.	२८८०००)	२८१०००)	२७६०००)
३८ श्राविकासंख्या.	५२७०००)	५१६०००)	५०५०००)
३९ शासन यक्षोनांनाम.	नायकयक्ष	तुंबरुयक्ष	कुसमययक्ष
४० शासन यक्षिणीनांनाम.	कालिका	महाकाली	श्यामा
४१ प्रथम गणधरनाम.	वज्रनाभ	चरम	प्रद्योतन
४२ प्रथम आर्यानाम.	अजिता	काश्यपी	रति
४३ मोक्ष स्थान.	समेतशिखर	समेतशिखर	समेतशिखर
४४ मोक्षतिथि.	वैशाखशुद्ध ८	चैत्रशुद्धि ९	मागशिरवदि ११
४५ मोक्षसंक्षेपणा.	एकमास	एकमास	एकमास
४६ मोक्षआसन.	कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग	कायोत्सर्ग
४७ अंतरमान.	एखाखकोडीसा.	एहजारकोडीसा.	एहजारकोडीसा
४८ गणनाम.	देवगण	राक्षसगण	राक्षसगण
४९ योनिनाम.	ठागयोनि	मूपकयोनि	महिययोनि
५० मोक्षपरिवार.	१०००)	१०००)	३००)
५१ जवसंख्या.	त्रणजवकख्या	त्रणजवकख्या	त्रणजवकख्या
५२ कुलगोत्रनाम.	इद्वाकुकुल	इद्वाकुकुल	इद्वाकुकुल
५३ गर्जकालमान.	८मास२८दिवस	नवमास८दिवस	नवमास८दि०

आ वाचन बोल प्रत्येक तीर्थकरमां कहेवे.

१ श्रीतीर्थकर नाम.	७ श्रीसुपार्श्वनाथ	८ श्रीचंद्रप्रज	९ श्रीसुविधिनाथ
२ च्यवन तिथि.	जाडवावदि ८	चैत्रवदि ५	फागण वदि ९
३ विमान नाम.	मधिमग्नैवेयक	विजयंत	आनतदेवलोक
४ जन्मनगरी.	वणारसी नगरी	चंद्रपुरीनगरी	काकंदीनगरी
५ जन्मतिथि.	ज्येष्ठशुदि १२	पोषवदि १२	मागशर वदि ५
६ पितानां नाम.	प्रतिष्ठराजा	महासेन राजा	सुग्रीव राजा
७ मातानां नाम.	पृथिवीमाता	लक्ष्मणामाता	रामाराणीमाता.
८ जन्म नक्षत्र.	विशाखा नक्षत्र	अनुराधानक्षत्र	मूल नक्षत्र
९ जन्म राशि.	तुलराशि	वृश्चिकराशि	धन राशि
१० लांठन नाम.	साथीयानुंलांठन	चंद्रनुं लांठन	मगरमछनुं लां०
११ शरीरनुं प्रमाण.	२००) धनुष	१५०) धनुष	१००) धनुष
१२ आयुनुं प्रमाण.	२०) लाखपूर्व	१०) लाखपूर्व	२) लाखपूर्व
१३ शरीरना वर्ण.	सुवर्णवर्ण	श्वेतवर्ण	श्वेतवर्ण
१४ पदवी राजानी.	राजा	राजा	राजा
१५ पाणिग्रहण.	परण्या	परण्या	परण्या
१६ केटलासाथे दीक्षा.	१०००) साधु	१०००) साधु	१०००) साधु
१७ दीक्षानगरी.	वणारसी नगरी	चंद्रपुरी नगरी	काकंदी नगरी
१८ दीक्षातप.	वे उपवास	वे उपवास	वे उपवास
१९ प्रथमपारणानोआ०	क्षीरनुं चोजन	क्षीरनुं चोजन	क्षीरनुं चोजन
२० पारणानां स्थान.	महेंद्रने घेर	सोमदत्तने घेर	पुष्पने घेर
२१ केटलादिवसनांपा०	वे दिवस	वे दिवस	वे दिवस
२२ दीक्षातिथि.	ज्येष्ठशुदि १३	पोषवदि १३	मागशिर वदि ६
२३ ठन्नस्थकाल.	नवमास रह्या	त्रण मास रह्या	चारमास रह्या
२४ ज्ञान नगरी.	वणारसीनगरी	चंद्रपुरी नगरी	काकंदी नगरी
२५ ज्ञानतप.	वे उपवास	वे उपवास	वे उपवास
२६ दीक्षावृद्ध.	शिरीपवृद्ध	नागवृद्ध	शाली वृद्ध
२७ ज्ञानतिथि.	फागण वदि ६	फागणवदि ७	कार्तिक शुदि ३

आ वाचन बोल प्रत्येक तीर्थंकरमां कहेवे.

२८ गणधर संख्या.	६५) गणधर	६३) गणधर	८८) गणधर.
२९ साधुश्रोनीसंख्या.	३०००००)	२५००००)	२०००००)
३० साधवियोनी संख्या.	४३००००)	३८००००)	३२००००)
३१ वैक्रियलब्धिवंत.	१५३००)	१४०००)	१३०००)
३२ वादियोनीसंख्या.	८४००)	७६००)	६०००)
३३ अवधिज्ञानी संख्या.	६०००)	८०००)	८४००)
३४ केवली संख्या.	११०००)	१००००)	७५००)
३५ मनःपर्यवसंख्या.	६१५०)	८०००)	७५००)
३६ चौदपूर्वीसंख्या.	२०३०)	२०००)	१५००)
३७ श्रावक संख्या.	२५७०००)	२५००००)	२२६०००)
३८ श्राविकासंख्या.	४६३०००)	४७६०००)	४७१०००)
३९ शासनयक्षनांनाम.	मातंगयक्ष	विजय यक्ष	अजिता यक्ष
४० शासनयक्षणीनांनाम.	शांता	चूकुटी	सुतारिका
४१ प्रथम गणधर नाम.	विदर्भ	दिन्न	बराहक
४२ प्रथमआर्या नाम.	सोमा	सुमना	वारुणी
४३ मोक्षस्थान.	समेतशिखर	समेतशिखर	समेतशिखर
४४ मोक्षतिथि.	फागण वदि ७	जात्रवा वदि ७	जात्रवा शुदि ६
४५ मोक्षसंक्षेपणा.	एक मास	एकमास	एकमास
४६ मोक्षआसन.	काउस्सग	काउस्सग	काउस्सग
४७ अंतर प्रमाण.	एसोकोडीसागर	ए०कोडीसागर	ए कोडीसागर
४८ गणनाम.	राक्षसगण	देवगण	राक्षसगण
४९ योनि नाम.	मृगयोनि	मृगयोनि	वानरयोनि
५० मोक्षपरिवार.	५००)	१०००)	१०००)
५१ जवसंख्या.	त्रणजवकख्या	त्रणजवकख्या	त्रणजवकख्या
५२ कुलगोत्र नाम.	ईदवाकुकुल	ईदवाकुकुल	ईदवाकुकुल
५३ गर्भकाल मान.	एमास १६ दिवस	नवमास ७ दिव ०	मास ८ दिव. २६

आ वाचन बोल प्रत्येक तीर्थकरमां कहेवे.

१ तीर्थकरनाम.	१० शीतलनाथ	११ श्रेयांसनाथ	१२ श्रीवासुपूज्य.
२ च्यवनतिथि.	वैशाखवदि ६	ज्येष्ठवदि ६	ज्येष्ठ शुदि ए
३ विमाननाम.	अच्युत देवलोक	अच्युतदेव लोक	प्राणतदेवलोक
४ जन्मनगरी.	जद्विलपुर	सिंहपुरी	चंपापुरी
५ जन्मतिथि.	महावदि १२	फागणवदि १२	फागण वदि १४
६ पितानां नाम.	दृढरथराजा	विष्णुराजा	वसुपूज्यराजा
७ मातानां नाम.	नंदामाता	विष्णुमाता	जयामाता
८ जन्मनक्षत्र.	पूर्वाषाढा	श्रवण नक्षत्र	शतजिपानक्षत्र
९ जन्मराशि.	धनराशि	मकर राशि	कुंभराशि
१० लांठन नाम.	श्रीवत्सनुंलांठन	गेंडानुंलांठन	पामानुं लांठन
११ शरीरनुं मान.	नेवुंधनुप	एंशीधनुप	सीत्तिरधनुप
१२ आयुनुंप्रमाण.	एकलाखपूर्व	७४ लाखवर्ष	७२ लाखवर्ष
१३ शरीरनावर्ण.	सुवर्णवर्ण	सुवर्णवर्ण	लालवर्ण
१४ पदवीराजानी.	राजा	राजा	कुमार
१५ पाणिग्रहण.	परण्या	परण्या	परण्या
१६ केटलासाथेदीक्षा.	(१०००) साधु	(१०००) साधु	६०० साधु
१७ दीक्षानगरी.	जद्विलपुर	सिंहपुरी	चंपापुरी
१८ दीक्षातप.	वे उपवास	वे उपवास	वे उपवास
१९ प्रथमपारणानोश्वा.	क्षीरजोजन	क्षीरजोजन	क्षीरजोजन
२० पारणानांस्थान	पुनर्वसुनेघेर	नंदनेघेर	सुनंदनेघेर
२१ केटलादिवसनुंपारणुं	वे दिवस	वे दिवस	वे दिवस
२२ दीक्षातिथि.	महावदि १२	फागणवदि १३	फागणशुदि १५
२३ उद्गस्यकाल.	त्रणमासरखा	वे मासरखा	एक मासरखा
२४ ज्ञाननगरी.	जद्विलपुर	सिंहपुरी	चंपापुरी
२५ ज्ञानतप.	वे उपवास	वे उपवास	वे उपवास
२६ दीक्षागृह.	प्रियंगुगृह	तंडुकगृह	पारुलगृह
२७ ज्ञानतिथि.	पोपवदि १४	महावदि ३	महाशुदि २

आ धावन बोल प्रत्येक तीर्थंकरमां कहेते.

२८ गणधरसंख्या.	८१) गणधर	९६) गणधर	६६) गणधर
२९ साधुर्जनी संख्या.	१०००००	८४०००	९२०००
३० साधवीयोनीसंख्या.	१००००६	१०३०००	१०००००
३१ वैक्रियलब्धिवंत.	१२०००	११०००	१००००
३२ वादियोनी संख्या.	५८००	५०००	४९००
३३ अवधिज्ञानी संख्या.	९०२०	६०००	५४००
३४ केवली संख्या.	९०००	६५००	६०००
३५ मनःपर्यवसंख्या.	९५००	६०००	६५००
३६ चौदपूर्वी संख्या.	१४००	१३००	१२००
३७ श्रावक संख्या.	२८९०००	२९९०००	२१५०००
३८ श्राविका संख्या.	४५८०००	४४८०००	४३६०००
३९ शासनयज्ञोनां नाम.	ब्रह्मायद्.	जङ्घेयद्.	कुमार यद्.
४० शासननी यक्षिणी.	अशोका	मानवी	चंभा
४१ प्रथम गणधर नाम.	नंद	कञ्चप	सुचूम
४२ प्रथम आर्या नाम.	सुयशा	धारणी	धरणी
४३ मोक्षस्थान.	समेतशिखर	समेतशिखर	चंपापुरी
४४ मोक्षतिथि.	वैशाखवदि २	श्रावणवदि ३	अशाड शुदि १४
४५ मोक्षसंक्षेपणा.	एकमास	एक मास	एकमास
४६ मोक्षआसन.	काउस्सग्ग	काउस्सग्ग	काउस्सग्ग
४७ अंतर मान.	एककोडीसागर	चोपन सागर	त्रीश सागर
४८ गण नाम.	मानवगण	देवगण	राक्षसगण
४९ योनि नाम.	नकुलयोनि	वानरयोनि	अश्वयोनि
५० मोक्षपरिवार.	१००० परिवार	१००० परिवार	६००परिवार
५१ जवसंख्या.	त्रणजवकख्या.	त्रणजवकख्या	त्रण जव कख्या
५२ कुलगोत्र नाम.	इद्वाकुकुल	इद्वाकुकुल	इद्वाकुकुल
५३ गर्जकाल मान.	मास ९ दिवस६	मास ९ दिवस६	मास८ दिवस२०

आ वाचन बोल प्रत्येक तीर्थकरमां कहेते.

१ श्रीतीर्थकर नाम.	१३ विमलनाथ	१४ अनंतनाथ	१५ श्रीधर्मनाथ
२ च्यवन तिथि.	वैशाखशुदि १५	श्रावणवदि ७	वैशाखशुदि ७
३ विमान नाम.	अष्टसारदेवलोक	प्राणत देवलोक	विजयविमान
४ जन्म नगरी.	कंपिलपुरी	अयोध्या	रत्नपुरी नगरी
५ जन्म तिथि.	महाशुदि ३	वैशाखवदि १३	महाशुदि ३
६ पितानां नाम.	कृतवर्मा राजा	सिंहसेन राजा	ज्ञानुराजा
७ मातानां नाम.	श्यामामाता	शुभशामाता	सुव्रता माता
८ जन्म नक्षत्र.	उत्तराजाक्षपद	रेवतीनक्षत्र	पुष्यनक्षत्र
९ जन्म राशि.	मीनराशि	मीन राशि	कर्कराशि
१० लांठन नाम.	वराहनुं लांठन	सीचाणानुंलांठन	वज्रलांठन
११ शरीरनुं मान.	शाठधनुष	पचाशधनुष	पीस्तालीशधनुष
१२ आयुर्मान.	शाठलाखवर्ष	त्रीशलाखवर्ष	दशलाखवर्ष
१३ शरीरना वर्ण.	सुवर्ण वर्ण	सुवर्ण वर्ण	सुवर्ण वर्ण
१४ पदवी राजानी.	राजा	राजा	राजा
१५ पाणिग्रहण.	परण्या	परण्या	परण्या
१६ केटला साथे दीक्षा.	१०००) साधु	१०००) साधु	१०००) साधु
१७ दीक्षा नगरी.	कंपिल पुर	अयोध्या	रत्नपुरी
१८ दीक्षा तप.	वे उपवास	वे उपवास	वे उपवास
१९ प्रथमपारणानोआ०	क्षीर जोजन	क्षीर जोजन	क्षीर जोजन
२० पारणानां स्थान.	जयराजाने घेर	विजयराजानेघेर	धनसिंहने घेर
२१ केटलादिवसनांपा०	वे दिवस	वे दिवस	वे दिवस
२२ दीक्षा तिथि.	महाशुदि ४	वैशाखवदि १४	महाशुदि १३
२३ ठमस्य काल.	वे मास	त्रण वर्ष	वे वर्ष
२४ ज्ञान नगरी.	कंपिलपुरी	अयोध्या	रत्नपुरी
२५ ज्ञान तप.	वे उपवास	वे उपवास	वे उपवास
२६ दीक्षा वृक्ष.	जंबूवृक्ष	अशोक वृक्ष	दधिपर्णवृक्ष
२७ ज्ञानतिथि.	पौषशुदि ६	वैशाख वदि १४	पौष शुदि १५

प्रथम परिच्छेद.

आ वाचन बोल प्रत्येक तीर्थकरमां कहे ठे.

१८ गणधरसंख्या.	५९) गणधर	५०) गणधर	४३) गणधर
१९ साधुर्जनीसंख्या.	६००००)	६६०००)	६४०००)
२० साधवीयोनी संख्या.	१०००००)	६२०००)	६२४००)
२१ वैक्रिय लब्धिवंत.	९०००)	८०००)	९०००)
२२ वादियोनी संख्या.	३६००)	३२००)	२८००)
२३ अवधिज्ञानी संख्या.	४८००)	४३००)	३६००)
२४ केवली संख्या.	५५००)	५०००)	४५००)
२५ मनःपर्यव संख्या.	५५००)	५०००)	४५००)
२६ चौद पूर्वीसंख्या.	२२००)	२०००)	९००)
२७ श्रावकसंख्या.	२०८०००)	२०६०००)	२०४०००)
२८ श्राविकासंख्या.	४२४०००)	४०२४००)	४२३०००)
२९ शासन यद्गोनांनाम.	परमुखयद्ग	पातालयद्ग	किन्नरयद्ग
४० शासन यद्द्विणीनांनाम	विदिता	अंकुशा	कंदर्पा
४१ प्रथम गणधरनाम.	मंदरगणधर.	जसगणधर	अरिष्ट
४२ प्रथम आर्यानाम.	धरा	पद्मा	आर्यशिवा
४३ मोक्ष स्थान.	समेतशिखर	समेतशिखर	समेतशिखर
४४ मोक्षतिथि.	आपाढवदि ७	चैत्रशुदि ५	ज्येष्ठशुदि ५
४५ मोक्षसंक्षेपणा.	एकमास	एकमास	एकमास
४६ मोक्षआसन.	काउस्तग	काउस्तग	काउस्तग
४७ अंतरमान.	नवसागरोपम	चारसागरोपम	त्रणसागरोपम
४८ गणनाम.	मानवगण	देवगण	देवगण
४९ योनिनाम.	ठागयोनि	हस्तियोनि	मंजारयोनि
५० मोक्षपरिवार.	६००)	७००)	२०८)
५१ जवसंख्या.	त्रणजवकख्या	त्रणजवकख्या	त्रणजवकख्या
५२ कुलगोत्रनाम.	इदवाकुकुल	इदवाकुकुल	इदवाकुकुल
५३ गर्जकालमान.	मास८ दिवस २२	मास ९ दिवस ६	मास ८ दिवस २६

आ वावन बोल प्रत्येक तीर्थकरमां कहेवे.

१ श्री तीर्थकरनाम.	१६ श्रीशांतिनाथ	१७ श्रीकुंथुनाथ	१८ श्रीअरनाथ
२ च्यवनतिथि.	त्राडवावदि ७	श्रावणवदि ९	फागण शुदि ३
३ विमाननाम.	सर्वार्थसिद्ध	सर्वार्थसिद्ध	सर्वार्थसिद्ध
४ जन्मनगरी.	गजपुर	गजपुर	गजपुर
५ जन्मतिथि.	ज्येष्ठवदि १३	वैशाख वदि १४	मागशिरशु० १०
६ पितानां नाम.	विश्वसेन	सूरराजा	सुदर्शन
७ मातानां नाम.	अचिरा राणी	श्री राणी	देवीराणी
८ जन्मनक्षत्र.	जरणी नक्षत्र	कृत्तिका नक्षत्र	रेवती नक्षत्र
९ जन्म राशि.	मेघराशि	वृष राशि	मीन राशि
१० लांठननां नाम.	हरिणुं लांठन.	वकरानुं लांठन	नंदावर्त्तनुं
११ शरीर मान.	४०) धनुष	३५) धनुष	३०) धनुष
१२ आयुनुं प्रमाण.	एक लाखवर्ष	९५०००) वर्ष	८४०००) वर्ष
१३ शरीरना वर्ण.	सुवर्णवर्ण	सुवर्णवर्ण	सुवर्णवर्ण
१४ पदवी राजानी.	चक्रवर्ती	चक्रवर्ती	चक्रवर्ती
१५ पाणि ग्रहण.	६४०००) स्त्री	६४०००) स्त्री	६४०००) स्त्री
१६ केटला साथे दीक्षा.	१०००) साधु	१०००) साधु	१०००) साधु
१७ दीक्षानगरी.	गजपुर	गजपुर	गजपुर
१८ दीक्षातप.	वे उपवास	वे उपवास	वे उपवास
१९ प्रथमपारणानोआप	क्षीर जोजन	क्षीर जाजन	क्षीर जोजन
२० पारणानां स्थान.	सुमित्रने घेर	व्याघ्रासंहने घेर	अपराजितने घेर
२१ केटला दिवसनांपा०	वे दिवस	वे दिवस	वे दिवस
२२ दीक्षा तिथि.	ज्येष्ठ वदि १४	चैत्र वदि ५	मागशिर शु० ११
२३ ठगस्थ काल.	एकवर्ष	शोल वर्ष	त्रणवर्ष
२४ ज्ञाननगरी.	गजपुर	गजपुर	गजपुर
२५ ज्ञान तप.	वे उपवास	वे उपवास	वे उपवास
२६ दीक्षावृद्ध.	नंदीवृद्ध	जीलक वृद्ध	आंवानुं वृद्ध
२७ ज्ञानतिथि.	पोपशुदि ९	चैत्रशुदि ३	कार्तिक शुदि १५

आ वाचन बोल प्रत्येक तीर्थकरमां कहेते.

२७ गणधर संख्या.	३६) गणधर	३५) गणधर	३३) गणधर.
२८ साधुत्र्योनीसंख्या.	५२०००)	६००००)	५००००)
३० साधुत्रियोनी संख्या.	६१६००)	६०६००)	६००००)
३१ वैक्रियल विधवंत.	६०००)	५१००)	७३००)
३२ वादियोनीसंख्या.	२४००)	२०००)	२६००)
३३ अवधिज्ञानी संख्या.	३०००)	२५००)	२६००)
३४ केवली संख्या.	४३००)	३२००)	२८००)
३५ मनःपर्यवसंख्या.	४०००)	३३४०)	२५५१)
३६ चौदपूर्वीसंख्या.	८००)	६७०)	६१०)
३७ श्रावक संख्या.	१९००००)	१७९०००)	१८४०००)
३८ श्राविकासंख्या.	३९३०००)	३८१०००)	३७२०००)
३९ शासनयक्षनांनाम.	गरुडयक्ष	गंधर्वयक्ष	यक्षेदयक्ष
४० शासनयक्षणीनांनाम.	निर्वाणी	चला	धणा
४१ प्रथम गणधर नाम.	चक्रयुक्त	सांव	कुंज
४२ प्रथमआर्या नाम.	शुचि	दामिनी	रक्षिता
४३ मोक्षस्थान.	समेतशिखर	समेतशिखर	समेतशिखर
४४ मोक्षतिथि.	ज्येष्ठ वदि १३	वैशाख वदि १	मागशिरशुदि १०
४५ मोक्षसंक्षेपणा.	एक मास	एकमास	एकमास
४६ मोक्षआसन.	काउस्सग	काउस्सग	काउस्सग
४७ अंतर प्रमाण.	०॥पद्योपम	०॥पद्योपम	१००० क्रोडवर्ष
४८ गणनाम.	मानवगण	राक्षसगण	देवगण
४९ योनि नाम.	हस्तियोनि	ठागयोनि	हस्तियोनि
५० मोक्षपरिवार.	९०००परिवार	१०००)परिवार	१०००) परिवार
५१ जवसंख्या.	वार जव कख्या	त्रणजवकख्या	त्रणजवकख्या
५२ कुलगोत्र नाम.	इद्वाकुकुल	इद्वाकुकुल	इद्वाकुकुल
५३ गर्जकाल मान.	मासनवदिवसठ	मासनवदि०पांच	मासनव दिव. ८

आ बावन बोल प्रत्येक तीर्थकरमां कहेवे.

१ श्रीतीर्थकर नाम.	१९ श्रीमद्विनाथ	२० श्रीमुनिसुव्रत	२१ श्रीनमि नाथ
२ ज्यवन तिथि.	फागण शुदि ४	श्रावण शुदि १५	आशोशुदि १५
३ विमान नाम.	जयंतविमान	अपराजितविमा.	प्राणत देवलोक
४ जन्मनगरी.	मथुरानगरी	राजगृही नगरी	मथुरा नगरी
५ जन्मतिथि.	मागशिरशुदि ११	ज्येष्ठवदि ८	श्रावण वदि ८
६ पितानां नाम.	कुंजरराजा	सुमित्रराजा	विजयराजा
७ मातानां नाम.	प्रजावती	पद्मावती	विप्रा राणी
८ जन्म नक्षत्र.	अश्विनी नक्षत्र	श्रवण नक्षत्र	अश्विनी नक्षत्र
९ जन्म राशि.	मेषराशि	मकरराशि	मेषराशि
१० लांठन नाम.	कलशनुं लांठन	कढपनुं लांठन	कमलनुं लांठन
११ शरीरनुं प्रमाण.	पचीश धनुष	वीश धनुष	पंदर धनुष
१२ आयुनुं प्रमाण.	५५०००) वर्ष	३००००) वर्ष	१०००) वर्ष
१३ शरीरना वर्ण.	नीलो वर्ण	श्यामवर्ण	पीलो वर्ण
१४ पदवी राजानी.	कुमार	राजा	राजा
१५ पाणियहण.	नथी परण्या	परण्या	परण्या
१६ केटलासाथे दीक्षा.	३००) साधु	१०००) साधु	१०००) साधु
१७ दीक्षानगरी.	मिथिला नगरी	राजगृही नगरी	मथुरा नगरी
१८ दीक्षातप.	त्रण उपवास	वे उपवास	वे उपवास
१९ प्रथमपारणानोआ०	हीर चोजन	हीर चोजन	हीर चोजन
२० पारणानां स्थान.	विश्वसेन	ब्रह्मदत्त	दिन्नकुमार
२१ केटलादिवसनांपा०	वे दिवस	वे दिवस	वे दिवस
२२ दीक्षातिथि.	मागशिरशुदि ११	फागणशुदि १२	अषाढ वदि ९
२३ ठगस्थकाल.	एक अहोरात्र	अगियार मास	नवमास
२४ ज्ञान नगरी.	मथुरा नगरी	राजगृही नगरी	मथुरा नगरी
२५ ज्ञानतप.	वे उपवास	वे उपवास	वे उपवास
२६ दीक्षावृद्ध.	अशोक वृद्ध	चंपकवृद्ध	वकुलवृद्ध
२७ ज्ञानतिथि.	मागशिरशुदि ११	फागण वदि १२	मागशिरशुदि ११

आ वाचन बोल प्रत्येक तीर्थं करोमां कहेटे.

१७) गणधर संख्या.	१८) गणधर	१९) गणधर	१९) गणधर
१७ साधुर्जनी संख्या.	४००००	३००००	२००००
१८ साध्वीयोनी संख्या.	५५०००	५००००	४१०००
१९ वैक्रियलब्धिवंत.	२५००	२०००	५०००
२० वादियोनी संख्या.	१४००	१२००	१०००
२१ अत्रधिज्ञानी संख्या.	२२००	१८००	१६००
२२ केवली संख्या.	२२००	१८००	१६००
२३ मनःपर्यव संख्या.	१७५०	१५००	१२५०
२४ चौदपूर्वी संख्या.	६६८	५००	४५०
२५ श्रावक संख्या.	१८३०००	१७२०००	१७००००
२६ श्राविका संख्या.	३७००००	३५००००	३४८०००
२७ शासन यद्गोनांनाम.	कुवेरयद्ग	वरुण यद्ग	चृकुटी यद्ग
२८ शासनयद्गणीनांनाम	धरणप्रिया	नरदत्ता	गंधारी
२९ प्रथम गणधर नाम.	अर्जीककगणधर	मह्वीगणधर	शुभगणधर
३० प्रथम आर्या नाम.	बधुमती	पुष्पमती	अनिला
३१ मोक्ष स्थान.	समेतशिखर	समेतशिखर	समेतशिखर
३२ मोक्ष तिथि.	फागण शुद्धि १२	ज्येष्ठ वदि ए	वैशाखवदि १०
३३ मोक्ष संक्षेपणा.	एकमास	एक मास	एकमास
३४ मोक्ष आसन.	काउस्तग	काउस्तग	काउस्तग
३५ अंतरमान.	५४००००० वर्ष.	६००००० वर्ष	५००००० वर्ष
३६ गण नाम.	देवगण	देवगण	देवगण
३७ योनि नाम.	अश्वयोनि	वानरयोनि	अश्वयोनि
३८ मोक्ष परिवार.	५०० परिवार	१००० परिवार	१००० परिवार
३९ जव. संख्या.	त्रण जव कस्या	त्रण जव कस्या	त्रणजव कस्या
४० कुलगोत्र नाम.	इक्ष्वाकुवंश कुल	इक्ष्वाकुवंशकुल	इक्ष्वाकुवंशकुल
४१ गर्जकालमान.	मास ए दिवस ७	मास ए दिवस ७	मास ए दिवस ८

आ वावन बोल प्रत्येक तीर्थकरमां कहेते.

१ श्रीतीर्थकरनाम.	२१ श्रीनेमिनाथ	२३ श्रीपार्श्वनाथ	२४ श्रीमहावीर
२ च्यवनतिथि.	कार्तिकवदि १२	चैत्रवदि ४	आषाढशुदि ६
३ विमाननाम.	अपराजित	प्राणत देवलोक	प्राणतदेवलोक
४ जन्मनगरी.	सौरिपुर	वणारसी	क्षत्रियकुंड
५ जन्मतिथि.	श्रावणशुदि ५	पौषवदि १०	चैत्रवदि १३
६ पितानां नाम.	समुद्र विजय	अश्वसेन	सिद्धार्थराजा
७ मातानां नाम.	शिवा देवी	वामा देवी	त्रिशला देवी
८ जन्मनक्षत्र.	चित्रानक्षत्र	विशाखा नक्षत्र	उत्तरा फाट्युनी
९ जन्मराशि.	कन्याराशि	तुला राशि	कन्याराशि
१० लांठन नाम.	शंखनुं लांठन	सर्पनुं लांठन	केशरी लांठन
११ शरीरनुं मान.	दशधनुष	नवहाथ	सातहाथ
१२ आयुनुंप्रमाण.	हजारवर्ष	शो वर्ष	वहोत्तेर वर्ष
१३ शरीरनावर्ण.	श्यामवर्ण	नीलो वर्ण	पीलो वर्ण
१४ पदवीराजानी.	कुमार पदवी	कुमारपदवी	कुमार पदवी
१५ पाणिग्रहण.	नर्त्री परण्या	परण्या	परण्या
१६ केटलासाथेदीक्षा.	१०००) साधु	(३०० साधु	एकाकी दीक्षा
१७ दीक्षानगरी.	सौरिपुर	वणारसी	क्षत्रियकुंड
१८ दीक्षातप.	वे उपवास	वे उपवास	वे उपवास
१९ प्रथमपारणानोआ.	दीरजोजन	दीरजोजन	दीरजोजन
२० पारणानांस्थान	वरदिन्न	धन्यनाम	बहुल ब्राह्मण
२१ केटलादिवसनुंपारणुं	वे दिवस	वे दिवस	वे दिवस
२२ दीक्षातिथि.	श्रावण शुदि ६	पौषवदि ११	मागशिर वदि ११
२३ ठगस्थकाल.	चोपनदिवस	चोराशी दिवस	वार वर्ष
२४ ज्ञाननगरी.	गिरनार	वणारसी	रुजुवालुका नदी
२५ ज्ञानतप.	त्रण उपवास	त्रण उपवास	वे उपवास
२६ दीक्षावृक्ष.	वेडसवृक्ष	धातकीवृक्ष	शालवृक्ष
२७ ज्ञानतिथि.	आशोवदि०)	चैत्रवदि ४	वैशाख शुदि १०

सीद्गजोन व्योम परोयत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मण्यप्रः किमासीद्गहनं गन्नीरं ” आ श्रुति ऋग्वेदनीठे, तथा “ आत्मा वा इदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चिन्मिपत् स ईदृक्त लोकानुसृज इति ” आ ऐतरेय ब्राह्मणनी श्रुति ठे; इत्यादि अनेक श्रुतियोथी सिद्ध थायठे के सृष्टिनी पेहेलां एक ईश्वर हता. न जगत् हतुं अथवा नहतुं जगतनुं कारण, एकज ईश्वर शुद्धस्वरूप हता. वली इसाइ तेमज मुसलमान मतवाला पण एमज माने ठे. ए हेतुथी अमे प्रथम पद्म मानियें ठीयें.

उत्तर- हे पूर्वपक्षि! आपनुं ए केहेतुं ईश्वरने बहुज कलंकित करेठे.

पूर्वपक्ष- जगत् रचवाथी ईश्वरने शुं कलंक प्राप्त थाय ठे ?

उत्तरपक्ष- प्रथम तो जगतनुं उपादान कारण नथी, ते हेतुथी जगत् कदापि उत्पन्न थइ शकतुं नथी. जेतुं उपादान कारण होय नहि ते कार्य कदापि उत्पन्न थइ शके नही. जेम के गधेडानां सींग.

पूर्वपक्ष- ईश्वरें पोतानी शक्ति, नामांतर कुदरतथी जगत् रचेल ठे. ईश्वरनी जे शक्ति ठे. तेज उपादान कारण ठे.

उत्तरपक्ष- ईश्वरनी जे शक्ति ठे ते ईश्वरथी जिन्न ठे, के अजिन्न ठे ? जो कहो के जिन्न ठे, तो पठी जड ठे के चेतन ठे ? जो कहो के जड ठे, तो ते नित्य ठे, के अनित्य ठे ? जो कहो के नित्य ठे तो आपनुं एम जे केहेतुं हतुं के सृष्टिनी पेहेलां एक केवल ईश्वर हता अने वीजी कांइण वस्तु न होती; ते प्रमाणरहित अन्यायी वचन थयुं, पोतेज पोताना वचनने मृपा कराव्युं. वली एम कहो के अनित्य ठे तो पठी तेनी उपादानकारणरूप वीजी ईश्वरनी शक्ति थइ, ते शक्तिनी उत्पन्न करनारी त्रीजी शक्ति थइ; एवीरीतें करतां अनवस्था दूषण आवे ठे. जो कहो के चेतन ठे, तो पठी नित्य ठे के अनित्य ठे ? वने पक्षमां उपर वताव्या मुजव पूर्वापर स्ववचन व्याहृत तेमज अनवस्था दूषण ठे. जो कहो के ईश्वरशक्ति ईश्वरथी अजिन्न ठे तो सर्ववस्तुने, ईश्वरज केहेवी जोश्ये, जो सर्ववस्तु ईश्वर वनी गइ तो पठी सारुं के बुरुं, नरकके खर्ग, पुण्य के पाप, धर्म के अधर्म, उंचनीच, रंकराजा, सुशील के दुःशील, राजा तेमज प्रजा, चोर तेमज साधु, सुखी तेमज दुःखी इत्यादि सर्व, ईश्वर पोतेज वन्या. हवे विचारो के ईश्वरें जगत् शुं रच्युं ? पोतेज

पोतानुं सत्तानाश करी लीधुं. आ प्रथम कलंक ईश्वरने लागे ठे, तथा ज्यारें ईश्वर पोतेज सर्वरूप वनी गया तो पठी वेदादि शास्त्र शा माटे वनाव्यां ? तेमज तेनो अन्यास करवाथी शुं फल थयुं ? आ वीजुं कलंक; तथा ज्यारे वेदादि शास्त्र वनाव्यां त्यारें पोते पोताने ज्ञानी वनाववाने रच्यां ते उपरथी सिद्ध थयुं के प्रथम तो पोते अज्ञानी हता. आ वीजुं कलंक; तथा शुरु हता ते अशुरु वन्या कारण के जगतरूप वनवानी मेहेनत करी जे निष्फल थई. आ चोथुं कलंक; कोइ वस्तु जगत्मां सारी के बुरी नहि, आ पांचसुं कलंक; शा माटे पोते पोताने संकटमां नाख्या. आ ठहुं कलंक; इत्यादि अनेक कलंक आप ईश्वरने लगावो ठो.

पूर्वपक्ष—ईश्वर सर्वशक्तिमान् ठे, ते हेतुथी ईश्वर, उपादान कारण विनापण जगत् रची शकेठे.

उत्तरपक्ष—आ जे आपनुं केहेवुं ठे ते प्यारी स्त्री अथवा मित्र मानशे परंतु प्रेक्षावान् कोईपण नहि माने; कारण के आ तमारा केहेवामां कोईपण प्रमाण नथी. जेनुं उपादानकारण होय नहि ते कार्य कदी थई शके नहि. जेम के गधेडानां सींग, एवुं प्रमाण आपना केहेवाने बाधक ठे परंतु साधक तो कोई नथी, तेम ठतां हठ करी स्वकपोलकटिपतनेज मानशो तो प्रेक्षावाननी पंक्तिमां कदापि दाखल नहि थई शको. तेमज आ तमारा कथनमां इतरेतर आश्रय दूपणरूप वजनो प्रहार पडे ठे. जेम के सृष्टिनी पेहेलां उपादानादि सामग्रीरहित केवल शुरु, एक ईश्वर सिद्ध थाय तो सर्वशक्तिमान् सिद्ध थाय, जो सर्वशक्तिमान् सिद्ध थाय तो सृष्टिनी पेहेलां उपादानादि सामग्रीरहित केवल शुरु, एक ईश्वर सिद्ध थाय; आ वनेमांथी ज्यां सुधी एक सिद्ध न थाय त्यांसुधी वीजुं कदीपण सिद्ध न थाय. तेमज आ तमारा कथनमां चक्रक दूपण आवे ठे, सृष्टिकर्ता सिद्ध थाय तो सर्वशक्तिमान् सिद्ध थाय. ज्यारें सर्व शक्तिमान् सिद्ध थाय त्यारें सृष्टिनी पेहेलां सामग्रीरहित केवल शुरु एक ईश्वर सिद्ध थाय, ज्यारे एम थाय त्यारे सृष्टिकर्ता सिद्ध थाय, एम प्रगट चक्रक दूपण आवे ठे.

पूर्वपक्ष—ईश्वर तो प्रत्यक्ष प्रमाणथी सिद्ध ठे, पठी आप तेने सृष्टिकर्ता केम नथी मानता ?

उत्तरपक्ष—जो ईश्वर सृष्टिना कर्ता प्रत्यक्ष प्रमाणयी सिद्ध थाय तो कोइने पण अमान्य न होय, अने तमारो अमारो ईश्वरविषयी विवाद पण कदी न होय, कारण के प्रत्यक्षमां विवाद होतोज नयी. परंतु ईश्वरनुं प्रत्यक्ष दर्शन तो आपना वेदमंत्रयी विरुद्ध ठे. वेदमंत्र. अषाणिपादो जवनो ग्रहीता, पश्यत्यचक्षुस्तशृणोत्यकर्णः ॥ सवेत्ति विश्वं नच तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरउयं पुरुषं पुराणम् ॥ आ मंत्रयी साधीत थाय-ठे के ईश्वरने जाणनार कोइ ठे नहि.

पूर्वपक्ष—कर्ता विना जगत् केम थइ गयुं ? आ अनुमान प्रमाणयी ईश्वर सृष्टिकर्ता सिद्ध थाय ठे, ते आप केम नयी मानता ?

उत्तरपक्ष—आ आपना अनुमाननुं बीजा ईश्वरपक्षमां खंडन करवामां आवशे. उपर वतावेला प्रकारयी एकं केवल उपादानादि सामग्री रहित, सृष्टिनी पेहेलां ईश्वर सिद्ध न थया तो पण अमे आगल चलावियें ठियें. ज्यारे ईश्वरें आ जीवोने रच्या हता त्यारे १ निर्मल रच्या हता ? २ पुण्यवाला रच्या हता ? ३ पापवाला रच्या हता ? ४ मिश्रित पुण्यपाप अर्धों अर्धवाला रच्या हता ? ५ पुण्य अल्प पाप अधिक एवा रच्या हता ? ६ किंवा पुण्य अधिक पाप अल्प एवा रच्या हता ? जो प्रथम पक्ष ग्रहण करशो तो जगत्मां सर्व जीव निर्मलज होवा जोइये, पठी वेदादि शास्त्रद्वारा तेउने उपदेश करवो घ्या ठे. तेमज वेदादि शास्त्रोना कर्ता पण मूढ सिद्ध थशे. कारण के जो प्रथमयीज जीव निर्मल ठे तो तेउने माटे शास्त्र शा माटे रच्यां ? जे वत्र निर्मल होय ठे तेने काइपण बुद्धिमान् धोता नयी. जो कदापि धोवे तो ते महामूढ ठे. आ कारणयी जे निर्मल जीवोना उपदेश निमित्त शास्त्र रचे ते पण मूढ ठे.

पूर्वपक्ष—ईश्वरें तो जीवोने शुद्ध निर्मल अर्थात् सारा वनाव्या हता, परंतु जीवोए पोतानी इच्छायी सारां अथवा चूडां कामो करी लीधां ठे, तेमां ईश्वरनो कांइ दोष नहि.

उत्तरपक्ष—जो ईश्वरें जीवोमां सारां अथवा वुरां काम करवानी शक्ति रची न होती तो पठी जीवोमां पुण्य अथवा पाप करवानी शक्ति क्यांधी आवी ?

पूर्वपक्ष—शक्तियो तो जीवमां सर्व ईश्वरेंज रची ठे, परंतु जीवोने वुरां

काम करवामां प्रवर्त्ताव्या नथी. बुरां काम करवामां जीव पोतेज प्रवृत्त थयेलठे. जेम के कोइ गृहस्थें पोताना प्रिय बालक पुत्रने खेलवा माटे एक रमकडुं दीधुं, हवे जो ते बालक ते खेलवानी वस्तुथी पोतानी आंख खोवे तो तेमां तेना पितानो शुं दोष ठे ? तेवीज रीतें ईश्वरें जीवोने जे हाथ, पग प्रमुख वस्तुउं आपीठे ते नित्य केवल धर्म करवाने वास्ते आपेढी ठे, पठी जे जीव पोतानी इच्छाथी ते वस्तुने पापकर्ममां प्रवर्त्तावे तो तेमां ईश्वरनो शुं दोष ठे ?

उत्तरपद्द-हे जव्य ? आ जे तमे बालकनुं दृष्टांत आप्थुं ते समीचीन नथी. कारण के बालकना मातपिताने ए ज्ञान नथी के बालकने खेलवा वास्ते आपणें जे वस्तु आपियें ठियें ते खेलवानी वस्तुथी आ बालक पोतानी आंख फोडी नाखशे, जो कदापि बालकना मातपिताने ए ज्ञान होत के आ बालक खेलवानी वस्तुथी पोतानी आंख फोडी नाखशे तो ते माता पिता कदापि तेना हाथमां ते खेलवानी वस्तु आपत नहि, जो कदी जाणवा ठतां आपे तो ते तेनां मातपिता नथी परंतु परम शत्रु ठे. तेवीज रीतें ईश्वर मातपिता तुल्य ठे अने तमे अमे तेनां बालक ठियें. जो ईश्वर जाणता हता के में आ जीवोने रच्या, तेउने हाथ, पग, मन इंड्रियादि सामग्री आपी ठे, आ जीव ते सामग्रीथी बहु पाप करीने नरकमां जानार ठे, तो पठी ईश्वरें ते जीवने शा माटे रच्यो ? जो कदी एम कहो के ईश्वर ए वात जाणता न होता के में धर्म करवाने आपेढी सामग्रीथी पाप करीने ते जीव नरकमां जाशे, तो पठी ईश्वर आपना केहेवाथीज अज्ञानी, असर्वज्ञ, सिद्ध थाय ठे. जो कदी एम कहो के ईश्वर जाणता हता के आ जीव मारी आपेढी सामग्रीथी पाप करीने नरक जवानो ठे तो पठी अमने रचनार ईश्वर परम शत्रु थया के नहि ? प्रयोजन विना रांक जीवोने सामग्रीद्वारा पाप करावीने शा माटे तेउने नरकमां नाख्या ? ज्यारे सामग्रीद्वारा प्रथम पाप कराव्यां अने पठी नरकमां जवानी शिक्षा करी त्यारे आ तमारा केहेवाथी ईश्वर करतां अधिक अन्यायी कोइ नथी; कारण के प्रथम तो ते जीवने रच्यो, पठी नरकमां नाख्यो. वस आथीज तमे ईश्वरने अन्यायी,

असर्वज्ञ, निर्दय, अज्ञानी, वृथा मेहेनती इत्यादि कलंक दीधां. ते कारणथी निर्मल जीव ईश्वरें रच्या नथी ए प्रथम पद्दोत्तर.

द्वितीय पद्दोत्तर—जो एम कहो के ईश्वरें पुण्यवालाज जीव रच्यांठे तो ते पण तमारुं केहेवुं मिथ्या ठे. कारण के जो पुण्यवालाज सर्व जीव हता तो गर्जमांज अंधा, लंगडा, लूला, वहेरा, मूंगा होवापणुं, चूडुं रूप, नीच अथवा निर्धन कुलमां जन्मवा पणुं, जावजीव दुःखी रेहेवुं, खावा पीवाने पुरुं न मलवुं, महाकष्टकारक मेहेनत करी पेट जरवुं, आ सर्व पुण्यना उदयथी होइ शकतुं नथी, वली पुण्य कर्या विनाज जीवोने ईश्वरें पुण्य केम लगावी दीधुं ? जो कदी कर्या विनाज जीवोने ईश्वरें पुण्य लगावी दीधुं तो तेवीज रीतें धर्म कर्या विनाज जीवोने स्वर्ग तेमज मोक्ष केम नथी पहाँचाडी शकता ? शास्त्रोपदेश करावीने, भ्रूखें मरावीने, तृष्णा ठोडावीने, राग द्वेष मिटावीने, धरवार तजावीने, साधु बनावीने, टुकडा मगावीने, दया, दम, दान, सत्यवचन, चोरीनो त्याग, स्त्रीनो त्याग, इत्यादि अनेक साधन करावीने पठी स्वर्ग मोक्षमां पहाँचाडवा; आ संकट ईश्वरें फोकट उत्पन्न करीने जीवोने शा माटे दुःख दीधुं. आ वातथी तो ए प्रतीत थायठे के ईश्वरने कांइ समजण नथी.

तृतीय पद्दोत्तर— जो कदी एम कहो के ईश्वरें पापसंयुक्तज जीव रच्या ठे, तो पठी कर्या विनाज जीवोने पाप लगावी दीधां तेमां तो ईश्वरें अमारुं सत्तानाश करी दीधुं. हवे अमे कोनी पासे जइ विनति करियें के गुन्हा कर्या विना ईश्वर अमने पाप लगावे ठे, जेथी आप तेमने मना करो के कर्याविना अमने पाप न लगावे; एवा अन्यायी ईश्वरनुं तो कदी नाम पण लेवुं न जोइयें. तथा जो ईश्वरें पापसंयुक्तज सर्व जीव रच्या ठे, तो राजा, मंत्री, शेर, सेनापति, धनवान् इत्यादिना घरमां उत्पन्न थवुं, नीरोगी काया, सुंदर रूप, सुंदर शरीर, घरमां आदर सन्मान, बहार यशकीर्त्ति, पंचेंद्रिय, विषयजोग, इत्यादि सामग्री प्राप्त थवानो पापथी कदी संजव होतो नथी. ते कारणथी जीवोने केवल पापवान् ईश्वरें रच्या नथी. इति.

चतुर्थ पद्दोत्तर—जो एम कहो के अधोअर्ध पुण्य पापवाला जीव ई-

श्वरें रच्या ठे तो ते पक्ष पण यथार्थ नथी, कारण के अरधा सुखी अरधा दुःखी एवा पण सर्व जीव देखवामां आवता नथी. इति.

पंचम पक्षोत्तर— पांचमो पक्ष पण ठीक नथी, सुख थोडुं अने दुःख विशेष एवा पण सर्व जीव देखवामां नथी आवता, परंतु सुख विशेष अने दुःख अल्प, एवा बहु जीव देखवामां आवे ठे. इति.

षष्ठ पक्षोत्तर— ठठो पक्ष पण समीचीन नथी. सुख घणुं अने दुःख थोडुं एवा पण सर्व जीव देखवामां आवता नथी, दुःख बहु अने सुख अल्प, एवा बहु जीव देखवामां आवे ठे. आ हेतुंथी ईश्वर जीवोने कोइपण व्यवस्थावाला रची शकता नथी. तो पठी सृष्टिना कर्ता ईश्वर केम सिद्ध थइ शके ठे ? कदी थइ शकता नथी. तथा ज्यारे ईश्वरें सृष्टि रची न होती त्यारें ईश्वरने शुं दुःख हतुं ? अने ज्यारे सृष्टि रची त्यारे शुं सुख थयुं ?

पूर्वपक्ष—ईश्वर तो सदा परम सुखी ठे. शुं ईश्वरमां कांइ न्यूनता ठे के ते न्यूनताने पूर्ण करवा वास्ते सृष्टि रचे ठे. ते तो जगत्मां पोतानी ईश्वरता प्रगट करवाने सृष्टि रचे ठे.

उत्तर पक्ष—ज्यारें ईश्वरें सृष्टि रची न होती त्यारें तो ईश्वरनी ईश्वरता प्रगट न होती अने ज्यारे सृष्टि रची त्यारे ईश्वरता प्रगट थइ, तो प्रथम ज्यारें ईश्वरनी ईश्वरता प्रगट न होती थइ त्यारे तो ईश्वर बहुज उदास, तेमज अपूर्ण मनोरथवाला अने ईश्वरता प्रगट करवामां विह्वल हता. आ हेतुंथी अवश्य ईश्वरने दुःख होवुं जोइयें. ज्यारें ईश्वर सृष्टिनी पेहेलां एवा दुःखी हता त्यारे निरुद्यमी केम वेसी रह्या हता ? आ सृष्टिनी पेहेलां बीजी सृष्टि रचीने पोतावुं दुःख केम दूर करुं न होतुं ?

पूर्वपक्ष—ईश्वरें जे सृष्टि रची ठे ते जीवोने धर्म करावीने तेउने अनंत सुख देशे. आ परोपकार वास्ते ईश्वरें सृष्टि रची ठे.

उत्तरपक्ष—धर्म करावीने जीवोने सुख देवुं ते तो तमारा केहेवा मुजब परोपकार थयो, परंतु जेउं प्राप करीने नरकमां गया तेउना उपर शुं उपकार कयों ? तेउने दुःखी करवाथी शुं ईश्वर परोपकारी थइ शके ठे ?

पूर्वपक्ष—तेजने नरकमांथी काढीने पठी स्वर्गमां स्थापन करशे;

उत्तरपक्ष—तो पठी प्रथमज नरकमां केम जवा दीधा ?

पूर्वपक्ष—ईश्वरज सर्व पुण्यपापादि करावे ठे. जीवने आधीन कांइपण नथी. ईश्वर जे चाहे ठे ते करावे ठे. जेम काष्ठनी पुतळीने वाजीगर जेम चाहे ठे तेम नचावे ठे अने पुतळी स्वाधीन नथी तेम.

उत्तरपक्ष—जो जीवने कांइ आधीन नथी तो जीवने सारा नरसानुं फल पण न जोइयें. कारण के जो कोइ सरदार कोइ नोकरने फरमावे के तमे आ काम करो पठी नोकर सरदारना हुकम मुजब ते काम करे, अने ते काम सारुं अथवा नरसुं ठे तो शुं पठी ते सरदार ते नोकरने कांइ शिक्षा करी शके ठे ? कांइपण करी शकता नथी. तेवीज रीतें ईश्वरनी आज्ञार्थी जो जीवें पुण्य अथवा पाप कर्मां तो पठी पुण्य पापनुं फल जीवोने नज मलवुं जोइये. ज्यारें पुण्य पाप जीवनां कर्मां थतां नथी त्यारें स्वर्ग तेमज नरक पण जीवने न होवां जोइयें. पठी जीवने, नरक, स्वर्ग, तिर्यक् तेमज मनुष्य ए चार गति पण न होय. ज्यारे चार गति न होय त्यारे संसार पण न होय. जो संसार न होय तो वेद, पुराण, तौरे, तजबूर, इंजिल प्रमुख शास्त्र पण न होय. ज्यारें शास्त्र न होय त्यारें शास्त्रना उपदेशक पण न होय, ज्यारें शास्त्रना उपदेशक पण होय नहि त्यारे ईश्वर पण नहि. जो ईश्वरज नहि तो पठी सर्व शून्यता सिद्ध थइ. आ कलंक केम मटशे ?

पूर्वपक्ष—आ जगत् वाजीगरनी वाजी जेवुं ठे, अने ईश्वर तेना वाजीगर ठे. तेथी ईश्वर आ जगत्ने रचीने खेलथी क्रीडा करेठे. नरक, स्वर्ग, पुण्य तेमज पाप कांइ नथी.

उत्तरपक्ष—जो ईश्वरें क्रीडाने माटे जगत्नी रचना करी तो क्रीडाज मात्र तेनुं फल थवुं जोइयें. परंतु आ जगत्मां तो कुष्टी, रोगी, शोकी, धनहीन, बलहीन, महादुःखी इत्यादि महाप्रलाप करी रखाठे, जेठने देखीने दयावश थवाथी अमारां रोम उंचां थायठे. तो शुं पठी ईश्वरने आ दुःखी जीवोने देखीने दया नथी आवती ? जो ईश्वरने दया नथी आवती तो पठी निर्दयपण कदी ईश्वर थइ शकेठे ? वली जे क्रीडा करवा वाला ठे ते वालकनी पेटे रागी, छेपी, अज्ञानी होय ठे. जो राग छेप ठे

पोतानुं सत्तानाश करी लीधुं. आ प्रथम कलंक ईश्वरने लागे ठे, तथा ज्यारें ईश्वर पोतेज सर्वरूप वनी गया तो पठी वेदादि शास्त्र शा माटे वनाव्यां ? तेमज तेनो अज्यास करवाथी शुं फल थयुं ? आ वीजुं कलंक; तथा ज्यारे वेदादि शास्त्र वनाव्यां त्यारें पोते पोताने ज्ञानी वनाववाने रच्यां ते उपरथी सिद्ध थयुं के प्रथम तो पोते अज्ञानी हता. आ वीजुं कलंक; तथा शुद्ध हता ते अशुद्ध बन्धा कारण के जगतरूप वनवानी मेहेनत करी जे निष्फल थई. आ चोथुं कलंक; कोइ वस्तु जगत्मां सारी के बुरी नहि, आ पांचमुं कलंक; शा माटे पोते पोताने संकटमां नाख्या. आ ठहुं कलंक; इत्यादि अनेक कलंक आप ईश्वरने लगावो ठे.

पूर्वपक्ष-ईश्वर सर्वशक्तिमान् ठे, ते हेतुथी ईश्वर, उपादान कारण विनापण जगत् रची शकेठे.

उत्तरपक्ष-आ जे आपनुं केहेवुं ठे ते प्यारी स्त्री अथवा मित्र मानशे परंतु प्रेक्षावान् कोईपण नहि माने; कारण के आ तमारा केहेवामां कोईपण प्रमाण नथी. जेनुं उपादानकारण होय नहि ते कार्य कदी थई शके नहि. जेम के गधेडानां सींग, एवं प्रमाण आपना केहेवाने बाधक ठे परंतु साधक तो कोई नथी, तेम ठतां हठ करी स्वकपोलकल्पितनेज मानशो तो प्रेक्षावाननी पंक्तिमां कदापि दाखल नहि थई शको. तेमज आ तमारा कथनमां इतरेतर आश्रय दूपणरूप वजनो प्रहार पडे ठे. जेम के सृष्टिनी पेहेलां उपादानादि सामग्रीरहित केवल शुद्ध, एक ईश्वर सिद्ध थाय तो सर्वशक्तिमान् सिद्ध थाय, जो सर्वशक्तिमान् सिद्ध थाय तो सृष्टिनी पेहेलां उपादानादि सामग्रीरहित केवल शुद्ध, एक ईश्वर सिद्ध थाय; आ वनेमांथी ज्यां सुधी एक सिद्ध न थाय त्यांसुधी वीजुं कदीपण सिद्ध न थाय. तेमज आ तमारा कथनमां चक्रक दूपण आवे ठे, सृष्टिकर्ता सिद्ध थाय तो सर्वशक्तिमान् सिद्ध थाय. ज्यारें सर्व शक्तिमान् सिद्ध थाय त्यारें सृष्टिनी पेहेलां सामग्रीरहित केवल शुद्ध एक ईश्वर सिद्ध थाय, ज्यारे एम थाय त्यारे सृष्टिकर्ता सिद्ध थाय, एम प्रगट चक्रक दूपण आवे ठे.

पूर्वपक्ष-ईश्वर तो प्रत्यक्ष प्रमाणथी सिद्ध ठे, पठी आप तेने सृष्टिकर्ता केम नथी मानता ?

उत्तरपक्ष— जो ईश्वर सृष्टिना कर्ता प्रत्यक्ष प्रमाणथी सिद्ध थाय तो कोइने पण अमान्य न होय, अने तमारो अमारो ईश्वरविषयी विवाद पण कदी न होय, कारण के प्रत्यक्षमां विवाद होतो ज नथी. परंतु ईश्वरनुं प्रत्यक्ष दर्शन तो आपना वेदमंत्रथी विरुद्ध ठे. वेदमंत्र. अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, पश्यत्यचक्षुस्सगृणोत्यकर्णः ॥ सचेति विश्वं नच तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम् ॥ आ मंत्रथी साधीत थाय-ठे के ईश्वरने जाणनार कोइ ठे नहि.

पूर्वपक्ष—कर्ता विना जगत् केम थइ गयुं? आ अनुमान प्रमाणथी ईश्वर सृष्टिकर्ता सिद्ध थाय ठे, ते आप केम नथी मानता ?

उत्तरपक्ष— आ आपना अनुमाननुं बीजा ईश्वरपक्षमां खंडन करवामां आवशे. उपर बतावेला प्रकारथी एक केवल उपादानादि सामग्री रहित, सृष्टिनी पेहेलां ईश्वर सिद्ध न थया तो पण अमे आगल चलावियें ठियें. ज्यारे ईश्वरें आ जीवोने रच्या हता त्यारे ? निर्मल रच्या हता ? २ पुण्यवाला रच्या हता ? ३ पापवाला रच्या हता ? ४ मिश्रित पुण्यपाप अर्धो अर्धवाला रच्या हता ? ५ पुण्य अल्प पाप अधिक एवा रच्या हता ? ६ किंवा पुण्य अधिक पाप अल्प एवा रच्या हता ? जो प्रथम पक्ष ग्रहण करशो तो जगत्मां सर्वे जीव निर्मलज होवा जोइये, पठी वेदादि शास्त्रद्वारा तेउने उपदेश करवो वृथा ठे. तेमज वेदादि शास्त्रोना कर्ता पण मूढ सिद्ध थशे. कारण के जो प्रथमधीज जीव निर्मल ठे तो तेउने माटे शास्त्र शा माटे रच्यां ? जे वस्त्र निर्मल होय ठे तेने कांइपण बुद्धिमान् धोता नथी. जो कदापि धोवे तो ते महामूढ ठे. आ कारणथी जे निर्मल जीवोना उपदेश निमित्त शास्त्र रचे ते पण मूढ ठे.

पूर्वपक्ष—ईश्वरें तो जीवोने शुद्ध निर्मल अर्थात् सारा वनाच्या हता, परंतु जीवोण पोतानी इच्छाथी सारां अथवा जूढां कामो करी लीधां ठे, तेमां ईश्वरनो कांइ दोष नहि.

उत्तरपक्ष—जो ईश्वरें जीवोमां सारां अथवा घुरां काम करवानी शक्ति रची न होती तो पठी जीवोमां पुण्य अथवा पाप करवानी शक्ति क्यांची आवी ?

पूर्वपक्ष—शक्तियो तो जीवमां सर्वे ईश्वरेंज रची ठे, परंतु जीवोने घुरां

पोतानुं सत्तानाश करी लीधुं. आ प्रथम कलंक ईश्वरने लागे ठे, तथा ज्यारें ईश्वर पोतेज सर्वरूप बनी गया तो पठी वेदादि शास्त्र शा माटे बनाव्यां ? तेमज तेनो अन्न्यास करवाथी शुं फल थयुं ? आ वीजुं कलंक; तथा ज्यारे वेदादि शास्त्र बनाव्यां त्यारें पोते पोताने ज्ञानी बनाववाने रच्यां ते उपरथी सिद्ध थयुं के प्रथम तो पोते अज्ञानी हता. आ त्रीजुं कलंक; तथा शुद्ध हता ते अशुद्ध बन्या कारण के जगत् रूप बनवानी मेहेनत करी जे निष्फल थई. आ चोथुं कलंक; कोइ वस्तु जगत् मां सारी के वुरी नहि, आ पांचमुं कलंक; शा माटे पोते पोताने संकटमां नाख्या. आ ठहुं कलंक; इत्यादि अनेक कलंक आप ईश्वरने लगावो ठे.

पूर्वपक्ष—ईश्वर सर्वशक्तिमान् ठे, ते हेतुथी ईश्वर, उपादान कारण विनापण जगत् रची शकेठे.

उत्तरपक्ष—आ जे आपनुं केहेवुं ठे ते प्यारी स्त्री अथवा मित्र मानशे परंतु प्रेक्षावान् कोईपण नहि माने; कारण के आ तमारा केहेवामां कोईपण प्रमाण नथी. जेनुं उपादान कारण होय नहि ते कार्य कदी थई शके नहि. जेम के गधेडानां सींग, एवं प्रमाण आपना केहेवाने बाधक ठे परंतु साधक तो कोई नथी, तेम ठतां हठ करी स्वकपोलकल्पितनेज मानशो तो प्रेक्षावाननी पंक्तिमां कदापि दाखल नहि थई शको. तेमज आ तमारा कथनमां ईतरेतर आश्रय दूपणरूप वजनो प्रहार पडे ठे. जेम के सृष्टिनी पेहेलां उपादानादि सामग्रीरहित केवल शुद्ध, एक ईश्वर सिद्ध थाय तो सर्वशक्तिमान् सिद्ध थाय, जो सर्वशक्तिमान् सिद्ध थाय तो सृष्टिनी पेहेलां उपादानादि सामग्रीरहित केवल शुद्ध, एक ईश्वर सिद्ध थाय; आ बंनेमांथी ज्यां सुधी एक सिद्ध न थाय त्यांसुधी वीजुं कदीपण सिद्ध न थाय. तेमज आ तमारा कथनमां चक्रक दूपण आवे ठे, सृष्टिकर्ता सिद्ध थाय तो सर्वशक्तिमान् सिद्ध थाय. ज्यारें सर्व शक्तिमान् सिद्ध थाय त्यारें सृष्टिनी पेहेलां सामग्रीरहित केवल शुद्ध एक ईश्वर सिद्ध थाय, ज्यारे एम थाय त्यारे सृष्टिकर्ता सिद्ध थाय, एम प्रगट चक्रक दूपण आवे ठे.

पूर्वपक्ष—ईश्वर तो प्रत्यक्ष प्रमाणथी सिद्ध ठे, पठी आप तेने सृष्टिकर्ता केम नथी मानता ?

उत्तरपक्ष—जो ईश्वर सृष्टिना कर्ता प्रत्यक्ष प्रमाणथी सिद्ध थाय तो कोइने पण अमान्य न होय, अने तमारो अमारो ईश्वरविषयी विवाद पण कदी न होय, कारण के प्रत्यक्षमां विवाद होतोज नथी. परंतु ईश्वरनुं प्रत्यक्ष दर्शन तो आपना वेदमंत्रथी विरुद्ध ठे. वेदमंत्र. अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, पश्यत्यचक्षुस्सगृणोत्यकर्णः ॥ सवेत्ति विश्वं नच तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम् ॥ आ मंत्रथी सावीत थाय-ठे के ईश्वरने जाणनार कोइ ठे नहि.

पूर्वपक्ष—कर्ता विना जगत् केम थइ गयुं ? आ अनुमान प्रमाणथी ईश्वर सृष्टिकर्ता सिद्ध थाय ठे, ते आप केम नथी मानता ?

उत्तरपक्ष—आ आपना अनुमाननुं बीजा ईश्वरपक्षमां खंडन करवामां आवशे. उपर वतावेला प्रकारथी एक केवल उपादानादि सामग्री रहित, सृष्टिनी पेहेलां ईश्वर सिद्ध न थया तो पण अमे आगल चलावियें ठियें. ज्यारे ईश्वरें आ जीवोने रच्या हता त्यारे १ निर्मल रच्या हता ? २ पुण्यवाला रच्या हता ? ३ पापवाला रच्या हता ? ४ मिश्रित पुण्यपाप अर्धों अर्धवाला रच्या हता ? ५ पुण्य अल्प पाप अधिक एवा रच्या हता ? ६ किंवा पुण्य अधिक पाप अल्प एवा रच्या हता ? जो प्रथम पक्ष ग्रहण करशो तो जगत्मां सर्व जीव निर्मलज होवा जोइये, पठी वेदादि शास्त्रद्वारा तेउने उपदेश करवो वृथा ठे. तेमज वेदादि शास्त्रोना कर्ता पण मूढ सिद्ध थशे. कारण के जो प्रथमथीज जीव निर्मल ठे तो तेउने माटे शास्त्र शा माटे रच्यां ? जे वख निर्मल होय ठे तेने कांइपण बुद्धिमान् धोता नथी. जो कदापि धोवे तो ते महामूढ ठे. आ कारणथी जे निर्मल जीवोना उपदेश निमित्त शास्त्र रचे ते पण मूढ ठे.

पूर्वपक्ष—ईश्वरें तो जीवोने शुद्ध निर्मल अर्थात् सारा वनाव्या हता, परंतु जीवोए पोतानी इच्छाथी सारां अथवा जूडां कामो करी लीधां ठे, तेमां ईश्वरनो कांइ दोष नहि.

उत्तरपक्ष—जो ईश्वरें जीवोमां सारां अथवा वुरां काम करवानी शक्ति रची न होती तो पठी जीवोमां पुण्य अथवा पाप करवानी शक्ति क्योथी आवी ?

पूर्वपक्ष—शक्तियो तो जीवमां सर्व ईश्वरेंज रची ठे, परंतु जीवोने वुरां

काम करवामां प्रवर्त्ताव्या नथी. बुरां काम करवामां जीव पोतेज प्रवृत्त थयेलठे. जेम के कोइ गृहस्थें पोताना प्रिय बालक पुत्रने खेलवा माटे एक रमकडुं दीधुं, हवे जो ते बालक ते खेलवानी वस्तुथी पोतानी आंख खोवे तो तेमां तेना पितानो शुं दोष ठे ? तेवीज रीतें ईश्वरें जीवोने जे हाथ, पग प्रमुख वस्तुज आपीठे ते नित्य केवल धर्म करवाने वास्ते आपेखी ठे, पठी जे जीव पोतानी इठाथी ते वस्तुने पापकर्ममां प्रवर्त्तावे तो तेमां ईश्वरनो शुं दोष ठे ?

उत्तरपद—हे ज्ञव्य ? आ जे तमे बालकनुं दृष्टांत आप्युं ते समीचीन नथी. कारण के बालकना मातपिताने ए ज्ञान नथी के बालकने खेलवा वास्ते आपणें जे वस्तु आपियें ठियें ते खेलवानी वस्तुथी आ बालक पोतानी आंख फोडी नाखशे, जो कदापि बालकना मातपिताने ए ज्ञान होत के आ बालक खेलवानी वस्तुथी पोतानी आंख फोडी नाखशे तो ते माता पिता कदापि तेना हाथमां ते खेलवानी वस्तु आपत नहि, जो कदी जाणवा ठतां आपे तो ते तेनां मातपिता नथी परंतु परम शत्रु ठे. तेवीज रीतें ईश्वर मातपिता तुल्य ठे अने तमे अमे तेनां बालक ठियें. जो ईश्वर जाणता हता के में आ जीवोने रच्या, तेउने हाथ, पग, मन इन्द्रियादि सामग्री आपी ठे, आ जीव ते सामग्रीथी बहु पाप करीने नरकमां जानार ठे, तो पठी ईश्वरें ते जीवने शा माटे रच्यो ? जो कदी एम कहो के ईश्वर ए वात जाणता न होता के में धर्म करवाने आपेखी सामग्रीथी पाप करीने ते जीव नरकमां जाशे, तो पठी ईश्वर आपना केहेवाथीज अज्ञानी, असर्वज्ञ, सिद्ध थाय ठे. जो कदी एम कहो के ईश्वर जाणता हता के आ जीव भारी आपेखी सामग्रीथी पाप करीने नरक जवानो ठे तो पठी अमने रचनार ईश्वर परम शत्रु थया के नहि ? प्रयोजन बिना रांक जीवोने सामग्रीद्वारा पाप करावीने शा माटे तेउने नरकमां नाख्या ? ज्यारे सामग्रीद्वारा प्रथम पाप कराव्यां अने पठी नरकमां जवानी शिक्षा करी त्यारे आ तमारा केहेवाथी ईश्वर करतां अधिक अन्यायी कोइ नथी; कारण के प्रथम तो ते जीवने रच्यो, पठी नरकमां नाख्यो. वस आथीज तमे ईश्वरने अन्यायी,

असर्वज्ञ, निर्दय, अज्ञानी, वृथा मेहेनती इत्यादि कलंक दीधां. ते कारणथी निर्मल जीव ईश्वरें रच्या नथी ए प्रथम पद्दोत्तर.

द्वितीय पद्दोत्तर—जो एम कहो के ईश्वरें पुण्यवालाज जीव रच्याते तो ते पण तमारुं केहेवुं मिथ्या ठे. कारण के जो पुण्यवालाज सर्व जीव हता तो गर्जमांज अंधा, लंगडा, लूला, वहेरा, मूंगा होवापणुं, चूडुं रूप, नीच अथवा निर्धन कुलमां जन्मवा पणुं, जावजीव दुःखी रेहेवुं, खावा पीवाने पुरुं न मलवुं, महाकष्टकारक मेहेनत करी पेट जरवुं, आ सर्व पुण्यना उदयथी होइ शकतुं नथी, वली पुण्य कर्या विनाज जीवोने ईश्वरें पुण्य केम लगावी दीधुं ? जो कदी कर्या विनाज जीवोने ईश्वरें पुण्य लगावी दीधुं तो तेवीज रीतें धर्म कर्या विनाज जीवोने स्वर्ग तेमज मोक्ष केम नथी प्होंचाडी शकता ? शास्त्रोपदेश करावीने, जूखें मरावीने, तृष्णा ठोडावीने, राग द्वेष मिटावीने, धरवार तजावीने, साधु वनावीने, टुकडा मगावीने, दया, दम, दान, सत्यवचन, चोरीनो त्याग, स्त्रीनो त्याग, इत्यादि अनेक साधन करावीने पठी स्वर्ग मोक्षमां प्होंचाडवा; आ संकट ईश्वरें फोकट उत्पन्न करीने जीवोने शा माटे दुःख दीधुं. आ वातथी तो ए प्रतीत थायठे के ईश्वरने कांइ समजण नथी.

तृतीय पद्दोत्तर— जो कदी एम कहो के ईश्वरें पापसंयुक्तज जीव रच्या ठे, तो पठी कर्या विनाज जीवोने पाप लगावी दीधां तेमां तो ईश्वरें अमारुं सत्तानाश करी दीधुं. हवे अमे कोनी पासे जइ विनति करियें के गुन्हा कर्या विना ईश्वर अमने पाप लगावे ठे, जेथी आप तेमने मना करो के कर्याविना अमने पाप न लगावे; एवा अन्यायी ईश्वरनुं तो कदी नाम पण लेवुं न जोश्यें. तथा जो ईश्वरें पापसंयुक्तज सर्व जीव रच्या ठे, तो राजा, मंत्री, शेठ, सेनापति, धनवान् इत्यादिना घरमां उत्पन्न थवुं, नीरोगी काया, सुंदर रूप, सुंदर शरीर, घरमां आदर सन्मान, बहार यशकीर्ति, पंचेंद्रिय, विषयजोग, इत्यादि सामग्री प्राप्त थवानो पापथी कदी संभव होतो नथी. ते कारणथी जीवोने केवल पापवान् ईश्वरें रच्या नथी. इति.

चतुर्थ पद्दोत्तर—जो एम कहो के अधोऽर्ध पुण्य पापवाला जीव ई-

श्वरें रच्या ठे तो ते पद्द पण यथार्थ नथी, कारण के अरधा सुखी अरधा दुःखी एवा पण सर्व जीव देखवामां आवता नथी. इति.

पंचम पद्दोत्तर— पांचमो पद्द पण ठीक नथी, सुख थोडुं अने दुःख विशेष एवा पण सर्व जीव देखवामां नथी आवता, परंतु सुख विशेष अने दुःख अल्प, एवा बहु जीव देखवामां आवे ठे. इति.

षष्ठ पद्दोत्तर— ठाठो पद्द पण समीचीन नथी. सुख घणुं अने दुःख थोडुं एवा पण सर्व जीव देखवामां आवता नथी, दुःख बहु अने सुख अल्प, एवा बहु जीव देखवामां आवे ठे. आ हेतुंथी ईश्वर जीवोने कोइपण व्यवस्थावाला रची शकता नथी. तो पठी सृष्टिना कर्त्ता ईश्वर केम सिद्ध थइ शके ठे ? कदी थइ शकता नथी. तथा ज्यारे ईश्वरें सृष्टि रची न होती त्यारें ईश्वरने शुं दुःख हतुं ? अने ज्यारे सृष्टि रची त्यारे शुं सुख थयुं ?

पूर्वपद्द—ईश्वर तो सदा परम सुखी ठे. शुं ईश्वरमां कांइ न्यूनता ठे के ते न्यूनताने पूर्ण करवा वास्ते सृष्टि रचे ठे. ते तो जगत्मां पोतानी ईश्वरता प्रगट करवाने सृष्टि रचे ठे.

उत्तर पद्द—ज्यारें ईश्वरें सृष्टि रची न होती त्यारें तो ईश्वरनी ईश्वरता प्रगट न होती अने ज्यारे सृष्टि रची त्यारे ईश्वरता प्रगट थइ तो प्रथम ज्यारें ईश्वरनी ईश्वरता प्रगट न होती थइ त्यारे तो ईश्वर बहुज उदास, तेमज अपूर्ण मनोरथवाला अने ईश्वरता प्रगट करवामां विह्वल हता. आ हेतुथी अवश्य ईश्वरने दुःख होवुं जोइयें. ज्यारें ईश्वर सृष्टिनी पेहेलां एवा दुःखी हता त्यारे निरुद्यमी केम बेसी रह्या हता ? आ सृष्टिनी पेहेलां बीजी सृष्टि रचीने पोतानुं दुःख केम दूर कर्युं न होतुं ?

पूर्वपद्द—ईश्वरें जे सृष्टि रची ठे ते जीवोने धर्म करावीने तेजने अनंत सुख देशे. आ परोपकार वास्ते ईश्वरें सृष्टि रची ठे.

उत्तरपद्द—धर्म करावीने जीवोने सुख देवुं ते तो तमारा केहेवा मुजव परोपकार थयो, परंतु जेज पाप करीने नरकमां गया तेजना उपर शुं उपकार कर्यो ? तेजने दुःखी करवाथी शुं ईश्वर परोपकारी थइ शके ठे ?

पूर्वपक्ष—तेजने नरकमांथी काढीने पठी स्वर्गमां स्थापन करशे;

उत्तरपक्ष—तो पठी प्रथमज नरकमां केम जवा दीधा ?

पूर्वपक्ष—ईश्वरज सर्वे पुण्यपापादि करावे ठे. जीवने आधीन कांइपण नथी. ईश्वर जे चाहे ठे ते करावे ठे. जेम काष्ठनी पुतलीने वाजीगर जेम चाहे ठे तेम नचावे ठे अने पुतली स्वाधीन नथी तेम.

उत्तरपक्ष—जो जीवने कांइ आधीन नथी तो जीवने सारा नरसानुं फल पण न जोइयें. कारण के जो कोइ सरदार कोइ नोकरने फरमावे के तमे आ काम करो पठी नोकर सरदारना हुकम मुजब ते काम करे, अने ते काम सारुं अथवा नरसुं ठे तो शुं पठी ते सरदार ते नोकरने कांइ शिद्धा करी शके ठे ? कांइ पण करी शकता नथी. तेवीज रीतें ईश्वरनी आज्ञाथी जो जीवें पुण्य अथवा पाप कयां तो पठी पुण्य पापनुं फल जीवने नजं मलबुं जोइये. ज्यारें पुण्य पाप जीवनां कयां थतां नथी त्यारें स्वर्ग तेमज नरक पण जीवने न होवां जोइयें. पठी जीवने, नरक, स्वर्ग, तिर्यक् तेमज मनुष्य ए चार गति पण न होय. ज्यारे चार गति न होय त्यारे संसार पण न होय. जो संसार न होय तो वेद, पुराण, तौरे, तजवूर, इंजिल प्रमुख शास्त्र पण न होय. ज्यारें शास्त्र न होय त्यारें शास्त्रना उपदेशक पण न होय, ज्यारें शास्त्रना उपदेशक पण होय नहि त्यारे ईश्वर पण नहि. जो ईश्वरज नहि तो पठी सर्व शून्यता सिद्ध थइ. आ कलंक केम मटशे ?

पूर्वपक्ष—आ जगत् वाजीगरनी वाजी जेवुं ठे, अने ईश्वर तेना वाजीगर ठे. तेथी ईश्वर आ जगत्ने रचीने खेलथी क्रीडा करेठे. नरक, स्वर्ग, पुण्य तेमज पाप कांइ नथी.

उत्तरपक्ष—जो ईश्वरें क्रीडाने माटे जगत्नी रचना करी तो क्रीडाज मात्र तेनुं फल थबुं जोइयें. परंतु आ जगत्मां तो कुष्टी, रोगी, शोकी, धनहीन, वलहीन, महादुःखी इत्यादि महाप्रलाप करी रखाठे, जेउने देखीने दयावश थवाथी अमारां रोम उंचां थायठे. तो शुं पठी ईश्वरने आ दुःखी जीवने देखीने दया नथी आवती ? जो ईश्वरने दया नथी आवती तो पठी निर्दयपण कदी ईश्वर थइ शकेठे ? वली जे क्रीडा करवा वाला ठे ते बालकनी पेटे रागी, छेपी, अज्ञानी होय ठे. जो राग छेप ठे

तो तेमां सर्व दूषण ठे जो पोतेज श्रवणुणथी जरेला ठे तो ते ईश्वर शेना ?
ते तो संसारी जीवठे. वली जो राग द्वेषवाला हशे तो सर्वज्ञ कदापि न
हशे; जो सर्वज्ञ नहि तो तेने ईश्वर कोण कही शकेठे ?

पूर्वपक्ष-जीवोणं करेलां पुण्य पापने अनुसारें ईश्वर दंड दिये ठे, तेमां
ईश्वरने शुं दोष ठे ? जेवां जेणें (पुण्यपाप) कर्मां तेवां तेने फल दीधां.

उत्तरपक्ष-आ तमारा केहेवाथी, आ संसार अनादि सिद्ध थइ गयो,
वली ईश्वर कर्ता नहि एम सिद्ध थयुं. वाह रे मित्र ? पोते पोतानी
मलेज मात थया. कारण के जे जीव हाल ठे, अने जे कांइ तेउने अ-
हियां फल मलेल ठे, ते पूर्वजन्ममां करेलुं सिद्ध थयुं. वली जे पूर्व जन्म
हतो तेमां जे दुःख सुख जीवने मलेल हतुं, ते तेनी पेहेलांना पूर्वज-
न्ममां कखुं हतुं. तेवी रीतें पूर्व पूर्व जन्ममां दुःख सुख करवां अने
उत्तरोत्तर जन्ममां सुख दुःखने जोगववां, एम करतां संसार अनादि
सिद्ध थायठे. हवे विचारो के जगतना कर्ता ईश्वर केम सिद्ध थया ?

पूर्वपक्ष-अमें तो एकज परमब्रह्म पारमार्थिक सद्रूप मानियें ठियें.

उत्तर- जो एकज परम ब्रह्म सद्रूप ठे, तो पठी आ जे सरल, रसाल,
प्रियाल, हिंताल, ताल, तमाल, प्रवाल प्रमुख पदार्थ अग्रगामी पणे क-
री जे प्रतीत थाय ठे ते शा कारणथी सत्स्वरूप नथी.

पूर्वपक्ष-आ पूर्वोक्त पदार्थ जे प्रतीत थाय ठे ते सर्व मिथ्या ठे. ते-
मज अनुमानप्रपंच पण मिथ्या ठे. प्रतीत होवाथी जे एवा ठे ते एवा
ठे, जेम के सीप, चांदीरूप, तेवोज आ प्रपंच ठे. आ अनुमानथी प्रपंच
मिथ्यारूप ठे अने एक ब्रह्मज पारमार्थिक सद्रूप ठे.

उत्तरपक्ष- हे पूर्वपक्षि ! आ अनुमान केहेवाथी आप तीक्ष्ण बुद्धि-
मान् नथी, तेज हवे बताविये ठियें. आ जे प्रपंच तमे मिथ्यारूप माने-
ल ठे ते मिथ्या त्रण तरेहनुं होय ठे. एक तो अत्यंत असत् रूप, वीजुं
ठे तो कांइ अन्य, अने प्रतीति होय अन्य तरेहनी, अने त्रीजुं अनि-
र्वाच्य, आ त्रणे मिथ्यारूप प्रपंचमांथी कया प्रपंचने आप मानोठो ?

पूर्वपक्ष-आ त्रणे पक्षमांथी प्रथमना वे पक्षनो तो अमने स्वीकारज नथी त्रीजो
अनिर्वाच्य पक्ष अमें मानियें ठियें. तेथी आ प्रपंच अनिर्वाच्यमिथ्यारूप ठे !

उत्तरपक्ष—प्रथम तो आप ते कहो के अनिर्वाच्य शुं वस्तु ठे? अर्थात् आप अनिर्वाच्य कइ वस्तुने कहो ठो? (१) शुं वस्तुने केहेवावालो शब्द नथी? (२) अथवा शब्दनुं निमित्त नथी? प्रथमनो विकल्प तो कल्पनाज करवा योग्य नथी. आ सरल ठे, आ रसाल ठे, एवा शब्द तो प्रत्यक्ष सिद्ध ठे. वीजो विकल्प लहियें, तो शुं शब्दनुं निमित्त ज्ञान नथी? के पदार्थ नथी? प्रथम पक्ष तो समीचीन नथी. सरल, रसाल, ताल, तमाल, प्रमुखनुं ज्ञान तो प्राणी प्राणी प्रत्ये प्रतीत ठे. सर्व बुद्धिवंत जीव जाणे ठे के सरल, रसाल, ताल, तमाल प्रमुखनुं ज्ञान अमने ठे. वीजो पक्ष—पदार्थ जावरूप नथी? के अज्ञावरूप नथी? जो एम कहो के पदार्थ जावरूप नथी. अने प्रतीत थाय ठे, तो आपने विपरीत आख्याति मानवी पडी, अने अद्वैत-वादियोना मतमां विपरीत आख्याति मानवी ते महादूषण ठे. वीजो पक्ष-जो पदार्थ अज्ञावरूप नथी तो जावरूप सिद्ध थया, त्यारे तो सत्ख्याति मानवी पडी; अने ज्यारे अद्वैतमतनो अंगीकार कख्यो अने सत्ख्याति मानवी पडी त्यारे सत्ख्यातिना मानवाची अद्वैतमतना मूलने कुहाडा-थी कापी नाख्युं. एवी रीतें कदापि अद्वैतमत सिद्ध थशे नहि.

पूर्वपक्ष—जावरूप तथा अज्ञावरूप एं वंने प्रकारें वस्तु नथी.

उत्तरपक्ष—अमें आपने पुठियें ठियें के जाव तेमज अज्ञाव आ वंनेना अर्थ जे लोकमां प्रसिद्ध ठे तेज आपें मान्या ठे? के तेनाची विपरीत अन्य तरेहना अर्थ आपें मान्या ठे? जो कदी प्रथम पक्ष मानशो तो ज्यां जावनो निषेध करशो त्यां अवश्य अज्ञावने मानवो पडशे अने ज्यां अज्ञावनो निषेध करशो त्यां अवश्य जावने कबुल करवो पडशे; कारण के वंने परस्पर विरोधी ठे. तेथी एकनो निषेध वीजानो विधि अवश्य कबुल करावशे. ए रीतें अनिर्वाच्यता तो जड मूलथी नाश पामी. हवे वीजो पक्ष लेशो तो तेथी अमने कांइ हानि नथी, कारण के अलौकिक अर्थात् आपना मनःकल्पित शब्द तेमज शब्दनुं निमित्त जो नाश पामशे तो तेथी लौकिक शब्द तथा लौकिक शब्दनुं निमित्त कदापि नाश पामशे नहि; तो पठी अनिर्वाच्य प्रपंच केवी रीतें सिद्ध थशे? जो अनिर्वाच्य सिद्ध न थयो तो प्रपंच मिथ्या केम सिद्ध थायज? तो पठी एकज अद्वैत ब्रह्म पण केम सिद्ध थाय?

पूर्वपक्ष—अमें तो जे प्रतीत न थाय तेने अनिर्वाच्य कहियें ठियें.

उत्तरपक्ष—आ तमारा केहेवामां तो बहुज विरोध आवे ठे. जो कदी प्रपंच प्रतीत थतो नथी तो आपें पोताना प्रथम अनुमानमां प्रपंचने प्रतीयमान हेतुस्वरूपपणें शा माटे ग्रहण कस्यो ? अने प्रपंचने अनुमान करती वेला धर्मिपणे शा माटे ग्रहण कस्यो ? जो एम कदेशो के प्रपंचने धर्मिपणे अथवा प्रतीयमान हेतुपणे ग्रहण करवामां शुं दोष ठे ? तो पठी आपें उपर जे प्रतिज्ञा करी हती के अमे तो जे प्रतीत न होय तेने अनिर्वाच्य कहियें ठियें, तो हवे प्रपंच अनिर्वाच्य केवी रीतें सिद्ध थयो ? ज्यारे प्रपंच अनिर्वाच्य नहि त्यारे तो ज्ञावरूप अथवा तो अज्ञावरूप सिद्ध थशे. आ वंने पक्षमां कोइपण रूपें प्रपंच मानवाथी पूर्वोक्त विपरीताख्याति तथा सत्ख्याति रूप वंने दूषण वली आपना गलामां रसी नाखे ठे. हवे जागी कयां जशो ? वली अमे आपने पुठियें ठियें के आ प्रपंचने तमे जे अनिर्वाच्य मानोठो ते प्रत्यक्ष प्रमाणथी मानोठो ? के अनुमान प्रमाणथी ? प्रत्यक्ष प्रमाण तो आ प्रपंचने सत्स्वरूपज सिद्ध करेठे. जेवा जेवा पदार्थ ठे, तेवुं तेवुंज प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न थाय ठे. वली प्रपंचस्वरूप एवुं ठे के, परस्पर जुदी जुदी जे वस्तुं ठे ते पोत पोताना स्वरूपमां ज्ञावरूप ठे, अने वीजा पदार्थना स्वरूपनी अपेक्षायें अज्ञावरूप ठे. आ इतरेतर विविक्त वस्तुंनेज प्रपंच रूप मानेल ठे, तो पठी प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रपंचने अनिर्वाच्य केवी रीतें सिद्ध करी शके ठे ?

पूर्वपक्ष—उपर वतावेळ अमारो जे पक्ष ठे तेने प्रत्यक्ष कांइ पण हानि करी शकतुं नथी, कारण के प्रत्यक्ष तो विधायकज ठे. जो कदी प्रत्यक्ष एक वस्तुमां वीजी वस्तुना स्वरूपनो निषेध करे तो अमारा पक्षने वाध करनार ठरे, परंतु प्रत्यक्ष प्रमाण तो एवुं नथी. प्रत्यक्ष प्रमाण तो अन्य वस्तुमां अन्य वस्तुनुं स्वरूप निषेध करवाने वुंतुं (कुंठ) ठे.

उत्तर पक्ष—आ पण आपनुं कहेवुं असत्य ठे. अन्य वस्तुना स्वरूपनो निषेध कस्या विना प्रस्तुत वस्तुना यथार्थ स्वरूपनो कदापि बोध नहि थाय. पीडुं इत्यादि वर्णोना अज्ञावनो ज्यारे बोध थशे, त्यारेज काळुं एवा रूपनो बोध थशे. तेमज ज्यारे प्रत्यक्ष प्रमाणथी यथार्थ व-

स्तुस्वरूप ग्रहण करी शकाशे, त्यारेज अत्रय्य अपर वस्तुना स्वरूपनो निषेध पण त्यां जाणी शकाशे. जो कर्दी अन्य वस्तुना निषेधने अन्य वस्तुमां प्रत्यक्ष नहि जाणशो तो ते वस्तुना विधिस्वरूपने पण प्रत्यक्ष नहि जाणी शको, केवल जे वस्तुना स्वरूपने ग्रहण करवुं ठे तेज अन्य वस्तुना स्वरूपनुं निषेध करावुं ठे. ज्यारे प्रत्यक्ष प्रमाण विधि अने निषेध वनेने ग्रहण करे ठे, त्यारे तो प्रपंच मिथ्यारूप कदापि सिद्ध नहि थाय, ज्यारे प्रपंच मिथ्यारूप प्रत्यक्ष प्रमाणथी न सिद्ध थयो. त्या- रे पठी परम ब्रह्मरूप एकज अस्त तत्व केवी रीतें सिद्ध थयुं ? वली जो तमे प्रत्यक्षने नियमपूर्वक विधायकज मानशो तो तो विद्यानी पठे अविद्यानो पण विधि तमारे मानवो पडशे. हवे आ ब्रह्म अविद्यारहित प्रत्यक्ष प्रमाणथी ग्रहण कराय त्यारे तो अविद्या पण प्रत्यक्षथी निषेध ग्रहण थशे. पठी जे तमारुं एम केहेवुं ठे के प्रत्यक्ष जे ठे ते विधाय- कज ठे परंतु निषेधक नथी ते केवुं प्रमाणरहित उन्मत्तवचन ठे ? हवे जे अनुमान बताववामां थावे ठे तेथी सावीत थशे के आपना अ- नुमाननो पक्ष बाधित ठे. अमारुं अनुमान एवुं ठे के, प्रपंच मिथ्या नथी, असत्यथी विलक्षण होवाथी; जे असत्यथी विलक्षण ठे ते थावो ठे, जे- वो आत्मा ठे तेवोज आ प्रपंच ठे. तथा प्रतीयमान जे आपनां हेतु ठे ते ब्रह्मात्मानां साथे व्यञ्जिचारी ठे, जेम के ब्रह्मात्मा प्रतीयमान तो ठे परंतु मिथ्यारूप नथी, जो एम कहे के ब्रह्मात्मा अप्रतीयमान ठे तो वचनगोचर नहि थाय, जो वचनगोचर नथी तो तो आपने मुंगा वनवुं ठीक ठे, कारण के ब्रह्म विना बीजुं तो कांडू ठे नहि, अने जे ब्र- ह्मात्मा ठे ते प्रतीयमान नथी, तो पठी आपने अमे मुंगा विना बीजुं शुं कहियें ? प्रथम अनुमानमां आपें जे ठीपनुं दृष्टांत आप्युं ह्नुं ते सा- ध्यविकल ठे, कारण के जे ठीप ठे तेज प्रपंचनी अंतर्गत ठे, अने आप तो प्रपंचने मिथ्यारूप सिद्ध करवा चाहोठो, ते कदापि सिद्ध यइ शकतुं नथी. जे साध्य होय तेज दृष्टांतमां कही शकाय. जो ठीपनुं पण अत्यार सुधी सत् असत् पणुं सिद्ध नथी तो तेने दृष्टांतमां शा माटे लाववी जोइयें ? वली अमें आपने पुठियें ठियें के आ जे तमे प्रथम अनुमान, प्रपंचने मिथ्या

सिद्ध करवाने कस्युं हतुं ते अनुमान, प्रपंचथी जिन ते के अजिन ते ? जो कहो के जिन ते तो पठी सत्य ते के असत्य ते ? जो एम कहो के सत्य ते तो ते अनुमानना सत्यनी पेठे प्रपंच पण सत्यस्वरूपज ते. जो एम कहो के असत्यस्वरूप ते तो पठी शुं शून्य ते ? के अन्यथा ख्यात ते ? के अनिर्वचनीय ते ? प्रथमना वंने पद्ध तो कदापि साध्यना साधक नथी, मनुष्यना शृंगनी पेठे, तथा ठीपना रूपानी पेठे. अने त्रीजो जे अनिर्वचनीय पद्ध ते तेनो तो संभवज नथी; ते पोताना साध्यने केम सिद्ध करशे ?

पूर्वपद्ध—अमारुं जे अनुमान ते ते व्यवहार सत्य ते ते कारणथी असत्य नथी पठी पोताना साध्यने केम साधी शकतुं नथी ? मतलब के साधीज शकेते.

उत्तरपद्ध—अमे आपने पुठियें ठियें के आ व्यवहार सत्यनुं शुं स्वरूप ते ? व्यवहरतीति (व्यवहारः) एम जो तेनी व्युत्पत्ति करियें तो तो ज्ञाननुंज नाम व्यवहार ठसुं, ज्ञानथी जे सत्यते, ते पारमार्थिकज ते, आ पद्धमां सत् ख्यातिरूप प्रपंच सिद्ध थयो. ज्यारे प्रपंच सत् सिद्ध थयो त्यारे तो एकज परम ब्रह्म सद्रूप अद्वैत तत्व कोइ पण रीतें सिद्ध नहि थइ शके, जो कदी कहो के व्यवहार नाम शब्दनुं सत्य ते तो पठी आपने पुठियें ठियें के जो व्यवहार नाम शब्दनुं ते तो पठी शब्द, स्वरूपथी सत्यते ? के असत्य ते ? जो एम कहो के शब्द सत्स्वरूप ते तो शब्दनी पेठे प्रपंच पण सत्स्वरूप ते. जो एम कहो के शब्द असत् स्वरूप ते तो पठी ब्रह्मादि, शब्दथी कहां थकां केवी रीतें सत्स्वरूप थइ शकशे ? कारण के जे पोतेज असत्स्वरूपते ते वीजानी व्यवस्था करवाना के केहेवाना हेतुरूप कदी थइ शकता नथी.

पूर्वपद्ध—जेम खोटो रूपियो साचा रूपियानी जेम क्रयविक्रयादि व्यवहारमां चालवाथी साचो रूपियो मनायते, तेवीज रीतें अमारुं अनुमान अगर जो के असत्स्वरूपते तो पण जगतमां सत् व्यवहारथी प्रवर्त्तवाथी व्यवहार सत् ते, ते कारणथी पोताना साध्यने सिद्ध करनार ते.

उत्तरपद्ध—हे जव्य ! आ तमारा केहेवाथी तमारुं अनुमान पारमार्थिक असत्स्वरूप ते. पठी जे दूषण असत्पद्धमां आपेलां ते ते सर्व

अर्हीयां लागु पडेठे. जो एम कहेशो के अमे अनुमानने प्रपंचयी अजेद मानियें ठियें तो तो प्रपंचनी पेठे अनुमान पण मिथ्यारूप सिद्ध थयुं, पठी तो पोताना साध्यने केम साधी शकशे ? आ पूर्वोक्त विचारयी प्रपंच मिथ्यारूप नयी, परंतु आत्मानी पेठे सत् रूपठे, तो पठी एकज ब्रह्म अछेत तत्वठे आ तमारुं केहेयुं केवी रीतें सत्य थइ शकठे ? कदी सत्य थइ शकशे नहि.

पूर्वपक्ष-अमारी उपनिषदोमां तथा शंकर स्वामिना शिष्य आनंद-गिरि, शंकरदिग्विजयना त्रीजा प्रकरणमां लखेठे के:-“ परमात्मा जग-दुपादानकारणमिति ” परमात्मा जे ठे तेज आ सर्व जगत्तुं कारण ठे, कारण पण केवुं ? उपादान रूपठे. उपादान कारण तेने कहियें के जे कारण होय तेज कार्यरूप थइ जाय, आ केहेवाथी एम सिद्ध थयुं के जे कांइ जगत्तुं ठे ते सर्व कांइ परमात्माज पोते वनी गया ठे, तेथी जगत् परमात्मा रूपज ठे हवे तमे सृष्टिकर्ता ईश्वर केम नयी मानता ?

उत्तरपक्ष-वाह रे नास्तिकशिरोमणि ? आप जे कांइ कहो ठो ते विचार करीने कहो ठो के केम ? आ तमारा केहेवाथी तो पूर्ण नास्तिक-पणुं तमारा मतमां सिद्ध थाय ठे. जुळ. ज्यारे सर्व जगत्स्वरूप परमात्म रूपज ठे, त्यारे तो नयी कोइ पापी, के नयी कोइ धर्मी; नयी कोइ ज्ञानी के नयी कोइ अज्ञानी; नयी नरक के नयी स्वर्ग; नयी साधु के नयी चोर; नयी सत्शास्त्र के नयी मिथ्या शास्त्र; तेमज जेवा गोमांस जेही तेवाज अन्नजेही; जेवुं स्वकार्यासंग कामसेवन, तेवुंज माता, बेहेन, दीकरी संग कामसेवन, जेवा चंमाल तेवाज ब्राह्मण; जेवा गरुड तेवा संन्यासी, कारण के ज्यारे सर्व वस्तुना कारण ईश्वर परमात्माज ठयां त्यारे तो सर्व जगत् एकरस एक स्वरूप ठे, वीजुं तो कांइ ठे नहि.

पूर्वपक्ष-अमें तो एक ब्रह्म मानिये ठियें, अने एक माया मानिये ठियें, तेथी तमे जे उपर बहु आल जंजाल लख्युं ते सर्व मायाजन्य ठे, अने ब्रह्म तो सच्चिदानंद एकज शुद्धस्वरूप ठे.

उत्तरपक्ष-हे अछेतवादि ! आ जे तमे पक्ष मान्यो ठे ते बहुज असमीचीन ठे. जुळ. माया जे ठे ते ब्रह्मयी जिन ठे के अजिन ठे ? जां कहो के जिन ठे तो जड ठे के चेतन ठे ? जो जड ठे तो नित्य ठे के

अनित्य ठे ? जो कहो के नित्य ठे तो अद्वैतमतना मूलनेज जस्म करे ठे, कारण के ज्यारे ब्रह्मथी ज्ञेद रूप थइ, जडरूप थइ अने नित्यरूप थइ त्यारे तो पठी तमे पोते पोतानाज केहेवाथी द्वैतपंथ सिद्ध कख्यो अने अद्वैतपंथ जडमूलथी नाश पाभ्यो. जो एम कहो के अनित्य ठे तो द्वैतता कदी दूर नहि थाय, कारण के जे नाशवंत ठे ते कार्यरूप ठे, अने जे कार्य ठे ते कारणजन्य ठे, तो पठी ते मायानुं उपादान कारण शुं ठे ? ते केहेवुं जोइयें. जो एम कहो के वीजी माया तो तो अनवस्था दूषण ठे, अने अद्वैत त्रणे कालमां कदापि सिद्ध नहि थाय. जो कदी ब्रह्मनेज उपादान कारण मानशो तो तो ब्रह्मज पोते सर्व कांइ वनशे, वली पूर्वोक्त दूषण आव्यां. जो कदी मायाने चैतन्य मानशो तो पण तेनां तेज पूर्वोक्त दूषण आवशे, जो एम केहेशो के माया ब्रह्मथी अज्ञेद ठे तो तो ब्रह्मज केहेवुं जोइयें, माया नहि केहेवी जोइये.

पूर्वपक्ष—अमे तो मायाने अनिर्वचनीय मानिये ठियें.

उत्तरपक्ष—आ अनिर्वचनीय पक्षनुं उपर खंडन करी आव्या ठियें, तेवीज रीतें अहींयां करवुं. वली अनिर्वचनीय जे शब्द ठे तेमां निस् जे उपसर्ग ठे तेनो अर्थ तो निपेधरूप कख्यो ठे. कलाप व्याकरण जुठ. वाकी जे शब्द ठे ते या तो ज्ञावनो वाचक ठे अथ वा तो अज्ञावनो वाचक ठे ? जो ज्ञावनो निपेध करशो तो अज्ञाव आवशे अने जो अज्ञावनो निपेध करशो तो ज्ञाव आवी जशे. आ ज्ञाव अज्ञाव वे उपरांत त्रीजुं वस्तुनुं रूप कोइ नथी. ते कारणथी अनिर्वचनीय शब्द दंती पुरुषोए ठखरूप रंचेलो प्रतीत थाय ठे. आ केहेवाथी द्वैतज सिद्ध थयुं, अद्वैत नहि.

पूर्वपक्ष—आ जे अद्वैतमत ठे, तेना मुख्य आचार्य शंकरस्वामी ठे, जेणें सर्व मतोनुं खंफन करी अद्वैतमत सिद्ध करेल ठे, तो पठी एवा शंकरस्वामी, साक्षात् शिवना अवतार, सर्वज्ञ, ब्रह्मज्ञानी, शीलवान्, सर्व सामर्थ्ययुक्त, तेमना अद्वैतमतनुं खंफन करनार कोण ठे ?

उत्तरपक्ष—अहो वहाला मित्र !! आपनी समजण मुजब तो जरूर जेम आप कहो ठो तेमज ठे, परंतु शंकरस्वामिना शिष्य आनंदगिरियें शंकर दिग्विजयना अठावनमा प्रकरणमां शंकरस्वामिनुं जे वृत्तांत लखेल ठे ते

वांचवाची तो एम प्रतीत थाय ठे के शंकरस्वामी सर्वज्ञ नहि पण कामी ठे, अज्ञानी ठे, तेमज असमर्थ ठे. ते लखाण्यी एम पण प्रतीत थाय ठे के वेदांतियोनुं अद्वैत ब्रह्मज्ञान ज्यां सुधी आ स्थूलदेह रहे ठे त्यां सुधीज रहे ठे; परंतु आ शरीर वृद्ध्या पठी कोइ वेदांतियोने ब्रह्मज्ञान रेहेशे नहि.

पूर्वपद-ए केवुं शंकरस्वामिनुं वृत्तांत ठे जेथी तमारी पूर्वोक्त विना सिद्ध थाय ठे ?

उत्तरपद-जो आपने वृत्तांत सांजलवुं ठे तो अमारे ढील नथी. हम-णांज वतावियें ठियें. “ज्यारे शंकरस्वामियें मंडनमिश्रनो पराजय कयों, त्यारे मंरुनमिश्रें यतिव्रत लीधुं, अने मंडनमिश्रनी पत्नी सरसवाणी पोताना पतियें यतिव्रत लीधायी ब्रह्मलोकमां चाली, सरसवाणीने गमन करती देखीने शंकरस्वामियें जीवन दुर्गा मंत्रथी दिग्बंधन कळुं; पठी केहेवा लाग्या के हे सरसवाणि ! तुं ब्रह्मशक्ति ठो, ब्रह्मना अंशचूत मंरुनमिश्रनी तुं पत्नीठो, उपाधियकी सर्वने फलित ठो, ते कारणथी मारीसाथे प्रसंग लश्ने पठी तमारे गमन करवुं योग्य ठे. पठी सरसवाणीयें शंकरस्वामिने कळुं के पतिना संन्यासथी प्रथमज वैधव्य पणाना जयथी में पृथ्वी तजी ठे, तेथी हवे पृथ्वीनो स्पर्श नहि करूं. हे यति ! तुं तो पृथ्वीपर स्थित ठो तेथी तारा प्रसंगमाटे एकविषय स्थिति केम होय. एम शंकरस्वामिने केहेनारीने फरी शंकरस्वामियें कळुं के-हे माता ! तो पण पृथ्वीची उंचे ठ हाथ आकाशमां रहो अने मारी साथे सर्व वचननो प्रपंच संचार करीने पठी गमन करो. त्यारवाद शरु-आतमां शंकरस्वामि साथे सर्वशास्त्र, वेद, इतिहास, पुराणोविषे समय प्रसंग करीने शंकरनो तिरस्कार करवामाटे जेमां दुःखें प्रवेश थइ शके ठे एवुं जे कामशास्त्र तेना नायक तथा नायिकाज्जेद संबंधी, विस्तार पूर्वक सरसवाणी शंकरने पठवा लागी, परंतु शंकरस्वामी ते विषयने जाणता न होता तेथी उत्तर दइ शक्या नहि. मौन रखा. पठी सरसवाणी शंकरस्वामिने सत्य केहेवा लागी के आ शास्त्र तमारा जाणवामां आव्युं नथी. निश्चयपूर्वक ते शास्त्र तो हुंज जाणुं तुं. अबसरना जाणनार शंकर स्वामी/ हेवा लाग्या के-हे माता ! आप अहींयांज ठ महिना रहो, पठी ह अर्थनो निश्चय करी हुं तमारा प्रश्ननो उत्तर आपीश. त्यार-

वाद शंकरस्वामी आग्रहपूर्वक सरस वाणीने त्यांज आकाशमंडलमां स्थापन करीने तथा सर्व शिष्योने योग्य स्थानकें मोकळीने १ हस्तामलक २ पद्मपाद ३ विधिवत् ४ आनंदगिरि ए चार शिष्यो सहवर्तमान पूजाता थका ते नगरथी पश्चिमदिशा नामा गढमां गया. सरसवाणीना प्रश्नो नो उत्तर जाणवा माटे, ते नगरनो राजा मरी गयो हतो, अने तेनुं शरीर ते समये चितामां प्रज्वलित थतुं हतुं ते शरीरने देखीने, शंकरस्वामियें पोतानुं शरीर ते नगर पासेना एक पर्वतनी गुफामां स्थापन करीने शिष्योने कळुं के तमारे आ शरीरनुं रक्षण करुं, अने पोते परकायप्रवेश विद्याथी, लिंगशरीरसंयुक्त, अग्निमानसहित, ते राजाना शरीरमां ब्रह्मरंध्रथी प्रवेश कथ्यो. तत्काल राजा सजीवन थया, शीतोपचार कथ्यो, अने उत्सव करी तेने नगरमां लाव्या, राजा मृत्यु पाम्या नथी एम प्रसिद्ध करी दीथुं. हवे शंकर स्वामिने लोकोयें राज्यासनपर स्थापन कथ्या. पठी राज्यसिंहासनपरथी उठी स्वामिजी पट्टराणीना मेहेलमां गया. त्यां जइ राणीसाथे कामक्रीडा करवा लाग्या. हवे शंकरस्वामिनी कुशलताथी तेने आलिंगन करवाथी सुख संजोग उत्पन्न थयो, तेथी शंकरस्वामियें राणीना मुखनी साथे पोतानुं मुख जोड्युं, पोतानी ठाती राणीना वंने स्तनो पर लगाडी, तेवीज रीतें नाजि पण नाजि साथे जोडी, पोताना पगथी राणीना पग संकोच्या, अर्थात् जंघामां जंघा मेलवी, अर्थात् एक शरीरवत् थइ गया. वंने जणां अत्यंत गाढ आलिंगन करवा लाग्यां; शंकरस्वामी.राणीना कक्षास्थानमां हस्त स्पर्श करवाथी बहुज सुखमग्न थया. राणी तेना आलाप, चतुराई देखी चित्तमां विचारवा लागी के शरीरमात्रथी तो आ मारो पति ठे, परंतु तेनो जीव मारो पति नथी, आ कोइ सर्वज्ञ ठे. एवो विचार करीने राणीयें पोताना नोकरोने चारे दिशामां मोकळ्या एवा फरमानथी के पर्वत अथवा गुफामां वार योजन सुधीमां जे जे शरीर जीवरहित होय ते सर्व चितामां जसम करी थो. शंकरस्वामी विषयमां अत्यंत बुद्ध थया. राणीना नोकरो शंकरस्वामिना शरीरनुं रक्षण करनारा चार शिष्योने देखी ते शरीर लइ चितामां राखी तेने अग्निसंस्कार करवा लाग्या. शंकरस्वामिना चारे शिष्यो नगरमां आव्या, त्यां स्वामिजीने काम

खोलुप तथा विषयमां अति आसक्त देखीने राजा (शंकरस्वामी) सन्मुख नाटक करवा लाग्या. शंकरस्वामिने परोक्तिथी प्रतिबोध करवा लाग्या. ते परोक्ति नीचे मुजव.

(१) “ यत्सत्यमुख्यशब्दार्थानुकूलं, तत्त्वमसि तत्त्वमसि राजन् ! (२) नह्येतत्त्वं विदितं नृपु जावं, तत्त्वमसि तत्त्वमसि राजन् ! (३) विश्वोत्पत्त्यादिविधिहेतु तत्त्वं, तत्त्वमसि तत्त्वमसि राजन् ! (४) सर्वचिदात्मकं सर्वमद्भुतं, तत्त्वमसि तत्त्वमसि राजन् ? (५) परतार्किकैरीश्वरसर्वहेतु, तत्त्वमसि तत्त्वमसि राजन् ! (६) यद्भेदांतादिजिर्ब्रह्म सर्वस्यं, तत्त्वमसि तत्त्वमसि राजन् ! (७) यज्जैमिनिनोक्तमखिलकर्म, तत्त्वमसि तत्त्वमसि राजन् ! (८) यत् पाणिनिः प्राह शब्दस्वरूपं, तत्त्वमसि तत्त्वमसि राजन् (९) यत् सांख्यानां मतहेतुभूतं, तत्त्वमसि तत्त्वमसि राजन् ! (१०) अष्टांगयोगेन अनंतरूपं, तत्त्वमसि तत्त्वमसि राजन् ! (११) सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म तत्त्वमसि तत्त्वमसि राजन् ! (१२) नह्येतददृश्यप्रपंचं तत्त्वमसि तत्त्वमसि राजन् ! (१३) यद् ब्रह्मणोब्रह्मविपावीश्वराह्यजवन्, तत्त्वमसि तत्त्वमसि राजन् ! (१४) त्वद्रूपमेवमस्माजिर्विदितं राजन् ! तव पूर्वयत्याश्रमस्य म् ” आ परोक्तियोथी राजा प्रतिबोध पाम्या, सर्वे विद्यमान राजाना देहमांथी निकलीने चाढ्या गया, पर्वतनी कंदरामां शोधतां शरीर प्राप्त न थयुं, एटलामां विशेष शोध करतां शरीरने चितामां दीतुं, देखतांज तेमां कपालना मध्यथी प्रवेश कयों. शरीरनी आसपास चारे बाजुए अग्नि सलगतो हतो तेथी निकलबुं डुप्कर थयुं, एटले लक्ष्मीनृसिंहनी स्तुति करी, स्तुति करतांज लक्ष्मीनृसिंहें स्वामिजीने जीवता अग्निमांथी बहार काढ्या. इति.

हे जव्य ! हवे विचार करी जुठं. में आपने प्रथम जे कहुं हतुं ते सत्य ठे के नहि ? प्रथमं तो (१) ज्यारे सरसवाणीयें पुठेला प्रश्नो नो उत्तर शंकरस्वामी न आपी शक्या, ल्यारे हवे कयो बुद्धिमान् निप्पद्गपाती स्वामिजीने सर्वज्ञ कही शके ठे (२) वली ज्यारे पटराणी साथे विषयसेवन कहुं ल्यारे कामी केहेवामां कांइ पण शंका रहेठे ? (३) अने ज्यारे शिष्योयें आवीने प्रतिबोध कथ्यो ल्यारे अज्ञानी पण अवश्य सावीत थया. (४) अने ज्यारे चितामांथी निकली शक्या नहि, अने

काढवाने लक्ष्मीनृसिंहनी स्तुति करी अने लक्ष्मीनृसिंहें आवीने सखग-
ता अग्निमांथी काढ्या, त्यारे शंकरस्वामी असमर्थपण सिद्ध थया. हवे
ज्यारे शंकरस्वामियें फरीथी आवीने सरसवाणीना प्रश्नोना उत्तर आप्या,
त्यारे सरसवाणीयें कहुं—हे स्वामिन् ! तुं सर्वज्ञ ठो. जुळ के—मरण पामे-
लाना शरीरमां प्रवेश करीने, तेहनी राणी साथे विषयसेवन करीने, ते-
मज राणी पासेथी कांश्क कामशास्त्रनी वातो शीखीने शुं सर्वज्ञ थइ
शकाय ठे ? सर्वज्ञ तो थइ शक्या नहि, परंतु आ तो गळा उंटनो न्याय
थयो. सरसवाणीयें स्वामिने सर्वज्ञ कह्या, अने स्वामियें सरसवाणीने
सर्वज्ञ कही दीधी. वाह शुं सर्वज्ञोनी जोडी मली ? सरसवाणी ब्रह्मनी
शक्ति थइ, वली स्त्री वनीने मंडनमिश्रनी साथे विषयसेवन करवा ला-
गी, पाठी सर्वज्ञ पण वनी गइ, तेम शंकरस्वामी परस्त्री साथे विषयसे-
वन करी, कांश्क कामशास्त्र शीखी सर्वज्ञ थइ गया; आ ते गळाउंटनं
न्याय थयो के वीजुं शुं थयुं ? ज्यारे शंकरस्वामी पोतानुं स्थूल शरीर ठोर्ड
राजाना शरीरमां दाखल थया, अने ब्रह्मविद्या सवें चूली गया त्यारे तें
शिष्योने उपदेश करवो पड्यो. जो न चूली गया होत तो तेउने तत्वम
सिनो उपदेश करवानी शी जरुर हती ? ज्यारे शंकरस्वामी स्थूल शरीरने
वदली शक्या, अने परब्रह्मविद्याने चूली गया, त्यारे तो ब्रह्मविद्यानो
संबंध, न लिंगशरीरनी साथे रह्यो के न आत्मानी साथे रह्यो, परंतु
स्थूल शरीरनीज साथे रह्यो, तेथी एम सिद्ध थायठे के— ज्यारे वेदांती
मरण पामेठे त्यारे तेनुं ज्ञानपण नाश पामेठे. कारण के स्थूलशरीरनी
साथेज ज्ञाननो संबंध रहेठे, आत्मानी साथे रेहेतो नथी. वली आपें
एम कहुं हतुं के— शंकरस्वामियें प्रगट कथन करेला अद्वैत मतने कोण
खंन करी शकेठे ? तो हे नव्य ! ज्यारे शंकरस्वामिनुं चरित्रज असमं-
जसठे, तो पठी तेनो कथन करेलो मत कोण सयुक्तिक समजी शके ठे ?

पूर्वपक्षः— “पुरुषएवेदं” इत्यादि श्रुतियोथी अद्वैतज सिद्ध थायठे.

उत्तरपक्षः— आ पण तमारूं केहेवुं असत् ठे, कारण के जो पुरुषमा-
ध्ररूप अद्वैततत्व होय तो तो आ जे कोइ सुखी, कोइ दुःखी इत्यादि
देखायठे ते सर्व परमार्थथी असत् थइ जशे. ज्यारे एम थशे त्यारे आ
जे केहेवुं ठे के— “प्रमाणतोऽधिगम्य संसारनेर्गुणं तद्धिमुखया प्रज्ञया

तद्गुणेदाय प्रवृत्तिरित्यादि-अर्थः-संसारं निर्गुणपणं प्रमाणार्थी जाणीने, संसारार्थी विमुख बुद्धि यज्ञने, आ संसारनो उच्छेद करवामादे प्रवृत्ति करे. पठी आ केहेवुं ते आकाशना फुलना सुगंधनुं वर्णन करवा सरखुं ठे, कारण के ज्यारे अद्वैतरूपज तत्व ठे त्यारे तो नरकादि जवज्रमणरूप संसार क्यां रखो ? के संसारने निर्गुण जाणी तेनो उच्छेद करवानी प्रवृत्ति थाय.

पूर्वपक्षः- तत्त्वार्थी पुरुष अद्वैतमात्रज ठे, अने आ जे संसार निर्गुण वर्णन करेल ठे, ते जेम चित्रामण करेली स्त्रीनां सर्व अंगोपांग सारां नरसां प्रतीत थाय ठे तेमज सर्व संसार प्रतीत थायठे, सर्व जीवोने हमेशां तेमज प्रतिज्ञासन थइ रहेलठे. परंतु चित्रामण करेली स्त्रीना अंगोपांगना सारा नरसापणानी पेठे सर्व त्रांतिरूप अथवा त्रांतिजन्य ठे.

उत्तरपक्षः-आ जे तमारुं केहेवुं ते असत् ठे, आ यातमां कांइ वास्तविक प्रमाण नथी. जो कदि अद्वैत सिद्ध करवाने पृथग्भूत प्रमाण मानशो तो तो द्वैतापत्ति थशे, कारण के प्रमाण विना कोइनो पण मत सिद्ध थतो नथी, जो कदि प्रमाण विनाज सिद्ध मानशो, तो तो सर्व वादियो पोत पोताना मानेला मतने सिद्ध करी लेशे. वली त्रांति पण प्रमाणभूत अद्वैतार्थी जिन न मानवी जोइये, नहि तो प्रमाणभूत अद्वैत अप्रमाणज थइ जशे, त्रांति ज्यारे अद्वैतभुंज रूप थइ त्यारे तो पुरुष रूप थइ, अने त्रांतिस्वरूपवाला पुरुषज ठे नहि, त्यारे तत्त्वव्यवस्था तो कांइपण सिद्ध न थइ. जो कदि त्रांति जिन मानशो तो द्वैतापत्ति आवशे अने अद्वैत मतनी हानि थशे. जो कदी स्तंजने कुंजादिकथी जेद मानवो तेनेज त्रांति केहेशो तो निश्चयार्थी सत्स्वरूप कुंजादि कोइ जगें तो जरूर हशे. अत्रांतिने दीग विना कदापि त्रान्ति देखवामां आवशे नहि. पूवें जेणें साचो सर्प दीगो नथी तेने दोरडामां सर्पनी त्रांति कदापि नहि आवे. यथा-नाड दृष्टपूर्वसर्पस्य, रज्ज्वां सर्पमतिः क्वचित् ॥ ततः पूर्वानुसारित्वाद्, त्रांतिरत्रांतिपूर्विका ॥ १ ॥ आ कथनार्थी अद्वैत-तत्व खंरुन थइ गयुं. वली पुरुष अद्वैततत्त्व अवश्य बीजाने निवेदन करवुं, पोते पोताने नहि. पोतामां तो व्यामोह ठे नहि. जो कदी केहेनारमां व्यामोह होय तो तो अद्वैतनी प्रतिपत्ति (सिद्धि) कदापि नहि थाय.

पूर्वपक्षः—ज्यारे आत्माने व्यामोह ठे त्यारे तो अद्वैततत्त्वनो उपदेश कस्यो जाय ठे?

उत्तरपक्षः—ज्यारे आत्मानो व्यामोह दूर थशे त्यारे तो आत्मा अवश्य अवस्थांतरने प्राप्त थशे, ज्यारे अवस्था बदलाशे, त्यारे अवश्य द्वैतापत्ति थइ जशे. वली ज्यारे अद्वैत तत्त्वनो उपदेशक परने उपदेश करशे त्यारे अवश्य परने मानवो पडशे. पठी अद्वैततत्त्व परने निवेदन करवुं अने अद्वैततत्त्व मानवुं आ कथन तो मारो पिता कुंवारी (वाल) ब्रह्मचारी ठे तेना जेवुं थयुं. आ वचन केहेवाथी जन्मत्ताश्नो दोष आवशे. पोताने अने परने बंनेने जो मानशे तो द्वैतापत्ति अवश्य थशे. आ कारणथी अद्वैतमत युक्तिविकल ठे.

पूर्वपक्षः—परमब्रह्मरूप सिद्धि सकल जेदज्ञान प्रत्ययोना निरालंबनपणांनी सिद्धि ठे.

उत्तरपक्षः—आ कथन पण तमारुं ठीक नथी. कारण के परम ब्रह्मनीज सिद्धि नथी. जो ठे तो स्वतः सिद्धि ठे के परतः सिद्धि ठे ? स्वतः सिद्धि तो नथी, जो होय तो तो कोश्नो पण विवाद रहे नहि. जो परतः सिद्धि ठे तो शुं अनुमानथी ठे के आगमथी ठे ? जो कहो के अनुमानथी ठे तो ते अनुमान केवुं ठे ?

पूर्वपक्षः—ते अनुमान आ ठे. विवादरूप जे अर्थ ठे ते प्रतिज्ञासांत प्रविष्ट ब्रह्मज्ञासनी अंतर ठे, प्रतिज्ञासमान होवाथी, जे जे प्रतिज्ञासमान ठे ते ते प्रतिज्ञासांत प्रविष्ट देखायठे, जेम प्रतिज्ञास आत्मा प्रतिज्ञासमान ठे, सकल अर्थ सचेतन अचेतन विवादरूप ठे ते कारणथी प्रतिज्ञासांत प्रविष्टे. घटपटादि आ अनुमान ठे.

उत्तरपक्षः—आ अनुमान तमारुं सम्यक् नथी (१) धर्मी (२) हेतु (३) दृष्टांत आ त्रणे प्रतिज्ञासांत प्रविष्ट होवाथी साध्यरूपज थया.

पूर्वपक्षः—त्यारे तो (१) धर्मी (२) हेतु (३) दृष्टांत, आ त्रणेन नहि होवापणाथी अनुमानज नहि बनी शके. जो एम कहो के (१) धर्मी (२) हेतु (३) दृष्टांत आ त्रणे प्रतिज्ञासांत प्रविष्ट नथी, तो तेजनीज साथे हेतु, व्यञ्जिचारी थशे, जो एम कहो के अनादि अविद्या वासनाना घलथी हेतु दृष्टांत जे ठे ते प्रतिज्ञासना बाहिरनी पठे निश्चय

करेठे, जेम प्रतिपाद्य, प्रतिपादक, सजा, सजापति जननी पेठे, ते कार-
णथी अनुमान पण थइ शकेठे, अने ज्यारे सकल अनादि अविद्यानो
विलास दूर थइ जाशे त्यारे तो प्रतिज्ञासांत प्रविष्ट प्रतिज्ञास थशे.
विवाद पण नहि रहे, प्रतिपाद्य प्रतिपादक साध्य साधक जाय पण
रहेशे नहि. पठी तो अनुमान करवानुं पण कांइ फल नहि. आपज
अनुभवमान परमब्रह्म वने ठते देश काल अव्यवच्छिन्न स्वरूप प्रगट यतां
निर्व्यञ्जिचार, सकल अवस्था व्यापकपणा वाक्यामां अनुमाननो कांइ
प्रयोगज जोइतो नथी.

उत्तरपक्ष—जो अनादि अविद्या प्रतिज्ञासांत प्रविष्ट ठे तो तो विद्या
थइ गइ. त्यारे हंवे असत् रूप (१) धर्मी (२) हेतु (३) दृष्टांतआदि
जेद केम देखी शकाय. जो कहो के प्रतिज्ञासनी बाहिरभूत ठे तो तो
अविद्या प्रतिज्ञासमान ठे के अप्रतिज्ञासमान ठे ? ते अविद्या प्रति-
ज्ञासमान रूप होवाथी अप्रतिज्ञासमान तो नहि. जो एम कहो के प्रति-
ज्ञासमान ठे, तो तेनीज साथे हेतु, व्यञ्जिचारी ठे. तथा प्रतिज्ञासनी
बाहिरभूत होवाथी तेनो प्रतिज्ञासमान होवाथी जो कदी तमारा
मनमां एम होय के अविद्या जे ठे ते नथी प्रतिज्ञासमान के नथी अप्र-
तिज्ञासमान, नथी प्रतिज्ञासनी बाहिर के नथी प्रतिज्ञासनी अंदर प्र-
विष्ट, नथी एक के नथी अनेक, नथी नित्य के नथी अनित्य, नथी
व्यञ्जिचारिणी के नथी अव्यञ्जिचारिणी, सर्वथा विचारने योग्य नथी,
सकल विचारांतर अतिक्रान्त स्वरूप ठे, रूपांतरना अजायथी अविद्या जे ठे
ते नीरूपता लक्षण ठे, आ पण तमारो अज्ञाननो विस्तार ठे, तेवी नीरू-
पता स्वभावने आ अविद्या ठे, आ अप्रतिज्ञासमान ठे, एम कोण कयन
करवाने समर्थ ठे ? जो एम कहो के आ अविद्या प्रतिज्ञासमान ठे तो
पठी केवीरीतें अविद्या नीरूप सिद्ध थशे, जे वस्तु जे स्वरूपथी प्रतिज्ञा-
समान ठे, ते तेज वस्तुनुं रूप ठे; तथा अविद्या जे ठे ते विचारगोचर ठे
के विचारगोचरतारहित ठे ? जो कहो के विचारगोचर ठे तो तो
नीरूप नहि, जो विचारगोचर नथी तो तो तेने माननार महामूर्ख ठे.
ज्यारे विद्या, अविद्या वने सिद्ध ठे, त्यारे एक परम ब्रह्म अनुमानथी
केम सिद्ध थया ? आ केहेवाथी उपनिषद्मां जे एक ब्रह्मने कहेनारी

श्रुति ठे ते पण खंरुन थइ गइ. तेमज “ सर्व वै खद्विदं ब्रह्मेत्यादि ” वचनने परमात्मानो अर्थांतर होवार्थी द्वैतापत्ति थइ जशे, जो एम कहेशो के अनादि अविद्याथी एम प्रतीत थायठे तो तो पूर्वोक्त दूषणो नो प्रसंग आवशे. सबव अद्वैतनी सिद्धि बंध्यापुत्रनी शोजा जेवी ठे. ते कारणथी अद्वैतमत युक्तिविकल ठे. तेथी एकज ईश्वर जगत् पेहेलां हता ए केहेबुं मिथ्या ठे. आ प्रथम ईश्वरने माननारना मतनुं खंरुन थयुं.

हवे वीजा ईश्वर जगत्ना उपादान कारणवाला, एक ईश्वर अने वीजी सामग्री, आ बंने पदार्थ अनादि ठे. सामग्री जे ठे ते नीचे मुजव ठे.

(१) पृथ्वी (२) जल (३) अग्नि (४) वायु आ चारेना परमाणु, (५) आकाश (६) दिशा (७) आत्मा (८) मन (९) काल आ नव वस्तु नित्य ठे, अनादिते, कोइनी बनावेली नथी. ईश्वर, आ पूर्वोक्त सामग्रीथी आ सृष्टिने रचेठे. मतावलंबियें जेवी रीतें ईश्वरने जगत्कर्त्ता मानेल ठे ते रीति लखियें ठियें. उपजातिबंद ॥ कर्त्तास्ति कश्चिज्जगतः सचैकः, ससर्वगः सखवशः सनित्यः ॥ इमाः कुहेवाकविडंबनाः स्यु, स्तेपां न येपामनुशासकस्त्वम् ॥ १ ॥ आ जगत् प्रत्यक्षादि प्रमाणथी लक्ष्य ठे. चराचररूप त्रणे जगत् तेनो कोइ एवो पुरुष रचनार ठे के जेनुं स्वरूप कही शकालुं नथी. ईश्वरने जगत्कर्त्ता माननारा वादी एवुं अनुमान करेठे के—पृथ्वी, पर्वत, वृक्षादि सर्वे, बुद्धिमान् कर्त्तानां करेलां ठे, कार्य होवार्थी, जे जे कार्य ठे ते सर्वे बुद्धिमान् कर्त्तानां करेल ठे. जेवो घट तेवुं आ जगत् ठे, ते कारणथी जगत् बुद्धिवालानुं रचेबुं ठे. जे बुद्धिवाला ठे तेज ईश्वर ठे, एम पण न केहेशो के आ तमारो हेतु असिद्ध ठे, शा कारणथी असिद्ध ठे? जुड. पृथ्वी, पर्वत, वृक्षादि पोतपोताना कारण समूहथी उत्पन्न थयेल ठे ते कारणथी कार्यरूप ठे, तथा अवयवी ठे, तेथी कार्यरूपठे, सर्ववाद्यियो नो एवो निश्चय ठे. तथा एम पण न केहेबुं के आ तमारो हेतु अनेकांतिक ठे, तथा विरुद्ध ठे, कारण के अमारो हेतु विपक्षथी अत्यंत दूर गयेल ठे तथा एम पण न

मानथी जे साध्य ठे, तेना शत्रुचूत वीजा साध्यने साधनारा अनुमानना अज्ञावथी, तथा एम पण न केहेतुं के ईश्वर, पृथ्वी, पर्वत, वृक्षादिना कर्ता नथी, कारण के मुक्त आत्मानी पेठे शरीर विनाना ठे. आ पाठलना तमारा अनुमाननो वैरी अनुमान ठे ते ईश्वरने जगत्कर्ता सिद्ध यवा देतुं नथी. कारण के तमे तो ईश्वरने शरीरविनाना सिद्ध करीने जगत्तना अकर्ता सिद्ध कर्या, परंतु अमे तो ईश्वर शरीरवाला मानेला ठे ते कारणथी तमारुं अनुमान असत्य ठे. वली अमारो हेतु निरवद्य ठे तथा ईश्वर एक ठे. कारण के जो बहु ईश्वर मानियें तो तो एक कार्य करवामां ईश्वरोनी जूदी जूदी बुद्धि थइ जाय अने तेउने मना करनार तो कोइ ठे नहि तेथी कार्य केम उत्पन्न थाय ? कोइ ईश्वर पोतानी इच्छाथी चार पगवालो मनुष्य रचे, वली वीजो ईश्वर ठ पगवालो रची दे, अने त्रीजो वे पगवालो रचे, तो चोथो आठ पगवालो रचे, एवी रीतें सर्व वस्तु विलक्षण विलक्षण रचाय तो सर्व जगत् असमंजसरूप थइ जाय. परंतु एम नहि तेथी ईश्वर एकज होवा जोइये. वली ईश्वर सर्वगत सर्वव्यापी ठे, जो ईश्वर सर्वव्यापक न होय तो त्रण ज्वनमां जे एक साथे उत्पन्न थनारां कार्य ठे ते सर्व एक कालमां कदी उत्पन्न नहि थाय. जेम के कुंजारादि ज्यां हशे त्यांज कुंजादि कार्य करी शकशे. परंतु देशांतरमां कदी तेउ नहि करी शके. तेमज ईश्वर सर्वज्ञ ठे, जो सर्वज्ञ न होय तो सर्व कार्योंनां उपादान कारणो केम जाणी शकशे ? जो कार्योंनां उपादान कारण न जाणे तो जगत् विचित्र केम रची शके ? तथा ईश्वर स्वतंत्र ठे, वीजा कोइने आधीन नथी, ईश्वर पोतानी इच्छाथी सर्व जीवोने सुखदुःखनुं फल आपे ठे. कहुं ठे केः— ईश्वरप्रेरितोगच्छेत्, स्वर्गं वा स्वन्नमेव वा ॥ अन्योजंतुरनीशोय, मात्मनः सुखदुःखयोरिति ॥ अर्थः—ईश्वरनीज प्रेरणाथी जगत्वासी जीव, स्वर्ग तथा नरकमां जाय ठे, कारण के ईश्वर विना कोइ जीव पोते पोताने सुख दुःखनुं फल आपवाने समर्थ नथी. जो ईश्वरने परतंत्र मानियें तो मुख्य कर्ता ईश्वर रेहेशे नहि, एक वीजाने आधीन मानवाथी अनवस्था दूपण लागी जशे. ते हेतुथी ईश्वर स्ववश ठे परंतु पराधीन नथी. वली ईश्वर नित्य ठे जो कदी अनित्य होय तो तेने उत्पन्न करनार वीजो कोइ होवो जोइयें,

ते तो नहीं. ते हेतुची ईश्वर नित्यज ठे. पूर्वोक्त विशेषणयुक्त ईश्वर (जगवान्) जगत्कर्ता ठे. इति पूर्वपक्ष.

उत्तरपक्षः—हे वादि ! आप जे एम कहो ठो के पृथ्वी, पर्वत वृक्षादि बुद्धिमान् कर्तानां रचेलों ठे, ते अयुक्त ठे, कारण के आ आपना अनुमानमां व्याप्तिनुं ग्रहण थइ शकतुं नहीं, अने हेतु जे होय ठे ते सर्वत्र व्याप्तिमां प्रमाणची सिद्ध थया थकाज पोताना साध्यने सिद्ध करी शके ठे. आ कथनमां सर्ववादियो एकमत ठे.

हवे प्रथम आप कहो के जो ईश्वर जगत् रचे ठे तो पूर्वे कह्या मुजव ते ईश्वर, शरीरवाला ठे के शरीरविनाना ठे ? जो एम कहो के ईश्वर शरीरवाला ठे तो अमारा सरखा दृश्य शरीरवाला ठे के पिशाचादिनी पेठे अदृश्य शरीर वाला ठे ? प्रथम पक्ष तो प्रत्यक्ष वाधित ठे कारण के ते ईश्वरना विनाज वर्तमानमां पण उत्पन्न थनारां तृण, वृक्ष, इंद्रधनुष, वादलां प्रमुख कार्यों देखियें ठियें. “अनित्य शब्दप्रमेयत्वात्” जेम आ प्रमेयत्व हेतु साधारण अनेकांतिक ठे तेमज आ कार्यत्वहेतु साधारण अनेकांतिक ठे.

वीजो पक्ष मानशो तो शुं ईश्वरनुं शरीर नहीं देखी शकातुं ते ईश्वरना माहात्म्यची नहीं देखी शकातुं के अमारा माठा अदृष्टना प्रज्ञावची ? अर्थात् अमारा माठा कर्मना प्रज्ञावची नहीं देखी शकातुं ? जो एम केदेशो के ईश्वरना माहात्म्यची ईश्वरनुं शरीर देखातुं नहीं तो आ पक्षमां कोइ पण प्रमाण नहीं के जेची ईश्वरनुं माहात्म्य सिद्ध थाय, परंतु वादी जो तपावेळुं जसत पीवानी हिंमत करे तो कदाचित् मानी लइयें. आ तमारा कथनमां इतरेतर आश्रय दूपण आवे ठे. जो ईश्वर माहात्म्य विशेष सिद्ध थाय तो अदृश्य शरीरवाला सिद्ध थाय, जो अदृश्य शरीरवाला सिद्ध थाय तो माहात्म्य विशेष सिद्ध थाय. वीजो पक्ष—जो पिशाचादिनी पेठे ईश्वरनुं अदृश्य शरीर मानशो तो तो संशयनी निवृत्ति थशे नहि. जेम के—शुं ईश्वर नहीं के—जेची तेनुं शरीर नजरे पडतुं नहीं ? त्यारे तो वांजणीना पुत्रना शरीरनी जेम, अथवा तो अमारा पूर्वना पापोना प्रज्ञावची ईश्वरनुं शरीर देखातुं नहीं. आ संशय कदी दूर नहि थाय. जो एम कहो के अमारा ईश्वर, शरीररहित ठे तो तो दृष्टांत तेमज दार्ष्टान्तिक ए वने विपम थइ जशे अने हेतुविरुद्ध थ-

इ जज्ञे, कारण के घटादि कार्योंना कर्त्ता कुञ्जारादि शरीरवालाज देखियें ठियें, अने ईश्वरने ज्यारे शरीररहित मानियें त्यारे तो ईश्वर कांइ पण कार्य करवाने समर्थ नहि थाय; जे आकाशनी जेम नित्य व्यापक अक्रिय ठे ते अकर्त्ता ठे. आ हेतुथी शरीररहित के शरीररहित ईश्वरनी साथे कार्यत्वहेतुनी व्याप्ति सिद्ध थती नथी, तथा आपनो हेतु कालात्ययापदिष्ट पण ठे, आपना साध्यना धर्मिनो एक देश वृद्ध, वीजली, वादलां, इंद्रधनुपुआदिना आज पण कोइ बुद्धिमान् कर्त्ता देखाता नथी, ते कारणथी प्रत्यक्षथी बाधित थया पठी तमे पोतानो हेतु कह्यो. तेथी तमारो हेतु कालात्ययापदिष्ट सिद्ध थयो. आ तमारा कार्यत्वहेतुथी बुद्धिमान् ईश्वर जगत्कर्त्ता कदी सिद्ध थता नथी.

हवे वीजी रीतें जगत्कर्त्ता खंन करवानुं स्वरूप लखियें ठियें जे कोइ ईश्वरवादी एम कहे ठे के जगत् सर्व ईश्वरनुं रचेबुं ठे ! ते तेनुं केहेबुं समीचीन नथी, कारण के जगत्कर्त्ता ईश्वर कोइ प्रमाणथी सिद्ध थता नथी.

पूर्वपक्षः—ईश्वरने जगत् कर्त्ता सिद्ध करनार अनुमान प्रमाण ठे. जुळ. जे यथोचित रीतें अजिमत फलने संपादन करवाने प्रवृत्त होय, तेनो अधिष्ठाता कोइ बुद्धिमान् अवश्य होवो जोइयें, जेम वांसला, आरि प्रमुख शस्त्र, काष्ठना वे कटका करवामां प्रवर्त्ते ठे, तेमज यथोचित रीतें सर्वजगत्ने सुख दुःखादि जे फल आपे ठे तेनो अधिष्ठाता कोइ बुद्धिमान् जरूर होवो जोइयें, आपें एम न केहेबुं के वांसला, आरि प्रमुख पोतेज काष्ठना वे कटका करवामां प्रवर्त्ते ठे, कारण के ते तो अचेतन ठे तेथी पोतानी मेले केम प्रवर्त्ती शके ? जो एम कहो के वांसला, आरि प्रमुख खजावथी प्रवर्त्ते ठे तो तो तेउनी निरंतर प्रवृत्ति होवी जोइये, वचमां कदी स्तब्ध थवां न जोइयें, पण एम ठे नहि; पूर्वोक्त हेतुथी यथोचित रीतें पोत पोतानां फलने साधनारा जे जीव ठे, तेउनो अधिष्ठाता ईश्वरज सिद्ध थाय ठे. तथा वीजुं अनुमान. जे परिसंरुदादि, वृत्त, त्र्यंश, चतुरंश, संस्थानवाला गाम, नगरादि ठे, ते सर्वज्ञानवाननां करेलां ठे. जेम घटादि पदार्थ, तेमज पूर्वोक्त संस्थान संयुक्त पृथ्वी, पर्वत प्रमुख ठे. आ अनुमानथी पण जगत्कर्त्ता ईश्वर सिद्ध थाय ठे.

उत्तर पक्षः—जगत्कर्त्ता सिद्ध करनार आपनुं आ अनुमान अयुक्त ठे,

कारण के पूर्वोक्त तमारं अनुमान जेम अमारा मतमां प्रथमथीज सिद्ध ठे तेमज सिद्ध करे ठे, ते कारणथी सिद्धसाधन दूषण तमारा अनुमानमां आवे ठे. अमारा मतमां प्रथमथीज नीचे मुजब सिद्ध ठे. संपूर्ण आ जगत्नी जे विचित्रता ठे ते सर्वे कर्मना फलथी ठे एम अमे मानिये ठिये, कारण के आ चारत वर्षमां अनेक देशोमां, टापुठमां, हेमवंतादि पर्वतोमां अनेक प्रकारना मनुष्यादि प्राणी जे वास करे ठे, तथा तेउने सुख दुःखादि अनेक तरेहनी जे अवस्था वनी रही ठे ते सर्व अवस्थानुं कारण कर्मज ठे. वीजुं कोइ नथी, वली देखवामां पण कर्मज कारण थइ शके ठे, कारण के ज्यारे कोइ पुण्यवान् राजा राज्य करे ठे, त्यारे तेना राज्यमां सुकाल, निरुपद्रव होय ठे, ते, ते राजाना शुच कर्मनो प्रजाव ठे. ते कारणथी जे यथोचित रीतें जीवोने फल आपेठे ते कर्म ठे. कर्म जीवने आधीन ठे, अने जीव चेतन होवथी बुद्धिमान् ठे, तेथी बुद्धिमानने आधीन थइने कर्म यथोचित फल आपे ठे. आ रीतें तमारा अनुमानमां सिद्धसाधन दूषण ठे. जो एम केदेशो के अमेतो विशिष्ट बुद्धिवाला ईश्वरनेज सिद्ध करिये ठिये, परंतु सामान्य बुद्धिवाला जीव नथी सिद्ध करता, तो तो तमारं दृष्टांत साध्यविकल ठे. वांसला, आरि प्रमुखमां ईश्वर अधिष्ठितपणांनो व्यापार तो उपलब्ध थतो नथी परंतु सुथारादिनो व्यापार अन्वयव्यतिरेकथी उपलब्ध थाय ठे.

पूर्वपक्षः—सुथारादिपण ईश्वरनी प्रेरणाथीज ते ते काममां प्रवर्त्ते ठे अमारं दृष्टांत साध्यविकल नथी.

उत्तरपक्षः—त्यारे तो ईश्वर पण वीजा ईश्वरनी प्रेरणाथीज प्रवर्त्तता हशे, परंतु पोतानी मेले प्रवर्त्तता नहि होय, वली ते ईश्वरपण वीजा ईश्वरनी प्रेरणाथी प्रवर्त्तता हशे, एवी रीतें तो अनवस्था दूषण आवशे.

पूर्वपक्षः—बढईप्रमुख जीव तो सर्वे अज्ञानी ठे तेथी ईश्वरनी प्रेरणाथी ज पोत पोताना काममां प्रवर्त्ते ठे, अने ईश्वर (जगवान्) तो सर्व पदार्थोना ज्ञाता ठे तेथी अनवस्था दूषण नथी.

उत्तरपक्षः—आ तमारं केहेबुं असत् ठे. कारण के तेमां इतरेतर दूषण आवे ठे. प्रथम ईश्वर जो सर्व पदार्थना यथाऽवस्थित स्वरूपना ज्ञाता सिद्ध थाय, तो अन्यनी प्रेरणा विना पोतेज प्रवर्त्ते ठे एम सिद्ध थाय, जो

अन्यनी प्रेरणा विना ईश्वर पोतेज प्रवर्त्तं ठे एम सिद्ध थाय तो तो सर्व पदार्थना यथावस्थित स्वरूप जाणनारा सर्वज्ञ सिद्ध थाय, ज्यां सुधी आ वंनेमांथी एक सिद्ध न थाय त्यां सुधी वीजानी सिद्धि कर्दी न थाय. वली हे ईश्वरवादि? अमे तमने पुत्रियं त्रियं के जो ईश्वर सर्वज्ञ तेमज वीतराग ठे तो शा माटे वीजा जीवोने अस्त व्यवहारमां प्रवर्त्तावे ठे? कारण के जे विवेकी होय ठे ते मध्यस्थज होय ठे तेमणे तो जीवोने सत् व्यवहारमांज प्रवृत्त करवा जोइयें, परंतु अस्त व्यवहारमां नहि प्रवृत्त करवा जोइयें, अने ईश्वर तो जीवोने अस्त व्यवहारोमां पण प्रवर्त्तावे ठे तेथी ईश्वरने सर्वज्ञ तेमज वीतराग केम केहेवा जोइये?

पूर्वपक्षः— ईश्वर तो सर्व जीवोने शुभ कर्म करवामांज प्रवर्त्तावे ठे, तेथी जगवान् तो सर्वज्ञ अने वीतरागज ठे; अने जे जीव अर्थम करनारा ठे तेउने अस्त व्यवहारमां प्रवर्त्तावीने पठी नरकपातनुं फल आपे ठे, जेथी ते जीवो दुःखथी करीने फरी पाप न करे, तेथी उचित फल देवाथी ईश्वर (जगवान्) विवेकवान् तेमज वीतराग सर्वज्ञ ठे, तेमां कां-इपण दूषण नथी.

उत्तरपक्षः—आ आपनुं केहेबुं विचारविनानुं ठे, कारण के प्रथम पाप करवामां तो ईश्वरज प्रवृत्त करे ठे, ईश्वर विना वीजो तो कोइ प्रेरक नथी, वली जीव पोते तो कांइ करी शकतो नथी कारणके ते तो अज्ञानी ठे तेथी पापमां के धर्ममां पोते प्रवृत्त थइ शकतो नथी, तो पठी प्रथम पाप कराववामां जीवने प्रवर्त्ताववो. पठी नरकमां नाखीने तेनुं फल जोगवावबुं, पठी धर्ममां प्रवर्त्ताववो वाह? शुं ईश्वरनी ईश्वरता अने विचारपूर्वक काम ठे?

पूर्वपक्षः—ईश्वर (जगवान्) जीवोने कदी प्रवर्त्ताविता नथी परंतु जीव पोतेज प्रवर्त्तं ठे. तेथी जे जीव जेवां कर्म करे ठे, ते कर्मना वशथी ईश्वर (जगवान्) तेवां तेवां फल ते जीवोने आपेठे. जेम कोइ राजा राज्य करे ठे ते चोरी करवानी मनाइ करे ठे, कोइने चोरी करवानुं केहेता नथी, ठतांपि कोइ सख्त चोरी करशे तो ते चोरने अवश्य राजा शिक्षा करशे, तेवीज रीतें ईश्वर पाप तो करावता नथी, परंतु पाप करनारने शिक्षा करे ठे.

उत्तरपक्षः—आ तमारुं केहेबुं अयुक्त ठे, कारण के राजा चोरने निषेध करवामां समर्थ नथी, कारण के गमे तेवो उग्रशासनवालो राजा होय अने ते मन वचन कायाथी चोरी प्रमुख पाप कर्म अटकाववा चाहे, परंतु लोक चोरी प्रमुख पाप कर्म कदापि सर्वथा ठोडशे नहि अने ईश्वर तो सर्व शक्तिमान् तमे मानो ठो तो पठी सर्व जीवोने पाप करवामां प्रवर्ततां केम मना करता नथी? जो ईश्वर जीवोने पाप करतां अटकावता नथी तो ईश्वरज जीव पासे पाप करावे ठे, पठी जो तेउने दंड आपे तो पूर्वोक्त दूषण आवेठे. जो एम कहो के जीवोने पापमां प्रवर्ततां मना करवाने ईश्वर समर्थ नथी, तो पठी उंचा शब्दथी एम केहेशो नहि के “सर्व कांइ ईश्वरेंज कखुं ठे अने ईश्वर सर्वशक्तिमान् ठे” तथा जो जीव पाप पण पोतेज करे ठे, अने धर्मपण पोतेज करे ठे, तो फल पण पोतेज जोगवी लेशे हवे ईश्वर कर्त्तानी कल्पना व्यर्थ ठे.

पूर्वपक्षः—धर्म अधर्म तो जीव पोतेज करेठे, परंतु तेना फलप्रदाता तो ईश्वरज ठे, जीव पोतें करेला धर्म अधर्मनुं फल पोते जोगववाने समर्थ नथी, जेम चोर चोरी करेठे, तेमां चोरी (अधर्म) तो पोतेज करेठे, परंतु ते चोरीनुं फल (बंदीखानुं) जोगवबुं ते पोते जोगवी शकतो नथी, बंदीखानामां नाखनार तो कोइ वीजो जोइयें.

उत्तरपक्षः—आ पण तमारुं केहेबुं असत् ठे. कारण के जो जीव धर्म अधर्म करवामां समर्थ ठे तो पठी तेनुं फल जोगववामां समर्थ केम नहि? आ संसारमां जे जीव जेवा जेवा धर्म अधर्म करेठे तेवां तेवां धर्म अधर्मनां फल जोगववामां निमित्त पण वनी जाय ठे, जेम चोर चोरी करेठे, ते चोरीनुं फल राजा आपेठे, वली कोढीयो थाय ठे, शरीरमां कीडा पडेठे, अग्निमां वली जाय ठे, पाणीमां कुबी जायठे, खड्गथी हणाय ठे, तोप बंडुकना गोला गोलीथी मरी जायठे, हाट, हवेल्ली, माटीनी खाण नीचे दवाइ अनेक तरेहथी संकट जोगवी मरी जाय ठे, निर्धन थइ जाय ठे, इत्यादि असंख्य निमित्तोथी पोतें करेला कर्मनां फलने जोगवे ठे. अहींयां निमित्त विना वीजो ईश्वर फलदाता कोइ देखातो नथी, तेवीज रीतें नरक स्वर्गादि परलोकमां पण शुजाशुज कर्म फल जोगववानां असंख्य निमित्त ठें. जो केहेशो के परस्त्रीगमन कर

वाची, इत्यादि पापफलमां शुं निमित्त मलशे, जेना योग्यी फल जोग-
ववानुं थशे ? ते वात तो हुं (ग्रंथकार) जाणतो नथी के आ पुण्य पा-
पनुं आ निमित्त तमने मलीने फल थशे, कारण के मारुं एटळुं ज्ञान
नथी के वरावर पुरे पुरां निमित्त वतावी शकुं, परंतु एटळुं कहि शकुं
के जीव जे जे पुण्य पाप करे ते तेनुं फल जोगववामां अवश्य कांश्क
निमित्त होवानुं, अने आवी रीतें फल जोगवशे, आ निमित्त मलशे,
अमुक देशमां, अमुक कालमां जोगवशे, इत्यादि सर्व प्रत्यक्षपणें तो
अहंत, जगवंत (परमेश्वर) सर्वज्ञाना ज्ञानमां जासन थाय ठे. निमित्त
विना कोश्रपण फल जोगवी शकता नथी, ते कारणथी ईश्वर फलप्रदाता
ठे एवी कल्पना व्यर्थ ठे. शुं एवुं पण बुद्धिमानोनुं केहेवुं ठे के माणस
रोटली तो पकावी शकेठे परंतु पोते खाइ शकतो नथी. तेमज ईश्वरने
फलदाता कल्पना करवाची एक वीजुं पण कलंक आप तेने लगावो ठो.
जेमके एक पुरुषें वीजा पुरुषने खड्गादि शस्त्रथी माख्यो, हवे मरनारने जे
संकट प्राप्त थयुं, ते कोना योग्यी ? कोनी प्रेरणायी ? जो केहेशो के
ईश्वरें ते शस्त्रवालाने प्रेरणा करी, तेथी तेणें तेने माख्यो, तो पठी ते मा-
रनारने फांसी शा माटे मलेठे ? शुं ईश्वरनो एवो न्याय ठे के प्रथम एक
पुरुषना हाथथी वीजाने मराववो, पठी ते मारनारने फांसी अपाववी,
आ आपनी समजणें ईश्वरने बहुज अन्यायी सिद्ध करेल ठे. जो एम
कहो के ईश्वरनी प्रेरणा विना ते पुरुषें वीजा पुरुषने माख्यो, तेमज दुः-
ख दीधुं तो तो निमित्तथीज सुख दुःखनुं जोगववुं सिद्ध थयुं, पठी ई-
श्वर फलदातानी कल्पना करवी ते अल्प बुद्धिवालानुं काम ठे तथा हे
ईश्वरवादि ! आपने एक वात पुठियें ठियें के धर्मनुं फल, उन्मत्त देवां-
गनाउंना सुकोमल शरीरनो स्पर्श करवो, ते तो जीवोने सुखनुं कारण
ठे तेथी ईश्वरें दीधुं, परंतु अधर्मनुं फल घोरनरकना कुंरुमां पडवुं, अनेक
प्रकारनां दुःख त्रास, कुंजीपाक, चर्म उत्कर्त्तन, आग्निमां प्रज्वलित थवुं,
इत्यादि महादुःखो ईश्वर ते जीवोने शा वास्ते दीये ठे ?

पूर्वपक्षः—जे जीवोण पाप करेलां ठे तेउने ते पापनुं फल अवश्य म-
लकुं जोश्ये ते कारणथी ईश्वर फल आपे ठे,

उत्तरपक्षः—आ तमारा केहेवाची तो ईश्वर व्यर्थज जीवोने पीडा आ-

पेठे, कारण के जो ईश्वर ते जीवोने पापनुं फल आपे नहि तो जीव पोते तो कर्मनां फल जोगधी शकता नथी. पठी नहि तो शरीर धारण करे के नहि तो नहुं पाप पण करे. पठी वेठा वेठा ईश्वरने शुं गलगलीयां थाय ठे के पाठा जीवोने नरकमां नाखी दीये ठे. जे मध्यस्थ जाववाला तथा परम दयालु होय ठे ते कोइ जीवने कदी निरर्थक पीडा आपता नथी,

पूर्वपक्षः—ईश्वर जगवान्, पोतानी क्रीडा वास्ते कोइने नरकमां नाखे ठे. कोइने तिर्यंच योनिमां नाखे ठे, कोइने मनुष्य बनावे ठे, तो कोइने स्वर्गमां उत्पन्न करे ठे, ज्यारे ते जीव नाचे ठे, कूदेठे, रोवेठे, पीटेठे, खिलाप करेठे, त्यारे ईश्वर पोतानी रचेली वाजीनो तमांसो जुए ठे, ते वास्ते जगत् रचे ठे.

उत्तरपक्षः—जो एम ठे तो ईश्वर प्रेक्षावान् (बुद्धिमान्) नथी, कारण के तेनी तो क्रीडा थाय ठे परंतु रांक जीवो तरफडी तरफडी, कर्णास्पद थइ मरण पामेठे, तो पठी ईश्वरने दयालु मानवा ते केवी आपनी अज्ञानिता ठे ? कारण के जे महापुरुष सर्वज्ञ दयालु ठे ते कदापि कोइ जीवने दुःख देवानी क्रीडा करता नथी, तो पठी ईश्वर क्रीडार्थी केम होइ शके ? वली क्रीडा जे ठे ते रागवालाने होय ठे अने ईश्वर (जगवान्) तो वीतराग ठे, तो पठी ईश्वर (जगवान्) क्रीडा रसमां मग्न होय एम केम संज्ञवे ?

पूर्वपक्षः—अमारा ईश्वर तो रागी छेपी ठे, ते कारणधी तेनामां क्रीडा करवानो संज्ञव होइ शके ठे.

उत्तरपक्षः—त्यारे तो आपें मुखं उज्वल करवाने वदले कालुं कसुं. कारण के ज्यारे ईश्वर रागी छेपी थया त्यारे तो बीजा जीवोनी पेठे रागवाला थया. वीतराग न थया तेम सर्वज्ञ न थया. पठी तो अमारा सरखा थया. हवे जगत्ना रचनार केवी रीतें थइ शके ठे. ?

पूर्वपक्षः—अमें तो ईश्वरने रागद्वेषसंयुक्त सर्वज्ञ मानिये ठियें, ते कारणधी सर्व जगत्ना कर्ताठे.

उत्तरपक्षः—आ आपना कथनमां कोइपण प्रमाण नथी, जे प्रमाणथी ईश्वर रागी, छेपी, के सर्वज्ञ सिद्ध थाय ?

पूर्वपक्षः—ईश्वरनो स्वजावज एवो ठे के रागी छेपी थवुं अने सर्वज्ञ पण

रेहेवुं, स्वभावमां कोइ तर्क थई शकतो नथी, जेम अग्नि तो दाहक ठे परंतु आकाश दाहक केम नथी ? आ सवालमां उत्तर एमज देवाशे के अग्निमां दाहक स्वभाव ठे, आकाशमां नथी, तेवी रीतें ईश्वरपण स्वभावथी रागी छेपी तेमज सर्वज्ञ ठे.

उत्तरपद्धः—एवी रीतें तो कोइ वादी एम पण कही शके के आपनी सन्मुख आ जे गधेडुं खडुं ठे ते सर्व जगत्तुं रचनार ठे, जो आप एम पूठो के शा हेतुथी आ गर्दज जगत्तुं रचनार ठे ? तो ते वाचतमां एम उत्तर आपी शकाशे के ते गर्दजनो स्वभावज एवो ठे के जगत्तुने रचीने, राग छेपवाला सर्वज्ञ थइने पठी गर्दज बनी जायठे. एवी रीतें तो महिप आदि सर्व जीवने वादी जगत्कर्ता सिद्ध करी देशे. पठी ईश्वर कोण थया, जे कांइ पोताना मनमां मान्युं ते बनावी लीधुं. आ तो ईश्वरने मोटुं कलंक लागेठे. आ हेतुथी ईश्वर (जगवान्) सर्वज्ञ तेमज वीतराग ठें. ते क्रीडाने अर्थे कदापि जगत्तुने रचे नहि. वली हे ईश्वरवादि ! जो आपना केहेवा मुजव, ईश्वरें सर्व कांइ रच्युंठे तो तो त्रणशे त्रेसठ पाखंर मतनां सर्व शास्त्रो पण ईश्वरेंज रच्यां, अने शास्त्र तो सर्वे एक बीजाथी विरुद्ध ठे तो तेमांथी केटलां एक शास्त्र अचश्य सत्य अने केटलां एक असत्य पण होशे, त्यारे सत्य अने असत्य वनेना उपदेशक ईश्वरज ठर्या, त्यारे तो ईश्वर पोतेज सर्व मतांतरियोने अरस परस लडावेठे. हजारो बलके लाखो मनुष्य आ मतोना ऊघडामां मरी जायठे. हवे जुड के ईश्वरें शास्त्र शुं रच्युं ? जगत्तुमां एक मोटो उपद्रव रच्यो. एवां जुठां, साचां शास्त्र रचनारने महाधूर्त केहेवा जोश्यें परंतु ईश्वर नहि. जो एम कहो के ईश्वरें तो सत्य शास्त्रज रच्यां ठे, असत्य रच्यांज नथी, असत्य तो जीवोए पोतेज बनावी लीधां ठे तो तो ईश्वरें जगत् पण रच्युं नहि होय, जगत् पण जीवोएज रच्युं हशे, कारण के ईश्वर सर्व वस्तुना कर्ता सिद्ध थया नथी.

वली आपें पूर्वे बीजुं अनुमान कखुं हतुं के जे जे आकारवाली वस्तु ठे ते ते सर्व बुद्धिवालांनी रचेली ठे. जेम के जुड, जीर्ण कूप. अगर जो कारीगर त्यां उपलब्ध थतो नथी, तो पण अनुमानथी कारीगरज तेनो कर्ता सिद्ध थशे. जेम नवा कुवानो कर्ता उपलब्ध थायठे तेम,

उत्तर—आ आपनुं अनुमान समीचीन नथी. कारण के आकारवाला आपना हेतु, संख्या, वादलां, सर्पनी वंवी प्रमुख संस्थानवालांमां ठे, परंतु तेनो बुद्धिमान् कर्त्ता कोइ नथी. जो एम कहो के, वादलां, इंद्रधनुष, सर्पनी वंवीप्रमुख संस्थानवालां बुद्धिमानोनां करेलां मनातां नथी त्यारे तो तेवीजरीतें पृथ्वी, पर्वत पण बुद्धिमानोना करेला नहि मानवा जोइयें.

आ पूर्वोक्त प्रमाणोथी कोइपण रीतें ईश्वर जगत्कर्त्ता सिद्ध यता नथी. हवे जे पुरुष ईश्वरने जगत्कर्त्ता मानेठे तेउने अमे कहियें त्रियें के, ज्यां सुधी अमारी आ सघली युक्तियोनो उत्तर न अपाय त्यां सुधी ईश्वरने जगत्कर्त्ता मानवा न जोइयें, जो कोइ ईश्वरवादी आ युक्तियोनो उत्तर पुरेपुरो देशे तो तो अमेपण जगत्कर्त्ता ईश्वर मानी लेशुं, ते विना कदापि नहि मानियें.

पूर्वपक्षः—ईश्वर जगत्कर्त्ता तो सिद्ध यता नथी, परंतु एक ईश्वर ठे एम तो सिद्ध थायठे के नहि ?

उत्तरपक्षः—ईश्वर एकज ठे, ए वात सिद्ध करनां कोइ प्रमाण नथी, तेथी ईश्वर एक सिद्ध केम थाय ?

पूर्वपक्ष—ईश्वरना एकत्वने सिद्ध करनार आ प्रमाण ठे. ज्यां बहु एकठा थइने एक काम करवा लागे त्यां जुदी जुदी मति होवार्थी एक कार्यपण वनी शकलुं नथी. तेवीज रीतें जो ईश्वर अनंत होशे तो तो सृष्टि प्रमुख एकज कार्य करवामां न्यारी न्यारी मति थवार्थी असमंजस कार्य वनशे. ते कारणथी ईश्वर एकज होवा जोइयें.

उत्तरपक्ष—आ तमारा प्रमाणथी तो ईश्वर एक सिद्ध यता नथी, कारण के पूर्वोक्त प्रमाणोथी ईश्वर कोइ वस्तुना कर्त्ता सिद्ध यता नथी. वली जुठ. एक मधपुडो वनाववामां सर्वे मांखियो एकमतवाली तो थायठे, परंतु ईश्वर, परमात्मा, निर्विकार, निरुपाधिक, ज्योतिःस्वरूपियोनो एकमत थइ शकतो नथी. आ मोटी आश्चर्यनी वातठे ? शुं तमे ईश्वरोने कीडाळथी पण बुद्धिहीन, अजिमानी, तेमज अज्ञानी वनावी दीधा, के ते सर्वेनो एकमत थइ शकतो नथी ?

पूर्वपक्ष—मांखियो बहु एकठी थइने मधपुडा आदि कार्य करेठे त्यां पण एक ईश्वरनाज व्यापारथी एक मधुपुडो वने ठे.

उत्तरपक्षः— त्यारे घडो वनाववों, चोरी करवी, परस्त्रीगमन करवुं इत्यादि सर्व काम ईश्वरना व्यापारथी वनेलां सिद्ध थशे, अने जीव सर्व, अकर्ता सिद्ध थशे, पठी पुण्य पापनुं फल कोने मलशे ? अने नरक स्वर्गमां जीवने केम मोकलाशे ?

पूर्वपक्ष—कुंजारादि, चोरादि, सर्वजीव स्वतंत्रताथी पोतपोतानुं कार्य करेते, आ प्रत्यक्षसिद्ध ठे.

उत्तरपक्ष—शुं मांखियोयेंज तमारो कांइ अपराध कयोंठे, के तेने स्वतंत्र केहेता नथी ? आ तमारा एक ईश्वरने मानवाथी तो एम पण प्रतीत थायठे के जो कदी अनंत ईश्वर मान्या जाय तो तो कदाचित् एक सृष्टि रचवामां विवाद थइ जाय पठी ते विवादने कोण दूर करी शके ? शिरपंच ता कोइ नथी, वली एक ईश्वरने देखीने वीजो ईश्वर इर्ण्या करे के आ मारी तुल्य केम ठे ? इत्यादि अनेक उपद्रव उत्पन्न थइ जाय, तेथी ईश्वर एकज मानवा जोइयें. आ पण तमारी समज पूर्ण अज्ञानरूप घुणनामना कीडानी खाधेवली ठे, कारण के जो ईश्वर (जगवान्) सर्वज्ञ ठे तो तो सर्वज्ञाना ज्ञानमां एकज सरखुं ज्ञासन थवुं जोइयें, पठी विवाद शा कारणथी होय, वली ईश्वरतो राग, द्वेष, इर्ण्या, अजिमान इत्यादि सर्व दूषणोथी रहितठे तो वीजा ईश्वरने देखीने इर्ण्या, अजिमान शा माटे करशे ? जो ईश्वर थइने अंदर अंदर विवाद, ऊघडा, इर्ण्या, अजिमान करशे तो ते पामरोने ईश्वरज केम मानवामां आवशे ? जो जगत्कर्ताज ईश्वर सिद्ध थता नथी तो विवाद ऊघडाज ईश्वरोने अंदर अंदर शा माटे थशे ? ते कारणथी अनंत ईश्वर मानवामां कांइपण दूषण नथी. वली ईश्वर “ सर्वगत ” सर्वव्यापी ठे एम मानवुं पण प्रामाणिक नथी. कारण के जे वादी ईश्वरने सर्वव्यापक माने ठे ते शरीरथी व्यापक माने ठे के ज्ञानस्वरूपथी ? जो शरीरथी ईश्वरने सर्वव्यापक मानशे तो ईश्वरनुं शरीरज सर्वजगामां व्यापी जशे, वीजा पदार्थोंने रेहेवा माटे जरापण अवकाश नही मले ? ते कारणथी ईश्वर शरीरथी तो सर्वव्यापक नथी.

प्रश्नः— शुं ईश्वरने पण शरीर ठे के आप एवो विकल्प करोठो ?

उत्तरः—हे जव्य ! एवो पण आ जगत्मां मत ठे, जे ईश्वरने देहधारी माने ठे.

प्रश्नः— ए कयो मत ठे, जेणें शरीरधारी ईश्वर मानेल ठे ?

उत्तरः— तौरेत नामनो ग्रंथ ठे, तेमां एम लख्युं ठे के, ईश्वरें अवर-
हामने त्यां रोटी खाधी, तथा याकुवनी साथे कुस्ती करी; आ लखा-
णथी प्रतीत थाय ठे के ईश्वर देहधारी ठे. वली शंकरदिग्बिजयना वी-
जा प्रकरणमां शंकरस्वामिना शिष्य आनंदगिरि तेज ग्रंथना आदिमां
लखे ठे के “हुं सर्वज्ञ तुं” ते लखियेंठियें. “ज्यारे नारदजीए जोयुं के
आ लोकमां बहुज कपोलकट्पित मत उत्पन्न थया ठे, अने सनातन ध-
र्म लुप्त थयो ठे, त्यारें ते तत्काल ब्रह्माजीपासे पहोच्या. अने जइने के-
हेवा लाग्या के हे पिताजी ! आपनो मत तो प्रायः रह्यो नथी, अने लो-
कोए अनेक मत चलाव्या ठे, तेथी आ वातनो कांइ उपाय करवो जो-
इये; ते सांजली ब्रह्माजी बहु वखत सुधी विचार करीने, पुत्र, मित्र, ज-
क्त जनौने साथे लइने पोताना लोकथी निकली शिवलोकमां प्रवेश क-
रता हवा. त्यां जइ जुए ठे तो मध्याह्नमां क्रोड सूर्यनो प्रकाश होय न-
हि, तथा क्रोड चंद्रमा समान शीतल, जेने पांच मुख ठे, चंद्रमा मुग-
टमां ठे विजलीवत् पिंगलि जटा धारण करी ठे, अने पार्वती जेना वा-
मार्छ अंगमां ठे एवा सर्वना ईश्वर, महादेव दीठा. पठी ब्रह्माजीयें नम-
स्कार करी स्तुति करी; अने केहेवा लाग्या के हे महादेव ! सर्वज्ञ,
सर्वलोकेश, सर्वसाक्षी, सर्वमय, सर्व कारण इत्यादि—आ लखवाथी प्र-
गट प्रतीत थाय ठे के ईश्वर देहधारी ठे, जो देहधारी ईश्वर न होय
तो पठी पांच मुख केम होय ? आ लखाणथी ईश्वर शरीररहित सिद्ध
थता नथी. हवे जो शरीरधारी ईश्वर होय तो तो आ लोकमां ईश्वरज
व्यापी रहेशे, अने वीजा पदाथौने रेहेवामाटे वीजो लोक जोइशे. जो
एम कहो के ज्ञानात्माथी ईश्वर सर्वव्यापक ठे तो तो सिद्धसाध्य नथी;
अमे पण ज्ञानस्वरूपथी तो जगवानने सर्वव्यापी मानियेंठियें. परंतु जु-
ठ. तमारा वेदथी विरुद्ध न होय ? कारण के वेदोमां शरीरथीज सर्व
व्यापक कहेल ठे. यथा. “विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखोविश्वतोबाहुरुत
विश्वतस्पादित्यादि श्रुतेः” आ श्रुतिथी सिद्ध थाय ठे के ईश्वर शरीरथीज
सर्वव्यापक ठे, अने तेम होवाथी पूर्वोक्त दूषणो थावे ठे तेथी ईश्वर स-
र्वव्यापक नथी. वली आप कहो ठो के ईश्वर सर्वज्ञ ठे, परंतु तमारा
ईश्वर सर्वज्ञ पण नथी; कारण के थमे जे सृष्टिकर्ता ईश्वरना खंन क-

रनारा ठियें, ते तेनाथी विपरीत चाखियें ठियें, तेथी श्रमने तेउए शमाटे रच्या ? जो एम केहेशो के जन्मांतरोथी उपार्जन करेलां जे जे तमारां शुजाशुज कर्म ठे ते कर्मोने अनुसार तमने ईश्वर फल आपे ठे, तो पठी तमारा केहेवाथीज ईश्वरनी स्वतंत्रतापर पाणी फखुं; कारण के जो श्रमारां कर्मोविना ईश्वर फल आपी शकता नथी तो तो ईश्वरने कांइ श्राधीन नथी; जेवां श्रमारां कर्म हशे तेवुं श्रमने फल मलशे, जो एम कहो के ईश्वर जे इछे ते करे तो तो शुं जाणियें के ईश्वर शुं करशे, धर्मियोने नरकमां नाखशे के पापियोने स्वर्गमां मोकलशे ? जो एम कहो के परमेश्वर न्यायी ठे, जेवुं जेवुं जे करे ठे, तेवुं तेवुं तेने फल आपे ठे, तो वली तेज परतंत्रतारूप दूपण ईश्वरमां लागे ठे. वली ईश्वर नित्य ठे एम केहेवुं ते पण तमारा पोताना घरमांज सुंदर लागे ठे, कारण के नित्य तो ते वस्तुने कहियें के जे त्रणे कालमां एकरूप रहे. जो ईश्वर नित्य ठे तो शुं तेनामां जगत् घनाववानो स्वजाव ठे के नहि ? जो एम कहो के तेनामां जगत् रचवानो स्वजाव ठे तो ईश्वर निरंतर जगत्ने रच्या करशे, कदाऽपि वंध रहेशे नहि, कारण के जगत् रचवानो स्वजाव तो तेनामां नित्य ठे. जो एम केहेशो के ईश्वरमां जगत् रचवानो स्वजाव नथी तो तो ईश्वर कदापि जगत् रचशे नहि, कारण के जगत् रचवानो स्वजाव तेनामां नथी. तथा जो ईश्वरमां जगत् रचवानो स्वजाव एकांत नित्य ठे तो तो प्रलय कदापि नहि थाय, कारण के ईश्वरमां प्रलय करवानो स्वजाव नथी. जो एम कहो के ईश्वरमां रचवानी तेमज प्रलय करवानी वंने शक्तियो नित्य ठे तो तो कदापि जगत् रचाशे पण नहि, तेम तेनो प्रलय पण थशे नहि, कारण के परस्परविरुद्ध एवी वे शक्तियो एक स्थानमां एककालमां कदापि रेहेती नथी. जो रेहेशे तो जगत् रचाशे नहि, तेम तेनो प्रलय थशे नहि; कारण के जे कालमां रचनारी शक्ति रचशे तेज कालमां प्रलय करनारी शक्ति प्रलय करशे, श्रने जे कालमां प्रलय करनारी शक्ति प्रलय करशे तेज कालमां रचनारी शक्ति रची देशे; एवी रीतें ज्यारे शक्तियोनो परस्पर विरोध थशे त्यारे जगत् रचाशे नहि तेम तेनो प्रलय पण थशे नहि. हचे तो श्रमारांज मत सिद्ध थयो. कारण के जगत् कोइयें रचेल नथी तेम तेनो कदापि प्रलय

पण यत्तो नथी, तेथी आ जगत् अनादि अनंत सिद्ध थयुं. जो एम कहो के ईश्वरमां वंने शक्तियो नथी तो पठी जगत् रचाशे पण नहि तेमज तेनो प्रलय पण थशे नहि. तेथी पण जगत् अनादि अनंत सिद्ध थयुं. जो एम कहो के ईश्वर रचवानी इच्छा करे ठे त्यारे रचे ठे, अने प्रलय करवानी इच्छा करे ठे त्यारे प्रलय करे ठे तेमां शुं दूषण ? तो तो ईश्वरनी शक्तियो अनित्य थई. जले अनित्य होय, तेमां अमारे शुं हानि ठे ? पण जुठ. ईश्वरनी शक्तियो अनित्य ठे तो तो ईश्वर पण अनित्य थशे, कारण के ईश्वर पोतानी शक्तियोथी अज्ञेद ठे, जो एम कहो के शक्तियो ईश्वरथी ज्ञेदरूप ठे तो पठी शक्तियो नित्य होवाथी जगत् रचाशे नहि तेम तेनो प्रलयपण थशे नहि, अने ईश्वर अकिंचित्कर सिद्ध थशे. कारण के ज्यारे ईश्वर सर्वशक्तिंथी रहित ठे, त्यारे तो कांश्पण करवाने समर्थ नथी. पठी जगत् रजवामां केम समर्थ थशे ? वली शक्तिंनुं उपादान कारण कोण थशे ? पठी ईश्वरनो अज्ञाव थइ जशे. कारण के ज्यारे ईश्वरमां शक्तिज कांई नथी त्यारे ते ईश्वर शेनो ? तो तो आकाशना फुलसमान असत् ठे. पठी जगत्कर्त्ता कोने मानशो ?

हवे खरडझानिंठनो ईश्वरवाद लखियेंठियें. खरडझानी कहे ठे के, जगत्मां जेटला पदार्थ ठे तेना विलक्षण, विलक्षणसंयोग, आकृति, गुण तेमज स्वज्ञाव मालम पडे ठे. जो कदी तेठनो तथा तेठना नियमोनो कर्त्ता कोइ न होय तो ते नियमो कदि वने नहि; कारण के जड पदार्थमां मलवानुं तेमज जुदा थवानुं यथावत् सामर्थ्य नथी. ते हेतुथी ईश्वर कर्त्ता अविश्व होवा जोइयें.

उत्तर पद-प्रथमज अमे जगत्कर्त्ता ईश्वरनुं खंनन करी चुक्या ठियें, तो पठी आप जगत्कर्त्ता केम मानो ठो ? वली आपें कशुं के जगत्ना पदार्थोमां जुदा जुदा स्वज्ञाव मालम पडे ठे, तेथी ईश्वर सिद्ध थाय ठे; परंतु आ कथनथी ईश्वर जगत्कर्त्ता सिद्ध थता नथी, कारण के सर्व पदार्थोमां अनंत शक्तिं ठे, तेथी पोतपोतानी शक्तिंथी सर्व पदार्थो पोतपोतानां कार्य करे ठे. पदार्थोना संयोगमां निमित्त आ ठे. १ काल, २ स्वज्ञाव, ३ नियंति (जयितव्यता) ४ जीवोनां कर्म, ५ जीवोना उद्यम;

आ पांच निमित्त विना बीजुं कोइपण निमित्त नथी, ए पांचनुं स्वरूप आगल उपर लखवामां आवशे.

प्रत्यक्षमां पण आ पांचे निमित्तोथी सर्व कांइ उत्पन्न थाय ठे ते जोइयें ठियें. जेम के बीजांकुर ज्यारे बीज ववाय ठे, त्यारे काल पण यथानुकूल होवो जोइयें, तेमज बीज, जल अने पृथ्वी इत्यादिना स्वजाव पण अवश्य होवा जोइयें, तेमज नियति पण कारण ठे—जे जे पदार्थोना स्वजाव ठे ते ते पदार्थोना तेवा तेवा जे परिणाम थाय ठे तेनुं नाम नियति ठे; वली अष्टविध कर्मपण कारण ठे. तथा पुरुषकार (जीवोनो उद्यम) पण कारण ठे. आ पांच वस्तु अनादि ठे, कोइयें रचेल नथी; कारण के वस्तुना जे जे स्वजाव ठे ते ते सर्व अनादिथी ठे. जो कदी वस्तुमां पोतपोताना स्वजाव न होय तो तो कोइ वस्तुज सतरूप रेहेशे नहि. सर्व शशशृंगवत् असत् थइ जशे. वली प्रत्यक्ष देखाय ठे एवां, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि पदार्थो एवीरीतिं अनादिरूपथी सिद्ध ठे, तेमज पृथ्वीउपर जे जे रचना देखाय ठे ते सर्व प्रवाहथी एमज चाही आवे ठे. वली जगत्ना जे जे नियमो ठे ते सर्व आ पांच निमित्त विना थइ शकता नथी. ते कारणथी सर्व पदार्थो पोतपोताना नियमोमां ठे. जो तमे द्रव्यनी शक्तिनेज ईश्वर मानी लेशो तो तो अमने कांइ हानि नथी; कारण के अमे द्रव्यनी अनादि शक्तिनुं नाम इश्वर राखी लेशुं, अने ज्यारे तमे द्रव्यनी अनादि शक्तिने ईश्वर मानी त्यारे तमारो अमारो विवाद दूर थयो; पठी तमे जे लख्युं ठे के जडमां यथावत् मलवानी शक्ति नथी, ते पण तमारुं लखाण मिथ्या थयुं. वली जुळ के जगत्मां जड पदार्थो अनेक तरेहथी पोतपोतानी मेले पूर्वोक्त पांच निमित्तोथी पोतपोतामां मली जाय ठे. जेम के सूर्यना किरणो वादलांमां पडवाथी इंद्रधनुपुं वनवुं, संध्यानुं होवुं, पांच वर्णनां वादलांनी एकत्र घटा थवी, चंद्र सूर्यनी आस पास कुंमलां थवां, आकाशमां पवनोना मेलापथी जल तेमज अग्निनुं उत्पन्न थवुं, तेमज वरसाद वरसवाथी घास तृणादि अनेक प्रकारनी वनस्पतिनुं उत्पन्न थवुं, तथा अनेक प्रकारना कीट पतंग प्रमुख जीवोनुं उत्पन्न थवुं इत्यादि;

आ पांचे निमित्त बिना कोइ वस्तुने बनावतां ईश्वर देखाता नथी. जरा पढ़पात ठोडी विचार करो ? ईश्वर कर्ता कोइ तरेहृथी सिद्ध थइ शके ठे ? कारण के पृथ्वी, आकाश, चंद्र सूर्य इत्यादि तो अव्यार्थिक नयना मतथी अनादि ठे. पठी तेने वास्ते पुठवुं थाय के आ कोणें बनाव्या ? तो हवे अमे पुठियें ठियें, ईश्वरने कोणें बनाव्या ? जो कहेसो के ईश्वरने तो कोइयें बनाव्या नथी, ते तो अनादिथी बन्या बनेलाज ठे, तो पठी पृथ्वी प्रमुख केटला एक पदार्थों पण बन्या बनेला अनादिथीज ते एम मानवामां शुं लज्जा आवे ठे ?

खरडझानी कहे ठे के—खजावथी जगत्नी उत्पत्ति जे माने ठे तेना मतमां आ दोष आवे ठे, जो पृथ्वी खजावथी थाय ठे तो तेनो कर्ता तेमज नियंता होय नहि, वही आ पृथ्वीथी जुदी दश कोश उपर आकाशमां पोतानी मेले वीजी पृथ्वी थइ जात, जे आज सुधीवनी नथी तेथी एम जणाय ठे के ईश्वर कर्ता ठे.

उत्तरपढ़ः— आप कांई विचार करो ठो के नहि ? जो विचारसो तो पूर्वोक्त केहेवुं अयुक्त लागसो. कारण के अमे कहियें ठियें के पृथ्वी बिगरे अनादि ठे, कोइयें बनावेल नथी, अने तमे कहो ठो के आकाशमां उंचे दश कोशने अंतरे वीजी पृथ्वी केम नथी बनती ? हवे विचारो के आ तमारो सवाल समजणवालो ठे ? आ तमारा प्रश्नना उत्तरमां कोइ एम पुठे के जो ईश्वर खजावथी बन्या होय तो ईश्वरथी अलग वीजा ईश्वर केम उत्पन्न थता नथी ? जो एम कहो के ईश्वर अनादि ठे तेथी वीजा नवा ईश्वर केम बने ? तेवी रीतें अमे पण कही शकियें ठियें के पृथ्वी अनादि ठे, नवी नथी बनती, तो पठी दश कोश आकाशमां केम बने ?

पूर्वपढ़ः— जो वस्तु पोते पोतानी मेलेज वनीजाय तो सर्वपरमाणु एकठा केम मली जता नथी ? अथवा एकेक थईने विखरीपण केम जता नथी ?

उत्तरपढ़ः— जड कांई अमारी आझा मानता नथी के अमारा केहेवाथी एकठा थईने एकरूप थई जाय, अथवा एक एक थई विखरी जाय; पूर्वोक्त पांच निमित्त ज्यां मलवानां हशे त्यां एकत्र थशे, ज्यां निमित्त नहि मले त्यां एकठां थशे नहि.

पूर्वपढ़ः— सर्व परमाणुने एकत्र मलवामां पांचनिमित्त केम मलतांनथी ?

उत्तरपक्षः— अनादि संसारनी जे नियतिरूप मर्यादा ठे ते कदापि अन्यथा थती नथी. जो कदी थाय तो, संसारमां जे जीवो जन्म लहे ठे ते सर्वे स्त्रीनाज, अथवा पुरुपनाज रूपथी केम उत्पन्न न थाय ? जो ए-म कदो के जेवां जेवां जेणे कर्म कस्यां होय तेवां तेवांज तेने फल मले ठे, पठी फक्त स्त्री आदि स्वरूपथीज केम उत्पन्न थाय ? तो हवे अमे पुत्रियें ठियें के, सर्वजीवोयें स्त्री होवानां के पुरुप होवानां जुदां जुदां कर्म केम कस्यां ? एकसरखां कर्म केम न कस्यां ? उत्तरमां एम केहेसो के, संसारमां ए सनातनथी रीत ठे के सर्वजीव सरखां कर्म कदापि करता नथी; त्यारे तो परमाणुमां पण सनातनथी एज स्वभाव ठे के एकत्र कदापि मंलतुं नहि, तेमज एकएक थइ विखराइ पण जतुं नहि. हे पूर्वपक्षि! आ तमारा ईश्वर जे जगत् रचेठे ते तमारा केहेवाथी, अगाऊ अनंत सृष्टिठ रची चुक्या ठे, तेमज एकेक जीवोने अशुचकर्मोनां फल अनंतवार दइ चुक्या ठे, तो पण ते जीवो आजसुधी पाप कस्याज करे ठे, तो हवे तेउने शिक्षा करवाथी ईश्वरने शुं लाज थयो ? के अनंत कालथी आ विडंबनामां पडी रह्या ठे ? वली ईश्वरने सृष्टि रचवानुं पण शुं प्रयोजन हतुं ?

पूर्वपक्षः— ईश्वरने सृष्टि नहि रचवानुं शुं प्रयोजन हतुं ?

उत्तरपक्षः— वाह रे अज्ञशिरोमणि ! आ तमे शुं उत्तर आप्यो ? शुं आ तमारा उत्तरथी विद्वान् माणस उपहास नहि करे ? ईश्वर जो सृष्टि रचे तो ईश्वरताज नष्ट थइ जाय; आ वृत्तांत, उपर सारी रीतें लखी आढ्या ठियें.

पूर्वपक्षः— ईश्वरनी जे शक्तिठ ठे ते सर्वे पोत पोतानुं काम करेठे, जेम आंख देखवानुं काम करेठे, कान सांजलवानुं काम करेठे, तेवी रीतें ईश्वरमां जे रचनाशक्ति ठे, ते रचना करवाथीज सफल थायठे, ते वास्ते जगत् रचेठे.

उत्तरपक्षः— जो तमे ईश्वरने सर्व शक्तिमान् मान्या तो ईश्वरनी सर्व शक्तिठ सफल थवी जोइये. पठी तो ईश्वर एक सुंदर पुरुपनुं रूप रची-ने १ जगत्नी सर्व सुंदर सुंदर स्त्रियो साथे जोग करे, २ चोर वनी चोरी करे, ३ विश्वास धातिपणुं करे, ४ जीवहत्या करे, ५ जूठ घोले, ६ अ-

न्याय करे, ७ अवतार लइ गोपियो साथे कल्लोल करे, ८ कुब्जा साथे जोग करे, ९ वीजानी स्त्रीने जगवी लइ जाय, १० शिरपर जटा राखे, ११ त्रण आंख बनावे, १२ बेलपर चढे, १३ शरीरपर विभूति लगाने, १४ एक स्त्रीने वामाङ्गमां राखे, १५ कोइ मुनिनी पासे नागा थइ नाचे, १६ कोइने वरदान आपे, १७ कोइने शाप दे, १८ चार मुख बनावी एक स्त्री राखे, १९ पोतानी पुत्री साथे जोग करे, २० संग्राम करे, २१ स्त्रीने चोरी लइ जाय तो पठी ते स्त्रीने माटे रोतो फरे, २२ एक पोतानो जगइ बनावे, पठी ज्यारे संग्राममां तेने शस्त्र लागे, त्यारे ज्ञाना दुःखथी बहु रोवे, २३ पोते पोताने अज्ञानी समजे, २४ ज्ञानी चिकित्सा वास्ते वैद्य बोलावे, २५ सर्व कांइ खाय, २६ पीये, २७ नाचे, २८ कुदे, २९ रोवे, ३० पीटे, पठी, ३१ निर्मल, ३२ ज्योतिःस्वरूप, ३३ निरहंकार, ३४ सर्व व्यापक, वनी वेसे इत्यादि शक्तिं ईश्वरमां ठे के नहि ? जो ठे तो, पूर्वोक्त सर्व काम ईश्वरने करवां पडशे, जो नहि करे तो ईश्वरनी सर्व शक्तिं सफल नहि थवानी ? पठी तो ईश्वर महादुःखी थइ जशे. कारण के जेने नेत्र तो मलेकां ठे, अने तेने देखवानुं न मले तो, ते केवो दुःखी थाय ठे ? जो एम कहो के पूर्वोक्त अयोग्य शक्तिं ईश्वरमां नथी, तो तो सर्व शक्तिमान् ईश्वर ठे एम कदापि न केहेवुं जोइयें. जो एम कहो के योग्य शक्तिंनी अपेक्षायें अमे सर्वशक्तिमान् मानियें ठियें, तो तो जगत् रचवानी शक्ति पण अयोग्यज ठे, ते पण परमात्मासां नथी. ते शक्तिनी अयोग्यता, उपर लखी आव्या ठियें. तथा हे पूर्वपद्धि ! ज्यारे ईश्वरें प्रथम सृष्टि रची हती, त्यारे स्त्री, पुरुषो तो न होतां, हवे विचारो के माता पिता विना मनुष्य केम उत्पन्न थयां हशे ?

पूर्वपद्धिः—ज्यारे ईश्वरें सृष्टि रची हती, त्यारेज बहुपुरुष, तेमज बहु स्त्रियो, माता पिता विना रच्यां हतां, त्यारपठी गर्भथी उत्पन्न थवा लाग्यां.

उत्तरपद्धिः—आ प्रमाणरहित केहेवुं कोइपण विद्वान् मानशे नहिं. कारण के माता पिता विना कदापि पुत्र उत्पन्न थइ शकतो नथी. जो कदी ईश्वरें प्रथम माता पिता विना पुरुष, स्त्री उत्पन्न कस्यां हतां तो आज पण घड्यां घडाव्यां, वन्यां बनाव्यां स्त्री पुरुष केम नथी भोकलता ? गर्भधारण कराववां, स्त्रीपुरुषनां मैथुन कराववां, गर्भवासनां दुःख. जो:

गवाववां, योनियंत्रद्वारा खेंची कढाववां, इत्यादि संकट शात्रास्ते रच्यां ? ईश्वरें अनंतवार सृष्टि रची, अने प्रलय कख्यो, त्यारे तो थाक्या नहि तो शुं मनुष्योनेज वनाववाथी थाक चडवानो ठे ? के घडेला घडावेला वनेला वनावेला मोकळी शकता नथी ? माता पिता विना पुत्र उत्पन्न थाय ए कदापि वनी शकतुं नथी, ते हेतुथी जगतूनो प्रवाह अनादिथी तेवीज रीतें तरतमंता रूपें चालतो आवेलो सिद्ध थाय ठे.

पूर्वपक्षः—जो कदी ईश्वर सर्व वस्तुना कर्ता न होय, अने जीवज कर्ता होय तो तो जीव पोतेज शरीर धारण करी लेशे. वली शरीरने कदापि ठोडशे नहि, पोते पोतानां सारां फल जोगवी लेशे, अने कदी मरशे नहि.

उत्तरपक्षः—आपें जे कहुं ते सर्व कर्मने वश ठे, परंतु जीवने आधीन नथी, जो एम कहो के कर्मपण जीवेंज कख्यां हतां, त्यारे अशुच कर्म जीवें केम कख्यां ? कारण के कोइपण पोतानुं वुहं करतां नथी; आ वातनो उत्तर तो अपाई गयो ठे, परंतु तमारी समजण थोडी ठे तेथी समजता नथी. कारण के जीवोनी जे जे शुच अशुच अवस्था ठे, ते सर्व कर्मोनुं फल ठे. वली जीव, कर्म करवामां तो प्रायः स्वतंत्रज ठे, परंतु फल जोगववामां स्ववश नथी. कारण के जेम कोइ जीव धनुष्यी तीर चलावे अने पठी पकडवा चाहे तो ते जेम तेनामां सामर्थ्य नथी, तेमज कोइ जीव विप खाय, ते खावामां तो स्ववश ठे परंतु ते विपना वेगने रोकवामां जेम समर्थ नथी, तेम कर्म करवामां तो जीव प्रायः स्वतंत्र ठे परंतु फल जोगववामां परवश ठे. वली जेम वर्तमान कालमां रेलगाडी, तथा तार जीवोए वनावेला ठे ते चालती रेलगाडी तथा जता तारना वेगने, जेटलो वखत तेनी कलनी प्रेरणा शक्ति बंध पडती नथी तेटलो वखत, कोइ जीव रोकू शकता नथी, तेवीज रीतें कर्मफलना वेगने रोकवामां जीवपण समर्थ नथी. वली जीवने जवांतरमां कोण लई जाय ठे ? तथा जीवना शरीरनी रचना, आंखोना पडदा, अनेक प्रकारना रंग वेरंगी, हाड, चामडी, लोही, वीर्य इत्यादि रचना कोण रचेठे ? तेनुं पूर्ण स्वरूप ज्यां (१४८) कर्म प्रकृतिनुं स्वरूप लखशुं त्यांथी जाणवुं. ते हेतुथी ईश्वर जगत् कर्ता कोइ तरेहथी सिद्ध थता नथी. विशेष

१ सारासार—नहाना मोहोटा उंचनीच वा न्यूनाधिक—के समविषम सुखिदुःखी. स्वतंत्र.

रीतें जगत्कर्त्ता ईश्वरं खंडन जाणवुं होय तो (१) श्रीसंमतितर्क, (२) द्वादशसार नयचक्र, (३) स्याद्वादरत्नाकर, (४) अनेकांतजय पताका, (५) शास्त्रसमुच्चयस्याद्वादकल्पलता, (६) स्याद्वादमञ्जरी, (७) स्याद्वादरत्नाकरावतारिका, (८) सूत्रकृतांग, (९) नंदीसिद्धांत, (१०) शब्दांज्ञोनिधिगंध हस्ति महाज्ञाप्य, (११) प्रमाणसमुच्चय, (१२) प्रमाणपरीक्षा, (१३) प्रमाणमीमांसा, (१४) आत्ममीमांसा, (१५) प्रमेय कमलमार्तक, (१६) प्रमेयदिनमार्तक, (१७) न्यायावतार, (१८) धर्मसंग्रहणी, (१९) तत्त्वार्थ, (२०) परुदर्शनसमुच्चय. इत्यादि जैनमतना ग्रंथ जोई लेवा. ते कारणथी जे कामी, क्रोधी, कपटी, धूर्त, परस्त्री गामी, स्वस्त्रीगामी, नाचनारा, गानारा, वजावनारा, रोपीटकरनारा, नस्म लगावनारा, माला जपनारा, संग्राम करनारा, रुमरु आदि वाजां वगाडनारा, वरदान अथवा शाप देनारा, विनाप्रयोजन अनेक संकटमां पडनारा, इत्यादि अडारे दूषणसहित ठे ते कुदेव ठे. तेने ईश्वर मानवा तेज मिथ्यात्व ठे. आ कुदेवोने माननारा पहरनी नाव उपर वेठा ठे. ते कारणथी लखवानुं प्रयोजन एटलुंज ठे के कुदेवने कदापि अर्हंत जगवंत परमेश्वर मानवा नहि.

इतिश्री तपागह्नीयमुनिश्रीबुद्धिविजयशिष्यमुन्यानंदविजयात्माराम विरचितजैनतत्त्वादर्थज्ञापांतरेकुदेवनिर्णयनामाद्वितीयःपरिच्छेदःसंपूर्णः॥१॥

॥ अथ तृतीयपरिच्छेदप्रारंभः ॥

त्रीजा परिच्छेदमां गुरुतत्त्वनुं स्वरूप कहियें ठियें. जैनमतमां गुरुनां लक्षण आ प्रमाणे लखेलां ठे:- महाव्रतधराधीरा, जैदमात्रोपजीविनः ॥ सामायिकस्थाधर्मोप, देशकायुरवोमताः ॥ १ ॥ अर्थ:-अहिंसादि पांच महाव्रत धारण करनारा तथा पालनारा, अने आपत्ति समये धैर्य राखनारा, पोताना धारण करेला व्रतमां दूषण लगावी कलंकित नहि करनारा, तथा बैतालीश दूषणरहित माधुकरी जिह्वावृत्ति करी, पोताना चारित्र धर्मना, तथा शरीरना निर्वाहवास्ते जोजन करनारा, जोजन पण पुरुं पेट नरी नहि करनारा, जोजनने वास्ते अन्न, पाणी रात्रिमां नहि राखनारा, तथा धर्म साधननां उपकरण वर्जी वीजो कांइ पण

संग्रह नहि करनारा, धन, धान्य, सुवर्ण, रौप्य, मणि, मोती, प्रवालादि कांडूषण परिग्रह नहि राखनारा, तथा राग छेपना परिणामरहित, माध्यस्थवृत्तिथी सदा वर्तनारा, तथा जीवोना उद्धारवास्ते, अर्हंत जगयंत परमेश्वरें सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूप धर्म, स्याद्वाद् अनेकांतन्यरूप निरूपण करेल ठे, तेनो ज्वयजीवोने उपदेश करनारा, परंतु ज्योतिष शास्त्र, अष्टांगनिमित्तशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा राजनीति-सेवाप्रमुख अनेक शास्त्र, जेथी धर्ममां बाधा पद्दोंचे तेयां शास्त्रोना उपदेश नहि करनारा, कारण के लौकिक शास्त्रो बुद्धिमान् पुरुषो वर्तमानमां पण बहु अध्ययन करे ठे, तेमज सांसारिक विद्यानां नवीन, नवीन अनेक पुस्तको बनावेठे. तथा पाश्चात्य पुरुषोनी बुद्धि जोड् आ देशना लोको पण सांसारिक विद्यामां बहुज निपुण थाय ठे, अने ते कारणथी जीवोने धर्म पामवो बहुज मुश्केल थायठे, तेथी फक्त धर्मनोज उपदेश करनारा, एवा लक्षणवाला गुरु जैनमतमां ठे अर्थात् जैनमतमां गुरुनां एवां लक्षणो ठे.

प्रथम पांच महाव्रत साधुने धारण करवां कहां ठे ते पांच महाव्रत कयां ठे ? ते कहियें ठियें. अहिंसासूनृताऽस्तेय, ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः ॥ पंचभिः पंचत्रियुक्ता, जावनाजिर्विमुक्तये ॥ २ ॥ अर्थः—(१) अहिंसा (जीवदया) (२) सूनृत (सत्यवचन बोलवुं) (३) अस्तेय (साधुने उचित, आप्या विना वस्तु न लेवी ते) (४) ब्रह्मचर्य पालवुं (५) सर्व परिग्रहनो त्याग. ए पांच महाव्रत ठे, तथा आ पांच महाव्रतोमां एकेक महाव्रतनी पांच पांच जावना ठे. साधु आ पांच महाव्रत, तथा पचीश जावना, मोक्षने वास्ते पाले.

आ पांच महाव्रतमांथी प्रथम महाव्रतनुं स्वरूप लखियें ठियें. न यत् प्रमादयोगेन, जीवितव्यपरोपणं ॥ व्रतानां स्यावराणां च, तदहिंसाव्रतं मतं ॥ ३ ॥ अर्थः—व्रत, (छांड़ियादि) अने स्यावर, (पृथ्वीकाय) (अणुकाय-तेजकाय-वाउकाय-वनस्पतिकाय) आ सर्व जीवोने प्रमादवश थइ सारे नहि. प्रमादनां लक्षणो; राग, छेप, असावधानपणुं, अज्ञान, मन वचन कायानुं चंचलपणुं, धर्मनेविषे अनादर इत्यादि. प्रमादने वश थइ जे प्राणातिपात करवो, तेनो जे त्याग, तेनुं नाम अहिंसा व्रत ठे.

बीजा महाव्रतनुं स्वरूप लखिये ठियें. प्रियं पथ्यं वचस्तथ्यं; सूनुतव्रत मुच्यते ॥ तत्तथ्यमपिनो तथ्यमप्रियं चाहितं च यत् ॥ ४ ॥ जे वचन सां-
जलवाची बीजा जीव हर्षे पामे, ते वचनने प्रियवचन कहियें, तथा जे वचन
जीवोने पथ्यकारि होय, परिणाम सुंदर होय, अर्थात् जे वचनची जीवने
जविष्यमां बहुज सारुं आय, तथा जे वचन सत्य होय, एवुं वचन जे
बोलवुं ते सूनुत व्रत कहियें; अने जे वचन अप्रिय तथा अहितकारि
होय ते सत्य होय तो पण सत्य नथी. आ व्रतविषे कांश्चक विशेष ल-
खियेठियें. जे वचन व्यवहारमां जलें सत्यज होय, परंतु ते जो बीजा
जीवने दुःखदायक होय तो ते वचन साधु न बोले. जेम के काणाने
काणो केहेवो, चोरने चोर केहेवो, कुष्टीने कुष्टी केहेवो, इत्यादि; वली
जे वचन जीवोने जविष्यमां अनर्थकारक होय तेपण वसुराजानी पेठे
बोले नहि. जो आ वंने वचनो बोले तो ते साधुने सूनुत व्रतमां कळक
लागी जाय, कारण के आ वंने वचनो असत्यमांज गणेलों ठे.

हवे त्रीजुं महाव्रत लखियें ठियें. अनादानमदत्तस्या, ज्स्तेयव्रतमुदी-
रितं ॥ बाह्याः प्राणानृणामर्थो, हूरता तं हताहि ते ॥ ५ ॥ अर्थः—अदत्त
मालेकना आप्या विना लई लेवुं तेनो जे नियम ते अस्तेय व्रत कहियें.
नामांतरं अचोरीव्रत. अदत्तादानं, चार प्रकारनुं ठे (१) जे वस्तु साधु-
ने लेवा योग्य ठे, जेम के अचित्त, जीवरहित वस्तु, तृण, काष्ठ, पापा-
णादि, ते तेना स्वामिना पुठ्या विना लई लेवी, ते स्वामि अदत्त. (२)
तथा जेम कोई घेदुं, बकरी, गाय प्रमुख जीव, जेनो स्वामी बीजा हिं-
सकजीवने तेनी किंमत लई आपे, अथवा किंमत विना आपे, अने ले-
नारें आपेली वस्तु लीधी ठे, परंतु ते जीवें पोतानुं शरीर आपेवुं नथी,
ते हेतुची जीवअदत्त. (३) तथा आधाकर्मादि आहार प्रमुख जे जे
वस्तु, अचित्त, जीवरहित पण ठे, अने आपेली पण ते वस्तुना स्वामियें
ज ठे, परंतु तीर्थकर जगवंतें निषेध करी ठे. पंठी जो साधु ते वस्तुने
ग्रहण करे तो तीर्थकर अदत्त (४) तथा जे वस्तु निर्दोष ठे, जेम के
वस्त्र आहारादि, अने ते वस्तुना स्वामियें ते आपेली ठे, तेमज तीर्थ-
कर. जगवंतें तेनो निषेध पण करेलो नथी, उतांपि गुरुनी आज्ञाविना
ते वस्तुने जो साधु लहे तो अदत्त. आ व्रतमां आ चारे प्रकारनुं अदत्त

न लेवुं. जेटलां व्रत, नियम ठे, ते सर्वे अहिंसा व्रतनी रक्षावास्ते वाड समान ठे, आ त्रीजा व्रतना पालनथी, अहिंसा व्रतनीज रक्षा थाय ठे; अने जो त्रीजुं व्रत न पाखे तो अहिंसा व्रतने दूपण लागे ठे, कारण ए ठे के लक्ष्मी जे ठे ते मनुष्योना वाह्य प्राण ठे. ज्यारे मनुष्य कोइनी चोरी करे ठे, त्यारे निश्चयथी ते तेना प्राणोनोज नाश करे ठे. ते कारणथी चोरी करवी ते महापाप ठे. सर्व चोरीनो जे त्याग, तेनुंज नाम त्रीजुं अदत्तादान त्यागरूप महाव्रत ठे.

हवे चोथा महाव्रतनुं स्वरूप लखियें ठियें. दिव्यौदारिककामानां, कृतानुमतिकारितैः ॥ मनोवाक्कायतस्त्यागो, ब्रह्माष्टादशधा मतम् ॥ ६ ॥ अर्थः—दिव्य (देवताना) वैक्रिय शरीर संबंधी जे कामजोग, तथा औदारिक (तिर्यच, मनुष्यना) शरीर संबंधी जे काम जोग, अर्थात् वैक्रिय तेमज औदारिक ए वंने शरीरनी साथे विषयसेवनं करवुं, तेमज वीजा-उने विषयसेवन कराववां, तेमज विषयसेवन जे करे तेने अनुमति आ-पवी, आ ठ जेद, मनथी, वचनथी, तेमज कायाथी ए रीतें अठार प्रकारथी मैथुनसेवननो जे त्याग तेने ब्रह्मचर्य व्रत कहियें ठियें.

हवे पांचमुं महाव्रत लखियें ठियें. सर्वज्ञावेषु मूर्ठ्याया, स्त्यागः स्या-दपरिग्रहः ॥ यदि सत्स्वपि जीयेत, मूर्ठ्या चित्तविप्लवः ॥ ७ ॥ अर्थः—संपूर्ण जे सारा ज्ञाव पदार्थ, ड्रव्य, क्षेत्र, काल, ज्ञावरूप, तेनेविषे जे मूर्ठा-ममत्वज्ञाव-मोह, तेनो जे त्याग, ते अपरिग्रह व्रत कहियें. जेनी पासे पोताना शरीर विना वीजी कांइ वस्तु नथी तेने पण निष्परिग्रह पणुं ठे एम न कहियें, परंतु जेने, सर्व वस्तुं उपरथी मूर्ठा-ममत्व-मोह गयेवो होय तेनेज निष्परिग्रही कहियें. कारण के जेनी पासे वस्तु कोइ नथी, परंतु नथी एवी वस्तुनी चाहना जेने लागी रहीं ठे ते त्यागी न-हि. जो ज्ञानद्वारा मूर्ठा त्याग्या विना त्यागी थवातुं होय तो कुतरा तेमज गधेडा पण त्यागी थवा जोश्यें. सवव जे पुरुष ममत्वरहित ठे ते निष्परिग्रही ठे. पठी तेनी पासे. धर्मसाधन करवानां केटलां एक उ-पकरण पण ठे तो. पण मूर्ठानां अज्ञावथी ते परिग्रह नथी.

हवे पूर्वोक्त एकेक महाव्रतनी पांच पांच ज्ञावना लखियें ठियें. ज्ञा-वनाजिज्ञावितानि, पंचजिः पंचजिः क्रमात् ॥ महाव्रतानि नो कस्य, सा-

धयत्यव्ययं पदम् ॥ १ ॥ अर्थः— आ पांच महाव्रतानी पचीशजावनाथी जे कोइ ते ते महाव्रतने रंजित (वासित) करे, अर्थात् पांच पांच जावनापूर्वक अखंड महाव्रत पाळे तो एवो कोइ जीव नथी के तेने ते महाव्रत मोक्ष पद न प्राप्त करावे ?

हवे प्रथम महाव्रतनी पांच जावनां लखियें ठियें. मनोगुप्त्येपणादानै, र्याजिः समितिजिः सदा ॥ दृष्टान्नपानग्रहणे, नाहिंसां जावयेत् सुधीः ॥ १ ॥ अर्थः— मनने पापना काममां न प्रवृत्तवि, परंतु पापना काममांथी खेंची लीए. तेनुं नाम मनोगुप्ति ठे. जो मनने पाप काममां प्रवृत्तवि, अने बाह्य वृत्तिथी हिंसा न पण करे तो पण प्रसन्नचंद्र राजर्षिनी प्रेठे सातमा नरकमां गमन करवा योग्य पापकर्म उत्पन्न करे ठे. ते कारणथी मुनियें अवश्य मनोगुप्ति करवी जोश्यें. ए प्रथम जावना. तथा एपणा समिति—आहारादि चारे वस्तु, आधाकर्मादि वेंतालीश दोपरहित लहे. वेंतालीश दूषणोनुं संपूर्ण स्वरूप जोबुं होय तो पिंडनिर्युक्ति शास्त्र (१०००) श्लोक प्रमाण ठे ते जोइ लेबुं. ए वीजीजावना. तथा आदाननिक्षेप- पात्र, दंड, फलक प्रमुख जे कांइ लेबुं पडे, तथा जूमि उपर राखबुं पडे, ते प्रथम तो नेत्रथी देखीने, रजोहरणथी पुंजीने, पठी लहे तेमज राखे; कारण के विंठी, सर्पादि अनेक फेरी जीव, जो ते उपकरण उपर वेठा होय तो ते करडे, अने वीजी विचारा अनाथ जीव वेठा होय तो हाथना स्पर्शथी ते मरी जाय, अने तेथी जीवहत्यानुं पाप लागे, ते वास्ते जे काम करे ते यत्नपूर्वक करे. ए त्रीजी जावनां. तथा ज्यारे चालवानी जरूर पडे त्यारे पोतानी आंखथी चार हाथ प्रमाण जमीन देखीने चाळे, जे नीचुं जोइने चाळे ठे, तेने केटला एक गुण तथा लाज प्राप्त थाय ठे, प्रथम तो पगने ठोकर लागती नथी, वीजुं, जेने परिग्रहनो त्याग न होय तेने पडीगयेला पैसा तेमज रूपैया आदि मळी जाय, त्रीजुं, कोइनी बहु, दीकरी सन्मुख नजर करतो नथी तेथी उत्तम मनुष्य ठे, एम लोकमां प्रसिद्ध थाय, चोथुं जीवनी रक्षा करवाथी धर्मनी प्राप्ति थाय ठे. इत्यादि. ए चोथी जावना तथा जे अन्न पाणी साधु लहे ते प्रकाशवाली जग्यामां लहे, अंधकारवाली जग्यामां न लहे; कारण के अंधकारवाली जग्यामां एक तो जीव

नजरे पडता नथी, वली साप, विंठी करडवानो जय रहे ठे. तथा गृह-स्थनुं कांइ आचूषण प्रमुख गयुं होय तो तेना मनमां शंका उत्पन्न थाय के, कोण जाणे अंधारामां साधुज लइ गया होय ? वली अंधारामां सुंदर साधुने देखीने कदाचित् कोइ उत्कट विकारवाली स्त्री उग्र स्पर्श करे, अने ते वखते वीजा देखता होय तो धर्मनी अत्यंत निंदां थाय, वली साधुनुं मन पण अंधारामां स्त्रीने देखीने ब्रष्ट थाय, साधु स्त्रीने पकडे, स्त्री पोकार करे, एटले विशेष धर्मनी हानि थाय; साधुज उपर अप्रीति थाय, ते कारणथी अंधकारवाली जग्यामां साधु अन्नादि न लहे. ए पांचमी जावना.

हवे वीजा महाव्रतनी पांच जावना लखिये ठियें. हास्यलोचनजय क्रोध, प्रत्याख्यानेनिरंतरम् ॥ आलोच्य जापणमपि, जावयेत् सूनुतं व्रतं ॥ १ ॥ अर्थः—प्रथम कोइनी हांसी न करे, हांसीनो त्याग करे, कारण के जे पुरुष वीजानी हांसी करशे, ते अवश्य जुतुं बोलशे. परनी हांसी करवी ते महा अनर्थनुं कारण ठे. श्रीहेमचंद्रसूरिकृत रामायणमां लख्युं ठे के, रावणनी बेन शूर्पनखानी श्रीरामचंद्र तेमज लक्षणजीये हांसी करी तेथी शूर्पनखा क्रोधायमान थइ, पोताना जाइ रावणनी पासे गइ; अने सीतानुं वर्णन कखुं, पठी रावणें सीतानुं हरण कखुं, मोटुं युद्ध थयुं, जेनी आज लोको नकल वनावे ठे. आ सारी रामायणनुं निमित्त शूर्पनखानी हांसी ठे. ते वास्ते परहास्यनो त्याग करे. प्रथम जावना. वीजो, लोचनो त्याग करे, कारण के जे लोचनी हशे ते अवश्य पोताना लाजने वास्ते जूतुं बोलशे. ए वीजी जावना. तथा जय न करबो, कारण के जयवंत पुरुष पण जूतुं बोली दीये ठे. ए त्रीजी जावना. तथा क्रोध करवानो त्याग करे, कारण के जे पुरुष क्रोध-वश थशे ते वीजानां ठतां, अठतां दूषणो अवश्य बोलशे, तेथी क्रोध-त्यागरूप चौथी जावना. तथा प्रथम मनमां विचार करी पठी बोले, कारण के विचार विना बोलशे ते अवश्य जूतुं बोलशे, ते वास्ते विचार-पूर्वक बोलवुं ते पांचमी जावना.

हवे त्रीजा महाव्रतनी पांच जावना लखिये ठियें. आलोच्यावग्रह्या-श्चाऽऽजीहणावग्रह्याचनं ॥ एतावन्मात्रमेवैत, दित्यवग्रहधारणं ॥ १ ॥

समानधार्मिकेभ्यश्च, तथावग्रहयाचनं ॥ अनुज्ञापि तथा नाम्ना, सनम-
स्तेयज्ञावना ॥ १ ॥ अर्थः—जे मकानमां साधुने रेहेबुं होय, ते मकानना
स्वामिनी प्रथम आज्ञा लेवी, मकाननो मालेक आज ठे एम जाणीने
आज्ञा लेवी. जो स्वामिनी आज्ञाविना रहे तो स्तेय लागे. तेमज घरनो
मालेक कदाचित् रात्रिमां क्रोधवश थइ साधुने बहार काढे तो रात्रि-
मां क्यां जवुं ? इत्यादि अनेक व्देश उत्पन्न थाय, ते वास्ते मकानना
मालेकनी आज्ञा लइ ते मकानमां रेहेबुं. ए प्रथम ज्ञावना. उपा-
श्रयना स्वामिनी वारंवार आज्ञा लेवी, कारण के कोइ साधु कदाचित्
रोगी थइ जाय, त्यारे जंगल पुरीपमूत्र करवाने अवश्य जगा जोश्यें.
गृहस्वामिनी आज्ञाविना जो तेना मकानमां मलमूत्र करे तो चोरी लागे.
ते वास्ते गृहस्वामिनी वारंवार आज्ञा लेवी. ए वीजी ज्ञावना. तथा उ-
पाश्रयनी जूमिनी मर्यादा करी लहे के अमुक जग्यासुधी अमने आपनी
आज्ञा ठे, जो मर्यादा न करे तो अधिक जूमि उपयोगमां लेवाधी चोरी
लागे ठे. ते वास्ते प्रथमज मर्यादा करे. ए वीजी ज्ञावना. तथा जे साधु
समानधर्मी होय, अने ते कोइ जग्यामां प्रथम उतरेला ठे, पठी वीजा
साधु जो ते मकानमां उतरवा चाहे तो प्रथमना साधुनी आज्ञा विना
उतरे नहि. जो प्रथमना साधुनी आज्ञा न लहे तो स्वधर्मी अदत्त लागे.
ए चोरी ज्ञावना. तथा साधु जे कांइ अन्न, पान, वस्त्र, पात्र, शिष्यादि
लहे, ते सर्वे गुरुनी आज्ञाधी लहे, जो गुरुनी आज्ञा विना कांइ वस्तु
लहे तो गुरु अदत्त लागे. ए पांचमी ज्ञावना.

हवे चोथा व्रतनी पांच ज्ञावना लखियें ठियें. स्त्रीपंडपशुमद्देशमा, स-
नकुड्यांतरोक्षनात् ॥ सरागस्त्रीकथात्यागात्, प्राग्रतस्मृतिवर्जनात् ॥ १ ॥
स्त्रीरम्यांगेक्षणस्वांग, संस्कारपरिवर्जनात् ॥ प्रणीतात्यशनत्यागात्, ब्रह्म-
चर्यं तु ज्ञावयेत् ॥ २ ॥ अर्थः—जे घरमां, आसनमां के जीतने अंतरे
देवी अथवा मनुष्यनी स्त्री वसती होय, अथवा देवांगना के मनुष्य
स्त्रीनी लेपमय के चित्रामण प्रमुखनी मूर्ति होय, तथा जे घरमां नपुंसक
वेदवाला रेहेता होय, तथा जे मकानमां पशु, गाय, महिषी, घोडी, ब-
करी, गाडरी प्रमुख तिर्यंच स्त्री राखवामां आवती होय, तथा जे मका-
नमां कामसेवन करनारी स्त्रीना शब्द तथा वीजा मोह उत्पन्न करनात्

शब्द तथा तेना आञ्जूपणोना शब्द श्रवण यथा होय, ते मकानमां तथा तेनी एक जीतने अंतरे साधु न रहे. ए प्रथम जावना. तथा सराग (प्रेमसहित) स्त्रीनी साथे वार्त्तालाप न करे, अथवा रागवाली स्त्री साथे वार्त्ता न करे, तथा स्त्रीना, देश, जाति, कुल, वेप, जापा, स्नेह शृंगार प्रमुखनी कथा सर्वथा न करे; कारण के रागवाली स्त्रीनी साथे जे पुरुष स्नेहसहित कामशास्त्र प्रमुखनी वार्त्ता करशे ते अवश्य विकार जावने प्राप्त थशे, ते वास्ते सरागस्त्री साथे कथा न करे. ए वीजी जावना. तथा दीक्षा लीधा पहेलां गृहस्थावासमां स्त्रीनी साथे जे कामक्रीडा, वदनचुवन, चोरासी कामासनथी विषयसेवन प्रमुख क्रीडा करी होय, तेने फरी मनमां कोइ वखत स्मरण न करे, कारण के पूर्वक्रीडा स्मरण रूप इंधनथी कामाग्नि फरी धुंधवा लागी जाय ठे. ए त्रीजी जावना. तथा अविवेकी मनुष्योने देखवा, तेमज वांठवा योग्य स्त्रीनां अंगोपांग, मुख, नयन, स्तन, जंघा, होठ प्रमुख तेने सरागदृष्टिथी जोवां, तथा अपूर्व विस्मय रसना पूरमां मग्न थइ आंख फाडी स्त्री सन्मुख जोवुं, इत्यादि वर्जे; परंतु रागरहित दृष्टिथी जो कदाचित् देखवामां आवी जाय तो दोष नहि. तथा पोताना शरीरने सुधारे, स्नान, विलेपन, धूपथी सुगंधित करे, नख, दांत, केश, समारे अने चक्षुनी कंगी, सूरमाथी विचूपा करे, इत्यादि शरीरसंस्कार न करे. कारण के स्त्रीनां रमणीय अंगोपांग देखवाथी, दिवानी शिखामां जेम पतंगिड जस्म थाय ठे, तेम कामी पुरुष पण कामाग्निमां जस्म थाय ठे. आ शरीर सर्व अशुचितुं मूल ठे, तेने शृंगार करवो ते अज्ञानता ठे. जेम मलीन वस्तुनी कोथली उपर चंदननुं लेपन करवामां आवे तो शुं ते कोथली सुगंधमय थाय ठे? तेवुंज आ शरीर ठे. वली आ शरीर अंते स्मशाननी मूठीजर राख थई जाय ठे तो शावास्ते तेनी विचूपा करवामां व्यर्थ काल गमाववो जोइयें? ए चोथी जावना. तथा प्रणीत, स्निग्ध, मधुरादि रस, तेनो अधिक आहार करवो, तथा रूक्षजोजन पण संपूर्ण पेट जरी खावुं, आ वंने प्रकारना आहारनो त्याग करे; कारण के जे पुरुष, निरंतर स्निग्ध, मधुर रसनो आहार करशे ते जरुर धातुपुष्ट थशे, पठी वेद उदयथी अवश्य कुशील सेवन करशे. तेमज जिज्ञावृत्तिमां रूक्षजोजन पण प्रमाणथी अधिक करवाथी काम उ-

त्पन्न थइ जाय ठे, तेमज अधिक खावाथी शरीरने पीडा उत्पन्न थाय ठे, वली विषूचिकाप्रमुख रोग थाय ठे, ते वास्ते प्रमाणथी अधिक जोजन पण न करे. पूर्व पुरुषोए खावानी मर्यादा आ प्रमाणें लखी ठे, यतः ॥ अरुमसणस्य सर्वं, जणस्य कुज्जा दवस्स दोजागे ॥ वाउपविआरणठा, ठज्जाय ऊणगं कुज्जा ॥ १ ॥ जावार्थः— मतिपूर्वक पोताना उदरना ठ जाग करवा, तेमांथी त्रणजाग अन्नथी, अने वे जाग पाणीथी पूरवा, अने एक जाग खादी राखवो. जेथी श्वासोह्वास सुखें सुखें प्राप्त थया करे. ए पांचमी जावना.

हवे पांचमा महाव्रतनी पांच जावना लखियें त्रियें. स्पशें रसे च गंधे च, रूपे शब्दे च हारिणि ॥ पंचसु हीं क्रियार्थेषु गाढं गार्ह्यस्य वर्जनं ॥ १ ॥ एतेष्वेवामनोहेषु, सर्वथा द्वेषवर्जनं ॥ आकिंचन्यव्रतस्यैवं, जावनाः पंच कीर्त्तिताः ॥ २ ॥ अर्थः—स्पर्शादि मनोहर पांचे विषयोमां जे अत्यंत यद्भिपणुं ते वर्जवुं तेमज स्पर्शादि अमनोह्र पांचे विषयोमां द्वेष न करवो. ए पांचमा महाव्रतनी पांच जावना. पूर्वोक्त पांच महाव्रत, तेमज पचीश जावना जेमां होय ते, तथा चरणसित्तरी अने करणसित्तरी संयुक्त जे होय ते जैनमतमां गुरु कहैल ठे.

हवे चरणसित्तरीना सित्तेर जेद लखिये त्रियें. यतः ॥ वयसमाण धम्म संजम, वेयावच्चं च वंज गुत्तीठ ॥ नाणाइ तियं तवको, हनिग्गहाइइ चरण मेयं ॥ १ ॥ अर्थः—पांच प्रकारनां व्रत, दश प्रकारना श्रमणधर्म, सत्तर प्रकारना संयम, दश प्रकारना वैयावृत्त्य, नव प्रकारनी ब्रह्मचर्यगुत्ति, त्रण प्रकारें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, चार प्रकारना क्रोधादिनिग्रह, ए सर्वमली सित्तेर जेद थया. तेमांथी पांच व्रतनुं स्वरूप जावनासंयुक्त उ पर वतावेळ ठे.

हवे दशप्रकारें श्रमणधर्म लखियें त्रियें. यतः ॥ खंतिंयं महवज्जाव, मुत्तीतव संजमेय बोधवा ॥ सच्चं सोयं आकिं, चणं च वंजं च जइधम्मो ॥ १ ॥ खंति (क्षमा) कदापि सामर्थ्य होय अथवा न होय तोपण वीजानां दुर्वचन सहन करवाना परिणाम—मनोवृत्ति, तेनुं नाम क्षमा ठे. अर्थात् सर्वथा क्रोधनो त्याग, ते क्षमा. (२) माईव-कोमलपणुं-अहंकाररहितपणुं, एवाजे जाव, अथवा कर्म ते माईव; नम्र थइ अजिमाननो त्याग करवो ते.

(३) आर्जव-मनवचन कायाधी सरल तेनो जे जाव अथवा कर्म ते आर्जव मनवचन कायानी कुटिलतानो अजाव. (४) मुक्तीमोचनं-वाह्याच्यंतरधी तृष्णानो त्याग, लोचनो त्याग ते मुक्ति. (५) तप-रसादि धातु अथवा अष्टप्रकारनां कर्म जेनाधी जस थाय ते अशनादि चार प्रकारें तप. (६) संयम-आश्रवनी त्यागवृत्ति (७) सत्यं-मृपावादविरति, जूठनो त्याग (८) शौच-संयमवृत्तिमां कलंकनो अजाव. (९) आकिंचन- किंचित्मात्र द्रव्यनुं पोतानी पासें नहि होवापणुं(१०) ब्रह्मचर्य- सर्वथा मैथुननो अजाव. आ दश प्रकारना यतिधर्म जाणवा. वली मतांतरधी दशप्रकारें यतिधर्म आ रीतें कहेठे: यतः ॥ खंती मुक्ती अजाव, महव तहलाघवे तवे चेव ॥ संजम वियोग किंचण, बोधवे वंजचेरेय ॥ १ ॥ अर्थनी सुगमताधी विस्तार कस्यो नथी.

हवे सत्तर जेद संयमना लखिये ठियें. यतः॥ पंचासवा विरमणं, पंचिदिय निग्गहो कसाय जठ ॥ दंरुत्तयस्स विरइ, सत्तरसहा संजमो होइ ॥ १ ॥ अथवा ॥ पुढवि दग अगणिमारुय, वणसइ खिति चउ परिण्दि अजीवा ॥ पढुप्पेह पमद्यण, परिठवण मणो वइ काए ॥१॥ अर्थ:- ॥ उत्पन्न करियें कर्म जेनाधी ते आश्रव- तेना पांच प्रकार, पांच महाव्रतमां वताव्या ठे ते (१) हिंसा (२) मृपा (३) चोरी (४) मैथुन (५) परिग्रह. आ पांचे आश्रवनो त्याग करे. तथा स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु तेमज श्रोत्र. आ पांचे इंद्रियोना स्पर्शादि पांचे विषयोविषे लंपटपणुं त्यागे. तथा क्रोध, मान, माया अने लोच ए चारे कपायने जीते. ए चारेना उदयने निष्फल करे, तेमज नहि उदय पाम्या होय तेने उत्पन्न न करे. तथा जीवनी चारित्रधर्मरूप लक्ष्मी जेनाधी दंभाय एवा खोटा मन वचन कायारूप जे व्रणदंरु तेनी विरति करे. ए सत्तर जेद संयमना वताव्या. हवे प्रकारांतरधी संयमना सत्तर जेद वतावियें ठियें. (१) पृथ्वी, (२) जल, (३) अग्नि, (४) पवन, (५) वनस्पति, (६) छींद्रियजीव, (७) त्रींद्रियजीव, (८) चतुरिंद्रियजीव, (९) पंचेंद्रियजीव. पूर्वोक्त नवविध जीवोनी, मन, वचन अने कायाधी, करवी, कराववी अने करनारने अनुमोदवारूप हिंसावृत्तिनो त्याग, ते नव प्रकारना संयम- तेमां सरंज, समारंज, आरंज तेनी समज आ ठे. प्राणीना प्राणना विनाश करवानो संकल्प करवो ते

सरंज; जीवना प्राणने परिताप उपजाववो याने पीडा करवी ते समारंज; तथा जीवोना प्राणनो विध्वंस करवो ते आरंज; तथा (१०) अजीवसंयम, जे अजीव वस्तुने राखवाथी संयममां कलंक लागे. जेमके मांस, मदिरा, सुवर्णप्रमुख धातु, मोतीप्रमुख रत्न, अंकुशादि शस्त्र, इत्यादि अजीव वस्तु राखवाथी संयममां कलंक लागे, तेथी तेवी अजीव वस्तु न राखवी; अने अजीवरूप पुस्तक, तथा शरीर उपकरणादि, ते आ दूपमकाल प्र-प्रमुख दोषथी, बुद्धि, आशु, श्रद्धा, संवेग, उद्यम, बल इत्यादि सर्व हीन थइ गयेल ठे. विद्यास्मरण रेहेती नथी. ते कारणथी आ कालमां पुस्तक राखवां, ते प्रतिलेखणा, प्रमार्जनपूर्वक यत्नथी राखवां. तथा (११) प्रे-हासंयम-नेत्रथी देखी, बीज, हरिप्रमुख जीवरहित स्थानमां सुबुं, वे-सबुं, चालबुं इत्यादि करबुं ते. तथा (१२) उपेक्षासंयम- गृहस्थने पा-पनो व्यापार करतां उपदेश करवो के आ काम तमे आवी रीतें करो ते; अथवा कोइ साधु संयमथी चलायमान थया होय तेने हितपूर्वक उपदेश करवो ते, तथा पार्श्वस्थादि साधु जेठ समाचारीथी ब्रष्ट थया होय, तेमज तेठ कोइ अनुचित काम करी रखा होय, तेउने उपदेश करीश तो तेठ मानवाना नथी, एम कोइ साधु मनमां जाणी उदासीन रहे ते- तथा (१३) प्रमार्जन संयम- अवलोकन करेला स्थानमां वस्त्र, पात्रादि जो लेवां अथवा राखवां पडे तो प्रथम रजोहरणादिथी प्रमार्जन करीने पठी लेवां, राखवां के सुबुं, वेसबुं करे ते. तथा (१४) परिष्ठापना संयम- ज्ञात, पाणी, वस्त्र, पात्रादि जेमां जीव पडी गया होय तेने जीवरहित शुद्ध भूमिकामां शास्त्रोक्तविधिथी जे परठववां ते. तथा (१५) मनःसंयम-म-नमां झोह, ईर्ष्या, अजिमान न करवां, अने धर्मध्यानादिमां मन प्रवृत्त करबुं ते. तथा (१६) वचनसंयम-हिंसाकारी कठोरवचन न बोलवां, अने शुचवचननुं उच्चारण करबुं ते. तथा (१७) कायासंयम-गमनागमन कर-वामां, तथा अवश्य करवा योग्य कामोमां उपयोगपूर्वक कायाने प्रवर्त्ता-ववी ते. आ सत्तर जेद संयमना जाणवा.

हवे वैय्यावृत्तना दश जेद कहियें त्रियें. आयरिय उवद्याय, तवस्ति सेहे गिलाण साहुसु ॥ समणोन्न संघ कुलगण, वेयावच्चं हवइ दसहा ॥ १ ॥ अर्थः-(१) ज्ञानादि पांच आचारने पाळे ते आचार्य, तथा सेवियें

जे ते आचार्य. तथा (२) जेनी पासे आवीने अध्ययन करीये ते उपाध्याय. तथा (३) तप जे करे ते तपस्वी. तथा (४) जेणे ननु साधुपणुं अंगीकार करुं होय ते शिष्य. तथा (५) ज्वरादि रोगवाला जे साधु ते ग्लान. तथा (६) धर्मथी रुगनारने स्थिर करे ते स्थविर. तथा (७) जे साधुनी पोताना सरखी समाचारी होय ते समनोद्ध. तथा (८) साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका ए चारेनो जे समुदाय ते संघ. तथा (९) बहु एक सरखा गठोना, सजातिउना जे समूह ते कुल, चंड्रादि. तथा (१०) एक आचार्यनी वाचना वाला साधुउना समूह ते गण, गठ, कौटिकादि. पूर्वोक्त आचार्यादि दर्शने अन्न, पाणी, वस्त्र, पात्र, मकान, (१) पीठ, (२) फलक, (३) संस्तारक प्रमुख धर्म साधनोथी जे साहाय्य करुं, शुश्रूषा करवी, तथा जंगलमां रोग उत्पन्न थवाथी ओषध करवां, तथा नाना प्रकारना उपसर्गोथी पालना करवी तेनुं नाम वैश्यावृत्त ठे.

हवे जे शीलवान् साधु नव वाडसहितं शील पाळे तेने नवविध ब्रह्मचर्यनी गुप्ति कहे ठे. ते लखियें ठियें. यतः ॥ वसहि कह निसि-
 दिंदिय, कुमुंतर पुवकीलिय पणीए ॥ अश्मायाहार विभू, सणाइ नव
 वंज गुत्तीउ ॥ १ ॥ अर्थः— १ (वसहि) वस्ति-जे ब्रह्मचारी साधु हो-
 य ते स्त्री, पशु, पंरुकसंयुक्त जे वस्ति होय त्यां न रहे. तेमां प्रथम
 स्त्री, वे प्रकारनी ठे, एक देवी, वीजी “ मानुषी ” मनुष्यणी; ते वंनेना
 वे वे जेद ठे, एक असल, वीजी तेनी मूर्ति के चित्रामनी मूर्ति. आ
 वंने प्रकारनी स्त्री न होय ते वस्तिमां रहे. तथा पशु जे तिर्यचणी, गाय,
 कुतरी, पाडी, घोडी, वकरी, घेटी प्रमुख जे वस्तिमां नहि रहेती होय
 त्यां रहे. तथा पंडक. नपुंसक, त्रीजा वेदवाला, अत्यंत मोहमय काम
 करनारा, स्त्री अने पुरुष वंनेनी साथे विषय सेवनारा, जे वस्तिमां रे-
 हेता होय त्यां ब्रह्मचारी न रहे. कारण के आ त्रणे संयुक्त वस्तिमां रे-
 हेतां थकां तेउनी काम विकारनी चेष्टा देखवाथी, ब्रह्मचारीना मनमां
 विकार उत्पन्न थवाथी ब्रह्मचर्यने वाधा थांय ठे. जेम उंदर तेमज विदाडी
 एक जगामां रहे तो उंदरने सुख नहि, तेमज आ त्रणे संयुक्त वस्तिमां
 रहेवाथी शीलवान्ने शियलमां उपद्रव थाय. आ प्रथम ब्रह्मचर्यगुप्ति.

(कह) कथा. केवल स्त्रियोनेज, तथा एकली स्त्रीने धर्मदेशना वचनना प्रबंधरूप कथा न करे, तथा स्त्रीनी कथा न करे ॥ यथा ॥ कर्णाटी सुरतोपचारचतुरा, वाटी विदग्धा प्रिया ॥ इत्यादि कथा न करे. कारण के आ कथा राग उत्पन्न करवानो हेतु ठे. तथा स्त्रीना, देश, जाति, कुल, वेप, ज्ञापा, गति, वित्रम, इंगित, हास्य, लीला, कटाह, स्नेह, रति, कलह, शृंगार इत्यादि जे विषय रसनी पोषण करनारी कामिनीनी कथा ते कदी न करे, जो करे तो अवश्य मुनिनुं मन पण विकार पामे. आ वीजी ब्रह्मचर्यनी गुप्ति.

३ (निसिद्ध) आसन— स्त्रियोनी साथे एक आसनपर न वेसबुं, तथा जे जगा अथवा आसनथी स्त्री उठी होय ते आसन अथवा स्थानमां वे घडी सुधी साधु न वेसे, कारण के ते जग्यामां तत्काल वेसवार्थी स्त्रीनी स्मृति थाय ठे, तेमज स्त्रीना वेसवार्थी शय्या अथवा आसन, मेलथी मलिन थवार्थी स्त्रीना स्पर्शवाला आसनादिना स्पर्शथी विकार उत्पन्न थाय ठे. आ त्रीजी ब्रह्मचर्यगुप्ति.

४ (इंद्रिय) इंद्रिय, अविवेकी लोकोने देखवा योग्य स्त्रियोनां अंगोपांग जे नाक, स्तन, जंघा प्रमुख तेउने ब्रह्मचारी साधु अपूर्व रसमां मग्न थइने, नेत्र फाडीने देखे नहि. कदाचित् दृष्टि पडी जाय तो पठी एवी चिंतवना पण न करे के वाह शुं विशाल सुंदर लोचन ठे ! वाह शुं नासिका सीधी ठे ! तथा इछवा योग्य वने स्तन ठे ! जो स्त्रीनां पूर्वोक्त अंगोपांगनुं एकाग्र रसमां मग्न थइ चिंतवन करे तो अवश्य मोहाधीन थइ मन विकार प्राप्त थाय. आ चोथी ब्रह्मचर्यगुप्ति.

५ (कुंडंतर) कुम्भान्तर. जे जीत, तटी के कनातने अंतरे स्त्री पुरुष मैथुन सेवन करतां होय, तेमज तेउना शब्द संजलाता होय, त्यां ब्रह्मचारी साधु न रहे. आ पांचमी गुप्ति.

(पुर्वकीदिय) पूर्वकीडा. पूर्वं गृहस्थ अवस्थामां स्त्रीनी साथे जे विषय, जोग, क्रीडा, करी, होय, तेनुं स्मरण न करे. जो करे तो कामाग्नि प्रज्वलित थाय. आ ठछी गुप्ति.

(पणीय) प्रणीत. अति चिकाशवाला, मीठा दूध, दही, प्रमुख अति

धातुपुष्ट करनार आहार निरंतर न करे. जो करे तो वीर्यनी वृद्धि य-
वाथी श्रवश्य वेदोदय थाय, पठी जरूर विषयसेवन करे, कारण के जीर्ण
कोथलीमां विशेष रूपैया जरियें तो जरूर फाटी जाय. आ सातमी गुप्ति.

(अश्मायाहार) अतिमात्राहार. ते रूद्ध, लुखी जिह्वा पण प्रमाणथी
अधिक नखाय, कारण के अधिक खावाथी पण विकार थइ जाय ठे, तेमज
शरीरने विपूचिकादि पीडा थवानुं कारण ठे. आ आठमी गुप्ति.

(विञ्जूसणाइ) विञ्जूपणादि, शरीरनी विञ्जूपा, ते ल्लान, विलेपन, धूप,
नख, दांत, केश, जेमनी सुंदरता वास्ते करवा, समारवा, तथा विञ्जूपा
वास्ते तिलक करवुं, सुरमो, काजल आखमां सारवा, तथा सुकोमल क-
रवा सारु हाथ, पग, सावु तेल प्रमुखथी मसली गरमपाणीथी धोवां, इ-
त्यादि शरीरनी विञ्जूपा न करे. आ नवमी ब्रह्मचर्यगुप्ति. आ नव प्र-
कारनी गुप्ति ते ब्रह्मचर्यनी रक्षा माटे नव वाड ठे.

हवे ज्ञानादि त्रण कहियें ठियें. यथार्थ वस्तुनो जे यथार्थ बोध करे
ते ज्ञान. ज्ञानावरणीय कर्मनो क्षय तथा क्षयोपशम थवाथी उत्पन्न थयो
जे बोध, तेनां हेतु जे द्वादशांग, तेमज द्वादश उपांग, तथा प्रकीर्णक जे
उत्तराध्ययनादि ते सर्व ज्ञान कहियें. तथा वीजुं दर्शन-१ जीव, २ अ-
जीव, ३ पुण्य, ४ पाप, ५ आश्रव, ६ संवर, ७ निर्जरा, ८ बंध, एमोद्ध,
आ जीवादि नवतत्त्वनुं जे स्वरूप तेमां श्रद्धा (रुचि) करवी. जेम के ए
नवतत्त्व सत्य ठे, मिथ्या नथी. एषी तत्त्वरुचि तेनुं नाम दर्शन. तथा
त्रीजुं सर्वपापना व्यापारोथी ज्ञान, श्रद्धानपूर्वक निवृत्त थवुं तेनुं नाम चा-
रित्र ठे. तेमां देशविरति चारित्र तो ज्यां गृहस्थाश्रम धर्मनुं स्वरूप ल-
खशुं त्यांथी जाणवुं; अने जे सर्वविरति चारित्र ठे तेनुं स्वरूप तो आ
गुरुतत्त्व वर्णनमां लख्या करियें ठियें.

हवे वार प्रकारना तपनुं स्वरूप लखियें ठियें. यतः ॥ अणसण मूणो
परिया, वित्तीसंखेवण रसच्चाउं ॥ काय कलेसो संली, एयाय बघो तवो
होई ॥ १ ॥ पायठित्तं विणउं, वेयावच्चं तहेव सद्याउं ॥ जमणं उस्सगो
विय, अजित्तं तवो होइ ॥ २ ॥ अर्थः-१ अनशन व्रत करवां २ ज-
णोदरी-थोडुं खावुं ३ वृत्तिसंक्षेप-अनेक प्रकारना अजिग्रह करवा ४
रसत्याग-दूध, दही, घी, तेल, गोल, मीठां पकान्न तेउंनो त्याग करवो.

५ कायक्लेश-वीरासन, दंभासन, प्रमुख अनेकतरेथी कायाने कष्ट आपवुं.
 ६ संखीनता-पांचे इंद्रियोने पोत पोताना विषयोथी रोकवी, आ ठ प्र-
 कारें वाह्यतप, १ प्रायश्चित्त-जे कांइ अयोग्य काम कखुं होय ते गुरुनी
 पासे जे प्रमाणे कखुं होय ते प्रमाणे प्रगटपणे केहेवुं; पठी ते पापनी नि-
 वृत्तिवास्ते गुरुपासे यथायोग्य दंरु लेवो, अने जविष्यमां फरी ते पाप न
 करवुं तेनुं नाम प्रायश्चित्त तप ठे, २ विनय-पोतानाथी गुणाधिकनुं बहु-
 मान करवुं ते. ३ वैयावृत्त पोतानाथी गुणाधिकनी जक्ति करवी ते. ४
 स्वाध्याय (१) पोते जणवुं वीजाउने जणाववुं. (२) संशय उत्पन्न थयां
 थकां गुरुने पुठवुं. (३) पोते अध्ययन करेवुं वारंवार स्मरणमां लाववुं.
 (४) जे कांइ अध्ययन कखुं होय तेना तात्पर्यनुं एकाग्र चित्तथी चिंतवन
 करवुं. (५) धर्मकथा करवी ते संक्षेपमां-वांचना, पृष्ठना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा,
 धर्मकथा, ए पांच रूपें ठे. ५ ध्यान. १ आर्तध्यान २ रौद्रध्यान ३ धर्मध्यान
 ४ शुक्लध्यान. आ चारमां आर्त अने रौद्रध्यान तजवां अने धर्म अने शु-
 क्लध्यान अंगीकार करवां. ६ व्युत्सर्गं सर्वे उपाधिउने त्याग करवो ते.
 आ ठ प्रकारें आर्च्यंतर तप. सर्व मली वार प्रकारनां तप ठे.

क्रोध, मान, माया, अने लोभ. आ चारेनो निग्रह करवो. ए प्रमाणे
 पांच महाव्रत, दश श्रमणधर्म, सत्तर जेदें संयम, दशप्रकारें वैयावृत्त, नव
 ब्रह्मचर्यगुति, त्रण ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वार प्रकारें तप, क्रोधादि चार
 निग्रह, सर्वमली सित्तेर जेद चारित्रना ठे. ते वास्ते तेने चरणसित्तरी कहेठे.

हवे करणसित्तरीना जेद लखियें ठियें. यतः ॥ पिंरुविसोही समिई,
 ज्ञावण पडिमाय इंद्रियनिरोहो ॥ पडिलेहण गुत्तीउं, अजिग्गह चव क-
 राणं तु ॥ १ ॥ अर्थः पिंरुविशुद्धि १ आहार, २ उपाश्रय, ३ वस्त्र, ४
 पात्र. आ चार, वस्तुउने साधु वेंतालीश दूषणरहित लहे. तेनुं नाम
 पिंरुविशुद्धि ठे. वेंतालीश दोषनुं संपूर्ण स्वरूप जोवुं होय तो पिंरुनिर्मु-
 क्तिनामा ग्रंथ जद्रवाहुस्वामिकृत ठे तेनी मलयगिरिसूरिकृत टीका
 सात हजार श्लोक प्रमाण ठे ते, तथा पिंरुविशुद्धि ग्रंथ जिनवह्मज
 सूरिकृत ठे तेनी जिनपति सूरिकृत टीका ठे ते तथा प्रवचनसारोद्धार
 श्रीनेमिचंद्र सूरिकृतसूत्र तथा तेनी सिद्धसेनसूरिकृत टीका ठे ते तथा
 श्रीहेमचंद्रसूरिकृत योगशास्त्र अवलोकन करवां.

हवे पांच समितिनुं स्वरूप लखिये ठियें. प्रथम श्यासमिति. चालवानुं नाम श्या केहेवाय ठे, अने सम्यक् आगमने अनुसार जे प्रवृत्ति, चेष्टा करवी ते समिति कहियें. त्रस स्थावरजीवोने अन्नयदान आपनार जे मुनि, ते, प्रयोजन निमित्तें चालवुं पडे त्यारे केवीरीतें चाले ? प्रथम तो प्रसिद्ध रस्ते चाले, जे रस्तो सूर्यना किरणोथी तपेलो होय प्रांशुक-जीवरहित होय, तथा स्त्री, पुरुषना संघट्टरहित होय, ते रस्ते जीवोनी रक्षानिमित्तें अथवा पोताना शरीरनी रक्षानिमित्तें पगना अंगुठाथी चार हाथ प्रमाण भूमिका आगल देखीने चाले. तेनुं नाम श्यासमिति ठे. ते प्रमाणे साधु जो चाले, तेमज बीजुं काम करे, ते काममां कदाचित् कोइ जीव मरी पण जाय तो पण साधुने पाप लागतुं नथी, कारण के तेनो उपयोग बहुज शुभ ठे. तथा २ जापासमिति. पापसहित जापा, तथा कठोरजापा जेम के तुं धूर्त्त ठे, कामी ठे, राक्षस ठे, एवा चार्वाकप्रमुख बोले तेवा शब्दो तथा निंदनीय शब्दो न बोले. परंतु बीजाने सुखदायक, बोलवामां अल्प, बहु प्रयोजनने साधनार, अने संदेहविनानां एवां वचन बोले ते जापासमिति. तथा ३ वेंतालीश दूषणरहित आहारादि ग्रहण करे ते एपणासमिति. तथा ४ आसन, संस्तारक, पीठ, फलक, वस्त्र, पात्र, दंदादि आंखथी देखीने उपयोगपूर्वकं लेवां, राखवां, करवां ते आदाननिकेप समिति. तथा ५ पुरीष, प्रसन्नवण, शूंक, श्लेष्म, शरीर मल, वस्त्र, अन्न, पाणी जे शरीरने उपयोगनां न होय ते सर्वने जीवरहित भूमिकामां स्थापन करे ते; पांचमी परिस्थापना समिति. आ पांच समिति कही.

हवे वार जावना लखियें ठियें. प्रथम अनित्य जावना, बीजी अशरण जावना, त्रीजी संसार जावना, चोथी एकत्वजावना, पांचमी अन्यत्वजावना, ठठी अशुचिजावना, सातमी आश्रवजावना, आठमी संवरजावना, नवमी निर्जराजावना, दशमी लोकस्वजावजावना, अग्यारमी बोधिहुर्लज जावना, बारमी धर्मना कथन करनारा अरिहंत ठे. आ वार जावना रात्रियें तथा दिवसें जेवी रीतें जाववा योग्य ठे तेवी रीतें अन्यास करवो. आ वार जावनानुं कांशक स्वरूप लखियें ठियें.

१ अनित्य जावना- जेनुं शरीर वज्रसमान, सुंदर तेमज. कठण हतुं,

ते पण अनित्यरूप राक्षसना जद्द थया, तो पत्नी केलना गर्ज समान निःसार जे जीवोनां शरीर ठे ते आ अनित्यरूप राक्षसथी केवी रीतें वचशे ? वली लोको विलाडीनी पेठे आनंदित थइने दूधनी पेठे विषय सुखनो खाद लहेठे, परंतु लाकडीना मारने देखता नथी; जावार्थ ए ठे के, विषयजोगमां मग्न थइ आनंद तो माने ठे, परंतु जन्मांतरमां न-रकपतनरूप संकटथी करता नथी. वली जीवोनां शरीर पाणीना पर-पोटा समान, ठे, तथा जीवित ध्वजासमान चंचल ठे, लावण्य, स्त्री, परिवार, आंखनी पांपण जेम चंचल ठे, युवावस्था हाथीना काननी पेठे चंचल ठे, स्वामिपणुं स्वप्ननी श्रेणी समान ठे, लक्ष्मी वीजली जेम चपल ठे, एवी रीतें सर्व पदार्थोनुं अनित्यपणुं विचारतां, प्यारा स्त्री पुत्रादि मरी जाय तो पण पोताना मनमां शोक न करे; थने जे मूर्ख जीव, सर्व जावने नित्य मानेठे ते जीर्ण पांढडानी कुंपडीनों नाश थवाथी पण रात दिवस रुदन करेठे. ते कारणथी तृष्णानो नाश करी ममत्व रहित थइ शुक्रबुद्धिवाला जीव अनित्यजावना जावे.

२ अशरणजावना- पिता, माता, पुत्र, जार्या प्रमुख विद्यमानठतां, अत्यंत आधि व्याधिना समूहरूप शृंखलामां वंधायेला रुदन करता जीवोने कर्मरूप योद्धा, यमराज (काल) ना मुखमां प्रक्षेप करतां थकां (फेंकेठे ल्यारे) बहुज दुःख थाय ठे. जे लोक शरणरहित अनाथ ठे, ते शुं करशे ? तथा नाना प्रकारना शास्त्रविषयोने जाण-नारा, तथा अनेक प्रकारना मंत्र, यंत्रोनी क्रिया जाणनारा, तथा ज्यो-तिष विद्याना जाणनारा, तथा अनेक प्रकारनी औषधि, रसायन प्रमुख वैद्यक शास्त्रनी तमाम क्रियामां कुशल, एवा विद्वानोनी कुशलता तथा क्रिया, कालनी सामे कांशपण करवामां समर्थ थइ नहि. तथा नाना प्र-कारना शस्त्रोवाला शूरवीर योद्धाउनी सेनाथी परिवेष्टित, (चो तरफ वीटायेला) तथा नानाप्रकारना मदजर हाथीउनी जेने वाड ठे, एवा इंद्र, वासुदेव, चक्रवर्तिसमान बलवान् पण कालना घरमां खेंचाता चा-ख्या जाय ठे. अत्यंत दिलगीरी के प्राणियोने कोशुं शरण नथी. तथा पृ-थ्वीनुं उत्र थने मेरुनो दंड करवाने समर्थ, तेमज जेने अद्वपण क्लेश न

होतो एवा अन्त वलवान् तीर्थंकरपण लोकोने कालथी वचाववाने समर्थ नथी तो पठी वीजो कोण समर्थ ठे ? स्त्री, पुत्र मित्रादिना स्नेहरूप चूतने दूर करवा वास्ते शुद्धमति जीव अशरण जावना जावे.

३ संसारजावना कहियेंठियें. बुद्धिमान् तेमज बुद्धिहीन, सुखी तेमज दुःखी, रूपवान् तेमज कुरूपवान्, स्वामी तेमज सेवक, वैरी, राजा तेमज प्रजा इत्यादि देवतामनुष्य, तिर्यच, नारकिना अनेक प्रकारना कर्मवशथी वेप धारण करीने आ संसाररूप अखाडामां आ जीव नाटक करेठे. तथा महारंज, मांसजक्षण, मदिरापानादि कारणोथी अनेक प्रकारनां पापनो बंध करीने, महाअंधकारवाली नरकचूमिकामां जइ पडे ठे, त्यां अंगघेदन, अग्निप्रज्वलनादि क्लेशरूप महादुःख जे जीवने थाय. ठे ते दुःखोतुं स्वरूप केवली पण कथन करी शकता नथी. आ नरकगति कही. तथा कपट, जुतुं बोलवुं इत्यादि कारणोथी प्राणी तिर्यचगतिमां सिंह, वाघ, हाथी, मृग, बेल, बकरी प्रमुखनां शरीर धारण करेठे. तथा ते गतिमां क्रुधा, तृषा, वध, बंधन, ताडन, तर्जन, रोग, हलवहन इत्यादि जे दुःख सदा ते जीवोने सहन करवां पडेठे ते केदेवाने कोण समर्थ ठे ? आ तिर्यच गति कही.

तथा खाद्य, अखाद्य, विवेकशून्यता, मनमां लज्जानो अजाव, मा, वेन, दीकरी गमन करवामां एक समानता, निःशंकता वल्लज ठे ज्यां, एवा अनार्य मनुष्यमां, निरंतर जीवघात, मांसजक्षण, चोरी, परस्त्रीगमनादि अत्यंत कनिष्ठ पापकर्म महादुःख उत्पन्न करनार ज्यां थया करे ठे, तथा आर्यदेशमां पण क्षत्रिय, ब्राह्मणादि, अज्ञान, दरिद्रता, कष्ट, दौर्जाग्य पणुं रोगादिथी पीडित ठे, तथा पराधीनता, मानजंग, सेवकजावप्रमुख दुःख, निरंतर जोगववां पडेठे ज्यां, तथा अग्निमां अत्यंत तपावेली सु-इल, जेम एक एक रोममां एक एक सूइ कोइ जुवान पुरुपने परोववामां आवे तेम ते सधली, समकालें चारे वाजुए परोववामां आवे तेथी जे दुःख उत्पन्न थाय तेनाथी आठ गणुं दुःख स्त्रीना गर्भमां ज्यारे उत्पन्न थाय ठे त्यारे जोगवे ठे, ते दुःखथी अनंतगणुं दुःख जन्मसमयें जोगवे ठे, तथा बाल अवस्थामां मल, मूत्र, धूसमां आलोडवुं. तथा मूर्खता

प्रमुख तथा युवावस्थामां धन उपार्जन करवानुं दुःख, इष्ट वस्तुनो वियोग, अनिष्ट वस्तुनो संयोग इत्यादि, तथा वृद्धावस्थामां शरीरनुं कंपनुं, नेत्रनुं बलहीनपणुं, तथा श्वास, खांसी प्रमुख अनेक व्याधिथी महादुःखोनुं उत्पन्न थनुं इत्यादि ज्यां निरंतर ठे त्यां एवी कइ दशा ठे के प्राणी सुख प्राप्त करे ? आ मनुष्यगति कही- तथा सम्यक् दर्शनादि पालवाथी जे जीव देवता थाय ठे ते पण शोक, विपाद, मत्सर, जय, अल्प क्खिथी इष्यां, काम, मद, ह्युधा प्रमुखथी पीडित थवाथी पोतानुं आयुष्य दीन मनवालां थइने पूर्ण करे ठे. आ देवगति कही. आ प्रमाणे मोहाजि-लापी जीव संसारजावना जावे.

४ एकत्वजावना कहियें ठिये. जीव एकलोज उत्पन्न थाय ठे, अने एकलोज मरण पामे ठे; एकलोज कर्म करे ठे, अने एकलोज तेनुं फल जोगवे ठे. वली जीवें अत्यंत कष्ट जोगवी जे धन उपार्जन करेखुं ठे ते धन तो स्त्री, मित्र, पुत्र, वंधु प्रमुख खाइ जशे, अने जे पाप कर्म ते धन उपार्जन करवामां वांध्यां ठे तेनुं फल तो तेने एकलानेज नरक, तिर्यंच गतिमां जइने जोगवनुं पडेठे आ केखुं आश्चर्य ठे ? तथा आ जीव, आ देहने वास्ते, रात दिन अटन करे ठे, दीनपणुं धारण करे ठे, धर्मथी ज्र-ष्ट थाय ठे, पोताना हितमां उगाय ठे, न्यायथी दूर रहेठे इत्यादि अनेक कृत्य करे ठे, परंतु आ देह, आत्मानी साथे परजवमां एक पगला जेटली जगा सूधी पण ते साथे आवशे नहिं. हवे विचार करो के आ देह शुं करशे ? शुं मदद आपशे ? वली सगां वाहालां सर्वे पोत पोताना स्वार्थमां तत्पर ठे, वास्तवमां कोइ तारुं नथी, ते वास्ते हे बुद्धिमन् ! तुं पोताना हितने माटे धर्म करवामां प्रयत्न कर्य, आ प्रमाणे एकत्व जावना जावे.

५ अन्यत्वजावना कहियें ठिये. आ संसारमां तुं कोइनो नथी अने कोइ तारुं नथी. माता, पिता, स्त्री, पुत्र, जाइ प्रमुख सगां तथा संबंधियो. ज्यां सुधी ताराथी तेउनी कार्यसिद्धि थाय ठे त्यां सुधी तुं तेउना प्राण समान वाहालो ठे तेम तेउ मानशे परंतु स्वार्थसिद्धिमां जंग थये जाणे एक घीजाने लेशमात्र संबंध नथी एम जासन यतां वेर जाव पण उत्पन्न थशे. वली आ देहने ठोडी जीव परलोकमां जाय ठे तेथी आ शरीरथी जीव जिन्न ठे तेम ततां अनेक प्रकारनां खान, पान, जांग.

उपजोग, सुगंध, क्षेपनप्रमुख्यी जरीरनी पृष्टि इवगी ते पण अयं मे. कदाचित् आ शरीरने कोइ लाकडी प्रमुख्यी मार मारि नो पण ममता राखी सहन करुं जोइये. जे पुरुष अन्वयज्ञानना सखि सेनं जरीरः धन, पुत्रादिना वियोग्यी दुःख शोक यनां नयी. आ पांचमी अन्वयज्ञानना कही.

६ अशुचि जायना कहिये त्रिये. जेम सुगनी न्याममां जे पशयं पडे ठे ते लूण थइ जायते, तेम आ कायामां जे आहारप्रमुखा पदेने ते मलरूप थइ जाय ठे, एही आ काया अपवित्र मे, तथा रुधिर अने गुग्गु (धीर्य) धनेना मैलापयी आ काया (गर्भ) उत्पन्न पाय मे. जय (उर) पिंटाण्डी होय मे. माना जे आहारप्रमुखा प्रहण करेते तेना रसयीज आ गर्भ गृह्णि पाये मे. एवा आ देहने कोण बुद्धिमान् पवित्र मानेते ? तथा मिष्ट स्वाद, अने सुगंधमय मोदक, दुग्ध, दहिं प्रमुख परुरस, इहुरस, कमांद प्रमुख धान्य, भेवर प्रमुख मिष्ठान, तथा आन्न प्रमुख फल जे खावामां आवे मे ते तत्काळ मलरूप थइ जाय मे, एही आ अशुचि कायाने, महामोहांध पुरुष पवित्र मानेते. तथा पाणीना सो घटायी स्नान करीने तथा सुगंधमय पुष्प, कम्बूरि प्रमुख डब्यो लगावीने, उपरनी चामडी तो कंटलो एक वगन सुगंध जीव शुचि सुगंधमय करे मे. परंतु मध्य जागमां रहेलां विद्वानो कोणो केम पवित्र करी शके तेम मे ? तथा अत्यंत आनंदनी गृह्णि करनारां डब्योयी मधमघायमान थइ रहेली दिशा, तथा चंदन, कम्बूरि, कर्पूर, अमर, कुंकुम प्रमुख वस्तुठे पण आ शरीरनो तेमनी सखे मंगंध पाय मे. त्वारे अल्पकालमां सुगंधरूप थइ जाय मे. तो पटी विचारो के आ कायाने कोण बुद्धिमान् पवित्र माने ? ए प्रमाणेनी अशुचिरूपना आ शरीरनी विचारीने बुद्धिमान् पुरुष आ शरीरनी ममता न करे. आ वडी अशुचिजायना कही.

७ आश्रयजायना कहिये त्रिये. मन, वचन, अने कायाना योग्यीशुद्धा शुचिकर्म जे जीव प्रहण करे मे. तेनुं नाम आश्रय, जिनेश्वर जगवान् कहे मे. तथे जीवोविषे मैत्री जायना, शुद्धाधिक जीवोमां प्रमोदजायना, अविनीत शिष्यादिनां मध्यस्य जायना, अने दुःखी जीवोमां कल्याणा-

वना. आ चारे जावनाउथी जे जीवोनां अंतःकरण निरंतर वासित होय, ते पुण्यवान् जीवो वेतालीश प्रकारनां पुण्य उपार्जन करे ठे, अने आर्त्त-ध्यान, रौद्रध्यान, पांच प्रकारनां मिथ्यात्व, सोल प्रकारना कपाय, पांच प्रकारनां विषय, तेउनाथी जेउनां अंतःकरण वासित होय ते व्यासी प्रकारनां पापकर्म उपार्जन करेठे. तथा सर्वज्ञ अर्हत् जगवंत, गुरु, सिद्धांत द्वादशांग, चार प्रकारना संघ इत्यादिना जे गुणानुवाद कीर्त्तन करेठे ते-मज हितकारी सत्यवचन बोलेठे ते जीव शुचकर्म उपार्जन करेठे. तथा श्रीसंघ, देव, गुरु, धर्म तथा धर्मि प्रमुखना जे अवर्णवाद बोले, तथा असत्य अने कपोलकल्पित मतनो जे उपदेश करेठे ते जीव अशुचकर्म उपार्जन करे ठे, तथा जे जीव वीतराग देवनी चंदन पुष्पादिथी पूजा करे, तथा साधुनी जक्ति, विश्रामण प्रमुख, करे तथा पापथी काया गों-पवे ते जीव शुचकर्म उपार्जन करे ठे. तथा जे जीव, मांसजक्षण, सुरापान, जीवघात, चोरी, जुंगार, परस्त्रीगमनादि करे ते अशुच कर्म उपार्जन करे ठे. ए अनुक्रमथी मन, वचन, कायाथी शुचाशुच आश्रव उपार्जन कराय ठे. आ प्रकारें आश्रवजावना जे जीव जावे ते अनर्थ परंपरानो त्याग करेठे अने महानंदस्वरूप मोक्षाने देनारी, दुःख दावानल पर मेघसमान एवी शर्मावलि (नित्यसुखश्रेणी) अंगीकार करेठे. आ प्रमाणे सातमी आश्रवजावना कही.

७ संवरजावना कहियें ठियें. आश्रवनो निरोध ते संवर. ते संवर वे प्रकारथी ठे. एक सर्वसंवर तथा बीजो देशसंवर, तेमां सर्वसंवर तो अयोगी केवलीमां होय ठे, अने देशसंवर एक वे इत्यादि आश्रवनो त्याग करनारमां होय ठे. वली संवरना बीजा वे प्रकार ठे. एक ड्रव्यसंवर तथा बीजो जावसंवर. तेमां जे कर्म पुजल आश्रवथी जीव ग्रहण करेठे तेउने देशथी अथवा सर्वथी आवता रोकवा ते ड्रव्यसंवर, अने जवहेतु क्रियानो त्याग करवारूप आत्माना जे शुच अध्यवसाय, ते जावसंवर. जे बुद्धिमान् मिथ्यात्व, अविरति, कपाय प्रमुख आश्रवोनो निरोध करे, अने आर्त्त, रौद्र ध्यान तजी धर्म, शुद्धध्यान ध्यावे, क्रोधने हमाथी जीते, मानने मृडुताथी जीते, मायाने सरलताथी जीते, लोचने संतोपथी जीते, इंद्रियोना इष्ट अनिष्ट विषयोने राग द्वेष त्यागवाथी

जीते, ए रीतें जे जीव संवरजावना जावे तेने मोक्षरूप लक्ष्मी अथवा वशवर्तिनी थाय ठे. आ प्रमाणे संवरजावना कही.

ए हवे निर्जरा जावना कहियें ठियें. संसारनी हेतुभूत जे कर्मनी संतति तेनो अतिशयथी जे नाश करे ते निर्जरा कहेवाय ठे. निर्जरा वे प्रकारनी ठे. सकाम निर्जरा तथा अकाम निर्जरा. तेमांथी सकाम निर्जरा तो उपशांत चित्तवाला साधुने होय ठे, अने बीजा जीवोने अकाम निर्जरा होय ठे. बीजा जीवोने जे अकाम निर्जरा थाय ठे ते कर्मनो पाक स्वयमेव थाय ठे तेथी तथा उपायथी पण कर्मनो नाश थायठे. जेम आम्रफल पोतानी मेलेज वृद्धनी माळीपर विद्यमान ठतां पाकी जाय ठे, अने कोद्रवादि परालनी अंदर दाखल करवाथी पण पाकी जाय ठे. तेबीज रीतें निर्जरा पण वे प्रकारनी ठे. अमारा कर्मनी निर्जरा थाय एवा आशयवाला जीव जे तप प्रमुख करे ठे तेउने सकाम निर्जरा थाय ठे, अने एकेंद्रियादि जे जीव ठे तेउने विशेष ज्ञान तो नथी, परंतु शीतोष्ण, वर्षा, दहन, वेदन, वध, वंधन, प्रमुख कष्ट जोगववाथी जे कर्म निर्जरा थाय ठे. तेनुं नाम अकाम निर्जरा ठे. एं प्रमाणे तपप्रमुख करीने निर्जरानी वृद्धि करे, एम नवमी निर्जरा जावना जावे. इति.

१० हवे लोकस्वजाव जावना कहियें ठियें. आ पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, तेमज नरक, स्वर्ग, लोकाकाश सर्व मली एकलोक केहेवाय ठे. जैनमतना सिद्धांतमां ते संपूर्ण लोकनो आकार आ प्रमाणे वतावेलो ठे. जेम कोई पुरुष जामो पेहेरीने पोतानी कमरमां वने हाथ लगाडी, पग पसारी उजो होय, तेनो जेवो आकार होय तेवो आ लोकनो आकार ठे. परूद्रव्यथी पूर्ण ठे, उत्पत्ति, स्थिति तेमज लय ए त्रणे स्वरूपसंयुक्त ठे, अनादि अनंतठे, कोइनो रचेल नथी, उर्ध्वलोक, अधोलोक तेमज तिर्गलोक, एवा तेना त्रण स्वरूपमां सर्व जीव पुजल तेनी अंदर प्रवर्तें ठे, वहार कांइ नथी, वहार तो फक्त एक आकाश ठे ते आकाश पण अनंत ठे, आ आकाशनुं नाम जैनशास्त्रमां अलोक लखेलठे. अधोलोकमां जुदी जुदी नीचे उपर सात पृथ्वी ठे, तेमां नरकवासी जीव रहेठे, अने कोइ जगाए जवनपति तथा व्यंतरपण रहेठे, तिर्गलोकमां मनुष्य, तिर्यच तेमज व्यंतर रहेठे, उर्ध्वलोकमां देवता रहेठे, विशेषथी लोकस्वरूप जाणवुं होय तो

वना. आ चारे जावनाउंथी जे जीवोनां अंतःकरण निरंतर वासित होय, ते पुण्यवान् जीवो वेंतालीश प्रकारनां पुण्य उपार्जन करे ठे, अने आर्त-
 ध्यान, रौद्रध्यान, पांच प्रकारनां मिथ्यात्व, सोल प्रकारना कषाय, पांच
 प्रकारनां विषय, तेउनाथी जेउनां अंतःकरण वासित होय ते व्यासी प्रका-
 रनां पापकर्म उपार्जन करेठे. तथा सर्वज्ञ अर्हत् जगवंत, गुरु, सिद्धांत
 द्वादशांग, चार प्रकारना संघ इत्यादिना जे गुणानुवाद कीर्तन करेठे ते-
 मज हितकारी सत्यवचन बोलेठे ते जीव शुचकर्म उपार्जन करेठे. तथा
 श्रीसंघ, देव, गुरु, धर्म तथा धर्मि प्रमुखना जे अवर्यवाद बोले, तथा
 असत्य अने कपोलकल्पित मतनो जे उपदेश करेठे ते जीव अशुचकर्म
 उपार्जन करे ठे, तथा जे जीव वीतराग देवनी चंदन पुष्पादिथी पूजा
 करे, तथा साधुनी नक्ति, विश्रामण प्रमुख, करे तथा पापथी काया गों-
 पवे ते जीव शुचकर्म उपार्जन करे ठे. तथा जे जीव, मांसजक्षण, सु-
 रापान, जीवघात, चोरी, जुंगार, परस्त्रीगमनादि करे ते अशुच कर्म
 उपार्जन करे ठे. ए अनुक्रमथी मन, वचन, कायाथी शुचाशुच आश्रव
 उपार्जन कराय ठे. आ प्रकारें आश्रवजावना जे जीव जावे ते अनर्थ
 परंपरानो त्याग करेठे अने महानंदस्वरूप मोक्षने देनारी, दुःख दावानल
 पर मेघसमान एवी शर्मावलि (नित्यसुखश्रेणी) अंगीकार करेठे. आ
 प्रमाणे सातमी आश्रवजावना कही.

७ संवरजावना कहियें ठियें. आश्रवनो निरोध ते संवर. ते संवर
 वे प्रकारथी ठे. एक सर्वसंवर तथा वीजो देशसंवर, तेमां सर्वसंवर
 तो अयोगी केवलीमां होय ठे, अने देशसंवर एक वे इत्यादि आश्र-
 वनो त्याग करनारमां होय ठे. वली संवरना वीजा वे प्रकार ठे. एक
 अव्यसंवर तथा वीजो जावसंवर. तेमां जे कर्म पुजल आश्रवथी जीव ग्र-
 हण करेठे तेउने देशथी अथवा सर्वथी आवता रोकवा ते अव्यसंवर,
 अने जवहेतु क्रियानो त्याग करवारूप आत्माना जे शुच अध्यवसाय,
 ते जावसंवर. जे बुद्धिमान् मिथ्यात्व, अविरति, कषाय प्रमुख आश्रवोनो
 निरोध करे, अने आर्त, रौद्र ध्यान तजी धर्म, शुक्लध्यान ध्यावे, क्रोधने
 क्रमाथी जीते, मानने मृडुताथी जीते, मायाने सरलताथी जीते, लोच-
 ने संतोपथी जीते, इंद्रियोना इष्ट अनिष्ट विषयोने राग द्वेष त्यागवाथी

जीते, ए रीतें जे जीव संवरजावना जावे तेने मोक्षरूप लक्ष्मी श्रवश्य वशवर्तिनी थाय ठे. आ प्रमाणे संवरजावना कही.

ए हवे निर्जरा जावना कहियें ठियें. संसारनी हेतुचूत जे कर्मनी संतति तेनो अतिशयथी जे नाश करे ते निर्जरा कहेवाय ठे. निर्जरा वे प्रकारनी ठे. सकाम निर्जरा तथा अकाम निर्जरा. तेमांथी सकाम निर्जरा तो उपशांत चित्तवाला साधुने होय ठे, अने बीजा जीवोने अकाम निर्जरा होय ठे. बीजा जीवोने जे अकाम निर्जरा थाय ठे ते कर्मनो पाक स्वयमेव थाय ठे तेथी तथा उपायथी पण कर्मनो नाश थायठे. जेम आम्रफल पोतानी मेलेज वृद्धनी कालीपर विद्यमान ठतां पाकी जाय ठे, अने कोद्रवादि परालनी अंदर दाखल करवाथी पण पाकी जाय ठे. तेबीज रीतें निर्जरा पण वे प्रकारनी ठे. अमारा कर्मनी निर्जरा थाय एवा आशयवाला जीव जे तप प्रमुख करे ठे तेठने सकाम निर्जरा थाय ठे, अने एकेंद्रियादि जे जीव ठे तेठने विशेष ज्ञान तो नथी, परंतु शी-तोष्ठ, वर्षा, दहन, वेदन, वध, वंधन, प्रमुख कष्ट जोगववाथी जे कर्म निर्जरा थाय ठे. तेनुं नाम अकाम निर्जरा ठे. एं प्रमाणे तपप्रमुख करीने निर्जरानी वृद्धि करे, एम नवमी निर्जरा जावना जावे. इति.

१० हवे लोकस्वजाव जावना कहियें ठियें. आ पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, तेमज नरक, स्वर्ग, लोकाकाश सर्व मली एकलोक कहेवाय-ठे. जैनमतना सिद्धांतमां ते संपूर्ण लोकनो आकार आ प्रमाणे बतावेलो ठे. जेम कोई पुरुष जामो पेहेरीने पोतानी कमरमां बंने हाथ लगाडी, पग पसारी उजो होय, तेनो जेवो आकार होय तेवो आ लोकनो आकार ठे. पद्मव्यथी पूर्ण ठे, उत्पत्ति, स्थिति तेमज लय ए त्रणे स्वरूपसंयुक्त ठे, अनादि अनंतठे, कोइनो रचेल नथी, उर्ध्वलोक, अधोलोक तेमज तिर्था-लोक, एवा तेना त्रण स्वरूपमां सर्व जीव पुजल तेनी अंदर प्रवर्तें ठे, वहार कांइ नथी, वहार तो फक्त एक आकाश ठे ते आकाश पण अनंत ठे, आ आकाशनुं नाम जैनशास्त्रमां अलोक लखेलठे. अधोलोकमां जुदी जुदी नीचे उपर सात पृथ्वी ठे, तेमां नरकवासी जीव रहेठे, अने कोइ जगाए जवनपति तथा व्यंतरपण रहेठे, तिर्थांलोकमां मनुष्य, तिर्यंच तेमज व्यंतर रहेठे, उर्ध्वलोकमां देवता रहेठे, विशेषथी लोकस्वरूप जाणवुं होय तो

यो, जे धर्म करे ठे ते पण धर्माज्ञास ठे, धर्म नथी; ते कारणथी तेमनां वचन केम प्रमाण थइ शके? तेमज कुतीर्थिउना जे जे शास्त्रोमां कंइ कंइ स्थलें दया, सत्यता प्रमुखनां कथन ठे ते पण केहेवाज मात्र ठे; परंतु तत्वथी ते पण कांइ नथी, कारण के यथार्थ तेमनुं स्वरूप तेउ जाणता जेम नथी, तेम यथार्थ पालता पण नथी. प्रथम तो ते शास्त्रोना जे उपदेशक ठे ते सर्वे कामाग्निमां प्रज्वलित हता. आ वात सर्वसुझजनोने विदितठे. ते कारणथी अर्हत जगवंतज सत्यार्थना उपदेशक ठे. वली महामदजर हाथियोनी घटाप्रमुख संपत्तिवाहुं राज्य पामवुं, तेमज सर्वजनोने आनंद आपनारी संपदा पामवी, तेमज चंद्रमा समान निर्मल गुणोना समूह पामवो, तेमज उत्कृष्ट सौजाग्यनो विस्तार पामवो. आ सर्वे धर्मनोज प्रज्ञाव ठे. तथा समुद्र, जलकह्लोलथी पृथ्वीपर पोतानी मर्यादा मुकी फरतो नथी, तेमज मेघ सर्व पृथ्वीने जलथी रेलम ठेलम करतो नथी, तेमज चंद्र, सूर्य जे उदय पामे ठे, तेमज अंधकारनो नाश करेठे ते सर्व प्रज्ञाव जयवंत धर्मनोज ठे. जेने कोइ बंधु नथी, मित्र नथी, नाथ नथी, जे रोगीने वैद्य नथी, जेनी पासे धन नथी, तेमज जेनामां गुण नथी, ते सर्वना बंधु, मित्र, नाथ, वैद्य, तथा गुणनो निधान धर्म ठे. वली अरिहंतनो कथन करेलो जे धर्म ठे ते महापथ्य ठे. एवी रीतें जे जव्यजीव मनमां विचारे ते धर्ममां बहु दृढ थाय. एकज निर्मल धर्म जाववाने जे जीव निरंतर जावे तेसर्व पाप कर्मनो नाश करीने, अनेक जीवोने उपदेश द्वारा सुखी करीने परमपद (मुक्ति) प्राप्त करे ठे, तो पठी जे वारे जावना जावे तेने परमपद प्राप्त थवामां शुं आश्चर्य ठे? इति वार जावना.

हवे वार प्रतिमानुं स्वरूप कहियें ठियें. एक मासथी लइ सात माससुधी वृद्धि करवी, एम सात प्रतिमा थाय ठे. जेम के प्रथम एक मासनी, बीजी वे मासनी, एम एकेक मासनी वृद्धि करतां सातमी सातमासनी थाय ठे. आठमी सात दिनरातनी, नवमी सात दिनरातनी, दशमी सातदिनरातनी, अग्यारमी एक दिन रातनी अने चारमी प्रतिमा एक रात्रि प्रमाण होय ठे. प्रतिमा— अग्निग्रह, प्रतिज्ञा आ एकज नाम ठे.

जे साधुठे आ वारे प्रतिमानो अंगीकार करी शकेठे, तेउनुं स्वरूप

लखियें ठियें. “संहननधृतियुक्तः” जेनुं संहनन वज्र रुषज नाराच होय, ते परीपह सहन करवामां समर्थ होय ठे, “धृति” जेने चित्तनुं स्वस्थपणुं होय, ते रति, अरतिथी पीडित थता नथी. “महासत्त्वः” जे महासत्त्ववंत होय, ते अनुकूल, प्रतिकूल उपसर्ग सहन करवामां विषाद धरता नथी. “जावितात्मा” जेनुं अंतःकरण सद्ज्ञावनाथी वासित होय, ते प्रतिमा वहन करी शके ठे. ते जावना पांच ठे. तेनुं विस्तारयुक्त स्वरूप व्यवहारजाण्यनी टीकाथी जाणवुं. ते जावना केवी रीतें जावे ? जेम आगममां ठे तेम, तथा गुरु आचार्य आज्ञा आपे तेम. जो गुरु पोते प्रतिमा अंगीकार करे तो, नवीन आचार्य स्थापन करीने तेनी आज्ञाथी, तथा गद्यनी आज्ञा लक्ष्णे करे. तथा प्रथम पोताना गद्यमांज रहीने प्रतिमा अंगीकार करवानुं प्रतिकर्मकरे ते प्रतिकर्म आ ठे-

मासादि सात जे प्रतिमा ठे तेउनां प्रतिकर्मपण तेटलांज ठे. वर्षाकालमां ए प्रतिमा अंगीकार करी शकाती नथी, तेमज प्रतिकर्म पण वर्षाकालमां करवुं नहि. प्रथमनी वे प्रतिमा एक वर्षमां, त्रीजी एकवर्षमां, चोथी एकवर्षमां, वाकी पांचमी, ठठी, सातमी आ त्रणे प्रतिमाउनां एकवर्षमां प्रतिकर्म अने एक वर्षमां प्रतिमा, एम नववर्षमां सात प्रतिमा समाप्त कराय ठे.

हवे जे आ प्रतिमा अंगीकार करे ठे, तेउने केटलुं ज्ञान होय ठे ? यावत् किंचित् न्यून दश पूर्व होय ठे, कारण के जेने संपूर्ण दश पूर्वनी विद्या होय ठे तेनुं वचन अमोघ होय ठे. ते वास्ते तेउए धर्मोपदेश आपवो जोइये. तेउना उपदेशथी अनेक जव्य जीवो उपर उपकार तेमज तीर्थनी वृद्धि थवाथी प्रतिमादि कल्प करवा जोइये. वली प्रतिमा अंगीकार करनाराउनुं जघन्यज्ञान नवमा पूर्वनी त्रीजी वस्तु, जेनुं नाम आचार वस्तु ठे, त्यां सुधी ठे. तेटलुं ज्ञान सूत्र तथा अर्थ वनेथी पूर्ण होय ठे, कारण के निरतिशयज्ञानी होय तो कालादिक जाणी शके नहि. तथा “व्युत्सृष्ट” शरीरनी सार संजाल त्यागे, देवता प्रमुखना उपसर्ग सहे, जिनकट्टिपनी पेठे उपसर्ग सहन करे, तथा एपणा, पिंरुग्रहणप्रकार, निज्ञाग्रहणविधि, गद्यथी वाहार रेहेवुं, इत्यादि वाकीनुं वर्णन प्रवचन सारोद्धारनी वृहद्वृत्तिथी जोइ लेवुं आ चार प्रतिमा कही.

हृवे इंद्रियनिरोध कहियें ठियें. “स्पर्शनं रसना प्राणं चक्षुः श्रोत्रं चेति” आ पांच इंद्रिय, तथा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, आ पांच पूर्वोक्त इंद्रियना यथाक्रम विषय ठे. आ पांचे विषयोनो निरोध करवो, कारण के जो ते वशवर्ती नहि रहे तो अत्यंत अनर्थकारक तेमज बसे-शसागरमां डुवाडनारा यशे. ॥ यदञ्चधाणि ॥ आर्या ॥ सक्तः शब्दे हरिणः, स्पर्शे नागोरसे च वारिचरः ॥ कृपणपतंगोरूपे, भुजगो गंधेन च विनष्टः ॥ १ ॥ पंचसु सक्ताः पंच, विनष्टायत्र गृहीतपरमार्थाः ॥ एकः पंचसु सक्तः, प्रयाति जस्मांततां मूढः ॥ २ ॥ तुरगेरिव तरतरले, ईर्दतैरिंद्रियैः समाकृष्य ॥ उन्मार्गे नीयंते, तमोघने दुःखदे जीवः ॥ ३ ॥ अनुष्टुप् ॥ इंद्रियाणां जये तस्मा, यत्नः कार्यः सुबुद्धिभिः ॥ तज्जयोयेन जविनां, परत्रेह च शर्मणे ॥ ४ ॥ प्रतिखेखना जैनसाधुर्जमां प्रसिद्ध ठे तेथी विस्तारथी लखेल नथी.

हृवे त्रण गुप्ति लखियें ठियें. मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति. आ त्रण गुप्तिनुं स्वरूप आ प्रमाणे ठे. अशुभ मन वचन कायानो निरोध करवो अने शुभ मन वचन कायानी प्रवृत्ति करवी. तेमां मनोगुप्ति त्रण प्रकारनी ठे. आर्त्त, रौद्रध्यानानुबंधी, कल्पनानो वियोग, ते प्रथम मनो गुप्ति, शास्त्रानुसार, परलोकने साधनारी, धर्मध्यानानुबंधवाली माध्यस्थ परिणति करवी ते वीजी मनोगुप्ति, अने संपूर्ण शुभाशुभ मनोवृत्तिनो निरोध, अयोगी गुणस्थान अवस्थामां स्वात्मारामरूपता, ए वीजी मनोगुप्ति.

वचनगुप्ति वे प्रकारनी ठे. मुख, नेत्र, त्रुविकार, आंगली ठोडन, लं-चा थवुं, खांसी खावी, हुंकारा करवा, पठर फेंकवा, श्ल्यादि हेतुथी पोतानुं सूचन करावुं वर्जवुं, ए प्रथम वचनगुप्ति, कारण के जो चेष्टा द्वारा सर्वकांश् सूचवी दृष्ट ए तो मौन रेहेवुं व्यर्थ ठे. बोलवुं, वीजाना प्रश्ननो लोकथी तेमज आगमथी अविरोध होय तेवो उत्तर देवो, तेमज बोलवुं ते पण मुखपासे ब्रह्मादि राखी यत्ना पूर्वक बोलवुं, ते वीजी वचनगुप्ति. आ वंने जेदोथी वचननो निरोध, तेमज सम्यग्ज्ञापणरूप वचनगुप्ति जाणवी.

कायगुप्ति वे प्रकारे ठे. एक, चेष्टानो निषेध, वीजी आगमानुसारें चेष्टानो नियम करवो. तेमां देवता तथा मनुष्यादिना उपसर्गमां ह्युधा

तृपादि परीसहोनो संज्ञवं थये थके कायोत्सर्ग प्रमुख करीने कायाने निश्चल करवी, तथा अयोगी अवस्थामां सर्वथा कायानी चेष्टानो जे निरोध करवो, ते प्रथम कायगुप्ति, तथा गुरुथी प्रवृत्तशरीर संस्तरक, चूम्यादि प्रतिलेखन, प्रमार्जनादि, जेम शास्त्रमां कहेल ठे, तेवी रीतें क्रियाकलापपूर्वक शयनादि साधुयें करवां, शयनासन लेवा, राखवा, आ सर्व कृत्योमां स्वछंद चेष्टानो त्याग करवो, मर्यादासहित कायानी चेष्टा करवी, ते वीजी कायगुप्ति.

इवे अजिग्रह, प्रतिज्ञा लखियें ठियें. ते अजिग्रह ड्रव्य, क्षेत्र, काल तथा जावथी चार प्रकारें ठे. तेनो विस्तार प्रवचनसारोद्धारवृत्तिमां ठे. आहारप्रमुखनां वेंतादीश दूषण, शास्त्रमां वतावेळ ठे, तोपण पिंरु, शय्या, वस्त्र, पात्र, आ चारज वस्तु सदोष न ग्रहण करवी तेथी ते चार दूषण, तथा पांच समिति, वार जावना, वार प्रतिमा, पांच इंडियनिरोध, पचीश प्रतिलेखना, त्रण गुप्ति, चार अजिग्रह ए सर्व मदी सिचेर करणसित्तरीना जेद कहे ठे.

प्रश्नः— चरणसित्तरी तेमज करणसित्तरी आ बनेमां शुं विशेष ठे ?

उत्तरः— जे नित्य करवुं ते चरण, अने प्रयोजन थयां थकां करीलेवुं अने प्रयोजन न होय त्यारे न करवुं ते करण, आ तेजमां जेद ठे. ए प्रमाणे चरणसित्तरी तथा करणसित्तरीना जेद समाप्त थया.

इत्यादि जैनमतना गुरुतत्त्वनुं स्वरूप लखवामां लाखो श्लोक लखाई जाय तो पण संपूर्ण तेनुं स्वरूप जाणी शकाय नहि, ते वास्ते संक्षेपमांज स्वरूप वताव्युं ठे. जो विशेष जाणवानी इच्छा होय तो, श्री उधनिर्मुक्ति, श्री आचारांग, दशवैकालिक, वृहत्कल्पजाप्यवृत्ति, पंचकल्पचूर्णी, जितकल्पवृत्ति, महाकल्पसूत्र, कल्पसूत्र, निशीथ जाप्यचूर्णी, महानिशीथसूत्र, इत्यादि पदविज्ञाग समाचारीनां शास्त्र जोइ लेवां.

प्रश्नः— जैनमतना शास्त्रोमां गुरुनुं स्वरूप जेवुं लखेल ठे, तेवी वृत्तिवाला जैनना कोइपण साधु देखवामां आवता नथी, तो पठी जैनमतना साधुजने आ कालमां गुरु केम मानवा जोइयें ?

उत्तरः— आपें कोई गीतार्थनो परिचय कस्यो लागतो नथी, तेमज जैनमतना चरणकरणानुयोगना शास्त्रनुं अध्ययन पण कसुं होय तेम ला-

गंतुं नथी, अथवा तो कोइ गीतार्थ गुरुना मुखारविंदथी वचनामृतनुं पान पण कखुं लागतुं नथी, जो आपें पूर्वोक्त कांडपण कखुं होत तो आपने ते वावतनो संशय कदापि न उत्पन्न थयो होत. जैनमतमां ठ प्रकारना निर्ग्रथ कहेला ठे. आ कालमां जैनमतना जे साधुठ ठे ते पूर्वोक्त ठ प्रकारमध्येथी वे प्रकारना ठे, कारण के श्री जगवतीसूत्रना पचीशमा शतकना ठठा उद्देशामां लख्युं ठे के पांचमा कालमां वे प्रकारना निर्ग्रथ होशे, तेउनाथी तीर्थ प्रवर्तेशे. कपायकुशील निर्ग्रथ तो कोईमां परिणाम अपेक्षा होशे, मुख्य तो वेज रद्देशे. वली जैनशास्त्रमां जे गुरुनी वृत्ति लखी ठे, ते प्रायः उत्सर्गमार्गनी अपेक्षा ठे, अने आ कालमां तो प्रायः अपवाद मार्गनी प्रवृत्ति ठे, तेथी उत्सर्गवृत्तिवाला मुनि आ कालमां केवी रीतें होय ? कोइपण रीतें होई शकेज नहि, कारण के, नथी तेवुं वज्ररूपजनाराच संहनन, के नथी तेवुं मनोबल; नथी तेवी जीवोनी श्रद्धा, के नथी तेवो देशकाल, के नथी धैर्य, तो हवे आ कालमां तेवी उत्सर्गवृत्ति जीव केम करी शके ?

प्रश्नः— जो तेवी वृत्ति आ कालमां नथी तो तेउने साधुपण केम केहेवा जोईयें ?

उत्तरः— आ आपनुं कहेवुं बहुज वेसमजनुं ठे. कारण के व्यवहार सूत्रज्ञाप्यमां लख्युं ठे केः—गाथा पोस्करिणी आयारे, आणयण ते गाय गीयठे ॥ आयरिय उएए, आहरण हुंति नायवा ॥ १ ॥ सत्र परिणा ठक्काय, अहिगमो पिंड उत्तरिद्याए ॥ रूखे वसहे जूहे, जोहे सोहीय पुस्करिणी ॥ २ ॥ “ दारगाहादो ” आ वंने द्वारगाथानुं व्याख्यान ज्ञाप्यकारें पंदर ज्ञाप्यगाथाथी करेल ठे. जो ज्ञाप्यगाथा जोवानी इछा होयतो व्यवहारज्ञाप्यमां जोइ लेवी. अहियां तो ते पंदर गाथानो अर्थ ज्ञापा (ज्ञापांतर) मां लखियें ठियें. पूर्वकालमां जेवी सुगंधमय फूलोवाली पुष्करिणी वावडीयो इती, तेवा फूलोवाली हाल नथी, परंतु पुष्करिणी वावडीयो तो ठे, लोको आ सामान्य वावडीयोथी पोतानुं काम करेठे ॥ १ ॥ तथा संपूर्ण आचारप्रकल्प नवमा पूर्वमां इतुं, आ नवमा पूर्वमांथी उद्धार करीने पूज्यपाद वैशाखगणियें निशीथसूत्र रच्युं तो शुं आ निशीथने आचारप्रकल्प, न केहेवुं जोईयें ? ॥१॥ पूर्वकालमां ताखोद्धा-

टिनी अक्खापिनी आदि विद्याना धारक चोर हता, अने अथ कालमां तेवी विद्या तो नथी तो शुं चोरी करनारने हाल चोर न केहेवा जोश्यें ? ॥३॥ पूर्वकालमां चौदे पूर्वना पठन करनारने गीतार्थ केहेता हता, तो आ कालमां जघन्य आचारप्रकल्प निशीथ, अने मध्यम आचारप्रकल्प वृ- हत्कल्पनां अध्ययन करनारने शुं गीतार्थ न केहेवा जोश्यें ? ॥ ४ ॥ पूर्वकालमां श्रीआचारांगनुं शस्त्रप्रज्ञा अध्ययन जणवाथी, ठेदोपस्था- पनीय चारित्रमां स्थापन करता हता, तो शुं हाल दशवैकालिकनुं ठ जीवनीय अध्ययन जणवाथी स्थापन न करवा जोश्यें ? ॥ ५ ॥ बीजा ब्रह्मचर्यना पांचमाउद्देशामां जे आमगंधी सूत्र ठे ते सूत्रने अनुसारें-पूर्वें मुनि आहारग्रहण करता हता, तो शुं हाल पिंकेपणा अध्ययन अनु- सारें न ग्रहण करी शके ? ॥६॥ पूर्वें आचारांग पठी उत्तराध्ययन जणता हता तो शुं हाल दशवैकालिक पठी न अध्ययन करी शके ? ॥ ७ ॥ पूर्वें मत्तांगादि दशप्रकारना वृद्ध हता, तो शुं हाल आंवादि वृद्ध न केहेवा जोश्यें ? ॥ ८ ॥ पूर्वें बहु गायोना समूहवाला नवगोपने गोवाल केहेता हता, तो शुं हाल थोडी गायोवालाने गोवाल न केहेवा जोश्यें ? ॥९॥ पूर्वें सहस्रमह्व योद्धा हता, तो शुं हाल कोशने योद्धो न केहेवो जो- श्यें ? ॥ १० ॥ पूर्वें ठमासी तपनुं प्रायश्चित्त हतुं तो तेने वदले हाल नीडी प्रसुखतुं प्रायश्चित्त न लेवुं जोश्यें ? ॥ ११ ॥ एकी रीतें जो पूर्वकालना मुनियोनी वृत्ति हाल नथी तो शुं तेउने आचार्य अथवा साधु न केहेवा जोश्यें ? परंतु जरूर साधु मानवा जोश्यें. तथा जी- वानुशासन सूत्रनी वृत्तिमां पण लख्युं ठे के पांचमा कालमां साधु पूर्वोक्त प्रकारना होय तो पण तेउने संयमी केहेवा जोश्यें. तथा निशी- थमां पण लख्युं ठे ॥ ज्ञाप्यगाथा ॥ जासंजमया जीवे, सुतावंमूले गुण- उत्तर गुणाय ॥ इत्तरियत्रेय संजम, नियंठवठं सा पडितेवी ॥२ ॥ आ गा- यानी चूर्णानो अर्थः— ठकायना जीवोत्रिपे ज्यां सुधी दयाना परिषाम हशे, त्यां सुधी वक्रुश निर्ग्रथ तेमज प्रतितेवना निर्ग्रथ रहेशे, ते कार- णथी प्रवचनशून्य तेमज चारित्ररहित, पंचमकाल कदापि नहि होय ? वली मूलउत्तर गुणोमां दूषण लागवाथी चारित्र तत्काल नष्ट पण थतुं नथी. मूलगुणजंगमां वे दृष्टांत ठे, उत्तरगुणजंगमां मंरुपनुं दृष्टांत ठे.

निश्चयनयथी, एक व्रतनो जंग थयो तो, सर्वव्रतनो जंग थाय ठे, परंतु व्यवहारनयना मतथी तो जे व्रतनो जंग थयो होय, तेनोज जंग गणाय, बीजानो नहि; ते कारणथी बहु अतिचार लागवाथी संयम जतुं नथी; परंतु जो कुशील सेवे, तेमज धन राखे, अने काचुं सचित्त पाणी प्रवचन अनपेक्ष पीये, ते साधु नहि; ज्यां सुधी ठेक प्रायश्चित्त लागे त्यां सुधी संयम सर्वथा जतो नथी. वली आ कांलमां साधु नथी एम जे माने ठे ते मिथ्याहृष्टि ठे, कारण के स्थानांग सूत्रमां लख्युं ठे के बहु अतिचार लागता देखीने, तेमज आलोचना, प्रायश्चित्त कोशने ग्रंथार्थ लेता देता नहि देखवाथी, कोश एम कहे ठे. हाल कोश साधु नथी ते चारित्रजेदिनी विकथाना करनार ठे. तथा श्रीजगवतीसूत्रना पचीशमा शतकना ठठा उद्देशाना संग्रहणीकारश्रीमान् अजय देवसूरि, आ वंने निर्यथोनुं जे स्वरूप ठे ते लखेठे. ॥ गाथा ॥ वउसं सवलं कवर; मेगठंतमिह जस्स चारित्तं ॥ अश्यारपंकजावा, सोवउसो होइ निगंगथो ॥ १ ॥ व्याख्या ॥ वकुश, शवल, कर्चुर, आ त्रणे एकार्थवाची ठे, अतिचाररूप पंक लागवाथी एवं जेनुं चारित्र ठे ते वकुशनामा निर्यथ ठे. आ चारतवर्षमां आ कालमां वकुश अने कुशील, ए वे निर्यथठे; वाकीना त्रणनो विच्छेद थयेल ठे ॥ तथा चोक्तं परममुनिजिः ॥ वकुश कुशीला दोपुण, जातिष्ठं तावहोहंति इति ॥ अर्थः—वकुश, कुशील ए वे प्रकारना निर्यथ ज्यां सुधी तीर्थ रद्देशे त्यां सुधी रद्देशे.

वकुश निर्यथना वे जेद ठे, ते कहियें ठियें. वस्त्र पात्रादि उपकरणनी जे विज्ञूपा करे ते उपकरणवकुश, तथा हाथ पग नख मुखादि देहना अवयवोनी जे विज्ञूपा करे ते शरीरवकुश. आ वे जेदना वली पांच जेद ठे. ॥ गाथा ॥ उवगरण सरिरेसु, सोडुहा डुविहोवि होइ पंचविहो ॥ अज्ञोग अणाज्ञोग, असंबुड संबुडे सुहुमे ॥१॥ अर्थः—प्रथमना वे पद्दोनो अर्थ उपर लखेलो ठे पाठलना वे पद्दोनो अर्थ लखियें ठियें. साधुने आ करवा योग्य नथी, एम जाणतां ठतां पण जे ते कामने करे ते आज्ञोग वकुश, अने जे अज्ञाणपणाथी करे ते अनाज्ञोगवकुश. मूल तथा उत्तर गुणमां जे गुप्तपणे ठाना दोष लगावे ते संवृत वकुश, तथा मूल उ-

तर गुणोमां जे प्रगट दूषण लगावे ते असंवृत वकुश. नेत्र, नासिका, मुखादिना जे मल दूर करे ते सूक्ष्म वकुश. ए पांच जेद कहा.

हवे उपकरणवकुशनुं स्वरूप लखियें ठियें ॥ गाथा ॥ जो उपकरणे वउसो, सो धुवइश्च पाउसे विवडई ॥ ईडईय लंहयाइं, किंचिविचूसाईं जुंजईय ॥ १ ॥ व्याख्या:- उपकरणवकुश वर्षाऋतु विना पण जलक्षारथी वस्त्र धोवे ठे, वर्षाऋतुमां तो सर्व गहवासी साधुजने आज्ञा ठे; वर्षाऋतु पेहेलां जो एकवार पोतानां सर्व उपकरण जलक्षारथी धोई लहे नहि तो वर्षाऋतुमां मलना संसर्गथी निगोदादि जीवोनी उत्पत्ति थई जाय. वली वकुश निर्ग्रथ वर्षाऋतु विना अन्यऋतुजंमां पण जलक्षारथी वस्त्रादि धोई लहे ठे, तेमज सुंदर, सुकुमाल वस्त्रनी पण वांठा राखेठे, तेमज उपकरण विचूषा अर्थात् शोचाने वास्ते पण कांश्क पेहेरेठे. ॥ गाथा ॥ तहपत्त दंडयाइ, घठंमठं सिण्णेह कय तेय ॥ धारेइ विचूसा ए, वहुंच वच्चेई उवगरणं ॥ १ ॥ व्याख्या ॥ पात्र, दंरुप्रमुख बहुज घसीने सुकुमाल करे, तथा घी, तेल प्रमुख चोपडीने तेजवंत चमकदार करी राखे, तेमज विचूषामाटे बहुज उपकरण राखवाने चाहे अर्थात् राखे.

हवे शरीर वकुशनुं स्वरूप लखियें ठियें ॥ गाथा ॥ देह वउसो अकं घे, करचरण नहाश्यं विचूसेइ ॥ डुविहोवि इमोइड्हि, इछइ परिवार प-जिईय ॥ १ ॥ व्याख्या ॥ शरीरवकुश कारण विना पण हाथ, पग, नखादिनी विचूषा करे, जलादिथी धोवे. ए प्रमाणे उपकरण तेमज शरीर वकुश निर्ग्रथ परिवारप्रमुखनी ऋद्धि वांठेठे. ॥ गाथा ॥ पंडिच्च तवा इ कयं, जसंच इठेइ तंमि तुस्तइय ॥ सुहसीलो नयवाढं, जयइ अहोर-त्तकिरियासु ॥ १ ॥ व्याख्या:-पंडितपणाथी तथा तपादिथी यशनी इछा करे ते यशानो लाज थवाथी अत्यंत खुशी थाय, तेमज सुखशीक्षि-यो थाय, तेमज दिनरातनी समाचारी, क्रियामां बहु उद्यमी पण न होय ॥ गाथा ॥ परिवारोय असंजम, अविचित्तो होइ किंचि एयस्स ॥ घंसीय पाउ तिद्धाई, मासणि कित्तरिय केसो ॥ १ ॥ व्याख्या:-तेनो जे परिवार होय ते असंयमी होय, वस्त्रपात्रादि मोहथी दूर करे नहि, हाथ, पग तेल साबु विगेरेथी चोपडी सुकोमल राखे, तेमज दाढी, मूठ अने मस्त-कना वाल कातरथी कापे अर्थात् लोचने घदले अस्त्रा अथवा कातरथी

वाल दूर करे, परंतु लोच करे नहि. ॥ गाथा ॥ तद् देसवेष्टयारि, देहिं
 सबलेहिं संजुठ वजसो ॥ मोह रक्यछमपु, छिउय सुत्तमि जणियं च ॥
 १ ॥ व्याख्याः—तथा देशवेद, सर्ववेद योग्य दोषोथी जेनुं चारित्र करुं
 ठे, परंतु जेना मनमां मोहक्य करवानी इछा ठे, अर्थात् मनमां संयम
 पालवानो उत्साह ठे, परंतु संपूर्ण संयम पाती शकता नथी. आ पूर्वो-
 क्त कृत्योथी संयुक्त होय तेने वकुश निरर्थ कहियें. वली सूत्रमां जे
 कहेहुं ठे ते हवे लखियें ठियें ॥ गाथा ॥ उवगरण देह चुस्का, रिद्धि
 रस गारवासिया निच्चं ॥ बहु सबल ठेय जुत्ता, निग्गंथा वजसा जणिया
 ॥ १ ॥ आज्ञोगो जाणंतो, करेइ दोसं अयाणमण जोगे ॥ मूलुत्तरे हि
 संबुड, विवरिय असंबुडो होइ ॥ २ ॥ अछि मुह मज्जमाणो, होइ अ-
 हा सुहमठं तहा वजसो ॥ सीलं चरणं जंजस्स, कुठियं सो इह कुसीलो
 ॥ ३ ॥ पडिसेवणा कत्ताए, उहा कुसीलो उहावि पंचविहो ॥ नाणे दं-
 सण चरणे, तवेय अह सुहुमए चैव ॥ ४ ॥ इहनाणाइ कुसीलो उवजीवं
 होइ नाण पजिईए ॥ अह सुहुमो पुणतुस्सइ, एस तव सत्ति संसए
 ॥ ५ ॥ व्याख्या—उपकरण, देह शुद्ध राखे, रस, रुद्धि अने शाता, आ
 त्रणे गारवमां नित्य मग्न रहे, उपकरणोथी अविद्विक्त रहे परिवार जेनो
 वेद योग्य, सबल चारित्रसंयुक्त होय, ते निरर्थ वकुश कहेवाय ठे ॥१॥
 साधुउने आ करवा योग्य नथी एम जाणतां ठतां पण जे ते काम करेठे
 तेने आज्ञोगवकुश कहियें, अने जे अजाणपणाथी अकृत्य करे तेने
 अनाज्ञोगवकुश कहियें, मूल उत्तर गुणोथी संयुक्त ठे, लोक एम जा-
 णे पण ठे, परंतु गुप्त दोष लगावे ठे तेने संबृतवकुश कहियें, अने जे
 प्रगटपणे मूल उत्तर गुणमां दोष लगावे तनेअसंबृतवकुश कहियें ॥ २ ॥
 तथा जे आंख, मुख प्रमुख मांजे, मलादि दूर करे, तेने यथासूक्ष्म वकुश
 कहियें. आ वकुशना पांच जेद कह्या.

हवे कुशील निरर्थनुं स्वरूप लखियें ठियें. शील अर्थात् चारित्र, ते
 चारित्र जेनुं कुत्सित होय ते कुशील निरर्थ, तेना वे जेद ठे ॥ ३ ॥ प्रति
 सेवनाकुशील तथा कपायकुशील, संज्वलन कपायोथी कुशील होय ते
 कपायकुशील. आ वनेना वली पांच जेद ठे ते कहिये ठियें. १ ज्ञान

२ दर्शन ३ चारित्र्यतप ५ यथासूक्ष्मतः ॥४॥ जे ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य तथा तप, आ चारे आजीविकाने वास्ते करे ते ज्ञानादिकुशील याने चारे प्रतिसेवनाकुशील, तथा आ तपस्वी ठे इत्यादि पोतानी प्रशंसा श्रवण करी खुशी थाय ते पांचमा यथासूक्ष्म प्रतिसेवनाकुशील जाणवा. तथा जे ज्ञान, दर्शन, तप प्रमुखनो संज्वलन कषायना उदयथी व्यापार करे, ते ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यना कषाय कुशील जाणवा. जे कषायकुशील ठे ते कषायने वश थईने शाप दीएठे. मनथी जे क्रोध प्रमुखनुं सेवन करे ते यथा सूक्ष्मकषायकुशील, अथवा कषायथी जे ज्ञान प्रमुखनी विराधना करे ते ज्ञानादि कुशील जाणवा. कोइ आचार्य, तप कुशीलना स्थानमां लिंगकुशील कहे ठे. आ वे प्रकारना निर्ग्रंथ पांचमा आरा पर्यंत रहेशे. जे कोई आ तरेहना साधुने साधु अथवा गुरु न माने ते जीव. मिथ्यादृष्टि, बहुल संसारी, जिनमतना उत्थापक ठे. एवा मिथ्यादृष्टिनी संगत पण करवी योग्य नथी.

इतिश्रीतपागच्छीयमुनिश्रीबुद्धिजयशिष्यमुन्यानंदविजयात्मारामविरचितजैनतत्त्वादर्शनापांतरेगुरुतत्त्वनिर्णयनामा तृतीयः परिच्छेदः संपूर्णः ॥

॥ अथ चतुर्थपरिच्छेदप्रारंभः ॥

आ चोथा परिच्छेदमां कुगुरु तत्त्वनुं स्वरूप लखिये ठियें. ॥ श्लोक ॥ सर्वाजिलापिणः सर्वे, जोजिनः सपरिग्रहाः ॥ अत्रह्यचारिणोमिथ्यो, पदेशागुरवोमताः ॥ १ ॥ अर्थः— स्त्री, धन, धान्य, सुवर्ण, रुपाआदि सर्व धातु, तथा क्षेत्र, घर, हाट, हवेळी प्रमुख सर्व स्यावर मिलकत तथा चतुष्पदादि अनेकप्रकारनां पशु, आ सर्वनी अजिलापा करवानो जेनो स्वज्ञाव ठे ते सर्वाजिलापी, तथा सर्व मद्यमांसादि वावीश अन्नदय, तथा वत्रीश अनंतकाय, तथा अन्य अनुचित आहारादि, आ सर्वनुं जोजन करवानो जेनो स्वज्ञाव ठे ते सर्वजोजिनः, तथा पुत्र, कलत्र, पुत्री प्रमुख सहवर्तमान प्रवर्तें ते सपरिग्रही, अने तेज कारणथी अत्रह्यचारी, जे अत्रह्यचारी, होय ठे ते महादोषवान् होय ठे तेथी अत्रह्यचारी एवो आ श्लोकमां जूदो उपन्यास करेलो ठे. वली अगुरुपणातुं असाधारण

कारण कहियें ठियें, मिथ्योपदेशाः, मिथ्या (वितथ) आत्मना उपदेश विनानो धर्मनो उपदेश ठे जेनो ते अगुरु ठे. अहिंयां कोई एवी शंका करे के धर्मना उपदेशदाता गुरु ठे, ठतां पण निःपरिग्रहादि गुणोनुं ते उपदेशदातामां शामाटे अस्तित्व होतुं जोइयें ? ते शंका दूर करवाना हेतुथी विशेष लखियें ठियें.

॥ श्लोक ॥ परिग्रहारंजमग्ना, स्तारयेयुः कथं परान् ॥ स्वयं दरिद्रो नपर, मीश्वरीकर्तुमीश्वरः ॥ २ ॥ अर्थः—परिग्रह- स्त्री प्रमुख अने आरंज- जीवहिंसा अर्थात् सर्वाजित्वापी तथा सर्वज्ञोजी आ वंने विपयो- मां जे मग्न ठे, अर्थात् आ वंने विषयरूप जवसमुद्रमां जे डुबेला ठे, ते बीजा जीवोने केवीरीतें संसार सागरमांथी तारी शके तेम ठे ? दृष्टांत के जे पुरुष पोतेज दरिद्र ठे ते बीजाने धनवान् केवी रीतें करी शके तेम ठे ? हवे प्रथम श्लोकना चोथा पदमां “ मिथ्योपदेशागुरवोम- ताः” जे ठे ते पदनो अर्थ विस्तारथी लखियें ठियें. कुगुरुनो उपदेश आ प्रमाणे मिथ्या ठे, आ मिथ्या उपदेशना स्वरूपमां प्रथम त्रणसे त्रे- सठ मतनुं स्वरूप लखियें ठियें. एकसो एंशी मत क्रियावादिना ठे. तथा चोराशी मत अक्रियावादिना ठे, तथा सडसठ मत अज्ञानवादि- ना ठे, अने वत्रीश मत विनयवादिना ठे, ए रीतें त्रणसे त्रेसठ मत थाय ठे.

प्रथम क्रियावादिना मतनुं स्वरूप कहियें ठियें. क्रियावादी कहेठे के कर्त्ताविना पुण्यबंधादिलक्षणरूप क्रिया अती नथी तेथी क्रिया, आ- त्मानीसाथे समवायसंबंधवाली ठे. ए प्रमाणे तेमनो मत ठे. क्रियावादी आत्मा प्रमुख नव पदार्थोने एकांत अस्ति स्वरूपपणे मानें ठे, आ क्रिया वादिना एकसो एंशीमत, नीचे मुजव जाणी लेवा. १ जीव, २ अजीव, ३ आ- अव, ४ बंध, ५ संवर, ६ निर्जरा ७ पुण्य, ८ अपुण्य, ९ मोक्ष, आ नव प- दार्थ अनुक्रमें पत्रादिपर लखवा; पठी जीव पदार्थना नीचे स्वतः तेमज परतः आ वे जेद स्थापन करवा. आ स्वतः परतः नीचे वली जुदा जुदा नित्य तेमज अनित्य एवा वे जेद स्थापन करवा; पठी नित्य, अनित्य आ वंने- नी नीचे जुदा जुदा १ काल, २ ईश्वर, ३ आत्मा, ४ नियति ५ स्वभाव, आ पांच स्थापन करवा, त्यारवाद विकल्प करीलेवा, ते नीचे मुजव—यंत्रस्थापना.

जीव.

स्वतः		परतः	
नित्य.	अनित्य.	नित्य.	अनित्य.
१ काल.	१ काल.	१ काल.	१ काल.
२ ईश्वर.	२ ईश्वर.	२ ईश्वर.	२ ईश्वर.
३ आत्मा.	३ आत्मा.	३ आत्मा.	३ आत्मा.
४ नियति.	४ नियति.	४ नियति.	४ नियति.
५ स्वज्ञाव.	५ स्वज्ञाव.	५ स्वज्ञाव.	५ स्वज्ञाव.

विकल्प करवानी रीत कहियें ढियें. अस्ति जीवः स्वतोनित्यः कालत इत्येकोविकल्पः ॥ १ ॥ अर्थः—आ आत्मा निश्चयें स्वस्वरूपधी कालधी उत्पन्न थयेल ठे. कालवादिना मतनो आ विकल्पठे. कालवादी, कालधी-ज जगतनी उत्पत्ति, स्थिति, तेमज लय माने ठे. वली कालवादी कहे ठे के चंपक, अशोक, सहकार, निंब, जंबु, कदंवादि जे वनस्पति ठे, तेउनी उपर फुलोनुं लागवुं, फलप्रमुखनुं वंधावुं ते कालविना थइ शकतुं नथी, तथा हिमकणसंयुक्त ज्जीतनुं पडवुं, तथा नक्षत्रगर्जनुं धारण, वरसा-दनुं वरसवुं इत्यादि कालविना होतुं नथी, वली ठ इतुओना विज्ञाग, तथा बाल, कुमार, यौवन, वृद्धादि अवस्था, तेपण कालविना थइ शकती नथी, जे जे प्रतिनियत काल विज्ञागादि ठे, ते सर्वनो कालज नियंता ठे, जो कालने नियंता न मानियें तो कोइ वस्तुनी व्यवस्था थशे नहि कारण के जेम कोइ पुरुष मग रांधे ठे, ते मगपण कालविना रंधाइ जाता नथी, नहि तो हांगली तथा इंधन प्रमुख सामग्रीना संयोगधी प्रथम समयमांज मग केम न रंधाइ जाय ? ते कारणधी जे कर्त्ता ठे ते कालज ठे. तथा चोक्तं ॥ न कालव्यतिरेकेण. गर्जवालशुभ्रादिकं ॥ यत् किंचिज्जायते लोके, तदसौ कारणं किल ॥ १ ॥ किंचित् कालादसौ नैव, मुद्रुपकिरपीक्ष्यते ॥ स्याद्व्यादिसन्निधानेऽपि, ततः कालादसौ मतः ॥ २ ॥ कालाज्ञावे च गर्जादि, सर्वं स्यादव्यवस्थया ॥ परेऽहेतु सदज्ञाव, मात्रादेव तदुद्भवात् ॥ ३ ॥ आ श्लोकोनो ज्ञावार्थ उपर ल-खेलो ठे. तथा ॥ कालः पचति जूतानि, कालः संहरते प्रजाः ॥ कालः सुतेषु जागर्त्ति, कालोहि दुरतिक्रमः ॥ ४ ॥ अहियां पर इष्ट हेतुना स-

ज्ञाव मात्रादिथी बीजाओए जे एम मानेल ठे के स्त्री पुरुपना संयोग मात्र हेतुथी गर्जनी उत्पत्ति थायठे तो एक वर्ष वयना स्त्री पुरुपना संयोगथी केम गर्जनी उत्पत्ति थती नथी ते कारणथी कालज गर्जनी उत्पत्तिनो हेतु ठे. तेमज स्त्रीने गर्ज उत्पन्न थवामां ऋतुकाल होवो जोइये, ते विना स्त्री पुरुपना संयोगथी गर्ज केम उत्पन्न थतो नथी? वली कालज पकावे ठे तथा पृथ्वी आदि जूतोने परिणामांतर प्रत्ये कालज पढोचाडे ठे. तेमज पूर्व पर्यायथी पर्यायांतरमां लोकोने कालज स्थापन करे ठे. वली सुप्त अंशवस्था प्राप्त थयेला प्राणियोनी रक्षापण कालज करेठे, ते कारणथी प्रत्यक्ष ठे के काल छुरतिक्रम ठे. कालने दूर करवामां कोइ समर्थ नथी, आ कालवादिनो विकल्प ठे.

तेविजरीतें बीजा विकल्प पण जाणी लेवा. परंतु कालने स्थानकें ईश्वरनी योजना करवी, “यथा अस्ति जीवः स्वतो नित्यः ईश्वरतः” जीव पोताना स्वरूपथी नित्य ठे, परंतु ईश्वर उत्पन्न करे ठे. कारण के ईश्वरवादी सर्व जगत् ईश्वरनुंज करेलुं माने ठे. जेने १ ज्ञान, २ वैराग्य, ३ धर्म, ४ ऐश्वर्य, आ चारे स्वतः सिद्ध होय, तेमज जे, जीवोना स्वर्ग, नरक, मोक्षादि गमनमां प्रेरक होय तेने ईश्वर कहियें. यथा ॥ ज्ञानमप्रतिघंयस्य, वैराग्यं च जगत्पतेः ॥ ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च, सहसिद्धं चतुष्टयं ॥ १ ॥ अज्ञोजंतुरनीशोय, मात्मनः सुखदुखयोः ॥ ईश्वरप्रेरितोगच्छेत्, स्वर्गं वाश्चन्नमेव वा ॥ २ ॥ इत्यादि.

त्रीजो विकल्प आत्मवादियोनो ठे. “पुरुष एवेदं सर्वमित्यादि” जे काई देखाय ठे ते सर्व पुरुपज ठे एम आत्मवादियोनो मत ठे.

चोथो विकल्प नियतवादियोनो ठे. नियतवादियो कहे ठे के पदार्थोमां एक एवुं सामर्थ्य ठे के जे सामर्थ्यथी सर्व पदार्थ पोत पोताना स्वरूपनियमोथी तेवाने तेवाज बन्या रहेठे, परंतु अन्यथापणे थता नथी. वली तेज वताविये ठियें. जे पदार्थ जे कालमां जेनाथी थाय ठे, ते पदार्थ तेज कालमां, तेनाथी नियतरूपें थतो मालम पडेठे. तेम जो न होय तो कार्य कारण जावनी व्यवस्था नियामकना अज्ञावथी कदापि थायज नहि. ते कारणथी कार्यनियतताथी उपर मुजब प्रतीत थती जे नियति तेने प्रमाण पंथमां कुशल एवो कयो पुरुप बाध करी शके ठे ?

जो नियति बाधित थई जाय तो वीजे स्थले प्रमाण मिथ्या थई जशे. तथा चोक्तं ॥ नियतैनेवरूपेण, सर्वे ज्ञावां जवंति यत् ॥ ततो नियति जाह्येते, तत्स्वरूपानुबंधतः ॥ १ ॥ यद्यदेव यतो यावत्, तत्तदेव ततस्तथा ॥ नियतं जायते न्यायात्, कर्णनां बाधितुं क्षमः ॥ २ ॥ आ वंने श्लोकनो अर्थ उपर लख्यो ठे.

पांचमो विकल्प स्वज्ञाववादियोनो ठे. स्वज्ञाववादियो कहे ठे के आ संसारमां सर्व पदार्थ स्वज्ञावधीज उत्पन्न थाय ठे ते कहे ठे के माटीथी घट थाय ठे, परंतु वस्त्र थतुं नथी, तेमज तंतुजथी वस्त्र थाय ठे परंतु घटादि थता नथी, आ जे मर्यादापूर्वक थतुं ठे ते स्वज्ञाव विना कदापि थई शकतुं नथी. ते कारणथी जगतमां जे कांई थाय ठे ते सर्व स्वज्ञावधीज थाय ठे. वही वीजां कार्य तो दूर रहो परंतु आ जे मगनुं रंधातुं ठे, ते पण स्वज्ञावविना थतुं नथी, कारण के हांमी, इंधन, काल प्रमुख सामथी विद्यमान ठतां (कांगडु) करडु मग रंधाता नथी याने पाकता (चडता) नथी; ते कारणथी जे जेना सद्ज्ञावें विद्यमान होय, तेमज असद्ज्ञावें अविद्यमान होय ते ते अन्वयव्यतिरेकथी तेना कर्ता ठे; स्वज्ञावधीज मग रंधाय ठे तेथी स्वज्ञावज सर्व वस्तुनो हेतु ठे.

आ पांच विकल्प स्वतः ईश पदथी होय ठे, तेवीज रीतें पांच परतः ईशपदथी उपलब्ध थाय ठे. परतः शब्दनो अर्थ एवो ठे के, पर पदार्थोथी व्यावृत्तरूपें आ आत्मा निश्चयथी ठे. तेवी रीतें नित्य शब्दथी दश विकल्प थाय ठे, तेमज अनित्य पदथी पण दश विकल्प थाय ठे. वंने एकठा करवाथी वीश थाय ठे. आ वीश विकल्प जीव पदार्थ साथे थाय ठे, तेवीज रीतें अजीवादि नवे पदार्थ साथे जुदा जुदा वीश विकल्प जाणीं लेवा, एटले वीशने नवथी गुणतां एकसो एंशी मत क्रियावादिना थाय ठे.

हवे अक्रियावादिना चोराशी मत लखियें ठियें. अक्रियावादी कहे ठे के पुण्य, पापरूप क्रिया कांइ नथी. कारण के पुण्य, पापरूपादि क्रिया तो स्थिर पदार्थोने लागे ठे, अने जगतमां स्थिर पदार्थ तो कोइ ठे नहि, कारण के उत्पत्ति अनंतरज पदार्थनो विनाश थतो जाय ठे. तथा श्लोक ॥ क्षणिकाः सर्वसंस्कारा, अस्थिराणां कुतः क्रिया ॥ जूति-येंपां क्रिया सैव, कारकं सैव चोच्यते ॥१॥ अर्थः— सर्वसंस्कार पदार्थ क्ष-

एक ठे, तेथी अस्थिर पदार्थोंने पुण्यपापादि क्रिया क्यांथी होय ? पदार्थोंनुं जे होवुं, तेज क्रिया ठे, तेज कारक ठे, ते कारणथी पुण्यपापादि क्रिया नथी. आ अक्रियावादी आत्माने मानता नथी. तेना चोराशी मत जाणवानी आ रीत ठे. १ जीव, २ अजीव, ३ आश्रव, ४ संवर, ५ निर्जरा, ६ बंध, ७ मोक्ष, आ सात पदार्थ लखवा, पठी जीवादिसाते पदार्थोंनी नीचे जुदा जुदा स्व तेमजपर आ वे विकल्प लखवा, पठी आ वंनेनी नीचे जुदा जुदा १ काल, २ ईश्वर, ३ आत्मा, ४ नियति, ५ स्वभाव, ६ यदृष्टा, आ ठ लखवा. अहियां नित्य, अनित्य आ वे विकल्प नहिं लख्या तेनुं कारण ए ठे के ज्यारे आत्मादि पदार्थज नथी त्यारे तेनां नित्य, अनित्यनो संजवज केम होय ? तथा यदृष्टावादी जे ठे ते सर्व नास्तिक अक्रियावादी ठे, ते कारणथी क्रियावादी यदृष्टावादी नथी. तेज कारणथी क्रियावादिना मतमां यदृष्टा पद ग्रहण करेल नथी. आ मतना चोराशी जेद आवी रीतें जाणवा ते कहियें ठियें.

“ नास्ति जीवः स्वतः कालत इत्येको विकल्पः ” नथी जीव पोताना स्वरूपें कालथी उत्पन्न थयेल, आ एक विकल्प, तेवीज रीतें ईश्वरादिथी लईने यदृष्टा पर्यंत सर्व ठ विकल्प थया, तेना अर्थ पूर्ववत् जाणवा, परंतु एतहुं विशेष के आ मतमां यदृष्टावादी अधिक ठे.

प्रश्नः— यदृष्टावादिउंनो शुं मत ठे ?

उत्तरः— जे पदार्थोंने संताननी अपेक्षा नियत, कार्य कारण जावें मानता नथी, परंतु जे कांइ थाय ठे ते यदृष्टाथी थाय ठे, अर्थात् कार्य कारण जाव नथी, परंतु यदृष्टाथीज थाय ठे एम जे कहेठे ते यदृष्टावादि ठे. वदी तेउं कहे ठे के पदार्थोंनो पोत पोतामां कार्यकारणजावनो नियमज नथी, कारण के कार्यकारणजाव प्रमाणपूर्वक ग्रहण थई शकाताज नथी. जेम मृतकमेरुक (देरुका) थी मेरुक उत्पन्न थायठे, तेमज गोवरथी पण मेरुक उत्पन्न थाय ठे; अग्निथी अग्नि उत्पन्न थाय ठे, तेमज अरणिना काष्ठथी पण अग्नि उत्पन्न थाय ठे; धूमाडो धूमाडो उत्पन्न थाय ठे तेमज अग्निथी पण धूमाडो उत्पन्न थाय ठे; कदलीना कंदथी केलां उत्पन्न थाय ठे, तेमज केलांना वीजथी पण केलां उत्पन्न

थाय ठे; वीजथी वटवृक्ष उत्पन्न थाय ठे तेमज वटवृक्षनी शाखाथी पण वट वृक्ष उत्पन्न थाय ठे; ते कारणथी नियमपूर्वक कार्यकारणजाव कोइ पण जगाये देखवामां आवता नथी. तेथी यहद्व्याथी कोइ जगे कांइ तो कोई जगे कांइ एम थाय ठे, एम मानवुं जोइयें, कारण के जो एम जाणुं के जे कांइ थाय ठे ते यहद्व्याथी थाय ठे तो बुद्धिमान् पुरुषें कार्यकारण जावने शावास्ते मानवा जोइयें. तेमज आत्माने क्लेश करवो जोइये. जेम स्वतःनी साथे ठ विकल्प करवा तेमज परतःनी साथे पण ठ विकल्प करवा. तेवी रीतें वार विकल्प थया ते वारेने जीवादि सात पदार्थों साथे गुणतां चोराशी जेद अक्रियावादिना थाय ठे.

हवे त्रीजा अज्ञानवादिना जेद कहियें ठियें. जुंजुं ज्ञान ठे जेनुं ते अज्ञानवादि जाणवा; अथवा अज्ञानथी जे प्रवर्ते ते अज्ञानवादी; अज्ञानवादी कहे ठे के ज्ञान सारी वस्तु नथी कारण के जो ज्ञान हरो तो परस्पर विवाद थरो, जो विवाद थरो तो चित्त मलिन थरो, ज्यारे चित्त मलिन थयुं, ल्यारे संसारनी वृद्धि थई. जेम के कोइ पुरुषें कोइ वस्तु विरुद्ध कही, ज्ञानियें तेसांजद्वीने ज्ञानना अजिमानथी, बहुज मलिन चित्तथी ते पुरुषनी साथे विवाद करवो शरु कख्यो, विवाद करतां थकां अत्यंत तीव्र मलिन चित्त थयुं तथा अहंकार वध्यो, ते चित्तनी मलिनता तथा अहंकारथी महापापकर्म उत्पन्न कख्यां, ते पापथी दीर्घतर संसारनी वृद्धि थई. ते कारणथी ज्ञान सारी वस्तु नथी, अने जो पोताने अज्ञानी मानिये तो अहंकारनो संजव थतो नथी, तेमज वीजाउती उपर चित्तनुं मलिनपणुं पण थतुं नथी, तेथी कर्मनो बंध पण थतो नथी. वदी जे कार्य विचारपूर्वक करियें तेमां महाकर्मनो बंध थाय ठे. तेहुं फल पण महाजयानक प्राप्त थाय ठे, अने जे काम मनना व्यापार विना करिये, तेमज मनना व्यापार विना कोइ जीवनो वध पण करियें तो तेहुं फल अवश्यमेव जोगववामां आवतुं नथी; अने ते काममां जे कांइ कर्मबंध थाय ठे, ते पण चुनागठी वादी जित्त उपर रेतीनी मुष्टिना संबंधवत् स्पर्शमात्र थाय ठे, परंतु बंध थतो नथी. ते कारणथी मोक्षगामि पुरुषोने अज्ञानज अंगीकार करवुं श्रेय ठे, परंतु ज्ञान अंगीकार करवुं श्रेयस्कर नथी. आ अज्ञानवादी कहे ठे के ज्ञानने अमे मानी

पण लड़यें, जो ज्ञाननो निश्चय करवानी समर्थता होय ? कारण के प्रथम तो ज्ञान सिद्धज थई शकतुं नथी. जूँ जे जे मतावलंबी पुरुष ठे, ते सर्व परस्पर जिज्ञज ज्ञान श्रंगीकार करे ठे. ते कारणथी निश्चय करवामां केम समर्थ होय, के आ मततुं ज्ञान सम्यक् ठे थने आ मततुं ज्ञान सम्यक् नथी ? जो एम कहो के सकल वस्तु समूहना साक्षात्कारी एवा ज्ञानवाला जे जगवान् ठे तेना उपदेशथी जे ज्ञान आय ते सम्यक् ज्ञान ठे, थने तेना शिष्याय बीजा मत ठे तेतुं ज्ञान सम्यक् नथी, कारण के तेना मतमां जे ज्ञान ठे ते सर्वज्ञतुं कथन करेल नथी.

अज्ञानवादी कहे ठे के—आपनुं केहेतुं तो सत्य ठे, परंतु सकल वस्तुसमूहना साक्षात् करनारा ज्ञानी, सुगत, ईश्वर, विष्णु ब्रह्मादिने अमे मानियें ? के जगवान् वर्धमान महावीर स्वामिने अमे मानियें ? वली एज संशय रह्यो, निश्चय थयो नहि के कोण सर्वज्ञ ठे ? जो एम कहो के जे जगवानना चरण कमलने सर्व देवता, इंद्र परस्पर थइंपूर्वकविशिष्टविशिष्टतर विजृत्तियुत्तियी संयुक्त सेंकडो विमानोमां बेसी सकल आकाश मंरुलने आछादित करता थका, पृथ्वीपर उतरी पूजता हता ते जगवान् वर्धमान स्वामी सर्वज्ञ ठे, परंतु सुगत, शंकर, विष्णु ब्रह्मादि नहि; कारण के सुगतादि सर्व अल्पबुद्धिवाला मनुष्य थया ठे, परंतु सर्वज्ञ देव थया नथी, जो सुगतादि सर्वज्ञ थया होत तो ते-उनी पण देवता, इंद्र, पूजा करी होत, परंतु कोईनी देवता, इंद्र पूजा करी नथी, ते कारणथी सुगतादि सर्वज्ञ थया नथी. हे जेन ! आ जे स-घडुं तमे कहुं ते पोताना मतना रागथी कहुं ठे; परंतु ते वातथी इष्ट सिद्धि थती नथी. कारण के वर्धमान स्वामिनी देवता, इंद्र देवलोकथी आवीने पूजा करता हता, आ तमारुं केहेतुं अमे केम साबु मानी शकियें ? जगवान् श्री महावीर स्वामिने थयाने आज बहुकाल व्यतीत थई गयो, वली तेना सर्वज्ञ होवामां कांइ पण साधक प्रमाण नथी. जो कहो के संप्रदायथी अर्थात् महावीरना शासनथी महावीर सर्वज्ञ सिद्ध थाय ठे, तो तेमां एवो तर्क थशे के आ, जे तमारो संप्रदाय ठे ते कोण जाणे कोई धूर्तनो चलावेखो हशे ? के कोई सत्पुरुषनो चलावेखो हशे ?

अमे तेमां शुं जाणी शकीये ? ते कारणथी सिद्ध करनारुं कोइ पण प्रमाण नथी, अने प्रमाण विना अमे मानियें तो प्रेक्षावान् शेना ? वली मायावान् पुरुष पोते सर्वज्ञ होता नथी तो पण पोते पोताने जगत्मां सर्वज्ञ थयेला प्रगट करी दीयेठे. इंद्रजालनी सत्तावीस पीठ ठे, तेमांथी केटलीएक पीठना पाठक पोते पोतानुं तीर्थंकरनुं रूप, तेमज इंद्र, देवता पूजा करता होय, एम बनावी शके ठे, तो पठी देवताउंना आगमन, पूजा देखवाथी सर्वज्ञपणुं केम सिद्ध थाय, जेथी श्रीमहावीर स्वामिने अमे सर्वज्ञ मानियें ? तमारा मतना आचार्य सामंतजडस्तुतिकार पण कहेठे के ॥ श्लोक ॥ देवागमनजोयान, चामरादिविचूतयः ॥ मायाविष्वपि दृश्यंते, ह्यतस्त्वमसि नोमहान् ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः— देवताउंनां आगमन, आकाशमां चालवुं, ठत्र चामरादि विचूति, आ सर्व आरुंवर इंद्रजालीआमां पण थई शके ठे, ते हेतुथी हे जगवन् ! तुं अमोने महान् स्तुति करवा योग्य नथी. वली हे जैन ! तमारा केहेवाथी महावीरज सर्वज्ञ होय, तो पण आ जे आचारांगादि शास्त्र ठे ते महावीर सर्वज्ञनांज कथन करेलां ठे एम केवी रीतें जाणी शकियें ? शुं जाणीयें के कोई धूत्तें रचीने महावीरनुं नाम राखी लीधुं होय ? कारण के आ वात इंद्रियज्ञाननो विषय नथी, अने अतींद्रिय ज्ञाननी सिद्धिमां कोई पण प्रमाण नथी.

जला कदी एम पण हो के आचारांगादि शास्त्र तो महावीर सर्वज्ञनांज कथन करेलां ठे तो पण श्रीमहावीर स्वामिना कथन करेला शास्त्रनो आज अजिप्राय ठे, आज अर्थ ठे, बीजो अर्थ नहि, एम केम जाणी शकाय ? कारण के शब्दना अनेक अर्थ ठे, ते आ जगत्मां प्रगट सांजलवामां आवे ठे. शुं जाणियें आज अहरोथी श्रीमहावीर स्वामियें कोइ अन्यज अर्थ कहा होय, अने तमारी समजणमां तेज अहरोथी कांई जुदाज अर्थ जासन थता होय ? हवे तेनो निश्चय केवीरीतें थाय के आ अहरोना आज अर्थ जगवानें कहा ठे. जो तमे एवी रीतें मानी लीधुं होय के जगवानना समयमां गौतमादि मुनि हता, तेउंए जगवानना मुखारविंदथी साक्षात् जे अर्थ श्रवण कस्या हता, तेज अर्थ आज पर्यंत परंपराथी चाट्या आवे ठे, तेज कारणथी आचारांगादि

शास्त्रोना आज अर्थ ठे, वीजा नथी. आ पण तमारुं केहेवुं अयुक्त ठे, कारण के गौतमादि पण उद्वस्य हता, अने उद्वस्यने वीजानी चित्त वृत्तिनुं ज्ञान होतुं नथी, वीजानी चित्तवृत्तिनी समज तो अतीन्द्रिय ज्ञाननो विषय ठे. उद्वस्य तो इंद्रियद्वारा जाणी शके ठे, इंद्रियज्ञानी सर्वज्ञाना अज्ञिप्रायने केवी रीतें जाणी शके के सर्वज्ञानो आज अज्ञिप्राय ठे ? आ अज्ञिप्रायथी सर्वज्ञें आ शब्द कह्यो ठे ? ते वास्ते जगवानना अज्ञिप्राय तो गौतमादि जाणी शकता न होता, केवल जे वर्णावली जगवान् केहेता हता तेज वर्णावलि जगवाननी पाठल गौतमादि उच्चारण करता आव्या ठे, परंतु जगवाननो अज्ञिप्राय कोइयें जाणेलो नथी. जेम आर्यदेशोत्पन्न पुरुषनो शब्दोच्चार श्रवण करी म्लेच्छ पण तेवोज शब्दोच्चार करी शके ठे, परंतु तात्पर्य कांइ जाणता नथी, तेवीज रीतें गौतमादि, महावीर स्वामिना अनुवादक हता; परंतु तेमना अज्ञिप्राय जाणता न होता, ते कारणथी सम्यक् ज्ञान कोइ मतमां सिद्ध थलुं नथी; एक तो ज्ञान थवाथी, पुरुष अज्ञिमानथी बहुज कर्म बांधीने दीर्घसंसारी थई जाय ठे, वीजुं सम्यक्ज्ञान कोइ मतमां ठेज नहि, तेथी अज्ञानज श्रेय ठे. ए प्रमाणें अज्ञानवादिनी श्रद्धा ठे. ते अज्ञानी सडसठ प्रकारना ठे. तेने जाणवानो आ उपाय ठे. जीवादि नव पदार्थ कोइ पत्र पर लखवा, अने दशमा स्थानमां उत्पत्ति लखवी, जीवादि नवे पदार्थ नीचे जुदां जुदां सत्त्वादि सात पद स्थापन करवां, ते सात पद आ ठे— १ सत्त्वं, २ असत्त्वं, ३ सदसत्त्वं, ४ अवाच्यत्वं, ५ सदवाच्यत्वं, ६ असदवाच्यत्वं, ७ सदसदवाच्यत्वं. हवे १ सत्त्वं—ते स्वरूपथी विद्यमानपणुं, २ असत्त्वं— पररूपथी अविद्यमानपणुं, ३ सदसत्त्वं— ते स्वरूपथी तथा पररूपथी विद्यमानपणुं, तेमां अगर जो के सर्व वस्तु स्वपर रूपथी निरंतर स्वप्नावथी सदसत्स्वप्नाव ठे, तो पण कोइक जगाये कदाचित् उभूतरूपथी विवक्षा करवामां आवे, ते हेतुथी आ त्रण विकल्प थाय ठे, तथा अवाच्यत्वं ते तेजसत्त्व, असत्त्व ज्यारे युगपत् एक शब्दथी केहेवानी श्वा करियें, त्यारे तेनो वाचक कोइपण शब्द नथी तेथी अवाच्यत्वं, आ चारे विकल्पनुं सकलादेशा एवुं नाम कहियें, का-

अमे तेमां शुं जाणी शकीये ? ते कारणथी सिद्ध करनारुं कोइ पण प्र-
माण नथी, अने प्रमाण विना अमे मानियें तो प्रेक्षावान् शेना ? व-
ली मायावान् पुरुष पोते सर्वज्ञ होता नथी तो पण पोते पोताने जगत्-
मां सर्वज्ञ थयेला प्रगट करी दीयेठे. इंद्रजालनी सत्तावीश पीठ ठे,
तेमांथी केटलीएक पीठना पाठक पोते पोतानुं तीर्थंकरनुं रूप, तेमज
इंद्र, देवता पूजा करता होय, एम वनावी शके ठे, तो पठी देवताउंना
आगमन, पूजा देखवार्थी सर्वज्ञपणुं केम सिद्ध थाय, जेथी श्रीमहावीर
स्वामिने अमे सर्वज्ञ मानियें ? तमारा मतना आचार्य सामंतजडस्तु-
तिकार पण कहेठे के ॥ श्लोक ॥ देवागमनजोयान, चामरादिविज्ञू-
तयः ॥ मायाविष्वपि दृश्यंते, ह्यतस्त्वमसि नोमहान् ॥ १ ॥ जावार्थः-
देवताउंनां आगमन, आकाशमां चालवुं, उत्र चामरादि विज्ञूति, आ
सर्व आरुंवर इंद्रजालीआमां पण थई शके ठे, ते हेतुथी हे जगवन् ! तुं
अमोने महान् स्तुति करवा योग्य नथी. वली हे जैन ! तमारा केहेवा-
थी महावीरज सर्वज्ञ होय, तो पण आ जे आचारांगादि शास्त्र ठे ते
महावीर सर्वज्ञनांज कथन करेलां ठे एम केवी रीतें जाणी शकियें ?
शुं जाणियें के कोई धूतें रचीने महावीरनुं नाम राखी लीधुं होय ? कारण
के आ वात इंद्रियज्ञाननो विषय नथी, अने अतींद्रिय ज्ञाननी सिद्धि-
मां कोई पण प्रमाण नथी.

जला कदी एम पण हो के आचारांगादि शास्त्र तो महावीर सर्वज्ञ-
नांज कथन करेलां ठे तो पण श्रीमहावीर स्वामिना कथन करेला शा-
स्त्रनो आज अजिप्राय ठे, आज अर्थ ठे, बीजो अर्थ नहि, एम केम
जाणी शकाय ? कारण के शब्दना अनेक अर्थ ठे, ते आ जगत्मां प्रगट
सांजलवामां आवे ठे. शुं जाणियें आज अक्षरोथी श्रीमहावीर स्वामियें
कोइ अन्यज अर्थ कह्या होय, अने तमारी समजणमां तेज अक्षरोथी
कांई जुदाज अर्थ ज्ञासन थता होय ? हवे तेनो निश्चय केवीरीतें थाय
के आ अक्षरोना आज अर्थ जगवानें कह्या ठे. जो तमे एवी रीतें मा-
नी लीधुं होय के जगवानना समयमां गौतमादि मुनि हता, तेउण ज-
गवानना मुखारविंदथी साक्षात् जे अर्थ श्रवण कस्या हता, तेज अर्थ
आज पर्यंत परंपराथी चाट्या आवे ठे, तेज कारणथी आचारांगादि

शास्त्रोना आज अर्थ ठे, वीजा नथी. आ पण तमारुं केहेतुं अयुक्त ठे, कारण के गौतमादि पण उद्भस्य हता, अने उद्भस्यने वीजानी चित्त वृत्तिनुं ज्ञान होतुं नथी, वीजानी चित्तवृत्तिनी समज तो अतींद्रिय ज्ञाननो विषय ठे. उद्भस्य तो इंद्रियद्वारा जाणी शके ठे, इंद्रियज्ञानी सर्वज्ञाना अज्ञिप्रायने केवी रीतें जाणी शके के सर्वज्ञानो आज अज्ञिप्राय ठे ? आ अज्ञिप्रायथी सर्वज्ञें आ शब्द कह्यो ठे ? ते वास्ते जगवानना अज्ञिप्राय तो गौतमादि जाणी शकता न होता, केवल जे वर्णावली जगवान् केहेता हता तेज वर्णावलि जगवाननी पाठल गौतमादि उच्चारण करता आव्या ठे, परंतु जगवाननो अज्ञिप्राय कोइयें जाणेलो नथी. जेम आर्यदेशोत्पन्न पुरुषनो शब्दोच्चार श्रवण करी म्लेछ पण तेवोज शब्दोच्चार करी शके ठे, परंतु तात्पर्य कांइ जाणता नथी, तेवीज रीतें गौतमादि, महावीर स्वामिना अनुवादक हता; परंतु तेमना अज्ञिप्राय जाणता न होता, ते कारणथी सम्यक् ज्ञान कोइ मतमां सिद्ध थतुं नथी; एक तो ज्ञान थवाथी, पुरुष अज्ञिमानथी बहुज कर्म वांधीने दीर्घसंसारी थई जाय ठे, वीजुं सम्यक्ज्ञान कोइ मतमां ठेज नहि, तेथी अज्ञानज श्रेय ठे. ए प्रमाणें अज्ञानवादिनी श्रद्धा ठे. ते अज्ञानी सडसठ प्रकारना ठे. तेने जाणवानो आ उपाय ठे. जीवादि नव पदार्थ कोइ पत्र पर लखवा, अने दशमा स्थानमां उत्पत्ति लखवी, जीवादि नवे पदार्थ नीचे जुदां जुदां सत्त्वादि सात पद स्थापन करवां, ते सात पद आ ठे— १ सत्त्वं, २ असत्त्वं, ३ सदसत्त्वं, ४ अवाच्यत्वं, ५ सदवाच्यत्वं, ६ असदवाच्यत्वं, ७ सदसदवाच्यत्वं. हवे १ सत्त्वं—ते स्वरूपथी विद्यमानपणुं, २ असत्त्वं— पररूपथी अविद्यमानपणुं, ३ सदसत्त्वं— ते स्वरूपथी तथा पररूपथी विद्यमानपणुं, तेमां अगर जो के सर्व वस्तु स्वपर रूपथी निरंतर स्वभावथी सदसत्स्वभाव ठे, तो पण कोइक जगाये कदाचित् उद्भूतरूपथी विवक्षा करवामां आवे, ते हेतुथी आ त्रण विकल्प थाय ठे, तथा अवाच्यत्वं ते तेजसत्त्व, असत्त्व ज्यारे युगपत् एक शब्दथी केहेवानी इष्टा करियें, त्यारे तेनो वाचक कोइपण शब्द नथी तेथी अवाच्यत्वं, आ चारे विकल्पनुं सकलादेशा एतुं नाम कहियें, का-

रण के आ चारे सकल वस्तु विषयने ग्रहण करे ठे. ५ वली जो एक जागमां सत्, अने वीजा जागमां अवाच्य, युगपत् विवक्षा करियें तो सद वाच्यत्वं, ६ जो एक जागमां असत् अने वीजां जागमां अवाच्य, तो अ-सदवाच्यत्वं, तथा ७ जो एकजागमां सत्य, वीजा जागमां असत्य, वीजा जागमां अवाच्य युगपत् कल्पना करियें तो सदसदवाच्यत्वं आ साते विकल्पोत्थी वीजा विकल्प कोई पण नथी, जो कदी कोई करी ले तो तेनो ते सातना अंतरमांज समावेश थई जशे, परंतु सातथी अ-धिक विकल्प कदापि थशे नहि. आ साते विकल्पने नवगुणा करे त्यारे त्रेसठ थाय ठे, अने १ सत्त्वं, २ असत्त्वं, ३ सदसत्त्वं, ४ अवाच्यत्वं, आ उत्पत्तिना चार विकल्प आदिथी होय ठे ते त्रेसठमां प्रक्षेप करियें, त्यारे सदसठ मत अज्ञानवादिना थाय ठे. हवे आ साते विकल्पोना अर्थ लखियें ठियें. कोण जाणे ठे के जीव सत्य ठे, आ एक विकल्प. जीव सत् ठे एम कोईपण जाणतुं नथी, कारण के तेने ग्रहण करनारुं कोई प्रमाण नथी. कदाचित् कोई जाणी पण लहे के जीव सत् ठे तो तेथी कया पुरु-पार्थनी सिद्धि थई, कारण के ज्यारे ज्ञान थशे, त्यारे अजिनिवेश, अ जिमान, चित्तमलिनता, विवाद, ऊघडा विगेरे अनेक, लोकोना प्रसंग-मां वधी जशे, पढी ज्ञानवान् बहुज कर्म वांधी दीर्घतर संसारी थशे. आ प्रमाणे वीजा विकल्पनो पण अर्थ जाणी लेवो. इति.

हवे विनयवादिना मत कहियें ठियें. विनयथी जे प्रवर्त्ते ते वैनयि काः आ विनयवादिनां लिंग तेमज शास्त्र नथी. तेउं केवल विनयथीज मोक्ष माने ठे. विनयवादियोना वत्रीश मत ठे. ते आ प्रमाणे. १ सुर, २ राजा, ३ जाति, ४ ज्ञाति, ५ स्थविर, ६ अधम, ७ माता, ८ पिता, आ आठेनो मन, वचन, कायार्थी, तेमज देशकालपूर्वक उचित दान दश्-ने विनय करवो. आ चार साथे आठ गुणा करता वत्रीश जेद थया. इति.

ए प्रमाणे सर्वमल्ली त्रणसे त्रेसठ मत थया आ सर्व मतधारी तेमज तेनी प्ररूपणा करनारा, सर्वे कुयुरु ठे, कारण के आ सर्वे मतो मिथ्या दृष्टियोना ठे. सर्व एकांतवादि ठे, वली स्याद्वादरूप अमृतस्वादथीर-हित ठे, तेउंनां मानेलां तत्व, प्रमाणथी वाधित ठे; आ सर्वमतोनुं पू-र्वाचार्योयें अनेकयुक्तियोथी खंरुन करेल ठे. जव्यजीवोने जाणवा वास्ते,

मदिरापानिना प्रलाप जेवुं ठे. कारण के तमे प्रथम पक्षमां काल एकांत एक नित्य व्यापी मानेल ठे, तो हवे केवी रीतें ते कालनो पूर्वापर व्यवहार होय ?

पूर्वपक्षः—सहचारिना संगथी एक वस्तुनो पण पूर्वापर कल्पनामात्र व्यवहार थइ शके ठे. जेम सहचारि जरतादिना पूर्वापर व्यवहार ठे, तेवीज रीतें जरतादि सहचारियोना संगथी कालनो पण कल्पनामात्र पूर्वापर व्यपदेश थाय ठे. सहचारियोथी व्यपदेश, सर्व तार्किकोना मतमां प्रसिद्ध ठे. यथा, “ मंचाः क्रोशंतीति ” जेम मंचा गालो दीयेठे.

उत्तरपक्षः—आ पण असमंजस कथन ठे. कारण के आ कथनमां इतर-रेतर दोषनो प्रसंग आवे ठे. ते कहियें ठियें. सहचारि जरतादिनो कालना योगथी पूर्वापर व्यवहार थयो, अने कालनो पूर्वापर व्यवहार, सहचारि जरतादिना योगथी थयो; जो एक सिद्ध नहि थाय तो बीजुं पण सिद्ध नहि थाय. उक्तं च ॥ एकत्वव्यापितायां हि, पूर्वादित्वं कथं जवेत् ॥ सहचारिवशात्तच्चे, दन्योन्याश्रयतागमः ॥ १ ॥ सहचारिणां हि पूर्वत्वं, पूर्वकालसमागमात् ॥ कालस्य पूर्वादित्वं च, सहचार्यवियांगतः ॥ २ ॥ प्रागसिद्धावेकस्य, कथमन्यस्य सिद्धिरिति ॥ ते कारणथी प्रथम पक्ष श्रेय नथी.

जो बीजो पक्ष मानशो तो ते पण अयुक्त ठे. कारण के समयादि रूप परिणामी कालविषे काल एकज ठे तोपण विचित्रपणुं उपलब्ध थाय ठे. जुठं. एक कालमां मगने रांधतां कोइ रंधाय ठे, कोइ रंधाता नथी, तथा समकाल एक राजानी नोकरी करतां थकां एक नोकरने अल्प कालमांज नोकरीनुं फल मळी जाय ठे, अने बीजाने बहु काल व्यतीत थया ठतां पण तेवुं फल मळतुं नथी; तथा समकालें खेती करतां ठतां एक खेडुतने बहु धान्य उत्पन्न थाय ठे, अने बीजाने अल्प, चगडेवुं तेमज खंजित उत्पन्न थाय ठे; तथा समकालें कोडीठनी मूठी जरीने जमीन उपर नांखियें तो केटलीएक कोडीठ चती पडे ठे, अने केटलीएक उंधी पडे ठे. हवे जो कालज एकवुं कारण होय तो सर्व मग एकज कालमां रंधावा जोइयें, परंतु तेम थतुं नथी, इत्यादि, ते कारणथी निःकेवल कालज जगतनी विचित्रतानो कर्ता नथी, परंतु

कालादि सामग्रीना मलवार्थी कर्म कारण ठे, आ सिद्ध पद ठे. इति प्रथम कालवादिना मतनुं खंरुन.

बीजा ईश्वरवादी अने त्रीजा अद्वैतवादी आ मतोनुं खंरुन ईश्वरवादमां लखी आव्या ठिये, त्यांथी जाणी लेवुं.

हवे चोथो मत नियतिवादियोनो ठे तेनुं खंरुन लखियें ठियें. नियतिवादी कहे ठे के सर्व पदार्थना कर्ता नियति ठे. जे तत्वांतर थाय ते नियति केहेवाय. ते नियति पण ताडन पामती अति जीर्ण वस्त्रनी पेठे विचाररूप ताडनाने नहि सहन करी शकती सेंकडो कटकाने प्राप्त थाय ठे. ते कहियें ठियें. हे नियतवादि ! तमारुं जे नियतिनाम तत्वांतर ठे ते जावरूप ठे के अजावरूप ठे? जो कहो के जावरूप ठे तो पठी एकरूप ठे के अनेकरूप ठे? जो कहो के एकरूप ठे, तो वली नित्य ठे के अनित्य ठे? जो कहो के नित्य ठे तो पदार्थोनी उत्पत्ति आदिमां केवीरीतें हेतुरूप ठे? कारण के जे नित्य होय ठे ते कोइनुं पण कारण थइ शक्तुं नथी. कारण के जे नित्य ठे ते सर्व कालमां एकरूप होय ठे. नित्यनुं लक्षण—“अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकस्वजावतया नित्यत्वस्य व्यावर्णात्” एवुं ठे. जे क्षरे नहि, तेमज उत्पन्न पण न थाय, स्थिर एक स्वजावर्था रहे ते नित्य. हवे जो नियति ते नित्यरूपथी जो कार्य उत्पन्न करे तो तो हमेशां तेजरूपथी कार्य उत्पन्न करे, कारण के तेना स्वरूपमां कांइपण विशेष नथी एकज रूप ठे, अने हमेशां तेजरूपथी तो कार्य उत्पन्न करती नथी, कारण के कदी एक जातनुं तो कदी बीजी जातनुं कार्य उत्पन्न थतुं देखियें ठियें. वली एक बीजी पण वात ए ठे के जे बीजा, त्रीजा, आदि क्षणमां नियतिने कार्य करवानुं ठे, ते सर्व कार्य प्रथम क्षणमांज उत्पन्न करी लेवुं जोइये, कारण के ते नियतिनो जे नित्य करणस्वजाव बीजा, त्रीजा आदि क्षणमां ठे ते स्वजाव प्रथमक्षणमां पण विद्यमान ठे. जो प्रथम क्षणमां द्वितीयादि क्षणवर्ती कार्य करवानी शक्ति न होय तो द्वितीयादि क्षणमां पण कार्य न थवुं जोइये. कारण के प्रथम द्वितीयादि क्षणमां कांइ पण विशेष नथी. जो प्रथम द्वितीयादि क्षणमां नियतिना रूपमां परस्पर विशेष मानशो तो तो स्वाभाविक रीतें नियतिना रूपमां अनित्यता आवी जशे. “अताद-

वस्थमनित्यतां ब्रूम- इति वचनप्रामाण्यात् ” जे जेवुं होय ते तेवुं न रहे. ते अनित्य. ते वचन प्रमाणथी तेने अमे अनित्य कहियें ठियें.

पूर्वपक्षः—नियति नित्य, विशेष रहितज ठे, तो पण ते ते सहकारिनी अपेक्षाथी कार्य उत्पन्न करे ठे, अने जे सहकारि ठे ते प्रतिनियत देश कालवालां ठे, ते कारणथी सहकारिना योगथी कार्य अनुक्रमें थाय ठे.

उत्तरपक्षः—आ पण तमारुं केहेवुं असमीचीन ठे. कारण के सहकारि जे ठे, ते पण नियतिथीज प्राप्त थाय ठे, अने नियति जे ठे ते प्रथम क्षणमां पण तेने करनार स्वज्ञाववाली ठे, जो द्वितीयादि क्षणमां बीजा स्वज्ञाववाली नियति मानशो तो तो नित्यपणानो नाश थशे. ते कारणथी प्रथम क्षणमां सर्व सहकारियोनो संज्ञव होवथी प्रथम क्षणमांज सर्व कार्य करवानो प्रसंग थयो. वली एक बीजी वात ठे के सहकारिउना विद्यमानपणथी कार्य थयुं, अने सहकारिउना न होवापणथी कार्य न थयुं, त्यारे तो सहकारिउज अन्वयव्यतिरेक न्यायथी कारण ठे, एम कल्पना करवी जोश्यें, परंतु नियति कारण थइ नहि, कारण के नियतिमां व्यतिरेकनो असंज्ञव ठे. उक्तं च ॥ श्लोक ॥ हेतुनान्वयपूर्वेण, व्यतिरेकेण सिद्ध्यति ॥ नित्यस्याव्यतिरेकस्य, कुतोहेतुत्वसंज्ञवः ॥ १ ॥ हवे जो पूर्वोक्त दूषणोना जयथी अनित्य पक्ष मानशो तो तो ते नियतिनां दरेक क्षणे अन्य अन्य रूप थवथी नियति वदुरूप थइ गइ, अने तमे जे नियति एकरूप मानी हती ते तमारी प्रतिज्ञाने व्याघात थवानो प्रसंग आव्यो. वली जे पदार्थ क्षणक्षयी होय ठे, ते कोइतुं कार्य कारण थइ शकतुं नथी. वली एक बीजी पण वात ठे के, जो नियति एकरूप होय तो तेनाथी जे कार्य उत्पन्न थाय ते सर्व एकरूपज होवां जोश्यें. कारण के कारणनो जेद थया विना कार्यमां कदापि जेद थइ शकतो नथी. जो तेम थइ जाय तो ते कार्यजेद निहेतुकज थवानो, अने हेतुविना कोइ कार्यनो जेद नथी. जो नियति अनेकरूप मानशो तो तो ते नियतिथी अन्य अनेकरूपी विशेषण विना नियति नानारूप कदापि नहि थाय. जेम के वरसादतुं पाणी, काळी, पीळी, उखर जमीनना संबंध विना अनेकरूप थइ शकतुं नथी. यदुक्तं ॥ “ विशेषणं

विना यस्मा, न तुल्यानां विशिष्टेति वचनप्रामाण्यात् ” ते कारण्थी अवश्य ते नियतिथी अन्य नानारूप विशेषण नियतिना जेद मानवा जो-इयें. ते अनेकरूप विशेषणोनुं होवुं ते शुं ते नियतिथीज थाय ठे के कोइ वीजाथी थाय ठें ? जो कहो के नियतिथीज थाय ठे तो ते नियति स्वतः एकरूप होवाथी ते नियतिथी उत्पन्न थयेला विशेषणोनी अनेक रूपता केवी रीतें थाय ?

जो विचित्र कार्यनी अन्यथा अनुपपत्तिथी नियति पण विचित्ररूपज मानशो, तो नियतिनी विचित्रता बहु विशेषणो विना नहि थाय, ते कारण्थी ते नियति विषे विशेष्य अनेक अंगीकार करवा जोइये. हवे ते विशेषणोना जे जाव ठे ते, ते नियतिथीज थाय ठे के कोइ वीजाथी ? इत्यादि. तेज फरी आव्युं. ते कारण्थी अनवस्था दूषण लागेठे.

हवे जो एम कहो के वीजाथी थाय ठे, तो ते पक्ष पण अयुक्त ठे. कारण के नियति विना वीजा कोइने तमे हेतु मानेला नथी, तेथी आ तमारुं केहेवुं कांई कामतुं नथी. वही एम मानशो के नियति अनेक रूप ठे, तो तमारा मतना वे वेरी विकल्प अमे तमारी सन्मुख खडा करिये ठियें. जो तमारी नियति अनेकरूपठे तो मूर्त्त ठे के अमूर्त्त ठे ? जो कहो के मूर्त्त ठे तो नामांतरथी कर्मनोज अंगीकार कख्यो. कारण के कर्म पुजलरूप होवाथी मूर्त्तपण ठे अने अनेकरूप पण ठे. तो तो तमारो अने अमारो एक मत थइ गयो. कारण के अमे जेने कर्म मानियें ठियें, तेज कर्मने नामांतरथी तमे नियति मानी लीधी; परंतु वस्तु एकज ठे. जो नियतिने अमूर्त्त मानशो तो ते अमूर्त्त होवाथी सुखदुःखनो हेतु थशे नहि. जेम के आकाश अमूर्त्त ठे परंतु सुखदुःखनो हेतु नथी. पुजलज मूर्त्त होवाथी सुखदुःखनो हेतु थइ शकेठे. जो तमे एम केहेशो के आकाशपण देशजेदथी सुखदुःखनो हेतु थाय ठे. जेम के मारवाड देशमां आकाश दुःखदायक ठे, अने वीजा जलवाला देशोमां सुखदायक ठे. आ पण तमारुं केहेवुं अस्तु ठे. ते मारवाड आदि देशोमां पण आकाशमां रहेला जे पुजलो ठे ते पुजलथीज सुख दुःख थाय ठे. जेम के मरुस्थल प्रायः जलथी रहित ठे, अने रेती घणीज ठे, तेथी रस्ते चालतां पण रेतीथी घसाय ठे, जेथी परसेवो बहुज

थाय ठे. वही उनालामां सूर्यना किरणोथी रेती बहुज तपी जाय ठे खारे चालतां बहुज संताप थाय ठे, अने पाणीपण पुरं पीवाने मलतुं नथी, तेथी खोदीने काढतां अनेक प्रयत्न करवा पडे ठे. ते कारणथी ते देशोमां बहुज दुःख ठे, अने सजल देशोमां तेवां कारणो नथी तेथी तेवां दुःख पण नथी; आ हेतुथी पुज्जलज सुखदुःखना हेतु ठे, परंतु आकाश नथी.

जो नियतिने अज्ञावरूप मानशो तो तेपण तमारो पद्द अयुक्त ठे: कारण के अज्ञाव जे ठे ते तुष्टरूप ठे, शक्तिरहित ठे, अने कार्य करवासां समर्थ नथी. जुठ के कटक कुंमलादिनो जे अज्ञाव ठे ते कटक कुंमल उत्पन्न करवाने समर्थ नथी; अने तेमज देखवामां आवे ठे. जो कटक कुंमलादिनो अज्ञाव कटक कुंमलादि उत्पन्न करे तो तो जगत्मां कोइ दरिद्रि रहे नहि.

पूर्वपद्दः—घटाज्ञाव जे ठे ते मृत्पिंड ठे, ते माटीना पिंडथी घट उत्पन्न थाय ठे, तो पठी अमारा केहेवामां अयुक्तता शी ठे? माटीनो पिंड तुष्टरूप नथी, कारण के ते पोताना स्वरूपथी विद्यमान ठे, तो पठी अज्ञाव पदार्थनी उत्पत्तिमां हेतु केम न थइ शके?

उत्तरपद्दः—आ पण तमारो पद्द असमीचीन ठे, कारण के माटीना पिंडनुं जे जावस्वरूप ठे ते जाव अज्ञावने अरसपरसमां विरोध होवाथी अज्ञाव स्वरूप थइ शकतुं नथी. कारण के जो जावरूप ठे तो अज्ञाव केम थाय? अने जो अज्ञावरूप ठे तो जावरूप केम थाय? जो एम कहो के स्वस्वरूप अपेक्षाये जावरूप ठे अने परस्वरूप अपेक्षाये अज्ञाव रूप ठे ते वास्ते जाव अज्ञाव वंनेनां जुदां निमित्त होवाथी कांइपण दूषण नथी. आ केहेवाथी तो माटीनुं पिंड, जाव अज्ञावरूप अनेकांतात्मिकरूपें तमने प्राप्त थयुं, परंतु आ अनेकांतात्मिकपणुं जैनोंनाज मतमां शोजे ठे. कारण के जैनमतवालाज सर्व वस्तुने स्वपरज्ञावादि स्वरूपथी अनेकांतात्मिक माने ठे; परंतु ते तमारा सरखा एकांतग्रह्यस्त मतवालाउने शोजतुं नथी, जो एम कहो के माटीना पिंडमां जे पररूपनो अज्ञाव ठे, ते तो कल्पित ठे, अने जे जावरूप ठे ते तात्त्विक ठे, ते कारणथी अनेकांतात्मिकवाद अमारा मतमां आवतो नथी, तो तो ते माटीना पिंडथी घट केम थशे? कारण के ते मृत्पिंडमां परमार्थथी घ-

टना प्राग्जावनो अज्ञाव ठे. जो प्राग्जाव विना पण ते मृत्पिंडथी घट थइ जाय तो तो सूत्रपिंडादिथी पण घट केम न थाय ? जेवो मृत्पिंडमां घट प्राग्जावनो अज्ञाव ठे, तेवोज सूत्रपिंकादिमां पण घट प्राग्जावनो अज्ञाव ठे. तथा ते मृत्पिंडथी खरशृंग केम थइ जतां नथी ? ते कारणथी पूर्वोक्त तमारुं केहेवुं कांइ नहि एवुं ठे. तथा तमे जे कहुं हतुं के जे वस्तु जे अवसरे जेनाथी थाय ठे. तेज वस्तु काळांतरें पण तेज अवसरें तेनाथी नियतिरूपथी थती देखाय ठे. आ जे तमारुं केहेवुं ठे ते वास्तविक ठे. कारण के कारणसामग्रीना अनादि नियमोथी कार्य पण तेज अवसरें तेनाथी नियतरूपेंज थाय ठे. ज्यारे कारणशक्तिना नियमथी कार्य थइ गयुं, त्यारे प्रमाणपंथनो कुशल कोण एवो प्रेक्षावान् ठे के प्रमाणथी बाधित नियतिनो अंगीकार करे इति नियतिखंडनं ॥

हवे पांचमा स्वज्ञाववादिनुं खंडन लखियें ठियें. स्वज्ञाववादी एम कहे ठे के, आ संसारमां सर्व ज्ञाव पदार्थ स्वज्ञावथीज उत्पन्न थाय ठे. आ स्वज्ञाववादिजनो मत नियतिवादिना खंरुनथीज खंरुन थइ गयो. कारण के जे दूषणो नियतिवादिना मतमां कहेलां ठे ते सर्व दूषणो प्रायः आ मतमां पण समानज ठे. जेम के आ जे तमारो स्वज्ञाव ठे ते ज्ञावरूप ठे के अज्ञावरूप ठे ? जो कहो के ज्ञावरूप ठे तो एकरूप ठे के अनेकरूप ठे ? इत्यादि सर्व दूषण नियतिनी जेम केहेवां.

एक बीजी पण वात ठे के स्वज्ञाव आत्माना ज्ञावने कहे ठे. ते स्वज्ञाव कार्यगतहेतु ठे के कारणगत हेतु ठे ? कार्यगत तो नथी, कारण के ज्यारे कार्य थइ जशे, त्यारे कार्यगत स्वज्ञाव थशे, परंतु कार्य थयाविना कार्यगत स्वज्ञाव केम थाय अने जो कार्य थइ गयुं तो तेनो हेतु स्वज्ञाव केम थाय ? जे जेनो अलब्ध लाज संपादन करवामां समर्थ होय ते तेनो हेतु ठे, अने कार्य तो निष्पन्न थवाथी आत्मलाज प्राप्त थयो ठे; नहि तो ते स्वज्ञावनेज अज्ञावनो प्रसंग थइ जशे, त्यारे तो ते स्वज्ञाव कार्यनो हेतु केवीरीतें थशे ? जो कहो के कारणगत हेतु ठे तो ते तो अमने पण संमत ठे. ते स्वज्ञाव प्रतिकारण जिन्न ठे, तेथीज माटीथी घट थाय ठे, परंतु पट थतुं नथी, माटीना पिंरुमां पटादि थवानो स्वज्ञाव नथी. तेवीज रीतें तंतुंथी पटज थाय ठे, घटादि थता नथी,

कारण के तंतुर्लमां घट थवानो स्वज्ञाव नथी. ते कारणथी जे तमे कहुं हतुं के माटीथी घटज थाय ठे, पटादि थता नथी, ते तो सर्व कारणगत स्वज्ञाव मानवार्थी सिद्ध थयेलानेज सिद्ध कखुं ठे. आ पद्द थमारा मतने बाधक नथी. वली तमे जे कहुं हतुं के मगमां रंधावानो स्वज्ञाव ठे, कांगडु (कोरडू) मां नथी, इत्यादि. तेपण कारणगत स्वज्ञाव अंगीकार करतांज सर्व समीचीन थइ जायठे, जेम के एक कांगडु मग ठे ते स्वकारणवशथी तेवा रूपवालो थयेल ठे; हांडी, इंधन, कालादि सामग्रीनो संयोग ठे तो पण रंधातो नथी, अने स्वज्ञाव जे ठे ते कारणथी अज्ञेद ठे तेथी सर्व वस्तु सकारणज ठे. आ पद्द सिद्ध ठे. इति क्रियावादिना मतनुं खंन.

हवे अक्रियावादिर्लना मतमां जे यदृष्टावादिते तेर्लनुं. एवुं केहेवुं ठे के वस्तुर्लना नियमपूर्वक कार्य कारणज्ञाव नथी इत्यादि ते तेमनुं केहेवुं कार्यकारणना विवेचनवाली बुद्धिना रहितपणाने सूचवे ठे. कारण के कार्यकारणने प्रतिनियतपणानो संज्ञव ठे. ते कहियेंठियें. शालुक (देडका) थी शालुक उत्पन्न थायठे ते निरंतर शालुकथीज थायठे, परंतु गोवर (ठाण) थी थता नथी, अने गोवरथी जे शालुक उत्पन्न थायठे, ते निरंतर गोवरथीज उत्पन्न थायठे, परंतु शालुकथी थता नथी. वली आ वने जातनां देडकांठ शक्तिवर्णादि विचित्र,ताथी तेमजपरस्पर जात्यंतर होवार्थी एकरूप पण नथी. वली अग्निथी जे अग्नि उत्पन्न थायठे तेपण निरंतर अग्निथीज उत्पन्न थायठे, परंतु अरणीना काष्ठथी उत्पन्न थतो नथी, अने अरणीना काष्ठथी जे अग्नि उत्पन्न थायठे ते निरंतर अरणीना काष्ठथीज उत्पन्न थायठे परंतु अग्निथी उत्पन्न थतो नथी. वली वीजथी केलों उत्पन्न थवां इत्यादि अनेक वावतोमां परस्पर जिन्नता होवार्थी तेनो खुलासो पण तेजठे. वली एक हकीकत एवी ठे के जे केलों कंदथी उत्पन्न थायठे तेपण परमार्थथी तो वीजथीज थायठे, एटले परंपराए तो वीजज कारण ठे. तेवीज रीतें बड आदिनी शाखापण एकदेशथी उत्पन्न थती ठतां परमार्थथी तो वीजथीज उत्पन्न थायठे. विशेष हकीक एवी ठे के शाखाथी जे शाखा उत्पन्न थाय ठे ते उत्पन्न थनारी शाखानी हेतु शाखा ठे एम लोक व्यहार चालतो नथी, कारण के बडनुं वीजज सर्व शाखा, प्रशाखा

समुदायरूप बढनुं कारण ठे एम जगत्मां प्रसिद्ध ठे; तेवीज रीतें शाखाणा एक जागथी उत्पन्न थयेल बढ, परमार्थथी मूल, ते बढशाखारूपज ठे, तेथी ते मूलपण वीजथीज उत्पन्न थयेल मानबुं जोश्ये ते कारणथी कोश्यण स्थलें कार्यकारणभाव व्यञ्जिचारी नथी. इति यद्वत्वावादिमतखंडन.

हचे अज्ञानवादिना मतनुं खंडन लखिये ठियें. अज्ञानवादी कहेठे के ज्ञान श्रेय नथी, कारण के ज्यारे ज्ञान थायठे, त्यारे परस्पर विवादाना योगथी चित्तमां क्लेश थवाना कारणथी दीर्घतर संसारनी वृद्धि थाय ठे. इत्यादि. अज्ञानवादिजनुं आ कथन मूर्खतासूचक ठे. जुळ के वीजी वात तो दूर रही परंतु प्रथम अमे आपने वे सवाल पुठिये ठियें, मुख्य ए ठे के ज्ञाननो तमे जे निषेध करोठो ते शुं ज्ञानथी करोठो के अज्ञानथी करोठो? जो कहो के ज्ञानथी करियें ठियें, तोपठी केम कही शको के अज्ञान श्रेयठे? आ कथनथी तो ज्ञानज श्रेय थयुं ज्ञानविना अज्ञानने स्थापन करवाने कोइ समर्थ नथी. जो पूर्वोक्त कथन स्वीकारशो तो तमारी प्रतिज्ञाने व्याघातनो प्रसंग आवशो. जो केहेशो के अज्ञानथी निषेध करिये ठियें तो तेपण अयुक्त ठे, कारण के अज्ञानमां ज्ञानने निषेध करवानुं सामर्थ्य नथी. कारण के अज्ञानमां कोइनेपण सिद्ध करवानी के बाध करवानी शक्ति नथी; ज्यारे अज्ञानमां ज्ञानने निषेध करवानुं सामर्थ्य नथी त्यारे ज्ञानज श्रेयठे एम सिद्ध थयुं, बली तमे कबुं ठे के ज्यारे ज्ञान थायठे त्यारे परस्पर विवादाना योगथी चित्त, क्लेशादि जावने प्राप्त करेठे, तेपण आपनुं विना विचारनुं कथन ठे. अमे परमार्थथी ज्ञानी तेनेज कहियें ठियें के जेनो आत्मा विवेकथी पवित्र होय; अने जे ज्ञाननो गर्व न करे, तेमज अल्पज्ञानी थइ कंठ लगी मदिरापान करनारनी जेम उन्मत्त वचनो बोखे अने सर्व जगत्ने तृण सदृश माने, ते परमार्थथी अज्ञानीज ठे, कारण के तेने ज्ञाननुं फल प्राप्त थयुं नथी. ज्ञाननुं फल तो रागद्वेषादि दूषणोनो त्यागजावठे. ज्यारे तेम थयुं नहि त्यारे परमार्थथी तेनामां ज्ञानज नथी, उक्तं च ॥ तज्ज्ञानमेव न जवति, यस्मिन्नुदिते विजाति रागगणः ॥ तमसेः कुतोस्ति शक्ति, दिनकरकिरणप्रतः स्यात्तुम् ॥२॥ एवा ज्ञानी विवेकथी पवित्र आत्मावावाला परजीवोने हित करवामां एकांत रसिया होय. एवा ज्ञानी कदापि विवाद करशे, तो पण प-

रजीवोना उपकार वास्तेज विवाद करशे; अने राजा आदि निपुण बुद्धि-वाला परीक्षकोनी परिषद् (सजा) मांज करशे, अन्यथा करशे नहि. तीर्थंकर गणधरादियें एवी रीतें वाद करवाने फरमान करेल ठे. ज्यारे ते आज्ञा मुजव वाद थशे त्यारे चित्तनी मखिनता, के कर्मनो बंध, के तेथी थती दीर्घतर संसारनी वृद्धि केवी रीतें थशे? ज्ञानवान् नो जे वाद ते ते केवल वादि नरपति आदि परीक्षकोना अज्ञानने दूर करवा वास्तेठे सम्यक्ज्ञान प्रगट थवाथी अत्यंत उपकार थायठे. ते कारणथी ज्ञानज श्रेय ठे.

वली अज्ञानवादी कहे ठे के तीव्र अध्यवसायथी जे कर्म उत्पन्न थाय ठे, तेनाथी दारुणविपाक फल थाय ठे, ते तो अमे मानियें. ठियें, परंतु अशुभ अध्यवसायनो हेतु ज्ञान नथी. अने अज्ञान तो अशुभ अध्यवसायनो हेतु देखवामां आवे ठे. फक्त एटली वात ठे के ज्ञान विद्यमान ठतां कदाचित् कर्मदोषथी अकार्यमां प्रवृत्ति पण थाय तो पण ज्ञानना वलथी क्षणे क्षणे संवेग जावनाथी तीव्र अशुद्ध परिणाम थता नथी, ते तो अनुजवाय ठे.

जेम कोइ पुरुष राजाआदिना दुष्ट फरमानथी विषमिश्रित अन्न, जाणतां ठतां पण मनमां जयजीत थइ जमशे, तेवीजरीतें सम्यक्ज्ञानी पण कथंचित् कर्मदोषथी अकार्यपण आचरशे, तो पण संसारनां दुःखोथी तेनुं मन जयजीत थशे, परंतु निःशंक थशे नहि अने संसारथी जयजीत थवुं तेनुंज नाम संवेग ठे. तेथी संवेगवान् तीव्र अशुभ अध्यवसायवाला थता नथी वली तमे जे कछुं हतुं के अज्ञानज सत्पुपोने मोक्ष प्राप्त करवा वास्ते श्रेय ठे, परंतु ज्ञान श्रेय नथी, ते कथनपण मूढतासूचक ठे. जेनुं नामज अज्ञान ठे ते श्रेय केवीरीतें करी शके ठे? वली तमे कछुं हतुं के अमे ज्ञानने मानी पण लहियें, जो ज्ञाननो निश्चय करवामां कोइ समर्थ होय तो; आ पण मूर्खवचन ठे. अगर जो के सर्वमतवाला परस्पर जिन्नज ज्ञान अंगीकार करे ठे, तो पण जेनुं वचन दृष्टेष्टवाधित नथी, तेमज पूर्वापर व्याहृत नथी, तेज सम्यक् रूप जाणवुं. तेनुं वचन तो जगवाननुंज कहेलुं होइ शकेठे. तेज प्रमाण ठे. वीजातुं नहि. वली कछुं हतुं के वौरूपण पोताना वुरू जगवानने सर्वज्ञ

माने ठे, इत्यादि. तेपण असत् ठे, कारण के दृष्टेष्टी तेउनां वचन वा-
धित ठे. तेनुं स्वरूप आगल लखवामां आवशे.

वली तमे कछुं हतुं के वर्धमानस्वामी जले सर्वज्ञ होय, परंतु ते व-
र्धमान स्वामिनां कथन करेलां आज आचारांग आदि शास्त्र ठे. तेनी केम
प्रतीति थाय ? आ तमारी शंकानो पण खुलासो थइ गयो, कारण के
बीजा कोइतुं एवुं दृष्टेष्टवाधारहित वचन नथी.

वली तमे कछुं हतुं के, आचारांग आदि शास्त्र जे ठे ते वर्धमान स्वा-
मि सर्वज्ञानां कथन करेलां ठे तोपण वर्धमान स्वामिना उपदेशनो आज
अर्थ ठे, अन्य नथी, इत्यादि. तेपण अयुक्त ठे. कारण के जगवान, वी-
तराग ठे, अने जे वीतराग होय ठे ते कोइने कपट उपदेश दइ जूलावो
खवरावता नथी; कारण के विप्रतारणहेतु जे रागादि दोषनो समूह, ते
जगवानमां नथी. वली सर्वज्ञ जे होय ठे ते जाणेठे के आ शिष्य विप-
रीत समज्यो ठे अने आ सम्यक् समज्यो ठे. तेथी जे विपरीत समज्यो
होय तेने मना करे. अने जगवानें गौतमादिने मना करी नथी तेथी सिद्ध
थाय ठे के गौतमादि जे जाणेल ठे ते सम्यक् जाणेलुं ठे. वली जे कछुं
हतुं के गौतमादि ठद्गस्थ ठे इत्यादि. तेपण असार ठे, कारण के ठद्ग-
स्थपण उक्त रीतिथी जगवानना उपदेशथीज यथार्थ वक्ता निश्चयें थइ
शके ठे. तेमज विचित्र अर्थोंवाला शब्द पण जगवानेंज कहेल ठे. ते
शब्द जेवुं जेवुं प्रकरण होय तेवा तेवा अर्थना प्रतिपादक थइ शके ठे.
ते कारणथी कांइपण तेमां दूषण नथी. कारण के ते ते प्रकरणने अनुसारें
तेवो तेवो अर्थ निश्चयपूर्वक थइ शके ठे, अने गौतमादि जे जे स्थलें
जे जे शब्दनो जेवो जेवो अर्थ करेल ठे, ते जगवानें निषेध करेल नथी,
ते उपरथी जणाय ठे के गौतमादि जे यथार्थ जाणेलुं ठे; अने शब्दोना
अर्थपण यथार्थज करेला ठे. अने जे कांइ गौतमादियें कहेलुं ठे तेना
अर्थनो पण आचार्योंनी अविच्छिन्न परंपराथी आज पर्यंत तेवोज बोध
थाय ठे. एम तो नज केहेवुं के आचार्योंनी परंपरा अमने प्रमाण नथी ?
कारण के अविपरीत याने सम्यक् अर्थ कथन करनारी आचार्योंनी परं-
पराने जूठी ठराववाने कोइ पण समर्थ नथी.

वही एक एवो सवाल ठे के तमारो जे मत ठे ते आगममूल ठे के अनागममूल ठे ? जो कहो के आगममूल ठे तो तो आचार्योंनी परंपरा केवी रीतें अप्रामाणिक थइ शके ठे ? आचार्योंनी परंपरा विना आगमनो अर्थज केवी रीतें जाणी शकाय ? जो कहो के अनागममूल ठे, तो तो उन्मत्तना विचित्र वचननी पेठे प्रामाणिक थशे नहि.

पूर्वपक्षः— अगर जो अमारो मत अनागममूल ठे तोपण युक्तिसंयुक्त ठे तैथी अमे मानियें ठियें.

उत्तरपक्षः— अहो “दुरंतः स्वदर्शनानुरागः ” केवो पोताना मतउपर तीव्रराग ठे. कारण के आ पूर्वापरविरुद्ध जापण तो अज्ञानमतनुं भ्रूषण हशे ?

पूर्वपक्षः— केवीरीतें अमारुं बोलवुं पूर्वापरविरुद्ध ठे.

उत्तरपक्षः— युक्तियो जे होय ठे ते ज्ञानमूलज होय ठे, अने तमे तो अज्ञाननेज श्रेय मानो ठो, तो पठी तमारा मतमां युक्तियो सत्य केवी रीतें होवानो संभव ठे ? तैथी तमे पूर्वापरविरुद्ध अर्थना जापकठो, ते कारणथी तमारो मत कांइ पण कामनो नथी. इति अज्ञानवादिमतखंडन.

हवे विनयवादिना मतनुं खंडन लखियेंठियें. जे विनयथीज मुक्ति माने ठे तेपण मोहथी एकांतवादीज ठे. जे मुक्तिमार्गमां प्रवर्त्तनारा ठे ते उंनो जे विनय करवो, तेज विनय मुक्तिनुं अंग ठे.

अने “सम्पद्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गइति वचनात्” मुक्तिमार्ग तो सम्यग् दर्शन, ज्ञान, अने चारित्ररूप ठे, एम तत्वार्थ सूत्रनुं प्रमाण ठे. तेकारणथी ज्ञान आदिनो तथा ज्ञान आदिना आधारभूत बहुश्रुत आदि जे पुरुष ठे, तेउंनो विनय, बहुमान, तथा ज्ञान आदिनी वृद्धि करवी ते परंपराए मुक्तिनुं अंग थइ शके ठे. परंतु सुर, नृपति आदिनो विनय तो संसारनो हेतु ठे. कारण के जे जेनो विनय करे ठे, ते तेना गुणोनुं बहुमान करेठे. अने सुर, नृपति प्रमुखमां विषयजोग प्रधान गुण ठे. ज्यारे तेउंनो विनय कयों त्यारे तो विनय करनारें जोगोने बहुमान आप्युं, अने ज्यारे जोगोने बहुमान आप्युं त्यारे दीर्घ संसार मार्गनी प्रवृत्ति करी ते कारणथी एकांत विनयथी जे मुक्ति मानेठे तेपण अस्तत् वादीठे. कारण के ज्ञान आदिथी रहित साक्षात् मुक्तिनुं अंग नथी. ज्ञान, दर्शन, चारित्रथी रहित पुरुष, केवल पादपतन आदि विनयथी मुक्ति

प्राप्त करी शकतो नथी, परंतु ज्ञानआदिसहित होय तोज प्राप्त करी शके-
ठे. तेथी ज्ञान आदिज साक्षात् मुक्तिनां अंग थयां, विनय नहि.

पूर्वपक्षः— अमे केम जणियें के ज्ञान आदिज मुक्तिनां अंग ठे ?

उत्तरपक्षः— आ संसारमां मिथ्यात्व, अज्ञान, अने अविरति, आ
त्रणथी आत्माने कर्मवर्गणानो संबंध थाय ठे. अने कर्मनो जे ह्य थ-
वो तेज मुक्ति ठे. “मुक्तिः कर्मह्यादिति वचनप्रामाण्यात्” अने कर्मनो
ह्य तो त्यारे थशे के ज्यारे कर्मबंधनां कारणोनो उठेद थशे, अने क-
र्मनां कारण तो मिथ्यात्व आदि उपर वतावेलां त्रण ठे. तेथी मिथ्या-
त्वना प्रतिपक्षि सम्यक्दर्शन, अज्ञानना प्रतिपक्षि सम्यक्ज्ञान, अने
अविरतिना प्रतिपक्षी सम्यक् चारित्र, जे ठे, तेउनी सेवा करतां थकां
ज्यारे ते त्रणे प्रकर्ष जावने प्राप्त थशे, त्यारेज कर्मनां कारणो सर्वथा
दूर थशे, अने ज्यारे कारणो दूर थशे, त्यारे निर्मूल कर्मोठेद थवाथी मु-
क्ति थशे. ते कारणथी ज्ञान आदिज मुक्तिनां अंग ठे, परंतु विनय मा-
त्र नथी. अने ज्ञान आदिनो विनय, ते परंपराथी मुक्तिनुं अंग ठे, परंतु
सक्षात् मुक्तिना हेतु तो ज्ञान आदिज ठे. अने जैनशास्त्रमां कश्क स्य-
लें “सर्वकल्याणजाजनं विनयः” एम जे लखेलुं ठे ते ज्ञान आदिनी प्र-
वृत्ति निमित्तें ठे. अने जो विनयवादीपण ए प्रमाणे माने तो विनयवा-
दीपण अमारा मतमांज प्रवर्त्ते ठे. अने विवादनो अजाव थाय ठे. इति
विनयवादिमतखंरुन. आसमुच्चय (३६३) मतनुं किंचित्मात्रस्वरूपलखेल ठे.

ह्वे जव्यजीवोने शीघ्रवोध थवावास्ते पइदर्शनोनुं कांश्क स्वरूप ल-
खियें ठियें. तेमां प्रथम बौद्धदर्शननुं स्वरूप कहियें ठियें. बौद्धमतमां
गुरुनुं लिंग आ प्रमाणे ठे. १ मस्तकमुंडित २ चर्मआसन ३ कमंरुनु ४
धातुरक्त वस्त्र, आ तेउनो वेप ठे. अने शौचक्रिया अतिशय ठे. कोमल
शय्यापर सुबुं, सवारमां उठी पेय पीबुं, मध्याह्नकालें जात खावो, दिव-
सना बीजा जागमां पाणी पीबुं, डाह, खांड, साकर, खावी अर्धरा-
त्रिमां मरण थाय तो मोक्ष; आ बौद्धोनुं वर्त्तन ठे. तथा मनगमतां जो-
जन करवां, मनगमती शय्यापर सुबुं, आसनपर वेसबुं, स्थानमां रेहेबुं,
एवी सुंदर सामग्रीथी मुनि सुंदर ध्यान करी शकेठे, तथा जिज्ञापात्र-
मां जे कांइ पडे ते सर्व शुद्ध एम मानी मांसपण खाइ जाय ठे, अने व्र-

ह्यचर्यादि पोतानी क्रियामां बहुज दृढ होय ठे. आ तेउनो आचार ठे. १ धर्म, २ बुरु, ३ संघ, आ त्रणने रत्तत्रय कहेठे, अने शासनना विघने नाशकरनारी तारा देवी ठे एमं माने ठे. तेमज विपश्यादि सात बौरु अवतार, जेउनी मूर्तिउना कंठमां त्रण त्रण रेखानां चिह्न होय ठे, तेउने जगवान् माने ठे, सर्वज्ञ माने ठे.

वली बुरु जगवानने जे जे नामथी वर्णन करे ठे ते लखियें ठियें, १ बुरु, २ सुगत, ३ धर्मधातु, ४ त्रिकालवित् ५ जिन, ६ बोधिसत्त्व, ७ महाबोधी, ८ आर्य, ९ शास्ता, १० तथागत, ११ पंचज्ञान, १२ परुजिज्ञ, १३ दशार्ह, १४ दशभूमिग, १५ चतुर्विंशज्जातकज्ञ, १६ दशपारमिताधर, १७ छादशाक, १८ दशवल, १९ त्रिकाय, २० श्रीघन, २१ अछय २२ समंतजड, २३ संगुप्त, २४ दयाकूर्च, २५ विनायक, २६ मारजित्, २७ लोकजित्, २८ मुखजित्, २९ धर्मराज, ३० विज्ञानमात्रक, ३१ महामैत्र, ३२ मुनीन्द्र. आ वत्रीश नाम. बुरु जगवाननां कहेठे. वली सात बुरुपण माने ठे. १ विपशी, २ शिखी, ३ विश्वभू ४ ऋकुष्ठंद, ५ कांचन, ६ काश्यप, ७ शाक्यसिंह. ठेला शाक्यसिंह बुरुनां नाम. १ शाकसिंह, २ अर्कवांधव, ३ राहुलसू ४ सर्वार्थसिद्ध, ५ गौतम, ६ मायासुत, ७ शुद्धोदन सुत, ८ देवदत्ताप्रज. तथा १ जिह्नु, २ सौगत, ३ शाक्य, ४ शौद्धोदनी, ५ सुगत, ६ तथागत, आ शून्यवादि बौरुनां नाम ठे. तथा १ शौद्धोदनी, २ धर्मोत्तर, ३ अर्षट, ४ धर्मकीर्ति, ५ प्रज्ञाकर, ६ दिग्नाग, ७ रामट. इत्यादि तेमना ग्रंथ करनारा गुरु ठे. तथा १ तर्कज्ञापा, २ न्यायविंडु, ३ हेतुविंडु, ४ अर्षट, ५ तर्ककर्मलशेत, ६ न्यायप्रवेश, ७ ज्ञानपारं. इत्यादि तेउनां तर्कशास्त्रोनां नाम ठे. तथा बौरुनी चार शाखा ठे: १ वैज्ञापिक, २ सौत्रांतिक ३ योगाचार, ४ माध्यमिक.

हवे बौरुमतनुं स्वरूप लखियें ठियें. बौरु चार वस्तु माने ठे. १ दुःख, २ समुदाय, ३ मार्ग, ४ निरोध. तेमां जे दुःख ठे ते पांच स्कंध रूप ठे. तेनां नाम १ ज्ञान स्कंध, २ वेदना स्कंध, ३ संज्ञा स्कंध, ४ संस्कार स्कंध, ५ रूप स्कंध. आ पांच विना आत्मा आदि बीजो कोइपण पदार्थ नथी. आ पांच स्कंधनो अर्थ, १ रूपविज्ञानं, रसविज्ञानं, इत्यादि निर्विकल्प जे विज्ञान ठे, ते ज्ञान स्कंध. २ सुखादुःखा, अदुःखसुखा,

आ वेदना स्कंध ठे, आ वेदना पूर्वकृत कर्मथी थायठे. ३ सविकल्पक ज्ञान ते संज्ञास्कंध. ४ पुण्य, अपुण्यादि धर्म समुदाय ते संस्कार स्कंध, आ संस्कारना प्रबोधथी पूर्व अनुभवनुं स्मरणादि थाय ठे. ५ पृथ्वी, धातु आदि, तेमज रूपादि, आ रूपस्कंध ठे. आ पांचेथी न्यारो आत्मादि कोई पदार्थ नथी. आ पांचे स्कंध, सर्व एक क्षणमात्र रहे ठे, नित्य नथी, तेम विशेष बखत पण रेहेनारां नथी. आ दुःख तत्वना पांच जेद कख्या.

हवे दुःख तत्वनां कारणभूत समुदाय तत्वनुं स्वरूप लखियें ठियें. आ जगत्मां रागद्वेषनो जे समूह उत्पन्न थाय ठे, ते रागद्वेषनो समूह केवो ठे ? “आत्मा आत्मीयज्ञावाख्यः ” आ हुं, तुं आ मारुं ठे, एवो जे संबंध, तथा आ परठे, आ परनी वस्तु ठे, एवो जे संबंध तेज ठे नाम जेनुं, तेनाथी जे राग द्वेषादि उत्पन्न थाय ठे, तेनुं नाम समुदाय तत्व ठे. आ दुःख अने समुदाय वेज संसारनी प्रवृत्तिना हेतु ठे.

आ वंनेना विपक्षीभूत १ मार्ग, २ निरोध, तत्व ठे; तेनुं स्वरूप लखियें ठियें. “ परमनिःकृष्टं कालं क्षणं ” क्षणमां जे थाय ते क्षणिक ठे. सर्व पदार्थ क्षण मात्र रही नाश पामे ठे. आत्मा के कोई सर्वकाल स्थायीनथी. पूर्व क्षणनो नाश थवाथी तेना सरखो उत्तरक्षण उत्पन्न थायठे. पूर्व ज्ञानमां उत्पन्न थयेली वासना. ते उत्तर ज्ञानमां शक्ति ठे. अने क्षणोनी परंपरापूर्वक जे मानसी प्रतीति थाय तेनुं नाम मार्ग ठे. ते निरोधनुं कारण जाणवुं. हवे निरोध तत्वनुं स्वरूप लखियें ठियें. निरोध एटले मोक्ष. चित्तनी जे निःक्लेश अवस्था तेनुं नाम निरोध ठे. नामांतरथी मोक्ष केहेवाय ठे. आ दुःखादि चारेने आर्यसत्व कहे ठे. अने आ जे चारे तत्व अनंतर कहेल ठे ते सौत्रांतिक बौद्धमतनी अपेक्षार्थी ठे.

हवे जो जेदरहित समुच्चय बौद्धमतनी विवक्षा करियें तो बौद्धमतमां वार पदार्थ ठे. तेमां १ श्रोत्र, २ चक्षु, ३ घ्राण, ४ रसन, ५ स्पर्शन, आ पांच इंद्रिय, अने पांच इंद्रियना पांच विषय, तथा १ चित्त, २ शब्दायतन. धर्म जे सुख दुःखादि तेनुं जे आयतन (घर). ते शुं ठे. आ सर्व वारतत्वनुं नाम आयतन कहे ठे. अने आ वारे आयतन क्षणिक ठे. पूर्वोक्त प्रकारें चार आयतन सौत्रांतिक मतनां, अने सामान्य प्रकारें वार आयतन बौद्धमतनां कख्यां. बौद्धमतमां प्रमाण वे ठे. एक प्र-

त्यक्त, वीजुं अनुमान. आ वे प्रमाणज माने ठे. इतिसंक्षेपमात्रं वीजुदर्शनं.

ह्वे नैयायिकदर्शन लखियें ठियें. नैयायिकमतनुं वीजुं नाम गौतम मत पण ठे. आ नैयायिकोना गुरु १ दंड राखे ठे, २ मोटी कोपीन पेहे-रेठे, ३ कांवढी उढेठे, ४ जटा राखेठे, ५ शरीरें जस्म लगावेठे, ६ नी-रस आहार करेठे, ७ खनापर तुंवी राखेठे, ८ प्रायः वनमां रहेठे, ९ आ-तिथ्य कर्ममां तत्पर होय ठे, १० कंदं मूल, फल खाय ठे, ११ केटलाएक स्त्री राखेठे, अने केटलाएक स्त्री राखता नथी, १२ जे स्त्री राखता नथी ते उत्तम गणायठे, १३ पंचाग्नि तापेठे, १४ जटामां प्राणलिंग धरे ठे, १५ उत्तर संयम अवस्था ज्यारे प्राप्त थाय ठे त्यारे नग्न थई परित्रमण करेठे, १६ सवारमां दांत, हाथ, पग विगेरे धोई शिवनुं ध्यान करेठे, १७ जस्म त्रण त्रण ब्रह्म अंगने स्पर्श करे ठे, १८ जकजन तेउने वंदना करे, ते " ॐ न-मः शिवाय कहेठे, १९ गुरुचारिने शिवाय नमः एम कहे ठे, तेउनुं एम पण केहेवुं ठे के जे पुरुष शैवी दीक्षा वार वर्ष सुधी पाती पठी ते गोडी दीये, अने दास दासी थई जाय तो पण निर्वाण पद प्राप्त करेठे. तेउना देव शंकर ठे, ते शंकर सर्व सृष्टिना संहारकर्ता ठे.

शंकरना अठार अवतार माने ठे, तेनां नाम लखिये ठियें १ नकुलीश, २ कौशिक, ३ गार्ग्य, ४ मैत्र, ५ कौरुप, ६ ईशान, ७ अपरगार्ग्य, ८ कपिलांक, ९ मनुष्यक, १० अपरकुशिक, ११ अत्रि, १२ पिंगलाक्ष, १३ पुष्पक, १४ बृहदाचार्य, १५ अगस्ति, १६ संतान, १७ राशिकर, १८ विद्यागुरु. आ अठार तेना तीर्थेशठे. तेनी बहुज सेवा करेठे, तेनो पूजन, प्रणिधानविधि तेना शास्त्रथी जाणी लेवो.

अहपाद मुनि अर्थात् गौतममुनि तेमना गुरुठे. तेना मतमां जरट पूजनीय ठे, ते कहेठे के, देवतानी सन्मुखरही नमस्कार न करवो. नैया-यिक मतमां जेवुं लिंग, वेष देवादि स्वरूपठे, तेवुंज वैशेषिक मतमां पण ठे कारणके नैयायिक, वैशेषिक मतनां प्रमाण तथा तत्वोमां थोडोज जेद ठे. तेवास्ते आ वंने मत सरखांजठे. आ वंने तपस्वी केहेवाय ठे. अने तेना शैवादि चार जेद ठे. १ शैव, २ पाशुपत, ३ महाव्रतधर ४ कालमुख. तेना अवांतर जेद जरट, जकलैंगिक, तापसादि ठे, जरटादिउने ज्ञात ग्रहणमां ब्राह्मणादि वर्णोना नियम नथी, परंतु जेनी शिवविषे चुककि

होय, ते व्रती जरटादि थायठे, परंतु नैयायिक सदा शिवज्ञक्त होवाची तेउनुं नाम शैव केहेवायठे, अने वैशेषिको पाशुपत केहेवाय ठे.

आ नैयायिकोना मतमां १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, ४ शब्द, आ चार प्रमाण ठे अने तेउं १ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ संशय, ४ प्रयोजन, ५ दृष्टांत, ६ सिद्धांत, ७ अवयव, ८ तर्क, ९ निर्णय, १० वाद, ११ जल्प, १२ वितंका, १३ हेत्वाज्ञास, १४ ठल, १५ जाति, १६ निग्रहस्यान. आ सोल पदार्थ मानेठे. तेनो विस्तार अतिशय होवाची अहिंचां करेल नथी. आत्यंतिक दुःखोनो जे वियोग तेने मोक्ष कहेठे. तेना अक्षपाद मुनिकृत न्यायसूत्र, २ वात्स्यायनमुनिकृत ज्ञाप्य, ३ उद्योतकर मुनिकृत न्याय-वार्तिक, ४ वाचस्पतिकृत तात्पर्यटीका, ५ उदयनकृत तात्पर्यपरिशुद्धि ६ श्रीकंगजयतिलकोपाध्यायकृत न्यायालंकारवृत्ति, ७ चासर्वज्ञप्रणी-त न्यायसार, तेनापर अढार टीका ठे, तेमां न्यायचूपाण नामनी टीका प्रसिद्ध ठे ८ जयंतरचित न्यायकलिका, ९ न्यायकुसुमांजलि. आ नैयायिक-ना तर्कग्रंथठे. इति नैयायिकमतसंक्षेपवर्णन.

हवे वैशेषिकमत पण अत्र लखियें ठियें. वैशेषिक मत नैयायिक तुल्य ठे, परंतु विशेष एटलो ठे के आ मतवाला वे प्रमाण माने ठे. १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान. अने तत्व ठ माने ठे. १ ड्रव्य, २ गुण, ३ कर्म, ४ सा-मान्य, ५ विशेष, ६ समवाय. आ ठ जावरूप मानेठे. तेउनुं विस्तारथी स्वरूप जाणवुं होय तो वैशेषिक मतना ग्रंथो तथा तपगढाचार्य श्रीगुण रत्नसूरिविरचित, पद्दर्शनसमुच्चय ग्रंथनी टीका जोवी. वैशेषिक म-तना तर्कग्रंथ. १ श्रीधर आचार्यकृत कंदली ६००० श्लोक. २ वैशेषिक सूत्र ३००० श्लोक, ३ प्रशस्तकरज्ञाप्य ९०० श्लोक, ४ व्योमशिवाचा-र्यकृत व्योममती टीका ९००० श्लोक, ५ उदयनकृत किरणावली ६००० श्लोक, ६ श्रीवत्स आचार्यकृत लीलावती टीका ५००० श्लोक ७ आत्रेय तंत्र, हाल विच्छेद गयेलठे. वैशेषिक मतवाला कहेठे के शिवजीए उलू-कनुं रूप धरीने कणाद मुनिपासे वैशेषिकमत प्रकाश कखो. तेथी तेनुं वीजुं नाम औलुक्च पण ठे. इति वैशेषिकमतवर्णन.

हवे सांख्य मत लखियें ठियें. सांख्य मतना साधुउनुं स्वरूप जाणवा माटे प्रथम तो तेमनां लिंगादि लखियें ठियें. तेउं त्रिदंती पण होय ठे,

कोपीन पेहेरे ठे, धातुरक्त वस्त्र राखे ठे, कोई शिरपर शिखा राखे ठे, कोई जटा राखे ठे, कोई मस्तक पर कौरमुंकरावे ठे, मृगचर्मनुं आसन राखे ठे, ब्राह्मणना घरनुं अन्न खाय ठे, कोई पांचज ग्रास खाय ठे, वार अक्षरनो जाप करे ठे, तेउना जक्त ज्यारे गुरुने वंदना करेठे त्यारे “ उँ नमो नारायणाय ” एम कहे ठे, त्यारे गुरु तेउने “ नमो नारायणाय ” एम कहे ठे, अने महाजारतमां जेतुं नाम “ वीटा ” लखेठे, काष्ठनी मुखवस्त्रिका मुखना निःश्वासना निरोध वास्ते राखे ठे, जेथी मुखश्वास-थी जीवहिंसा न थाय. ॥ श्लोक ॥ ते प्राणादनुयातेन, श्वासेनैकेन जंतवः ॥ हन्यंते शतशो ब्रह्म, ब्रह्ममात्राक्षरवादिनः ॥१॥ सांख्य गुरु जल-ना जीवोनी दया वास्ते पाणी गलवा सारु पोतानी पासे गलणुं राखेठे, अने पोताना जक्तोने पाणी गलवा सारु त्रीश आंगल लावुं अने वीश आंगल पोहोळुं अने जासुं एवुं गलणुं राखवानो उपदेश करेठे. वली जे जीव पाणी गलवा पठी निकले ते तेज पाणीमां पाठा प्रक्षेप करे ठे, कारण के मीठापाणीना पूरा खारा पाणीमां मरी जाय ठे, अने खारा पाणीना पूरा मीठा पाणीमां मरी जाय ठे. तेथी जुदां जुदां पाणी एक-ठां करता नथी. पाणीना सूक्ष्म एक विंडुमां जेटला जीव ठे ते जीवोनी काया जो त्रमर समान वनाववामां आवे तो ते जीवो त्रण लोकमां स-माय नहि. आ तेउनो पाणी गलवानो विचार ठे.

सांख्य वे प्रकारना ठे, एक प्राचीन, वीजा नवीन. नवीननुं वीजुं नाम पातंजलपण ठे. प्राचीन सांख्य ईश्वरने मानता नथी. नवीन सांख्य ईश्वरने माने ठे. जे निरीश्वर ठे ते नारायणने पर माने ठे, अने तेना जे आचार्य ठे ते विष्णु प्रतिष्ठाकारक चैतन्यप्रमुख शब्दोथी केहेवाय ठे. सांख्य मतनुं स्वरूप वतावनारा आचार्यनां नाम. कपिल, आसुरि, पंचशिख, जागव, उलूक, ईश्वर, कृष्ण. तेउं शास्त्रकर्त्ता ठे. सांख्यमत वा-ला कापिलपण केहेवाय ठे. तथा कपिलनुं परमर्षि एवुं वीजुं नाम ठे, तेथी तेउं पारमर्षा पण केहेवाय ठे, वनारसमां तेउं संख्याबंध ठे. मास उपवास पण करे ठे. ब्राह्मण जे ठे ते अर्चिमांगेथी विरुद्ध धूममार्गानु-गामी ठे, अने सांख्य अर्चिमांगानुयायी ठे; ब्राह्मणोने वेद पर प्यार ठे तेथी यज्ञमार्गानुयायी ठे, अने सांख्य हिंसाथी पूर्ण, एवा जे वेद ते-

त्वगुणनुं चिह्न प्रसन्नता, २ रजोगुणनुं चिह्न संताप, ३ तमोगुणनुं चिह्न दीनपणुं. हवे १ प्रसाद, २ बुद्धिपाटव, ३ लाघव, ४ प्रश्रय. ५ अनजि-
 प्वंग, ६ अद्वेष, ७ प्रीत्यादि, आ सत्वगुणनां कार्यलिङ्ग ठे, १ ताप,
 २ शोष, ३ जेद ४ चलचित्त, ५ स्तंभ, ६ उद्वेग, आ रजोगुणनां का-
 र्यलिङ्ग ठे. तथा १ दैन्य, २ मोह, ३ मरण, ४ असादन, ५ वीजत्ता,
 ६ ज्ञान गौरवादि, ७ आ तमोगुणनां कार्यलिङ्ग ठे. कार्योथी सत्त्वादि
 गुणनो जास थाय ठे. तथा लोकमां जे कांइ सुख उपलब्ध थाय ठे,
 जेम के १ आर्जव, २ मार्दव, ३ सत्य, ४ शौच, ५ लज्जा, ६ बुद्धि, ७ क-
 मा, ८ अनुकंपा, प्रसादादि, आ सर्व सत्वगुणनां कार्य ठे; तेमज जे
 कांइ दुःख उत्पन्न थाय ठे जेम के १ द्वेष, २ डोह, ३ मत्सर ४ निंदा-
 वचन, ५ बंधन, तापादिस्थान, आ सर्व रजोगुणनां कार्य ठे; तेमज जे
 कांइ मोह उपलब्ध थाय ठे, जेमके १ अज्ञान, २ मद, ३ आलस्य, ४ जय,
 ५ दैन्य, ६ कृपणता, ७ नास्तिकता, ८ विषाद, ९ उन्माद, खप्तादि आं सर्व
 तमोगुणनां कार्य ठे. आ सत्त्वादि परस्पर उपकारी त्रण गुणोथी सर्व जगत्
 व्याप्त ठे; परंतु ऊर्ध्वलोकमां देवताउंमां प्रधानपणे सत्वगुण ठे, अने
 अधोलोक तिर्यच, नरकविपे प्रधानपणे तमोगुण ठे, तथा मनुष्यमां प्रधा-
 नपणे रजोगुणठे. आ त्रणे गुणोनी जे सम अवस्था तेनुं नाम प्रकृतिठे.
 ते प्रकृतिनां अपरनाम प्रधान, अव्यक्त एमपण ठे. प्रकृति नित्यस्वरूप
 ठे. “अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकस्वजावं कूठस्थं नित्यं” आ नित्यनुं लक्ष-
 ण ठे. तथा आ प्रकृति जे ठे, ते अन्वय, असाधारणी, अशब्दा, अस्पर्शा,
 अरसा, अगंधा, अव्यया, केहेवाय ठे. जे मूल सांख्यठे ते दरेक आत्मा-
 नी साथ जुदा जुदा प्रधान मानेठे; अने जे नवीन सांख्यठे ते सर्व आत्मा-
 उंमां एक, नित्य, प्रधान मानेठे. प्रकृति अने आत्माना संयोगथी सृष्टि
 थाय ठे, ते कारणथी सृष्टि थवानो क्रम लखियें ठियें.

ते प्रकृतिथी बुद्धि उत्पन्न थायठे. गाय आदि सन्मुख देखवाथी, आ गा-
 यठे, घोडो नथी, तथा आ स्थाणु ठे, पुरुष नथी, एवो जे निश्चयरूप अध-
 वसाय थाय ठे तेने बुद्धि कहेठे वीजुं तेनुं नाम महत्पण कहेठे. ते बुद्धि-
 नां आठ रूप ठे. १ धर्म, २ ज्ञान, ३ वैराग्य, ४ ऐश्वर्य, आचार सात्विक
 ते १ सुकुंकाप्त.

बुद्धिनां रूपे . तथा १ अधर्म, २ अज्ञान, ३ अवेराग्य, ४ अनेश्वर्य, आ-
 चार तामसी बुद्धिरूपे. ते बुद्धिधी अहंकार उत्पन्न थायते. ते अहं-
 कारधी सोल गुणनो समूह उत्पन्न थायते ते सोल गुण आठे. १ स्पर्शनं,
 त्वक्, २ रसनं जिह्वा, ३ घ्राणं, नासिका, ४ चक्षुः, लोचन, ५ श्रोत्रं, श्रवण,
 आ पांचेने बुद्धिंन्द्रिय कहेते, कारण के आ पांचे पोत पोताना विषयने
 जाण्ठे. तथा पांच कर्मेंन्द्रिये. १ पायु, गुदा, २ उपस्थ, पुरुषं स्त्रीनुं चिह्न
 ३ वच, कंठदि आठस्थानधी उच्चाराय ते शब्द, ४ हाथ, ५ पग, आ पां-
 चेधी पांच काम थायते, १ मलोत्सर्ग, २ संज्ञोग ३ वचन, ४ ग्रहण, ५ च-
 लन, ते कारणधी आ पांचने कर्मेंन्द्रिय कहेते. ११ मन, मन ज्यारे बुद्धिं-
 द्रियने मलेते, त्यारे बुद्धिंन्द्रियरूप थइ जायते; अने कर्मेंन्द्रियने मलेते
 त्यारे कर्मेंन्द्रियरूप थइ जायते. आ मन जे ठे ते संकल्पवृत्तिठे. तथा
 अहंकारधी पांच तन्मात्रा जेनी सूक्ष्म संज्ञा ठे ते उत्पन्न थायते. १ रूप
 तन्मात्रा, ते शुक्लकृष्णादि रूपविशेष, २ रसतन्मात्रा, ते तिक्तादि रस
 विशेष, ३ गंधतन्मात्रा, ते सुरज्यादि गंधविशेष, ४ शब्दतन्मात्रा, ते मधु-
 रादि शब्दविशेष, ५ स्पर्शतन्मात्रा, ते मृडुकाग्नि्यादि स्पर्शविशेष, आ
 षोडशक गण ठे. हवे पांचतन्मात्रांठी पांचभूत उत्पन्न थायते, ते कहे-
 ठे. १ रूप तन्मात्राधी अग्नि उत्पन्न थायते, २ रसतन्मात्राधी जल उत्पन्न
 थायते, ३ गंध तन्मात्राधी पृथ्वी उत्पन्न थायते, ४ शब्द तन्मात्राधी आ-
 काश उत्पन्न थायते ५ स्पर्श तन्मात्राधी वायु उत्पन्न थायते एम पांच
 तन्मात्रांठी पांच भूत उत्पन्न थायते. एम सर्व मळी चोवीश तत्व
 प्रधान निवेदन कस्यां. " अने अकर्ता विगुण ज्ञोक्ता " एवुं पुरुष तत्व
 पचीशमुं नित्य चिद्रूप मानेते. चोवीश तत्व रूप प्रधान. १ प्रकृति-
 २ महान्, ३ अहंकार ७ पांच ज्ञानेंद्रिय, १३ पांच कर्मेंद्रिय, १४ मन,
 १९ पांच तन्मात्रा, २४ पांच भूत. एम चोवीश तत्व ठे. तेमांठी प्र-
 थम जे प्रकृति ठे ते अनुत्पन्न होवारी बुद्धि आदि सात प्रथमनां
 कारण ठे, अने सोल पाठलनां कार्य ठे, तेधी प्रथमनी सात प्रकृति वि-
 कृति केहेवाय ठे, अने षोडशकगण कार्यरूप होवारी विकृतिरूपठे; अने
 पुरुष जे ठे ते न प्रकृति, न विकृति ठे. नधी कोइधी उत्पन्न थयेल के
 नधी कोइने उत्पन्न करतो, ते कारणधी तेवो ठे. ॥ तथाचेश्वरः कृष्णः

सांख्यसप्ततौ ॥ “मूलप्रकृतिरविकृति, महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त ॥ षोडशकश्च विकारो, न प्रकृतिर्नविकृतिः पुरुष इति ॥ अर्थः—ईश्वर कृष्ण, सांख्य मतना आचार्य सांख्यसप्ततिग्रंथमां लखेठे के. मूलप्रकृति अविकृति ठे महत् आदि सात प्रकृतिविकृति ठे, षोडशक विकार विकृति ठे, अने पुरुष न प्रकृति, न विकृतिठे. तथा महदादि, प्रकृतिना विकार ठे, ते व्यक्त थइने फरी अव्यक्तपण थइ जाय ठे. ते अनित्यहो-वाथी पोताना स्वरूपथी ञ्च थइ जायठे; अने प्रकृति अविकृति रूप होवाथी पोताना स्वरूपथी ञ्च थती नथी. तथा महत् आदिनुं अने प्रकृतिनुं स्वरूप सांख्य मतवाला आ प्रमाणे मानेठे. १ हेतुमत, २ अनित्य, ३ अव्यापक, ४ सक्रिय, ५ अनेक, ६ आश्रित, ७ लिंग, ८ सावयव, ९ परतंत्र, १० व्यक्त. प्रकृति तेनाथी विपरीत ठे. १ हेतुमत, कारण वाला ठे, महत् आदि, २ अनित्य, उत्पत्ति धर्मवालाठे, ३ अव्यापक, बुद्धि आदि अव्यापि ठे, सर्वगत नथी, ४ सक्रिय, अध्यवसायसंयुक्त वर्तेठे, ते हेतुथी क्रिया सहित, सव्यापार चालवा वालांठे, ५ अनेक, त्रेवीश प्रकारना ठे, तेथी, ६ आश्रित. आत्माना उपकार वास्ते प्रधानने अवलंबीने रहेठे ७ लिंग, जे जेमांथी उत्पन्न थायठे ते तेमांज लय पामेठे, “लयंक्षयं गच्छतीति लिंगं,” पांच जूत, पांच तन्मात्रांठमां लय पामेठे, पांच तन्मात्रा, दश इंद्रिय, अने मन, अहंकारमां लयपामेठे, अहंकार बुद्धिमां लयपामेठे, अने बुद्धि प्रकृतिमां लयपामेठे; प्रकृतिनो कोशमां पण लय थतो नथी. ८ सावयव, शब्द रूप, रस, गंध, स्पर्शादि संयुक्त ठे, ९ परतंत्र, कारणने आधीन होवाथी, १० व्यक्त, तेवीज रीतें महदादि व्यक्त ठे; प्रकृति तेनाथी विपरीत, सुगम ठे. आ अल्पमात्र स्वरूप चतावेल ठे, विस्तारथी जाणवुं होयतो सांख्य सप्तति आदि शास्त्रो जोवां.

हवे पचीशमा पुरुष तत्त्वनुं स्वरूप कहियें ठियें. पुरुष “अकर्ता वि-गुणोऽज्ञोऽन्विता, नित्यचिदच्युतेतश्च” ठे. पुरुषतत्व आत्माने कहे ठे. १ आ-त्मा, विषय सुखादिनां कारण पुण्यादि करतो नथी तेथी “अकर्ता ठे; कारण के आत्मा तृणमात्र पण तोडवाने समर्थ नथी; अने कर्ता प्र-कृति ठे, कारण के प्रकृतिमां प्रवृत्तिस्वभाव ठे; तथा २ “विगुणः” स-त्त्वादि गुणरहित ठे, कारण के सत्त्वादि प्रकृतिना धर्म ठे, तथा ३ “जो-

का " आत्मा चोक्ता, जोगवनार ठे, चोक्ता पण साक्षात् नथी, परंतु प्रकृतिना विकारभूत उजय मुख दर्पणाकार जे बुद्धि ठे, तेमां संक्रमण थयां थकां निर्मल आत्मस्वरूपविषे सुख दुःखोना प्रतिविंब उदय मात्रयी चोक्ता केहेवाय ठे. " बुद्धवसितमर्थं पुरुषश्चेतत " इतिवचनात् ॥ जेम जासुस फुलनी समीप रेहेवाना कारणथी स्फटिकमां रक्ततादि केहेवामां आवे ठे, तेम प्रकृतिना निकट संबंधथी पुरुषपण सुख दुःखो- नो चोक्ता केहेवाय ठे. सांख्य मतना वादमहार्णवमां पण कहे ठे " बु- द्धिदर्पणसंक्रांतं, समर्थप्रतिविंबकं ॥ द्वितीयं दर्पणं कल्पे, पुंसिश्चद्व्या- रोहति ॥ १ ॥ तदेव जोक्तृत्वमस्य नत्वात्मनोविकारापत्तिरिति ॥ आ- नो तात्पर्यं उपर वतावेल ठे.

तथा कपिलनो शिष्य आसुरिपण कहे ठे ॥ श्लोक ॥ विवक्तेदृक्परि- ण्तौ, बुद्धौ जोगोऽस्य कथ्यते ॥ प्रतिविंबोदयः स्वप्ने, यथा चंद्रमसौंच- सि ॥ १ ॥ तथा विंध्यवासी सांख्याचार्य आत्माने तेवीज रीतं चोक्ता कहे ठे. पुरुष अविद्धत आत्माज ठे, स्वनिर्जास अचेतन मन कर्ता ठे. ते मननी निकटताथी उपाधि स्फटिकवत् देखाय ठे; "नित्या या चिचेत ना तयाऽऽच्युपेतः" आ केहेवाथी पुरुषज चैतन्यस्वरूप ठे. "नतु ज्ञान- स्य" परंतु ज्ञान नथी, कारण के ज्ञाननो धर्म बुद्धि ठे. तथा पतंज- लि पण एमज कहे ठे. तथा " पुमान् " आ जे एक वचन ठे ते जाति- नी अपेक्षार्थी ठे; परंतु आत्मा अनंत ठे, कारण के जन्म मरणादि का- रणोना नियम, तथा धर्मादि अनेक प्रवृत्ति देखवामां आवे ठे. ते सर्व अनंत आत्मा सर्वगत तेमज नित्य ठे. ॥ उक्तं च ॥ अमूर्त्तिश्चेतनो जोगी, नित्यः सर्वगतोऽक्रियः ॥ अकर्त्ता निर्गुणः सूक्ष्म, आत्मा कापिलदर्शनइति ॥

सांख्यमत त्रण प्रमाण माने ठे. १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ शब्द. ते मततुं नाम सांख्य अथवा शांख्य शा वास्ते कहे ठे ? तेनो हेतु एवो ठे के, संख्या प्रकृति तत्व पचीश रूप तेने जे जाणे अथवा जणे. ते सांख्य. तथा जो ताबु शकाग्धी वोलियें तो शांख्य एम केहेवाय. तेउ- ना मतमां शंखध्वनि ठे एम वृद्धोनो आम्नाय ठे तेथी शांख्य नाम ठे. वली शंख नामे कोई आद्य पुरुष थया ठे. "तस्यापत्यं पौत्रादिरिति गर्गा

दित्वादय स्त्री प्रत्यये शांख्या पामि इदं दर्शनं शांख्यं शांखं वा ” ॥ इति सांख्यमतसंक्षेपवर्णनं.

हवे मीमांसकमत लखियें ठियें. तेनुं वीजुं नाम जैमिनीय पण कहे-
 ठे. आ मतवाला सांख्यमतनी पेठे एकदंढी, त्रिदंडी होय ठे, धातुरक्त
 वस्त्र पहरे ठे. सृगचर्मासन पर वेसे ठे, कमंडलु राखेठे, शिरमुंफित क-
 रावेठे, संन्यासी प्रमुखद्विज आ मतमां होय ठे, वेद तेमना गुरु ठे, परंतु
 वीजा कोई वक्ता गुरु नथी. ते पोते पोताने संन्यस्तं संन्यस्तं कहे ठे, य-
 झोपवीतने धोईने त्रणवार तेनुं जल पीयेठे. आ मीमांसक वे प्रकारना ठे,
 एक याज्ञिकादि, ते पूर्वमीमांसक ठे, अने वीजा उत्तरमीमांसावादी
 ठे. याज्ञिकादि, कुकर्मेना तजनार, यजनादि पदकर्मना करनार, ब्रह्म
 सूत्रना धारक, गृहस्थाश्रममां स्थित, शूद्रनुं अन्नादि तजनार ठे, तेना
 पण वे जेद ठे, एक ऋषि, वीजा प्रजाकर; ऋषि ठ प्रमाण माने ठे, अने
 प्रजाकर पांच प्रमाण माने ठे. उत्तरमीमांसक वेदान्ति ठे, ब्रह्म अद्वैतज
 माने ठे “ सर्वमेवेदं ब्रह्मेति ज्ञापते ” तेपर प्रमाण आपे ठे के एकज
 आत्मा सर्वशरीरोमां उपलब्ध थाय ठे. ॥ श्लोक ॥ एक एवहि चूतात्मा,
 चूते चूते व्यवस्थितः ॥ एकधा वधुधा चैव, दृश्यते जलचंद्रवत् ॥ १ ॥
 इति वचनात् ॥ “ पुरुष एवेदं सर्वयज्ञतं यच्च ज्ञाव्यमिति वचनात् ॥ आ-
 त्मा मांज लयथवुं तेनुं नाम मुक्ति ठे. वीजी कांइ मुक्ति नथी. ते मीमांसक
 द्विजज जेनुंनाम जगवत् ठे, ते चार प्रकारना ठे; १ कुटीचर, २ बहूदक,
 ३ हंस, ४ परमहंस. तेमां १ त्रिदंडी, सशिखा, ब्रह्मसूत्री, गृहत्यागी, यज
 मान, परिगृही, एकवार पुत्रना घरमां जोजन करे ठे, कुटीमां वसेठे
 तेने कुटीचर कहेठे, २ तुल्यवेष, पूर्वोक्त विप्रना घरमां नीरस जिह्वा
 जोजी विष्णुजापपर नदीना तीरपर रहे ठे, तेने बहूदक कहे ठे, ३ ब्र-
 ह्मसूत्र, शिखारहित, कपाय वस्त्र, दंडधारी, गाममां एकरात्रि अने नग-
 रमां त्रण रात्रि रहे ठे, अग्नि ज्यारे धूमरहित थाय त्यारे ब्राह्मणना घरमां
 जोजन करे ठे अने तपथी शरीर शोषण करी, देशोमां फरता रहे ठे, तेने
 हंस कहे ठे हंसनेज ज्यारे ज्ञान थाय ठे, त्यारे चारे वर्णना घरमां जोजन
 करे ठे, पोतानी इष्टाथी दंड राखे ठे, ईशान दिशा सन्मुख जाय ठे जो श-
 क्तिहीन थई जाय तो अन्नशन ग्रहण करे ठे, ४ वेदांत एकध्यायी, ते

परमहंसकेहेवाय ठे; आ चारेमां पूर्वथी परस्पर अधिक चारे केवल ब्रह्माद्वैतवाद साधवामां व्यसनी ठे, इत्यादि आ मतनुं स्वरूप ठे.

हवे पूर्वमीमांसावादिउनो मत विशेषथी लखियें त्रियें. जेमिनीय वाला कहे ठे के, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी वीतराग, सृष्टिआदिना कर्ता, आ पूर्वोक्त विशेषणयुक्त कोष्पण देव नथी, के जे देवतुं वचन प्रामाणिक होय, प्रथम तो देवज कोष् वक्ता नथी, के जेतुं कहेतुं वचन प्रमाण थाय. अनुमानथी पुरुष सर्वज्ञ नथी, मनुष्य होवाथी, रथ्यापुरुषवत.

पूर्वपक्षः— किंकर थई जेनी सुर, असुर सेवा करेठे, तेमज त्रण लोकमां ऐश्वर्यना सूचक, उत्र, चामरादि जेनी विभूति ठे, ते सर्वज्ञ केम न होईशके?

उत्तरपक्षः—आ विभूति तो इंद्रजादीआ पण रची शके ठे, ते वातना साक्षी जैनमतना सामंतजद्र आचार्य पण ठे ॥ श्लोक ॥ देवागमनज्ञोयान, चामरादिविभूतयः ॥ मायाविष्वपि दृश्यंते, ह्यतस्त्वमसि नो महान्.

पूर्वपक्षः— जेम अनादि सुवर्णनो मेल, द्वार प्रमुख अग्नि पुटादि क्रियाविशेषथी शोधातां, सुवर्ण सर्वथा निर्मल थई जाय ठे, तेम आत्मा पण निरंतर ज्ञानादि अज्ञ्यासथी निर्मल थवाथी तेने सर्वज्ञपणांनो संभव केम न होय ? अवश्य होयज.

उत्तरपक्षः—आ तमारुं केहेतुं ठीक नथी; कारण के अज्ञ्यास करवाथी शुद्धिनी तरतमताज थाय ठे, परंतु परम प्रकर्ष अवस्था थती नथी, कारण के जे पुरुष चालवानो अज्ञ्यास करे, अर्थात् कूदवानो, ठलंग मारवानो, ठेकडो मारवानो अज्ञ्यास करे, ते दशहाथ वीशहाथ कुदी शकशे, परंतु सो योजन कूदवानी शक्ति ते कदापि मेलवी शकशे नहि, अने सर्व लोक कूदी जवानो अज्ञ्यास तो कदापि तेनाथी थइ शकशे नहि. तेवीज रीतें आत्मापण अज्ञ्यासद्वारा सर्वज्ञ थइ शकतो नथी.

पूर्वपक्षः— मनुष्यने सर्वज्ञता जले न होय, परंतु ब्रह्मा विष्णु, महेश्वरादिने तो सर्वज्ञता होय ठे, कारण के तेमने तो जगत् ईश्वर माने ठे. ते वात कुमारिल पण कहे ठे. “दिव्य देह होवाथी” ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, तेउने सर्वज्ञता होय, मनुष्यने सर्वज्ञता केवीरीतें होय ?

उत्तरपक्षः—जे रागद्वेषमां मग्न ठे निग्रह अनुग्रहमां ग्रस्तठे, काम सेवनमां तत्पर ठे, एवा लक्षणवाला ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, सर्वज्ञ केवी

रीतिं होइ शके ठे ? कारण के प्रत्यक्ष प्रमाण तो सर्वज्ञसाधक नहीं, कारण के तैतो (इंद्रियो) वर्तमान वस्तुनेज ग्रहण करेठे; अने अनुमानथी पण सर्वज्ञ सिद्ध यत्ता नहीं, कारण के अनुमानं प्रत्यक्ष पूर्वकज प्रवृत्त थइ शके ठे; तेमज आगम पण सर्वज्ञनी सिद्धि करनाहू कोइ नहीं; कारण के आंगम सर्वे विवांदास्पद ठे; वही उपमान पण नहीं, कारण के बीजा सर्वज्ञ कोइ होय तो उपमान बने, तेबीज रीतिं अर्थापत्तिथी पण सर्वज्ञ सिद्ध यत्ता नहीं, कारण के अन्यथा अनुपपद्यमान एवो कोइ पदार्थ नहीं, जे होवाथी सर्वज्ञ सिद्ध थाय. ज्यारे जावग्राहक पांचे प्रमाणथी सर्वज्ञ सिद्ध न थया, त्तारे सर्वज्ञ अज्ञाव प्रमाणना विषय थया. सर्वज्ञ प्रत्यक्षादि गोचरने अतिक्रान्त होवाथी, शशशृंगवत् ज्यारे कोइ देव सर्वज्ञ नहीं, अने तेवा सर्वज्ञ देवतुं कथन करेहुं ज्यारे कोइ शास्त्र नहीं, त्तारे अतींद्रिय अर्थतुं ज्ञान केम थाय ? एवी मनमां आशंका करीने जैमिनि कहे ठे के “ तस्मात् ” ते कारणथी अतींद्रिय इंद्रियोना विपरहित जे, आत्मा, धर्म अधर्म, काल, स्वर्ग, नरक, परमाणु प्रमुख पदार्थो ठे, तेउना करतल आमैलकवत् साक्षात् देखनार कोइ नहीं. ते हेतुथी नित्य जे वेदवाक्य ठे, तेनाथीज यथार्थ तत्त्वनो निश्चय थाय ठे. कारण के वेद, अपौरुपेय ठे, अर्थात् कोइयें रचेला नहीं. अनादि नित्य ठे, ते वेदवचनोथी अतींद्रिय पदार्थोतुं ज्ञान थाय ठे, परंतु कोइ सर्वज्ञना कहेला आगमथी थतुं नहीं, कारण के सर्वज्ञ कोइपण पूर्व कालमां थया नहीं, वर्तमानमां ठे नहि, अने जविष्यमां थवानां नहीं. ॥ यथाहुस्ते ॥ अतींद्रियाणामर्थानां, साक्षात् दृष्टा न विद्यते ॥ वचनेनहि नित्येन, यः पश्यति सपश्यति ॥ १ ॥

प्रश्नः—अपौरुपेय वेदना अर्थ केवीरीतिं जाणी शकाय ?

उत्तरः—अमारी परंपरा जे अव्यवच्छिन्न ठे तेनाथी जाणी शकाय ठे. ते कारणथी तथा सर्वज्ञादिनो अज्ञाव होवाथी प्रथम वेदनाज पाठ प्रयत्नथी करवा जोइयें. वेद चार ठे, १ शंगू, २ यजुष, ३ साम, ४ अथर्व. ए चारनो पाठ करी, पठी धर्मजिज्ञासा करवी जोइये ? धर्म अतींद्रि-

१ विवादना ग्यानरूप. २ बीजे प्रकारे. ३ उपपन्न नहि (गिटन) थकेली. ४ हर्षवर्षाणां. ५ भागवतानी पेटे.

य ठे. वही धर्म ठे ते केवो ठे ? तथा क्या प्रमाणथी जाणियें ? एवी जे जाणवानी इत्ता, तेनुं नाम जिजासा ठे. ते जिजासा केवी ठे ते जिजासा धर्म साधवानो उपाय ठे, तेनुं नाम नोदना ठे, ते नोदनानां निमित्त वेठे, एक जनक, वीजो ग्राहक ठे. अहियां ग्राहक निमित्त जाणवुं. तेनुंज विशेष स्वरूप कहियेंठियें.

श्रेयः साधकद्रव्यादिविषे जीवोने प्रेरियें जेनाथी, ते नोदना, वेद वचननी करेली प्रेरणा ठे ॥ इत्यर्थः ॥ धर्म नोदनार्थी जणाय ठे. ते कारणथी नोदनालक्षण धर्म ठे, धर्म अतींद्रिय होवार्थी नोदनार्थीज जाणियें ठियें. प्रत्यक्षादि वीजा कोइ प्रमाणथी जाणी शकातो नथी, कारण के प्रत्यक्षादि विद्यमाननाज उपलंजक ठे. अने धर्म कर्त्तव्यतारूप ठे अने कर्त्तव्यता त्रणैकाल स्वभाव वाली ठे ते कर्त्तव्यतानुं ज्ञान नोदनाज उत्पन्न करी शके ठे. आ मीमांसकोनो अच्युपगम ठे.

हवे नोदनानुं व्याख्यान करियें ठियें. अग्निहोत्र, सर्व जीवोनी अहिंसा, दानादि क्रिया ते करवावास्ते जे प्रवर्त्तक, प्रेरक वेदोनां वचन ठे. तेज नोदना ठे. जेम के “ अग्निहोत्रं जुहूयात् स्वर्गकामः ” एवां जे प्रवर्त्तक वेदवचन ठे, ते नोदना जाणवी. यथा ॥ “ न हिंस्यात् सर्वचूतानि, तथा नवै हिंस्रो जवेत् ” आ वचनोथी प्रेस्यां थकां द्रव्य, गुण, कर्मोथी हवनादिविषे जे प्रवृत्त थवुं, ते धर्म ठे, अने आ वेदवचनो प्रेस्यां थकां पण जे न प्रवर्त्ते, अथवा विपरीत प्रवर्त्ते, तेने नरकादि अनिष्टफल थायठे. शावरजाप्यमां पण एमज कहेल ठे.

आ जैमिनीय ठ प्रमाण माने ठे. १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ शब्द, ४ उपमान, ५ अर्थापत्ति, ६ अज्ञाव. तेउनुं विस्तारथी स्वरूप जाणवुं होय तो परुदर्शन समुच्चयनी टीका जीवी. इति संक्षेपथी मीमांसकमत.

आ पांच दर्शन आस्तिक केहेवाय ठे, अने ठहुं जैनदर्शन ठे. तेनुंस्वरूप आगलना परिच्छेदमां लखवामां आवशे. नास्तिकमत दर्शनमां नथी. “ नास्तिकं तु न दर्शनमिति राजशेखरसूरिकृतपरुदर्शनसमुच्चयवचनात् ” ॥ तो पण जव्य जीवोने जाणवा वास्ते तेनु कांश्क स्वरूप लखियें ठियें.

कपाली, जस्म लगावनार, योगी, ब्राह्मणादि, अंत्य जातिना लोक जेउने लोको वाममार्गी कहेठे, तेउ, तथा कौलिक इत्यादि नास्तिक

ठे, तेना मतनुं नाम नास्तिक चार्वाक ठे. तेउ जीव, पुण्य पापादि कांई मानता नथी, चार जौतिक देह माने ठे, तेमज सर्वजगतने पण चार जौतिक मानेठे.

बली केटला एक चार्वाक एक देशी, आकाशने पांचमुं चूत माने ठे. पंचभूतात्मक जगत् ठे एम कहे ठे. चूतोथीज मद्य शक्तिमत् चैतन्य उत्पन्न थाय ठे एम तेउनो मत ठे. पाणीना परपोटानी जेम, शरीर ठे तेज जीव ठे एम तेउनुं मानवुं ठे. आ मतवाला मद्य, मांस, खायठे; माता, वेहेन, दिकरी आदि जे अगम्यठे, तेउनी साथे गमन करेठे. ते नास्तिक वामी, दरेक वरसे एक दिवस सर्वे, एकस्थले एकठा थायठे. स्त्रीउने नश करी तेउनी योनिनी पूजा करेठे, तेमज विषय सेवनपण करेठे इत्यादि, एवां वुरां काम करेठे के आ पुस्तकमां तेनुं वर्णन करतां मने शरम लागे ठे. तेथी लखेल नथी. ते नास्तिक कामसेवन उपरांत बीजो धर्म मानता नथी, मतलब के कामनेज धर्म मानेठे.

आ मतनी उत्पत्ति जैनमतना शीलतरंगिणी नामना शास्त्रमां जे प्रमाणे लखेलीठे ते प्रमाणे कहियें ठियें. बृहस्पति नामनो एक ब्राह्मण हतो. तेनुं बीजुं नाम देवव्यास हतुं. तेने एक वेहेन हती. ते वाढ्यावस्थामां विधवा अइ हती. जेना आश्रयथी पोतानी जीदगी संपूर्ण करे एवुं कोइ तेणीना सासराना घरमां साधन न होतुं, तेथी निराधार अइने पोताना जाइना घरमां आवी रही. ते अत्यंत स्वरूपवती तेमज यौवनवती हती, आ समये बृहस्पतिनी पत्नी मृत्यु पामी हती, बृहस्पतिने काम वासनाथी पीडा आवालागी, तेथी विषयासक्त थवाने लीधे पोतानी वेहेननी साथे विषयसेवन करवानी इच्छा अइ. विधवा वेहेनने प्रार्थना करी के हे वेहेन ? मारी साथे तुं विषयसेवन कख, त्यारे तेनी वेहेन कहुं के हे जाइ ? आ वात उजयलोकविरुद्ध ठे, तेथी केम करी शकुं ? कारण के प्रथम तो हुं तारी वेहेन तुं तेथी जाइनी साथे विषयज्ञोग करं तो अरवश्य हुं नरकमां जाउं, अने आ वातजो जगत्मां प्रसिद्ध थाय तो, सर्वलोकने धिक्कार पात्र थाउं. एवी वात श्रवण करी बृहस्पतिए पोताना मनमां विचार कख्यो के, ज्यां सुधी तेणीना मनमांथी पाप, तेमज नरकादि दुःखनो जय दूर अइ नहि, त्यांसुधी ते मारी साथे कदापि संज्ञोग

करशे नहि. एवो विचार करी पोते बृहस्पतिसूत्रनी रचना करी. ते सू-
त्रोथी, पुण्य पाप, स्वर्ग नरकनो अज्ञाव सिद्ध करी, पोतानी वेहेनने ते
शास्त्र श्रवण करावी प्रतिबोध कस्यो. ते बोधथी तेनी वेहेने विचार कस्यो
के आ शरीर ज्यारे पांचजोतिक ठे, अने आ शरीरथी अतिरिक्त एवो
अत्मा नामें बीजो कोइ पदार्थ नथी, त्यारे पुण्य पाप, नरक स्वर्ग कांइपण
सिद्ध थतुं नथी. तेथी हवे आ मूर्ख लोकोनी शरम राखी मारी यौवन
अवस्था शामाटे वृथा गुमावुं. एम निश्चय करी पोताना जाइनी साथे
विषय जोग करवामां अत्यंत लुब्ध थइ गइ. ज्यारे लोकोना जाणवामां
आ हकीकतआवी, त्यारे लोको तेउनी बहुज निंदा करवा लाग्या. ते सांचली
बृहस्पतियें निर्लज्ज थइ लोकोने नास्तिक मतनो उपदेश करवो शरु
कयों. ते उपदेशथी जे अत्यंतविषयी तथा अज्ञानी हुता, तेउ तेना शिष्य
थया. केटलोएक काल व्यतीत थयापठी तेना शिष्यो पोताना मतनुं बहु
मान करवा वास्ते केहेवा लग्या के, आ अमारो मत देवताउना गुरु जे
बृहस्पति नामना आकाशमां ग्रहठे तेमनो प्रवर्त्तावेलो ठे. बृहस्पति करतां
बीजो कोइ विशेष बुद्धिमान् नथी, तेथी अमारो मत सत्य ठे. आ बृह-
स्पतिनी उत्पत्ति अमारा चोवीशमा तीर्थंकर श्रीमहावीर स्वामिनी पेहेलां
थयेली सिद्ध ठे; कारण के श्रीमहावीर स्वामियें कथन करेला शास्त्रोमां चा-
र्वाक मतनुं निरूपण करेलुं ठे. चार्वाक मतनी उत्पत्ति ए प्रमाणे ठे. ते-
मनां नाम चार्वाक, लोकायितांदि ठे “चर्व अदने चर्वति, जक्षयति
तत्त्वतो नमन्यंते पुण्यपापादिकं परोक्षवस्तुजातमिति चार्वाकाः” मया-
कश्यामाकेत्यादि सिद्ध, ठे. उणादिदंडकेन शब्दनिपातनं. लोका नि-
र्विचाराः सामान्यालोकास्तद्गदाचरंति स्मेति लोकायिताः लोकायित
काइत्यपि ॥ बृहस्पतिप्रणीतमतत्वेन बार्हस्पत्याश्चेति” चर्व धातु जक्षण
अर्थमां ठे. चर्वण (जक्षण) करे अर्थात् जे पुण्य पापादि परोक्ष वस्तु स-
मूहने न माने ते चार्वाक, मयाक श्यामाक इत्यादि सिद्धठे. श्रीहैमव्या-
करणना उणादि दंडक प्रयोगथी निपातथी सिद्धठे. तथा लोक निर्विचारी
ठे, सामान्य लोकोनी पेठे जे आचरण कर्या करेठे ते लोकायिता लोका-
यितका एम पण केहेवाय ठे. तेमज बृहस्पतिनी प्ररूपणाथी ते मतनुं
नाम बार्हस्पत्य पण केहेठे.

हृवे चार्वाकना मतनुं स्वरूप लखियें ठियें. नास्तिकं एम कहेठे के परलोकमां गमन करनार जीव, चेतनालक्षण कांइ ठे नहि. पांच जूतथी जे चेतन उत्पन्न थायठे, ते पण जूतोना नाश थतां अर्हीयांज नाश पासी जाय ठे. जो जीव परलोकथी आव्यो होय तो परलोकनुं ते स्मरण होवुं जोइये, परंतु ते तो थतुं नथी, ते कारणथी जीव परलोकथी आव्यो नथी तेमज परलोकमां जानारपण नथी. तथा जीवस्यानमां जो देव शब्द स्थापन करियें तो सर्वज्ञादिविशेषणविशिष्ट कोइ देव नथी, तथा मोक्षपण नथी, धर्म अधर्म नथी, पुण्य पाप नथी, पुण्य पापनुं जे फल स्वर्ग नरक, तेपण नथी. “तथाच तन्मतं ॥ एतावानेव लोकोयं, यावानिन्द्रिय गोचरः ॥ जडे वृकपदं पश्य, यद्ददंत्यबहुश्रुताः ॥ १ ॥ अर्थः—जेटलो प्रत्यक्ष देखवामां आवेठे, तेटलोज मनुष्यलोकठे. कारण के जे पदार्थ इंद्रियोथी ग्रहण थायठे तेज पदार्थठे, ते उपरांत बीजा कोइ पदार्थ नथी. ज्यारे लोक शब्दनो उच्चार करियें त्यारे लोकमां जे विद्यमान पदार्थठे तेज ग्रहण करवा, अने जे आ लोकथी पर एवा जीव, पुण्य, पाप, अने तेनां फल स्वर्ग, नरकादि ठे एम मानेठे ते अप्रत्यक्ष होवाथी, असत्यठे. जो अप्रत्यक्षपण मानियें तो शशशृंग, वंध्यापुत्र आदिपण मानवा जोइयें. पांच प्रकारें प्रत्यक्षथी अनुक्रमें १ मृडु कठोरादि वस्तु, २ तिक्त कटु कपायादि डव्य, ३ सुरजि छुरजिरूप गंध, ४ जू, जूधर, जुवन, जूरूह, स्तंज, कुंज, अंजोरुहादि, नर, पशु, श्वापदादि, स्थावर, जंगम पदार्थोना समूह, ५ विविध, वेणु वीणादिनी ध्वनि, आ पांच विना बीजी कोइपण वस्तुनी प्रतीति थती नथी. पांच जूतोथी व्यतिरिक्त नरक, स्वर्गमां गमन करनार एवो जीवज ज्यारे प्रत्यक्ष प्रमाणथी सिद्ध न थयो, त्यारे जीवनां सुख दुःखनां कारण धर्म, अधर्म, अने ते धर्म, अधर्मनि, उत्कृष्ट फल जोगववानी जूमि, स्वर्ग नरक, तथा सर्वथा पुण्य पापनो क्षयथवाथी उत्पन्न थनारुं जे मोक्षसुख तेनुं जे वर्णन, ते सघलुं वर्णन आकाशमां चित्रामण करवा जेवुंठे. कारण के जीवनो नथी कोइयें स्पर्श कयों, नथी कोइयें तेनो खाइने स्वाद चाख्यो, नथी कोइयें तेने सूंध्यो, नथी कोइयें तेने दीगो, के नथी कोइयें तेने शब्दवत् सांजळ्यो, तेम ठतां मूढमति शा वास्ते, जीवने मानीने, स्वर्गादि सुखोनी इष्टाकरी, मस्तक, दाढी, मूठ मुंडावी

अनेक प्रकारनां दुष्कर तप तपी, शीत, आतप, सहन करी फोगट आ शरीरने संकटोमां नाखी मनुष्यजन्म खराव करी र्हावे ? आ तेमनी समजणनुंज दुःखठे. ॥ तदुक्तं ॥ तपांसि यातनाश्चित्राः, संयमो नोग वंचना ॥ अग्निहोत्रादिकं कर्म, बालक्रीडेव लक्ष्यते ॥ १ ॥ यावज्जीवं सुखं जीवेत्, तावद्वैपयिकं सुखं ॥ जस्मीञ्चूतस्य देहस्य, पुनरागमनं कृतः ॥ २ ॥ अर्थः— सुगम ठे, सारांश उपर वताव्यो ठे. इत्यादि कारण्णी सिद्ध थाय ठे के जे इंद्रियगोचर (इंद्रियगम्य प्रत्यक्षठे) तेज तात्त्विक ठे. सारांश बीजां सुख कल्पित ठे.

हवे जे परोक्ष, अनुमान, आगम प्रमाण आदिथी जीव, अने पुण्य पाप आदिनुं स्थापन करे ठे, तेमज स्थापन करवामां कोई पण रीतें ह- वता नथी, तेउने प्रतिबोध करवा वास्ते दृष्टांत कहे ठे. “ जडे वृकपदं पश्येत्यत्रायं संप्रदायः ” कोई पुरुष नास्तिक मतथी, अथवा सत्य अंतः करणथी पोतानी जार्याने आस्तिक मतधिपे दृढ प्रतिज्ञावाली जाणीने पोतानी शास्त्रोक्त युक्तियोथी निरंतर प्रतिबोध करे ठे, ज्यारे तेणीने प्र- तिबोध लाग्यो नहि, त्यारे तेना पतियें विचार कस्यो के हवे उपायथी तेणीने प्रतिबोध लागे तेम ठे, एम पोताना चित्तमां चिंतवन करीने रा- त्रिना पाठलना पहोरमां ते स्त्रीनी साथे नगरथी बहार निकली, पत्नीने केहेवा लाग्यो, हे बहूने ! नगरमां वसनारा जे लोको परोक्ष पदायांने अनुमान आदि प्रमाणोथी सिद्ध करे ठे, अने लोकोमां पोताने बहुश्रुत कहेवरावे ठे, तेउनी चतुराई हवे अवलोकन कर. एम कही, नगरना दरवाजाथी चोकसुधी ज़ीणी धूलमां पोताना हायथी वरुना पंजाना आ- कार पाडीदीधा. प्रातःकालमां ते वरुना पंजा देखीने बहुलोको राजमा- र्गमां एकठा थईगया. तेदलामां बहुश्रुत पण त्यां आवीगया. ते बहुश्रुत लोकोने केहेवा लाग्या के हे जाईयो ! वरुना पगोनी अन्याया अनुपत्ति- थी, निश्चयें कोईक वरु रात्रिमां वनथी अर्हीया आव्युं हतुं. आ सांज- ली नास्तिकमति पोतानी पत्नीने ए प्रमाणे केहेनारने वतावी, केहेवा लाग्यो के हे जडे ! “ वृकपदं ” (वरुनापंजा) तुं जो. जे पंजाने वरुना पंजा अवहुश्रुत कहे ठे. लोकरुढिथी आ लोक बहुश्रुत कहेवरावे ठे, परंतु परमार्थथी तेउ महाठोठ ठे. कारण के तेउ परमार्थ तो कांई जाण-

ता नथी. केवल देखा देखी रोखो करवा लागी रह्या ठे, परमार्थथी तो तेउनुं वचन मानवा योग्य नथी. तेवीज रीतें घणा मतवाला धार्मिक, उच्च (धूतारा) वीजाउने उगवामां तत्पर एवा तेउं कांश्क अनुमान, आगमादिथी दृढपणें जीवादि पदार्थनी अस्ति सिद्ध करीने. जोला लोकने वृथाज स्वर्गादि सुखोनो लोच देखाडी जदयअजदय, गम्य अगम्य, हेय उपादेय, आदि संकटोमां नाखे ठे. बहु मूर्ख लोकोने धार्मिकपणा-नो व्यामोह उत्पन्न करेठे, तेथी बुद्धिमानोथे तेमनां वचन न मानवां जोइये. ते सांजली ते स्त्री पोताना पतिनां सर्व वचन मानवा लागी, तेथी तेणे पोतानी पत्नीने जे उपदेश कस्यो ते हवे लखियें ठियें.

॥ श्लोक ॥ पिव खाद च चारुलोचने, यदतीतं वरगात्रि तन्न ते ॥
नहिं जीरु गतं निवर्त्तते, समुदायमात्रमिदं कलेवरं ॥ १ ॥ व्याख्या ॥
हे सुंदरलोचन बालि ! तुं पेय अपेयनी व्यवस्था तजी दर्श मदिरापान कस्य, न केवल मदिराजपी, परंतु जदय अजदयनी दरकार कस्य विना मांसादि पण खा, तेमज गम्य अगम्यनो विचार दूर करी जोगोने जोगवी पोतानी युवावस्था सफल कस्य यौवनादि जे कांश्क व्यतीत थई गयेल ठे ते, हे वरगात्रि ! हे प्रधानांगि (उच्चमांगि !) फरी तने मलवानां नथी. अत्यंत काम राग जणाववा वास्ते बहु संवोधनपद कहेलां ठे, तेथी पुनरुक्ति दोष नथी. कोईनी आशंका मनमां लाविने बृहस्पति मतवाला कहेठे के पोतानी इच्छाथी जे खान, पान, जोग, विलास करशे, तेउने परलोकमां कष्टपरंपरा पामवा सुलज थशे, अने जे सुकृत करशे तेउने सुख यौवनादि जवांतरमां पामवा सुलज थशे, आ प्रमाणेनी परनी आशंका दूर करवा वास्ते बृहस्पति कहे ठे के हे जीरु ! वीजाना कहेवा मात्रथी नरकादि दुःखोनी प्राप्ति नथी. आ लोकना यौवनादिथी निवृत्त थवुं, अर्थात् आ लोकमां विषयजोगथी यौवननुं सुख न जोगववुं, अने परलोकमां अमने यौवनादि सुख फरी मलशे, एम परलोकना सुखनी इच्छाथी, तप, चारित्रादि कष्ट क्रिया करीने जे आ लोकना सुखनी उपेक्षा करे ठे तेउं महामूढ ठे.

बलि शुचाशुच कर्मना योगथी आ जीवने अवश्य परलोकमां पण स्वकर्म हेतुक सुखदुःखादि वेदना थशे, एवि आशंका करनारनी शंका

मनमां लाविने बृहस्पति कहे ठे के समुदायचूत चारेनो-संयोगमात्र ज आ कलेवर (शरीर) ठे; परंतु चारे चूतना संयोगमात्रथी जुदो, बीजो जवांतरमां जावावालो, शुजाशुज कर्मविपाकने जोगववा वाली एवो जीव नामनो कोइ पदार्थ नथी; अने चारे चूतनो जे संयोग ठे ते विजखिना प्रकाशनी पेटे कणमात्रमां नाश पामी जाय ठे, ते कारणथी परलोकनो जय तजी दे. हे हरिणादि ! जेम मन माने तेम खा, पी जोग विलास कख.

हवे प्रमेय प्रमाण बंने कहे ठे. ॥ श्लोक ॥ पृथ्वी जलं तथा तेजो, वायुचूतचतुष्टयं ॥ आधारोचूमिरेतेषां, मानं त्वद्गजमेव हि ॥ १ ॥ अर्थः १ पृथ्वी, २ जल, ३ अग्नि, ४ वायु, आ चार चूत ठे. आ चारेनी आधार पृथ्वी ठे. अने कोई जगाये एवो पण पाठ ठे के “ चैतन्यचूमि रेतेषां ” आ चारेने चैतन्यचूमि कहे ठे, आ चारेना एकत्र रसथी चैतन्य उत्पन्न थाय ठे. वली आ चार्वाकमतमां, आ चारे चूत, प्रमाणनी चूमिका, प्रमाणनो विषय तात्विक ठे. तेमज आ चार्वाकमतमां प्रमाण तो एक प्रत्यक्ष ज ठे.

हवे चूतचतुष्टयथी देहने चेतनता केम प्राप्त थाय ठे ? एवी आशंका मनमां लावी कहे ठे. ॥ श्लोक ॥ पृथ्व्यादिचूतसंहत्या, तथा देहपरीणतेः ॥ मदशक्तिः सुरांगेज्यो, यद्भूतद्विदात्मनि ॥ १ ॥ अर्थः—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तेउना संयोगथी थयेलो देह परिणाम, ते देहमां, जेम मदिरानां अंगोथी उन्मादशक्ति उत्पन्न थाय ठे तेम, चैतन्यशक्ति उत्पन्न थाय ठे. परंतु देहथी अन्य जीव पदार्थ कोइ ठे नहि. आदि शब्दथी पर्वतादि सर्वपदार्थ चारे चूतोथीज उत्पन्न थाय ठे. ते कारणथी दृष्ट सुखनो त्याग न करवो. अने अदृष्टसुख वास्ते प्रवृत्त थवुं, आ तो लोकोनी मोटी मूर्खता ठे, तेमज शांतरसमां मद्र थइमोक्ष सुखनुं वर्णन करेठे ते पण महामूढ ठे. कारण के मैथुनसेवनथी बीजो कोइ पण धर्मनथी तेमज कोइ मोक्ष नथी, तेमज सुख नथी. इति चार्वाक मत संक्षेपवर्णन.

पूर्वोक्त मतोनुं जे वर्णन करेल ठे, तेउना उपदेशक सर्व कुयुरु ठे. कारण के तेउना मत युक्ति प्रमाणथी खंडित थइजाय ठे. तेमज तेउ पूर्वापरव्याहत अने विरोधी ठे.

पूर्वपक्षः—अहो जैन ! अरिहंतनां कहेलां तत्त्वो उपर तमने अत्यंत राग ठे, तेथी तमे पोतानो मत निर्दोष ठरावो ठो, अने अमारा मतने पूर्वापरविरोधी कहो ठो, परंतु अमारा मतमां कांश्चपण पूर्वापरव्याहृतपणुं नथी, कारण के अमारो मत तदन निर्दोष ठे. तेथी अमारा मतमां कलंक देवुं ते अमृतना पुंजमां मशीनुं (वा माखीनुं अंग) विंडु नाखवा समान ठे.

उत्तरपक्षः—हेवादियो ? तमे पोत पोताना मतनो पक्षपात ठोडी, मध्यस्थपणुं अवलंबन करी, निरजिमानता अंगीकार करी, तेमज सुन्दर बुद्धि धारण करी श्रवण करो. हुं तमारा मतोमां पूर्वापरव्याहृतपणुं वतावुं तुं. प्रथम बौद्ध मतमां पूर्वापरविरोध वताववो शुरू करियें ठियें.

बौद्धमतमां सर्व पदार्थ क्षणजंगुर कहीने पठी आ प्रमाणे कह्युं ठे. “ नाननुकृतान्वयव्यतिरेकं कारणं नाकारणं विषय इति ” अर्थः— ज्ञान, अर्थ विद्यमान उतांज उत्पन्न थाय ठे, परंतु अर्थ विना थतुं नथी. एवीरीतें अनुकृत अन्वय व्यतिरेक अर्थ ज्ञानने ठे, अने कारण जेथकी अर्थज्ञान उत्पन्न थाय ठे, ते कारणनेज विषय करे ठे. आ केहेवाथी अर्थने वे क्षण स्थितिवालो कह्यो. ते आ प्रमाणे. अर्थरूप कारणथी ज्ञान कार्य उत्पन्न थाय ठे, अने एकज समयमां कारण, कार्य, उत्पन्न थतां नथी, त्यारे तो ज्ञान पोताना जनक अर्थनेज ग्रहण करे ठे. “ ना परं नाकारणं विषय इति वचनात् ” ॥ ज्यारे ए प्रमाणे थयुं त्यारे तो अर्थने वे समयनी स्थिति स्वात्ताविकरीतें थइ गइ. अने बौद्धमतमां वे समय स्थितिवालो कोइ पदार्थ नथी. एक तो आ पूर्वापरविरोध ठे.

तथा “ नाकारणं विषय इत्युक्तं ” जे पदार्थ ज्ञाननी उत्पत्तिमां कारण नथी, ते पदार्थने ज्ञान विषयपण करतुं नथी. एम कहा उतां फरी योगिप्रत्यक्षज्ञानने अतीत अनागत पदार्थोतुं जाणनार कहेल ठे, अने अतीत पदार्थ तो नष्ट थइगयेल ठे, तथा अनागत पदार्थ उत्पन्न पण थयेल नथी, ते कारणथी अतीत, अनागत पदार्थ ज्ञानना कारण थइ शकता नथी, तो आ कारणने योगिप्रत्यक्षना विषय केहेवां, आ बीजो पूर्वापरविरोध ठे.

तेबीज रीतें साध्य साधनोनी व्याप्ति, तेमज ग्राहकव्याप्ति ग्रहण क-

रावनारने, कारणपणाना अज्ञावधी त्रिकालगत अर्थने विषय कहेनारने केम पूर्वापर व्याघात यशे नहि ? कारण के कारणनेज प्रमाणनो विषय मानेल ठे. ते वास्ते त्रीजो पूर्वापर विरोध ठे.

तथा क्षणक्षय अंगीकार करवामां जेनो काल जित्त जित्त ठे, एवा जे अन्वयव्यतिरेक, तेनी प्रतिपत्तिनो संजव थतो नथी, त्यारे तो साच्य साधनोनी त्रिकाल विषयव्याप्तिग्रहणमाननारने पूर्वापर व्याहृति केम नहि ? आ चोथो पूर्वापरविरोध ठे.

तथा सर्व पदार्थोने. क्षणक्षयी मानीने पठी वुळें एम कशुं ठे. ॥ श्लोक ॥ इत एकन्वते कल्पे, शक्त्या मे पुरुषोद्दतः ॥ तेन कर्मविपाकेन, पादे विद्धोस्मि जिह्मवः ॥ १ ॥ आ श्लोकमां जन्मांतर विषयमां शब्दनो प्रयोग क्षणक्षयविरुद्ध घोळतां थकां वुळ्णे पूर्वापरविरोध केम न केहेजो जोश्यें आ पांचमो पूर्वापरविरोध ठे.

तथा निरंश सर्व वस्तु ठे एम प्रथम कहीने पठी फरी “ हिंसाविरतिदानचित्तस्व संवेदनं अरुखगतं सद्बुध्य चेतनत्वस्वर्गप्रापण शक्त्यादिकं गृह्णदपि स्वर्गप्रापणशक्त्यादेरंशस्येति सांशतां पश्चाद्दतः सौगतस्य कथं पूर्वापरविरुद्धं वचोन स्यात् ” ए ठाो विरोध ठे.

तेवीज रीतें निर्विकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण नीलादि वस्तुठने सर्वप्रकारथी ग्रहण करतां ठतां नीलादि अंशविषे निर्णय उत्पन्न करे ठे, परंतु नीलादि अर्थगत क्षणक्षय अंशविषय निर्णय उत्पन्न करता नथी, एम सांशताने कहेतां थकां सौगतने पूर्वापरवचनविरोध सुबोधज ठे. अ सातमो विरोध ठे.

तथा हेतुने त्रण रूपवाला माने ठे, अने संशयने वे उल्लेखवाला माने ठे तेमज कहे ठे, ठतां सांश वस्तुने मानता नथी, आ पण आ. ठमो पूर्वापरविरोध ठे.

तथा परस्पर नहि मलेला परमाणु निकटसंबंधवाला एकत्र थइने घटादिरूपपणे प्रतिज्ञास थायठे, परंतु पोतपोतामां अंगांगीजावरूपें कोइपण कार्य आरंज करता नथी. आ वौद्धेनो मतठे. तेमां दूषण ए ठे कें परमाणुठें पोतपोतानामां नहि मली जवाधी घटनो एकजाग ज्यारे अमे हाथथी पकडियें त्यारे संपूर्ण घटने नहि रेहेवुं जोश्यें. तथा घटने एक जा-

गथी उठावतां घटनो एक ज्ञागज उठवो जोइये, परंतु संपूर्णघट नहि उठवो जोइये. तथा ज्यारे घटने तेनो कांठोप कडी अमे खेंचीये, त्यारे घटनो एकदेशज अमारीपासे आववो जोइए, परंतु संपूर्ण घट न आववो जोइये, अने जलादिधारणरूप घटने अर्थक्रियालक्षण सत्व, अंगीकार करवा थकी सौगतोए परमाणुउनुं मलबुं मानेलठे, अने तेना मतमां परमाणुउनुं मलबुं ठे नहि; ते कारणथी आनवमो पूर्वापरविरोध ठे. इत्यादि बौद्धमतमां अनेक पूर्वापरविरोधठे.

हवे बौद्धमतनुं थोडुं खंडन पण लखियें ठियें. बौद्धोनो एवो मत ठे के सर्व पदार्थ नैरात्म्य ठे, अर्थात् आत्मस्वरूपें, पोताना स्वरूपथी सदा स्थिर रेहेवावाला नथी, एवी जे जावना, तेनुं नाम नैरात्म्यजावना ठे. नैरात्म्यजावना रागादि क्लेशोनो नाश करनारी ठे. जुउं. ज्यारे नैरात्म्यजावना थशे त्यारे पोताने पोताविपे, तथा पुत्र, जाई, जार्या, आदिविपे पण आत्मीय अज्जिनिवेश नहि थाय, अर्थात् "आ मारां ठे" एवो मोह नहि थाय. कारण के जे पोताने उपकारी ठे ते आत्मीय ठे, अने जे पोताने प्रतिघातक ठे ते द्वेष ठे. ज्यारे आत्माज नथी, परंतु पूर्वापर ऋण तुटेलाउनुं अनुसंधान ठे, अने पूर्व पूर्व हेतुथी प्रतिबद्ध ज्ञान ऋण, तेज तेवी रीतें उत्पन्न थाय ठे, त्यारे कोण कोनो उपकारक तथा उपघातक ठे ? कारण के ऋणो, ऋणमात्र रेहेवाथी परमार्थथी उपकार, अनुपकार करीशकता नथी. ते वास्ते तत्ववेदियोने पोताना पुत्रादिमां आत्मीय अज्जिनिवेश नथी. तेमज वैरीयोविपे द्वेष नथी. अने लोकोने अनात्मीय पदार्थोमां जे आत्मीय अज्जिनिवेश ठे, ते अतत्वमूल होवाथी अनादि वासनाना परिपाकें करेल ठे. एम जाणबुं.

प्रश्नः—जो परमार्थथी उपकार्युपकारक जाव नथी तो एम केम कहो ठो के जगवान् सुगत करुणावडे सर्व जीवोना उपकारवास्ते देशना आपता हवा ? अने ऋणिकपणुं पण जो एकांतज ठे तो तो तत्ववेत्ता पण एक ऋणपठी नाश पाम्या, अने तत्ववेत्ता पण जाणता हता के हुं भूतकालमां हतो नहि अने जविष्यमां होवानो नथी, तो पठी मोहवास्ते शा माटे यत्न करे ?

उत्तरः—तमे जे कछुं ते अमारो अज्जिप्राय नहि जाणवाथी अयुक्त ठे.

जगवान् प्राचीन अवस्थाविषे अवस्थित थे, अने सकल जगत्तुने राग-
द्वेषादिदुःखोधी संकुल जाणतां थकां, केवीरीतें आ सर्व जगत्तुं दुःख
मारार्थी दूर थाय एवी दया उत्पन्न थवाथी नेरात्म्य द्वाणिकत्वादि जा-
णतां ठतांपण ते उपकार करवा योग्य जीवोने निःक्लेशक्षण उत्पन्न
करवावास्ते स्वप्रजाहितकर राजानीपेठे पोतानी संतति बुद्धिविषे, सकल
जगत् साक्षात् करवाने समर्थ एवी पोतानी संततिगत विशिष्टक्षणनी उ-
त्पत्तिवास्ते यल आरंज करेठे. कारण के सफल जगत् साक्षात्कार
कल्याविना सर्वने अक्षणविधान उपकार करवो अशक्य थाय तेथी समु-
त्पन्न केवल ज्ञान पूर्वस्थापन कृपाना विशेष संस्कारवशथी जगवान् कृता-
र्थज ठे तो . १ देशना देवामां प्रवृत्त थायठे. तेथी ते देशना सांजली-
ने निर्मल बुद्धिथी नेरात्म्यतत्व विचारतां थकां जीवनेजावनाप्रकर्षे वि-
शेषथी वेराग्य उत्पन्न थायठे, तेथी अनुक्रमें मुक्तिलाज थायठे. अने जे
आत्माने मानेठे तेने मुक्तिनो संजव नथी, कारण के परमार्थथी आत्मा
विद्यमान ते आत्मा स्नेहना वशथी ते आत्माने सुखी थवानी तृष्णा
थशे, अने तृष्णाने वश थवाथी सुखनां साधनोविषे ते प्रवृत्त थशे, एम
ज्यारे गुणोमां राग करशे, ते रागथी ज्यांसुधी आत्मानिनिवेश रद्देशे
त्यांसुधी संसार ठे. ॥ आह च ॥ श्लोक ॥ ये पश्यंत्यात्मानं, तत्रास्याहमिति
शाश्वतः स्नेहः ॥ स्नेहात् सुखेषु तृप्यति, तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते ॥
१ ॥ गुणदर्शि परितृप्यन्, ममेति तत्साधनान्युपादत्ते ॥ तेनात्मानि-
निवेशो, यावत्तावत्संसारः ॥ १ ॥ इति बौद्धमत पूर्वपक्ष.

हवे जैनमतनी तरफथी उत्तरपक्षः— आ सर्व कहेवुं तमारा अंतःकर-
णमां वासकरेला महामोहना विलासतुं सूचक ठे. आत्मानो अज्ञाव थर्ता
बंध मोक्षादिनुं एकाधिकरणत्व नहि थाय ते चतावियें ठियें.

हे बौद्धो ! तमे आत्मा मानता नथी, परंतु पूर्वापर क्षण तूटेलातुं अनु-
संधान ज्ञान क्षणोनेज मानोठो. ज्यारे एम मानशो त्यारे बंध अन्यने
थयो, अने मुक्ति अन्यनी थइ; क्रुधा अन्यने लागी, तृप्ति अन्यने थइ;
अनुजव अन्यने थयो, अने स्मरण अन्यने थयुं; जुलाव अन्यें लीधो,
अने रोगरहित अन्य थयो; तपःक्लेश अन्यने थयो, अने स्वर्गादिफल
अन्यने प्राप्त थयुं; अन्यासनी प्रवृत्ति अन्यने थइ, अने अन्यासतुं फल

अन्यने थयुं; आ सर्व हकीकत अतिप्रसंग होवार्थी युक्तियुक्त नथी. जो एम कहो के संताननी अपेक्षार्थी बंध, मोक्षादिनुं एक अधिकरण थइश-केठे, तो तेपण ठिक नथी. कारण के संतानपण तमारा मतमां थइ शकतां नथी जुड संतान जे ठे ते संतानिथी जिन्नठे के अजिन्नठे? जो कहो के जिन्नठे तो पठी वे विकल्प अमे तमने सोंपियें ठियें. ते संतान नित्य ठे के अनित्य ठे? जो कहो के नित्य ठे तो तेने बंध मोक्षादिनो संभव नथी, कारण के सर्वकाल एकस्वभाव होवार्थी तेनी अवस्था विचित्र थइ शकती नथी. अने तमेतो नित्य मानता नथी “ सर्व द्वाणिकमिति वचनात् ” हवे जो कहो के अनित्य ठे तो तो तेज प्राचीन बंधमोक्षादि वैय्यधिकरण दूषण प्राप्त थयुं. जो कहो के अजिन्न ठे, तो तो तेनार्थी अजिन्न होवार्थी तेना स्वरूपनी पेठे संतानिज थया, संतान थया नहि. ज्यारे एम थया त्यारे तो तदवस्थज पूर्वनुं दूषण ठे. जो कहो के द्वाणार्थी अन्य संतान कोइ नथी परंतु जे कार्यकारणभाव प्रबंधार्थी द्वाण जावठे, तेज संतान ठे, ते वास्ते दोष नथी; आ पण तमारुं केहेनुं अयुक्त ठे, कारण के तमारा मतमां कार्यकारणभावपण घटतो नथी. तेज वतावियें ठियें. प्रतीत्यसमुत्पादमात्र कार्यकारणभाव ठे, तेथी यथाविवक्षित घटद्वाण अनंतर घटद्वाण ठे, तेमज पटादिद्वाणपण ठे, अने जेम घटद्वाणार्थी पे-हेला अनंतर विवक्षित घटद्वाण ठे तेमज पटादिद्वाणपण ठे, त्यारे तो केवीरीतें प्रतिनियत कार्यकारणभावनो अवगम थाय ?

एक वीजुं पण दूषण ठे ते ए ठे के. कारणार्थी जे कार्य उत्पन्न थाय ठे, ते सत् उत्पन्न थाय ठे के असत् उत्पन्न थाय ठे ? जो कहो के सत् उत्पन्न थाय ठे तो कार्योत्पत्तिकालमां पण कारण सत् थयुं; त्यारे तो कार्य कारणने समकालतानो प्रसंग बन्यो; अने एककालमां वे पदार्थों-ना कार्यकारणभाव मान्या नथी, नहि तो माता पुत्रनो व्यवहार बनशे नहि. घटपटादिने पण परस्पर कार्यकारणभावनो प्रसंग थइ ज-शे. जो असत् पद मानशे तो तेपण अयुक्त ठे, कारण के जे असत् ठे, ते कार्य थइ शकतुं नथी. नहि तो स्वरशुंगार्थीपण कार्य उत्पन्न थयुं जो-इये. वली अत्यंताभाव, प्रध्वंसाभाव, वने जगाए वस्तुसत्तानो संभव होवार्थी, आ वनेनुं कांइपण विशेष थयुं नहि, जो कहो के प्रध्वंसा-

जावमां वस्तु हती, ते कारणथी हेतु ठे, त्यारे तो ज्यारे हती त्यारे हेतु न होतो, अन्यदा हेतु थयो, एम तो बहु सारी तत्वव्यवस्था थइ.

वदी एक वीजी वात ठे के- तज्ञावे जाव एवा अवगममां कार्य कारणजावनो अवगम ठे, ते जो तज्ञावे जाव ठे, ते शुं प्रत्यक्षथी प्रतीत थाय ठे के अनुमानथी प्रतीत थाय ठे ? प्रत्यक्षथी तो प्रतीत थतो नथी, कारण के पूर्ववस्तुगत प्रत्यक्षथी पूर्ववस्तु परिच्छिन्न थइ, थने उत्तर वस्तुगतथी उत्तरवस्तु परिच्छिन्न थइ, थने आ वंनेनुं अनुसंधान करनार त्रीजुं स्वरूप तो कोइ मानता नथी, ते कारणथी ते अनंतर तेनो जाव ठे, एवो केम अवगम थाय ? ते तो तेने पण प्रत्यक्षपूर्वक होवाथी अनुमानथी पण न थाय, थने अनुमान तो लिंगलिंगिसंबंधग्रहणपूर्वक प्रवृत्त थाय ठे, थने लिंगलिंगिनो संबंध तो प्रत्यक्षथी ग्राह्य ठे, जो अनुमानथी संबंधग्रहण करियें, तो अनवस्था दूपण आवे ठे; थने कार्य कारणजावविषे प्रत्यक्ष प्रवृत्त थतुं नथी, ते कारणथी अनुमाननी पण प्रवृत्ति नथी. तेवीजरीतें ज्ञानना वंनेक्षणोना परस्पर कार्यकारणजावनो अवगमपण निषेध थयो जाणवो. त्यांपण स्वसंवेदनथी पोतपोताना रूप ग्रहणमां परस्परस्वरूप अनवधारणथी तदनंतर हुं उत्पन्न थयो हुं, थने हुं तेनो जनक हुं, एवी अवगति नहि होवाथी तमारा मतमां कार्य कारणजाव नथी, तेमज तेनो अवगमपण नथी, तेथी, एक संतति पतित थवाथी बंधमोक्षणुं एकाधिकरण ठे, आ केहेतुं तमारुं मृपा ठे. आ केहेवाथी जे कहेठे के उपादेय उपादान क्षणोना परस्पर वास्यवासकजाव होवाथी, उत्तरोत्तर विशिष्ट विशिष्टतर क्षणोत्पत्तिथी मुक्तिनो संजव ठे, तेपण उपादेय उपादान जावना उक्तरीतिथी अनुपपद्यमान होवाथी प्रतिक्षित जाणवां; थने जे वास्यवासकजाव कहेल ठे, तेपण तलफूलनीपेठे एककालमां वंने होय त्यारे होइ शके ठे. "उक्तं चान्यैरपि" "अवस्थिताहि वास्यंते, जावाजावैरवस्थितेः" तो केवीरीतें उपादेय उपादान क्षण वंनेने परस्पर असाहित्य होवाथी वास्यवासकजाव होय ? उक्तं च ॥ वास्यवासकयोश्चैव, मसाहित्यान्नवासता ॥ पूर्वक्षणैरनुत्पन्नो, वास्यतै नोत्तरः क्षणः ॥ १ ॥ उत्तरेण विनष्टत्व, न च पूर्वस्य वासना ॥ इति ॥

एक वीजी वात एवी ठे के वासना वासकथी चिन्न ठे के अचिन्न ठे ?

जो कहो के जिन ठे तो तो ते वासनार्ये करी शून्य होवाथी अन्यने वस्तु अंतरवत् कदापि वासित करशे नहि. जो कहो के अजिन ठे. तो तो वास्यक्षणमां वासनानो संक्रम कदापि थशे नहि. तेवी रीतें तेना स्वरूपनी पेठे तेनाथी अजिन होवाथी वासकनी पण संक्रांति ठे. जो कहो के संक्रांति ठे तो अन्वयनो प्रसंग आवशे, तेथी तमारुं केहेवुं कोइपण कामनुं नथी, अने तमे जे कछुं हतुं के सकलजगत् रागद्वेषादि दुःखसंकुल जाणतां थकां सकल जगतनो दुःखोथी केवीरीतें हुं उद्धार करं ? इत्यादि. आ पण पूर्वापर असंबंध ठे. कारण के तमारो द्वाणिक मतज पूर्वापर तुटेलो परमार्थथी असत् ठे. वही द्वाणोनुं रेहेवानुं कालमान एक परमाणुना व्यतिक्रममात्र ठे. ते कारणथी उत्पत्तिथी व्यतिरिक्त तेनी कोइ क्रिया उपपद्यमान थती नथी. “ जूमियेपां क्रियासैव, कारकं सैव वोच्यते ” इति वचनात् ॥ तेथी ज्ञानद्वाणोनुं उत्पत्ति अनंतर गमनथी, अवस्थान नथी, पूर्वापर द्वाणोथी अनुगम नथी, ते कारणथी तेउने परस्परस्वरूप अवधारण नथी, तेमज उत्पत्ति अनंतर कोइ व्यापार नथी, तो केवीरीतें मारी सन्मुख आ अर्थ साक्षात् प्रतिज्ञासे ठे ? आ प्रकारें अर्थनो निश्चयमात्र करवामां पण अनेकद्वाणोनु संभव ठे; अनुस्यूत (संतति रूप) थइ उत्पन्न थाय ठे. अने ते संततिरूपना अज्ञावथी सकल जगत् रागद्वेषादि दुःखसंकुलतानो क्यांथी विचार होय ? अने दीर्घकालना अनुसंधानथी शास्त्रार्थनुं चिंतवन पण क्यांथी होय ? जेना प्रज्ञावथी सम्यक् उपाय जाणीने विशेष दयाथी मोक्षवास्ते घटना थाय ?

पूर्वपक्षः— आ जे सर्व व्यवहार ठे ते ज्ञानद्वाणोनी संततिनी अपेक्षाथी ठे, पठी तमे शा वास्ते आ पक्षमां दूषण आपो ठे ?

उत्तरपक्षः— सुकुमारप्रज्ञोदेवानांप्रियः सदैव सप्तघटिकामध्यमिष्टान्नजोजनमनोज्ञाशयनीयशयनान्यासेन सुखैधितो” परंतु वस्तुना यथार्थतत्त्वविचारवामां तमारी बुद्धि कुशल थइ नथी तेथी अमारुं केहेवुं तमारी समजमां आवतुं नथी. कारण के ज्ञानसंततिविषे पण तेज दूषण ठे. जे अमे उपर कहेल ठे तेज वतावियें ठियें. वैकल्पिक तेमज अत्रैकल्पिक जे ज्ञानद्वाण ठे, ते परस्पर अनुगमना अज्ञावथी परस्पर स्वरूप जाणती नथी, अने द्वाणमात्र उपरांत रेहेती नथी, त्यारे हवे केवी रीतें

पूर्वापर अनुसंधानरूप दीर्घकालिक सकल जगत् दुःखिपणानो विचार शास्त्रविचारणरूप आ व्यवहार होय ? आंख मीचीने जरा विचारो तो सही ? इत्यादि. वौद्धमतनुं खंडन. नंदिसिद्धांत, संमत्तितर्क, द्वादशारनयचक्र, अनेकांतजयपताका, स्याद्वादरत्नाकर, स्याद्वादरत्नावतारिका प्रमुख अनेक शास्त्रोमां बहु सारीरीतें करेल ठे. ते जोइलेचुं. इति वौद्धमतखंडन ॥

हवे नैयायिकमतमां पूर्वापर व्याहृतपणुं ठे ते कांइक लखियें ठियें. सत्तायोगथी सत्त्व ठे एम कहीने सामान्य, विशेष, समवाय, आ पदार्थोने सत्ताना योग विनाज सत् केहेनारने पूर्वापरवचन व्याहृतपणुं केम न थाय ?

१ ज्ञान पोते पोताने जाणतुं नथी, पोताने पोताविषे क्रियानो विरोध ठे, ते कारणथी; एम कहीने फरी कहेठे के ईश्वरनुं जे ज्ञान ठे ते पोते पोताने जाण्ठे, अने स्वात्माविषे क्रियाना विरोध मानता नथी, तो हवे केम स्ववचनविरोध न थयो ?

२ वली दीपक जे ठे ते पोते पोतानो प्रकाश करनार ठे, अने अहियां स्वात्मविषे क्रियाविरोध मानता नथी, आ पूर्वापर वचन व्याहृत ठे.

३ वीजाने ठगवावास्ते ठळ, जाति, निग्रहस्थान, तेउने तत्वरूपपणाथी उपदेश करतां थकां अक्षपादरूपिनुं वैराग्यवर्णन एवुं ठे के जेम अंधकारने प्रकाशवाळुं केहेवुं तेना सदृश आ केम पूर्वापरव्याहृत नहि.

४ आकाशने निरवयवी स्वीकारीने फरी तेनो गुण जे शब्द ठे ते एकदेशमां सुणावी आपे ठे, सर्वत्र नहि. तेथी तो आकाशने सांशता थइ गइ. आ पूर्वापरव्याहृतपणुं ठे.

५ सत्ता योगथी सत्त्व ठे, अने योग सर्व वस्तुउमां सांशता होवार्थी थाय ठे, अने सामान्यने निरंश एक माने ठे. आ पूर्वापरव्याहृत वचन केम नहि ?

६ समवाय, नित्य एक स्वप्नाव माने ठे, अने सर्व समवायी पदार्थोनी साथे संबंध नैयत्य (स्वसत्ता)थी अवाथी समवाय, अनेक अनेक स्वप्नाववालो थइ गयो. आथी तो पूर्वापरविरोध थयो.

७ “ अर्थवत् प्रमाणं ” अर्थ सहकारी ठे जेनो ते अर्थवत् प्रमाण, एम कहीने फरी योगिप्रत्यक्षने अतीतादि अर्थ विषय केहेनारने केम

पूर्वापर विरोध न होय ? कारण के अतीतादि जे ठे ते विनष्ट, अनुत्पन्न होवाथी सहकारी थइ शकता नथी.

ए तथा स्मृति गृहीतग्राहि होवाथी प्रमाण मानता नथी. “अनर्थ जन्यत्वेन” अर्थ विना होवाथी, तेमज गृहीतग्राही होवाथी प्रमाण नथी; अने धारावाही ज्ञान तो गृहीतग्राही ठे, तेने पण अप्रमाणता होवी जोइयें. परंतु धारावाहि ज्ञानने नैयायिक तेमज वैशेषिक प्रमाण माने ठे. अने स्मृतिने अनर्थजन्य होवाथी ज्यारे अप्रमाण मानी, त्यारे अतीत अनागत अनुमानपण अनर्थजन्य होवाथी प्रमाण न थयां; अने अनुमानने शब्दनी पेठे त्रिकालविषयक माने. ठे, कारण के धुमाडाथी वर्तमान अग्नि अनुमेय ठे, अने मेघोन्नतिथी थवानी वृष्टि, तेमज नदी-नुं पूर देखवाथी थयेली वृष्टिनुं अनुमान, आ वंने अनर्थजन्य ठे, तो पठी धारावाहि ज्ञान, अने अनर्थजन्य अनुमान, आ वंनेने तो प्रमाण मानवां, अने स्मृतिने प्रमाण नहि मानवी, आ पूर्वापरविरोध ठे.

१० ईश्वरनुं सर्वार्थविषय प्रत्यक्ष ज्ञान, इंद्रियार्थसन्निकर्षनिरपेक्ष मानोठो ? के इंद्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्न मानोठो ? जो एम कहो के इंद्रियार्थसन्निकर्षनिरपेक्ष मानियें ठियें, तो तो “ इंद्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमित्यत्र सूत्रे ” सन्निकर्षोपादान निरर्थक थशे; कारण के ईश्वरप्रत्यक्षज्ञान सन्निकर्ष विना पण थइ शके ठे, जो एम कहो के ईश्वरप्रत्यक्षज्ञान, इंद्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्न मानियें ठियें, तो तो ईश्वरना मनने अणुमात्र प्रमाण होवाथी युगपत् सर्वपदार्थोंनी साथे संयोग नहि थशे; त्यारे तो ईश्वर ज्यारे एक पदार्थने जाणशे, त्यारे वीजो पदार्थ विद्यमान ठतां पण तेने जाणी शकशे नहि; तेथी तो अमारी जेम ते ईश्वरने सर्वज्ञता कदापि प्राप्त थशे नहि, कारण के सर्व पदार्थोंनी साथे युगपत् सन्निकर्ष तो थइ शकतो नथी; जो एम कहो के सर्वपदार्थोंने अनुक्रमें जाणवाथी सर्वज्ञ ठे, तो तो दीर्घकालें सर्वपदार्थोंने जाणवाथी ईश्वरनी जेम अमने पण सर्वज्ञ केहेवा जोइयें. वली एक वीजी वात ए ठे के, अतीत, अनागत पदार्थ जे ठे ते विनष्ट, अनुत्पन्न होवाथी मननी साथे तेनो सन्निकर्ष थइ शकतो नथी; अने वर्तमान पदार्थनो संयोग थाय ठे; तथा अतीत अनागत पदार्थ तो ते अवसरे असत् ठे, तेथी म-

इश्वरनुं ज्ञान केवीरीतें अतीत अनागत अर्थनुं ग्राहक होइ शके ? अने तमे तो ईश्वरनुं ज्ञान सर्वार्थग्राहक मानो ठो, तेथी पूर्वापरविरोध सहज थइ गयो. तेवीज रीतें योगियोने पण सर्वार्थग्राहक ज्ञाननो दुर्धर विरोध जाणी लेवो.

११ कार्यद्रव्य प्रथम उत्पन्न थवाथी तेनुं रूप पाठलथी उत्पन्न थाय ठे, आश्चर्य विना गुण केवीरीतें उत्पन्न थइ शके ? एम केहेवा अनंतर कहेठे के कार्यद्रव्यनो विनाश थया पठी तेना रूपनो नाश थाय ठे. आ पूर्वापर विरोध ठे, कारण के ज्यारे कार्यद्रव्यनो नाश थयो त्यारे आश्चर्य विना रूप केवीरीतें रही शक्युं ?

नैयायिक तेमज वैशेषिक जगतना कर्ता ईश्वरने माने ठे. आ पण ते-उनुं एक महामूढतानुं चिह्न ठे; कारण के ईश्वर, जगतना कर्ता कोइपण प्रमाणथी सिद्ध थइ शकता नथी. आ हकीकतनुं बीजा परिच्छेदमां बहुज विस्तारथी वर्णन करेलुं ठे, तो पण जव्य जीवने बोध थवा वास्ते थोडो विस्तार अहियां पण करियें ठियें.

केटलाएक कहेठे के, साधुनुंपर उपकारवास्ते तेमज दुष्टोनो संहार करवावास्ते ईश्वर युगयुगमां अवतार धारण करते; तेमज सुगतादि केटलाएक एम कहेठे के, मोक्ष प्राप्त कर्या पठी पोताना तीर्थने क्लेशमां देखीने जगवान् फरी अवतार धारण करते. यथा ॥ ज्ञानिनो धर्मतीर्थस्य, कर्तारः परमं पदं ॥ गत्वा गच्छंति चूयोपि, ज्वं तीर्थनिकारतइति ॥ १ ॥ जे फरी संसारमां अवतार लहेठे, ते परमार्थथी मोक्षरूप थयाज नथी, कारण के तेनां सर्व कर्म क्षय थयां नथी. जो मोहादि कर्म क्षय थयां, होय तो ते पोताना मतनो तिरस्कार देखीने शावास्ते पीडा पामे ? तेमज अवतार धारण करे ? जो साधुनुंना उपकार अर्थे तेमज दुष्टोना संहार वास्ते अवतार लहेठे, एम होय तो तो ते असमर्थ थया, कारण के अवतार लीधा विना ते काम करी शकता नथी, जो करी शकता होत तो, गर्जावासमां शा वास्ते पडे ? ते उपरथी सावीत थायठे के तेनां सर्व कर्म क्षय थयां नथी, जो क्षय थयां होत तो कदापि अवतार लेत नहि ॥ यदुक्तं ॥ दग्धे बीजे यथात्यंतं, प्रादुर्जवति नांकुरः ॥ कर्मबीजे तथा दग्धे, न रोहति जवांकुरः ॥ १ ॥ उक्तं च श्रीसिद्धसेनदिवाकरपादैरपि ॥ जवाजिगामुकानां,

प्रबलमोहविजृम्भितं ॥ श्लोक ॥ दग्धेधनः पुनरुपैति जवं प्रमथ्य, निर्वा-
णमप्यनवधारितजीरनिष्ठं ॥ मुक्तः स्वयं कृततनुश्च परार्थशूर, स्वव्यासन
प्रतिहृतेष्विह मोहराज्यं ॥ २ ॥ इत्यक्षं विस्तरेण ॥

पूर्वपक्षः—सुगतादि, ईश्वर जत्वे न होय, परंतु सृष्टिना कर्त्ता तो म-
हादेव ईश्वर ठे, ते केम मानता नथी ?

उत्तरपक्षः—जगत्कर्त्ता ईश्वरनी सिद्धिमां प्रमाणनो अज्ञाव ठे, ते का-
रणथी मानता नथी.

पूर्वपक्षः—जगत्कर्त्तानी सिद्धिमां प्रमाण ठे. पृथिव्यादि कोइ बुद्धि-
माननां करेलां ठे. घटादि जेम कार्यरूप होवार्थी; आ हेतु असिद्ध
नथी. पृथिव्यादि सावयव होवार्थी कार्यत्वनी प्रसिद्धि होवार्थी; तेमज
जुळ. पृथिवी, पर्वत, वृक्षादि सर्व सावयव होवार्थी घटवत् कार्यरूप ठे,
वली आ हेतु विरुद्ध पण नथी, निश्चयपूर्वक करेला घटादिविषे का-
र्यत्वहेतु देखवार्थी, वली जेनो कर्त्ता नथी तेनाथी व्यावृत्त होवार्थी अ-
नेकांतिक पण नथी, तेमज प्रत्यक्ष आगमपूर्वक अवाधित विषय
होवार्थी कालात्ययापदिष्ट पण नथी, आ निर्दोष हेतुथी जगत्कर्त्ता ई-
श्वर सिद्ध थाय ठे.

उत्तरपक्षः— प्रथम पृथिव्यादि बुद्धिमाननां वनावेलां ठे, आ सिद्ध क-
रवा वास्ते कार्यत्वहेतु जे तमे कहोठो, ते हेतु शुं सावयवत्व ठे ? के
प्राग्वत् स्वकारणसत्ता समवाय ठे ? के “कृतं” एवा प्रत्ययनो विषयत्व
ठे ? के विकारित्व ठे ? जो एम कहो के सावयवत्वस्वरूप ठे, तो आ
सावयवपणुं शुं अवयवोविषे वर्तमानत्व ठे ? के अवयवोथी आरज्यमा-
णत्व ठे ? के प्रदेशत्व ठे ? के सावयव एवी बुद्धिविषयत्व ठे ?

प्रथम पक्षविषे अवयव सामान्य होवार्थी आ हेतु अनेकांतिक ठे.
तथा अवयवोविषे वर्तमान पण निरवयव तेमज अकार्य कहे ठे, तथा
बीजा पक्षमां हेतु साध्य समान ठे. जेवी रीतें पृथिवी आदिने कार्यत्व
साध्य ठे, तेवीजरीतें परमाणु आदिने अवयव आरज्यत्व ठे. बीजा प-
क्षमां आकाशनी साथे हेतु अनेकांतिक ठे, कारण के आकाश प्रदेश-
वालुं ठे, परंतु कार्य नथी. चोथा पक्षमां आकाशनी साथे हेतु व्यजि-

चारी ठे, कारण के जे व्यापक होय ठे, ते निरवयव होता नथी, अने जे निरवयव होय ठे ते परमाणुवत् व्यापक होता नथी.

तथा प्रागसतः (असत्पूर्वी) स्वकारण सत्ता समवाय कार्यत्व पण नथी, कारण के तेनां लक्षणनो अज्ञाव होवार्थी तेनुं नित्यपणुं ठे. जो तेनुं लक्षण हशे तो तो पृथ्वी आदिना कार्यत्वने पण नित्यतानो प्रसंग आवशे, त्यारे तो बुद्धिमाननुं वनावेल केवीरीतें सिद्ध करशो ? एक वीजुं पण दूषण ए ठेके योगियोना सर्व कर्मद्वय थयां थकां पक्षांतपातिविषे अप्रवृत्त होवार्थी आ हेतु असिद्ध ठे, कारण के सत्ता, स्वकारणसमवाय आ वं-नेना अज्ञावार्थी, योगिप्रत्यक्ष प्रध्वंसाज्ञावरूप थइ जायठे.

तथा “कृतं” एवा प्रत्ययनुं जे विषयत्वठे, ते पण कार्यत्व थइ शकतुं नथी. खनन उत्सेचनादिथी कृतं आकाशं एवां अकार्यं आकाशमांपण वर्तमान होवार्थी अनेकांतिक ठे.

तथा विकारत्वने पण कार्यत्वनो अनुपंग ठे. सत् वस्तुनो जे अन्यज्ञाव, ते विकारित्व ठे, तो तो ईश्वरने पण विकारित्व पणुं ठे, अपर बुद्धिमत् हेतुकत्व प्रसंग आववार्थी अनवस्था थइ जशे. जो एम कहो के ईश्वर विकारी नथी, तो तो कार्यनुं कारित्वपणुं दुर्घट ठे. एवी रीतें कार्यस्वरूपने विचारतां थकां उपपद्यमान होवार्थी “कार्यत्वात्” आ हेतु असिद्ध ठे. वली एक वीजुं दूषण ए ठे के कदी थाय कदी न थाय, तेने लोकमां कार्यत्वनी प्रसिद्धि ठे, परंतु आ जगत् तो तमारा महेश्वरनी पेटे सदा सत्य होवार्थी तेनुं केवीरीतें कार्यत्व होय ?

पूर्वपक्षः— ते जगत्नी अंतर्गत तृणादिने कार्यत्व होवार्थी जगत्ने पण कार्यत्व ठे.

उत्तरपक्षः— महेश्वर अंतर्गत बुद्धि आदिने तथा परमाणु आदि अंतर्गत पाकज रूपादिने कार्यस्वरूप हावार्थी, महेश्वरने तथा परमाणु आदिने कार्यत्वनो अनुपंग थशे, त्यारे तो आ ईश्वरने बुद्धिमत् हेतुकत्व प्रसंगथी अनवस्था दूषण आवेठे, तथा अपसिद्धांतनो अनुपंग थायठे. तथा हे ईश्वरवादि ! जेम तेम करी जगत्ने कार्यत्वपणुं जले हो, परंतु कार्यमात्र हेतु तमे अहियां मानेल ठे ? के कार्यविशेष हेतु मानेलठे.

जो प्रथमपक्ष मानशो तो तो तेथी बुद्धिमत् कर्तृविशेषसिद्धि नथी, कारण के तेनी साथे व्याप्तिनी सिद्धि नथी, परंतु कर्तृ सामान्यनी सिद्धि थायठे. जो एमज मानशो तो तो हेतु अकिंचित्कर ठे. साध्यनी विरुद्ध साधवाथी हेतु विरुद्ध ठे, ते कारणथी कार्यत्वकृत बुद्धि उत्पादक बुद्धिमत् कर्तानी गमक नथी; अने जो सर्व सारूप्यमात्रथी गमकत्व होय तो तो वाष्प आदिने पण अग्नि प्रति गमकत्वनो प्रसंग थशे, अने महेश्वर आत्मत्वपणे सर्वजीव सदृश होवाथी १ संसारिपणानो, २ किंचित्सत्वपणानो, ३संपूर्ण जगत्ना अकर्तृत्वपणाना अनुमापकनो तेने अनुपंग ठे, कारण के तुल्य आक्षेप समाधान होवाथी; ते कारणथी वाष्प तेमज धूम आ वंने कोइ अंशे साम्य पण ठे, तोपण कांश्क एवुं विशेष ठे के जेथी धूम अग्निनो गमक ठे, परंतु वाष्पादि नथी. तेवीज रीतें पृथ्वी आदिने वीजां कार्योथी पण कांश्क विशेष अंगीकार करो.

जो वीजो पक्ष मानशो तो हेतु असिद्ध ठे, कार्यविशेषना अज्ञावथी. अथवा जीर्णकूप प्रासाद आदिनी पेठे अक्रिया देखनारानेपण कृत बुद्धि उत्पादकनो प्रसंग ठे, जो एम कहो के समारोपथी प्रसंग थतो नथी, तोपण वंने जगाए एक सदृश होवाथी केम थतो नथी? वंने जगाए कर्ताने अतींद्रियत्वना अविशेषथी.

पूर्वपक्षः— प्रामाणिकने अर्हियां कृतबुद्धि ठे.

उत्तरपक्षः— केवीरीतें त्यां तेने कृतत्वनो अवगम होय? अनुमानथी अथवा अनुमानांतरथी आव्य पक्षमां परस्पर आश्रय दूपणठे. जुज. सिद्ध विशेषण हेतुथी आ अनुमाननुं उत्थान ठे, तेनुं उत्थान थवाथी हेतुना विशेषणनी सिद्धि ठे; अने वीजापक्षमां अनुमानांतरने पण सविशेषण हेतुथी उत्थान थशे, त्यांपण अनुमानांतरथी तेनी सिद्धिठे. एवी रीतें अनवस्था दूपण आवेठे. ते कारणथी कृतबुद्धि उत्पादकत्वरूप विशेषण सिद्धि नथी, त्यारे तो विशेषण असिद्ध हेतु ठे.

वली जे कहेठे के खातप्रतिपूरित पृथ्वीना दृष्टांतथी कृतकोने आत्मविपें कृतबुद्धि उत्पादकत्वनो अज्ञाव ठे, तेपण असत् ठे. त्यां आकृति नूजागादि सारूप्यने तेना उत्पादकना अज्ञावथी, तेना अनुत्पादकनी उत्पत्तिथी. वली एम पण न केहेवुं के पृथ्वी आदिमांपण अकृत्रिम संस्थान

सारूप्यते, जेनाथी आकृतिमत्त्वबुद्धि उत्पन्न थायते, तेनेज न मान-
वाथी अपसिद्धांतनी प्रसक्ति थशे, एवी रीतें कृतबुद्धि उत्पादकत्वरूप
विशेषण असिद्ध थवाथी हेतुविशेषण असिद्ध ठे, ते सिद्ध थाउं तोपण
आ हेतु घटादिनी पेटे शरीरादिविशेषनेज बुद्धिमत्कर्त्ताने अहियां
साधवाथी हेतुविरुद्ध ठे.

प्रश्न:- एवीरीतें दृष्टांत दाष्टांतिक साम्य अन्वेषणमां सर्व जगाए
हेतुर्जनी अनुपपत्ति थशे.

उत्तर:- एम नथी, धूमादि अनुमानथी महानसथी बीजा साधारण अ-
ग्निनी प्रतिपत्तिथी; अहियांपण एवीजरीतें बुद्धिमत् सामान्य प्रसिद्धिथी
हेतुविरोध नथी, एमपण केहेवुं अयुक्तठे, कारण के दृश्यविशेष आधारनेज
ते सामान्यने कार्यत्वहेतुनी प्रसिद्धि ठे, परंतु अदृश्यविशेष आधारने
नथी, तेनी स्वप्नामांपण प्रतिपत्ति नथी. ते सामान्यवालाने खरशृंग आ-
धार ठे. तेवास्ते जेवा कारणथी जेवुं कार्य उपलब्ध थायते, तेवुंज अनुमान
करवुं योग्य ठे. यथावत् धर्मात्मक अग्निथी यावत् धर्मात्मकस्य धूमनीउत्पत्ति
ठे, सुदृढ प्रमाणथी प्रतिपन्नठे, तेवाज धूमथी तेवाज अग्निनुं अनुमान ठे.
एम कहीने साध्य साधन वंनेने विशेषणथी व्यासिविपे ग्रहण करतां थकां
सर्व अनुमाननी उधेद प्रसक्ति ठे. इत्यादि जे केहेवुं ठे तेपण खंडन थयुं.

तथा बीजने वाव्याविना जे तृणादि उत्पन्न थायते, तेनी साथे आ
कार्यत्वहेतु व्यञ्जिचारी ठे. अनेक कार्य देखवामां आवेते, तेजमांथी के-
टलांपकतो बुद्धिमान्नां करेलां देखायते, जेमके घटादि.

वली केटलांपक तेनाथी विपरीत देखायते, जेम के वाव्याविनानां
तृणादि. जो एम कहो के अमे सर्वने पद्ममां लइ लेशुं, तो तो "सश्या-
मस्तत्पुत्रत्वादितरतत्पुत्रवत् " इत्यादि पण गमक होवां जोइये, पठी
तो कोइपण हेतु व्यञ्जिचारी थशे नहि ज्यां ज्यां व्यञ्जिचार थशे, त्यां
त्यां तेने पद्ममां करी लेशे. तथा आ हेतु ईश्वर बुद्धि आदिथीपण व्य-
ञ्जिचारी ठे, ईश्वर बुद्धि आदिने कार्यत्व थयां थकांपण समवायि कारण-
थी ईश्वरादिथी जिन्न बुद्धिमत् पूर्वकत्वना अजावथी. जो अहीयां पण
एवीरीतें मानशो तो अनवस्था दूषण आवशे. तथा आ कार्यत्वहेतु
कालात्ययापदिष्ट पण ठे. वाव्याविना उत्पन्न थयेलां तृणादिविपे बुद्धि-

मत् कर्त्तानो अज्ञाव प्रत्यक्ष प्रमाणथी, अग्निना अनुष्णत्व साध्यविये इ-
व्यत्व हेतुवत् मालम पडेते.

प्रश्नः— अंकुर तृणादिनापण अदृश्य ईश्वर कर्त्ताते

उत्तरः— आपण ठीक नथी. त्यां अदृश्य ईश्वरनुं होवुं आज प्रमाण-
थीते? के कोइ बीजा प्रमाणथी ते? प्रथम पद्दमां चक्रक दूपण ते. आ
प्रमाणथी तेनो सज्ञाव सिद्ध थाय, तो अदृश्य होनार ईश्वरना अनुप-
लंजनी सिद्धि थाय, तेनी सिद्धि थतां कालात्ययापदिष्टनो अज्ञाव सिद्ध
थाय, तेनी पठी आ प्रमाणनी सिद्धि थाय, बीजो पद्द तो अयुक्तते. ई-
श्वरना ज्ञाव अवेदिक प्रमाणना अज्ञावथी होय, त्यां प्रमाणनो सद्ज्ञाव
तोपण ईश्वर अदृश्य होवामां शुं शरीरनुं अविद्यमानपणुं कारण ते?
१ के विद्यादि प्रज्ञावते? २ के जातिविशेषते? प्रथम पद्दमां अशरीरी
होवार्थी मुक्त आत्मावत् कर्त्तापणानी अनुपपत्ति ते.

प्रश्नः— शरीरनो अज्ञाव ठतां पण ज्ञानेवा प्रयत्न आश्रयत्वथी शरीर
उत्पन्न करीने ईश्वर कर्त्ता थइ शकेते.

उत्तरः— आपण आपनुं विना विचारनुंज केहेवुं ते, कारण के शरीर संव-
धथीज तेनी प्रेरणा थवार्थी शरीरनो अज्ञाव थतां मुक्त आत्मानी पेटे
तेनो असंज्ञव थवार्थी तेमज शरीरना अज्ञावथी ज्ञानादि आश्रयत्वनो
पण असंज्ञव ते, तेनी उत्पत्तिमां तेने निमित्त थवार्थी अन्यथा मुक्तात्माने
पण तेनी उत्पत्ति थशे. वली विद्यादि प्रज्ञाव अदृश्यपणामां हेतु थतां
सर्वदा तो नहिं, परंतु कोइक वखत तो देखावा जोइये. कारणके विद्या-
वान् सदा अदृश्य रेहेता नथी. पिशाचादिनीपेटे जातिविशेष पण अदृ-
श्यमां हेतु नथी, कारण के ईश्वर एकते, एकमां जाति होती नथी; जाति
जेद जे थायते, ते अनेकव्यक्तिनिष्ठ थायते. ईश्वर दृश्य अथवा अदृ-
श्य जले होय, परंतु १ शुं सत्ता मात्रथी? २ के ज्ञानवत्त्व होवार्थी?
३ के ज्ञानेवा प्रयत्नवत्त्व होवार्थी? ४ के तत्पूर्वक व्यापारथी? ५ के ऐ-
श्वर्यथी पृथिव्यादिनुं कारण ते?

प्रथम पद्दमां कुलाल आदिनेपण सत्व अविशेष होवार्थी जगत्क-
र्त्तानो अनुपंग थशे. बीजा पद्दमां योगियोनेपण जगत्कर्त्तानी आपत्ति
आवशे. बीजो पद्द ठीक नथी, कारण के अशरीरने प्रथमज ज्ञानादि

आश्रयत्वनो प्रतिषेध करेखठे. चोथानोपण संज्ञवनथी, कारण के अशरीरनो कायवचनना व्यापारपणानो असंज्ञव ठे; अने ऐश्वर्यपण शुं ज्ञातपणुंठे? के कर्त्तापणुंठे? के बीजुं कांश्ठे? जो कहो के ज्ञातपणुंठे, तो शुं ज्ञातृत्व मात्रठे? के सर्वज्ञातृपणुंठे? प्रथम पदमां तो ज्ञाताज थशे, परंतु ईश्वर थशे नहि, अमारा सरखा बीजा ज्ञाताठनी जेम. बीजा पदमां, सर्वज्ञपणुं तो तेने थशे, परंतु सुगतादि जेम ईश्वरपणुं नहि थाय.

हवे जो एम कहो के कर्त्तृत्वपणुंठे, तो तो कुंजकारादिनेपण अनेक कार्य करवाथी ऐश्वर्यनी प्रसक्ति थशे, अने इष्टा प्रयत्न विना बीजी को-इपण वस्तु ईश्वरना ऐश्वर्यने बंधनकारक नथी.

एक बीजी वात एठे के, ईश्वरने जगत् वनाववामां शुं यथारुचि प्रवृत्तिठे? के कर्मवशथी ते जगत् वनावेठे? के दयाथी वनावेठे? के क्रीडावास्ते वनावेठे? के निग्रह अनुग्रह करवावास्ते वनावेठे? के खजावें वनावेठे? प्रथम पदमां, कदाचित् बीजी तरेहनी सृष्टि थइ जशे. बीजा पदमां, ईश्वरनी स्वतंत्रतानो नाश थशे. बीजा पदमां, सर्व जगत् सुखीज करवुं जोइये.

पूर्वपदः— ईश्वर शुं करे? जेवां जेवां जीवोए कर्म करेलां ठे, तेवां तेवां दुःख सुख ते कर्मना कारणथी ईश्वर तेउने आपेठे.

उत्तरपदः— त्यारे तेमां ईश्वरनो पुरुषार्थ शुं? जो कर्मनीज अपेक्षाथी कर्त्ताठे, तो तो ईश्वरनी कल्पना करीने शुं करवुंठे? कर्मनाज बलथी सर्व कांइथइजशे. चोथा, पांचमा पदमां, ईश्वर, रागी छेपी थइ जशे, त्यारे तो ईश्वर केवीरीतें सिद्ध थशे? जुळ. क्रीडा करवाथी बालकनी पेठे ईश्वर रागवान् ठे, अने निग्रह, अनुग्रह करवाथी राजानी पेठे ईश्वर रागी, छेपीठे.

जो एम कहो के ईश्वरनो खजावज जगत् रचवानो ठे, तो तो जगत् खजावथीज थयेल ठे एम मानी ल्यो. हवे ईश्वरनी कल्पना शा वास्ते करो ठो? ते वास्ते कार्यत्वहेतु बुद्धिमत्कर्त्ता ईश्वरने सिद्ध कर्त्ता नथी. तेज कारणथी नैयायिक, वैशेषिक जे जगत्कर्त्ता ईश्वरने माने ठे ते अज्ञानतासूचक ठे. विशेषथी जगत् कर्त्ता ईश्वरनुं खंडन जोवुं होय तो सम्मतितर्क ग्रंथ जुळ.

हवे नैयायिक जे सोल पदार्थ माने ठे, ते पण बालकनो खेळ ठे, सो-

ल पदार्थ घटता नथी. सोल पदार्थनां नाम- १ प्रमाण २ प्रमेय, ३ संशय, ४ प्रयोजन, ५ दृष्टांत, ६ सिद्धांत, ७ अवयव, ८ तर्क, ९ निर्णय, १० वाद, ११ जल्प, १२ वितंडा, १३ हेत्वाज्ञास, १४ ठल, १५ जाति, १६ निग्रहस्थान.

हेय उपादेय प्रवृत्तिरूपें पदार्थोनी जेनाथी परिष्ठिति करियें ते प्रमाण “ तत्त्वमीयतेऽनेनेति प्रमाणं ” ते प्रमाण १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, ४ शब्द, आ चार प्रकारे ठे. “ तत्रेंद्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यञ्जिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षं इति गौतमसूत्रं ” चावार्थः- इंद्रिय अने अर्थना संबंधथी जे उत्पन्न थयेल, व्यपदेशरहित, व्यञ्जिचाररहित, निश्चयात्मक, तेने प्रत्यक्ष प्रमाण कहे ठे. प्रत्यक्ष प्रमाणनुं आ लक्षण सत्य नथी. ज्यां आत्मा अर्थ ग्रहण प्रति साक्षात् व्यापारियें तेज प्रत्यक्ष प्रमाण ठे. ते अवधि, मनःपर्यव, अने केवल ठे; अने नैयायिकोयें जे प्रत्यक्ष वतावेल ठे ते तो उपाधिद्वारा प्रवृत्ति थवाथी अनुमाननी येठे परोक्ष ठे. जो उपचारें प्रत्यक्ष मानियें तो तो वास्तविक ठे, परंतु तत्त्वचिंतामां उपचारनो व्यापार थइ शकतो नथी.

अनुमान प्रमाण त्रण प्रकारें माने ठे. १ पूर्ववत्, २ शेषवत्, ३ सामान्यतोदृष्ट. कारणथी कार्यनुं जे अनुमान ते पूर्ववत्, कार्यथी कारणनुं जे अनुमान ते शेषवत्. तथा एक आम्र वृक्ष फलद्रूप देखीने, जगत्मां आम्रवृक्षो फलद्रूप थयेला ठे, एम जाणुं; अथवा देवदत्तादिमां गति पूर्वक स्थानथी, स्थानांतरनी प्राप्ति देखीने सूर्यमां पण गतिनुं अनुमान करुं ते, सामान्यतोदृष्ट ठे. त्यां पण अन्यथानुपपत्तिज गमक ठे, कारणादि नथी; कारण के अन्यथानुपपत्ति विना कारणने कार्यप्रति व्यञ्जिचार थाय ठे, अने ज्यां अन्यथानुपपत्ति ठे त्यां कार्य कारणादि विनापण गमक चाव देखियें ठियें. ते वतावियें ठियें. कृत्तिकाने देखवाथी अनुमान थाय ठे के रोहिणीनो उदय थशे. ॥ श्लोक ॥ अन्यथानुपपन्नत्वं, यत्र तत्र त्रयेण किं ॥ नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किं ॥ ॥ १ ॥ तथा एक बीजी वात ए ठे के, ज्यारे नैयायिकनुं करेखुं प्रत्यक्ष प्रमाणज प्रमाण न थयुं तो अनुमान जे प्रत्यक्षपूर्वक ठे ते केवी रीतें प्रमाण होय ? तथा “ प्रसिद्धसाधमन्यात् ” अर्थात् प्रसिद्ध साधर्म्यथी जे साध्यनुं साधन ठे ते उपमान प्रमाण ठे जेवी गाय ठे तेवुं

रोज ठे. अर्हींयां पण संज्ञा संज्ञी संबंधनी प्रतिपत्ति उपमाननो अर्थ ठे. तेमज अन्यथानुपपत्ति सिद्ध थवाथी उपमाननो पण अनुमानमां अंतरर्जावज ठे, परंतु पृथक् प्रमाण नथी. जो एम कहो के अर्हींयां अन्यथानुपपत्ति नथी, तो तो व्यञ्जिचारी होवाथी उपमान प्रमाण नथी. शाब्द पण सर्वे, प्रमाण नथी. परंतु आसप्रणीत जे आगम ठे, तेज प्रमाण ठे; अने अर्हत विना बीजा कोइ आस नथी, ते वातनो निर्णय देखवो होय तो सम्मतितर्क, नंदीसिद्धांत, आसमीमांसादि शास्त्र जोइ लेवां. वली एक बीजा वात ए ठे के आ चारे प्रमाण, आत्मानुं ज्ञान ठे; अने ज्ञान वस्तुना गुणोने पृथक् पदार्थ मानियें, तो तो रूप रसादिने पण पृथक् पदार्थ मानवा जोइयें. जो एम कहो के प्रमेय ग्रहण करवाथी, तेमज इंद्रियार्थ होवाथी तेपण ग्रहण कराय ठे. आ पण तमारुं केहेवुं युक्तियुक्त नथी; कारण के ड्रव्यथी पृथक् गुणो-नो अज्ञाव ठे. ड्रव्यग्रहण करवामां गुणोनुं ग्रहण थइ जाय ठे ए सिद्ध ठे. ते कारणथी गुणनें पृथक् पदार्थ मानवा वास्तविक नथी.

१ प्रमेयना ज्ञेद, १ आत्मा, २ शरीर, ३ इंद्रिय, ४ अर्थ, ५ बुद्धि, ६ मन, ७ प्रवृत्ति, ८ दोष, ९ प्रेत्यज्ञाव, १० फल, ११ दुःख, १२ अपवर्ग. १ आत्मा सर्वनो दृष्टा तेमज जोक्ता ठे; अने इष्टा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञान, तेउनाथी अनुमेय ठे, ते तो अमे जीवतत्वमां ग्रहण करेल ठे. २ शरीर आत्मानुं जोगायतन ठे, इंद्रिय जोगनां साधन ठे ३-४ इंद्रिय अर्थ (विषय) जोग्य ठे, ते पण शरीरादि जीव अजीवग्रहणरूपें अमे ग्रहण करेल ठे. ५ बुद्धि, ते उपयोगरूप ज्ञानविशेष ठे, तेनो जीवस्वरूप ग्रहण करवामां समास थाय ठे. अर्थात् जीवतत्वमां ते आवी जाय ठे. ६ मन, ते सर्व विषय अंतःकरण ठे. गुणपत् ज्ञाननुं न होवुं ते मननुं लिंग ठे, तेमां ड्रव्यमन पौञ्जलिक ठे, तेनो अजीव तत्वमां समावेश थाय ठे. अने ज्ञाव मन, ज्ञानरूप आत्मानो गुण ठे, ते जीवतत्वमां ग्रहण कराय ठे. ७ आत्मानी इष्टानुं नाम प्रवृत्ति ठे, ते सुख दुःख थवानुं कारण ठे, ते ज्ञानरूप होवाथी तेनो जीवतत्वमां समास थाय ठे. ८ आत्माना अध्यवसाय, जे राग, द्वेष, मोहादि दोष ठे, ते दोष पण जीवना अज्ञिप्रायरूप होवाथी तेनो जीवतत्वमां समावेश थाय ठे. ते वास्ते पृथ-

क् पदार्थ नथी. ए प्रेत्यज्ञाव, परलोकनो सज्ञाव, ते पण जीव अजीव विना वीजुं कांइ पण ठे नहि, १० फल, जे सुख दुःखनुं जोगवुं, तेनोपण जीवना गुणमां अंतर्जाव ठे, तेथी पृथक् पदार्थ मानवुं वास्तविक नथी. ११ दुःख, आ पण फलथी जुहुं नथी. १२ जन्म मरणप्रबंध उठेदरूपें सर्व दुःखनुं दूर करवुं, ते मोक्षनुं लक्षण ठे, ते अपवर्ग तो अमे नवतत्वमां मानेल ठे.

३ आ शुं ठे ? एवा अनिश्चयरूप प्रत्ययने संशय कहे ठे, ते पण निर्णय ज्ञानवत् आत्मानोज गुण ठे.

४ जेनाथी प्रयुक्त थया थकां प्रवर्त्ते ठे, तेनुं नाम प्रयोजन ठे, ते पण इहाविशेष होवार्थी आत्मानो गुण ठे.

५ अविप्रतिपत्ति विषयमां प्राप्त जे अर्थ ते दृष्टांत ठे, ते पण जीव अजीव पदार्थथी पृथक् नथी, तेथी न्यारो पदार्थ नथी, कारण के अवयव ग्रहण करवामां तेनुं पण ग्रहण थइ जशे.

६ सिद्धांत चार प्रकारेठे. १ सर्वतंत्राविरुद्धः सर्व शास्त्रोमां अविरुद्ध. जेम के स्पर्शनादि इंद्रियठे, अने स्पर्शादि इंद्रियार्थठे, तथा प्रमाणथी प्रमेयनुं ग्रहण थायठे. २ समानतंत्रसिद्धः परतंत्रासिद्धः प्रतितंत्रासिद्धांतः जेमके सांख्य मतवालानो असत् आत्मलाज प्राप्त थतो नथी, अने सतनो सर्वथा विनाश नथी. ३ अधिकरणसिद्धांतः, जेनी सिद्धि थतां वीजापण अर्थ अनुपंगथी सिद्ध थइ जाय ते. ४ “अपरीक्षितार्थाञ्च्युपगमत्वात्तद्विशेषपरीक्षणमच्युपगमसिद्धांतः” जेमके कोश्यें कलुं के, शब्द शुं वस्तुठे ? कोश्क कहेठे, शब्द ड्रव्यठे. ते शब्द नित्यठे ? के अनित्यठे ? इत्यादि विचार आ चारे प्रकारना सिद्धांत ज्ञानविशेषथी अतिरिक्त नथी, अने ज्ञानविशेष, आत्मानो गुणठे, गुणिने ग्रहण करवार्थी ग्रहण करेलठे तेथी पृथक् पदार्थ नथी.

७ अवयवाः; प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, आ पांचे अवयवने जो शब्दमात्र मानियें तो तो पुद्गलरूप होवार्थी तेनो अजीवतत्वमां समावेश थायठे, अने जो ज्ञानरूप मानियें तो जीवतत्वमां तेनो समावेश थायठे. तेथी तेमने पृथक् पदार्थ केहेवा ठीक नथी.

जो ज्ञानविशेषने पृथक् पदार्थ मानियें तो तो पदार्थ अनेक थइ जशे, कारण के ज्ञानविशेष अनेक प्रकारना ठे.

७ संशयथी उपरांत जवितव्यता प्रत्ययरूप सत् अर्थ पर्यालोचनात्मक तेने तर्क कहेठे. जेमके आ स्याणु अथवा पुरुष जरूर हशे. आ पण ज्ञानविशेषजठे; ज्ञानविशेष ज्ञाताथी अजिन्नठे, तेथी पृथक् पदार्थ कल्पवो वास्तविक नथी.

८ संशय, तेमज तर्कथी उत्तरकालजावि निश्चयात्मक एवुं जे ज्ञान, तेनुं नाम निर्णय ठे. आ पण ज्ञानविशेषठे अने निश्चयरूप होवाथी, प्रत्यक्षादि प्रमाणना अंतर्जाव थवाथी पृथक् पदार्थ कल्पवो वास्तविक नथी.

१०-११-१२ वाद, जल्प, वितंडा, प्रमाण तर्क साधन उपालंज सिद्धांत अविरोध पंच अवयवसंयुक्त पक्ष, प्रतिपक्षनुं जे ग्रहण करवुं तेनुं नाम वादठे. ते वादतत्व शिष्य अने आचार्यनो ज्ञानवास्ते थायठे. तथा तेज वाद बीजाने जीतवावास्ते, तेनीसाथे ठल, जाति निग्रहस्थानथी साधन उपालंज ते जल्पठे. तथाते वादज प्रतिपक्षस्थापनारूपेज वितंडा ठे. आ वाद, जल्प, वितंडा ए त्रणोनो जेदज थइ शकतो नथी; कारण के तत्त्वनुं चिंतवन करवामां तत्त्वना निर्णयार्थे वाद करवो जोइयें, परंतु ठल, जाति आदिथी तत्त्वनो निश्चय थइ शकतो नथी; कारण के ठलादिं बीजाने उगवावास्ते करवामां आवेठे. तेनाथी तत्त्वनिर्णयनी प्राप्ति थइ शक्ती नथी. जो तेउंनो जेदपण मानशो, तोपण तेउं पदार्थ थइ शकता नथी. कारण के जे परमार्थथी वस्तु ठे, तेज पदार्थठे. वाद तो पुरुषनी इजाने आधीन ठे, नियतरूप नथी, ते कारणथी पदार्थ नथी. वली कुकडां, कुतरां, मेढां एउंना वादमांपण पक्ष, प्रतिपक्ष ग्रहण करियें तो तेउंनेपण तत्त्वज्ञाननी प्राप्ति थवी जोइयें; परंतु ते तो तमे मानता नथी, तेथी वाद, जल्प, वितंडा, पदार्थ नथी.

१३ हेत्वाज्ञास १ असिद्ध, २ अनेकांतिक, ३ विरोध. आ त्रण प्रकारेठे. हेतु तो नथी, परंतु हेतुनी जेम ज्ञासन थायठे, तेथी हेत्वाज्ञास कहेठे. ज्यारे सम्यक् हेतुउंनीज तत्व व्यवस्थिति नथी, त्यारे हेत्वाज्ञासोनुं तो केहेनुंज शुं? कारणके जे नियत स्वरूपथी रहे ते वस्तुठे, अने

हेतु तो कोइ साध्य वस्तुमां हेतु ठे, अने वीजी साध्य वस्तुमां अहेतुठे, ते कारणथी नियत स्वरूपवालो नथी.

१४-१५-१६ ठल, जाति, निग्रहस्थान, आ त्रणे पदार्थ नथी. कारण के आ त्रणे वास्तवमां कपरूपठे. जेउए तेमने तत्वरूपे कथन करेल ठे, तेउना ज्ञान, वैराग्यमाटे शुं कहेवुं ? आ संसारमां जे चोरी, ठगाइ, हाथफेरी प्रमुख शिखवे, तेउनेपण तत्वज्ञानना उपदेशक मानवा सरखुंठे, ए प्रमाणे नैयायिक मतना सोल पदार्थनुं खंडन समजवुं. विशेष जाण-वा इह्नारें न्यायकुमुदचंद्र अवलोकन करवो. आ खंडन सूत्रकृतांग सिद्धांतथी लखेल ठे. जुउ वारमुं अध्ययन, इति नैयायिकदर्शनखंडन.

हवे वैशेषिकमतखंन लखियें ठियें. वैशेषिकनां कहेलां तत्व पण तत्व नथी. तेउए १ द्रव्य, २ गुण, ३ कर्म, ४ सामान्य, ५ विशेष, ६ समवाय, एम ठ तत्व मान्यां ठे. तेमां द्रव्य नव ठे, १ पृथिवी, २ अप्, ३ तेज, ४ वायु, ५ आकाश, ६ काल, ७ दिक्, ८ आत्मा, ए मन. प्रथमनां चारे द्रव्योने जिन जिन द्रव्य मान्यां ठे ते वास्तविक नथी; कारण के परमाणु जे ठे ते प्रयोग विश्रसाथी पृथिवी आदिना रूप पणें परिणमे पण ठे, तो पण पोताना द्रव्यपणाने तजता नथी, अने अति प्रसंग होवाथी अवस्थाजेदें द्रव्यना जेद मानवा ते योग्य नथी. वली आकाश तथा कालने तो अमे पण द्रव्य मानियें ठियें, अने दिशा तो आकाशनुं अवयव जूत ठे. तेथी पृथक् द्रव्य नथी. आत्मा शरीरमात्रव्यापी उपयोग लक्षण तेने अमे द्रव्य मानियें ठियें. द्रव्यमन पुज्जलद्रव्य अंतर्जावि ठे, अने जावमन जीवनो गुण होवाथी, आत्मा अंतर्जावी ठे. वैशेषिक कहे ठे के जेम पृथिवीत्वना योगथी पृथिवी ठे, इत्यादि. आ पण तेउनुं केहेवुं स्वप्रक्रियामात्र ठे कारण के पृथिवीथी अन्य वीजुं कोई पृथिवीपणुं नथी, जेना योगथी पृथ्वी थाय. परंतु सर्व जे कांइ ठे ते सामान्य विशेषात्मक ठे, नरसिंहाकारवत् उच्चयस्वजाव ठे.

नान्वयः सहि जेदत्वा, ज्ञानेदोन्वयवृत्तितः ॥ मृद्भेदरूपसंसर्ग, वृत्ति जात्यंतरं घटः ॥ १ ॥ जावार्थः— घटमां मृत्तिकानो अन्वय नथी, पृथु बुध्न उदराकारादि हेतुथी जेद ठे, तेमज अन्वयवर्ति होवाथी घटनो मृत्तिकायी एकांत जेद पण नथी, अर्थात् घट मृत्तिका रूपज ठे. अन्वय

व्यतिरेक वंनेना मलवायी घट जात्यंतर रूप ठे, अर्थात् मृत्तिकायी कथं चित् जेदाजेदरूप ठे. यथा ॥ न नरः सिंहरूपत्वा, न सिंहोनररूपतः ॥ शब्दविज्ञानकार्याणां, जेदोजात्यंतरं हि सः ॥ १ ॥ जावार्थः—सिंहरूप होवायी नर नथी, अने नररूप होवायी सिंहपण नथी, तो शुं ठे? १ शब्द, २ विज्ञान, ३ कार्य, तेउना जेद होवायी नरसिंह, त्रीजी जातिठे.

२ रूप, रस, गंध, स्पर्श, तेउनी रूपि द्रव्यमां प्रवृत्ति ठे, अने विशेष गुण ठे, तथा १ संख्या, २ परिमाण, ३ पृथक्त्व, ४ संयोग, ५ विजाग, ६ परत्व, ७ अपरत्व, आ सामान्य गुण ठे, तेउनी सर्वद्रव्यमां प्रवृत्ति ठे. तथा १ बुद्धि, २ सुख, ३ दुःख, ४ इच्छा, ५ द्वेष, ६ प्रयत्न, ७ धर्म, ८ अधर्म, ९ संस्कार, आ आत्माना गुण ठे. तथा गुरुत्व पृथ्वी तथा जलमां ठे, द्रव्यत्व पृथ्वी, जल, तेमज अग्निमां ठे, स्नेह जलमांज ठे, वेगनाम संस्कार तेमूर्त्त द्रव्योमांज ठे, अने शब्द आकाशनो गुण ठे. तेमां संख्यादि सामान्य गुण रूपादि पेठे द्रव्यस्वभाव होवायी परजपाधिथी गुणज नथी. वली गुण जो द्रव्यथी पृथक् थइ जाय तो द्रव्यना स्वरूपनो नाश थइ जशे. “ गुणपर्यायवत् द्रव्यं ” आ केहेवायी गुण द्रव्यथी चिन्न नथी. द्रव्यग्रहण करवामां गुणनुं ग्रहण थइ जाय ठे, तेज युक्त ठे परंतु गुणने पृथक् पदार्थ मानवो, युक्त नथी. तथा शब्द आकाशनो गुण नथी, कारण के ते तो पौद्गलिक ठे, अने आकाश तो अमूर्त्त ठे. वाकी जे वैशेषिकें कहेल ठे ते प्रक्रियामात्र ठे, साधन दूषणोनुं अंग नथी.

३ कर्म पण गुणनी पेठे पृथक् पदार्थ मानवो अयुक्त ठे.

४ सामान्य वे प्रकारें ठे. एक पर, वीजुं अपर. तेमां पर सामान्य महासत्ता नाम ठे. द्रव्यादि त्रण पदार्थोमां व्यापि ठे, अने अपर ते द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्वादि ठे. तेमां महासत्ताने पृथक् पदार्थ मानवुं अयुक्त ठे; कारण के सत्तामां जे सत् प्रत्यय ठे, ते शुं कोई वीजी सत्ताना योगथी ठे? के स्वरूपथी ठे? जो कहो के वीजी सत्ताना योगथी ठे तो ते सत्तामां सत्प्रत्यय वली वीजी सत्ताना योगथी होवो जोइयें. एम कर्तां अनवस्था दूषण आवे ठे. वली जो कहो के स्वरूपथी, सत् ठे तो तो द्रव्यादि पण स्वरूपथी सत् ठे. त्यारे ह्वे बकराना, गलाना स्तनोनी पेठे निष्फल सत्तानी कल्पना करवानुं शुं प्रयोजन ठे. वली द्रव्यादि स-

त्ताना योग्यीज सत् केहेवाय ठे ? के सत्तासंबंध विनाज सत्स्वरूप ठे ? जो कहो के स्वतःज सत्स्वरूप ठे, तो सत्तानी कल्पना करवी व्यर्थ ठे. जो कहो के सत्ताना योग्यी सत् ठे तो तो शशविपाणपण सत्ताना योग्यी सत् होवां जोइयें. यथा ॥ स्वतोऽर्थाः संतु सत्ताव, त्सत्तया किं सदात्मना ॥ असदात्मसु नैपा स्या, त्सर्वथातिप्रसंगतः ॥ १. ॥ इत्यादि. आ दूषणो लुब्ध योगक्षेम होवार्थी अपर सामान्यमांषण जोडी देवां. वली अमे पण वस्तुज सामान्य विशेषरूप होवार्थी तेउने कथंचित् सामान्यरूप मानियेंजठियें. ते वास्ते उव्यग्रहण करवामां सामान्यनुं ग्रहण अइगुं, तेहेतुथी सामान्य, उव्यथी पृथक् पदार्थ नथी.

५ विशेष अत्यंत व्यावृत्ति बुद्धिनो हेतु होवार्थी वैशेषिकोए माने ल ठे. हवे जुठ. ते विशेषमां जे विशेषबुद्धि ठे, ते अपर विशेषोथी ठे ? के स्वतःज स्वरूपथी ठे ? अपर विशेषहेतु तो लागतो नथी, अनवस्था, तेमज विशेषमां विशेषनो अंगीकार नथी. जो कहो के स्वतःज विशेषबुद्धिनो हेतु ठे, तो पठी विशेषोने उव्यथी अतिरिक्त पदार्थ कल्पवा व्यर्थ ठे. अने उव्यथी अव्यतिरिक्त विशेषोने, सर्व वस्तुज सामान्य विशेषात्मक होवार्थी, अमे पण मानियें ठियें.

६ समवाय, अयुतसिद्ध आधार आधेयजूताना जे इह प्रत्ययनो हेतु ठे, ते समवाय केहेवाय ठे. वली समवाय नित्य, तेमज एक ठे, एम वैशेषिक माने ठे. ते समवाय नित्य होवार्थी, समवायी पण नित्य होवां जोइयें. जो समवायी अनित्य ठे, तो समवाय पण अनित्य होवो जोइये ? कारण के समवायनो आधार समवायी ठे. तथा समवाय एक होवार्थी समवायी पण एकज होवो जोइयें अथवा समवायी अनेक होवार्थी समवाय पण अनेक होवा जोइयें. वली समवाय जे पदार्थोनो समवायी संबंध करे ठे, ते समवाय ते पदार्थोनी साथे पोतानो संबंध वीजा समवायना योग्यी करे ठे ? के पोतेज पोतानो संबंध करे ठे ? जो कहो के वीजा समवायथी करे ठे, तो तो अनवस्था दूषण ठे, अने समवायपण वीजो ठे नहि. जो कहो के पोतानो संबंध करे ठे, तो तो गुण क्रियादि पण उव्यथी स्वरूपें तथा अविष्वंग जावसंबंधथी संबंधी ठे. तो हवे समवाय कल्पवो पण व्यर्थ ठे.

एवीरीतं वैशेषिक मतमां पण सम्यक् पदार्थोक्तं कथन आतोक्त नथी. तथा नैयायिक, वैशेषिक मतमां जे मोक्ष माने ठे तेपण प्रेक्षावानोने मानवा योग्य नथी. तेउं तो ज्यारे आत्मा ज्ञानथी रहित थाय, अर्थात् जडरूप थइजाय, त्यारे आत्मानो मोक्ष मानेठे, एवां मोक्षने कयो बुद्धिमान् उपादेय माने? कारण के एवो कोण बुद्धिमान् होय के सर्वसुख तेमज ज्ञानथी रहित थइ पापाणतुद्वय पोतानो आत्मा करवा चाहे? तेकारणथी कोश्यें वैशेषिकनुं उपहास्य पण करेल ठे. यथा ॥ श्लोक ॥ वरं वृंदावने रम्ये, क्रोष्टुत्वमज्जिवांठति ॥ न तु वैशेषिकीं मुक्तिं, गौतमोगंतु-मिच्छति ॥ १ ॥ स्वर्गनां सुख उपाधिसहितठे, अवधिवालां ठे, तेमज परिमित आनंदरूप ठे, अने मोक्ष तो निरुपाधिक, निरवधिक, अपरिमित आनंद ज्ञानसुखस्वरूप, विचक्षण पुरुष कहेठे. जो मोक्ष होवुं पापाण तुद्वय ठे, तो एवो मोक्ष प्राप्त करवानुं कांइ प्रयोजन नथी. तेनाथी तो संसारज सारो ठे के जे संसारमां दुःखमिश्रित सुख जोगववामां आवेठे. जरा विचार तो करो के थोडा सुखने जोगववुं ते सारुं ठे? के सर्वसुखनो उच्छेद सारो ठे? इत्यादि विशेष चर्चा, स्याद्वाद्मंजरीनी टीकाथी जाणवी. ते कारणथी नैयायिक, वैशेषिक वंने मत उपादेय नथी.

हवे सांख्यमतनुं खंडन लखियें ठियें. सांख्यमत वास्तविक नथी. जुठं परस्परविरोधी एवां सत्व, रज, तमोगुणोनुं प्रकृति रूपोनुं गुणीविना एकत्र अवस्थान अर्थात् रहेवुं ते युक्त नथी. जेभ कृष्ण, श्वेतादि गुण, गुणिविना एकत्र रही शकता नथी तथा महत् आदि विकार होवामां, प्रकृतिमां विषमता उत्पन्न करनार कोइपण कारण नथी; कारण के प्रकृति विना बीजी कोइ वस्तु सांख्य मानता नथी. आत्माने अकर्ता, अकिंचित्कर मानेठे. जो स्वजावथी वैषम्य मानशो, तो निहेंतुकतानी आपत्ति आवशे, कारण के कार्य कदी होय, अने कदी न होय, ते हेतु विना थइ शकतां नथी. तेमज खरभृंगादि जे नित्य असत् ठे, अने आकाशादि जे नित्य सत्ठे ते हेतुथी नथी. यथा ॥ नित्यसत्त्वमसत्त्वं वा, हेतोरन्या-नपेक्षणात् ॥ अपेक्षातोहि जावानां, कदाचित्त्वसंज्ञवः ॥ १ ॥

वली स्वजाव प्रकृतिथी जिन्न ठे? के अजिन्न ठे? जिन्न तो नथी,

कारण के प्रकृति विना सांख्योए वीजी कांश्वस्तु मानेदी नथी. जो कहो के अजिन्न ठे तो तो प्रकृति ठे, खजाव नथी.

वली महत् तेमज अहंकार ज्ञानथी जिन्न अमे देखता नथी. जुड, बुद्धि अध्यवसायमात्र ठे, अने अहंकार हुं सुखी, हुं दुःखी, एवा खरू पवालो ठे. आ बनेमां चिद्रूप होवाथी आत्मानुं गुणपणुं ठे, परंतु जडरूप प्रकृतिनो विकार नथी.

वली तन्मात्राथी जूतोनी जे उत्पत्ति मानेठे, जेम के १ गंधतन्मात्राथी पृथ्वी, २ रसतन्मात्राथी जल, ३ रूपतन्मात्राथी अग्नि, ४ स्पर्शतन्मात्राथी वायु, ५ शब्दतन्मात्राथी आकाश, आ तेउनुं मानवुं युक्त नथी. जो बाह्य-जूतनी अपेक्षाथी कहेता होतो अयुक्तठे. आ बाह्य पांच जूतो निरंतर विद्यमान होवाथी तेनी उत्पत्ति नथी. “न कदाचिदनीदृशं जगत् इतिवचनात्” अर्थात् आ जगत् प्रवाहथी अनादि कालथी एवुंज चाद्युं आवे ठे.

जो एम कहोके दरेक शरीरनी अपेक्षाए अमे मानियें ठियें तेउमां, त्वचा, हाड, कण्ठलक्षणा पृथिवीठें, श्लेष्म, रुधिर, ड्रव लक्षण जल ठे, पक्ति (जठर) लक्षण अग्नि ठे, पानापान (श्वासोद्वास) लक्षण वायु ठे, सुषिर (पोलाण) लक्षण आकाश ठे. आ पण केहेवुं ठीक नथी; कारण के तेमां पण केटलाएक शरीरोनी उत्पत्ति पितानुं शुक्र अने माताना रुधिरथी आयठे, त्यां तन्मात्राउंनो गंधपण नथी, अने अदृष्ट वस्तुउंने कारण कल्पवामां अतिप्रसंग दूषण ठे. वली इंडां, उज्जिजा, अंकुरादिनी उत्पत्ति पण वीजी वस्तुउंथी यती देखवामां आवेठे. ते कारणथी महत्, अहंकार आदिनी उत्पत्ति सांख्योए जे पोतानी प्रक्रियाथी मानी ठे, ते युक्तिरहित मानी ठे. केवल पोताना मतना रागथीज मानेदी ठे, वली आत्माने अकर्ता माने ठे, तेथी तो कृतनाश, अकृत अन्यागमनुं दूषण आवेठे, तेमज बंध मोहनो अजाव आयठे, अने निर्गुण होवाथी आत्म-ज्ञानशून्य थइ जायठे. पूर्वोक्त सर्व युक्तिहीन होवाथी बालप्रलापमात्र ठे.

हवे सांख्यमतना मोहनो विचार करियें. “प्रकृति पुरुपांतरपरिज्ञानान् मुक्तिः” अर्थात् प्रकृति पुरुपथी अन्य ठे एवुं ज्यारे ज्ञान आय ठे, त्यारे मुक्ति आयठे. यथा ॥ शुद्धचैतन्यरूपोयं, पुरुपः पुरुपार्थतः ॥ प्रकृत्यंतर-महात्वा, मोहात्संसारमाश्रितः ॥ २ ॥ जावार्थ— पुरुप परमार्थथी शुद्ध

चेतन्यरूप ठे. पोते पोताने प्रकृतिथी एकमेक समजेठे. आ मोह्यी संसारने आश्रित थइ रहेख ठे. ते हेतुथी प्रकृति सुखादिसञ्जावथी ज्यांसुधि विवेकपूर्वक ग्रहण करशे नहि, त्यांसुधि मुक्ति नथी; तेमज केवलज्ञाननो उदय थवाथीज मुक्ति ठे, ए पण थसत् ठे. कारण के आत्मा एकांत नित्यठे, अने सुखादि, उत्पाद, व्यय सञ्जाववालां ठे; त्यारे तो विरुद्ध धर्म संसर्गथी आत्मार्थी प्रकृतिनो जेद प्रतीतज ठे, तो हवे मुक्ति केम नहि?

हवे ते तो संसारी विचार करतो नथी, तेवास्ते मुक्ति नथी, जो एम कहेशो तो तो तमारा केहेवाथी कदापि मुक्ति थशे नहि. एवो विवेक अध्यवसाय संसारिने कदापि थइ शकतो नथी, तेज वतावियं त्रियं.

ज्यां सुधी संसारी ठे. त्यां सुधी विवेक परिचावनाथी संसारीपणुं दूर थतुं नथी. तेवास्ते विवेक अध्यवसायना अज्ञावथी कदापि संसारी ठुटवानुं नथी.

तथा आ सृष्टि पेहेलां तो केवल आत्मा ठे, एम तमे मानो ठो, तो पठी आत्माने संसार क्यांथी लपटायो? जो कहो के निर्मल आत्माने संसार लपटाय ठे, तो तो मोह थया पठी पण संसार लपटाशे; हवे विचारो के मोह शुं थयो? केवल विटंबना थइ.

पूर्वपक्षः—सृष्टि पेहेलां आत्माने दिदृक्षा थइ, ते दिदृक्षाना जोरथी प्रधाननी साथे पोतानुं एकरूप देखायुं; तेथी संसारी थयो. ज्यारे प्रकृतितुं दुष्टपणुं ध्यानमां आव्युं, त्यारे प्रकृतिथी वैराग्य थयो. पठी प्रकृति विपे दिदृक्षा न रही, त्यारे संसारपण न रह्यो.

उत्तरपक्षः—आ तमारुं केहेबुं स्वकृतांतविरुद्ध होवाथी अयुक्त ठे. जुं. दिदृक्षा, देखवानी अजिलापानुं नाम ठे. ते अजिलापा पूर्वे देखेला पदार्थोंमां तेना स्मरणथी थाय ठे. प्रकृति तो पूर्वे कदापि तेणे देखी नथी, तो केवीरितें तेनेविपे स्मरण अजिलापा होय? जो एम कहो के अनादि वासनाना वलथी प्रकृतिमांज स्मरण अजिलापा ठे, तोपण थसत् ठे, कारण के वासनापण प्रकृतिनो विकार होवाथी प्रकृति पेहेलां न होती. जो एम कहो के वासना आत्माना सञ्जावरूप ठे. तोतो आत्मस्वरूपनी जेम वासनानो कदापि अज्ञाव थशे नहि, अने मोहपण क-

दापि अशे नहि, ए प्रमाणे सांख्य मतपण बालकना खेळसमान थयो. इति सांख्यमतखंडन.

हवे मीमांसक मतनुं खंडन लखतां, तेना मतनुं स्वरूप तो पूर्वे वता-
वेल ठे, अने वेदांतियोना ब्रह्म (अद्वैत) नुं खंडन ईश्वरवादमां बी-
जा परिछेदमां विस्तारपूर्वक करेलुं ठे, तेथी आ स्थले वर्णन करेलुं न-
थी. इति मीमांसकमत.

हवे जैमिनीय मतनुं खंडन लखियेंठियें, जैमिनीय कहे ठे के “ हिं-
सागार्ध्यात् ” जे हिंसा इंद्रियोना रसवास्ते, अथवा कुव्यसन निमित्तें
करियें तेज हिंसा अधर्मनो हेतु ठे. प्रमादना उदयथी कसाइ, माठिउनी
जेम. अने वेदोमां जे हिंसा कही ठे ते हिंसा नथी, परंतु धर्मनो हेतु ठे,
देवता, अतिथि, पितृउनी प्रीति संपादक होवार्थी, तथाविध पूजा उ-
पचारनी पेटे. वली आ प्रीतिनुं संपादन करवुं असिद्ध नथी. कारण के
कारीरी प्रमुख यज्ञोना स्वसाध्य विपे वृष्टि आदि कुलोनुं जे अव्यञ्जिचा-
रिपणुं ठे, ते यज्ञ करवार्थी जे देवता तृप्त थाय ठे, ते वृष्टि आदिनो हेतु
ठे. तेवीजरीतें “ त्रिपुरार्णववर्णित ठगल ” अर्थात् वकराना मांसनो होम
करवार्थी परराज्यनुं जे व्रश थवुं ठे, तेपण तेमांसनी आहुतियोथी तृप्त
थयेला देवताउंनोज प्रजाव ठे, अने अतिथि प्रति पण “ मधु संपर्क-
संस्कारादिसमाखादजा ” प्रत्यक्ष देखाय ठे. अने पितृउने माटे जे
श्राद्ध करवामां आवे ठे, ते श्राद्धथी पितृउं तृप्त थतां, स्वसंताननी वृद्धि
प्रत्यक्ष देखाय ठे. वली ते वावतमां आगम पण प्रमाण आपेटे. आ-
गममां देवनी प्रीतिवास्ते, अश्वमेध, नरमेध, गोमेध, आदि यज्ञ करवा
कहेल ठे, अने अतिथिविषय “ महोक्षं वा महाजं वा, श्रोत्रियाय प्रक-
ल्पयेदिति ” एवुं कहेलुं ठे. वली पितृउनी प्रीति वास्ते आ प्रमाणें लखेलुं ठे.

द्वौ मासौ मत्स्यमांसेन, त्रीन् मासान् हारिणेन तु ॥ औरत्रेणाय च-
तुरः, शाकुनेनेह पंच तु ॥ १ ॥ पण्मासश्चागमांसेन, पार्षतेनेह सप्त वै ॥
अष्टावेणस्य मांसेन, रौरवेण नवैव तु ॥ २ ॥ दशमासांस्तु तृप्यंति, वरा-
हमहिषामिषैः ॥ शशकूर्मयोर्मांसेन, मासानेकादशैव तु ॥ ३ ॥ सं-
वत्सरं तु गव्येन, पयसा पायसेन तु ॥ बाधीणसस्य मांसेन,
तृसिर्द्वादशवार्षिकी ॥ ४ ॥ आ श्लोक स्मृतिना ठे. अर्थः—जो

पितृर्जने मत्स्यनुं मांस आपे तो, पितृर्ज वे माससुधी तृप्त रहेवे. जो हरिणनुं मांस आपे तो, त्रणमाससुधी तृप्त रहेवे, जो मेंढानुं मांस तेर्जने आपे तो, चारमास सुधी तेर्ज तृप्त रहेवे, जो जंगली कुकडानुं मांस तेर्जने आपे तो, पांचमास सुधी तेर्ज तृप्त रहेवे, जो बकरानुं मांस तेर्जने आपे तो, षणमास सुधी तेर्ज तृप्त रहेवे, पृषत्विंशुयुक्त जे हरिण होय, ते पार्षत कहेवायवे, तेनुं मांस जो पितृर्जने देवामां आवे तो, पितृर्ज सातमास सुधी तृप्त रहेवे, जो एणमृगनुं मांस देवामां आवेतो, आठमाससुधी पितृर्ज तृप्त रहेवे, जो मोटा काळा मृगनुं मांस देवामां आवे तो, नवमाससुधी पितृर्ज तृप्त रहेवे, जो सूअर, अने महिपनुं मांस देवामां आवेतो, दशमास सुधी पितृर्ज तृप्त रहेवे, जो ससला अने काचवा वंनेनुं मांस देवामां आवे तो, अग्यार मास सुधी पितृर्ज तृप्त रहेवे, जो गायनुं दुध अथवा खीर देवामां आवे तो, बार माससुधी पितरो तृप्त रहेवे, अने बहुज वृढा थयला लांवा कानवाला धोला बकरानुं मांस आपवामां आवे तो, बार वर्षसुधी पितरो तृप्त रहेवे. आ प्रमाणे मीमांसको माने ठे.

हवे तेनुं खंडन लखियें ठियें. हे मीमांसक? वेदोमां जे हिंसा कहिठे, ते धर्मना हेतुरूप कदापि थइ शकेठे? तमारा केहेवामां प्रत्यक्ष स्ववचन विरोध ठे. जुठ. जो धर्मनो हेतु ठे, तो हिंसा केवी रीतें ठे? जो हिंसा ठे, तो धर्मनो हेतु ते केवी रीतें थइ शकेठे? यथा ॥ श्रूयतां धर्मसर्वस्वं, श्रुत्वा चैवावधार्यतां ॥ आत्मनः प्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत् ॥ १ ॥ इत्यादि. जो धर्म कहेलो ठे, तो हिंसा केवी रीतें धर्म थइ शकेठे? कारण के मातापण ठे, अने ते वंध्यापण ठे, एम कदी थइ शकतुं नथी.

पूर्वपक्षः—हिंसा कारणठे, अने धर्म तेनुं कार्य ठे.

उत्तरपक्षः—आ तमारूं केहेवुं असत् ठे. कारण के जे जेनी साथे अन्वय व्यतिरेकवाळुं होय ठे, ते तेनुं कार्य थायठे. जेम माटीना पिंड प्रमुखनुं घटादि कार्यठे, तेम धर्म कांइ हिंसाज कख्याथी थतो नथी, कारण के तप, दान, स्वाध्याय. प्रमुखपण धर्मनां कारण ठे.

पूर्वपक्षः—अमे सामान्य हिंसाने मानता नथी, परंतु विशिष्ट हिंसाने जे धर्म कहियें ठियें. विशिष्ट हिंसा तेज ठे, जे वेदोमां करवी कही ठे.

उत्तरपक्षः—जो वेदनी हिंसा धर्मनी हेतु ठे, तो शुं जे जीव यज्ञादिमां

मारवामां आवेठे, ते मरता नथी? ते कारणथी धर्म ठे? अथवा शुं मरण समये तेउने आर्त्तध्याननो अजाव ठे? ते कारणथी धर्म ठे? अथवा जे जीव यज्ञादिमां मारवामां आवेठे. ते मरीने स्वर्ग प्राप्त करेठे? ते कारणथी धर्मठे? प्रथम पक्ष तो वास्तविक नथी, कारण के प्राणनो त्याग करतां तो ते जीवने प्रत्यक्ष देखियें ठियें. वीजो पक्ष पण असत् ठे, कारण के वीजाना मननुं ध्यान दुर्लभ्य ठे, ते कारणथी आर्त्तध्याननो अजाव कहेवो, तेपण परमार्थशून्य वचनमात्र ठे; आर्त्तध्याननो अजाव तो शुं थवानो हतो परंतु अरे दुःखी ठियें ? ठे कोइ करुणासागर के अमने ठोडावे? एम पोतानी जाषामां कहेतां कहेतां पोतानी जाषाथी विरस अरराट करतां, दीनमुखवालां, तेमज चक्रु फाडी चारे दिशाए जोतां, इत्यादि चिह्न देखवार्थी, ते विचारार्जनुं आर्त्तध्यान स्पष्ट उपलब्ध थाय ठे.

पूर्वपक्षः— जेम लोढानो गोलो पाणीमां डुवी जाय ठे, तेनां जो पातलां पतरां करवामां आवे तो ते जेम पाणीमां नहि डुवतां तरे ठे, तेमज जेम विष मृत्यु पमाडनार ठे, तो पण मंत्रोथी संस्कार करतां थकां गुणकारि थाय ठे, तथा जेम अग्नि दाहकखजाववालो ठे, तो पण सत्यशीलादिना प्रजावथी दाहक थतो नथी, तेवीज रीतें वेदमंत्रादिथी संस्कार पामेडी हिंसा दोषनुं कारण नथी. तेमज वेदोक्त हिंसा निंदनीय कदापि नथी; कारण के ते हिंसा करनारा याज्ञिक ब्राह्मणो जगत् मां पूजनीय देखाय ठे.

उतरपक्षः— पूर्वोक्त तमारुं सर्व कथन असत् ठे, कारण के जेटलां दृष्टांत तमे कहां ते सर्व वैपम्य ठे; तेथी सिद्धि कांइपण थई शकती नथी. लोढानो गोलो पतरारूप थई जल उपर जे तरे ठे ते परिणामांतर थवाथी तरे ठे, इत्यादि; परंतु वेदमंत्रोथी संस्कार करीने ज्यारे पशुठने मारवामां आवे ठे, ल्यारे तेउमां परिणामांतर शुं थाय ठे ? शुं ते परिणामांतरथी, ते पशुठने मारतां दुःख थतुं नथी ? दुःखथी तो तेउं प्रगट अरराट शब्द करे ठे. तो हवे लोहपत्रनुं दृष्टांत केवी रीतें समीचीन थइ शके ठे ?

पूर्वपक्षः— यज्ञमां जे पशु मारवामां आवे ठे, ते सर्व देवता थई जाय ठे, आ यज्ञ करवामां परोपकार ठे.

उत्तरपक्षः— आ कथनमां प्रमाणं शुं ठे ? प्रत्यक्ष प्रमाण तो नथी, कारण के ते तो इंद्रिय संबंध वर्तमान वस्तुनुं ग्राहक ठे. “संबंधोवर्तमानं च, गृह्यते चक्षुरादिनेति वचनात्.” तेमज अनुमान पण नथी, कारण के तत्प्रतिबद्ध लिंग कोइपण देखातुं नथी. वही आगम प्रमाण पण नथी, कारण के आगम तो जगडानुं घर ठे, तेथी तमारुं कथन सिद्ध थयुं नहि. तथा अर्थापत्ति अने उपमान आ धंने अनुमाननी अंतर्गत ठे, तेथी अनुमानना खंडनथी ते धंनेनुं पण खंडन थइ गयुं.

पूर्वपक्षः— जेम तमे जिनमंदिर बनावतां पृथ्वीकायादि जीवोनी हिंसा यतां परिणामविशेषथी तेने पुण्यरूपें कटपोठो, तेम अमे पण यद्दमां जे हिंसा कराय ठे, ते पुण्यनिमित्त थाय ठे, एम मानियें ठियें, कारण के वेदोक्त विधि विधानरूप परिणामविशेष अर्हीयां पण निःसंदेह होवाथी केम पुण्य न थाय ?

उत्तरपक्षः— परिणामविशेष पण तेज, पुण्यनुं कारण थाय के ज्यां वीजो कोइ उपाय न होय, तेमज यत्नाथी प्रवृत्ति होय. तेवी प्रवृत्ति जिनमंदिरमां थइ शके ठे. वही जिनमंदिर बिना श्री जगवान्नी प्रतिमा रह्नी शकती नथी, जे स्थानमां प्रतिमा राखवामां आवे तेनुं नाम जिनमंदिर ठे. जो कहो के जिनप्रतिमा पूजवाथी शुं लाज ठे ? तो अमारो सवाल ए ठे के पुस्तकमां ककारादि अक्षर लखोठो, ते लखवाथी शुं लाज ठे ? जो कहो के ककारादि अक्षरोनी स्थापना देखवाथी वस्तुनुं ज्ञान थाय ठे, तो तेवीजरीतें जिनप्रतिमा देखवाथी जिनेश्वर जगवान्ना स्वरूपनुं ज्ञान थाय ठे. जो कहो के प्रतिमा तो कारीगरें पापाणनी बनाथी ठे, तेथी शुं ज्ञान थाय ठे ? तो अमे पुठियेंठियें के वेद, कुरान, इंजील प्रमुख पुस्तक लिखारीउए शाही तेमज कागलोथी बनावेलां ठे, तेउनाथी शुं ज्ञान थाय ठे ? जो कहो के ज्ञान तो अमारी समजणथी थाय ठे, अक्षरोनी स्थापना अमारा ज्ञाननुं निमित्त कारण ठे; तेवीज रीतें जिनेश्वर देवना स्वरूपनुं ज्ञान तो अमारी समजणथी थाय ठे, परंतु ते स्वरूपनुं निमित्त कारण प्रतिमा ठे. कारण के जो बुद्धिमान् पुरुष, कोइ वस्तुनो नकशो अर्थात् चित्र नहि देखे तो ते वस्तुनुं स्वरूप कदापि जाणी शकशे नहि. ते कारणथी जे बुद्धिमान् ठे ते अवश्य स्थापना माने ठे.

कारः ॥ पुढवाश्याण जइविहु, होइ विणासो जिणालयाहिंतो ॥ तच्चि-
सयावि सुदिष्ठिस्स, नियम उअत्ति अणुकंपा ॥ १ ॥ ए आहिं तो बुद्धा,
विरिया रक्कंति जेण पुढवाई ॥ इत्तो निब्बाणगया, अवाहया आचवम-
णंतं ॥ २ ॥ रोगसिरावेहोइव, सुविज्ज किरियाव सुप्पउत्ताउ ॥ परिणाम
सुंदरच्चिय, चिष्ठासे वाह जोगेविति ॥ ३ ॥ ज्ञावार्थः— यद्यपि जिनमंदिर
वनाववामां पृथिवीकायादि जीवोनी हिंसा थाय ठे, तोपण सम्यक् दृष्टि
जीवोनी ते जीवो उपर निश्चयपूर्वक अनुकंपा ठे ॥ १ ॥ तेउनी हिंसाथी
निवृत्त अइने ज्ञानियो निर्वाण पामेला ठे. केवा निर्वाणने ? अन्तकाल-
सुधी रेहेनारा अव्यावाध सुखमय निर्वाणने ॥ २ ॥ जेम रोगिनी नाडी
प्रमुखने बहुज कालथी वैद्य विंधे ठे, ते वैद्यना प्रयोगमां परिणामनी
सुंदरताथी कदाचित् ते रोगी मरणपण पामे तोपण वैद्यने जेम पाप नथी,
तेमज जिनमंदिर वनाववामां यत्नपूर्वक प्रवर्त्तता पुरुषोने, ते जीवो उ-
पर अनुकंपाज ठे, अने वेदकथन मुजव वध करवामां किंचित् मात्र प-
ण पुण्य अमे देखता नथी.

पूर्वपक्षः— ब्राह्मणोने पुरोडाश (यज्ञमां होमवानुं वलिदान) आदि
प्रदान करवार्थी पुण्यानुबंधी गुण थाय ठे.

उत्तरपक्षः—आ तमारू केहेवुं वास्तविक नथी. कारण के पवित्र सुव-
र्णादिप्रदान मात्रथी पण पुण्यउपार्जननो संज्ञव थायठे, अने कृपण, दीन
अनाथ, पशुगणने मारवा, तेमज तेउना मांसनुं दान करवुं, आ केवल त-
मारी निर्दयता तेमज मांसजोडुपताज वतावी आपेठे.

पूर्वपक्षः—अमे निःकेवल प्रदानमात्रज पशुवध क्रियानुं फल मानता
थी, परंतु जूति (लक्ष्मी) आदिपण प्राप्त थायठे. यदाह श्रुतिः “ श्वेत-
प्रायव्यमजमालजेत जूतिकामइत्यादि ” ज्ञावार्थः—श्वेतवर्णना वकराने,
जेनो स्वामीवायु देवताठे, एवा वकराने आलजेत हिंसेत् अर्थात् मारे,
कोण मारे? लक्ष्मीना कामी मारे.

उत्तरपक्षः—आ तमारू केहेवुं पण व्यजिचार पिशाचथी अस्त यवाथी
अप्रामाणिक ठे. कारण के जूति (लक्ष्मी) अन्य उपायथी पण साध्यमानठे.

पूर्वपक्षः— परंतु यज्ञमां वकराप्रमुख जे मारवामां आवेठे, ते मरीने
देवगति प्राप्त करेठे, आ यज्ञमां मरनार जीवो उपर उपकार ठे.

उत्तरपक्षः—आ तमारुं केहेवुं पण प्रमाणना अजावधी वचनमात्र ठे, कारण के यज्ञमां मारवामां आवेला पशुउमांथी कोइ पण सज्जतिनो लाज यवार्थी हर्षवंत थइ आ लोकमां पाठो आवी स्वर्गना सुखनुं निरूपण करतो देखातो नथी.

पूर्वपक्षः—आ कथनमां आगम प्रमाण ठे. यथा ॥ औपध्यःपशवोवृक्षा, स्तियंचः पक्षिणस्तथा ॥ यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्रामुवंत्युद्धितं पुनरित्वादि॥ जावार्थः—औपधी, अजादि पशु, किंजक (कमलनाफुलमारहेनार) आदि पक्षी, जेउनो यज्ञमां होम करवामां आवेठे, तेउं उन्नति प्राप्त करेठे.

उत्तरपक्षः—आ पण तमारुं केहेवुं वास्तविक नथी. तमारुं आगम पौरुषेय ठे के अपौरुषेय ठे, इत्यादि विकल्पोनुं हवे पठी खंडन करवामां आवशे. वली श्रोत (वैदिक) विधिधी पशुउने मारवार्थी जो स्वर्ग प्राप्ति थती होय तो तो कत्ताइ प्रमुख पण स्वर्गवासी थइ जशे. तथाच पठन्ति पारमर्षाः ॥ यूपं ठित्वा पशून् हत्वा, कृत्वा रुधिरकर्दमं ॥ यथेवं गम्यते स्वर्गं, नरके केन गम्यते ॥ १ ॥ वली जो अपरिचित, अस्पष्टचेतन्य, अनुपकारी पशुउने मारवार्थी स्वर्गप्राप्ति थती होय तो, परिचित, स्पष्ट चेतन्य, तेमज परमोपकारी मातपितादिने मारवार्थी याज्ञिकोने तेनार्थी विशेष पदनी प्राप्ति थशे. तेथी तेमपण करवुं जोइयें.

पूर्वपक्षः—“अचिंत्योहि मणिमंत्रोपधीनां प्रजावइति वचनात्” ते कारणधी वेदना मंत्रोनी अचिंत्य शक्ति होवार्थी ते मंत्रोधी संस्कार करायेला पशुने मारवार्थी अवश्य स्वर्गप्राप्ति थायठे.

उत्तरपक्षः—आ कथन पण व्यञ्जिचारी ठे. कारण के आ लोकमां जेम विवाह, गर्जाधान, जन्मसमयादिविषे ते मंत्रोनी व्यञ्जिचार देखवामां आवेठे, तेम अदृष्ट स्वर्ग आदिमां पण तेउंना व्यञ्जिचारनुं अनुमान करियें त्रियें. कारण के वेदोक्तमंत्रोधी संस्कार करायेला विवाहनी अनंतरज स्त्री, विधवा, अट्पायुष्य, दरिद्रताप्रमुख उपद्रवधी वियोगी रहेली, देखवामां आवेठे. तेमज वेदमंत्रोना संस्कार विना पण केटलाएक विवाह (लग्न) करनारा सुखी, धनवान् इत्यादि देखवामां आवेठे.

पूर्वपक्षः—जे विवाहआदिमां विधवा आदि घइ जायठे, त्यां क्रियाना वेगुण्य (खामी) धी विसंवाद (बिरहूता) थायठे.

उत्तरपक्षः—आ तमारा केहेवाथी ते संशय कदी दूर थशे नहि. शुं त्यां क्रियानुं वैशुष्य विसंवादनो हेतुठे ? के वेदमंत्रोनी असमर्थता विसंवादनो हेतु ठे ?

पूर्वपक्षः—जेम तमारा मतमां “आरोग्य बोहिलात्रं समाहिवरमुत्तमं दिंतु” इत्यादि वचनोनुं कालांतरेंज फल चाहोठो, तेम अमारा अजिमत वेदवचनोना फलनी पण आ लोकमां कल्पना करता नथी, परंतु लोकांतरमांज तेनुं फल थायठे, ते कारणथी विवाह आदिना उपालंजनो अवकाश नथी.

उत्तरपक्षः—अहो विचित्रवादि ! जेम वर्त्तमान जन्मविषे विवाह आदिमां प्रयुक्त मंत्रसंस्कारथी तेनुं फल जविष्य जन्ममां थाय ठे, तेमज वीजा, त्रीजा आदिजन्ममां पण विवाहआदिना पुण्यहेतु मानवाथी अनंतजवोनुं अनुसंधान थशे, एम तो कदापि संसारनी समाप्ति जेम थशे नहि, तेम कोइने मोक्षप्राप्ति पण थशे नहि. तेथी सिद्ध थयुं के वेदज अपर्यवसित (अनंत) संसार वल्लरी (वेल) नुं मूल ठे. जेननी आरोग्यादि प्रार्थना, असत्य, अमृषा जापा ठे, परिणाम विशुद्धिनुं कारण होवाथी दोष कर्ता नथी; कारण के तेमां जावआरोग्य प्रमुखनी जे विवक्षा ठे, अने ते आरोग्यपणुं, चतुर्गति संसाररूप जावरोगने क्षय करवारूप होवाथी, उत्तम फल ठे; तेने वास्ते जे प्रार्थना करवी ते विवेकवान्ने केम आदरवा योग्य न होय ? एम पण न केहेवुं के परिणामशुद्धिथी ते फलनी प्राप्ति नथी, कारण के सर्ववादिउने जावशुद्धिथी फल पामवामां विवाद नथी, वली एमपण न केहेवुं के वेदविहित हिंसा बुरी नथी, कारण के सम्यक्दर्शन, ज्ञानसंपन्न, अर्चिर्मार्गप्रतिपन्न वेदांतवादियोयें पण तेने निंदी ठे. “तथाच तत्त्वदर्शिनः पठन्ति ॥ श्लोक ॥ देवोपहारव्याजेन, यज्ञव्याजेन वाथवा ॥ धृति जंतून् गतघृणा, घोरां ते यांति दुर्गतिं ॥ १ ॥ वैदांतिकाग्रप्याहुः ॥ अंधे तमसि मज्जामः, पशुजियें यजामहे ॥ हिंसा नाम जवेरूमों, न चूतो न जविष्यति ॥ तथा अग्निर्मांसेतस्मात् हिंसाकृतादेनसोमुंचतुठांदसत्वान्मोचयतु इत्यर्थः” व्यासेनाप्युक्तं ॥ ज्ञानपालिपरिद्धिप्ते, ब्रह्मचर्यदयांजसि ॥ स्नात्वातिविमले तीर्थे, पाप पंकापहारिणि ॥ १ ॥ ध्यानाग्नौ जीवकुंडस्थे, दयामारुतदीपिते ॥ असत्

कर्म समित्केपै, रश्मिहोत्रं कुरुत्तम ॥ २ ॥ कपायपशुजिर्दुष्टै, धर्मकामार्थ
नाशकैः॥ शममंत्रहुतैर्यज्ञं, विधेहि विहितं बुधैः ॥३॥ प्राणिघातात्तुयोधर्म,
मीहते मूढमानसः ॥ सर्वांठति सुधावृष्टि, कृष्णादिमुखकोटरात् ॥४॥ ६०
वली यज्ञ करनाराज पूजाय ठे एम जे. तमे कहो ठे ते पण असार
ठे, कारण के अज्ञानि जनोज तेउनी पूजा करे ठे, परंतु बुद्धिमान् करता
नथी; मूर्खोंनुं पूजन अप्रामाणिक ठे, कारण के मूर्ख तो कुतरा, गधे-
डाने पण पूजेठे.

वली तमे कछुं के वेदविहिता हिंसा, देवता, अतिथि, पितृप्रीतिसं-
पादक होवथी दोषरूप थती नथी, आ पण असत्य ठे, कारण के देव-
ताउने तो संकल्पमात्रथीज अजिमत आहारना रसनो खाद प्राप्त थइ
जाय ठे, वली देवताउना शरीर वैक्रिय रूप ठे, ते तमारी जुगुप्सित प-
शुमांसादि आहुति खेवाने इछावान् थताज नथी. जो देवताउने पण
केवल आहारी मानशो, तो देवताउनां शरीर तमे जे मंत्रमय मान्यां ठे,
तेने विरोध आवशे, तेमज अच्युपगम (करेला निर्णय) ने बाध आवशे,
देवताउनां शरीर मंत्रमय तमारा मतमां असिऊ नथी. “चतुर्थ्यंतं पदमेव
देवता इति जैमिनीयवचनप्रामाण्यात् ॥ तथाच ॥ मृगेंद्रः शब्देतरत्वे यु-
गपङ्क्तिदेशेषु यष्टेषु न सा प्रयाति सांनिध्यं मूर्च्छत्वादस्मदादिवदिति ”

तथा जे वस्तुनी आहुति देवताउने आपो ठे, ते तो जस्म जावमात्र
थई जाय ठे, तो पठी देवता शुं ते जस्म अर्थात् राख खाय ठे ? तेथी
तमारं कहेवुं प्रलापमात्र ठे.

वली आ जे त्रेताशि ठे ते तेत्रीश क्रोड देवताउनुं मुख ठे, “ अग्नि
मुखावै देवा इति श्रुतेः ” त्यारे तो उत्तम, मध्यम, अधम सर्व देवता
एकज मुखथी खानारा सिऊ थया; सर्वे पोतपोतामां जूठ (अजीवुं) खा-
नारा वनी गया, तेथी तो अनायोथी. पण अधिक थईगया, कारण के अ-
नार्यो जो के एकपात्रमां एकठा खाय ठे, परंतु एक मुखथी खाता नथी.

वली एक शरीरमां अनेक मुख ठे, ए. वात तो अमे आगल पण सां-
जलता हता, परंतु अनेक शरीरोनुं एक मुख, आ तो मोटुं आश्चर्य ठे;
ज्यारे सर्व देवताउनुं एक मुख मान्युं, त्यारे कोईपुरुषें जो एक देवताउं
पूजादिथी आराधन कछुं, अने वीजा देवताउनी निंदा करी विराधना

करी, तो तो एक मुखथी युगपत् अनुग्रह, निग्रह वाक्यना उच्चारणमांज व्यञ्जिचारनो प्रसंग आवशे.

वली मुख देहनो नवमो जाग ठे, ज्यारे देवताउंनां मुखज दाहात्मक ठे, त्यारे एकेक देवतानुं शरीर दाहात्मक होवार्थी त्रणे शुवन जस्मीचू- त थईजवां जोइयें ? आटली चर्चाथी सखुं.

वली कारीरी यज्ञादिमां वृष्ट्यादि फलनो जे अव्यञ्जिचार ठे, ते फ- लमां आहुतिथी संतुष्ट थयेला देवतानो अनुग्रह जे तमे कहोठो ते पण अनेकांतिक ठे, कोइस्थळें व्यञ्जिचार पण देखवामां आवे ठे. ज्यां व्यञ्जिचार नथी, त्यां पण आहुतिनुं जोजन करवार्थी अनुग्रह नथी, परंतु ते देवताविशेष, अतिशय ज्ञानी ठे, पोताने उद्देशीने करेला पूजा उपचारने देखीने, पोताना स्थानमांज स्थित थया थका, पूजा करनारउपर प्रसन्न थईने, तेनुं कार्य पोतानी इच्छाथी करी आपे ठे. अनुपयोगथी न- हि जाणता, अथवा जाणता थका पण, पूजकना अजाग्यथी कार्य नथी पण करता ? कारण के ड्रव्य, क्षेत्र, काल जावआदिनी सहायताथी कार- र्यनुं थवुं नजरे पडेठे; अने ते जे पूजा उपचार ठे, ते निःकेवल पशु- उंनाज मारवार्थी थई शके ठे एम नथी, परंतु वीजी रीतें पण थई शके- ठे, तो पठी जेनुं फल एक पापरूपज ठे एवी सौनिक (कसाइ) वृत्ति करवार्थी शुं लाज ठे ?

वली जे उगल अर्थात् वकरानुं मांस होमवार्थी परराज्य वश करना- री सिंछ्यादि देवीने संतुष्ट करवानुं जे अनुमान ठे, तेमां शुं आश्चर्य ठे ? केटलाएक छुद्र देवताउं तेवीज रीतें संतुष्ट थाय ठे, त्यां पण ते दुष्ट देवता पोतानी पूजा देखीने राजी थाय ठे, परंतु मलिन मांस खावार्थी राजी थता नथी. जो कदी होम करेळी वस्तुने खाता होय तो निंबपत्र कडवांतिल, आरनाळ (बाकला) धूमांश आदि होम करेलां ड्रव्य पण तेउनुं जोजन थई जशे. वाह ! शुं तमारा देवता सुंदर जोजन करे ठे ?

वली अतिथिनी परोणागत सुंदर संस्कार करेला पक्वान्न आदिथी पण थई शके ठे, तो पठी तेउने वास्ते महोद्ध, महाअजादिनी कल्पना करवी, ते निःकेवल तमारी निर्विवेकता वतावी आपे ठे.

वली श्राद्धादि करवार्थी पितरोनी जे प्रीति मानो ठे, ते पण अने-

कांतिक ठे, कारण के केटलाएक श्राद्ध करता नथी तो पण तेउनी संतान वृद्धि देखवामां आवे ठे. जुंफनाटोलानी जेवी वृद्धि देखाय ठे. तेथी श्राद्ध आदि जे करवुं ठे, ते सुग्ध लोकोने विप्रतारण (उगवा) मात्रज फल थाय ठे. जे पितरो लोकांतर पामेला ठे, ते पोताना शुज अशुज कर्मोने अनुसारे देव, नारकादि गतियोमां सुख दुःख जोगवी रखा ठे, तो पठी तेउ पुत्र प्रमुखें आपेला पिंडोने केवी रीतें जोगववानी इत्ठा करी शके ठे ? “ तथाच युष्मद्बुधिनः पठन्ति ॥ मृतानामपि जंतूनां, श्राद्धं चेतृप्तिकारणं ॥ तंनिर्वाणप्रदीपस्य, स्नेहः संवर्द्धयेत्त्रिखामिति ॥

तथा श्राद्ध करवाथी ते पितरोने पुण्य केवीरीतें पढोचे ठे ? कारण के पुण्यतो बीजाए करेलुं ठे, वली पुण्य पोते जड रूप ठे, तथा पगरहित ठे, तेथी पितरोने पढोची शकतुं नथी. जो कहो के उद्देश तो पितरोनो ठे; परंतु पुण्य, श्राद्धकरनारा पुत्रादिने थाय ठे, ते पण केहेवुं वास्तविक नथी. पुत्रादिने पुण्य थतुं नथी, तेनुं कारण ए ठे के पुत्रादिना मनमां वासना एवी नथी के जे कार्य अमे करियें त्रियें तेनुं फल अमने मले, तो पठी पुण्यनी जावना विना पुण्य फल मलतुं नथी. ते कारणथी पितरो के पुत्रादि कोइने श्राद्ध करवानुं फल मलतुं नथी, परंतु अधरथीज त्रिशंकुना दृष्टांतनी पेठे विलीन थई जाय ठे.

वली पापानुबंधि जे पुण्य ठे, ‘ते तत्त्वथी पापरूपज ठे’ जो कहो के ब्राह्मण जे कांइं खाय ठे, ते पितरोने गमे ठे, ते वात सत्य ठे एवी प्रतीति तो तमनेज थती हशे, अमारी नजरमां तो ब्राह्मणोनुं मोडुं पेट थये-लुं आवे ठे, परंतु तेउना पेटमां प्रवेश करीने, पितरो खाता होय एम कदापि देखता नथी. जोजन अवसरे ब्राह्मणोना उदरमां प्रवेश करता पितरोनुं कांइण चिह्न अमारी दृष्टिए पडतुं नथी. केवल ब्राह्मणोज तृप्त थता देखियें त्रियें.

वली तमे कळुं हतुं के अमारी पासे आगम प्रमाण ठे, तो पुत्रिये त्रियें के, ते तमारुं आगम पौरुपेय ठे ? के अपौरुपेय ठे ? जो कहो के पौरुपेय ठे, तो शुं ते सर्वज्ञनुं करेलुं ठे ? के असर्वज्ञनुं करेलुं ठे ? जो प्रथम पक्ष मानशो तो तमारा मतने व्याहति थशे, कारण के तमारो आ सिद्धांत ठे. “ अतींद्रियाणामर्थानां, साक्षाद्दृष्टा न विद्यते ॥ नित्ये-

ज्योवेदवाक्येज्यो, यथार्थत्वविनिश्चयः ॥ १ ॥ सारांश के अतीन्द्रिय पदा-
र्थानो कोइ साक्षात् दृष्टा नहीं. वीजो पक्ष मानशो तो दूषणवाला (अ-
सर्वज्ञ) कर्त्तानां 'शास्त्रो उपर विश्वास यतो नहीं. जो कहो के अपौरुपेय
ठे, तो संज्ञवज अइ शकतो नहीं. स्वरूप निराकरणथी घोडाना शृंगरूप
पुरुष क्रियानुगत तेनुं रूप ठे, सारांश के पुरुषक्रिया विना ते केवी रीतें
अइ शके ठे ? ते कारणथी जे साक्षर वचन ठे, ते पौरुपेयज ठे, कुमार
संज्ञवादि वचननी जेम. वेद पण वचनात्मकज ठे " तथा चाहुः ॥ ता-
त्त्वादिजन्मा नतु वर्णवर्गो, वर्णात्मकोवेद इति स्फुटं च ॥ पुंसश्च तात्त्वा-
दिरतः कथं स्या, दपौरुपेयोयमिति प्रतीतिः ॥ १ ॥ इति " श्रुतिने अपौ-
रुपेय अंगीकार करी, तो पण तदर्थव्याख्याने पौरुपेयज अंगीकार करी ठे.
अन्यथा " अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः " तेनो अर्थ " स्वमांसं नह-
येत् इति " एम नियामकना अज्ञावथी केम न र्थइ जाय ? ते कारणथी
शास्त्रने पौरुपेयज मानवां ते श्रेय ठे. तमारा हृष्ठथी. कदी वेद अपौरुपेय
मानियें, तो तेथी वेदनी प्रमाणता अशे नहीं, कारण के प्रमाणता आत
पुरुषने आधीन ठे. ज्यारे वेद प्रमाण न थया, त्यारे ते वेदनुं कथन,
तथावेदानुसारिणी स्मृतियो पण प्रमाणचूत थयां नहीं, तेथी हिंसाम-
य यइ तथा श्राद्धादिविधि पण प्रमाणथी विरुद्ध थया.

पूर्वपक्षः— " न हिंस्यात् सर्वजूतानि " इत्यादिथी जे हिंसानो निषेध
करेखो ठे, ते औत्सर्गिकमार्ग ठे, अर्थात् सामान्य विधि ठे, अने वेदवि-
हिता जे हिंसा ठे ते अपवाद मार्ग ठे. अर्थात् विशेष विधि ठे. ते कार-
णथी, तथा अपवाद उत्सर्गथी बलवान् होवाथी वेदविहिता हिंसा दो-
पनुं कारण नहीं " उत्सर्गापवादयोरपवादविधिर्वद्वीयानिति न्यायात् " त-
मारा जैनमतमां पण हिंसाना एकांत निषेध नहीं. केटलांएक कारणोमां
पृथ्वीकायादि जीवोनी हिंसा करवानी आइा ठे. बली ज्यारे साधु रोग
पीडित थाय ठे, तेमज असमर्थ अने ग्लान थाय ठे, त्यारे आधाकर्मादि
आहार ग्रहण करवानी पण आइा ठे, तेवीज रीतें अमारा मतमां या-
ज्ञिकी हिंसा देवता, अतिथिनी प्रीतिवास्ते पुष्ट आलंबनरूप होवाथी
अपवादरूप ठे, ते कारणथी तेमां दोष नहीं.

उत्तरपक्षः— अन्यकार्यवास्ते उत्सर्गवाक्य, अने अन्यकार्यवास्ते अप-

वादवाक्य, केहेवां, ते उत्सर्ग, अपवाद कदी पण थइ शकतां नथी. परंतु जे अर्थवास्ते शास्त्रमां उत्सर्ग कहेल होय. तेज अर्थवास्ते अपवाद केहेवो जोश्ये; त्थारेंज उत्सर्ग अपवाद थइशके ठे. ते वंने उन्नत निम्नादि (उंचां नीचां) व्यवहारवत् परस्पर सापेक्ष होवाथी एक अर्थनां साधक थइ शके ठे. जेम के जैनोए संयम पालवा अर्थे नवकोटि विशुद्ध आहार ग्रहण करवो, ते उत्सर्गमार्ग ठे. तेवीज रीतें द्रव्य, क्षेत्र, काल, जावथी आपत्तिमां पडतां गत्यंतरना अज्ञावथी, पंचकादि यत्नापूर्वक अनेपणीय आहारादिने ग्रहणकरवा ते अपवादमार्ग ठे, तेपण संयम पालवाने वास्तेज ठे. एमपण न केहेवुं के जेसाधुने मरणज एक शरण ठे, तेने गत्यंतर अज्ञावनी असिद्धि ठे. ॥ उक्तं चार्पिञ्जिः ॥ सब्ब संजमं सं जमाउं, अप्पाणमेवरखिज्ज ॥ मुच्चइ थइ वायाउं, पुणो विसोहीनया विरइ ॥१॥ इत्यागमात् ॥ जावार्थः—सर्वरीतें संयम पालवो, जो संयममां दूषण लागवाथी प्राणनी रक्षा थती होय तो संयममां दूषण पण लगावीने रक्षण करवुं, प्राण रेहेवाथी प्रायश्चित्तद्वारा ते पापथी मुक्त थइ शुरू थवाशे, अने अविरतिपणुं पण रहेशे नहि. वली आयुर्वेदमां पण कहुं ठे के, जे वस्तु कोइ रोगमां कोइ अवस्थामां अपथ्य ठे, तेज वस्तु तेज रोगमां वीजी अवस्थामां देश, काल जोइ आपे तो पथ्य ठे. देशादि अपेक्षाए ज्वरवालाने दहीं पण खावा देवामां आवे ठे. तथा च वैद्याः ॥ कालाविरोधि निर्दिष्टं, ज्वरादौ लंघनं हितं ॥ ऋतेऽनिलश्रमक्रोध, शोककामकृतज्वरात् ॥ १ ॥ जेम प्रथम अपथ्यनो परिहार करवो, अने वीजी अवस्थामां तेनेज जोगवाववां, आ वंने प्रसंगें रोगनुं निवारण करवानुं प्रयोजन ठे. तेथी एम सिद्ध थाय ठे के एकज वस्तुविषयक उत्सर्ग अपवाद ठे.

तमारो उत्सर्ग एक अर्थवास्ते ठे, अने, अदवाद वीजा अर्थ वास्ते ठे. जुउं. “ न हिंस्यात् सर्वभूतानि ” आ जे उत्सर्ग ठे, ते दुर्गतिना निषेध वास्ते ठे, अने जे तमारी अपवाद, हिंसा ठे, ते देवता, अतिथि, पितृर्त्तनी प्रीतिसंपादन अर्थे ठे. ते कारणथी परस्पर निरपेक्ष होयाथी, उत्सर्ग, अपवाद विधि थइ शकता नथी. इवे विचारो के तमारो अपवाद, उत्सर्गविधिथी केवीरीतें चलवान् थइ शके ठे ?

एम पण न केहेवुं के वैदिक हिंसानो जे विधि ठे, ते संग्रहेतु दो-

वार्थी, जुर्गतिना निषेधवास्तेज ठे. वैदिक हिंसा स्वर्गनो हेतु नथी. ते उपर सारी रीतें लखी आख्या ठियें. वैदिक हिंसा विना पण स्वर्गप्राप्ति थइ शके ठे. गत्यंतरना अज्ञावमांज अपवाद थइ शके ठे. यइ करवार्थी स्वर्गनो निषेध थाय ठे, एम अमेज मात्र कहेता नथी, परंतु व्यासजी पण कहे ठे. यदाह व्यासमहर्षिः ॥ पूजया त्रिपुलं राज्य, मन्त्रिकार्येण संपदः ॥ तपः पापविशुद्धयर्थं, ज्ञानं ध्यानं च मुक्तिदं ॥ १ ॥ अहिंयां अमि-कार्यं शब्दवाच्यना यागादि विधि उपायांतरथी जे संपत् साध्य ठे, ते-नोज हेतु कहेतां थकां, आचार्य ते यागने सुगतिनो हेतुज कदर्थन क-री गया ठे, तथा तेज व्यासजी जाव अग्निहोत्र “ ज्ञान पाली ” इत्यादि श्लोकोथी स्थापन करी गया ठे. इति मीमांसकमतखंडन. ॥ ५ ॥

हवे चार्वाकमतनुं खंडन लखियेंठियें. चार्वाक कहेठे के आत्माज न-थी. तेथी मतावलंवी पुरुषो शा वास्ते वचन कलह करे ठे ? ज्यारे आ-त्मानोज अज्ञाव ठे, त्यारे जैन, बौद्ध, सांख्य, नैयायिक, वैशेषिक, तेमज जैमिनीय, आ जे ठ दर्शनो ठे, तेउं शा वास्ते निःकेवल लोकोने त्रममां नाखीने जोगविलासथी ठोडावे ठे ? वास्तवमां आत्मा एवी कोइ वस्तुज नथी, ते कारणथी अमारो मत सुंदर ठे. जो आत्मा होय तो तेनी सिद्धि वतावो ?

उत्तरपक्षः— प्रतिप्राणी स्वसंवेदन प्रमाण चैतन्यनी अन्यथा अनुपप-त्तिथी सिद्ध ठे. जुउं. आ जे चैतन्य ठे, ते जूतोनो धर्म नथी, जो जू-तोनो धर्म होय, तो तो पृथिवीनी कठिनतानी पेठे सर्व कालें, सर्व स्य-लें उपलब्ध थवो जोइयें, ते सर्वदा उपलब्ध थतो नथी, कारण के लो-घादिमां, तेमज मृत अवस्थामां चैतन्य उपलब्ध थतुं नथी.

पूर्वपक्षः— लोघादिमां, तेमज मृत अवस्थामां पण चैतन्य ठे, केवल शक्ति रूपें ठे, ते कारणथी उपलब्ध थतुं नथी.

उत्तरपक्षः—वे विकल्प न उल्लंघन करवार्थी आ तमारुं कहेवुं थयुक्त ठे. जुउं. ते शक्ति चैतन्यथी विलक्षण ठे ? के चैतन्यज ठे ? जो कहो के विलक्षण ठे, तो तो शक्तिरूपें चैतन्य ठे एम कहो नहि. कारण के पट विद्यमान ठतां, पटरूपें घट रहेतोज नथी “ आह च ॥ प्रज्ञाकरगुप्तो-पि ॥ रूपांतरेण यदित, तदेवास्तीति मारटीः ॥ चैतन्यादन्यरूपस्य, ज्ञा-वे तद्विद्यते कथम् ॥ १ ॥ जो बीजो पक्ष मानशो तो तो चैतन्यज ते श-

क्ति ठे. पठी ते शक्ति उपलब्ध केम थती नथी ? जो कहो के आवृत्त थवाथी उपलब्ध थती नथी, तो ते पण ठीक नथी, कारण के आवृत्ति शब्दनो अर्थ आवरण ठे. ते आवरण शुं विवक्षित परिणामनो अज्ञाव ठे ? के परिणामांतर ठे ? के जूतोथी अतिरिक्त वीजी वस्तु ठे ? तेमां, विवक्षित परिणामनो अज्ञाव तो नथी. कारण के एकांत तुष्ठ होवाथी ते विवक्षित परिणाम अज्ञावने आवरण शक्ति नथी, अन्यथा तेनुं अ-तुष्ठरूप होवाथी, ते पण ज्ञावरूप थइ जाय. ज्यारे ज्ञावरूप थाय, ल्यारे पृथिवी आदिमांथी अन्यतम थाय, कारण के “ पृथिव्यादीनि जूतानि तत्त्वमिति वचनात् ” अने पृथिवी आदि जे जूत ठे ते चैतन्यनां व्यंजक ठे, परंतु आवरक नथी, तेथी, केवीरीतें आवरणपणुं सिद्ध थाय ?

जो कहो के परिणामांतर ठे, तो तेपण अयुक्त ठे, कारण के परिणामांतर पण जूतस्वज्ञाव होवाथी जूतोनी पेठे चैतन्यव्यंजकज थइ शके ठे, आवरक थइ शकतुं नथी.

जो कहो के जूतोथी अतिरिक्त वस्तु ठे, तो ते कहेबुं बहुज असंगत ठे. कारण के जूतोथी अतिरिक्त (न्यारी) वस्तु मानवाथी “ चत्वार्येव पृथ्व्यादिजूतानि ” तत्त्वसंख्याने व्याघात थइ जशे.

वली जुउं के आ जे चैतन्य ठे ते एक एक जूतनो धर्म ठे ? के सर्व जूतसमुदायनो धर्म ठे ? एक एक जूतनो धर्म तो लागतो नथी, कारण के एक एक जूतमां देखातो नथी, तेमज एक एक परमाणुमां संवेदन उपलब्ध थतुं नथी. जो दरेक परमाणुमां होय तो पुरुष, सहस्र चैतन्य वृंदनी पेठे परस्परजिन्नस्वज्ञाव थाय, परंतु एकरूप चैतन्य नज थाय, अने देखवामां तो एकरूप आवे ठे. “ अहं पश्यामि ” अर्थात् हुं देखुं-हुं. हुं करुंहुं, एवो सकल शरीर अधिष्ठाता एक उपलब्ध थाय ठे.

जो समुदायनो धर्म मानो तो पण प्रत्येकमां अज्ञाव होवाथी थसत् ठे. कारण के जे प्रत्येक थवस्थामां थसत् ठे, ते समुदायमां थइ शकतुं नथी. जेम रेती समूहमांथी तेल.

जो कहो के मद्यांगोमां मदशक्ति नथी. समुदायमां थइ जायठे, तेम चैतन्यपण थइ जाय तो, शुं दोष ठे ? आ पण अयुक्त ठे. कारण के प्रत्येक मद्य थंगमां मदशक्ति अनुयायी माधुर्यादि गुण देखाय ठे; जुउं.

माधुर्यादि इन्द्रसमां धातकी फूलोधी थोड़ी विकलता उत्पादक शक्ति देखियें ठियें, तेवी रीतें चैतन्य, सामान्य प्रकारधी जूतोमां उपलब्ध थतुं नथी ; तो केवीरीतें जूतसमुदायधी चैतन्य थइ शकेते? प्रत्येकमां असत् ठे ते समुदायमां थइ जाय तो, सर्व समुदायधी सर्व कांइ वनी-जवां जोइयें. ए अति प्रसंग थशे.

वली जो तमे चैतन्यने धर्म मानेल ठे, तो धर्मने अनुरूप धर्मीपण अवश्य मानवो जोइशे. जो अनुरूप नहि मानशो तो तो जल अने कठिनता आ वनेने धर्म, धर्मि मानवा जोशे. एमपण न कदेशो के जू-तज धर्मि ठे, कारण के जूत, चैतन्यधी विलक्षण ठे. जुठं. चैतन्य बोध-स्वरूप, तेमज अमूर्त ठे; अने जूत तेनाधी विलक्षण ठे; तो केवीरीतें तेउंनो परस्पर धर्म, धर्मिजाव थइ शकेते? वली आ चैतन्य जूतोनुं कार्य-पण नथी, कारण के अत्यंत विलक्षण होवाधी कार्यकारणजाव कदापि थइ शकतो नथी. उक्तं च ॥ काठिन्याबोधरूपाणि, जूतान्यध्यहसिद्धितः ॥ चैतना च न तद्रूपा, सा कथं तत्फलं जवेत् ॥ १ ॥

वली जो चैतन्य जूतंकार्य होय, तो तो सर्वजगत् प्राणिमय होवुं जोइयें. जो कहो के परिणतिविशेष सज्ञावना अज्ञावधी सकल जगत् प्राणिमय थइ जतुं नथी, तो ते परिणतिविशेष सज्ञाव सर्वत्र शा वस्ते थतो नथी? ते परिणति पण जूतमात्र निमित्तज ठे, तो केवी रीतें तेनुं कोइ स्थलें होवुं न होवुं सिद्ध थइ शकेते? वली ते परिणतिविशेष केवा स्वरूपवालो ठे? जो कहो के कठिनादिरूप ठे, कारण के शुणादि जंतु काष्ठादिमां उत्पन्न थता देखियें ठियें, ते कारणधी ज्यां कठिनत्वादि विशेष ठे, ते प्राणिमय ठे, वीजा नहि. आ पण व्यञ्जिचार देखवाधी असत् ठे. जुठं. अशिष्टपण कठिनत्वादि विशेष ठतां कोइ स्थलें होयठे, अने कोइ स्थलें होता नथी, अने कोइस्थलें कठिनत्वादि विशेष विना-पण संस्वेदज घन आकाशमां संमूर्धिम उत्पन्न थायठे.

वली केटलाएक जीव समानयौनिकपण विचित्रवर्ण संस्थानवाला देखाय ठे. जुठं. गोवरआदि एकयोनिवालां पण केटलांएक कालां शरी-रवालां तो केटलांएक पीलां शरीरवालां होयठे, वीजां विचित्रवर्णवालां होयठे. संस्थानपण तेउंनां परस्पर जिन्न ठे. जो जूतमात्रनिमित्त चैतन्य

होय तो तो एकयोनिवालां सर्व एकवर्ण, संस्थानवालां होवां जोश्यें. परंतु तेम तो थतां नथी. ते कारणथी आत्माज तेवा तेवा कर्मना वश-
थी तेवा उत्पन्न थायठे. एम निश्चयें मानवुं जोश्यें.

जो कहो के आत्मा होय तो गमनागमन करतां केम न उपलब्ध थवो
जोश्यें? कारणके केवल देह विद्यमानज संवेदन उपलब्ध थायठे, अने
देहनो अज्ञाव थतां जस्म अवस्थामां देखातो नथी, ते कारणथी आत्मा
नथी, परंतु संवेदनमात्रज एक ठे, ते संवेदन देहनुं कार्य ठे, देहमांज
आश्रित ठे. जीतना चित्रनी जेम. चित्र जीत विना रही शकतुं नथी, ते-
मज वीजी जीतपर संक्रमण पण थइ शकतुं नथी, अने जीतनी साथेज
तेनो विनाश थायठे. संवेदननुं पण तेवीज रीतें जाणी वेवुं. आ कथनपण
असत् ठे. कारणके आत्मा स्वरूपथी अमूर्त ठे; अने आंतर शरीर अति
सूक्ष्म ठे, तेकारणथी दृष्टिगोचर नथी. तडुक्तं ॥ अंतराज्ञावदेहोपि, सू-
क्ष्मत्वान्नोपलभ्यते ॥ निष्कामन् प्रविशन् वात्मा, नाज्ञावोऽनीक्षणादपि ॥
॥ १ ॥ ते कारणथी आंतःशरीरयुक्त पण आत्मा, जतां आवतां देखातो
नथी, परंतु लिंगथी उपलब्ध थायठे. जुठं. तत्काल उत्पन्न थयेला कृमि
जीवने पण पोताना शरीरविपे ममत्व थायठे. घातकने जाणीने दोडी
जायठे, जेने जेनेविपे ममत्व ठे, ते पूर्व ममत्व अज्यास पूर्वक ठे. तेवुंज
देखायठे. केम के ज्यां सुधी कोइ वस्तुना गुण दोष जाणता नथी, त्यां
सुधी ते वस्तुमां कोइने पण ममत्व थतुं नथी. ते कारणथी जन्मनी आ-
दिमां जे शरीरपर ममत्व ठे, ते शरीर परिशीलन अज्यासपूर्वक संस्कार
निबंधन ठे. ते सबधथी आत्मानुं जन्मांतरथी आववुं सिद्ध थायठे. उक्तं
च ॥ शरीरग्रहरूपस्य, चेतसः संज्ञवो यदा ॥ जन्मादौ देहिनां दृष्टः, किन्न
जन्मांतरा गतिः ॥ १ ॥

हवे आगति प्रत्यक्षथी देखाती नथी, तो केवीरीतें तेनो अनुमानथी
बोध थाय? आ तमारा केहेवार्थी कांइ दूषण आवतुं नथी. कारण के
अनुमेय अर्थविपे प्रत्यक्षनी प्रवृत्ति थइ शकती नथी. परस्पर विषयने
परिहार करीने प्रत्यक्ष, अनुमाननुं प्रवर्तवुं बुद्धिमान लोको मानेठे. हवे
तमारुं दूषण केवीरीतें लागेठे? आह च ॥ अनुमेयेस्ति नाध्यक्ष, मिति
केवात्रदुष्टता ॥ अध्यक्षस्यानुमानस्य, विषयो विषयो नहि ॥ १ ॥

वली जे चित्रनुं दृष्टांत तमे आप्युं ठे, ते पण विपम होवाची अयुक्त ठे. जुळ. चित्र तो अचेतन, तथा गमनस्वप्नावरहित ठे. आत्मा तो चैतन्य ठे, तथा कर्मवशची गमनागमन करे ठे, तो केवीरीतें दृष्टांत तेमज दार्ष्टांतिकनी साम्यता थई ? जेम देवदत्त कोइ विवक्षित गाममां केटलाएक दिवस रहींने, पठी वीजे गाम जई रहै ठे, तेम आत्मा पण विवक्षित जवमां देहनो त्याग करी जवांतरमां देह रचीने रहै ठे.

वली तमे कछुं के संवेदन देहनुं कार्य ठे ते पण वास्तविक नथी. कारण के चक्षुरादि इंद्रियद्वारा उत्पन्न थवाची चाक्षुषादि संवेदन कथंचित् देहची पण उत्पन्न थाय ठे, परंतु जे मानस ज्ञान ठे, ते केवी रीतें देहनुं कार्य थई शकेठे ? तथा ते मानसज्ञान देहची उत्पद्यमान थतुं होय तो, इंद्रिय रूपची उत्पन्न थाय ठे ? के अनिंद्रिय रूपची उत्पन्न थाय ठे ? के केश नखादि लक्षणची उत्पन्न थाय ठे ? प्रथम पद्द तो ठीक नथी, जो इंद्रियरूपची उत्पन्न थतुं होय, तो तो इंद्रिय बुद्धिवत् वर्तमान अर्थनुंज ग्राहक होवुं जोइयें. इंद्रियज्ञान वर्तमान अर्थनेज ग्रहण करी शके ठे, ते सामर्थ्यची उत्पन्न थतुं मानस ज्ञान पण इंद्रिय ज्ञानवत् वर्तमान अर्थनेज ग्रहण करी शकशे.

हवे ज्यारे चक्षु रूप विषय व्यापार करे ठे, त्यारेज रूपविज्ञान उत्पन्न थाय ठे, वीजे वखते थतुं नथी. हवे ते रूपविज्ञान वर्तमान अर्थ विषय ठे, कारण के वर्तमान अर्थ विषयज चक्षुनो व्यापार थाय ठे. अने रूपविषयव्यावृत्तिना अज्ञावमां मनोज्ञान ठे, ते कारणची ते नियत कालविषयक नथी. तेवीज रीतें वीजी इंद्रियोमां पण जाणी खेवुं. हवे केवीरीतें मनोज्ञानने वर्तमान अर्थग्रहण प्रसक्ति होय ? उक्तं च ॥ अक्ष व्यापारमाश्रित्य, जवदक्षजमिष्यते ॥ तद्व्यापारो न तत्रेति, कथमक्षजं जवेत् ॥ १ ॥

जो कहो के अनिंद्रिय रूपची ठे, तो पण ते अचेतन होवाची अयुक्त ठे. वली केश नखादि तो मनोज्ञानची स्फुरित चिद्रूप उपलब्धज थतो नथी, तो केवीरीतें तेउनाची मनोज्ञान होय ? आह च ॥ चैतयंतो न दृश्यंते, केशश्मश्रुनखादयः ॥ ततस्तेज्यो मनोज्ञानं, जवतीत्यति साहसं ॥ १ ॥

जो केशनखादिची प्रतिवस्तु मनोज्ञान होय तो तो तेउनो उद्दे थतां

मनोज्ञान मूलधीज रहेशे नहि. वली केशनखादिनो उपघात यतां ज्ञानपण उपहत थुं जोईयें ? परंतु ते तो थतुं नथी, ते कारणधी त्री-जो पद्द पण ठीक नथी.

वली वीजी वात ए ठे के मनोज्ञानमां सूक्ष्म अर्थ पृथक् करणपणुं ते-मज स्मृतिपाटवादि जे विशेष ठे, ते अन्वयव्यतिरेकधी अज्यासपूर्व-क देखाय ठे. जुळ. तेज शास्त्र इहां, अपोहादि प्रकारधी जो वारंवार विचारियें, तो सूक्ष्म, सूक्ष्मतर अर्थावबोध उल्लास थाय ठे, अने स्मृति पाटव अपूर्व वृद्धि पामे ठे. एवीरीतें एकशास्त्रविषे अज्यास करतां क-रतां सूक्ष्मार्थ स्पष्टीकरण शक्ति यतां, तेमज स्मृतिपाटव वधतां, अ-न्य शास्त्रोमां पण स्वाजाविक रीतें सूक्ष्म अर्थावबोध तेमज स्मृतिपाटव उल्लास पामे ठे, ए प्रमाणे अज्यासहेतुक सूक्ष्मार्थ स्पष्टीकरणादि मनो ज्ञानमां विशेष देखिये ठियें. वली कोशने अज्यास विना पण देखियें ठियें. ते वास्ते अवश्य परलोकनो अज्यास हेतु ठे. शा कारणधी ? का-रणनी साये कार्यनुं अन्यथा अनुपपन्नपणुं ठे, ते प्रतिबंधधी तेना अदृष्ट कारणनी पण सिद्धि ठे. ते कारणधी जीवनुं परलोकं गमन सिद्ध थायठे.

वली देह, क्षयोपशमनो हेतु ठे, तेधी देहने पण कथंचित् ज्ञाननो उपकारी अमे मानियें ठियें. देह दूर थवाधी सर्वथा ज्ञाननी निवृत्ति थ-ती नथी. जेम के अग्निधी घटमां कांश्क विशेषता थाय ठे, परंतु अ-ग्निधी घटमां कांश्क विशेषता थाय ठे, परंतु अग्निनी निवृत्ति यतां, घ-टनो मूलधीज उच्छेद थतो नथी. केवल कांश्क विशेष ठे ते दूर थई जा-य ठे, जेम के सुवर्णनी इवता. तेवी रीतें अर्हीयांपण देहनी निवृत्ति यतां तत्प्रतिवर्द्धज कांश्क ज्ञानविशेष निवृत्त थाय ठे, परंतु ज्ञाननो समूल उच्छेद थतो नथी. जो देहनेज ज्ञाननुं निमित्त मानशो, तेमज दे-हनी निवृत्ति यतां ज्ञाननी निवृत्ति मानशो, तो तो स्मज्ञानमां देह जस यतां तो ज्ञान नाश पामे, परंतु देह विद्यमान ठतां मृत अवस्थामां केम होतुं नथी ?

जो कहो के प्राण अपान पण ज्ञानना हेतु ठे. तेउना अजावधी ज्ञान रेहेतुं नथी. तेकहेतुंपण वास्तविक नथी. कारण के प्राण अपान ज्ञानना हेतु थई शकता नथी, परंतु ज्ञानधीज तेउनी प्रवृत्ति थाय ठे. जुळ. ज्यारे

प्राण अपान करनारो मंद करवानी इष्टा करे ठे, त्यारे मंद थाय ठे, अने ज्यारे दीर्घनी इष्टा करे ठे, त्यारे दीर्घ थाय ठे. जो देहमात्र नैमित्तिक प्राणापान होय, अने प्राणापान नैमित्तिक विज्ञान होय, तो तो इष्टाने आधीनपणे प्राणापाननी प्रवृत्ति यशे नहि. कारण के जेतुं निमित्त देह ठे, एवी जे उज्वलता तेमज श्यामता, ते इष्टाने आधीन थइ प्रवृत्त यती नथी. जो प्राणापान ज्ञाननुं निमित्त होय, तो प्राणापान मंद तेमज दीर्घ थवाथी, ज्ञानपण अल्प तेमज विशेष थवुं जोइयें. कारण के जेतुं कारण हीन थयवा अधिक यशे, तेनुं कार्यपण हीन थयवा अधिक थशे. जेम माटीनो पिंड मोटो थयवा नानो हशे, तो घट पण मोटो थयवा नानो थशे. नहि तो ते कारण थशे नहि. तमने पण प्राणापान न्यून अधिक थवाथी, ज्ञान न्यून अधिक थतुं नथी. परंतु तेथी उलटुं थतुं तो देखाय ठे. कारण के मरण अवस्थामां प्राणापान अधिक थाय ठे तो पण विज्ञान घटी जाय ठे.

जो कहो के मरण अवस्थामां वातपित्तादि दोषोधी देह विगुणी थई जवाथी प्राणापाननी वृद्धि थतां पण ज्ञाननी वृद्धि थती नथी. तेवीज रीतें मृतअवस्थामां पण देह विगुणीभूत थवाथी चैतन्य नथी. आ पण तमारुं कथन असमीचीन ठे. जो एम थाय तो तो मरीजनारां पण जीवतां थवां जोइयें ॥ तथा हि ॥ “ मृतस्य दोषाः समीचवंति ” थयांतु मरण पठी वातपित्तादि दोष रहेता नथी, अने ज्वरादि विकार न देखावाथी दोषोनुं अविद्यमानपणुं प्रतीत थाय ठे. वली दोषोनुं जे समपणुं ठे तेज आरोग्यता ठे, “तेषां समत्वमारोग्यं कथवृद्धिविपर्ययः” ॥ इति वचनात् ॥ आरोग्यलाजथी देहने फरीथी जीवतां थवुं जोइयें, नहि तो देह कारणज नथी. चित्तनी साथे देहने अन्वय व्यातरेक नथी. जो मरेलो जीवतो थाय तो अमे पण देहने कारण मानी लहियें.

पूर्वपक्षः— आ फरी जीवतां थई उठवानो प्रसंग तमारो अयुक्त ठे. कारण के, अगर जो के दोष तो देहने वेगुणें करीने निवृत्त थइ गचेव ठे, तो पण वेगुणपणानो परिणाम निवृत्त थतो नथी. जेम के अग्निवी काष्ठमां करायेलो विकार, अग्नि निवृत्त थया ठतां पण ते निवृत्त थतो नथी.

उत्तरपक्षः— आ तमारुं केहेवुं अयुक्त ठे. कारण के विकारपण वे प्र-

कारना ठे. एक विकार निवृत्त थइ जाय ठे, अने बीजो निवृत्त थतो नथी. निवृत्त विकार जेम के अग्निकृत सुवर्णमां ड्रवता. अनिवृत्त विकार जेम के अग्निकृत काष्ठमां श्यामता. वायुआदि जे दोष ठे, ते निवृत्त विकार ठे. चिकित्सा प्रयोगथी देखियें त्रियें. जो वायुआदि दोषपण अनिवृत्त विकार होय तो तो चिकित्सा विफल थई जाय. एमपण न कहे बुं के मरणनी पहेलां दोष निवृत्तविकार आरंभक ठे, अने मरण समये दोष अनिवृत्त विकार आरंभक ठे, कारण के एकने एकज जगाए निवृत्त, अनिवृत्तरूप वने विकार थइ शकता नथी.

पूर्वपक्षः—व्याधि वेप्रकारना ठें, एम लोकमां प्रसिद्ध ठे- एक साध्य, बीजा असाध्य. साध्यव्याधि, चिकित्साथी दूर थइ जायठे. असाध्य, चिकित्साथी दूर थता नथी. हवे जुठ वे प्रकारना व्याधि सिद्ध ठे के केम ?

उत्तरपक्षः—आ कथन असत् ठे. तमारा मतपूर्वक असाध्य व्याधिज थईशके नहि. व्याधिनुं असाध्यपणुं, आयुना क्षयपणाथी थायठे, कारणके ते व्याधिमां वैद्यनो योग, तथा समान औषध ठतां पण कोइ मरी जायठे, अने कोइ मरतुं नथी; अने जे प्रकृतिल कर्मोना उदयथी चित्रादि व्याधिठे, ते हजार औषधोथी पण साध्य थइ शकता नथी. आ वने प्रकारना व्याधिनुं स्वरूप परमेश्वरनां वचन जाणनाराठना मतमांज सिद्ध ठे; परंतु तमारा चूतमात्र तत्त्ववादियोना मतमां सिद्ध थइ शकतुं नथी. दोषकृत विकार दूर करवामां, वैद्यना तेमज समर्थ औषधिना अज्ञावथी व्याधि वृद्धिमान थइ जायठे, त्यारे ते व्याधि असाध्य थइ जायठे, अने तेथी सर्व आयुष्यनो अपक्रम अर्थात् क्षय ते करी नांखेठे; केटला एक दोषो उपशांत थवाथी अकस्मात् मृत्यु पामे ठे अने केटलाएक अत्यंतदुष्ट दोषोथी पीडातां ठतांपण मृत्यु पामता नथी. आ वात तमारा मतमां सिद्ध थइ शकती नथी. आह च ॥ दोषस्योपशमेप्यस्ति, मरणं कस्यचित् पुनः ॥ जीवनं दोषदुष्टत्वे, ऽप्येतन्न स्याद्भवन्मते॥१॥ अमारा मतमां तो ज्यांसुधी आयुष्य होय, त्यां सुधी दोषोथी पीडातांठतां पण प्राणी जीवतो रहेठे, अने ज्यारे आयुःक्षय थइ जायठे, त्यारे दोषोना विकार विनापण मृत्यु पामेठे. ते कारणथी देह ज्ञानतुं निमित्तनथी. वदी एक सवाल ठे के, देहने जे तमे ज्ञानतुं कारण मानो ठो, तेथुं

सहकारि कारण मानोते ? के उपादान कारण मानो ते ? जो सहकारि कारण मानोते तो तो अमे पण देहने ह्योपशमनो हेतु तो मानियें ठियें, कथंचित् विज्ञाननो हेतु मानियेंठियें. जो उपादान कारण मान-शो तो तो अयुक्तते. उपादान कारण तो ते थइ शके, जे कारण विकारि यतां कार्यपण विकारि थइ जाय, जेम के मृत्तिका तेमज घट; अने अहियां तो देह विकार पामतां ठतां पण संवेदन विकार पामतो नथी; तेमज देह विकार पाम्या विनापण जय शोकादिथी, संवेदन विकार पा-मेलो देखायठे. ते कारणथी देह संवेदननुं याने ज्ञाननुं उपादान कारण थइ शकतो नथी. उक्तं च ॥ अधिकृत्य हि यद्गस्तु, यः पदायोंविकार्यते ॥ उपादानं न तत्तस्य, युक्तं गोगवयादिवत् ॥ १ ॥ आ केहेवाथी जे कहेठे के मातापितानुं चैतन्य, पुत्रना चैतन्यनुं उपादान कारण ठे, तेपण खंडन थइ जायठे. जुठं. मातापिता विकारी यतां पुत्र विकारी यतो नथी; अने जे जेनुं उपादान कारण ठे, ते ते कार्यथी अज्ञेद होयठे, जेमके माटी तथा घट. जो माता, पितानां चैतन्य, पुत्रनां चैतन्यथी अज्ञेदरूप होय तो तो, पुत्रनुं चैतन्य, पण माता पिताना चैतन्यथी अज्ञेद थबुं जोइयें. तेम नथी, तेथी तमारूं कथन प्रमाणरहित ठे. ए प्रमाणेसर्व हेतु जोतां जूतोनों धर्म, अथवा जूतोनुं कार्य चैतन्य नथी. परंतु आत्मा स्वतः सिद्ध ठे. विशेषथी चार्वाकमतनुं खंडन जोबुं होय तो संमतितर्क तथा स्याद् वादरत्नाकरादि ग्रंथो जोइ लेवा. इति चार्वाकमत खंडन. आ परिच्छे-दमां कुयुरुनां जे लक्षणो कहां ठे, ते चाहेतो जैनना साधुमां होय के चाहे तोअन्यमतना साधुठमां होय, ते सर्वने कुयुरु कहेवा जोइयें.

इति श्रीतपागङ्गीयमुनिश्रीबुद्धिविनयशिष्यमुन्यानंदविजयात्माराम विरचितजैनतत्त्वाददर्शगुर्जरजापांतरे कुयुरुस्वरूपनिर्णयनामा चतुर्थः परि-च्छेदः समाप्तः ॥ ४ ॥

॥ अथ पंचम परिच्छेद प्रारंभः ॥

पांचमा परिच्छेदमां धर्मतत्त्वनुं स्वरूप लखियेंठियें. दुर्गतिमां पडतां जीवने धारण करी राखे, अर्थात् दुर्गति प्राप्त न थवा दे ते धर्म कहे-वाय ठे. धर्मना त्रण जेद ठे. १ सम्यक्ज्ञान, २ सम्यक् दर्शन, ३ सम्यक्-चारित्र. प्रथम सम्यक् ज्ञाननुं स्वरूप संक्षेपथी लखियें ठियें. यथा ॥ य-

थावस्थितत्त्वानां, संक्षेपाद्विस्तरेण वा ॥ योवबोधस्तमत्राद्बुः, सम्यक् ज्ञानं मनीषिणः ॥ १ ॥ अर्थः—यथावस्थित नयप्रमाणयुक्त प्रतिष्ठित वे स्वरूप जेतुं एवां जे जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्षरूप सात तत्त्व, प्रकारांतरें पुण्य, पाप अधिक होवाची नवतत्त्व, तेनो जे अवबोध अर्थात् ज्ञान, ते सम्यक् ज्ञान जाणवुं. ते ज्ञान क्षयोपशमविशेष-थी कोइ जीवने संक्षेपथी, तेमज कोइ जीवने विस्तारपूर्वक थाय ठे. ते नवतत्त्वमाहेना प्रथमजीवतत्त्वतुं स्वरूप कहियें ठियें, जीव कहो अथवा आत्मा कहो आ वंने एकज वस्तुनां नाम ठे.

प्रश्नः—जैनमतमां आत्मानुं शुं लक्षण ठे ?

उत्तरः—चैतन्य लक्षण ठे.

प्रश्नः—जैनमतमां जीव, प्राणी, आत्मा कोने कहेठे, जरा विस्तारथी स्वरूप वतावो ?

उत्तरः—यः कर्ता कर्मज्ञेदानां, जोक्ता कर्मफलस्य च ॥ संसर्ता परिनि-
र्वाता, सद्यात्मा नान्यलक्षणः ॥ १ ॥ ज्ञाचार्य. मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद
अने योगथी क्लुपित, अर्थात् मलीन यज्ञने वेदनी आदि कर्मोनों कर्ता,
तथा ते करेलां कर्मोनां सुखदुःखादि फल तेनो जोक्ता, तथा नरक, ति-
र्यंच आदि गतिविषे कर्मोना विपाकना उदयथी भ्रमणकरनार, तेमज
सम्यक् दर्शनादि रत्नत्रयीथी उत्कृष्ट पुरुषार्थपूर्वक संपूर्ण कर्मांशने दूर
करनार अर्थात् निर्वाण प्राप्त करनार तेज आत्मा ठे, तेज प्राणी ठे, तेज
जीव ठे. जुलं नंदीसूत्र. आत्मानी सिद्धि चार्वाकमतखंडनमां लखी
आव्याठियें. जो विशेषथी आत्मानी सिद्धि जोवी होय तो शब्दांजोनिधि,
गंधहस्तिमहाजाप्य जोवां. आत्मा सर्वव्यापी पण नथी. एकांत नित्य,
कूटस्थपण नथी. एकांत अनित्य क्षणिकपण नथी. परंतु शरीरमात्रव्यापी
कयंचित् नित्यानित्यरूप ठे. तेतुं खंडन मंडन विस्तारथी जोवुं होय तो
स्याद्वादरत्नाकर, रत्नाकरावतारिका, अनेकांतजयपताका प्रमुख शास्त्रथी
अवलोकन करवुं. अर्हियां विस्तार करवाची ग्रंथ बधि जाय, तेमज
वांचनार आलस करे ते सवयथी, विशेष वर्णन करुं नथी.

जीव वे प्रकारना ठे. एक मुक्तरूप, बीजा संसारी. वंने प्रकारना जीव
अनादि अनंत ठे. ज्ञान, दर्शन तेतुं लक्षण ठे. मुक्तस्वरूप आत्मा (परमा-

त्मा) सर्व एक स्वभाव ठे. जन्मादि क्लेशोत्थी वर्जित ठे. अन्ततद्ज्ञान, अन्तदर्शन, अन्तवीर्य, अन्त आनंदमय स्वस्वरूपमां स्थित ठे. निर्विकार निरंजन, ज्योतिःस्वरूप ठे.

संसारि जीव वे प्रकारना ठे. एक स्थावर. बीजा त्रस. स्थावरना पांच जेद ठे. १ पृथिवीकाय, २ अष्काय, ३ तेजस्काय, ४ वायुकाय, ५ वनस्पतिकाय. बली त्रसना चार जेद ठे. १ ह्रॉड्रिय, २ त्रीड्रिय, ३ चतुरिड्रिय, ४ पंचेंड्रिय. स्थावरसर्व एक स्पर्शेंड्रिय वालाज ठे. शंख, गंडोलां, जलो, चंदणग, कृमि, अलसीयां प्रमुख जीव, एक स्पर्शेंड्रिय अर्थात् शरीर, तेमज रसनेंड्रिय अर्थात् मुख, एम वे इंद्रियवाला ठे. मांकड, जू, कीडी, घीमेल, उधी, मंकोडाप्रमुखजीव, पूर्वोक्त वे इंद्रिय, तथा एकनासिका, एम त्रण इंद्रियवालां ठे. मांखी, मठर, डांस, कंसारी, वींठी, तीड, जमरा प्रमुख जीव पूर्वोक्त त्रण इंद्रिय तथा एक चक्षु एम चार इंद्रियवालां ठे. नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, देवता ए पंचेंड्रिय जीव ठे. स्पर्शन, रसना, घ्राण नेत्र, कान, आ पांचेंड्रियवालां ठे. स्थावर जीव पण वे प्रकारना ठे. एक सूक्ष्म नामकर्मना उदयथी. सूक्ष्म. बीजा वादर नामकर्मना उदयथी, वादर. स्थावर तथा त्रस जीव, समुच्चय उपर्यासि वालां ठे, उपर्यासिनां नाम. १ आहार पर्यासि, २ शरीरपर्यासि, ३ इंद्रियपर्यासि, ४ आसोद्वास पर्यासि, ५ जापापर्यासि, ६ मनःपर्यासि.

हवे पर्यासिनुं स्वरूप लखियेंठियें. पर्यासि अर्थात् शक्ति १ आहार ग्रहण करवानी जे शक्ति, ते आहारपर्यासि, २ शरीर रचवानी जे शक्ति, ते शरीरपर्यासि, ३ इंद्रिय करवानी शक्ति, ते इंद्रियपर्यासि ठे, एम तए पर्यासिनुं स्वरूप जाणवुं. पूर्वोक्त ठ पर्यासिमध्येथी जे जे जीवने जेटली जेटली पर्यासि होवी जोइये. ते करतां उंठी पर्यासि होय तो ते जीव उपर्यासि कहेवाय ठे, स्थावर जीवमां प्रथमनी चार पर्यासि ठे, वे इंद्रियवाला, त्रण इंद्रियवाला, अने चार इंद्रियवाला जीवोमां मनविना पांचपर्यासि ठे. पंचेंड्रिय जीवमां ठ पर्यासि ठे. १ पृथिवीकाय, २ जलकाय, ३ तेजस्काय, ४ वायुकाय, आ चारेमां असंख्य जीव ठे. वनस्पति कायना वे प्रकार ठे. प्रत्येक वनस्पतिकायमां असंख्य जीव ठे, साधारण वनस्पतिकायमां अन्तजीव ठे. स्थावर तथा त्रसजीवना जघन्य (१४) जेद

ठे, मध्यम (५६३) ज्ञेद ठे, अने उत्कृष्ट अनंत ज्ञेद ठे. मध्यमना ज्ञेदो-
मां (१४) ज्ञेद नरकगतिवालांना ठे, (४८) ज्ञेद तिर्यंच गतिवालांना
ठे, (३०३) ज्ञेद मनुष्य गतिवालांना ठे, (१९८) ज्ञेद देवगतिवालांना
ठे. मध्यमना सर्व मली एम (५६३) ज्ञेद ठे. तेउनुं विस्तारथी स्वरूप जोवुं
होय तो प्रज्ञापन्नसिद्धांत, तथा जीवविचार प्रकरण आदि शास्त्रो जोवां.

प्रश्न:- हे जैन ? वे इंद्रियादि जीव तो जीवलक्षणसंयुक्त होवा-
थी जीव सिद्ध थाय ठे. परंतु पृथिवी आदि पांच स्थावरोमां अमे
जीव केवी रीतें मानियें ? पृथिवी आदिमां जीवनुं कांइ पण चिह्न
उपलब्ध थतुं नथी.

उत्तरपक्ष- अगर जो पृथिवी आदिमां जीवनुं प्रगट चिह्न देखातुं न-
थी, तो पण अव्यक्त रूपें जीवनुं चिह्न ठे तेथी जीव सिद्ध थाय ठे. जेम
धत्तुराथी, अने मदिरापान आदिना निस्साथी मूर्च्छित थयेला जीवमां
अव्यक्तलिंग थइ जवा ठतां जीवपणुं ठे, तेम पृथिवी आदिमां पण जी-
वपणुं मानवुं जोइये.

प्रश्न:- मदिरानी मूर्च्छांमां श्वासोद्वास देखवाथी अव्यक्तपणामां पण
चेतना लिंग ठे, परंतु पृथिवी आदिमां तेवुं चेतनतानुं लिंग कांइ पण
नथी, तेथी तेउने केम चैतन्य मानवामां आवे ?

उत्तरपक्ष- तमे कहो ठो तेवुं चैतन्य नथी, परंतु पृथ्वीकायमां आयमां,
स्वआकारमां रहेलां लवण, विद्रुम, पापाण आदिमां, अर्पे मांस अंकुरनी
जेम समानजातीय अंकुर उत्पत्तिपणुं ठे. वनस्पति जेम चेतनपणानुं
चिह्न ठे. ते कारणथी अव्यक्त उपयोगादिलक्षण होवाथी पृथ्वी सचेत-
न ठे एम सिद्ध थाय ठे.

प्रश्न:- विद्रुम पापाणादि पृथ्वी कठणरूप ठे. सबव कठिनरूप होवा-
थी पृथ्वी सचेतन केम होइशके ?

उत्तर:- जेम शरीरमां अस्थि अर्थात् हाड अनुगत ठे, ते कठण ठे तो
पण सचेतन ठे. तेम जीवानुगत पृथ्वीनुं शरीरपण सचेतन ठे, वली पृथ्वी,
अप्, तेज वायु, वनस्पति, तेउनां शरीर जीव सहित ठे, ठेच, जेच, उत्कृष्ट,
जोग्य, ग्रेय, रसनीय, स्पृश्य ड्रव्य होवाथी. साक्षा (बलदना गलांनी
नीचेनी फूल ' गलथी ') तथा विपाण (शींगडां) नीपेठे संग्रातवट

पृथिवी आदिमां षेद्यत्वादि जे देखियें ठियें, तेने कोइ पण गोपवी शकतुं नथी. वली एमपण न कहेवुं के पृथिवी आदिनां जीवशरीर जे साधवां ठे ते अनिष्ट ठे, कारण के सर्व पुजल ड्रव्यने ड्रव्यशरीर एम पण मानियेंठियें. तेमां जीवसहित, तथा जीवरहित जे विशेष ठे ते आ प्रमाणे ठे; शस्त्रथी अनुपरत जे पृथिवी आदि ठे, ते हाथ पगना संघातवत् संघात न होवाथी कदाचित् सचेतन ठे, तेवीज रीतें शस्त्रथी उपहृत थवाथी हाथ आदि पेठे अचेतनपण ठे, ते अचेतनज ठे.

प्रश्नः— प्रश्रवणवत् अर्थात् मूत्रनी पेठे जीवतुं लक्षण न होवाथी जल जीव नथी.

उत्तरपक्षः— हेतु असिद्ध होवाथी, आ पण कहेवुं वास्तविक नथी. जुठ. हाथीनुं शरीर कलल अवस्थामां (तरत उत्पन्न थयेली स्थितिमां) ड्रवरूप तेमज सचेतनरूप देखाय ठे. तेवीज रीतें जलमां पण जाणवुं. वली इंडामां रसमात्र ठे, परंतु श्रवयव कोइपण उत्पन्न थयेल नथी, तेमज व्यक्त हाथपगादि पण नथी, तो पण सचेतन ठे, ते उपमाए जलपण सचेतन ठे. आ तेमां प्रयोग ठे. ड्रवरूप होवाथी शस्त्रथी अनुपहृत थकुं हाथीना शरीरना उपादानचूत कललवत् जल सचेतन ठे. आ हेतुमां विशेषणना उपादानथी अर्थात् ग्रहणथी प्रश्रवण दूधादिमां व्यञ्चिचार नथी, तथा अनुपहृतड्रव्य होवाथी इंडामां रहेला कललवत् जल सात्मक ठे. वली हिमादि कोइक अवस्थामां अप्काय होवाथी बीजा उदकनी जेम सचेतन ठे तथा कोइ जगाए चूमि खोदवाथी स्वाभाविक संजव होवाथी मेंडकंवत् जल सचेतन ठे. तेमज आकाशमां उत्पन्न थतुं जल, वादलादि विकारथी थयेवुं स्वतःज उत्पन्न थइने पडवाथी मत्स्यवत् सचेतन ठे. तथा शीतकालमां नदीप्रमुखमां बहु शीत पडतां, बहु, अने अल्प शीत पडतां अल्प, उप्मा देखाय ठे, ते उप्मा सजीव हेतुकज ठे. अल्प विशेष मलेलां मनुष्योना शरीरोनी जेम अल्प बहु उप्मा थाय ठे. जलमां शीतस्पर्शज ठे एम वैशेषिक कहे ठे. तथा शीत कालमां शीत बहुज पडवाथी प्रातःकालमां तलाव आदिनी पश्चिम दिशामां उजा रही, तलाव आदि जोइयें, तो ते तलावमांथी निकलतो वाष्पसमूह देखाय ठे; तेपण जीव हेतुकज ठे. तेनो प्रयोग एवो ठे के शीतकालमां

जे वाष्प थाय ठे, ते उष्ण स्पर्शवाली वस्तुथी थाय ठे. शीतजलथी से-
चनकरेला शीतकालमां मनुष्य शरीरनी वाष्पनी जेम. वली उकरडामां
कूडा कचवरमांथी धूआ (वाष्प) निकले ठे, त्यां पण अमे पृथ्वीकायना
जीव मानियेंठियें आ हेतुठथी जल सजीव सिद्ध थाय ठे.

प्रश्न:- तेजस्कायमां जीव केवीरीतें सिद्ध थाय ठे ?

उत्तरपक्ष:- जेम रात्रिमां खद्योत (आगीआ कीडा) नुं शरीर जी-
वशक्तिथी वनेहुं प्रकाशवान् ठे, तेम अंगारादिपण प्रकाशमान होवाथी
सचेतन ठे. तथा जेम ज्वरनी उष्मा जीवना प्रयोग विना अर्थात् अ-
स्तित्व विना होती नथी, तेम अग्निमां पण जीवविना गरमी थती नथी.
जुळ के मृतकशरीरमां ज्वर कदापि होतो नथी. एवा अन्वयव्यतिरेकथी
अग्नि सचेतन जाणवो. वली प्रयोग आ ठे, आत्माना संयोगथी प्रगट
थयो ठे अंगाराप्रमुखने प्रकाश परिणाम, शरीरस्थ होवाथी खद्योत श-
रीर परिणामवत्. तथा आत्मा संयोगपूर्वक शरीरस्थ होवाथी ज्वर उ-
ष्मवत् अंगाराप्रमुखमां उष्णता ठे. एमपण न कहेवुं के सूर्यनी उष्मा
साथे अनेकांतिक हेतु ठे. सूर्यमां जे उष्मा ठे ते पण आत्मसंयोग पूर्व-
कज अमे मानियेंठियें. तथा अग्नि सचेतन ठे, कारण के यथायोग्य आ-
हार करवाथी वृद्धि आदि विकार मालम पडवाथी पुरुषना शरीरनी जे-
म. इत्यादि लक्षणोथी अग्नि सचेतन ठे.

प्रश्न:- वायुकाय (पवन) मां जीवसत्ता केवी रीतें सिद्ध करो ठे ?

उत्तरपक्ष:- जेम देवतार्जनां शरीर शक्ति प्रज्ञावथी, तेमज मनुष्योनां
शरीर अंजनादि विद्यामंत्रना प्रज्ञावथी, अदृश्य अर्जवाथी नेत्रथी दे-
खातां नथी, तोपण विद्यमान चेतनावालां ठे, तेम वायुकाय सूक्ष्म परि-
णाम होवाथी, परमाणुनी जेम, नेत्रथी देखातां नथी तोपण विद्यमान
चेतनावालां ठे. तेमज अग्निथी दग्ध पापाणखंडगत अग्निवत्; प्रयोग
आ ठे. बीजांजनी प्रेरणाविना, नियमपूर्वक तिर्यक् गति होवाथी वायु
चेतनावान् ठे. गवाश्वादिवत् तिर्यक् गतिना नियमथी; परमाणुनी साथे
व्यञ्जिचार नथी. वली शस्त्रथी अनुपहत होवाथी वायु सचेतन ठे.

वनस्पतिकायमां तो प्रत्यक्ष प्रमाणथी जीव सिद्धज ठे. ते कारणथी
अहियां तेनां विस्तार कयो नथी. सर्वज्ञता कथन करेलां आगमपण पृ-

श्रेणी जल, अग्नि, पवन, वनस्पतिमां जीवसत्ता कहे ठे. तेम ठतां कदा-
पे कोइ छींद्रिय, त्रींद्रिय, चतुरिंद्रिय, तेमज पंचेंद्रियमां पण जीव न-
हे माने तो तेउनी अमान्यताथी अमने कांइ हानि नथी. आ संक्षेपथी
जीवस्वरूप वर्णन करुं, विस्तारनी अजिलापावालाए जैनसिद्धांत जोवा.

हवे वीजुं अजीवतत्व कहियेंठियें. अजीवनां लक्षणो जीवनां लक्ष-
णोथी विपरीत ठे. जे ज्ञानथी रहित होय, रूप, रस, गंध, स्पर्शवाला
होय, नर, अमरादिगतिमां न गमन करनार होय, ज्ञानावरणीयादि क-
र्मना कर्ता न होय, तेमज ते कर्मफलना चोक्ता न होय, अने जडस्व-
रूप होय, ते अजीव ठे. ते अजीवना पांच प्रकार ठे. १ धर्मास्तिकाय, २
अधर्मास्तिकाय, ३ आकाशास्तिकाय, ४ पुज्जलास्तिकाय, ५ काल.

१ धर्मास्तिकायनुं स्वरूप आ प्रमाणे ठे. जेम मत्स्यना संचारनुं अपे-
क्षाकारण पाणी ठे, तेम जीव तथा पुज्जलने गतिपणे परिणमतां जे अ-
पेक्षाकारण होय ते धर्मास्तिकाय ठे. यद्यपि जीव तथा पुज्जल स्वशक्तिथी
चाले ठे, परं तु तेउने गतिसहायक गुणप्रदाता धर्मास्तिकाय पदार्थ ठे.
ते लोकव्यापी ठे, नित्य ठे, अवस्थित ठे, अरूपीठे असंख्यप्रदेशी ठे. ज्यां
सुधी आ धर्मास्तिकाय डव्य ठे, त्यांसुधी लोकनी मर्यादा ठे. जो धर्मा-
स्तिकाय डव्य न मानियें, तो लोक अलोकनी मर्यादा रहे नही. ज्यां सुधी
धर्मास्तिकाय डव्य वचेंठे, त्यांसुधी जीव, पुज्जल गति करेठे. तेनुं संपूर्ण
स्वरूप जैनमतना ग्रंथो अध्ययन कर्या शीवाय जाणी शकय नहि.

श्वीजुं अधर्मास्तिकाय डव्य ठे. तेनुं स्वरूप धर्मास्तिकाय सदृश जा-
णवुं, परंतु तफावत ए ठे के, आ डव्य जीव, पुज्जलने स्थिति सहायक ठे
जेम पंथीजन रस्तामां चालतां थाकी जायठे, त्यारे विश्राम लेवा सारू
वृद्धादिनी ठायामां वेसेठे, ते प्रसंगें स्थिति तो पोतेज करेठे, परंतु आ-
श्रय विना स्थिति थइ शकती नथी, तेम जीव पुज्जल गतिकरतां करतां
स्थिति करवा प्रसंगे स्थिति तो पोतेज करेठे, परंतु अपेक्षाकारणरूप
वृद्धनी ठाया जेम अधर्मास्तिकाय डव्य ठे.

३ त्रीजुं आकाशास्तिकाय डव्य ठे. तेनुं स्वरूप पण धर्मास्तिकाय
सदृश ठे. परंतु विशेष आ प्रमाणे ठे. आ डव्य लोकालोकव्यापीठे अव-
काशदानलक्षण ठे. जीव, पुज्जलने रहेवामां अवकाश आपेठे. आ

त्रयेऽव्य एक वीजामां मली गयेलांते. ज्यांसुधी आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय अने अधर्मास्तिकाय ठे, त्यांसुधी लोक ठे, अने ज्यां केवल आकाशास्तिकाय ठे, अने वीजुं कांइ नथी, ते अलोक ठे.

चोथुं पुज्जलास्तिकाय ऽव्य ठे. परमाणुउनुं नाम पण पुज्जल ठे, तेमज परमाणुउना समूहनां घट, पटादि कार्य ठे, तेउने पण पुज्जलज कहेठे. एक परमाणुमां, एकवर्ण, एकरस, एकगंध, वे स्पर्श ठे, कार्य तेनुं लिंग ठे. वर्णाथी वर्णांतर, रसथी रसांतर, गंधथी गंधांतर, अने स्पर्शथी स्पर्शांतर थइ जायठे. परमाणु ऽव्यरूपें अनादि अनंत ठे, पर्यायरूपें सादि सांत ठे. परमाणुउनां जे कार्य ठे, तेउमां कोइकतो प्रवाहथी अनादि अनंत ठे, अने कोइ सादि सांत ठे. जे जडरूप देखाय ठे, ते सर्व परमाणुउनां कार्य ठे. सुकेली वनस्पति, तेमज अग्निप्रमुख शस्त्रोथी परिणामांतर प्राप्त थयेलां पृथिवी आदि सर्व पुज्जल ठे. समुच्चय पुज्जल ऽव्यमां, पांच वर्ण, पांच रस, वे गंध, आठ स्पर्श, पांच संस्थान, ठे. कालो, लीलो, रातो, पीलो, धोलो, आ पांच वर्ण ठे. तीखो, कडवो, कपायेलो, खाटो, मीठो, आ पांच रस ठे. सुगंध, दुर्गंध, आ वे गंध ठे. खरखरो, सुवालो, हलवो, जारे, टाठो, उनो, चीकणो अने दूखो आ आठ स्पर्श ठे. तेना विशेषवर्णादि थाय ठे, ते सर्व एक वीजाना मेलापथी थाय ठे, पुज्जलोमां अनंत शक्तिउं ठे, अनंत स्वजाव ठे. १ ऽव्य, २ क्षेत्र, ३ काल, ४ जाव, इत्यादि ते ते निमित्तोना मलवाथी विचित्र परिणाम तेना थाय ठे.

५ पांचमुं कालऽव्य ठे. ते प्रसिद्धे. आ पांचे ऽव्य अजीव ठे. इति. हवे पांच निमित्तनुं स्वरूप लखियेंठियें. १ काल, २ स्वजाव, ३ नियति, ४ पूर्वकृत, ५ पुरुषकार, तेउनुं स्वरूप श्रीसिद्धसेन दिवाकर आचार्यकृत सम्मतितर्क ग्रंथमां विस्तारथी वतावेळ ठे. ते पांचमांथी जो एकने माने तो ते मिथ्याज्ञान, अने मिथ्या दृष्ट ठे. जो पांचेना समवायने माने तो सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् दृष्ट ठे. आ पांचे निमित्तमांहेना १ काल, २ स्वजाव, ३ नियति, आ त्रण निमित्तोनुं स्वरूप क्रियावादिना मतमां लखी आख्या ठियें, ४ पूर्वकृत (कर्म) नुं स्वरूप आगल कर्म स्वरूपनो विस्तार करवामां आवशे त्यां करवामां आवशे. ५ पुरुषकार, ते जीवोनो उद्यम ठे, आ पांचे निमित्तोथी जगत् प्रवृत्ति निवृत्ति थइ

रहीठे. आ पांच निमित्तोथीज जीव नरकादि गतियोमां जायठे; तेमज सुख दुःखनां फल जोगवे ठे. आ पांच निमित्त विना फल प्रदाता ईश्वरादि कोइ पण नथी, जो कोइ वादि आ पांच निमित्तोना समवायने ईश्वर माने, तो तो अमे पण ईश्वर कर्ता मानी लेखुं, कारण के जैनमतनी तत्त्वगीतामां लखेलुं ठे के, उव्यमां जे अनादिउव्यत्व शक्ति ठे, तेज सर्वपदार्थोने उत्पन्न करेठे, तेमज लय करेठे, ते शक्ति चेतन्य अचेतन्यादि अनंत स्वप्नाववाली ठे तेने ईश्वर कर्ता मानवाथी जैनमतने कांइ हानि थती नथी.

३ ह्वे पुण्यतत्त्वनुं स्वरूप लखियें ठियें. “येन शुचप्रकृत्या आत्मकं कर्म जीवान् सुखं ददाति तत् पुण्यं” इत्यादि जेणे करी अर्थात् जे शुच प्रकृतिथी पोते करेलां कर्म जीवोने सुख आपे ठे ते पुण्य. पुण्य उपार्जन करवानां नव कारण ठे, “उक्तं च स्यानांगे” अन्नपुण्ये पाणपुण्ये लेणपुण्ये सयणपुण्ये मणपुण्ये वयपुण्ये कायपुण्ये नमोक्कारपुण्ये इति सूत्रं ॥ व्याख्या १ पात्रने अन्ननुं दान आपवाथी जे तीर्थकरनामादि पुण्य प्रकृतिनो बंध थाय ते अन्नपुण्य ठे, तेवीजरीतें २ पीवाने जल आपबुं, ३ वस्त्र आपवां, ४ रद्देवाने स्थानक आपवां ५ सुवा, वेसवाने आसन आपवां, ६ गुणीजनने देखी मनमां संतोष, खुशी मानवी, ७ गुणिजनोनी वचनथी प्रशंसा करवी कायाथी पर्युपासना अर्थात् सेवा करवी ८ गुणि जनोने नमस्कार करवो आ पुण्य उपार्जन करवानी वाचतो कही, ते कांइ जैनमतवालाउने देवावास्ते कही, एटखुंज नहि परंतु कोइपण मतवालो अथवा कोइपण दान देवायोग्य प्राणी होय, तेने अनुकंपाथी जे कोइ दान आपे ते अवश्य पुण्य उपार्जन करे परंतु तफावत एटखो ठे, के पात्रने जे दान आपवामां आवशे, तेपुण्य तेमज मोक्ष वंनेनो हेतु थशे, अने अनुकंपाथी जे वीजाने दान देवामां आवशे, ते केवल पुण्य उपार्जन करवानोज हेतु थशे. जैनमतना कोइ शास्त्रमां पुण्य करवानो निषेध नथी कारण के जैनमतइ ऋषभदेवादि चोवीश तीर्थकरो थयेला ठे; तेउए दीक्षा लेतां पहेलां एकक्रोड आठ लाख सोनेया दिन दिन प्रति एकवर्षसुधी दान आपेल ठे. ते कारणथी जैनमतमां प्रथम दान-

धर्म ठे. जैनमतना शास्त्रमां वीजी केटलीएक रीतथी पुण्य उपार्जन थायठे एम लखेलुं ठे.

४ हवे पुण्यनां फल वेंतालीश प्रकारें जोगववामां आवेठे ते वेंतालीश प्रकार लखियेंठियें. १ जेना उदयथी जीव शाता जोगवे ठे ते शाता वेदनीय, २ जेना उदयथी जीव क्षत्रियादि उंचा कुलमां उत्पन्न थाय ठे ते उच्चगोत्र, ३ जेना उदयथी जीव मनुष्यगतिमां उत्पन्न थाय ठे ते मनुष्यगति, ४ जेना उदयथी जीव देवगतिमां उत्पन्न थाय ठे ते देवगति, ५ वक्रगतिए पराजवमां जतां, बलदने नाथ घालीने सिद्धो चलाववानी जेम, जे उपजवाने स्थानकें जीवने प्होंचाडे तेने आनुपूर्वी कहे ठे. मनुष्यगतिमां जीवने लाववाने उदयमां आवे ते मनुष्यानुपूर्वी, ६ देवानुपूर्वी, ७ जेना उदयथी जीव पंचेंद्रियपणुं पामे ठे ते पंचेंद्रियजाति, हवे पांच जातनां शरीर कहियेंठियें. ८ जेना उदयथी जीव औदारिक वर्गणानां पुजलो ग्रहण करीने औदारिक शरीरनी रचना करे ठे, अर्थात् औदारिक शरीरपणे परिणमावे ठे, ते औदारिक शरीर, तेवीजरीतें ए वैक्रियशरीर. १० आहारक शरीर, ११ तैजसशरीर, १२ कर्मणशरीर, एम पांच शरीरनी प्रकृतिउनो अर्थ समजवो. तथा अंगोपांग त्रण ठे. तेमां अंग, शिरप्रमुख, उपांग, आंगली प्रमुख, बाकीनां अंगोपांग ठे. जेम के १ शिर, २ गति, ३ पेट, ४ पीठ, ५-६ वंने हाथ ७-८ वंने साथल, आ आठ अंग ठे, आंगली प्रमुख उपांग ठे, नखादि अंगोपांग ठे. जेना उदयथी जीवने प्रथमना त्रण शरीरना अंगोपांगनी उत्पत्ति थाय, तेनां नाम, १३ औदारिक अंगोपांग, १४ वैक्रिय अंगोपांग, १५ आहारक अंगोपांग, १६ जेना उदयथी जीव प्रथमनुं संहनन जेनुं नाम वज्ररूपज नाराच ठे, ते प्राप्त करे ठे, तेनुं स्वरूप आ प्रमाणे ठे. वज्रनाम कीलिका (खीली) ठे, तथा रूपज एटले परिवेष्टन पट्ट अर्थात् उपर लपेटवाना हाडरूप पाटो, तथा नाराच, ते मर्कटबंध, आ त्रणे रूपथी जे उपलक्षित ठे तेने वज्ररूपज नाराच संहनन कहे ठे, हाडना संचय सामर्थ्यनुं नाम संहनन ठे. आ संहनन औदारिक शरीरवालाउमांज होय ठे. १७ जेना उदयथी जीवने प्रथमना समचतुरस्र संस्थाननी प्राप्ति थाय, तेनुं स्वरूप आ प्रमाणे सम अर्थात् तुल्य, जेनुं शरीर चारे वाजुएथी तुल्य, लक्षणयुक्त, प्रमाण

सहित, सुंदर आकार, पोताना आंगल प्रमाणे एकसो आठ आंगल प्रमाणशरीर थाय ते; हवे वर्ण, रस, गंध, अने स्पर्श, कहियें ठियें. १८ कृष्णादिवर्ण, १९ तिक्तादिरस, २० सुरच्यादिगंध, २१ मृडु आदि स्पर्श, जेना उदयथी शुच होय, २२ जेना उदयथी मध्यम वजनदार शरीरनी प्राप्ति थाय, अर्थात् लोहनी जेम अत्यंत चारे नहि, अने आकडाना कपासनी जेम अति हलकुं पण नहि, परंतु मध्यमपरिणामी होय, तेने अग्रुरु लघु नामकर्म कहीयें. २३ जेना उदयथी वीजाने हणीशके, तथा शरीरनी आकृति एवी होय के जेने देखीने वीजांठने अजिजव अर्थात् असामर्थ्यता थाय ते पराघातनामकर्म कहीयें, २४ जेना उदयथी उद्धासनलब्धि, अर्थात् श्वासोद्धास लेवानी शक्ति जीवने थाय ठे, ते उद्धासनामकर्म, २५ जेना उदयथी जीघनुं शरीर प्रकाशवाळुं तथा सूर्यना विंवनी जेम वीजाने ताप उत्पन्न करवाना हेतुरूप तेजयुक्त शरीरनी प्राप्ति थाय ठे, ते आतपनामकर्म, २६ जेना उदयथी चंद्रविंवनी जेम शीतलताने उत्पन्न करवाना हेतुरूप तेजयुक्त शरीरनी प्राप्ति थाय, ते उद्योतनाम कर्म; २७ जेना उदयथी जीवने विहायस्नाम आकाश, तेमां जे गति, ते विहायोगति, ते गति राजहंससदृश होय, ते सुविहायोगति नामकर्म, २८ जेना उदयथी जीवने शरीरनां अंगोपांग आदिने नियतस्थानमां स्थापन करनार सूत्रधार (कारीगर) समान, अर्थात् नसो, जाल, मस्तकनी खोपरी, हाड, चक्षु, कान, केश, नखादि शरीरना सर्व अवयवो योग्यस्थानें रचनार नामकर्मनी प्राप्ति थाय ते निर्माणनामकर्म, २९ जेना उदयथी जीवने त्रसणानी प्राप्ति थाय, ते त्रसनामकर्म, उष्णप्रमुखथी तप्त यतां विवक्षित स्थान तजी ठाया प्रमुखमां गति करे, तेमज ह्रींजियादि पर्यायनां फल जोगवे, ते त्रस. ३० जेना उदयथी जीव वादर (स्थूल) शरीरवाला थाय, ते वादर नामकर्म, ३१ जेना उदयथी जीव पूर्वे कहेल्ली ठ पर्याप्ति पूर्ण करे ठे, ते पर्याप्त नामकर्म, ३२ जेना उदयथी एक एक जीवने एक एक शरीर प्राप्त थाय ठे, ते प्रत्येक नामकर्म, ३३ जेना उदयथी जीवने हाडप्रमुख अवयवो स्थिर, निश्चल होय ठे, ते स्थिरनामकर्म, ३४ जेना उदयथी जीवने मस्तकप्रमुख अवयवो शुच होय ठे. ते शुचनामकर्म, ३५ जेना उदयथी सौभाग्यवान्

अर्थात् सर्वलोकने प्रिय जीव थाय, ते सुजगनामकर्म, ३६ जेना उद-
यथी जीवनो खर कोयलनी सदृश मीठाशवालो थाय ते सुस्वरनाम-
कर्म, ३७ जेना उदयथी जीवनुं वचन उपादेय अर्थात् सर्वलोकने मान-
नीय थाय, ते आदेयनामकर्म, ३८ जेना उदयथी विशिष्ट कीर्त्ति तथा
यश जगत्मां जीवनी विस्तार पामे ते यशःकीर्त्तिनामकर्म; ३९ जेना उ-
दयथी जीवनी चोसठ इंद्रो पूजा करे, तेमज त्रिभुवनमां पूज्यपणुं जे-
नार्थी जीवने प्राप्त थाय, तेमज धर्म तीर्थनी प्रवर्त्तना जेनार्थी थाय, ते
तीर्थकर नामकर्म, ४० तिर्यचोनुं आयु, ४१ मनुष्यआयु, ४२ देव आयु,
आ त्रण आयुनी प्रकृति आयुक्रमनी ठे. जेना उदयथी जीव ते ते ग-
तिमां जइ ते ते चवमां स्थिति करे ठे, आ वेतालीश प्रकारथी पुण्य-
फल जीवने जोगववामां आवें ठे.

४ हवे पापतत्त्वनुं स्वरूप लखियें ठियें. येनाशुचप्रकृत्या आत्मकं कर्म
जीवान् दुःखं ददाति तत् पापं ” जे अशुचप्रकृतिथी पोते करेलां कर्म
जीवोने दुःख आपे ते पाप, तेमज आत्माना आनंदरसने पीये (जस-
करे) ते पाप. तथा पुण्यथी विपरीत, ते पाप, आ पाप नरकादिफल प्रवर्त्तक
होवार्थी अशुच ठे, पुण्यनी जेम तेनो आत्मानी साथेज संबंध ठे, कर्म-
पुज्जरूप ठे. अगर जो के बंधतत्त्व अंतर्भूतज पुण्यपापा ठे, तो पण तेउ-
नुं स्वरूप पृथक् पृथक् नानाविध, परमतज्ञेदनिरासार्थ कहेवामां आवेलुं
ठे. परमतज्ञेद आ प्रमाणे ठे. केटलाएक मतवाला कहेठे के केवल एक
पुण्यज ठे, परंतु पाप नथी, कोइमतवादी कहेठे के एक पापज ठे, पुण्य
नथी. वली कोइ मतवादी एम पण कहेठे के मेचकमणि जेम पुण्य पाप
बने परस्पर अनुविद्ग स्वरूपठे, तेथी मिश्र सुखदुःखफलना हेतु ठे; ते
कारणथी साधारण पुण्यपाप एकवस्तुज ठे, वली केटलाएक कहेठे के
मूलथी कर्मज नथी. जगत्मां सर्व विचित्रता स्वज्ञावथीज सिद्ध ठे. पूर्वो-
क्त सर्वमतो मिथ्या ठे. कारण के सुख दुःख बने पृथक् पृथक् अनुभव-
वामां आवेठे. ते कारणथी तेउना कारणभूत पुण्य पाप पण स्वतंत्रज
अंगीकार करवा योग्य ठे, परंतु एकलुं पुण्य, के एकलुं पाप, के एकलुं
पुण्यपाप मिश्र मानवुं ठीक नथी.

कर्मअज्ञाववादी नास्तिकं तेमजवेदांती कहे ठे के पुण्यपाप, आका-

शनां फुलसमान असत् ठे, सत् नथी तो हवे पुण्यपापनां फल जोगव-
वानां स्थान स्वर्ग, नरक केम मानी शकाय ?

उत्तरपक्षः— पुण्यपापनो अज्ञाव मानशो तो सुख दुःख निहंतुक उ-
त्पन्न मानवां पडशे, तेम मानवामां प्रत्यक्ष विरोध आवे ठे. जुठ. मनुष्य
पणुं सदृश ठे, परंतु कोइ स्वामीठे, कोइ सेवकठे; कोइ लाखोनां उदर
पोषण करेठे, कोइ पोतानुं पण उदर पोषण करी शकतो नथी; कोइ दे-
वतानी पेठे निरंतर सुख जोगविलास करे ठे, कोइ नारकीनी पेठे नि-
रंतर दुःख जोगवी रह्या ठे. ते कारणथी अनुचूयमान सुख दुःखना
निबंधनचूत पुण्य पाप अवश्य मानवां जोइयें. ज्यारे पुण्य पाप मान्यां,
त्यारे तेठना अत्यंत उत्कृष्ट फल जोगववानां स्थान स्वर्ग, नरकपण मा-
नवां जोइशे. जो तेम नहि मानशो तो अर्द्धजरतीय न्यायनो प्रसंग
आवशे, अर्धुं शरीर बृद्ध, अर्धुं जुवान. ते वावतमां प्रयोग अर्थात् अनु-
मानपण ठे. सुख दुःख कारणपूर्वक ठे, अंकुर जेम कार्य होवाथी, तेवास्ते
जे सुख दुःखनां कारण ठे, ते मानवां जोइयें, जेम अंकुरनां बीज.

पूर्वपक्षः—नीलादि जे मूर्त्त पदार्थ ठे, ते स्वप्रतिज्ञासि अमूर्त्त ज्ञाननां
जेम कारण ठे, तेम अन्न, फूलमाला, चंदन, स्त्रीप्रमुख मूर्त्त दृश्यमानज
सुख अमूर्त्तनां कारण ठे, सर्प, विष, कंकू (खस) आदि दुःखनां कारण
ठे. तो हवे शावास्ते अदृश्य पुण्यपापनी कल्पना करोठो ?

उत्तरपक्षः—आ तमारुं कहेवुं अयुक्त ठे, कारण के ते कथनमां व्यजि-
चार ठे. जुठ. वे पुरुषोनी पासे तुल्य साधन ठे, तोपण फलमां अत्यंत
तफावत देखवामां आवेठे. तुल्य अन्नादि जोगववामांपण कोइने आहां-
द (हृष) तथा शरीरपुष्टि थायठे, अने बीजाने रोगोत्पत्ति थायठे. आ
फलज्जेद अवश्य सकारणठे; नहितो नित्य सत् नित्य असत् थवुं जोइयें,
कारण के जे वस्तु (कार्य) कदी थाय, कदी न थाय, ते कारणविना
कदापि तेम थतां नथी, अथवा कारणानुमानथी कार्य, पुण्य पाप जाणी
शकायठे, त्यां कारणानुमान आ ठे, दानादि शुभ क्रियानां, तेमज हिं-
सादि अशुभ क्रियानां फलचूत कार्य, कृप्यादि क्रियावत् कारण होवाथी
ठे. जे आ क्रियाठनां फलचूत कार्य ठे, ते पुण्य पाप जाणवां. जेम
खेती करवानी क्रियानां फल, कमोद, जुवार, घडं प्रमुख ठे.

पूर्वपक्षः—जेम कृप्यादि क्रियानां दृष्ट फल कमोद प्रमुखते, तेम दानादि, तेमज पशुहिंसादि क्रियानां दृष्टफल श्लाघा, मांसजक्षण, निर्दयता आदिठे, तो हवे शावास्ते अहृष्ट पुण्यपापनां फल कल्पवां जोइयें? कारणके जनसमुदाय विशेषें करी दृष्ट फलमांज प्रवृत्त थायठे, खेती, बेपार प्रमुख हिंसादि क्रियामां बहु लोको प्रवृत्तें ठे, अने अहृष्ट दान फलादि क्रियामां थोडा लोक प्रवृत्तेंठे. ते कारणथी कृपि हिंसादि अशुच क्रियाठनां अहृष्ट फल पापरूप अमे मानता नथी.

उत्तरपक्षः—जो आ तमारू कथन वास्तविक होय, तो तो परजवमां फलना अज्ञावथी भरण अनंतरज सर्व जीव प्रयत्नविना मोक्ष प्राप्त करे. तथा संसार प्रायः शून्य थइ जसे, संसारमां कोइपण दुःखी होशे नहि, मात्र दानादि शुच क्रियाना करनारा, तेमज तेनां फल जोगवनारा रहेशे; परंतु तेम नथी, संसारमां दुःखी बहुज देखवामां आवेठे, अने सुखी थोडाज देखायठे, ते कारणथी साबीत थायठे के कृपि, वाणिज्य, हिंसादि क्रिया निबंधन अहृष्ट पापरूप फल दुःखी जीवोने ठे, अने दानादि अहृष्ट पुण्यफल सुखी जीवोने ठे.

प्रश्नः—जे सुखीठे ते हिंसादि क्रियाथी, अने जे दुःखीठे ते दानादि क्रियाथी एम केम न वने?

उत्तरः—एम वनतुं नथी, कारणके हिंसादि अशुच क्रिया करनारा बहु ठे, अनेदानादि शुच क्रिया करनारा थोडाठे, आ कारण अनुमानठे. हवे कार्य अनुमान कहिये ठियें. जीवोमां आत्मस्व समान ठतां नर पशु आदि देहोमां कारणनी विचित्रताथी कार्य विचित्र देखायठे, जेमके घटनां दंड, चक्र, चीवरादि सामग्री संयुक्त कुंजकार; हवे एम पण कहेवाय के; देखायठे जे माता, पिता ते आ देहनां कारण ठे, परंतु पुण्य पाप नथी, कारण के मातापिता एकज ठे उतापि पुत्रोना देहोमां विचित्रता देखायठे, आ विचित्रता, अहृष्ट (शुजाशुच कर्म) विना थइ शकती नथी. ते कारणथी जे शुच देह ठे, ते पुण्यनुं कार्य ठे, अने अशुच देहठे ते पापनुं कार्यठे, आ कार्यानुमान सिद्धठे. सर्वज्ञ वचन प्रमाणथी पुण्यपापनीसत्ता पण सिद्धठे. विशेष जाणवानी इष्टावालाए विशेषावश्यकनी टीका जोवी. पाप, प्राणातिपात आदि अढार पापस्थानकोथी वंघायठे, अने ते

व्याशी प्रकारथी जोगववामां आवेठे. ते व्याशी प्रकार आ प्रमाणे ठे. पांच ज्ञानावरण, पांच अंतराय, नव दर्शनावरण, ठवीश मोहनीय प्रकृति, चोत्रीश नामकर्मप्रकृति, एक अशाता वेदनी, एक नरकायु. एक नीचगोत्र, सर्व मदी व्याशी प्रकार थया तेउनुं विस्तारथी स्वरूप लखियेंठियें.

ज्ञानावरण कर्मनी पांच प्रकृति ठे. ज्ञानना पांच प्रकार ठे १ मतिज्ञान, २ श्रुतज्ञान, आ वंने अजिलाप प्लावितार्थ (वाणीतर्क) ग्रहण रूप ज्ञान ठे. ३ अवधिज्ञान, इंद्रियोनी अपेक्षाविना आत्माने रूपी विषयक साक्षात् अर्थग्रहण करनारं ज्ञान, ४ मनः पर्यवज्ञान, मनमां चिंतित अर्थने साक्षात् ग्रहण करनारं ज्ञान, ५ केवलज्ञान, लोकालोकना सकल पदार्थस्वरूपज्ञान करनारं ज्ञान. आ पांचे ज्ञाननां जे आवरण ते ज्ञानावरण ठे, १ मतिज्ञानावरण, २ श्रुतज्ञानावरण, ३ अवधिज्ञानावरण, ४ मनः पर्यवज्ञानावरण, ५ केवलज्ञान आवरण. १ जेना उदयथी जीव मतिहीन, निःप्रतिज्ञा होय ते मतिज्ञानावरण, २ जेना उदयथी जीवने कांक्षण जणतां न आवडे ते श्रुतज्ञानावरण, ३ जेना उदयथी अवधिज्ञान न थाय, ते अवधिज्ञानावरण, ४ जेना उदयथी मनः पर्यवज्ञान न थाय ते मनःपर्यवज्ञानावरण, ५ जेना उदयथी केवल ज्ञान न थाय ते केवलज्ञानावरण.

हवे अंतराय कर्मनी पांच प्रकृति कहिये ठियें. १ जेना उदयथी, आपवानी वस्तु पण ठे, गुणवान् पात्र पण ठे, दाननुं फल पण आपनार जाणे ठे, परंतु दान आपी शकतो नथी, ते दानांतराय, २ जेना उदयथी, देवा योग्य वस्तु पण ठे, दातारपण बहुज प्रसिद्ध ठे, मागनारपण मागवामां अत्यंत कुशल ठे उतांपि मागनारने कांक्ष पण न मळे, ते लाजांतराय, ३ जेना उदयथी, एकवार जोगववायोग्य वस्तु आहारादि विद्यमान पण ठे, परंतु जीवथी जोगवी न शकाय, ते जोगांतराय, ४ जेना उदयथी, वारंवार जोगववा योग्य वस्तु शयन, अंगनादि विद्यमान पण ठे, परंतु जीवथी जोगवी न शकाय, ते उपजोगांतराय, ५ जेना उदयथी युवान, रोगरहित, पुष्टांग, तथा बलवान् उतां पण पोतानी शक्ति फोरवी शकाय नहि, ते वीर्यांतराय.

हवे दर्शनावरण कर्मनी नव प्रकृति कहियें ठियें. सामान्य अवबो-

धनुं नाम दर्शनं ठे, तेनुं जे आवरण ते दर्शनावरण. दर्शनावरणना नव जेद मध्येथी प्रथमना चार जेद मूलथीज दर्शन लब्धिना आवरण ठे. जेम के १ चक्षुर्दर्शनावरण, २ अचक्षुर्दर्शनावरण, ३ अवधिदर्शनावरण, ४ केवलदर्शनावरण; तथा निद्रा पांच ठे, ते आवरण क्षयोपशमथी लब्ध आत्मलाजनी दर्शनलब्धिने आवरण ठे. तेनुं विशेषस्वरूप आ. प्रमाणे ठे. चक्षुथी सामान्यग्राही जे बोध, ते चक्षुदर्शन, जेना उदयथी ते लब्धिने जे व्याघात थाय, ते चक्षुदर्शनावरण; तेमज जेना उदयथी चक्षु विना चार इंद्रिय, तथा मनथी पोत पोताना विषयनुं जे सामान्यपणे ग्रहण थाय, एवा अचक्षुदर्शननुं जे आढादन थाय, ते अचक्षुदर्शनावरण; जेना उदयथी सामान्यपणे जे रूपि द्रव्यनुं मर्यादा पूर्वक ग्रहण थाय ठे, एवा अवधिज्ञाननुं जे आढादन थाय ते अवधिदर्शनावरण; जेना उदयथी समस्त वस्तुनुं सामान्यपणे, वर प्रधान द्वायकजावें प्रगट थवाथी देखनुं थाय ते केवल दर्शन, तेनुं जे आढादन थाय ते केवलदर्शनावरण. चैतन्यने सर्व प्रकारें अतिकुत्सित करे, सामान्य ग्रहणरूप दर्शन उपयोग तेनो विघ्न करे ते निद्रा जाणवी. तेना पांच जेद ठे. १ निद्रा, २ निद्रानिद्रा, ३ प्रचला, ४ प्रचला प्रचला, ५ स्त्यानर्द्धि. १ जेमां चपटी वजावतां निद्रा लेनार जागी उठे ते सुखप्रतिबोध निद्रा, २ जेमां बहुज हलाववाथी, कपडा खेंचवाथी, निद्रा लेनार दुःखें जागे, अर्थात् जेथी अतिशय निद्रा आवे ते निद्रानिद्रा, ते कर्म प्रकृतिनां नाम पण तेज ठे, ३ वेठां वेठां तथा उजां उजां जीवने जे निद्रा आवे ते प्रचला, ४ चालतां, चालतां जीवने जे निद्रा आवे ते प्रचला प्रचला, ५ स्त्याना नाम पिंडीचूत, ते पिंडीचूत थइ ठे ऋद्धि अर्थात् आत्मशक्ति जे निद्रामां ते स्त्यानर्द्धि. ते निद्रामां जीवने वासुदेवना वलथी अर्ध वल थाय ठे, आ निद्रामां जीव केटलांएक कार्य पण करे ठे, परंतु ते कार्यनुं तेने कांइ ज्ञान रहेतुं नथी. पाठलनी त्रणे निद्रानी कर्मप्रकृतिनां नाम पण तेज ठे.

हवे मोहनीय कर्मनी प्रकृति लखियें ठियें. तत्त्वार्थ श्रुतानने जे विपरीत करे ते मोहनीय ठे. तेमां १ मिथ्यात्वज जे मोह ते मिथ्यात्व मोहनीय कह्णीए, मिथ्यात्व, मोहकर्मनी उत्तर प्रकृति ठे. यद्यपि मिथ्यात्व

१ अजिग्रहिक, २ अनजिग्रहिक, ३ सांशयिक, ४ अजिनिवेशिक, ५ अनाजोगादि, अनेक प्रकारची ठे, तो पण यथावस्थित वस्तुतत्त्वना अश्र-
 खानची सर्व जेदो एक मिथ्यात्वरूपज गणाय ठे, मिथ्यात्व, मोहनीय
 कर्मनी प्रथम प्रकृति ठे; तथा कपाय मोहनीयना सोल जेद ठे. कारण
 के क्रोधादि पण तत्त्वश्रखानची आत्माने त्रष्ट करे ठे. ते सोल जेद आ
 प्रमाणे ठे. १ अनंतानुबंधी क्रोध, २ अनंतानुबंधीमान, ३ अनंतानुबंधी
 धीमाया, ४ अनंतानुबंधीलोज, तेवीजरीतें ४ अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान,
 माया, लोज, तेमज प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोज, तथा ४ संज्व-
 लन क्रोध, मान, माया, लोज, सर्व मली सोल कपाय मोहनीय ठे.

जें क्रोधादि अनंत संसारनां मूल कारण ठे, तथा जेनुं अनंत जवानु-
 बंधिशील ठे, तेमां जेनो स्वभाव एवो ठे के जेवी पठरनी रेखा, जेनी सा-
 ये-क्केश थाय, तेनी साथे ते ज्यां सुधी जीवे त्यां सुधी रोप ठोडे नहि,
 ते अनंतानुबंधी क्रोध ठे. तथा जे मान, पठरना स्थंजनी जेम कदापि
 नमे नहि, तथा जे माया, वांसनी जडसमान कदापि सरल न होय, त-
 था जे लोज कृमीना रंगसमान कदापि दूर न थाय एवा जे क्रोध, मान,
 माया अने लोजयुक्त परिणाम, तेनुं नाम अनंतानुबंधि क्रोधादि कर्म
 प्रकृति ठे. तथा अप्रत्याख्यान, जेमां नजू अल्पार्थ वास्ते ठे, तेथी, जेना
 उदयथी थोडुं पण प्रत्याख्यान थतुं नथी, तेने अप्रत्याख्यान कहे ठे. ते-
 नुं स्वरूप आ प्रमाणे, क्रोध पृथ्वीनी रेखा समान, मान हाडना स्थंज
 समान, माया वकराना शींग समान, लोज कर्दमना डाय समान, तेनी
 स्थिति एक वर्पनी ठे. तथा जेना उदयथी सर्व विरतिपणुं जीवने प्राप्त
 न थाय, ते प्रत्याख्यानवरण कपाय ठे. तेमां क्रोध, रेणु (धूल) नी रे-
 खा समान, मान काष्ठना स्थंज समान, माया गोमूत्रनी धारावाही स-
 मान, लोज खंजनना रंग समान, तेनी स्थिति चार मासनी ठे. तेमज
 जेना उदयथी केवलज्ञान प्राप्त न थाय ते संज्वलन कपाय ठे, तेमां क्रोध,
 पाणीमां लींटी समान, मान नेतरना स्थंजसमान, माया वांसनी ठोल
 समान, लोज हलदरना रंग समान, तेनी स्थिति पंदर दिवसनी ठे. ए
 प्रमाणे संक्षेपची सोल कपायनुं स्वरूप ठे.

हवे नव नोकपायनुं स्वरूप लखियें ठियें. स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद,

हास्य, रति, अरति, शोक, जय, जुगुप्सा, आ नव नोकपाय मोहनीय प्रकृतिठे. नो एटले सहकारीपणुं. कपायने जे सहायकारी थाय ते नो-कपाय कहेवाय ठे. तेनुं स्वरूप कहियें ठियें. १ जेम पित्तना उदयथी मिठी वस्तुनीअजिलापाथायठे, तेम जेना उदयथी स्त्री पुरुषनी अजिलापा करे ठे, ते स्त्रीवेद उदय; आ वेद उदय कुंफक (धुणीना) अग्नि समानठे, जेम धुणीनो अग्नि खोजवाथी वधतो जायठे, तेम स्त्रीना स्तन कक्षास्पर्शथी स्त्रीवेद प्रबल उदय पामेठे. तथा २ जेम कफना उदयथी खाटी वस्तुनी अजिलापा थायठे, तेम जेना उदयथी पुरुष, स्त्रीनी अजिलापा करेठे, ते पुरुषवेद उदय, आ वेद उदय तृणना अग्नि समानठे, जेम तृणनो अग्नि एकजवार प्रज्वलित थइ, तत्काल शांतपण थइ जायठे, तेम पुरुषवेद तत्काल एकवार उदय थायठे, अने तत्काल शांतपण थायठे. तथा ३ जेम पित्त अने कफना उदयथी खाटी मीठी वस्तुनी अजिलापा थायठे, तेम जेना उदयथी स्त्री तेमज पुरुष वंनेनी अजिलापा थायठे ते नपुंसक-वेद ठे. आ वेदनो उदय नगरदाहना अग्निसमानठे. तथा ४ जेना उदयथी निमित्तसह, तेमज निमित्तविना पण हसबुं आवे, ते हास्य, मोहकर्म-नी प्रकृतिठे. तथा ५ जेना उदयथी रमणीय वस्तुजमां जीव रमे, खुशी थाय, ते रतिनामा मोहकर्मनी प्रकृति ठे. तथा ६ जेना उदयथी रतिथी विपरीतपणुं थाय ते अरतिनामा मोहकर्मनी प्रकृतिठे. तथा ७ जेना उदयथी प्रियवियोगादिमां विकल मन, ग्लानि, क्रंदन, परिदेवनादि जीव करे, ते शोकनाम मोहकर्मनी प्रकृति ठे. तथा ८ जेना उदयथी सनिमित्ततथा निमित्त विना जीवने वीक (जीति) लागे ते जयनामा मोहकर्मनी प्रकृति ठे. तथा ९ जेना उदयथी गंदी, मलीन वस्तु देखवाथी नाक चढावबुं थाय, ते जुगुप्सानामा मोहकर्मनी प्रकृति ठे. सर्व मली पीसतालीश जेद कह्या.

हवे नामकर्मनी चोत्रीश प्रकृति पापरूप ठे, तेनां नाम कहियें ठियें. १ नरकगति, २ तिर्यंचगति, ३ नरकानुपूर्वी, ४ तिर्यंचानुपूर्वी, ५ एकेंद्रिय जाति, ६ द्वींद्रिय जाति, ७ त्रींद्रियजाति, ८ चतुरिंद्रिय जाति, १३ पांच संहनन, १८ पांच संस्थान, १९ अप्रशस्तवर्ण, २० अप्रशस्त गंध, २१ अप्रशस्तरस, २२ अप्रशस्तस्पर्श, २३ उपघात, २४ कुविहायोगति,

२५ स्यावर, २६ सूक्ष्म, २७ अपर्याप्त, २८ साधारण, २९ अस्थिर, ३० अ-
शुभ्र, ३१ असुभ्रग, ३२ दुःस्वर, ३३ अनादेय, ३४ अयशःकीर्त्ति.

तेजुं स्वरूप आ प्रमाणे. १ जेना उदयथी जीवतुं नारकीनाम पडे, तथा
नरक स्थानमां जाय ते नरकगति, २ तेवीज रीतें तिर्यंचगति पण जाण-
वी, ३ जेना उदयथी नरकगतिमां जतां जीवने वे समयादि विग्रहगतिथी
अनुश्रणीमां नियत गमन परिणति थाय, ते नरकगतिने सहचारी होवा-
थी नरकानुपूर्वीं कहेवाय, ४ तेवीज रीतें तिर्यंचानुपूर्वीं पण जाणवी.
५ जेना उदयथी पृथिवी, जल, अग्नि, पवन, वनस्पति, मां जीव उत्पन्न
थाय ते एकेंद्रिय जाति. ६ जेना उदयथी जीवने वे इंद्रिय प्राप्त थाय ते
द्वीन्द्रियजाति, ७ तेवीज रीतें त्रीन्द्रियजाति, ८ तेमज चतुरिन्द्रिय जाति.

१३ प्रथम संहनन वर्जिने वाकीनां पांच संहनन, रूपजनाराच, नाराच,
अर्धनाराच, कीलिका सेवार्त्त ठे, तेनुं स्वरूप कहियें ठियें. रूपजनपरिवेष्ट-
नपट्टः नाराचउन्नयतोमर्कटबंधः” जेमां वंने पासैं वे हाडोने मर्कट
बंधथी बांधीने पट्टनी आकृति समान हाडनी पट्टी उपर विंटेलि होय ते
रूपजनाराच संहनन ठे; तथा जेमां वज्ररूपजहीन, वंने पासैं मर्कटबंध
होय, ते नाराच संहनन ठे, तथा जेमां एक पासैं मर्कटबंध, अने वीजे
पासैं, खीळीथी वींधेलुं हाड होय, ते अर्धनाराच संहनन ठे, तथा जेमां
रूपजनाराच, वंनेथी वर्जित, मात्र कीलिकाथी वींधेलां वंने हाड, एवो जे
हाडनो संचय, ते कीलिका संहनन ठे, तथा जेमां वंने हाडकां स्पर्शमात्र
लक्षणयुक्तठे, अने चंपी मुठी कराववाथी जेमां आर्त्ति (पीडा) थाय,
ते सेवार्त्त संहनन ठे.

१८ आद्य संस्थान वर्जिने, वाकीनां पांच संस्थानतुं स्वरूप कहियें ठियें.
१ न्यग्रोधपरिमंडल, २ सादि, ३ वामन, ४ कुब्ज, ५ हुंडक. तेमां १ न्यग्रो-
धवत् अर्थात् वडवृक्षनी जेम परिमंडल, ते न्यग्रोध परिमंडल, जेम वडतुं
जाड उपरना जागमां संपूर्ण श्रवयववाळुं होयठे, अने नीचेना जागमां
तेतुं होतुं नथी, तेम जेनो नाजिनी उपरनो विस्तार संपूर्ण लक्षणवालो,
अने नीचेनो तेवा लक्षणसंयुक्त नहि ते न्यग्रोध परिमंडल संस्थान.
तथा २ सादि, आ संस्थानमां नाजिनी नीचेना शरीरनो जाग सुंदराकार
लक्षणो संयुक्त, परंतु नाजिनी उपरनो जाग विसंवादी, ते सादिसंस्थान,

तथा ३ हाथ, पग, मस्तक, ग्रीवा यथोक्त लक्षणादियुक्त अने वाकीनो शरीरनो कोठो अर्थात् उदरादि मध्यभाग लक्षणादि रहित, ते वामन संस्थान, तथा ४ उदरादि लक्षणसंयुक्त, अने हाथ पगादि लक्षणो रहित ते कुञ्ज संस्थान, तथा ५ जेमां शरीरनुं एकपण अवयव सुंदर न होय ते हुंड संस्थान, जाणवां.

२२ जेना उदयथी वर्णादि चारे अप्रशस्त होय, तेनुं स्वरूप कहियें त्रियें. जेनुं दर्शन अतिवीचरस ठे, एवा कृष्णादि वर्णवाला प्राणियो थाय ठे, ते अप्रशस्त वर्णनाम, ते वर्ण पांचप्रकारना ठे, तेणें करी जे जीव युक्त होय, ते अप्रशस्तवर्ण नाम, तथा जेना उदयथी मुएला तेमज सडेला उंदरादिनी दुर्गंध जेवी गंध जे प्राणियोना शरीरमां होय ते अप्रशस्त गंध नाम; तथा जेना उदयथी प्राणियोना शरीरमां रसनेंद्रियने दुःखदायी स्वभाववाला एलीआ जेवा कडवा तिखाआदि असार रस होय, ते अप्रशस्तरसनाम; तथा जेना उदयथी स्पर्शेन्द्रियने उपतापना हेतुरूप एवा कर्कशादि स्पर्शविशेष जीवोना देहमां होय ते अप्रशस्त स्पर्शनाम. जाणवा.

२३ जेना उदयथी पोतानाज शरीरना अवयवोथी प्रतिजिह्वा, (पडजीची) गलबुं, मेदवृद्धि थवी, अतिदांवा थबुं, चोर दांतादि शरीरमां बधवाथी शरीरने पीडा आपे, ते उपघातनाम; तथा २४ जेना उदयथी जीवोनी खर तथा उंटना जेवी चाल थाय, ते कुविहायोगति; तथा २५ जेना उदयथी पृथिवीआदि एकेंद्रियमां जीव उत्पन्न थाय ते स्थावरनाम; तथा २६ जेना उदयथी लोकव्यापि सूक्ष्म, पृथिवी कायादिमां जीव उत्पन्न थाय, ते सूक्ष्मनाम; तथा २७ जेना उदयथी आहारप्रमुख पूर्वोक्त पर्याप्त पुरी न थाय, ते अपर्याप्तनाम; तथा २८ जेना उदयथी अनंतजीवोनुं साधारण एक शरीर होय, ते साधारणनाम; तथा २९ जेना उदयथी जिह्वादि अवयवो शरीरमां अस्थिर होय, ते अस्थिरनाम; तथा ३० जेना उदयथी नाजिनी नीचेना अवयवो अशुच होय, ते अशुचनाम, तेनुं कारण ए ठे के, कोश्नो हाथ लागी जाय तो ते रोप करतो नथी, परंतु पग लागवाथी क्रोध करे ठे, ३१ जेना उदयथी जीवने जे जे देखे, तेने ते जीव अनिष्ट लागे, उद्देगकारी लागे ते असुचननाम, ३२ जेना उदयथी जीवो खर कठोर, अप्रिय, घोघरा जेवो लागे, ते दुःख.

र नाम, ३३ जेना उदयथी जीव सप्रमाण, युक्तियुक्त बोले तोपण तेनुं कहेवुं कोइ न माने, ते अनादेयनाम, ३४ जेना उदयथी जीव, ज्ञान, विज्ञान, विनय, दानादिगुणयुक्त ठे, तोपण जगतमां तेनी यशः कीर्त्तिने वदले निंदा प्रमुख थाय ते अयशःकीर्त्ति नाम. एरीते जाणवी.

जेना उदयथी जातिप्रमुखथी विकल, जीव थाय ठे, ते नीचगोत्र. जेउं चांमाल डेढ जंगी वाघरी प्रमुख जातिमां जन्मेठे ते नीचगोत्रवाला कहे-वायठे “कुलं गूयते संशब्दयतेऽनेन हीनोयमजातिरित्यादिशब्दैरिति गोत्रं कुलं नीचमिति विशेषणाऽन्यथानुपपत्त्या नीचगोत्रमित्यर्थः”

प्रश्नः— नीचगोत्रना उदय, नीचकुलमां जन्मवुं, जीवोनी साथे खान-पान न करवां, तेउंनी वृत मानवी, अने निंदा जुगुप्सा करवी; पूर्वोक्त तमे जे मानोठो तथा करोठो, ते तमारी मोटी अज्ञानता ठे, कारण के मनुष्यत्वधर्ममां सहु सरखां ठे, हाथपगादि अयवबो पण सरखां ठे, तो हवे एकने उंच मानवो, अने बीजाने नीच मानवो, आ मान्यता ब्राह्म-ण तथा जैनिउण चारतवर्षमां बहुकालथी बहुज जूड़ी करी राखी ठे, ए मान्यतामां मुक्तिनुं शुं अंग ठे ? वली जुउं चरतखंडवासी जेन, हिंहुउं शिवाय सर्वे अन्यदेशोना वसनाराउं, कोइनेपण उंच नीच गणता नथी, सर्वे एकसाथे खानपानकरवामां बुरं मानता नथी, तेथी तमारी मान्य-ता, मूढता अर्थात् अंधपरंपरावाली ठे, वास्तवमां कोइ उंच नीच नथी.

उत्तरः—आ तमारं कथन, अमारो हेतु नहि समजवाथी वे समज-वालुं ठे. अमारो अज्ञिप्राय एवो ठे के आ जगतमां जे कांइ थाय ठे ते निमित्तविना थतुं नथी. जुउं. आ जे जित्त, कोली, वाघरी, घोरी, जंगी, डेढ, चंडाल, कसाइप्रमुख असन्य जातिना लोक गाममां, गामबहार, के जंगलोमां रहेठे, तेउं अनेक प्रकारनां हिंसायुक्त अनाचरणीय कामो निरंतर करे ठे, तेउं अतिदुर्गंधि शरीरवाला, अतिवीजत्स वचन बो-लनारां, तेमज महाबुरां कर्मनुं चिंतवन करनारां, तथा अतिकनिष्ठ आ-हार करनारां, हमेशां प्रवर्ते ठे, पूर्वोक्त सर्वे तेउंने नीच गणवानां नि-मित्त ठे, हवे ते निमित्तोने जो तमे मानता न हो, तो तमे आत्मस्वरूप नहि समजवाथी नास्तिकठो, अने ते नास्तिक विचारवालांउंनुं खंडन तो अमे पूर्वे लखी आव्या ठियें. जो कहो के ते निमित्तोने अमे मानि-

येठिये, तो तो तेउनां एवी असन्धजाति तथा कुलमां उत्पन्न थवानां कारणो पण मानवां जोइये. जे कर्मना उदयथी एवा कुल, जातिमां तेउ उत्पन्न थाय ठे, ते कर्मनुं-नामज नीच गोत्र कर्म ठे; आ नीचगोत्रना प्रजावथी वीजापण बहुपाप प्रकृतिउनो उदय थाय ठे, जेथी तेउ क्लेशादि दुःखो अत्यंत पामे ठे, बुद्धिहीनता, क्रोधयुक्त स्वभाव, निर्दयता, कुत्सित आहार, पशुउनी जेम जंगलवास्त, धर्मकर्मथी पराङ्मुख, सत्संगरहित, गम्यागम्यविवेकरहित, जड्याजड्य, पेयापेयविचारशून्य, आ सर्वतुं मुख्य कारण नीचगोत्र ठे. जेम धनवान् तेमज निर्धन अनेक धावतोमां एकसरखां थतां नथी, तेम नीचगोत्रवालां उंचगोत्रवालां साथे समान थइ शकतां नथी.

जो एम कहो के विधायतमां सर्व एकसरखां ठे, तो ते वात्तमां अमे आश्चर्य मानता नथी, कारण के ज्यां सर्व जीवोना, गोत्रकर्मनो एकसरखा वंध होय, त्यां सर्व एकसरखा थइ शके ठे, अने मान्यता पण सर्वनी एकसरखी थाय ठे, परंतु ज्यां उंचनीचपणानी मान्यता, पूर्वोक्त कारणसर थाय ठे, त्यां उंचनीच गोत्रनो व्यवहारपण अवश्य थाय ठे. परंतु असन्ध, हीन जातिउने जे बुरी (चुंभी) माने ठे, तेउने अमे बुद्धिमान् कहेता नथी, कारण के अमारो एवो निश्चय ठे के बुराइ तो खोटां कर्म करवाथी थाय ठे. जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थइ बुरां काम, जेवां के जीवहिंसा, असत्यता, चोरी, परस्त्रीगमन, परनिंदा, विश्वासघात, कृतघ्नता, मांसजक्षण, मदिरापान, जुगार प्रमुख करशे, तेउने अवश्य अमे बुरां मानशुं, अने नीचजातिषालां हशे; उतांपि जो तेउ सुकर्म जेवां के, दया, सत्य, चोरीनो त्याग, परस्त्रीत्याग इत्यादि करशे तो तेउने अमे उत्तम मानीशुं. हवे विचारो के अमारी समज बुरी केवीरीते होइ शके ठे? वली नीचगोत्रवालां साथे जे खानपाननो व्यवहार राखता नथी, तेनुं कारण तो कुलरुढि ठे, अने तेउनी जे निंदा करे ठे तेउ तो महाअज्ञानी ठे, कारण के अमारो सिद्धांत एवो ठे के निंदा कोइनी पण करवी न जोइये, वली तेउनी जे वृत माने ठे. तेपण कुलाचार ठे, वली एक एवुं पण कारण ठे के, जो के मनुष्यत्व धर्मथी सर्व सरखां ठे, तोपण जेम माता, बहैन, दीकरी, ज्ञायी, सर्व स्त्रीत्व स्वरूपें समान ठे, तोपण

तेजसां गम्य अगम्यनो विचार ठे, तेवीजरीतें उंचनीचपणाना विजागनो विचार ठे. आ व्यवहार ब्राह्मण तथा जैनियोये चलाव्यो नथी, परंतु ते जीवोना जलां, वुरां कर्मोना उदयथी चालेलो ठे. आ प्रमाणे परस्पर जातियोमां खान पान नहिं करवानो व्यवहार मिसर देशमां पण हतो, तेथी सिद्ध थाय ठे के उंच नीच गोत्रना प्रजावथीज उंच नीच जाति, कुल थाय ठे.

तथा आयुर्कर्मनी नरक आयुनी प्रकृति पापमां गणायठे. नरकशब्दनी व्युत्पत्ति आ प्रमाणे ठे. “नरान् प्रकृष्टपापफलज्ञोगाय गुरुपापकारिणः प्राणिनोनरानित्युपलक्षणत्वात् कायंति शब्दयंतीति नरकास्तेष्वायुस्तद्भवप्रायोग्यसकलकर्मप्रकृतिविपाकानुभवकारणं प्राणधारणं यत्तन्नरकायुष्कं तद्विपाकवेद्यकर्मप्रकृतिरपि नरकायुष्कमिति ॥”

तथा वेदनीकर्मनी अशाता वेदनी पापप्रकृतिमां गणायठे. अशाता-नाम दुःखनुं ठे, जेना उदयथी जीव दुःख जोगवे ठे ते अशातावेदनी ठे. आ प्रमाणे.

ज्ञानावरणं पांच, अंतराय पांच, दर्शनावरण नव, मोहनी ठवीश, नामकर्मनी चोत्रीश, नीच गोत्र एक, नरकायु एक, अशातावेदनी एक, सर्व मली व्याशीजेदें पापफल जोगववामां आवेठे. इति.

हवे आश्रवतत्त्वतुं स्वरूप लखियें ठियें. “आश्रवन्ति, आगच्छन्ति कर्माणि जीवेषु येन सआश्रवः” जेनाथी जीवोने कर्मनी प्राप्ति थाय ते आश्रव १ असत् देव, २ असत् गुरु, ३ असत् धर्म, तेजविपे सत् देव, सत् गुरु अने सत् धर्म एवी जे रुचि ते मिथ्यात्व, तथा हिंसादिथी न निवर्तवुं, ते अविरति, तथा मद्यप्रमुख ते प्रमाद, तथा क्रोधादि ते कपाय, अने मन, वचन, कायानो व्यापार ते योग, आ मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय, योग, पांचे पुनर्वंधक जीवना ज्ञानावरणीय आदि कर्मना वंधना हेतु ठे, तेजने जैनमतमां आश्रव कहेठे. ते मिथ्यात्वादि शुचा-शुच कर्मबंधना हेतु होवाथी तेज आश्रव ठे. आ तात्पर्य ठे.

प्रश्नः—प्रथम, वंधोना अज्ञाव ठतां, आश्रवनी उत्पत्ति केम होय ? जो कहो के आश्रवथी पहेलां वंध ठे, तो तो ते वंध पण आश्रवहेतु

विना थइ शकतो नथी. कारण के जे जेनो हेतु ठे, ते तेनो अज्ञाव ठतां थइ शकतो नथी, जो होय तो, अतिप्रसंग दूपण आवशे.

उत्तर:-आ कहेवुं असंतु ठे, कारणके आश्रवने पूर्वबंधनी अपेक्षाए कार्यपणुं ठे, अने उत्तरबंध अपेक्षाए कारणपणुं ठे, तेवीजरीतें बंधने पण पूर्वउत्तर आश्रवनी अपेक्षाए कार्यत्व, कारणत्व जाणवुं, वीजांकुरनी जेम. बंध, आश्रव बंधने परस्पर कार्यकारणज्ञावनो संबंध ठे; तेथी अर्हीयां इतरेतर दूपण नथी. प्रवाह अपेक्षाए बंधे अनादि ठे.

आश्रव पुण्यपापनो बंधहेतु होवार्थी वे प्रकारें ठे. आ बंधे प्रकारना मिथ्यात्वादि उत्तर जेदोना उत्कर्ष, अपकर्ष अर्थात् अधिक, न्यूनपणाथी अनेक प्रकार ठे. आ शुभाशुभ मन, वचन, कायाना व्यापार रूप आश्रवनी सिद्धि पोताना आत्मां स्वसंवेदनादि प्रत्यक्षथी ठे, अने वीजा-उत्तमां वचन अने कायाना व्यापारनी प्रत्यक्षथी सिद्धि ठे, वाकीनाउत्तनी तेना कार्यथी उत्पन्न थता अनुमानथी जाणवी, तेमज आसप्रणीत आ-गमथी पण जाणवी.

आश्रवना उत्तरजेद वेंतालिश ठे. पांच इंद्रिय. चार कपाय, पांच अ-व्रत, पचीशक्रिया, त्रणयोग.

जीवरूप तलावमां, कर्मरूप पाणी जेनाथी आवे, ते आश्रव. ते गर-नालां प्रथम तो पांच इंद्रिय ठे. तेनुं स्वरूप कहिये ठियें १ स्पर्शियें स्वविषय स्पर्शलक्षण, जेनाथी, ते स्पर्शनेंद्रिय, २ "रस्यते आस्वाद्यते रसोऽनयेति" आस्वादिये, रस लहियें जेनाथी, ते रसना (जिह्वा) इंद्रिय, ३ सूंघीए गंध जेनाथी, ते घ्राणेंद्रिय, ४ चक्षु ते नेत्रेंद्रिय, ५ सां-जलीये शब्द जेनाथी, ते श्रोत्रेंद्रिय. मूलजेदनी अपेक्षाथी आ पांच इं-द्रिय, आश्रवनां पांच कारण ठे.

"कुश्यति कुप्यति" सचेतन, अचेतन वस्तुं उपर जेणें करी प्राणी सनिमित्त, निर्निमित्त कोप करे ते क्रोध मोहनीयकर्म ठे, तेनो उदय ते पण क्रोध ठे. तथा मान ते मृडुतानो अज्ञाव, तेना वे प्रकार ठे. प्राप्त थयेली वस्तुंउठे जे अहंकार थाय ते मद, अने अप्राप्त ठतां अहंकारी गृत्ति ते मान. ते मदना आठ प्रकार ठे. १ जातिमद, २ कुलमद, ३ वस्त्र-मद, ४ रूपमद, ५ ज्ञानमद, ६ लाजमद, ७ तपमद, ८ अर्थमद,

१ पोतानी माताना पढ़नो अहंकार करे, जेम के मारी माता मोटा घर-
वालानी दीकरी ठे, इत्यादि. एवीरीतें पोताने उंचा मानी श्लाघा करे
अने बीजाउनी ते वावतमां निंदा करे ते जातिमद. २ पोताना पिताना
पढ़नुं अजिमान करे, जेमके मारा पितानुं कुल उंचुं ठे, अने बीजाउनी
ते वावतमां निंदा करे, ते कुलमद. ३ पोताना बलनुं अजिमान करे, अने
बीजाना बलनी निंदा करे ते बलमद. ४ पोताना रूपनुं अजिमान करे,
अने बीजाना रूपनी निंदा करे ते रूपमद. ५ पोताने महाज्ञानी माने,
अने बीजाने तुठमति माने ते ज्ञानमद, ६ तप करीने अजिमानथी पोताना
मनमां माने के मारा समान कोइ तपस्वी नथी ते तपमद. ७ पोते पोताने
मोटो नशीबदार माने, अने बीजाने हीनपुण्यवाला समजे ते लाजमद.
८ पोतानी ठकुराइनुं अजिमान करे. अने बीजाने घास फुस समान गणे
ते ऐश्वर्यमद. ते प्रमाणे मानना पण समजवा. तथा "मयति गच्छति"
जायठे जे जे विकारोथी बीजाने ठगवावास्ते जीव ते माया कहेवाय ठे.
तथा जेनाथी परधन प्राप्त करवामां जीवने वृद्धिपणुं होय, ते लोच
कहेवाय ठे ते चारे कपाय कहेवाय ठे.

हवे पांच अत्रतनुं स्वरूप कहिये ठियें. पांच इंद्रिय, त्रण बल, मन-
बल, वचन बल, कायबल, तथा श्वासोद्वास अने आयु, आ दश प्राण ठे.
ते दश प्राणना योगथी जीवने पण प्राण कहिये. ते प्राणोनो जे बध
अर्थात् नाश ते प्रथम प्राणबध याने जीवहिंसा जाणवी. १ मृपावाद
अर्थात् जुनुं बोलवुं. ३ अदत्तादान अर्थात् बीजानी वस्तु चोरी लेवी.
४ मैथुन (अब्रह्मसेवन) स्त्री पुरुषनुं जोनुं ते मिथुन, ते वनेना मेलापथी
जे कर्म थाय ते मैथुन. ५ परिग्रह सर्व वाजुएथी ग्रहण याने एकत्र क-
रीयें, चार गतिनां निबंधन कर्म जेनाथी ते परिग्रह. आ पांच अत्रतना
चार चार ज़ांगा ठे तेनुं स्वरूप लखिये ठियें.

प्रथम हिंसाना चार ज़ांगानुं स्वरूप, १ डव्यें हिंसा, परंतु जावें नहि, २
डव्यें हिंसा नहि, परंतु जावें ठे, ३ डव्यें हिंसा अने जावें पण हिंसा,
४ डव्यें हिंसा नहि, अने जावें पण नहि. प्रथमना जंगनुं स्वरूप एवुं ठे
के साधुने समाचारी, प्रतिबेखना करतां, मार्गमां बिहार करतां, नदी
प्रमुख उतरतां, नावमांवेसी नदी श्रोलंगता, नदीमां साध्वी आदिने

ते पोताने घेर पाठो आवेथी तेने आपवानी बुद्धिपूर्वक लइ, पोताना घरमां राखेठे, आ दृष्टांतमां वीजानुं डव्य, तेनी रजा शिवाय, तेना कव-जामांथी लइ लेवाथी डव्यें चोरी थायठे, परंतु वदद्यानतनो अजाव होवाथी जावेंचोरी यती नथी तेवीरीतें वीजी वावतमां पण समजवुं.

वीजाजंगमां कोइ पुरुष चोरी तो करतो नथी, परंतु चोरी करवाना अध्यक्षसाय तेना मनमां थया करेठे, ते डव्यथी चोरी नहि, परंतु जावें चोरी ठे. वली वीतराग सर्वज्ञ परमात्मानी आझाना जंग करनाराज्जे पण जावचोर कहेलांठे. त्रीजा जंगमां, कोइ पुरुष चोरी करेठे, तेमज तेनो अध्यक्षसाय पण चोरी करवानो ठे ते डव्यें तथा जावें चोरी ठे. चोथो जंग पूर्ववत् शून्य ठे.

हवे मैथुनना चारजंग कहियें ठियें. जे साधु जलमां रुवती साध्वीने देखीने, तेने काढवाने वास्ते पकने, तेमज कोइ गृहस्थ उंचेथी पमीजती कोइ स्त्रीने तेना रक्षणार्थे पकने, तेमज कोइगांकी थइ गयेली नुकशान करती स्त्रीने पकने, तेवा प्रसंगोमां पकरवुं ते डव्यें मैथुन ठे. परंतु जावें नथी. वीजा जंगमां—कोइ पुरुष, स्त्रीने जोगवतो नथी, परंतु तेना मनमां स्त्रीसेवन करवानी अजिलापा बहुज रखा करेठे, ते डव्यें मैथुन नहि, परंतु जावें मैथुन ठे. त्रीजा जंगमां—स्त्रीसाये मैथुन अजिलापापूर्वक करवुं ते डव्यें तथा जावें मैथुन ठे. चोथो जंग पूर्ववत् शून्य ठे.

हवे परिग्रहना चार जंग कहियें ठियें. कायोत्सर्गमां स्थित रहेला कोइ मुनिनां गलामां कोइ सरूस हारादि आचूपण पहेरावी दे, ते जो-इने वीजा अजाण्या पुरुषो, मुनिने परिग्रहवाला धारे, परंतु मुनिने ते पदार्थपरपरिग्रहबुद्धि नथी तेवा प्रसंगमां डव्यें परिग्रह कहेवाय, परंतु मुनि जावें परिग्रही नथी. वीजा जंगमां—कोइपुरुष पासे एक कोकी पण नथी परंतु धन मेलववानी बहुज अजिलापा रखा करे, ते जावें परिग्रही ठे. डव्यें नहि. त्रीजा जंगमां—धनपण पासे होय, अने धन मेलववानी अजिलापा पण रखा करे, ते डव्यें तथा जावें परिग्रही ठे. चोथो जंग पूर्ववत् शून्य ठे. सर्वजंगमां वीजो तथा त्रीजो जंग निश्चयथी अविरतिरूप ठे.

हवे पचीश क्रियातुं स्वरूप लखियें ठियें १ शरीरथी जे क्रिया थया

करे, ते कायिकी क्रिया. २ कसाइ प्रमुख शस्त्रधी परजीवोने उपघात करी पोताना आत्माने नरकगतिमां जवाना अधिकारी करे ते अधिकरण क्रिया. ३ जीव तथा अजीव उपर छेपनी चिंतवना करवी ते प्राद्वेपिकी क्रिया. ४ पोताने तथा परने जे परिताप उपजाववो ते पारितापनिकी क्रिया. ५ एकेंद्रिय प्रमुख जीवोने हणवा तथा हणाववानी जे क्रिया ते प्राणातिपातिकी क्रिया. ६ पृथ्वीकायादि जीवना उपघात कराववा तथा करवा सारू कर्पण प्रमुख करवुं, कराववुं ते आरंजिकी क्रिया. ७ धनधान्यादि नवविध परिग्रह मेलवतां, तथा तेना रक्षणसारू मूर्छाना परिणाम वनेला राखवा सारू जे क्रिया करवी पडे ते पारिग्रहिकी क्रिया. ८ वीजाने उगवा सारू कपट युक्त जे क्रिया करवी पडे ते मायाप्रत्ययिकी क्रिया. ९ जिनवचन असहहतां विपरीत प्ररूपणा प्रमुख करवाथकी जे क्रिया लागे ते मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया १० संयमने विघातकारक कपायोना उदयधी पचखाण कीधा विना जे सर्ववस्तुनी क्रिया लागे ते अप्रत्याख्यानिकी क्रिया. ११ कौतुकेंकरी अश्वादि जोवां तेमज रागादि कलुपित चित्तधी जीव, अजीवने जोवा ते दृष्टिकी क्रिया. १२ राग, छेप, मोह संयुक्त चित्तधी स्त्री आदिना शरीरने स्पर्श करवो ते स्पृष्टिकी क्रिया. १३ जीव तथा अजीवसंबंधी जे राग छेप थाय, जेम के वीजाने घेर हस्ती, घोडा, वख प्रमुख देखी छेप धरे, जे ए वस्तुउं तेनी पासे क्यांधी? एम चिंतवता कर्म बंध करे ते प्रातित्यकी क्रिया. १४ पोताना अश्वप्रमुखने जोवावास्ते आवेला स्त्री पुरुषोने प्रशंसा करता जोशने हर्ष धारण करे, तेमज स्त्री प्रमुखने जोजन करवा आवतां जे क्रिया लागे ते, अथवाडुध, दहीं, घी, तेल प्रमुखनां जाजन उघाडां रहेतां तेमां त्रस जीव आवी पडे, ते सामंतोपनिपातिकी क्रिया. १५ परउपदेशित पापमां लांवा वखतसुधी प्रवर्तवुं, तथा पापना जावधी अनुमोदना करवी ते नैस्त्रिष्टिकी क्रिया, १६ कोइ पुरुष अत्यंत अन्तिमानधी उदकेराशने क्रोधित चित्त थयो थको, जे काम नोकरपासे कराववा जेवुं होय ते पोताना हाथधी करे ते स्वहस्तिकी क्रिया. १७ अहंत जगवंतनी आज्ञानुं उह्वंधन करीने पोतानी बुद्धिधी जीवाजीवादि सूक्ष्म पदार्थोनी प्ररूपणा करवासारू जे क्रिया करे ते आज्ञापनिकी क्रिया. १८ वीजाना अठतां खोटां आचरणो

प्रगट करवां, तेमनी पूजानो नाश करवो, तेम करवाथी जे उत्पन्न थाय ते वैदारणिकी क्रिया. १९ जे उपयोगथी विपरीत ते अनाजोग, तेनाथी उपलक्षित जे क्रिया ते अनाजोगक्रिया. देख्या विना तेमज पूजन, प्रमार्जन कर्थाविना जीत तेमज चूमि प्रमुखउपर शरीरादिनो निक्षेप करवो ते अनाजोगक्रिया. २० पोतानी तेमज परनी अपेक्षा तेनुं नाम अवकांक्षा ठे, तेनाथी जे विपरीत ते अनवकांक्षा, तेज कारण ठे जेनुं ते अनवकांक्षा प्रत्ययिकी क्रिया, तात्पर्य एमठे के, जिनोक्त कर्तव्य विधियोमां जे पोताने तेमज परने जे क्रिया हितकारी होय तेमां प्रमादने वश थइ जे आदर न करवो ते अनवकांक्षा प्रत्ययिकी क्रिया २१ चालवा, दोडवा प्रमुख कायाना व्यापार, तथा हिंसाकारी, कगोर जूठ धोलवाना वचनना व्यापार, अने परद्रोह, ईर्ष्या, अजिमानादि मनोव्यापार, ए त्रणेनुं जे करवुं ते प्रयोग क्रिया. २२ जेनाथी विषयग्रहण करियें ते समुदान इन्द्रिय तेनी जे क्रिया, देश तेमज सर्व उपघातरूप व्यापार ते समुदान क्रिया. कोइ एवुं मोटुं पाप करियें के जेथी आठे कर्मनुं समुदायपणे ग्रहण थाय ते समुदान क्रिया. २३ माया तेमज लोअथी जे क्रिया थाय ते प्रेम प्रत्ययिकी क्रिया. २४ क्रोध तेमज मानथी जे क्रिया थाय, ते द्वेषप्रत्ययिकी क्रिया. २५ चालवाथी जे क्रिया लागे ते इर्यापथिकी क्रिया, आ क्रिया वीतरागने लागे ठे तेमज अप्रमत्त मुनियोने पण लागे ठे.

हवे आ पचीश क्रियानुं व्याख्यान करियें तियें. १ कायिकी क्रिया वे प्रकानी ठे, एक अनुपरता कायिकी क्रिया अने बीजी अनुपयुक्त कायिकी क्रिया, तेमां अत्यंत दुष्ट एवा मिथ्यादृष्टि जीवोनो, मन वचननी अपेक्षारहित परजीवने पीडा कारक कायानो उद्यम ते प्रथम जेद तथा प्रमत्त संयतनो उपयोग विना अनेक कर्तव्य रूप कायानो व्यापार ते बीजो जेद. २ आधिकरणिकी क्रियाना वे प्रकार ठे. एक संयोजना, बीजी निवर्तना. तेमां विष, गरल, फांसी, धनुष, यंत्र, तलवार, प्रमुख शस्त्रोने, जीवोने मारवावास्ते संयोजन अर्थात् एकत्र करवां, जेम धनुषने तीरनो मेलाप करवो इत्यादि, ते प्रथम जेद, तथा तलवार, तोमर, शक्ति, तोप, बंधुक इत्यादिने नवां सरस वनाववां, ते बीजो जेद. ३ जे निमित्तथी क्रोध उत्पन्न थाय ते निमित्त जीव तथा अजीव वे ठे. तेमां जीव ते प्राणी,

अने अजीवमां खुंटो, कांटो, पथ्यर प्रमुख, तेउंना उपर छेप करे ते प्र-
दोष क्रिया. ४ पोताना हाथथी, तेमज वीजाना हाथें जीवोने मार मारवो
पीटवो ते परित्तापना, तेना वे जेद ठे. पुत्रकलत्रादिना वियोगथी दुःखी
अशने पोताने हाथें ठाती तेमज शिर कुटवुं ते प्रथम जेद. तथा पुत्र,
शिष्यादिने मार मारवो ते वीजो जेद. ५ प्राणातिपातिकी क्रिया वे प्र-
कारे ठे. एक तो पोताने हाथे पोतानो घात करवो जेम के कुवामां पडी
मरवुं, पर्वतउपरथी गरीपडवुं, अक्षिमां जंपापात करवो, केर खावुं प्रमुख
खात्मघातिकी क्रिया ते महापापरूप क्रिया ठे ते प्रथम जेद. तथा कपायने
आधीन अश वीजा जीवोना नाश करवो ते वीजो जेद. ६ जीव अजीव-
नो आरंज करवो जेथी पृथ्वी कायादि ठकायना जीवोना उपघात थाय,
एवां लक्षणो जे क्रियामां होय ते आरंजिकी क्रिया. ७ जीव अजीवनो
परिग्रह करवो, तेनामां अत्यंत मूर्खा राखी प्रवर्तवुं ते परिग्रहिकी क्रिया
८ माया (कपट) गुत्तरीतें स्वार्थवृत्ति साधवी ते मायाप्रत्ययिकी क्रिया.
९ विपरीत वस्तुनुं अज्ञान तेज ठे निमित्त जेवुं, ते मिथ्यात्वदर्शनप्रत्य-
यिकी क्रिया १० जीवने हणवाना, तेमज मद्यमांसादि पिवा खावानो जे-
मां त्याग नहि, एवा जे असंयति जीवनी क्रिया ते अप्रत्याख्यानिकी
क्रिया. ११ घोडाप्रमुख जीव तथा रथप्रमुख अजीवोने जोवा वास्ते जवुं
ते दृष्टिकी क्रिया. १२ जीव, अजीव, स्त्री, पुतली आदिने रागथी स्पर्श क-
रवो ते स्पृष्टिकी क्रिया. १३ जीवनी तेमज अजीवनी अपेक्षाथी जे कर्मबंध
थाय ते प्रातीत्यकी क्रिया. १४ जीव ते पुत्र, स्त्री, जाशप्रमुख, अने अ-
जीव ते, घर, आचूपण प्रमुख तेउने जोवासारू लोको थावे, तेउनी प्र-
शंसाथी ते वस्तुउंनो स्वामी हर्षित थाय ते सामंतोपनिपातिकी क्रिया.
१५ जीव मनुष्यादि, अजीव पथ्यरादि तेउने फेंकवा ते नेस्पृष्टिकी क्रिया
१६ पोताना हाथथी जीव तेमज अजीवनी प्रतिमाने ताडन प्रमुख करे
ते खहस्तिकी क्रिया. १७ जीव, अजीवनी मिथ्या प्ररूपणा करवी, तेमज
जीव, अजीवने मंत्रथी बोलाववां ते आज्ञापनिकी क्रिया १८ जीव, अ-
जीवने विदारवा, ते वैदारणिकी क्रिया. १९ उपयोग विना वस्तु लेवी,
तेमज जूमि प्रमुख उपर मुकवी ते अनाजोग क्रिया. २० इह लोक
विरुद्ध तेमज परलोकविरुद्ध चोरी, परस्त्रीगमनादि दुराचण सेववां,

मनमां करवुं नहि ते अनवकांक्षा प्रत्यय क्रिया. २१ अष्टविध कर्मपर-
माणुजनुं जे ग्रहण करवुं ते समुदान क्रिया. २२ रागजनक वीणादिना
शब्दादिनो जोग करवो ते प्रेमप्रत्ययिकी क्रिया. २४ पोताउपर तेमज
परउपर द्वेष करवो ते द्वेषप्रत्ययिकी क्रिया. २५ मात्र योगोथी जे क्रिया
लागे ते केवली तेमज अप्रमत्त मुनिनी इयां पथिकी क्रिया. आ पचीश
क्रियानुं बहुज संक्षेपथी स्वरूप कहेलुं ठे. विस्तारथी जाणवानी अजि-
लाषावालाए शब्दांजोनिधि गंधहस्तिमहाजाप्य जोवां. आ पचीश क्रि-
याउंमां केटलीएक जोतां एकसरखी लागे, परंतु ते एक सरखी नथी.
दरेकनुं स्वरूप तदन पृथक् पृथक् ठे.

हवे त्रण योगनुं स्वरूप लखियें ठियें. १ मननो व्यापार ते मनयोग.
२ वचननो व्यापार ते वचनयोग. ३ कायानो व्यापार ते काययोग. एप्र-
माणे सर्व मली आश्रवना वेंतालीश जेद थया. तेनाथी जीवने शुजाशुज
कर्मनी आमदानी थायठे. इति.

हवे संवरतत्वनुं स्वरूप लखियें ठियें. पूर्वोक्त आश्रवथी जीवने आव-
तां कर्मने रोकनार अर्थात् आश्रवनुं रूधन करनार ते संवर ठे. ते संवर-
ना सत्तावन जेद ठे. पांच समिति, त्रण गुप्ति, दश यतिधर्म, वार जावना,
वावीश परिसह, पांच चारित्र, सर्व मली सत्तावन थया. तेमांथी पांच
समिति, त्रण गुप्ति, दशविध यतिधर्म, अने वार जावनानुं स्वरूप तो
गुरूतत्व वर्णनमां लखि आव्या ठिये. तेथी त्यांथी जाणवुं.

हवे वावीश परीसहनुं स्वरूप लखियें ठियें १ क्रुधा परिसह. क्रुधा
एटले जूख. जूखनी वेदना सर्ववेदनाथी अधिक ठे. ज्यारे जूख लागें,
त्यारे पोतानी प्रतिज्ञाथी जंग थाय नहि. तेमज आर्त्तध्यान पण करे नहि.
सम्यक् परिणामें क्रुधा सहन करे, २ तेमज पिपासा जे तृपा तेपण स-
म्यक् परिणामें सहन करे. ३ शीतपरीसह. ज्यारे अत्यंत शीत पडे, त्यारे
पण अकटपनिक वखोनी वांठा न करे. जेवां जीर्णप्राय वख होय तेनाथी
टाढ सहन करे, अग्नि तापे नहीं, सम्यक् प्रकारें शीतसहन करे, ४ उष्ण-
परीसह—सूर्यना सखत तडकामां पण चालतां थकां उपानह प्रमुखनी वांठा
करे नहि, तेमज सखत गरमी, उकलाट उतां पवनपंखानी इष्टा करे नहीं,
परंतु सम्यक् प्रकारें आताप सहन करे. ५ दंश मशकपरीसह. कांस तथा

मठर अने मांकड प्रमुख करडे त्यारे धूमाडो करी, तथा उष्णजल प्रमुख रेडी तेजनुं निवारण न करे परंतु सम्यक् परिणामं तेज्ज करेली वेदना सहन करे. ५ अचेल परीसह—सर्वथा वस्त्रनो अज्ञाव, ते अचेल परीसह नहि; वस्त्रादि पण आगममां जे प्रमाणे राखवाने कहां ठे तेप्रमाणे राखे तो ते परिग्रह नहि. वस्त्रादि उपर मूर्धा रक्षा करे तो ते परिग्रह ठे. उक्तं च ॥ जंपि वञ्च पायं च, कंवलं पायपुत्रणं ॥ सोपि संजम लज्जाठा, धारिंति परि हरंति य ॥ १ ॥ नसो परिग्गहो बुत्तो, नाइ पुत्तेण ताइणा ॥ मुठ्ठा परिग्गहो बुत्तो, इइवुत्तं महेसणत्ति ॥ २ ॥ चेलनाम वस्त्रनुं ठे, ते शीर्ष अर्थात् फाटेलां तेमज जीर्ण होय, तोपण अकल्पनिक वस्त्र न लहे, ते अचेल परिसह. ७ अरतिपरीसह. संयम पावतां अरति जे उत्पन्न थाय ते सम्यक् प्रकारे सहन करे, ते सहन करवानो उपाय श्रीदशवैकालिकनीप्रथम चूलामां अठार वस्तुनुं स्वरूप चिंतवन करवुं, ते ठे, तेथी अरति दूर थाय ठे. ८ स्त्रीपरीसह. स्त्रियोनां अंगोपांग, संस्थान, मुखाकृति, हास्य, विनोद, सौंदर्यता प्रमुखनुं मनमां चिंतवन न करे, स्त्रियोने मोक्ष मार्गमां अर्गला समान जाणी तेजना तरफ विकार बुद्धिची नेत्र फेरवे नहि. ९ चर्यापरीसह. चर्या एटले चालवुं, घररहित, ग्राम नगरादिमां अनियतवास, ममत्वरहित मासकल्पपादि करवा ते. १० निषद्यापरीसह. निषद्या एटले रहेवानुं स्थान, जे स्थान स्त्री, पंढर रहित होय ते स्थानमां रहेतां थकां इष्ट अनिष्ट उपसर्ग थाय तोपण पोताना मनमां चारित्र्यची चलायमान न थाय ते. ११ शय्यापरीसह. जेने विषे शयन करीए ते शय्या, संस्तारक, वसति; संस्तारक एटले सुवानुं आसन, ते शय्या तथा आसन, कोमल, कठिन, उंचुं, नीचुं, धूल, कांकरावाळुं अथवा कुडी जगामां होय, तेमज वसति एटले स्थान, शीत अथवा गरमीवाळुं होय तो पण मनमां उद्वेग न करे अने दुःख सम्यक् प्रकारें सहन करे ते. १२ आक्रोश परीसह. कोइ अनिष्ट वचन कहे त्यारे विचारे के, ते पुरुष साची वातने वास्ते मने अनिष्ट कहेठे, तेथी तेना उपर मारे कोप करवो ते वास्तविक नथी. कारण के ते सखस मारो हितचिंतक होवार्थी मने शिखामण आपेठे. तेथी ह्वेथी मारे तेवी चूल करवी नहि. जो ते सखस जुठी वात जाणी मने अनिष्ट कहेठे, तो पण

ते वात जूठी होवाथी मारे तेना उपर कोप करवो वास्तविक नथी एम विचारी सम्यक् प्रकारे सहन करे. १३ वधपरीसह. हस्तादिथी कोइ मार मारे तो सम्यक् परीणामे सहन करे, जेम के आ मारुं शरीर अवश्य एकवखत नाश पामवानुं ठे.

तेथी जे सखस मने ताडन करेठे, तेथी जे दुःख मने थाय ठे, ते मारा करेलां कर्मनुं फल ठे, ते तो फक्त निमित्तमात्र ठे, एम विचारी वध यतां सुधी सहन करे ते. १४ याचनापरीसह. याचना एटले मागवुं. साधुने, अन्न, वस्त्रादि सर्व वस्तुं मागवाथीज मलेठे, तेथी तेवी बुद्धिथी सम्यक् प्रकारें परीसह सहन करे १५ अलाजपरीसह. साधुने कोइवस्तुनी इत्ता थइ ठे, ते वस्तु गृहस्थना घरमां बहु ठे, साधु मागवा गया, परंतु गृहस्थें आपी नहि, साधु मनमां खेद धरे नहि, तेमज नहि आपनारनुं बुरुं पण चिंतवे नहि, तेमज कठोरवचनपण तेने कहे नहि, समता धारण करे, मनमां विचारे के आजे न मली तो आवती काले मली जशे इत्यादि १५ रोग परीसह. ज्वर अतिसारादि रोग ज्यारे थाय, ल्यारे जे साधु गत्र वहार होय, ते तो औषध पण न खाय, अने जे साधु गत्रवासी होय ते शुरु लाघवता विचारीने शास्त्रमां कहेली रीत मुजब औषधोपचार करे, अने रोग सम्यक् विचारणाथी सहन करे. १७ तृणस्पर्शपरीसह. दर्जादि कठोर तृणनो स्पर्श सम्यक् प्रकारें सह. १८ मलपरीसह. साधुना शरीरमां परसेवो थवाथी रजप्रमुख शरीरे लागी कठिन मेल चोटी जाय ठे, तेवामां उनालाना तापथी ते मेल पल्लतां दुर्गंध उत्पन्न थवाथी उद्वेग थाय, तोपण खानादिथी शरीरनी विज्ञूपा साधु न करे ते. १९ सत्कारपरीसह. सेवक जनोए वस्त्र, अन्न, पानादिथी साधुने बहुज सत्कार कयों होय, तोपण मनमां अज्जिमान न करे, तेमज वीजा मतना साधुंनी तेमना चक्रलोक पूजा चक्ति करे ठे, अने जैनमतना साधुनी कोइ दरकार पण करतुं नथी एम जाणे तोपण मनमां विपाद न करे ते. २० प्रज्ञापरीसह. अत्यंत बुद्धिशाली थया ठतां मनमां अज्जिमान न करे, तेमज अल्पबुद्धिवंत ठतां “हुं महामूर्ख तुं, सर्वने पराचवतुं स्थान तुं” एवी दीनता तेमज शोक मनमां लावे नहि. २१ अज्ञानपरीसह. में चौद पूर्वनुं अथवा तो अगीयार अंगनुं अध्ययन कर्तुं ठे,

तेमज उपांग, ठेद, प्रकरण प्रमुख अनेकग्रंथो मने कंठस्थ ठे, तथा हुं ज्ञाननो समुद्र तुं एम साधु अजिमान न करे, अथवा हुं आगम ज्ञानरहित तुं धिक्कार ठे निरद्वार कुर्दिंजर एवा मने एवी दीनता पण न करे; परंतु विचार करे के निःकेवल ज्ञानावरण कर्मना क्योपशमथी मारूं आ स्वरूप ठे, स्वकृतकर्मनुं फल ठे, कां तो जोगवतां दूर थशे, अथवा तो तप अनुष्ठानथी दूर थशे? एम विचारपूर्वक परीसह सहै. ११ दर्शनपरीसह, शास्त्रमां देवता तथा तेमना इंद्र सांजलवामां आवेठे, परंतु प्रसंगे सहाय कोइ करतुं नथी, तेथी शुं खबर पडे के देवता के इंद्र ठे? के नहि? तेमज अन्यमतवालांउनी रुद्धि, वृद्धि देखीने जिनो-क्त तत्वमां संदेह न करे, तेमज मनमां विकलता न पामे ते. आ वावीश परीसह सहन करतां साधु संवरजावी कहेवाय ठे. तेनुं विस्तारथी स्वरूप जोवुं होय तो श्रीशांतिस्मृतिकृत उत्तराध्ययन सूत्रनी वृहद्वृत्ति, तथा तत्त्वार्थसूत्रनी वृत्ति अवलोकन करवी.

हवे पांच प्रकारना चारित्र लखियें ठियें. १ सामायक चारित्र, २ ठे. दोपस्थापनीय चारित्र, ३ परिहार विशुद्धि चारित्र, ४ सूक्ष्म संपराय चारित्र, ५ यथाख्यात चारित्र. आ पांच चारित्रना धारण करनारा साधु पण पांच प्रकारना ठे. आ कालमां प्रथमना वे प्रकारना चारित्रने धारण करनार साधु ठे. त्रण प्रकारना पाठलनां चारित्र विच्छेद गयां ठे. आ पांचे चारित्रनुं विस्तारथी स्वरूप जोवुं होयतो देवाचार्यकृत नवतत्त्वप्रकरणनी टीका, तथा श्रीजगवती, अने पन्नवणा सूत्रनी वृत्ति जोवी. संवरना एप्रमाणे आश्रवने रोकनार सत्तावन जेद थया.

हवे निर्जरातत्त्वनुं स्वरूप लखियें ठियें. जेनाथी जीवनी साये बंधाये-ला कर्म देशथी तेमज सर्वथी क्य थाय, ते निर्जरा. ते निर्जरा जेनाथी अर्थात् जे साधनथी थाय तेनुं नाम तप ठे. ते तपना वार प्रकार ठे. तेनुं संक्षेपथी स्वरूप गुरुतत्त्व निर्णयमां कथन करेलुं ठे, विस्तारथी जोवानी श्छावालाए, नवतत्त्व प्रकरण वृत्ति, श्रीवर्द्धमानस्मृतिकृत आचारदिनकर शास्त्र, श्रीरत्नशेखरस्मृतिकृत आचारप्रदीप, श्रीजगवती सूत्र तथा श्रीज-ववाइ सूत्र जोवां. इति निर्जरातत्त्व.

हवे बंधतत्त्वनुं स्वरूप कहियें ठियें. बंधना चार प्रकार ठे, १ प्रकृति-

बंध, २ स्थितिवंध, ३ अनुज्ञाग (रस) बंध, ४ प्रदेशबंध, जीव प्रदेश अने कर्म पुद्गलोनुं परस्पर दुध अने पाणी जेम एकत्र मली जवुं ते बंध कहेवाय ठे. बंध शब्द वंदीवान वाचकं ठे. जेम बंधवो केदमां स्वतंत्र रही शकतो नथी, तेम आत्मा ज्ञानावरणीयादि कर्म जंजीरथी स्वतंत्र रही शकतो नथी. आ कर्मबंधमां ठ विकल्पो ठे, ते कहिये ठियें.

१ कोइ वादी कहेठे के, जीव निर्मल, पुण्यपापना बंधरहित हतो, पठी पुण्यपापनो तेने बंध थयो ठे. आ प्रथम विकल्प ठे. आ विकल्प मिथ्या ठे, कारण के निर्मलजीव कर्मनो बंध करी शकतो नथी. वली कर्म विना संसारमां उत्पन्न पण थइ शकतो नथी. जो निर्मल जीव कर्मनो बंध करे, तो तो मोक्षस्थ जीवपण कर्मनो बंध करी ले. जो मोक्षस्थ जीवने कर्म बंध थयो, तो मोक्षनो अज्ञाव थयो. जो मोक्ष नहि, तो मोक्षना उपाय जे शास्त्र तेमज शास्त्रना वनावनारा सर्व मिथ्यावादी थशे. तेमज तेउ नास्तिकमति वनी जशे. वली एम पण ठे के निर्मल आत्मा संसारमां शरीरना अज्ञावथी कर्मबंध केवीरीतें करी शकशे?

२ बीजो विकल्प कर्म पहेलां हतां, अने जीव पठीथी वन्योठे, आ विकल्प पण मिथ्या ठे, कारण के जीव विना कर्म कोणें कर्थां हतां; केमके कर्त्ता विना कर्म थइशकतां नथी. वली प्रथमना कर्मोनुं फल पण आ जीवने मली शके नहि, कारण के ते कर्म तेनां करेलां नथी. जो कर्म कर्थां विना कर्मनुं फल मले तो अतिप्रसंग दूपण आवे; तेमज कर्म कर्थां विना ईश्वरपण कर्म फल जोगववावास्ते नरककुंभमां जइ पडशे. वली जीव पाठलथी वन्योकेवीरीतें? जीवनुं उपादान कारण तो कोइ नथी. जो कहो के ईश्वर जीवनुं उपादान कारण ठे, तो कारण समान कार्य पण थवुं जोइयें. जेम ईश्वर निर्मल, निष्पाप, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी ठे, तेम जीव होवो जोइये परंतु जीव तेवो नथी. वली जो ईश्वर जीवोनुं उपादान कारण होय, तो तो ईश्वरज जीवो वनीने अनेक प्रकारना क्लेश तथा जन्ममरण, गर्त्तावासादि दुःखोने जोगवनार थया. हवे जुउं. ईश्वरें पोतेज पोताना पगमां आ कुहाडो शावास्ते मार्यो? पूर्णानंद पद ठोडीने संसारनी विडंबनामां केम फसाया? वली पोते पोताने निष्पाप करवा वास्ते वेदादिशास्त्रद्वारा अनेक तरेद्वथी तपजपादि क्लेश करवा,

शावास्ते बताव्या? ते कारणथी सिद्ध थायते के पूर्वोक्त सर्वकथन अज्ञानतासूचक थे.

३ त्रीजो विकल्प. जीव अने कर्म बंने एकसाथे उत्पन्न थयां. आ विकल्पपण मिथ्या थे. कारण के जे वस्तुजं समकाले उत्पन्न थायते, ते परस्पर कार्यकारणरूप थइ सकती नथी. जो कर्म जीवनां करेलां सिद्ध न थयां तो कर्मफलपण जीव जोगवशे नहि. आ प्रत्यक्षविरोध थे; कारण के जीव तो कर्म जोगवता देखिये ठियें. वली आ पद्दमां जीव तथा कर्मनुं कोइ उपादान कारण नथी. तेथी आ विकल्पपण असत्य थे.

४ चोथो विकल्प. जीव तो थे, परंतु जीवने कर्म नथी आपण मिथ्या थे. कारण के जो जीवने कर्म नथी तो जीव सुखदुःख केवीरीतें जोगवी शके? कर्म विना संसारनी विचित्रता कदापि थइ शकशे नहि, ते कारणथी आ विकल्पपण मिथ्या थे.

५ पांचमो विकल्प जीव तेमज कर्म, बंने नथी. आ विकल्प तदन असत्य थे. ज्यारे जीवज नथी, त्यारे जीव अने कर्म नथी एम कहेनार कोण थे? एम कहेनार जीव थे? के कोइ बीजो थे? सबव आ खवचन विरोध थे तेथी आ पक्षपण मिथ्या थे.

६ ठठो विकल्प, जीव अने कर्म, आ बंने अनादि, अपश्चानुपूर्वीं थे.

प्रश्न:— जो जीव अने कर्म बंने अनादि थे, तो जीवनी जेम कर्मनो पण कदापि नाश न थवो जोइयें?

उत्तर:— कर्म जे अनादि थे ते प्रवाह अनादि थे, ते कारणथी तेनो क्षय थइ जाय थे.

प्रश्न:— तमे जे बंध कहोगे ते निर्हेतुक थे? के सहेतुक थे? जो कहो के निर्हेतुक थे, तो तो “नित्यसत्त्वं” अथवा “नित्य असत्त्वं” थइ जशे, कारण के जे वस्तुनो हेतु नथी ते आकाशवत् नित्य सत् होय थे, अथवा खरशृंगवत् नित्य असत् होय थे. तेमज निर्हेतुक होवाथी मोक्षनो अज्ञाव थइजशे. जो कहो के सहेतुक थे, तो कहो के ते बंधनो शुं हेतु थे?

उत्तरपद:— आ बंधना मूलहेतु चार थे, अने उत्तर हेतु संज्ञावन थे. प्रथम चारप्रकारनो बंध कहिएठीए. ते चारमां प्रथम तो प्रकृतिबंध

ठे. ते प्रकृति कइ कइ ठे ? तेमज तेनो बंध शुं ठे ? जुंठं. मूलप्रकृति आठ ठे. १ मत्यादि ज्ञाननुं जे आवरण, आढादन, ते ज्ञानावरण. २ सामान्य बोध, चहुआदिनुं जे आवरण ते दर्शनावरण. ३ सुख दुःख वेदियें (जोगवियें) ते वेदनीय. ४ मोहें, जीवने विचित्रता प्राप्त करावे ते मोह. ५ सर्वथा जे कर्म चाढ्यां जाय "एति याति चेत्यायुः" जेना उदयथी जीव जीवे ठे ते आयु. ६ नमावे, जे शुजाशुज गत्यादि रूपें आत्माने, ते नामकर्म. ७ गोत्र शब्दनी उत्पत्ति आ प्रमाणे ठे. "गां वाचं त्रायत-इति गोत्रं" जेना उदयथी जीव उंच नीच कुलवालो कहेवाय ठे, ते गोत्र. ८ अंतर एटखे वचमां आववुं, लाजादिना वचमां आववुं, अर्थात् दान, लाजादि जीवने प्राप्त थतां न थवा दे, ते अंतराय. आ आठ स्वजावरूप कर्म, जे जीवनी साथे क्षीर, नीरनीपेठे मिथ्यात्वादि हेतुंथी वंधाइ जाय तेनुं नाम प्रकृतिबंध ठे. १ तेज आठ प्रकृतियोनी स्थिति अर्थात् कालमर्यादा, जेम के आ प्रकृति आटला वखतसुधी आत्मानी साथे रहेशे, पठी नहि रहे, जेनाथी एवी स्थिति थाय ते स्थितिवंध. ३ तेज आठ प्रकृतियोमां तीव्र, मंद रस जे करे, ते अनुजागबंध. ४ कर्म प्रदेशनुं जे प्रमाण; जेम के आटला परमाणु आ प्रकृतिमां ठे, ते परमाणुंनो आत्मानी साथे जे बंध ते प्रदेशबंध.

हवे ते चार प्रकारनां बंधनो विस्तारथी बोध थवा लाडवानुं दृष्टांत लखियेंठियें. जेम कोइ लाडवो त्रिकटुनो बनावेलो होय अर्थात् सुंठ, पीपर, अने मरीनो बनावेलो होय, ते त्रिकटुथी वनेली वस्तुनो स्वजाव वायुने हरण करवानो ठे, तेवीज रीतें शीतद्रव्योथी वनेली वस्तुंनो स्वजाव पित्तहरण करवानो ठे, तथा अरडुसो अने क्षारादि वस्तुंनो स्वजाव कफहरण करवानो ठे, तेजप्रमाणे कर्मोनो पण स्वजाव ठे, कोइ कर्मनो ज्ञानावरण स्वजाव ठे, तो कोइनो दर्शनावरणस्वजाव ठे, ते प्रकृति (स्वजाव) बंध. २ कोइ लाडवो एक दिवस रही वगडी जाय ठे. कोइ वे दिवस, कोइ चार, ठ, आठ, दश, पंदर तो कोइ पक्ष, मास-सुधी रहे ठे. अने पठी वगडे ठे, तेवीजरीतें कोइ कर्मनी स्थिति अंत-सुहूर्त्त, तो कोइनी प्रहर, दिवस, पक्ष, मास यावत् सीत्तेर कोटाकोटी सागरोपमसुधीनी ठे, ते प्रमाणे स्थिति करी फल दइ चाली जाय ठे, ते

स्थितिबंध. ३ जेम कोइ लाडवानो रस कडवो तो कोइनो मीठो, कपा-
यलो ठे, तेमज कोइ कर्मनो रस मुखरूप तो कोइनो दुःस्वरूप; संसा-
रमां जे जे श्रवस्या जीवोनी यथा करे ठे ते ते सर्वे कर्मना अनुजाग
(रस) श्रीज थाय ठे, ते रसबंध. ४ जेम कोइ लाडवो वजनमां पांच
तोलावो. तो कोइ पाशेर, श्रद्धो शेर, शेरनो होय ठे, तेम कोइ कर्मना
प्रदेश गणतरीमां थोडा तो कोइ घणा एम होय ठे, ते प्रदेशबंध आ
दृष्टांत कर्मबंधनुं ठे.

हवे बंधहेतुनुं स्वरूप लखियेंठियें. १ मिथ्यात्व, ते तत्त्वार्थं श्रद्धान-
रहित थनुं. २ श्रविरति, ते पापची निवृत्त थवाना परिणामनो श्रजाव.
३ कपाय, तेमां कप श्रथात् संसार श्रथवा कर्म, तेनो जे श्राय कहेतां
लाज ते कपाय, क्रोध, मान माया, लोजरूप. ४ योग, ते मन, वचन,
कायानो व्यापार. आ चारनो विस्तार, सत्तावन जेद ठे.

हवे ते उत्तरहेतु सत्तावननुं स्वरूप लखियेंठियें, १ मिथ्यात्वना पांच
प्रकार ठे. १ अज्ञिग्रहमिथ्यात्व, २ अनज्ञिग्रहमिथ्यात्व, ३ अज्ञिनिवेश
मिथ्यात्व, ४ संशयमिथ्यात्व, ५ अनाज्ञोगमिथ्यात्व.

१ अज्ञिग्रहमिथ्यात्वनुं स्वरूप. जीव एम जाणे के, जे कांइ हुं स-
मजेलो हुं ते सत्य ठे, वीजानी समज ठीक नथी, एम मनमां धारी स-
त्य, असत्यनी परीक्षा करवानी मनमां अज्ञिलोपा नहि, तेमज सत्य श्र-
सत्य स्वरूपनो निरधार करवानो विचार पण नहि. आ मिथ्यात्व दीक्षित
शाक्यादि अन्यमतमत्वधारकोने होय ठे, ते पोताना मनमां एम वि-
चारे ठे के मत श्रमे अंगीकार कयां ठे ते सत्य ठे, वीजा सर्वमत श्रसत्य
ठे एवा जेना परिणाम ते अज्ञिग्रहमिथ्यात्व.

२ अनज्ञिग्रहमिथ्यात्व. जीव एम माने के सर्वमतो सारा ठे, सर्व म-
तोधी मोक्षप्राप्ति थाय ठे, तेची कोइ पण मतने वुरो कहेवो ते वास्त-
विक नथी सर्वने नमस्कार करवा. आ मिथ्यात्व सर्व वाळ गोपालादि
जेउण कोइपण दर्शनने अंगीकार करेल नथी तेउने ठे. कारण के तेउ
श्रमृत तथा विष बंनेने एकतरखुं माननारा ठे.

३ अज्ञिनिवेशमिथ्यात्व. जे पुरुष जाणीने जूतुं बोले, जेम के प्रथम
तो स्मृतिदोपची, वा अज्ञानताची, शास्त्रार्थमां जूलपडी, पठी कोइ वि-

छान् कहे के तमे आ वातमां आ प्रमाणे जूल खाउठो. ते प्रमाणे वरावर पोताना जाणवामां आवतां ठतां, पोतें कहेला असत्यवादमां कदाग्रह ग्रहण करे, जात्यादि अजिमानथी चारंवार कहेवा ठतां न माने, विरूख स्वकपोलकद्विपत कुयुक्तियो वनावीने, पोताना कथन करेला मतने सिद्ध करे, वादमां हार पामे तोपण मत मुके नहि. एवा कदाग्रहवाला जीव, अतिपापी, तेमज बहुलसंसारी थाय ठे. एवुं मिथ्यात्व प्रायः जे जैनी जैनमतने विपरीत कथन करे ठे तेनामां थइ जाय ठे. तेवा कदाग्रही गोष्ठामहिल प्रमुख थाय ठे. ज्ञाप्यकार श्री अजयदेवसूरि नवांगी-वृत्तिकारक, नवतत्वप्रकरणना ज्ञाप्यमां कहेठे के “गोठा माहिलमाज्ञं, जं अजिनिविसितु तयं ” आदिशब्दथी वोटिक शिवचूतिने पण आजि-निवेशिक मिथ्यात्ववाला जाणवा.

४ संशयमिथ्यात्व. ते जिनोक्त तत्वमां शंका करवी, जेम के जीव असंख्य प्रदेशी ठे ? के नथी ? इत्यादि. एवीरीतें सर्व पदार्थमां शंका करवी, तेनाथी जे उत्पन्न थाय ते सांशयिक मिथ्यात्व. “तदाह ज्ञाप्यकृत ॥ सांशयिकं मिथ्यात्वं तदशेषया शंकासंदेहोजिनोक्ततत्त्वेऽपि” ॥ संशय मिथ्यात्व होवानां कारणो श्रीजिनजडगणि क्षमाश्रमण ध्यानशतकमां लखे ठे के. प्रथम तो जैनमत स्याद्वादरूप अनंतनयात्मक ठे, ते कारणथी समजवोज कठिन ठे, तेमज सप्तजंगीनुं सकलादेशी, विकलादेशी स्वरूप, अष्टपक्ष, सातसैं नयस्वरूप, चार निक्षेप, द्रव्य, क्षेत्र, काल, जाव, तथा १ उत्सर्ग, २ अपवाद, ३ उत्सर्गापवाद, ४ अपवादोत्सर्ग, ५ उत्सर्गोत्सर्ग, ६ अपवादापवाद, तथा विधिवाद, चारित्रानुवाद, इत्यादि अनंतनय अपेक्षाए जैनमतनां शास्त्र कथन करेलां ठे, ज्यां सुधी जे अपेक्षाथी जे शास्त्रस्वरूप कथन करेहुं ठे ते अपेक्षाथी ते स्वरूपने न समजे, त्यां सुधी जैनमतनी यथार्थ समज पामवी अतिकठिन ठे, तेवी समजणं पामवावास्ते बहुज निर्मलबुद्धि जोइये. ते प्रायःथोडा जीवोने ठे, तेमज शास्त्रना अर्थ वतावनारा संपूर्ण विद्वान् गुरु जोइए, ते देखाता नथी. इत्यादि निमित्तोथी संशयमिथ्यात्व थाय ठे.

५ अनाजोगमिथ्यात्व. जे जीवोने उपयोग नथी के धर्म, अधर्म शु वस्तु ठे ? एवा जे विकलेंद्रियादि जीव, तेउने अनाजोगमिथ्यात्व होय ठे.

ए प्रमाणे मिथ्यात्वना पांच जेद ठे, तेउंना पण वीजा अनेक जेद थाय ठे, परंतु ते सर्वे आ पांचनी अंतर्भूत समजवा. ते आ प्रकारे ठे.

१ प्ररूपणामिथ्यात्व. जिनवाणीरूप जे सूत्र, निर्युक्ति, जाप्य, चूर्णी, टीका, तेनाथी विपरीत प्ररूपणा करवी ते.

२ प्रवर्तनामिथ्यात्व. जे काम मिथ्यादृष्टि जीवो धर्म जाणीने करे ठे, तेउंनी देखादेखीए, तेउंना करवा मुजव करे ते.

३ परिणाममिथ्यात्व. मनना परिणाम विपरीत रहे, मनमां कदाग्रह होय ते टखे नहि, तेमज शुरू शास्त्रार्थ माने नहि ते.

४ प्रदेशमिथ्यात्व. मिथ्यात्वना प्रदेश जे सत्तामां ठे, तेनुं नाम प्रदेशमिथ्यात्व, आ चार जेदोना पण अनेक जेद ठे, तेमांथी केटला एक लखियेंठियें

१ धर्म जे वीतराग, सर्वज्ञें प्ररूपेलो ठे, तेने अधर्म माने. २ जे हिंसा प्रवृत्ति प्रमुख आश्रवमय अशुरू अधर्म ठे, तेने धर्ममाने, ३ जे सत्यमार्ग ठे तेने मिथ्यात्व (असत्य) मार्ग माने. ४ जे विपयियोनो मार्ग ठे तेने सत्यमार्ग माने. ५ जे साधु सत्तावीश गुणें विराजमान ठे तेने असाधु कहे, ६ जे आरंज परिग्रह, कपायमां रक्त, तेमज जेना उपदेशथी लोकोने सांसारिक विपयोमां मस्तपणुं, कुवासना, कुबुद्धि इत्यादि उत्पन्न थाय, एवा पठरनी नावसमान अन्यालिंगी कुलिंगी, तेमने साधु कहे. ७ ठकायना जीवोमां अजीवपणुं माने. ८ सुवर्ण, काष्ठ प्रमुख अजीवने जीव माने. ९ मूर्त्तपदार्थोने अमूर्त्त माने. १० अमूर्त्त पदार्थोने मूर्त्त माने. आ दशजेदमिथ्यात्वना ठे.

वली ठ जेद मिथ्यात्वना ठे ते कहियें ठियें. १ लौकिकदेव, २ लौकिक गुरु, ३ लौकिक पर्व, ४ लोकोत्तर देव, ५ लोकोत्तर गुरु, ६ लोकोत्तर पर्व.

१ लौकिक देवगत मिथ्यात्व. जे देव रागद्वेषधी जरेला ठे, एक उपर कृपावान् थाय ठे, वीजानो विनाश करे ठे, स्त्रीना जोगविलासमां मग्न ठे, जेणें अनेक प्रकारनां शस्त्र धारण करेलां ठे, पोतानी ऐश्वर्यताना जे अजिमानी ठे, जेना हाथमां जपमाला ठे, सावयजोग जोगवे ठे, पंचेंद्रियवध चाहाय ठे, एवा देवने परमेश्वर मानवा, परमेश्वरना अंश अवतार मानवा, तेउनुं पूजन करवुं. इत्यादि. ते लौकिक देवगत सि-

ध्यात्व ठे. तेना अनेक जेद ठे, तेनुं स्वरूप मिथात्वसित्तेरी प्रमुख ग्रंथयी जाणवुं.

२ लौकिक गुरुगत मिथ्यात्व. जे अठार पापस्थाकोनुं सेवन करे, नव प्रकारना परिग्रह राखे, गृहस्थाश्रम पाले, स्त्री, पुत्रपरिवारवाला होय, कुलिंगीहोय, मनःकल्पित नवा नवा वेप वनावी स्वकपोलकल्पित मत चलावे, आरुंवर राखे, वाद्य परिग्रह तो कदाच त्यागेल होय, तो पण अच्यंतर ग्रंथिजमां मग्न होय, तजे नहि, गुरुनाम धरावी मंडल परिवारें विचरे, जेनी अनादिनी जूल मटेळी न होय, जेने शुद्धसाध्यनी पिठान न होय तेवाउने गुरु माने, तेउनुं बहु मान करे, तेउने मोक्षप्रदाता जाणी दान दे, तेउने परम पात्र जाणे, एवाज जीवना परिणाम ते लौकिक गुरुगत मिथ्यात्व ठे.

३ लौकिक पर्वगत मिथ्यात्व. १ आजापडवो, २ प्रेतवीज, ३ गुरुत्रीज, ४ गणेशचोथ, ५ नागपांचम, ६ जोलणांठठ, ७ शीली सातम, ८ बुध अष्टमी, ९ नोळी नवमी, १० विजयदशमी, ११ व्रत एकादशी, १२ वत्स वारश, १३ धनतेरश, १४ अनंतचौदश, १५ अमावास्या, १६ सोमवती अमावास्या, १७ रक्षाबंध, नाक्षीपरी पुनम, १८ होळी, १९ आदित्यवारादि, २० सोमप्रदोष, २१ उत्तरायण, २२ अन्य संक्राति, २३ ग्रहण, २४ नवरात्रि, २५ आरू, २६ पीपलेपाणी सेचन, २७ अश्व, गर्दजपूजन, २८ गोत्राटी, २९ अन्नकूट, ३० दसुरा, ३१ स्मशानपूजन, ३२ कवरमेला, इत्यादि अनेक लौकिक पर्वगत मिथ्यात्व ठे.

४ लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व. ते देव श्री अरिहंत, धर्मना आकर, विश्वोपकार सागर, मोक्षमार्गदातार, परमपूज्य, सकलदोषरहित, एवा शुद्ध, निरंजन देवनी स्थापना रूप जे प्रतिमा, तेनी पासे, आ लोकना अनेकप्रकारना पौजलिक सुखजोग मेलववानी वांठा करे, जेम के हे जगवन् ! जो आ मारुं काम थशे तो, तमारी मोटी पूजा, आंगी रचावीश, ठत्र चडावीश, दीपमाल, रोशनी करावीश, इत्यादि, तेमज परजवमां मने आपनी जक्ति पूजाथी इंड, चक्रवर्त्तिपणुं, तथा देव, नरपतिनी पदवी प्राप्त थाय इत्यादि, तथा मारा तथा पुत्र स्त्री प्रमुखना रोग प्रमुखनो नाश थाय इत्यादि पौजलिक सुखवास्ते, तेमज दुःखना

निवारणवास्ते जावपूर्वक वीतराग देवने मानवा, ते लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व ठे. दृष्टांत. जे पुरुष चिंतामणी रत्नानो दातार होय, तेनी पासे काचना कटकानी मांगणी करवी ते जेम हास्यास्पद तेमज अज्ञानता ठे, ते समान आ इष्टा ठे, तेथी अयोग्य ठे, जेने कर्मप्रकृति स्वरूपनुं ज्ञान तेमज अनुभव न होय तेज एवी मांगणी करे ठे.

५ लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व पोते निर्गुणी ठतां साधुनो वेप राखे, जीववाणीने उवापी, पोताने मनःकल्पित उपदेश आपे सूत्रना साचा अर्थने त्रोडे, एवा उत्सूत्रना प्ररूपक तेउने गुरु जाणी, तेउनुं बहुमान चक्ति पूजा करवी ते तथा जे साधु गुणवान् होय, तपस्वी होय, चारित्रपात्र होय, आचारवंत, तेमज यथोक्तक्रियावंत होय, तेमनी आ लोकना सुखवास्ते, तेमज परलोकना पौढलिक सुखवास्ते, सेवा करे बहु मान करे, मनमां एम पण जाणे के जो तेमनी बहु सारी रीतें सेवा करीश तो तेमनी मेहेरवानीशी, धन रुद्रि स्त्रीपुत्रादि परिवार मने प्राप्त अशे, एवा परिणाम ते लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व.

६ लोकोत्तर पर्वगत मिथ्यात्व. जिनेश्वर जगवानना पांच कल्याणकनी तिथियोने दिनें, तथा बीजा पर्वने दिने, धन, स्त्री, पुत्रादिवास्ते तप, जपादि धर्मकरणी करवी ते लोकोत्तर पर्वगत मिथ्यात्व ठे. इत्यादि मिथ्यात्वना अनेक जेद ठे, परंतु ते सर्वे पूर्वोक्त अजिग्रहादि मिथ्यात्वमां अंतर्भूत ठे.

हवे वार प्रकारनी अविरतिनुं स्वरूप कहियें ठियें. पांच इंद्रिय, अने ठनुं मन, तेमज ठ काय, मली वार प्रकार ठे, तेमनुं स्वरूप एवुं ठे के, पांचे इंद्रियोने पोत पोताना विपयोमां प्रवर्त्ताववी, ते पांच तथा कोइ पण पापमय वस्तुशी मननो निरोध न करवो ते, तथा ठ जीवनिकायनी हिंसामां प्रवृत्ति करवी, ते सर्व मली वार अविरति ठे.

हवे कषाय वंधना पचीश जेदनुं स्वरूप कहियें ठियें. अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, तथा अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, तथा प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, तथा संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, मली सोल, तथा नव नोकषाय, १ हास्य, २ रति, ३ अरति, ४ जय, ५ शोक, ६ जुगुप्सा, ७ स्त्रीवेद, ८ पुरुषवेद, ९ नपुंसकवेद

मली पचीश कषाय, संसार स्थितिनां मूल कारणो ठे, तेमनुं विस्तारथी कथन आगल करेखुं ठे.

हवे योगनामें बंध हेतुनुं स्वरूप लखियें ठियें. ते मन, वचन, काय, एम योगना त्रण प्रकार ठे. आ त्रणना उत्तर जेद पंदर ठे. मनोयोगना चार जेद, वचनयोगना चार जेद तथा काययोगना सात जेद सर्व मली पंदर जेद ठे.

मननाम अंतःकरणनुं ठे, तेना चार प्रकार ठे. १ सत्य मनोयोग, २ असत्य मनोयोग, ३ मिश्रमनोयोग, ४ व्यवहार मनोयोग, मन शुं वस्तु ठे ? कायाना व्यापारथी पुज्जल ग्रहण करीने, ते पुज्जलोने चिंतन धर्मरूपें काढवां ते ड्रव्यमन ठे; अने ते पुज्जलोना संयोगथी जे ज्ञान उत्पन्न थाय तेनुं नाम चावमन ठे. ते ज्ञानथी व्यवहार सिद्ध थाय ठे, अने ते व्यवहारथी मन पण सत्यादि व्यपदेशने प्राप्त थाय ठे. वली उपचारें ड्रव्यमन पण ज्ञायक ठे. वली मन शब्दथी मनोयोग, तेनो इंद्रियावरण कर्मना द्योपशमथी उत्पन्न थयुं जे मनोज्ञान, तेनाथी परिणत आत्माने वलाधान करवावाली मनोवर्गणाना संबंधथी उत्पन्न थयुं जे वीर्य विशेष, ते अर्हीया मन जाणवुं. तेवीज रीतें वचनयोग, ते वचननी वर्गणा अर्थात् परमाणुलनो समूह, ते वचन वर्गणाथी उत्पन्न थयुं जे सामर्थ्य-विशेष, आत्मानी परिणति, ते वचनयोग जाणवां. ते मनोयोग तथा वचनयोगना मली आठ प्रकार ठे.

प्रथम मनमां जे सत्य व्यवहारनुं चिंतवन करवुं, ते सत्यमन, जेमके जीवादि पदार्थ ड्रव्यरूपें नित्य, पर्यायरूपें अनित्य, एम अनेकांतपणें चिंतववुं, ते सत्यमनोयोग. तेनाथी विपरीतपणे जीवादि पदार्थोनुं स्वरूप वचन निरपेक्षपणे चिंतववुं, तेमज धर्म नथी, पुण्यपाप नथी स्वर्ग नरक नथी इत्यादि चिंतवन करवुं ते असत्य मनोयोग. तेवीजरीतें सत्यचिंतवन वचनरूपें बोलवुं ते सत्यवचनयोग, अने असत्यचिंतवन वचनरूपें बोलवुं ते असत्यवचनयोग. तथा कांश्क असत्य, जेम के था गाममां थाजे दश जन्म्या, तथा दश मुथ्या, तेमां कांश्क साचुं अने कांश्क जुहुं चिंतवन करवुं तथा गोपगने देखीने चिंतववुं के था सपे गायो ठे, पठी तेमां चलद पण होय ते मिश्रमनोयोग, अने ते प्रमाणे

बोलवुं ते मिश्र वचन योग. तथा आमंत्रणा, याचना, जेम के हरिचंद्र अहिंयां आवे, दामोदर आ वस्तु आपे, इत्यादि जे चिंतवुं, तेथी जि-नवचन विरोधाय नहि, तेथी असत्यपण नहि, अने आराधक पण नहि, तेथी सत्यपण नहि. जेथी ए प्रमाणे चिंतवन करवुं ते व्यवहार मनोयोग अर्थात् असत्य मृषा मनोयोग, अने तेज प्रमाणें बोलवुं. ते व्यवहार वचनयोग. ए प्रमाणे मनोयोग तथा वचनयोगना आठ भेद थया.

हवे सत्यवचनना दशप्रकार ठे तेनुं स्वरूप कहिएठिए. १ जनपद सत्य, जे देशमां जे वस्तुने जे नामथी बोलता होय, ते देशमां ते नाम सत्य ठे, जेम के कोकणदेशमां पाणीने पिठ कहैठे, कोइ देशमां मोटा पुरुषने वेढो कहै ठे, बखी वेढाने काको कहै ठे, पिताने चाइ कहैठे, सासुने आइ कहैठे, इत्यादि. ते जनपद सत्य ठे. २ सम्मत सत्य, जेम के पंकथी (कादवथी) मेरुक, शेवाल, कमलादि उत्पन्न थाय ठे, तोपण पंकज शब्दें कमलज विद्वान् पुरुषोए सम्मत करेल ठे, परंतु मेडक, शेवाल तेउं मानता नथी. ३ स्थापना सत्य, जे प्रतिमा जेनी होय, तेने तेना नामथी बोलवी ते स्थापना सत्य, जेम के महावीर, पार्श्वनाथजी आदि अर्हतनी प्रतिमा होय, ते प्रतिमाने, महावीर, पार्श्वनाथजी कहै तो ते सत्य ठे, परंतु तेने पठर कहैनार मृषावादी ठे; जेम के शाहीथी कागल उपर अक्षरोनी स्थापना करवाथी. तेउंने रुग्, यजु, साम, अथर्व वेद कहैवाय ठे, तेमज आचारांगादि अंग कहैवाय ठे, तथा काष्ठना आकारविशेषने कमाड कहैवाय ठे, इंठ, चुना, पठरना आकार विशेषने स्थंज कहैवाय ठे; पुस्तकमां त्रिकोणादि चित्र काढ्यां होय, तेने आर्यावर्त, जरतखंड, हिंदुस्थान, अमेरिका इत्यादि कहैवाय ठे, तथा श्याहीथी कागलपर आकृति करवाथी ककार, खकार कहैवाय ठे. ए प्रमाणे बोलवुं ते सत्य ठे. ए प्रमाणेनी स्थापनाउं जोवाथी मनुष्यनी कार्य सिद्धि अवश्य थाय ठे, ते सर्वने अनुभव थयेल ठे. ए प्रमाणे सिद्धि थती न होय तो मनुष्यो स्थापना शावास्ते करे? ते कारणथी महावीर तथा पार्श्वनाथजीनी प्रतिमाने श्रीमहावीर तथा श्रीपार्श्वनाथजी कहैवा ते स्थापना सत्य ठे, तेमां विशेष ए ठे के, जे देव शुरू ठे, तेनी स्थापना पण शुरू ठे, अने जे देव शुरू नथी, तेनी स्थापना पण शुरू नथी;

परंतु ते स्थापनाने, ते देव कहेवा ते वात सत्य ठे. ४ नाम सत्य, कोइ पुरुषे पोताना पुत्रनुं नाम कुलवर्द्धन राखेलुं ठे, अने जे दिवसथी ते पुत्रनो जन्म थयेल ठे, ते दिवसथी तेना कुलनो नाश थतो जाय ठे, तो पण ते पुत्रने कुलवर्द्धन नामथी बोलावे तो ते सत्य ठे. ५ रूप सत्य. कदापि गुणोथी ब्रष्ट होय तो पण साधुना वेपवाळाने साधु कहे तो ते सत्य ठे. ६ प्रतीत अर्थात् अपेक्षा सत्य. जेम के मध्यमानी अपेक्षाए अनामिका आंगलीने नानी कहेवी ते. ७ व्यवहार सत्य. जेम के पर्वत वले ठे, रस्तो चाले ठे, इत्यादि. ८ जावसत्य. जेम के तोतामां पांच रंग ठे, तोपण तोताने लीला रंगवालो कहेवो इत्यादि. ९ योगसत्य. जेम के दंडना योगथी दंडी कहेवो, इत्यादि. १० उपमा सत्य. जेम के मुख, चंद्र समान ठे, इत्यादि. दशप्रकारनां सत्य ठे.

हवे दशप्रकारनां जूठ कहियेंठियें. १ क्रोधमिश्रित अर्थात् क्रोधने वश थइ वचन बोलवां ते असत्य, २ मानना उदयथी बोलवां, ३ मायाना उदयथी बोलवां, ४ लोचना उदयथी बोलवां, ५ रागना बंधनथी बोलवां, ६ छेपना उदयथी बोलवां, ७ हास्यने वश थइ बोलवां, ८ जयने वश थइ बोलवां, ९ विकथा करवी, १० जे बोलवाथी जीवनी हिंसा थाय. आ दश प्रकारनां असत्य वचन ठे.

हवे दश प्रकारनां मिश्रवचन कहियेंठियें, १ उत्पन्न मिश्रित. जेम के खबर विना कहेवुं के आजे आ गाममां दशवालक जन्म्या ठे, इत्यादि. २ विगतमिश्रित, जेम के खबर विना कहेवुं के आजे आ गाममां दशमाणस मुआं ठे, इत्यादि. ३ उत्पन्न विगत मिश्रित. जेम के खबर विना कहेवुं के आजे आ गाममां दश जन्म्या ठे, अने दशज मुआं ठे, ४ जीवमिश्रित. ते जीव अजीवना राशिने कहेवुं के आ जीव ठे. ५ अजीव मिश्रित. ते अन्नना राशिने कहेवुं के आ अजीव ठे. ६ जीवाजीवमिश्रित ते जीव अजीव वने माटे मिश्रजाया बोलवी ते. ७ अनंतमिश्रित. ते मूल आदि अवयवोमां केटलीएक जगाए अनंत जीव ठे, अने कोइजगाए प्रत्येक जीव ठे, तेउने प्रत्येक वनस्पतिकाय कहेवुं ते, ८ प्रत्येक मिश्रित. ते प्रत्येकजीवोने अनंतकाय कहेवां ते. ९ अद्भामिश्रित. ते वे घडी तडको थया ठतां कहे के दिवस उग्यो ठे. १० अद्भ-

मिश्रित. एक घडीरात्रि गइ होय तथापि कहेके दिवसनो उदय ठे. आ दश प्रकारनां मिश्रवचनो ठे.

हवे व्यवहार वचनना वार जेद कहियेंठियें. १ आमंत्रण करवुं के हे जगवन् ! २ आज्ञापना, ते आ काम करो, आ वस्तु लावो, ३ याचना—आ वस्तु आपशो, ४ पृथना—आ गाम जवानो रस्तो कयो ठे ? ५ प्रज्ञापना—धर्मस्वरूप आ प्रमाणे ठे. ६ प्रत्याख्यानी—आ काम अमने करवुं कल्पे नहि. ७ इष्टानुलोम—यथा सुखं. ८ अनजिगृहीत—ते वातनी मने खबर नहि. ९ अजिगृहीत—मने ते वातनी खबर ठे. १० संशय—तेनुं स्वरूप एम केम होय ? ११ स्पष्ट प्रगट अर्थ कहेवा. १२ अस्पष्ट अप्रगट अर्थ कहेवा.

हवे काययोगना सातजेदनुं स्वरूप कहियेठियें—काययोग अर्थात् आत्माना निवासचूत पुज्जल उव्य घटित, जेम वृद्ध तथा दुर्बलने अवष्टंज चूत लाकडी ठे, तेम विषम काममां जेना योगथी जीवना वीर्यनुं परिणाम सामर्थ्य; जेम अग्निना संयोगथी घडानी रक्तता थाय ठे, तेवीजरीतें आत्माने कायाना करण संबंघथी वीर्यपरिणाम ठे. आ काययोगना सात जेद. १ औदारिक काययोग, २ औदारिक मिश्र काययोग, ३ वैक्रिय काययोग, ४ वैक्रिय मिश्र काययोग, ५ आहारक काययोग, ६ आहारक मिश्र काययोग, ७ कार्मण काययोग. प्रथमना वे काययोग, मनुष्य अने तिर्यचमां होय ठे. त्रीजो चोथो काययोग स्वर्गवासी देवताउमां होय ठे. पांचमो, ठठो काययोग चौदपूर्वधर साधुउमां होय ठे. सातमो काययोग, जीव ज्यारे काल करी परचव गमन करे ठे, त्यारे रस्तामां तेनी साथे होय ठे; तेमज समुद्घात अवस्थामां केवलीने होय ठे; आहार पाचन करवामां समर्थ एवुं तैजस शरीर, कार्मण योगनी अंतर्चूत होवथी तेनुं पृथक् ग्रहण करवामां आव्युं नथी. ए प्रमाणे सात जेद काययोगना वताव्या. सर्व मली बंधतत्वना उत्तरजेद सत्तावन थया.

हवे मोक्ष तत्त्वनुं स्वरूप कहियेंठियें. प्रथम मोक्षनी व्याख्या कहियेंठियें. “ जीवस्य कृत्स्नकर्मक्षयेण यत्स्वरूपावस्थानं तन्मोक्ष उच्यते ” ॥ ज्ञावार्थः—जीवनां ज्ञानावरणादि सर्वकर्मनो क्षय थवाथी तेनुं जे स्वरूप अवस्थान ते मोक्ष ठे. ते मोक्ष, जीवनो धर्म ठे. अने धर्म, धर्मी क-

यंचित् अज्ञेद होवाथी, धर्मी जे सिद्ध, तेनी जे प्ररूपणा ते पण मोक्ष-
प्ररूपणा ठे; कारण के मोक्ष जे ठे ते जीवपर्याय ठे, ते जीवपर्याय कयंचित्
सिद्ध जीवथी अजिन्न ठे; जीवना पर्याय सर्वथा जीवथी जिन्न थइ श-
कता नथी. यदुक्तं ॥ द्रव्यं पर्यायवियुतं, पर्यायाद्द्रव्यवर्जिताः ॥ क कदा
केन किंरूपा, दृष्टा मानेन केन वेत्ति ॥ १ ॥ जावार्थ—द्रव्य पर्यायोथी र-
हित, अने पर्यायो द्रव्यथी रहित एम कोइ जगाए, कोइ अवसरें, कोइ
प्रमाणे, कोइरूपें कोइपुरुपें देखेल ठे ?

ह्वे सिद्धोनुं स्वरूप नवप्रकारें, सूत्रकार तेमज जाण्यकार कहे ठे. १
सत्पदप्ररूपणा, २ द्रव्यप्रमाण, ३ क्षेत्र, ४ स्पर्शना, ५ काल, ६ अंतर, ७
जाग, ८ जाव, ९ अल्पवहुत्व आ नव द्वार ठे. १ सत्पदप्ररूपणा द्वार. मो-
क्षपद सत्पद ठे, विद्यमान पद ठे, ठतुं पद ठे, शा कारणथी ? एक पद ठे
तेथी, कारण के जगत्मां जेटला एकपदवाची घटपटादि पदार्थ ठे, ते
सर्व अवश्य ठता ठे, अने जे जे वे वे पदवाची पदार्थ ठे, ते ते पदार्थ
ठता पण ठे, अने अठता पण ठे. जेम अश्वशृंग, वंध्यापुत्र, आकाशकु-
सुम. आ वे पदनां नाम ठे ते अठतां ठे, तेमज गोशृंग, राजपुत्र, केतकी
कुसुम, आ वे पदनां नाम ठतां ठे. ते न्यायें मोक्षपद एकपदवाची हो-
वाथी विद्यमान पद ठे. ते मोक्षपद याने सिद्धपद गति आदि चौद
पदोमां जोडवां. जेम के १ गति पांच ठे, १ नरकगति, २ तिर्यग्गति, ३
मनुष्यगति, ४ देवगति, ५ सिद्धगति, तेमां सिद्धगति शिवाय वाकीनी
चारगतिमां सिद्ध नथी. यद्यपि १ कर्म सिद्ध, २ शिल्पसिद्ध, ३ विद्या-
सिद्ध, ४ मंत्रसिद्ध, ५ योगसिद्ध, ६ आगमसिद्ध, ७ अर्थसिद्ध, ८ या-
त्रासिद्ध, ९ अजिप्रायसिद्ध, १० तपःसिद्ध, ११ कर्मद्वयसिद्ध. एम अ-
नेक प्रकारना सिद्ध, आवश्यक निर्युक्तिकारें कथन करेल ठे, तो पण अ-
र्हीयांतो जे कर्मद्वयथी सिद्ध थया ठे तेनोज अधिकार ठे. तेउनेज मो-
क्ष पर्याय ठे, वीजाउने नहि. २ इंद्रियो पांच ठे, एकेंद्रिय, द्वींद्रिय, त्रीं-
द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, आ पांचे प्रकारमां सिद्ध नथी; कारण के
शरीरनो सर्वथा नाश थाय ठे त्यारे सिद्ध थवाय ठे, ज्यां शरीर ठे, त्यां
इंद्रियो ठे, सिद्धने शरीर नथी तेथी ते अतींद्रिय ठे. ३ उकाय. १ पृथ्वी-
काय, २ अपूकाय, ३ तेउकाय, ४ वाउकाय, ५ वनस्पतिकाय, ६ व्रस-

काय, आ ठए कायमां सिद्धपणुं नथी, कारण के सिद्ध कायरहित ठे अर्थात् अशरीरी ठे. ४ योग. त्रणप्रकारें योग ठे, मन, वचन, काययोग; तेमां केवल काययोग एकेंद्रिय जीवने ठे, अने द्वीन्द्रियादियी असंझी पंचेंद्रिय पर्यंत जीवने, काययोग तथा वचनयोग ठे, अने संझी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवने त्रणे योग ठे, आ त्रणे योगमां सिद्धपणुं नथी, अने सिद्ध तो मन वचन, काययोगनो अज्ञाव थाय ठे त्यारे थवाय ठे तैथी सिद्ध अयोगी ठे. ५ वेद. त्रणप्रकारें ठे, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, आ त्रणे वेदमां सिद्धपणांनो अज्ञाव ठे, त्रणे वेदनो क्षय करवामां आवे त्यारे सिद्धपणुं प्राप्त थाय ठे, तैथी सिद्ध अवेदी ठे. ६ कपाय. चार प्रकारें ठे. क्रोध, मान, माया, लोभ. आ चारेनो अज्ञाव थाय त्यारे सिद्धपणुं प्राप्त थाय ठे तैथी सिद्ध अकपायी ठे. ७ ज्ञान. ते मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अविज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, केवलज्ञान, आ पांच प्रकारें ज्ञान ठे, अने मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, विचंगज्ञान, आ त्रण अज्ञान ठे, तेमां प्रथमना चार ज्ञानमां अने त्रण अज्ञानमां सिद्धपणुं नथी, एक केवल ज्ञानमां सिद्धपणुं ठे, ते केवलज्ञान अहियां सिद्धपणानुं जाणवुं, परंतु सयोगी अवस्थानुं नहि. ८ चारित्र. सामायिक, ठेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संपराय, यथाख्यात, आ पांच चारित्र, तेमज तेना प्रतिपद्दी देशसंयम तथा असंयम; ते पांचे चारित्रमां तेमज वंने विपद्दमां सिद्धपणुं नथी, कारण के ते सर्वे शरीर विद्यमान होय ठे, त्यारे होय ठे, अने. सिद्ध तो शरीररहित ठे. ९ दर्शन, चक्षु, अचक्षु, अवधि अने केवल, आ चार दर्शनोमां प्रथमना त्रणमां सिद्धपणुं नथी, परंतु केवल दर्शनमां केवलज्ञाननी पेठे सिद्धपणुं ठे. १० देख्या. कृष्ण, नील कापोत, तेजु, पद्म, शुक्ल, आ ठए देख्यामां सिद्धपणुं नथी, कारण के देख्या जवस्थजीवनो पर्याय ठे, अने सिद्ध अलेशी ठे. ११ जव्य, अजव्य, आ वंने अवस्थामां सिद्धपणुं नथी, कारण के जेने सिद्धपदनी प्राप्ति थशे ते जव्यजीव कहेवाय ठे, अने सिद्धोने नवी पदवी तो कांइ प्राप्त करवानी नथी, तैथी जव्यपणुं सिद्धमां नथी. वली जेने सिद्ध थवानी योग्यता को-इपणकालमां न होय ते अजव्य कहेवाय ठे, सिद्धना जीव एवा नथी, कारण के अतीतकालमां तेउमां एवी योग्यता हती, तैथी सिद्ध अजव्य

पण नहीं. सिद्ध, नो ज्ञव्य, नो अज्ञव्य ठे, एम आसवचन ठे. १२ सम्यक्त्व-द्वायिक, द्वायोपशम, उपशम, साखादन अने वेदक, आ पांच प्रकार सम्यक्त्वना ठे. तेउना विपद्दी, मिथ्यात्व अने मिश्र ठे, तेउ-मांथी द्वायिक वर्जने चार सम्यक्त्वमां तेमज मिथ्यात्व अने मिश्रमां सिद्धपणुं नहीं, कारण के ते सर्वे द्वायोपशमिकादि जाववर्ती ठे; अने द्वायिक सम्यक्त्वमां सिद्धपणुं ठे; परंतु द्वायिक सम्यक्त्व पण वे त-रेहनुं ठे, एकशुद्ध, वीजुं अशुद्ध, तेमां शुद्ध, अपाय, सत् ड्रव्य रहित, जवस्थ केवलीउने ठे, अने सिद्ध परमात्मा शुद्ध स्वजावरूप सम्यक्दृष्टि ठे, सादि अपर्यवसान ठे, अने अशुद्ध अपाय सहचारी श्रेणिकादिनुं ते द्वायिक, सादि सपर्यवसान ठे; तेमां अशुद्ध द्वायिकमां सिद्धपणुं नहीं, कारण के तेने अपाय सहचारी ठे, अने शुद्ध द्वायिकमां सिद्धपणुं ठे; कारण के सिद्धपणामां द्वायिक सम्यक्त्व विद्यमान ठे. अपाय नाम म-तिज्ञानांशनुं ठे, अने सत् ड्रव्य, शुद्ध सम्यक्त्वना दक्षियानुं नाम ठे, ए वनेनो अज्ञाव थाय ठे, त्तारे शुद्ध द्वायिक सम्यक्त्व थाय ठे. १३ सं-ज्ञा-त्रण प्रकारे ठे. १ हेतुवादोपदेशिनी, २ दृष्टिवादोपदेशिनी, ३ दी-र्घकालिकी. आ त्रणमां दीर्घकालिकी संज्ञाथी जे संज्ञी ठे, तेज व्यव-हारमां प्रायः ग्रहण कराय ठे. जेने संज्ञा होय ते संज्ञी, जेम के आ में कर्तुं ठे, आ करुं तुं, आ करीश, एम त्रिकाल विषयवाला, मनोविज्ञा-नवाला जे जीव ठे, तेउज संज्ञी कहेवाय ठे. तेउनाथी जेउ विपरीत ठे तेउ असंज्ञी कहेवाय ठे, आ संज्ञी, असंज्ञी वनेमां सिद्ध पद नहीं, कारण के सिद्ध तो नो संज्ञी, नो असंज्ञी ठे. १४ आहार-त्रण प्रकारना ठे, १ उज आहार, २ लोच आहार. ३ प्रक्षेप आहार, आ त्रणे आहारमां सिद्धपणुं नहीं, कारण के सिद्ध अणाहारी ठे. इति.

२ ड्रव्यप्रमाण द्वार, गणतरीमां सिद्धना जीव अनंत ठे. ३ क्षेत्रद्वार-ते आकाशना एकदेशमां सर्व सिद्धोनुं स्थान ठे, ते आकाश देशनुं प्र-माण शुं ठे ? धर्मास्तिकायादि पांच ड्रव्य ज्यांसुधि ठे, त्यां सुधी लोकठे-एवो जे लोक तेना आकाशना असंख्यमा जाग जेवा जागमां सिद्ध रहे-ठे. ४ स्पर्शना द्वार-जेटला आकाश जागमां सिद्ध रहे ठे, तेनाथी स्पर्-शना जाग किंचित् अधिक ठे. ५ कालद्वार-एक सिद्ध आथी सादि

अनंतकाल, अने सर्वसिद्ध आश्री अनादि अनंतकाल जाणवो. ६ अंतर-
रक्षार-सिद्धोनी वचमां अंतर नथी, सर्व सिद्धो मली एक रूपवत् रहे
ठे, ७ ज्ञागक्षार-सर्वसिद्ध, सर्व जीवराशिने अनंतमे जागे ठे. ८ ज्ञाव-
क्षार-सिद्धोनी द्वायिक पारिणामिक ज्ञाव ठे, वाकीना ज्ञाव नथी. ए
अद्वयवहुत्वक्षार-ते सर्वथी थोडा अंतर सिद्ध ठे. जेने सिद्ध थयां,
एक समय थयो होय ते अंतर सिद्ध कहेवाय ठे. परंपरसिद्ध अनंत
गणा थयाठे. सिद्ध होवामां उत्कृष्ट अंतरकाल ठ मास ठे. ए प्रमाणे मो-
क्षतत्वनुं स्वरूप संक्षेप मात्र कळुं. कांश्क विशेष स्वरूप हवे पठीना प-
रिच्छेदमां चौद गुणस्थानकना वर्णनमां वताववामां आवशे. विस्तारथी
जाणवानी इष्टावालाए, नंदीसूत्र, प्रज्ञापनासूत्र, सिद्धप्राज्ञतसूत्र, सिद्ध
पंचाशिका, देवाचार्यकृत नवतत्वप्रकरणवृत्ति, ग्रंथो जोवा. इति श्रीतपा-
गर्ह्यमुनिश्री बुद्धिविजयशिष्य मुन्यानंदविजयात्मारामविरचितजैनत-
त्वादशगुंजरज्ञापांतरे नवतत्वस्वरूपनिर्णयनामा पंचमः परिच्छेदः संपूर्णः ॥

॥ अथ षष्ठपरिच्छेदप्रारंभः ॥

आ परिच्छेदमां चौद गुणस्थानकोनुं स्वरूप किंचित् मात्र लखियें ठियें.
जैनमतमां ज्ञव्य जीवोने शिवमंदिर चडवा वास्ते गुणोनी श्रेणी, तेज
निसरणीठे. ते गुणश्रेणीरूप निसरणीमां पगधरणरूप, गुणोथी गुणांतर
प्राप्तिरूप, जे स्थान अर्थात् जूमिका ठे, ते चौद ठे. तेनां नाम. १ मि-
थ्यात्व गुणस्थानक, २ सास्त्रादन गुणस्थानक, ३ मिश्र गुणस्थानक, ४ अ-
विरति सम्यक्दृष्टि गुणस्थानक, ५ देशविरति गुणस्थानक, ६ प्रमत्तसं-
यत गुणस्थानक, ७ अप्रमत्त वादरगुणस्थानक, ८ अपूर्वकरण गुणस्था-
नक, ९ अनिवृत्तवादरगुणस्थानक, १० सूक्ष्म संपराय गुणस्थानक, ११ उ-
पशांतमोह गुणस्थानक, १२ क्षीणमोह गुणस्थानक, १३ सयोगिकेवल्लि
गुणस्थानक, १४ अयोगि केवल्लि गुणस्थानक.

प्रथम मिथ्यात्वगुणस्थानकनुं स्वरूप लखियेंठिये. तेमां पण प्रथम
व्यक्त मिथ्यात्वनुं स्वरूप आ प्रमाणे ठे. जे स्पष्ट चैतन्य, संज्ञी पंचे-
न्द्रिय जीवनी अदेव, अगुरु, अधर्म, तेउमां अनुक्रमें, देव गुरु, धर्मनी
बुद्धि, ते व्यक्तमिथ्यात्व ठे. उपलक्षणथी, जीवादि नव पदार्थोमां जी-
वनी श्रद्धानो अज्ञाव, जिनोक्त तत्वथी विपरीत प्ररूपणा, जिनोक्त तत्व-

स्वरूपमां संशय तथा जिनोक्ततत्वमां दूषणोन्नो आरोप इत्यादि, व्यक्त मिथ्यात्व ठे. तथा आजिग्रहिादि जे पांच मिथ्यात्व ठे, तेमांथी अनाजोगिक मिथ्यात्व अव्यक्त मिथ्यात्व ठे, अने वाकीनां चार व्यक्त मिथ्यात्व ठे; तथा “अधम्मे धम्मसन्ना इत्यादि” दश प्रकारनां जे मिथ्यात्व ठे, ते सर्व व्यक्त मिथ्यात्व ठे. वीजुं अनादि कालथी मोहनीय प्रकृतिरूप मिथ्यात्व, आत्माना सत् दर्शनरूप गुणनुं आढादकं, जीवनी साथे निरंतर अविनाजावि ते अव्यक्त मिथ्यात्व ठे.

हवे मिथ्यात्व गुणस्थानक शा कारणथी कहेवामां आवे ठे, ते लखियेठियें. अनादि अव्यक्त मिथ्यात्व, अव्यवहार राशिवर्ती जीवमां निरंतर होय ठे, ते जीवने व्यक्त मिथ्यात्वनी बुद्धिनी जे प्राप्ति तेज मिथ्यात्व गुणस्थानक ठे.

प्रश्नः—मिथ्यात्व गुणस्थानकमां सर्व जीवोनां स्थान मले ठे, एम जैनशास्त्रनुं कथनुं ठे, ठतांपि व्यक्त मिथ्यात्वनी बुद्धिने गुणस्थानरूपता कहो ठो तेनुं शुं कारण ठे ?

उत्तरः—सर्वजाव सर्व जीवोए पूर्वं अनंतवार प्राप्त करेला ठे, ते वचन प्रमाणथी जे प्राप्तव्यक्तमिथ्यात्वबुद्धिवाला जीवो व्यवहार राशिवर्ती ठे तेवोज प्रथम गुणस्थानकवाला कहेवाय ठे. परंतु अव्यवहार राशिवर्ति जीव तेवा नथी, कारण के तेउं अव्यक्तमिथ्यात्ववाला ठे, ते कारणथी दोष नथी.

हवे मिथ्यात्वरूप दूषणनुं स्वरूप कहियेंहियें. जेम कोइ मनुष्य मदिराना उन्मादथी नष्टचैतन्य थवाथी हित, अहित कांइ पण जाणतो नथी, तेवीज रीतें मिथ्यात्ववासित जीव सम्यक् धर्म अधर्म जाणतो नथी ॥ यदाह ॥ मिथ्यात्वेनालीडचित्तानितांतं, तत्त्वातत्वं जानते नैव जीवाः ॥ किं जात्यंधाः कुत्रचिद्भस्तुजाते, रम्यारम्यं व्यक्तमासादयेयुः ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—जेम जन्मांध पुरुषो वस्तुर्जनी जाति, तेमज रम्य अरम्य स्वरूपने जाणी शकतो नथी, तेमज मिथ्यात्वथी जे जीवोनां अंतःकरण वासित ठे, ते तत्त्वात्वना स्वरूपने विलकुल जाणि शकता नथी.

हवे मिथ्यात्वनी स्थिति कहियेठियें. अज्ञव्य जीवोनी अपेक्षाए, तेमज सामान्य प्रकारें अव्यक्त मिथ्यात्वनी स्थिति अनादि अनंत ठे; ज.

व्यजीवोनी अपेक्षाए तेज स्थिति अनादि सांत ठे. आ स्थिति सामान्य प्रकारें वतावी ठे, हवे जो मिथ्यात्व गुणस्थानकनी स्थिति विचारियें तो जव्यजीवोनी अपेक्षाए अनादि सांत ठे, तेमज सादि सांत पण ठे, अने अजव्य जीवोनी अपेक्षाए अनादि अनंत ठे. ज्यारे मिथ्यात्व गुणस्थानकमां जीव वत्तें ठे, त्यारे एकसो वीश बंध प्रायोग्य कर्म प्रकृतियोमांथी १ तीर्थकरनाम कर्मनी प्रकृति, २ आहारक शरीर, ३ आहारक अंगोपांग, आ त्रण प्रकृतिनो बंध करतो नथी. वाकीनी एकसो सत्तर प्रकृतिनो बंध करे ठे; तथा एकसो बावीश कर्मप्रकृति जे उदय प्रायोग्य ठे, तेमांथी १ मिश्र मोहनीय, २ सम्यक्त्व मोहनीय, ३ आहारक शरीर, ४ आहारक उपांग, ५ तीर्थकरनाम, आ पांच प्रकृति शिवाय, वाकीनी एकसो सत्तर प्रकृतिनो तेने उदय ठे, अने एकसो अडतालीश कर्म प्रकृतिनी सत्ता ठे.

हवे साखादन गुणस्थानकनुं स्वरूप लखिए ठीयें. तेमां प्रथम आ गुणस्थानकनुं कारणभूत उपशम सम्यक्त्व ठे, तेनुं स्वरूप कहीए ठियें. जीवमां अनादिकालथी रहेला मिथ्यात्व कर्मनी उपशांति थवाथी, ग्रंथि जेदकरणकाल पठी औपशमिक सम्यक्त्व, जीवने प्राप्त थाय ठे. आ सामान्यस्वरूप कथन कर्युं. विशेषस्वरूप आ प्रमाणे ठे. औपशमिक सम्यक्त्व वे प्रकारनुं ठे. १ अंतरकरण औपशमिक सम्यक्त्व, २ स्वश्रेणीगत अर्थात् उपशमश्रेणीगत औपशमिक सम्यक्त्व. हवे अपूर्वकरण करीने जेणें ग्रंथिजेद कर्यो ठे, ते मिथ्यात्व कर्म पुजलनी राशिना त्रण पुंज करे ठे, ते त्रण पुंज आ प्रमाणे ठे. १ शुद्ध, २ अर्द्धशुद्ध, ३ अशुद्ध, तेमां शुद्ध पुंज सम्यक्त्व मोहनीय ठे, अर्द्धशुद्ध पुंज मिश्रमोहनीय ठे, अने अशुद्धपुंज मिथ्यात्वमोहनीय ठे. १ जेम मदन कोडवा, जे खावाथी मीणो चडे, तेने खांडी, तुस उतारी, ठाण पाणी दइ, शुद्ध करतां, ते कोडव खाधाथी, जेम खानारने विशेष मादकता न थाय, तेम जीवने विकल करे, जेथी संदेह, विपर्यय अने मूढताथी जीवतत्वनी परीक्षा करी शके नहि, एवां जे मिथ्यात्वनां दल, तेने यथाप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अने अनिवृत्तिकरण ए त्रणकरणना प्रयोगें शोधतां ते दलनो मात्र एकठाणीं रसरहे, जेथी जीवतत्वनी परीक्षा विपे मुंजाय नहि, परंतु आत्मस्व-

जावरूप औपशमिक तेमज द्वायिकं सम्यक्त्व, तेने उदयें न होय, अने सूक्ष्मपदार्थनेविषे देश शंकायें मेल उपजावे तेथी ते शुद्धदल (पुंज) नुं नाम सम्यक्त्व मोहनीय ठे. १ जे मिथ्यात्वदल अर्द्धखांड्या मदनको-
 ड्रवानी पेठे अर्द्धविशुद्ध जे दल, जेथी वेठाणीउं रसमात्र रहे, अने तेम थवाथी जीवने तत्त्वरुचि न होय, अने अतत्त्वरुचि पण न होय, एवी मिश्ररुचि जे कर्मदल उपजावे ते मिश्र मोहनीय कर्म ठे. ३ अशुद्धपुंज, ते जेवो वांध्यो हतो तेवोज चोठाणीउं, त्रण ठाणीउं तेमज वेठाणीउंरस जे अनुपहत सर्वघाति रसयुक्त कर्मदल, तुपसहित अणखांड्या मदन कोड्रवानी पेठे उन्मादजन्य होवाथी, तत्त्वसद्वहणामां विपर्यास पणुं करे तेथी ते दल (पुंज) नुं नाम मिथ्यात्व मोहनीय ठे. आ त्रण पुंज जे जीव करे नहि, परंतु उदय आवेला मिथ्यात्वने जे दाय करे ठे, अने जे उदय नथी आव्या तेने उपशमावे ठे, एवा अंतर्मुहूर्त्त काल सुधी सर्वथा मिथ्यात्वना अवेदक जीवने अंतरकरणमां औपशमिक सम्य-
 क्त्व थाय ठे, आ प्रथमज्ञेद ठे. तथा उपशम श्रेणि प्रतिपन्नने मिथ्यात्व अनंतानुबंधीनो उपशम यतां स्वश्रेणिगत औपशमिक सम्यक्त्व थाय ठे, ते वीजो जेद. आ वंने प्रकारनुं उपशम सम्यक्त्व, सास्वादननी उत्पत्तिमां मूल कारण ठे.

हवे सास्वादननुं स्वरूप लखिये ठियें. औपशमिक सम्यक्त्ववालो जीव, शांत थयेला अनंतानुबंधी चारे कपायोमांथी क्रोधादि एक पण उदय पाम्या थकां औपशमिकरूप गिरिशिखरथी पडतां; ज्यां सुधी मिथ्यात्वरूप चूतलने प्राप्त थतो नथी, त्यां सुधी, एक समयथी लझे ठ आवलिका सुधी सास्वादन गुणस्थानकवर्ती होय ठे.

प्रश्नः—व्यक्त बुद्धि प्राप्ति रूप प्रथम, तेमज मिश्रादि गुणस्थानोना उत्तरोत्तर चढण रूपोने तो गुणस्थानकपणुं योग्य ठे, परंतु सम्यक्त्वथी पडनार सास्वादनने गुणस्थानपणानो केम संभव होय ?

उत्तरः—मिथ्यात्व गुणस्थानकनी अपेक्षाए सास्वादन पण उर्ध्व आ-
 रोहण रूप होवाथी गुणस्थान ठे. वही मिथ्यात्व गुण अज्ञव्य जीवोने पण थाय ठे, परंतु सास्वादन तो ज्ञव्य जीवोनेज थइ शके ठे, ज्ञव्य जी-
 वोमां पण जेउनेज संसार, अर्ध पुज्जल परावर्त्तन, जेटलो वाकी रह्यो

होय, तेउनेज थाय ठे, ते कारणथी सास्वादनने पण मिथ्यात्व गुणस्या-
नकथी आरौहरूप गुणस्थानकत्व थइ शके ठे. सास्वादन गुणमां
वर्ततो जीव १ मिथ्यात्व, ४ नरकत्रिक, ७ एकेंद्रियादि जातिचार, ९ आ-
तपनाम, १० स्थावर नाम, ११ सूक्ष्म नाम, १२ अपर्याप्त नाम, १३ सा-
धारणनाम, १४ हुंडक संस्थान, १५ सेवार्त्तसंहनन, १६ नपुंसक वेद. आ
सोल प्रकृतिनो बंधव्यवच्छेद करे ठे, वाकीनी एकसो एक प्रकृतिनो बंध
करे ठे, तथा ३ सूक्ष्मत्रिक, ४ आतप, ५ मिथ्यात्वोदय, ६ नरकानुपूर्वी,
आ ठ प्रकृतिनो उदय व्यवच्छेद होवाथी १११ प्रकृति वेदे ठे, तथा ती-
र्थकर नामनी सत्ता विना १४७ प्रकृतिनी सत्ता ठे.

ह्वे त्रीजा मिश्रगुणस्थानकनुं स्वरूप लखियें ठियें. दर्शनमोहनीय प्रकृ-
तिरूप मिश्रमोहकर्मना उदयथी जीवविषये जे समकाल, समरूपें, सम्यक्त्व
मिथ्यात्वना मलवाथी अंतर्मुहूर्तसुधी मिश्रित जाव ते मिश्रगुणस्थानक
कहेवाय ठे. जे जीव सम्यक्त्व मिथ्यात्व वंनेना एकत्र मलवाथी मिश्र-
जावमां वत्ते ठे, ते मिश्रगुणस्थानस्थ कहेवाय ठे; कारण के मिश्रपणुं जे
ठे ते वंनेना मेलापनुं एक जात्यंतररूप ठे ते वंने जावोनुं जात्यंतर एक
रूप होवामां दृष्टांत आ प्रमाणे ठे. जेम घोडी तथा गधेडाना संयोगथी
जात्यंतर खच्चर उत्पन्न थाय ठे, तथा जेम साकर अने दर्हीना मेलापथी
जात्यंतर शिखंड उत्पन्न थाय ठे, तेम जीवने, सर्वइ तेमज असर्वइ,
वंनेना कहेला धर्मोमां समबुद्धिथी एकसरखी श्रद्धा उत्पन्न थाय, ते
जात्यंतर ज्ञेदात्मक होवाथी मिश्रगुणस्थानक थाय ठे, ज्यारे जीव मिश्र
गुणस्थानस्थ होय ठे, त्यारे परजवना आयुनो बंध करतो नथी, तेमज
मिश्रगुणस्थानकमां ठतां जीव मृत्यु पण पामतो नथी, क्यां तो सम्यक्
दृष्टि थइ सम्यक् दृष्टि गुणस्थानकमां आवी मरे ठे, अथवा तो कुदृष्टि
थइ मिथ्यात्वगुणस्थानमां पाठो जइ मरे ठे. आ मिश्रनी जेम वारमा
हीणमोह, तेमज तेरमा सयोगी गुणस्थानोमां पण जीव मृत्यु पामतो
नथी. वाकीना अगियार गुणस्थानकोमां जीव मृत्यु पामे ठे. वली मि-
थ्यात्व, सास्वादन अने अविरति सम्यक्दृष्टि, आ त्रण गुणस्थानकोज
जीवनी साथे परजवमां जाय ठे. वाकी अगियार जातां नथी. तथा जे
जीवोए मिथ्यात्वादि गुणस्थानोमां पूवें आयु बांधेल ठे, अने पठी तेउने

जो मिश्रगुणस्थान प्राप्त थाय ठे, तो ज्यारे तेउं मरे ठे त्यारे जे गुणस्थानमां तेउंए आयु वांधेल ठे, ते गुणस्थानमां जइने तेउं मरेठे, अने तेउंनी गतिपण मृत्यु पामेलाना गुणस्थानकने अनुसारें थाय ठे. वही मिश्रगुण स्थानकवाला जीव, १ तिर्यंच गति, २ तिर्यंचायु, ३ तिर्यंचानुपूर्वी, ६ स्थानार्द्धिक, ७ दुर्जग, ८ दुःस्वर, ९ अनादेय, १३ अनंतानुबंधी चार, १७ मध्यनां चार संस्थान, २१ मध्यनां चार संहनन, २२ नीचगोत्र, २३ उद्योतनाम, २४ अप्रशस्त विहायोगति, २५ स्त्री वेद. आ पच्चीश प्रकृतिनो बंधव्यवहेद करेठे, तथा मनुष्यायु अने देवायु आ वंने आयुष्यना बंध करता नथी, आ सत्तावीश प्रकृतिविना वाकीनी चम्मोतेर प्रकृतिनो बंध करे ठे, तथा ४ अनंतानुबंधी चार, ५ स्थावरनाम, ६ एकेंद्रिय, ७ विकलत्रिक, तेउंनो उदय व्यवहेद थवाथी, तेमज मनुष्यानुपूर्वी, अने तिर्यंगानुपूर्वी आ वंनेनो उदय न होवाथी, एकसो प्रकृतिनो उदय वेदेठे, अने पूर्वोक्त १४७ प्रकृतिनी सत्ता ठे.

हवे चोथा अविरति सम्यक्दृष्टि गुणस्थानकनुं स्वरूप लखियेठियें. तेमां प्रथम सम्यक्त्व प्राप्तिनुं स्वरूप आ प्रमाणे ठे. संज्ञी पंचेंद्रिय जव्य जीवने यथोक्त तत्व, यथावत् सर्ववित्प्रणीत तत्त्वोमां, जीवादि पदार्थोमां, निसर्गथी अर्थात् पूर्वजव अन्यासविशेषथी उत्पन्न थयो जे अत्यंत निर्मल गुणात्मकरूपस्वभाव, ते स्वभावथी, अथवा गुरुना उपदेशश्रवणथी, रुचिभावना जे प्रगट-उत्पन्न थाय ठे, ते सम्यक्त्व, सम्यक्श्रद्धान लक्षण कहेवाय ठे. यदाह ॥ रुचिर्जिनोक्ततत्त्वेपु, सम्यक् श्रद्धानमुच्यते ॥ जायते तन्निसर्गेण, गुरोरधिगमेन वा ॥ १ ॥ हवे अविरति सम्यक्दृष्टिपणानी उत्पत्ति कहियेठियें. वीजो कपाय जेनुं नाम अप्रत्याख्यान ठे, एवा जे क्रोध, मान, माया, लोभ, जेना उदयथी दूर रहुं ठे विरतिपणुं, ते कारणथी केवल सम्यक्त्वमात्र जेउंने होय, एवा गुणस्थानवाला जीवोने, चोयुं अविरति सम्यक्दृष्टि गुणस्थानक होय ठे. तात्पर्य ए ठे के, जेम कोइ पुरुष, न्यायोपार्जित धन, जोग, विलास, सौंदर्यतायुक्त उत्तमकुलमां जन्म्यो ठे, परंतु दुरंत जुगारआदि दुर्व्यसनो सेवन करतां, अनेक अन्यायि कार्यो करवाथी, अपराधी थंतां तेने राज्यदंन याने शिक्षा जोगवतां, जेनाथी अचिमान खंडन थयुं ठे, एवा

जे कोटवालादि, तेउनाथी विडंबना पामतां, पोतानां व्यसनजनित क-
मोंने विरूप जाणी, पोताना कुलनी सुंदरसुख संपत्तिनी अजिलापा पण
करे ठे, तो पण कोटवालोथी टुटीने पूर्वोक्तसुखनो श्वासोद्वासपण जेम
लइ शकतो नथी, तेम आ जीव पण अविरतिपणाने बुरा कर्मनुं फल
जाणे ठे, अने विरतिना सुंदरसुखनी अजिलापा पण करे ठे, परंतु को-
टवाल समान वीजा कपायना बंधनथी टुटवानेज हिंमत पण करी श-
कतो नथी, अने अविरति सम्यक्दृष्टि गुणस्थानकनो अनुभव करे ठे.

हवे चोथा गुणस्थानकनी स्थिति कहियेठियें. आ गुणस्थानकनी उ-
त्कृष्टी स्थिति तेत्रीश सागरोपमथी कांश्क अधिक ठे. ते सर्वार्थ सि-
द्धादि विमानवासिउनी स्थिति तथा मनुष्यायु अधिकनी, अपेक्षाए ठे.
वली आ सम्यक्त्व जीवने अर्धपुद्गल परावर्तन संसार वाकी रहे ठे,
त्यारे प्रात थाय ठे, ते पहेलां अतुं नथी.

हवे सम्यक् दृष्टिनां लक्षण कहियेठियें. १ दुःखी जीवोनां दुःख दूर
करवानी जे चिंता, तेनुं नाम अनुकंपा ठे. २ कोइ कारणथी क्रोध उत्पन्न
पण थइ जाय, तो पण तीव्र अनुशय अर्थात् वैरजावनो अजाव जेनाथी
रहे ठे तेनुं नाम प्रशम ठे. ३ शिवमंदिर चडवावास्ते सोपान समान, स-
म्यग् ज्ञानादि साधनोमां उत्साह लक्षण अर्थात् मोक्षाजिलाप तेनुं
नाम संवेग ठे. ४ अत्यंत कुत्सिततर अर्थात् अत्यंत कनिष्ठ एवा संसार
रूप वंदीखानामांथी निकलवा वास्ते परम वैराग्यरूप दरवाननी सेवना
करवी तेनुं नाम निवेद ठे. ५ श्री सर्वज्ञप्रणीत समस्तजावोनुं यथार्थ
चिंतवन तेनुं नाम आस्तिक्यता ठे. आ पांच लक्षण जें जीवमां होय
ते जव्यजीव सम्यक् दर्शनथी अलंकृत होय ठे.

हवे सम्यक्दृष्टि गुणस्थानवर्ति जीवोनुं गतिस्वरूप कहियेठियें. तेमां
प्रथम, जीवना परिणाम विशेषरूप जे करण, तेना त्रण प्रकार ठे. १ य-
थाप्रवृत्तिकरण, २ अपूर्वकरण, ३ अनिवृत्तिकरण, पर्वतमांथी निकलती
नदीना जलथी आलोड्यमान पठरनी जेम घोलना धंचना न्यायें, जीव
आयुर्कर्म शिवाय वाकीनां साते कर्मनी स्थिति किंचित् उणी एक कोटा-
कोटी सागरोपम प्रमाण जे अध्यवसाय विशेषथी करी, ग्रंथिदेश सुधी
आवे ठे, ते यथाप्रवृत्तिकरण कहेवाय ठे, तथा २ जे पूर्वे अप्राप्त एवा अ-

ध्यवसाय विशेषथी जे ग्रंथिने, घननिविड रागद्वेष परिणति रूप कहे ठे ते ग्रंथिने जेदवानों जे आरंज, ते अपूर्वकरण कहेवाय ठे. तथा ३ जे अध्यवसायविशेषथी ग्रंथिजेद करीने अनिवृत्त थकां परमआनंद जनक सम्यक्त्व प्राप्त करे ठे तेनुं नाम अनिवृत्तिकरण ठे. आ त्रणे करणुं स्वरूप श्रीजिनचक्रगणिक्रमाश्रमणआचार्य आवश्यकना शुद्धांतो-निधि गंधहस्ती महाजाप्यमां त्रण पंथीजनना दृष्टांतथी आ प्रमाणे व्याख्यान करे ठे. त्रण पंथीजनो एक नगर जवा सारु निकलतां जंगलना उज्जड रस्तापर चाढ्या जता हुता. चालतां चालतां विकाल वेला थइ गइ अर्थात् सूर्यअस्त थयो. पंथीजनो मनमां बहुज करवा लाग्या. तेउ-लामां तत्काल वे चोर तेउनी नजीक आवी पहाँच्या. चोरोने देखी त्रण मांहेनो एक पंथी जन करीजवार्थी दोडी पाठो जागी गयो. एकने वने चोरोए पकडी लीधो, अने त्रीजो पंथीजन वने चोरो साये लडतां लडतां तेउने मारी कुटीने मुद्दाम नगरें पहाँची गयो. आ दृष्टांतने हादार्त (सिद्धांत) रूप आ प्रमाणे घटावबुं. उजड जंगल ते मनुष्यजव ठे, कमोनी स्थिति ते लांबो रस्तो ठे, जयनुं स्थानक ते गांठ ठे, रागद्वेष ते वने चोर ठे, नगर ते मोक्षस्थान ठे. जे पुरुष चोरथी डरी पाठो जागी गयो, तेनी संसारमां परित्रमण करवानी स्थिति अधिक ठे, जे पुरुषने चोरोए पकडी लीधो, तेमज चोरथी लुंटायो ते पण दुःखी तेमज परित्रमण करनार ठे, अने जे पुरुष चोरोने मारी कुटी नगर पहाँचीगयो ते सम्यक्दृष्टि मोक्षनगर पहाँचनार तथा सुख प्राप्त करनार ठे.

हवे कीडीउंना दृष्टांतथी त्रण करणुं स्वरूप कहियेठियें. जेम कीडी-उंनो समूह विलमांथी निकली एक खुंटानी आसपास फर्या करे ठे, ते-मांथी केटलीएक कीडिउं खुंटा उपर चडे ठे, अने केटलीएक खुंटा उ-पर पहाँचतां पांख आववार्थी उडी चाली जाय ठे, तेवी रीतें आ त्रण करणनी वावतमां पण जाणी लेबुं. ज्यारे जीवो यथाप्रवृत्ति करण करीने ग्रंथि देशने प्राप्त थाय ठे, अने अपूर्वकरण करी ग्रंथिनो जेद करे ठे, त्यारे ग्रंथिजेदकर्या पठी कोइक जीव मिथ्यात्व पुजलनी राशिने वेहेंचीने १ मिथ्यात्वमोह, २ मिथ्रमोह, ३ सम्यक्त्वमोह, रूप त्रण पुंज करे ठे; अने ज्यारे अनिवृत्तिकरण करी विशुद्धमान थतां, उदय आवेला मि-

ध्यात्वानो ह्य करे, अने नहि उदय आवेला मिथ्यात्वने उपशमावे, त्यारे ह्योपशमिक सम्यक्त्वनी तेउने प्राप्ति थाय ठे. ज्यारे जीवोने ह्योपशमिक सम्यग्दर्शन उत्पन्न थाय ठे, त्यारे मनुष्यगति अने देवगतिनी प्राप्ति थाय ठे. तथा अपूर्वकरण करीने, जेउए त्रण पुंज कर्या ठे, एवा जीवो चोथा गुणस्थानकथीज रूपकपणानो जो आरंज करेठे, तो अनंतानुबंधी चार कपाय तथा मिथ्यात्व मोह, अने सम्यक्त्व मोह, रूप त्रण पुंज ए सातेनो ह्य करतां तेउने द्वायिक सम्यक्त्व प्राप्त थाय ठे. हवे ते द्वायिक सम्यग्दृष्टि जीव जो ते वखते अवज्ञायु होय तो तेज जवमां मोह प्राप्त करे ठे, अने जो आयुनो बंध कर्या पठी द्वायिक सम्यक्त्ववान् थया होय तो त्रीजा जवमां मोह पामे ठे, अने जो असंख्यात वर्षे जीवनारा मनुष्य, वा तिर्यंचनुं आयु वांध्या पठी द्वायिक सम्यक्त्व प्राप्त थयुं होय तो चोथे जवे मोह प्राप्त करे ठे.

हवे अविरति गुणस्थानवर्ती जीवनां कृत्य लखियें ठियें. व्रतनियम तो तेउने कांश्रण होतुं नथी, परंतु देवश्रीवीतराग, जगवान्, परत्मानी तथा पूर्वोक्त लक्षणवाला गुरुमहाराजनी तथा चतुर्विध-श्रीसंघनी पूजा, जक्ति, नमस्कार, वात्सल्यादि कृत्यो करे ठे, तथा प्राजाविक श्रावक होवाथी शासननी उन्नति तथा शासननी प्रजावना करे ठे. चतुर्थ गुणस्थानकवालो जीव, १ तीर्थकर नामकर्म, २ मनुष्यायु, ३ देवायु, आ त्रण, प्रकृति त्रीजा गुणस्थानवालाथी अधिक बांधे ठे, तेथी सत्तोतेर प्रकृतिनो बंध करे ठे, तथा मिश्र मोहनो व्यवच्छेद थवाथी, अने चार आनुपूर्वी, तथा सम्यक्त्व मोहनो उदय थवाथी, एकसो चार कर्मप्रकृतिने वेदेठे. द्वायिक सम्यक्त्ववालाने १३७ कर्मप्रकृतिनी सत्ता होय ठे. अने उपशम सम्यक्त्ववालाने चोथा गुणस्थानकथी ते अग्यारमा गुणस्थानकर्पर्यंत १४७ कर्मप्रकृतिनी सत्ता ठे, अने द्वायिक सम्यक्त्ववालाने जे जे गुणस्थानकमां जेटळी जेटळी कर्मप्रकृतिनी सत्ता ठे ते यथानुक्रम लखवामां आवशे.

हवे पांचमा देशविरति गुणस्थानकनुं स्वरूप लखियें ठियें. सम्यक् तत्त्वावबोधथी उत्पन्न थयो जे वैराग्य, ते वैराग्यथी जीवने सर्व विरतिपणानी बांठा थायठे, परंतु सर्व विरतिघातक प्रत्याख्यान नामना कपायना उदयथी तेनामां सर्वविरतिपणुं अंगीकार करवानुं सामर्थ्य होतुं

नथी, परंतु जघन्य, मध्यम उत्कृष्टरूप देशविरति ते थइ शकेते. जघन्य देशविरतिपणामां आकुट्टि स्थूलहिंसा प्रमुखनो त्याग, मद्यमांसादि परिहार, तेमज पंचपरमेष्ठि नमस्कार स्मरणादि ठे. यदाह ॥ आउट्टि थूल हिंसाइ, मद्यमंसाइ चायउ ॥ जहन्नो सावउ होइ, जो नमुक्कार धारउ ॥ १ ॥ तथा मध्यम देशविरति अकुट्टादि न्यायसंपन्न वैजवादि धर्मयोग्यताना गुणोसहित, तथा गृहस्थ उचित पदकर्मधर्ममां तत्पर, द्वादश व्रतना पालक, सदाचारवान्, एवा होय ते मध्यम श्रावक जाणवा. तथा उत्कृष्ट देशविरतिसचित्तआहारना त्यागी होय, प्रतिदिन एकासणुं करे, ब्रह्मचारी होय, महाव्रत अंगीकार करवानी इच्छावाला होय, अने गृहस्थनो धंधो त्यागेलो होय ते उत्तम श्रावक जाणवा. आ त्रण प्रकारनी विरतिमांथी एकपण प्रकारनी विरति होय ते श्रावक कहेवाय ठे. देशविरति गुणस्थानकनी उत्कृष्टी स्थिति देशउणी कोटिपूर्वनी ठे.

हवे देशविरतिपणामां ध्याननो संजव कहीयें ठियें. आ गुणस्थानक वाला जीवोमां १ अनिष्टयोगार्त्त, २ इष्टयोगार्त्त, ३ रोगचिंतार्त्त, ४ अग्रशौचार्त्त, आ चार पादरूप आर्त्तध्यान, तथा १ हिंसानंदरौड, २ मृपानंदरौड, ३ चौर्यानंदरौड, ४ संरक्षणानंदरौड, आ चार पादरूप रौडध्यान, मंद होय ठे. जेम जेम देशविरतिपणुं विशेष थतुं जायठे. तेम तेम आर्त्त रौडध्यान मंद मंदतर थतुं जाय ठे. वली जेम जेम देशविरतिपणुं अधिक थतुं जाय ठे, तेम तेम धर्मध्यान अधिक अधिक थतुं जाय ठे, परंतु मध्यमरूपेज रहेठे; उत्कृष्ट धर्मध्यान देशविरतिपणामां होतुं नथी. जो उत्कृष्ट धर्मध्यान थइ जाय तो, सर्व विरतिपणुं थइ जाय.

प्रश्नः—पांचमा गुणस्थानमां धर्मध्यान केवी तरेहनुं होय ?

उत्तरः— गृहस्थधर्म उचित पदकर्म, एकादश प्रतिमा, तथा श्रावक व्रतपालनरूप होय. पदकर्म आ प्रमाणे ठे. १ तीर्थकर जगवंत चीतराग सर्वज्ञनी प्रतिमाद्वारा पूजा करवी, २ गुरुनी सेवा करवी, ३ स्वाध्याय, ४ संयम (इंद्रियदमन) ५ तप, ६ दान. यदाह ॥ देवपूजा, गुरुपास्तिः, स्वाध्यायः संयमस्तपः ॥ दानं चेति गृहस्थानां, पदकर्माणि दिने दिने ॥ १ ॥ तथा प्रतिमा ते अजिग्रहविशेषने कहेवामां आवे ठे ॥ गाथा ॥ दंसण वयसामाइय, पोसहपडिमा अवंज सचित्ते ॥ आरंजपेस उदित, व-

ज्ञान समण भूय य ॥ १ ॥ प्रतिमानुं विस्तारथी स्वरूपजोषुं होय तो श्रीपंचाशक नामा शास्त्रमां प्रतिमा पंचाशक जोषुं तथा श्रावकनां व्रत वार ठे. तेनुं विस्तारथी कथन हवे पठी करवामां आवशे. आपदकर्म एकादश प्रतिमा अने वार व्रत पालवामां मध्यम, धर्मध्यान होय ठे. देशविरति गुणस्थानस्थ जीव, अप्रत्याख्यान चार कपाय, मनुष्यगति, मनुष्यायु, मनुष्यापूर्वी, आद्यसंहनन, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, सर्व मल्ली दशकर्मप्रकृतिनो बंधव्यवच्छेद करवाथी, सडसठ कर्म प्रकृतिनो बंध करे-ठे. तथा अप्रत्याख्यान चार, मनुष्यानुपूर्वी, तिर्यचानुपूर्वी, नरकत्रिक, देवत्रिक, वैक्रियट्टिक, कुर्जग, अनादेयं, अयशःकीर्ति, आ सत्तर कर्म प्रकृतिनो उदयव्यवच्छेद थवाथी सत्याशी कर्म प्रकृतिनुं फल जोगवे ठे, अने एकसो आडत्रीश प्रकृतिनी सत्ता ठे.

पांचमा गुणस्थान उपरनां जे जे गुणस्थानको ठे तेमांथी तेरमुं गुणस्थानक वाद करीने वाकीनां सर्व गुणस्थानकोनी पृथक् पृथक् अंतर्मुहूर्त्तमात्र स्थिति ठे, अने ठहुं तथा सातमुं गुणस्थानक हिंडोला समान होवाथी तेनुं उत्कृष्ट कालमान देश उणुं पूर्व कोटि वर्ष ठे.

हवे ठठा प्रमत्त संयत गुणस्थानकनुं स्वरूप लखियेठियें. सर्व विरति साधु ठठा प्रमत्त गुणस्थानकवाला होय ठे, ते साधु केवा होय ठे? अहिंसादि पांचमहाव्रतना धारक होय ठे. ते साधु प्रमत्त शा कारणथी थाय ठे? प्रमादसेवन करवाथी प्रमत्त थाय ठे. ते प्रमाद पांच प्रकारे ठे. ॥ गाथा ॥ मज्झं विषय कसाय, निडा विगहीय पंचवी जणिया ॥ ए ए पंच पमाया, जीवं पाहुंति संसारे ॥ १ ॥ जावार्थः— मद्य, विषय, कपाय, निडा, तेमज विकथा, आ पांच प्रमाद ठे. ते जीवने संसारमां नाखे ठे. जे साधु आ पांच प्रमादसंयुक्त होय, तथा जो तेने संज्वलन चोथा कपायनो उदय होय, तो महाव्रतधारक साधु पण अंतर्मुहूर्त्त सुधी अवश्य सप्रमाद होवाथी प्रमत्त थाय ठे. जो अंतर्मुहूर्त्तथी उपरांत प्रमाद सहित वतें तो ते प्रमत्त गुणस्थानकथी पण नीचे पडी जाय ठे, जो अंतर्मुहूर्त्तमां प्रमाद रहित थाय तो फरी अप्रमत्त गुणस्थानमां आरोहण करे ठे.

हवे प्रमत्त संयत गुणस्थानमां ध्याननो संजव कहियेठियें. आ गुण-

स्थानमां मुख्य तो आर्त्तध्यान ठे, उपलक्षणथी रौद्रध्याननो पण संज्ञव ठे, कारण के हास्यादि ठ नोकपायनुं प्रवर्त्तवुं ठे. तथा आज्ञा आदि आलंवनयुक्त धर्मध्याननी गौणता ठे. धर्मध्यानना चार पाद ठे. १ आज्ञा, २ अपाय, ३ विपाक, ४ संस्थान, यथा ॥ आज्ञापायविपाकानां, संस्थानस्य विचिंतनात् ॥ इत्थं वा ध्येयज्ञेदेन, धर्मध्यानं चतुर्विधं ॥ १ ॥ सर्वज्ञ अर्हत जगवंतं जे कांइ कथन करेल ठे, ते सर्व सत्य ठे, मारी समजमां जे जे वस्तुस्वरूप यथार्थ आवतुं नथी, तेनुं मुख्य कारण मारी बुद्धिनी मंदता ठे, वली दुषम कालना प्रज्ञावथी तेमज संशय परास्त करनारा गुरुना अज्ञावथी इत्यादि अनेक कारणोथी जिनेश्वर जगवानें कथन करेला तत्वनी सूक्ष्मता मारी समजमां आवती नथी, परंतु अर्हत जगवंतनुं कथन निःस्वार्थि, एकांत हितकारक, तथा मृषा बोलवाना निमित्त विनानुं इत्यादि जे चिंतवन करवुं ते आज्ञाविचयनामा प्रथम जेद ठे. २ राग द्वेष कपायादि जे आश्रव ठे, तेनाथी इहलोक परलोकमां अपाय (कष्ट) उत्पन्न थाय ठे, ते महाअनर्थना हेतु ठे, एवुं जे चिंतवन करवुं ते अपायविचयनामा बीजो जेद ठे. ३ द्वाणे द्वाणे कर्मफलोदय जे विचित्ररूप उत्पन्न थाय ठे, तेनाथी सुखदुःखादि जोगवतां, हर्ष, शोक नहि करतां, पूर्वकृत कर्मनो विपाक ठे इत्यादि जे चिंतववुं ते विपाक विचयनामा बीजो जेद ठे. ४ आ लोक अनादि अनंत ठे. सर्व पदार्थ उत्पाद, व्यय, ध्रुवरूप ठे, तथा पुरुषाकार लोकनुं संस्थान ठे, एवुं जे चिंतवन करवुं ते संस्थानविचय नामा चोथो जेद ठे. इत्यादि आलंवनयुक्त धर्म ध्याननी गौणता प्रमत्त गुणस्थानमां ठे, परंतु सप्रमाद होवार्थी मुख्यता नथी.

हवे जो कोइ प्रमत्त गुणस्थानमां निरालंवन धर्मध्यान कहेता होय तो तेनो निषेध करेलो ठे, जिनजास्कर (जिनसूर्य) एम कहीगया ठे के ज्यां सुधी साधु प्रमादसंयुक्त होय, त्यांसुधी तेने निरालंवन धर्मध्यान होतुं नथी. कारण के प्रमत्तगुणस्थानमां मध्यम धर्मध्याननी पण गौणता कही ठे, मुख्यता कही नथी, ते कारणथी प्रमत्त गुणस्थानमां निरालंवन धर्मध्याननो संज्ञव नथी.

हवे जेउं आ अर्थ (कथन) नो स्वीकार न करे तेने कहिये ठियें.

के जे साधु सप्रमादी यइने आवश्यक, सामायिकादि पडावश्यक साधक अनुष्ठाननो परिहार करीने, निश्चल, निरालंबन धर्मध्याननो आश्रय करे, ते साधु मिथ्यात्व मोहित जावथी मूढ थयो थको, श्रीसर्वज्ञ प्रणीत जैनागम (सिद्धांत) जाणतो नथी. ते व्यवहारनो त्याग करी दूर वेगो ठे, अने निश्चयने प्राप्त करी शक्यो नथी; अने जे जैन सिद्धांतना ज्ञाता ठे, तेउं तो व्यवहारपूर्वक निश्चयने साधे ठे. यदाह ॥ जइ जिणमयं पवक्काह, तामा विवहारनिवृण्ण मुयह ॥ विवहार नउं ठे ए, तिहुवेउं जउं जणिउं ॥ १ ॥ अर्थः- जो जैनमतने श्रंगीकार करता हो, तेमज जैनमतना साधु थता हो तो व्यवहार, निश्चयनो त्याग करो नहि, जो व्यवहारनो उवेद करशो तो तीर्थनो उवेद थइ जशे, आ कथन उपर दृष्टांत कहीये ठियें. कोइ पुरुष पोताना घरमां निरंतर वाजरानी रोटली खाय ठें, एकाद दिवस कोइ गृहस्थें तेने निमंत्रण करी अपूर्व मिष्टान्न आहारतुं जोजन कराव्युं. आ मिष्टान्न आहारथी स्वादनो लोखुपी यइने ते पोताना घरनी वाजरानी रोटली निःस्वाद जाणी खातो नथी, अने श्रंतःकरणमां दुःप्राप्य मिष्टान्ननी अजिलाषा करी रह्यो ठे, मिष्टान्न मखतुं नथी, अने वाजरानी रोटली अरुचिकर थवाथी खातो नथी, तेथी उजयत्रष्ट थइ श्रंते दुःखी थाय ठे, तेवीज रीतें आ जीव पण कदाग्रहरूप जूत वलगी जावथी प्रमत्त गुणस्थानसाध्य स्थूलमात्र पुण्य पुष्टिनां कारण, पडावश्यकदि कष्टक्रिया करतो नथी, अने कदाचित् प्रमत्त गुणस्थानमां जेनो लाज ठे, एवुं निर्विकल्प मनोजनित, समाधिरूप निरालंबन, ध्यानांश अमृत आहारतुल्य प्राप्त थाय ठे, तेनाथी उत्पन्न थयो जे परमानंद सुखस्वाद, ते चित्तमां रेहेवाथी प्रमत्त गुणस्थानगत पडावश्यकदि कष्टक्रियाकर्म वाजरानी रोटली समान जाणी, तेउं सम्यक् रीतें आराधन करतो नथी, अने मिष्टान्न तुल्य निरालंबन ध्यानांश तो प्रथम संहननना अजावथी प्राप्त करी शकतो नथी, तेथी आवश्यकदि क्रिया नहि करवाथी उजयत्रष्ट थाय ठे. आ पंचम कालमां महामुनि, ऋषिउंए निरालंबन ध्याननो मनोरथज करेलो ठे ॥ तथा च पूर्वमहर्षयः ॥ चेतोवृत्तिनिरोधनेन करणग्रामं विधायोच्छ्रं । तत् संहृत्य गतागतं च मरुतो धैर्यं समा-

श्रित्य च ॥ पर्यकेन मया शिवाय विधिवत्, स्थित्वैक नूतनद्वारी मध्य-
 स्थेन कदाचिदर्पितदृशा, स्थातव्यमंतर्मुखं ॥ १ ॥ चित्ते निश्चलतांगते
 प्रशमिते, रागादि निद्रामदे । विद्राणेऽक्षकदंबके विघटिते, ध्वांतत्रमा-
 रंजके ॥ आनंदे प्रविजृंभिते पुरपते, ज्ञाने समुन्मीलिते । मां रक्ष्यति
 कदा वनस्थमजितो दुष्टाशयाः श्वापदाः ॥ २ ॥ तथा श्रीसूरप्रज्ञाचार्याः
 चित्तावदातैर्नवदागमानां, वा ज्ञेय जैरागरुजं निवर्त्य ॥ मया कदा प्रौ-
 ढसमाधिलक्ष्मी, इत्यादि ॥ तथा श्रीहेमचंद्रसूरयः ॥ वनपद्मासनासीनं,
 क्रोडस्थितभृगार्जकं ॥ कदा घ्रास्यंति वक्रो मां, चरंतो भृगयूथपाः ॥ १ ॥
 शत्रौ मित्रे तूणे स्त्रौणे, हेम्नेऽश्मनि मणौ मृदि ॥ मोक्षे जवे जविष्यामि,
 निर्विशेषमतिः कदा ॥ २ ॥ ज्ञावार्थः— चित्तवृत्तिनो निरोध करीने, इं-
 द्रियसमूह अने तेना विषयोने दूर करीने. पवन अर्थात् श्वासोह्वासनी
 गत्यागतिनुं रोधन करीने, धैर्यतानुं अवलंबन करीने, पद्मासन वेसीने,
 कढ्याण करवा निमित्ते, विधियुक्त, कोश, पर्वतनी कंदरा (गुफा) मां
 वेसीने, एकवस्तु उपर स्थिर दृष्टि करी मुजने अंतर्मुख रहेतुं योग्य ठे.
 ॥ १ ॥ चित्त निश्चल यतां, राग, द्वेष, कपाय, निद्रा अने मद शांत यतां
 इंद्रियसमूहकृत विकार दूर यतां, त्रमारंजक अंधकार प्रलय यतां, ज्ञान-
 नो प्रकाश यतां, अने आनंद प्रगट वृद्धिमान् यतां, आत्म अवस्थामां
 स्थित एवा मारा जीवने वनमां रहेतां, दुष्टाशयवाला सिंह क्यारे रक्षा
 करशे ? ॥ २ ॥ वली श्रीसूरप्रज्ञाचार्य पण कहे ठे, हे जगवन् ! तमारा
 आगम रूप ज्ञेयजयी, राग रूप रोगनिवर्तवायी, निर्मल चित्तयुक्त थये,
 क्यारे एवो दिवस आवशे के जे दिवसे हुं समाधिरूप लक्ष्मीनुं दर्शन
 करीश ? इत्यादि. तथा श्री हेमचंद्र सूरि कहे ठे के, वनमां पद्मास-
 नयी वेठां थकां, मारा खोलामां भृगनुं वज्जुं आवी वेसे, अने हरणनो
 खामि कालियार मारा मुखने सूंघे, ते संमये हुं मारी समाधिमां नि-
 श्चल रहुं ॥ १ ॥ तथा शत्रुमां, मित्रमां, तृणमां, स्त्रियोमां सुवर्णमां ते-
 मज पापाणमां, मणिमां तेमज माटिमां, अने मोक्षमां तेमज संसा-
 रमां एकसरखी मतिवालो क्यारे हुं थइश ? ॥ २ ॥ तेवीजरीतें मंत्री
 वस्तुपाल, तथा परमतमां जर्तूरिए पण मनोरथ करेला ठे, अने म-
 नोरथ जे लोक करे ठे ते दुःप्राप्य वस्तुनोज करे ठे. जे वस्तु कष्टविना

सुखे मलतीं होय तेनो मनोरथ कोइ पण करतुं नथी. जे निरंतर मिष्टान्न खाय ठे, अने मोटुं राज्य जोगवे ठे, ते कदापि मिष्टान्न जोजन तथा राज्य जोगववानो मनोरथ करता नथी. ते कारणथी प्रमत्त गुणस्थानस्य विवेकि पुरुषोए, परमसंवेग जावथी अप्रमत्त गुणस्थानकनो स्पर्श कयों होय ते पण सर्व प्रकारें परम शुद्ध परमात्मतत्त्व संवित्तिनो मनोरथ करवो, परंतु पट्टकर्म, पडावश्यकादि व्यवहार क्रियानो परिहार न करवो, अने जे मूढ (अज्ञानी) योग ग्रहथी ग्रस्त ठे, तेमज सदाचार व्यवहारथी पराङ्मुख ठे, तेनो योगपण कांइ कामनो नथी, तेमज तेनो आ लोक पण नथी, अने परलोक पण नथी, अर्थात् ते जीवो जडात्मा होवाथी उन्नयत्रष्ट आय ठे ॥ यतः ॥ ये तु योगग्रह-ग्रस्ताः, सदाचार पराङ्मुखाः ॥ एष तेषां च योगोऽपि, न लोकोपि जडात्मनां ॥ १ ॥ इत्यादि. ते कारणथी साधुयें दिवसे तेमज रात्रिमां जे जे दूषणो तेमने लाग्यां होय, तेनो उठेद करवा वास्ते अवश्य पडावश्यकादि क्रिया करवी जोश्यें. ज्यां सुधी उपरनां गुणस्थानकोथी साध्य जे निरालंघन ध्यान ठे, ते प्राप्त न थाय, त्यां सुधी करवी जोश्यें.

प्रमत्त गुणस्थानस्य जीव, चार प्रत्याख्याननो बंध व्यवच्छेद होवाथी त्रेसठ प्रकृतिनो बंध करे ठे, तथा तिर्यग्गति, तिर्यगानुपूर्वी, नीचगोत्र, उद्योत तथा प्रत्याख्यान चार आ आठप्रकृतिनो उदय व्यवच्छेद थवाथी अने आहारक शरीर तेमज आहारक अंगोपांगनो उदय होवाथी एकाशी प्रकृति वेदे ठे, अने एकसो आडत्रीश प्रकृतिनी सत्ता ठे.

हवे सातमा अप्रमत्तगुणस्थानकतुं स्वरूप लखिये ठियें. पांच महात्रतधारी साधु पांच प्रमादना अज्ञावें, अप्रमत्तगुणस्थानस्य होयठे. तेने संज्वलन चार कपायनो, तेमज नोकपायनो पण उदय मंद होयठे, तात्पर्य के, संज्वलन कपाय तेमज नोकपायनो जेवो जेवो मंद उदय होय तेवो तेवो साधु अप्रमत्त होय. यदाह ॥ यथा यथा न रोचंते, विषयाः सुलज्जा अपि ॥ तथा तथा समायाति, संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं ॥ १ ॥ यथा यथा समायाति, संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं ॥ तथा तथा न रोचंते, विषयाः सुलज्जा अपि ॥ २ ॥ अर्थः—जेम जेम सुखें प्राप्त यथा विषयो रुचता नथी, तेम तेम उत्तमतत्त्व संवित्तिनो लाज थतो जाय ठे, तथा जेम जेम उत्त-

मतत्त्व संवित्तिनो लाज यतो जाय ठे, तेम तेम सुखें प्रासं यता विषयो रुचता नथी. वली अप्रमत्तगुणस्थानकवाला जीव जेम जेम मोहनीयकर्मनो उपशम करवामां तेमज ह्य करवामां निपुण यता जाय ठे तेम तेम सद्धाननो आरंज करे ठे.

दूर कयोठे सर्वप्रमाद जेणें एवा जे जीव, तथा पंचमहाव्रतधारक साधु, अष्टादश सहस्र शीलान्ग लक्षण संयुक्त, सदागमअज्यासी ज्ञानवान् एकाग्रध्यानवान् (ज्ञान ध्यान रूप धन होवाधी) मौनी मौनवान् (कारण के मौनवान् ज ध्यानरूप धनवान् होइ शके ठे) एवा पवित्रमुनि पूर्वोक्त सम्यक्त्वमोह, मिश्रमोह, मिथ्यात्वमोह अने अनंतानुबंधी चार, आ सात प्रकृति विना एकवीश प्रकृतिरूप मोहनीय कर्मने उपशम करवामां तेमज ह्य करवामां ज्यारे सन्मुख थायठे, त्यारे सालंबन ध्यान तजीने निरालंबन ध्यानमां प्रवेश करवानो आरंज करेठे. आ निरालंबन ध्यानमां प्रवेश करनारा योगी त्रण प्रकारना ठे. १ यथा प्रारंजकाः, २ तन्निष्ठाः, ३ निष्पन्नयोगाः ॥ यदाद् ॥ सम्यग् नैसर्गिकीं वा, विरतिपरिणतिं, प्राप्य सांसर्गिकीं वा ॥ क्वाप्येकांते निविष्टाः, कपिचपलचलन्मानसस्तंजनाय, शश्वन्नासाग्रपाली, घनघटितदृशो, धीरवीरासनस्था । ये निष्पापाः समाधे, विदधति विधिनाऽरंजमारंजकास्ते ॥ १ ॥ कुर्वाणोमरुतासनेन्द्रियमनः द्युत्तपेनिद्राजयं । योतं जल्पति रूपणाजिरसकृत, तत्त्वं समन्यस्यति ॥ सत्वानामुपरि प्रमोदकरुणा मैत्रीऽर्जं मन्यते । ध्यानाधिष्ठितचेष्टयाऽच्युदयते, तस्येद् तन्निष्ठता ॥ २ ॥ उपरतवहिरंतर्जल्पकह्वोसमाले, लसदविकलविद्या पद्मिनीपूर्णमध्ये ॥ सततममृतमंतमानसे यस्य हंसः, पिबति निरुपक्षेपः सोत्र निष्पन्नयोगी ॥ ३ ॥

हृदे अप्रमत्तगुणस्थानमां ध्याननो संजव कहीये त्रियें, सयेंशतुं कवन करेखुं धर्मध्यान मैत्रीप्रमुख अनेक जेदरूप ठे ॥ यदाद् ॥ मेड्यादिनिधनुर्नेदं, यद्वाज्ञादि चतुर्विधं ॥ रूपस्यादि चतुर्णां वा, धर्मध्यानं प्रकीर्तितम् ॥ १ ॥ मैत्रीप्रमोद कारुण्य, माप्यस्थानि नियोजयेत् ॥ धर्मध्यानमुपस्कृत्य, तद्धि तस्य रसायनं ॥ २ ॥ आज्ञापापविपाकानां, संस्थानस्य पिचिंननात् ॥ इत्थं वा प्येयनेदेन, धर्मध्यानं प्रकीर्तितं ॥ ३ ॥ धर्मध्यान मैत्रीभावप्रमुख चार जेद ठे. तथा आज्ञापिचयप्रमुख चार जेदें ठे, अने

रूपस्थ प्रमुख चार ज्ञेदें ठे. प्रथम मैत्रीजावादि चार ज्ञेदनुं स्वरूप क-
 हीये ठियें. १ सर्वजीव साथे प्रेमजावतुं चिंतवन करतुं, सर्व जीवतुं जलुं
 चाहतुं, कोइ जीवतुं बुरुं चाहतुं नहि, सर्व जीव उपर हितबुद्धि राखवी
 ते मैत्रीजावना, २ गुणवंत प्राणीउपर तेमज ज्ञानीप्रमुख उत्तम जीवोनां
 शुभकार्योथी तेउनुं बहुमान करतुं तथा हर्ष करवो ते प्रमोद जावना,
 ३ दुःखी तेमज दीन प्राणीउनुं शुभ चिंतवन करी तेउनुं दुःख दूर क-
 रवानी, तेमज धर्महीन प्राणीने धर्म पमाडवानी अजिजापा ते करुणा-
 जावना, ४ हिंसादि अघोर कर्मना करनारा तेमज देवगुरु अने धर्मनी
 निंदा करनारा एवा दुष्ट आशयवाला जीवोनुं बुरुं नहि चाहतां, तेउं
 पोतपोताना कर्मवश ठे, एम विचारी तेउना उपर रागद्वेष नहि राख-
 तां मध्यम परिणामें वर्तवुं ते माध्यस्थ जावना. वीजा आज्ञाविचय प्र-
 मुख चार ज्ञेदनुं स्वरूप ठाठा गुणस्थानक विचारमां वर्णन करेलुं ठे. ह्वे
 रूपस्थादि चार ज्ञेदनुं स्वरूप कहीयें ठियें. १ रूपमां रह्या ठतां पण आ-
 मारो जीव अरूपी अनंतगुणी ठे, परंतु अरिहंतना अतिशयनुं अवलंबन
 करी ते स्वरूप साथे आत्मस्वरूपनी एकता ते रूपस्थध्यान, २ शरीरमां
 रह्यो जे आपणो जीव, तेमां अरिहंत, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय अने
 साधुपणाना सर्व गुणठे, एम निर्धार करी गुणीना गुणरूप पिंडनुं ध्यान,
 करतुं ते पिंडस्थध्यान, ३ अरिहंतादि पंचपरमेष्ठीना गुणनुं स्मरण करी
 तेनुं वाणी व्यापाररूप ध्यान ते पदस्थध्यान, ४ निरंजन, निर्मल, संकल्प
 विकल्परहित, अज्ञेद एक शुद्ध सत्तास्वरूप, चिदानंद, तत्त्वामृतरूप, अ-
 संग, अखंड, अनंत गुणपर्यायरूप आत्मस्वरूपनुं ध्यान ते रूपातीतध्या-
 न. ए प्रमाणे जिनेश्वरजगवानें कथन करेलुं धर्मध्यान अप्रमत्तगुणस्था-
 नमां मुख्य वृत्ति ए अर्थात् प्रधानपणे होयठे. रूपातीतज्ञेद शुद्धध्यानरूप
 होवाथी अंशमात्र गौणपणे रहेठे, अप्रमत्तगुणस्थानमां आवश्यक क्रि-
 यानो अजाव ठे, उतांपि शुद्धपणुं ठे ते कहीयें ठियें.

अप्रमत्तगुणस्थानमां सामायिकादि पद आवश्यक नथी. व्यवहार
 क्रियारूप नथी, परंतु निश्चयसामायिकादि ठे. सामायिकादि सर्व आ-
 त्माना गुण ठे “आया सामाश्य, आया सामाश्यस्त अठे” अ-

र्थात् आत्माज सामायिक ठे, आत्माज सामायिकनो अर्थ ठे. अ सिद्धांतनां वचन ठे.

प्रश्नः—अप्रमत्तगुणस्थानमां व्यवहार क्रियारूपपट्टकावश्यक शावास्तेनहि

उत्तरः—अप्रमत्त गुणस्थानमां सत् ध्यानना योग्धी निरंतर ध्यानमां

प्रवृत्ति ठे. खाजाविकी, सहज, नित्य संकल्पविकल्परूपमात्मानो अ

ज्ञाव होवाथी आत्मा निर्मल एकस्वभावरूप रहेठे, आ गुणस्थानम

वर्तता जीव, ज्ञावतीर्थज्ञान करीने परमशुद्धि प्राप्त करेठे. यदाह ॥ दा

होवसमं तद्दाह, ठेयणं मलप्पवाहणं चव ॥ तिहिं अठेहिं निजत्तं, त

म्हात्तं दव्वत्तं निठं ॥ लोहंमिज निग्गहिये, तद्दाह ठेयणं जाण ॥ १ ॥

अठवियं कम्मरयं, बहुएहिं जवेहिं संचियं जम्हा ॥ तव संयमेण

धोयइ, तम्हात्तं ज्ञावथो तिठं ॥ ३ ॥ अर्थः— दाह उपशांत करे, तृपा

ठीपावे, शरीरनो मल दूर करे, आ त्रण अर्थने सिद्ध करनारां गंगा,

मागधादि ड्रव्यतीर्थ कहेवाय ठे, १ क्रोधनो निग्रह करवाथी दाहउ-

पशम थाय ठे, लोचनो निग्रह करवाथी तृपानो ठेद थाय ठे, अने

अनेक जवनी संचय करेली अष्टकर्मरूप रजथी आत्मस्वरूपने लागेलो

मेल, तप संयमथी धोवाथी, आ गुणस्थान ज्ञावतीर्थ कहेवाय ठे. अ-

न्यच्च ॥ रुद्धप्राणप्रचारे, वपुषि नियमिते, संबृतेऽद्वाप्रपंचे । नेत्रस्पंदे नि-

रस्ते, प्रलय मुपगतं, तर्बिकल्पेऽज्जाले ॥ जिन्ने मोहांधकारे, प्रसरति

महसि, कापि विश्वप्रदीपे । धन्योऽध्यानावलंबी, कलयति परमानंदसिंधौ

प्रवेशं ॥ १ ॥ अर्थः— श्वासोद्वासानुं गमनागमन जेणं रोकेलुं ठे, जेणं पो-

ताना शरीरने स्वाधीन कर्युं ठे, जेणं पांचे इंद्रियोने पोतपोताना विप-

यथी रोकेली ठे. जेणे नेत्रोनो संचार बंध करेलो ठे, जेणे अंतर्बिकल्प

रूप इंद्रजालनो नाश करेलो ठे, जेणं मोहरूप अंधकारनो लय करेलो

ठे, अने जेने त्रिभुवनप्रकाशक ज्ञानप्रदीप प्रगट थयेल ठे, एवा ध्याना-

वलंबी पुरुषने धन्य ठे, जे परमानंदरूपसमुद्रमां प्रवेश करे ठे.

अप्रमत्त गुणस्थानस्य जीव, १ शोक, २ रति, ३ अरति, ४ अस्विर,

५ अशुद्ध, ६ अयश, ७ अशाता वेदनी, आ सात प्रकृतियोनो बंधव्यव-

ठेद करे ठे, १ आहारक, २ आहारक उपांग, अने जो देवायु न धांघे

। अछावन प्रकृतिनो बंध करे ठे, अने देवायु धांघे तो उगणसाव प्र-

कृतिनो बंध करे ठे, तथा स्त्यानर्द्धिक अने आहारकद्धिकनो उदय व्यवच्छेद करे तो ठोंतेर प्रकृतिनुं फल वेदे ठे, अने १३७ प्रकृतिनी सत्ता ठे.

हवे आठमा अपूर्वकरण, नवमा अनिवृत्तिवादर, दशमा सूक्ष्म संपराय, अग्नीआरमा उपशांतमोह, वारमा क्षीणमोह, आ पांच गुणस्थाननुं स्वरूप सामान्य प्रकारें लखिये ठियें.

चारित्रमोहनीयनी एकवीश प्रकृति उपशमाववा तेमज ह्य करवा वास्ते, अत्यंत विशुद्ध अध्यवसायथी, वीर्यविशेष उल्लसित थये थके, तेनो रसघात, स्थितिघात, गुणश्रेणि, गुणसंक्रम, अपूर्वस्थितिवंध, जेम धूरसमयथी थवा मांडे ते अपूर्वकरणनामा आठमुं गुणस्थान ठे, तेनुं नाम अपूर्वकरण कहेवानो हेतु ए ठे के आ गुणस्थानमां अपूर्व आत्म गुणनी प्राप्ति थाय ठे.

जे जोग दीठा होय, सांजदया होय, तेमज अनुजब्या होय, तेनी कां-
हारूप संकल्प विकल्पनो ज्यां अज्ञाव थवाथी, निश्चय, प्रधान परिण-
तिरूप, परमात्मैकत्वरूप ज्ञावनी जे स्थानमां निवृत्ति थती नथी, ते का-
रणथी तेनुं नाम अनिवृत्ति गुणस्थान कहेवाय ठे, तेनुं नाम अनिवृत्ति
वादर कहेवानो हेतु ए ठे के अर्हीयां अप्रत्याख्यानादि चार कपाय,
तथा नव नोकपायने उपशमाववा वास्ते तेमज ह्य करवा वास्ते बहुज
उद्यम थाय ठे, तेथी ते नवमुं अनिवृत्ति वादर ठे.

तथा सूक्ष्म परमात्मतत्व ज्ञावना बलथी सत्तावीश प्रकृतिरूप मोह
उपशांत थतां तथा ह्य थतां, एक सूक्ष्म खंभूत लोचनुं अस्तित्व ज्यां
ठे ते सूक्ष्मसंपराय नामा गुणस्थानक ठे. संपराय, कपायनामवाची ठे, ते
कारणथी आ गुणस्थानकनुं नाम सूक्ष्मसंपराय ठे.

तथा उपशमकज उपशम मूर्तिरूप सहजस्वज्ञावबलथी सकल मोह
कर्म उपशांत करवाथी उपशांतमोहनामक अग्नीआरमुं गुणस्थान तथा
ह्यकनेज ह्यकश्रेणि मार्गथी दशमा गुणस्थानथीज निःकपाय, शुद्ध,
आत्मज्ञावना बलथी, सकल मोहनो ह्य करवाथी क्षीणमोह नाम
वारमुं गुणस्थानक होय ठे.

हवे अपूर्व करणांदि अंशथीज वंने श्रेणी आरोहनुं स्वरूप कहियेठियें.

अपूर्व करण स्थानमां आरोह समयमां अपूर्वकरणना प्रथम अंशधीज उपशमक, उपशमश्रेणिए चढेठे, अने ढापक, ढापकश्रेणिए चढेठे.

हवे प्रथम उपशम श्रेणिए चढवानी योग्यता कहियेठियें. उपशमक मुनि शुक्ल ध्याननो प्रथम पायो, जेनुं स्वरूप हवे पठी कथन करवामां आवशे, तेनुं ध्यान करतां उपशमश्रेणिए अंगीकार करे ठे. केवी स्थिति-वाला ते मुनि ठे ? पूर्वगत श्रुतना धारक, निरतिचार चारित्रवान्, प्रथ-मना त्रण संहननयुक्त, एवा मुनि उपशम श्रेणिए करे ठे.

उपशमश्रेणिएवाला मुनि जो अल्प आयुष्यवाला होय तो काल करीने पांच अनुत्तर विमानमां उत्पन्न थाय ठे, परंतु जेउने प्रथम संहनन होय तेज अनुत्तर विमानमां उत्पन्न थाय ठे. वीजा संहननवाला अनुत्तर विमानमां उत्पन्न थता नथी, सेवार्त्त संहननवाला चोथा महेंद्रदेव लोकसुधी जइ शके ठे, अर्थात् त्यां सुधी उत्पन्न थाय ठे. वाकीना की-लिकादि चार संहननवाला बवे देवलोक उत्तरोत्तर वृद्धि करतां, त्यां सुधी गमन करी शके ठे. प्रथम संहननवाला मोक्ष सुधी गमन करी शके ठे; अने जेनुं आयुष्य सात लव अधिक होत तो ते अवश्य मोक्ष जात तेज सर्वार्थसिद्ध विमानमां उत्पन्न थाय ठे, यदाह ॥ सत्तलवा जइ आउं, पढुप्पमाणं तउहु सिउजंता ॥ तित्तियमित्तं नहुयं, तत्तो लवस-त्तमा जाया ॥१॥ सव्वठ सिद्धनामे, उक्कोसठिसु विजय माईसु ॥ एगावसे-सगज्जा, हवंति लवसत्तमा देवा ॥ २ ॥

प्रश्नः—उपशम श्रेणिएवाला मोक्षयोग्य केवीरीतें थइ शके ठे ?

उत्तरः—सात लव, एक मुहूर्त्तनो अगीआरमो जाग ठे. हवे लव सात वाकी रंछुं ठे आयुष्य जेने, एवा उपशम श्रेणिए खंडित करनारा, पराङ्-मुख थयेला, सातमा गुणस्थानकमां आवीने फरी ढापक श्रेणिए मांडीने सातलवनी वचमांज ढीणमोह गुणस्थानक प्राप्त करी अंतःकृत केवली थइ मोक्ष गमन करे ठे. ते कारणथी दूषण नथी. तथा जे पुष्टायु वाला उपशम श्रेणिए करे ठे. ते अखंडित श्रेणिएथी चारित्र मोहनीयनो उपशम करीने अगीआरमा गुणस्थानकें पहांची उपशम श्रेणिए समाप्त करी नीचे पढे ठे.

हवे उपशमकजः अपूर्वादि गुणस्थानकोमां जे करे ठे ते कहियेठियें.

श्रेणि ते जवमां करी शकता नथी. यदाह ॥ जीवोहु एक जम्मंमि, इक्कसिं उवसामगो ॥ खयति कुज्जानो कुज्जा, दोवारे उवसामगो ॥ १ ॥

हवे उपशम श्रेणिवालाना जवोनी संख्या कहियें ठियें. आ संसारमां एकजीव आश्रयी अनेक जवमां थइ चार वार उपशम श्रेणि थाय ठे, अने एकजवमां वे वार थाय ठे. यदाह ॥ उवसम सेणि चउक्कं, जायइ जीवस्स आजवं नूणं ॥ तो पुण दो एगजवे, खवगे स्सेणी पुणोपगा ॥ १ ॥ उपशम श्रेणिनी स्थापना आ आगलना मंत्रथी जाणी लेवी. आ मंत्रनी संवादक आ गाथा ठे. गाथा ॥ अणदंसण पुंसिठी, वेयठक्कं च पुरिसवेयं च ॥ दोदो एगंतरिए, सरिसे सरिसं उवसमेइ ॥ १ ॥ अर्थः-

प्रथम अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, अने लोचनो उपशम करे ठे, पठी मिथ्यात्वमोह, मिश्रमोह, अने सम्यक्त्व मोहने उपशमावे ठे, पठी नपुंसकवेद, पठी स्त्रीवेद, पठी हास्य, रति, अरति, जय, शोक, जुगुप्सा, ठ नोकपायने उपशमावे ठे, पठी पुरुषवेद, पठी अप्रत्याख्यानी क्रोध, तथा प्रत्याख्यानी क्रोध, पठी संज्वलन क्रोध, पठी अप्रत्याख्यानी मान, तथा प्रत्याख्यानी मान, पठी संज्वलन मान, पठी अप्रत्याख्यानी माया तथा प्रत्याख्यानी माया, पठी संज्वलन माया, पठी अप्रत्याख्यानी लोच, तथा प्रत्याख्यानी लोच, पठी संज्वलन लोच ए प्रमाणे अनुक्रमें उपशांत करे ठे.

हवे ऋषक श्रेणिनुं स्वरूप कहियें ठियें. आठमा गुणस्थानकनी पे-हैलां योगी (ऋषक मुनि) ऋषक श्रेणिए चडीने कर्मद्वय करवामां प्रवृत्त थतां जे जे कर्म प्रकृतिनो द्वय करे ठे, ते लखीए ठीयें. चरमशरीरी, अवद्धायु, अद्वयकर्मिने ऋषकमुनिनो चोथा गुणस्थानमां नरकायुनो द्वय थइ जवाथी, तथा पांचमा गुणस्थानमां तिर्यगायुनो द्वय थइ जवाथी, सातमा गुणस्थानमां देवायुनो द्वय थइ जाय ठे. वही अहीयां सातमा गुणस्थानमां दर्शनमोहसप्तकनो पण द्वय थइ जाय ठे. त्थार पठी ऋषकमुनिने एकसो आडत्रीश कर्मप्रकृतिनीज सत्ता रहे ठे त्त्यारे, आठमा गुणस्थानकनी प्राप्ति थाय ठे. केवी रीतें थाय ठे ? उक्कइ धर्म-ध्यान, रूपातीत लक्षणरूप, तेनुं वारंवार सेवन करतां अज्यासरूप थइ जवाथी तत्त्वप्राप्ति थाय ठे. यदाह ॥ अज्यासेन जिताहारो, ज्ज्यासे-नैव जितासनः ॥ अज्यासेन जितश्वासो, ज्ज्यासेनैवानिततुटिः ॥ १ ॥

अन्यासेन स्थिरं चित्त, मन्व्यासेन जितेंद्रियः ॥ अन्यासेन परानंदा-
ऽन्यासेनैवात्मदर्शनं ॥ २ ॥ अन्यासवर्जितैर्ध्यानैः, शास्त्रार्थैः फलमस्ति
न ॥ जवेन्नहि फलैस्तृप्तिः, पानीयप्रतिविंवितैः ॥ ते कारणथी अन्यास-
थीज विशुद्धतत्वानुयायिनी बुद्धि थाय ठे.

हवे आठमा गुणस्थानमां शुक्लध्यान जेनुं स्वरूप हवे लखवामां आ-
वशे तेनो आरंज थाय ठे ते कहिये त्रियें, शुक्लध्याननो प्रथम पायो पृ-
थक्त्व वितर्क सप्रविचार नामनो ठे. तेनुं ध्यान करनार मुनि वज्ररूप-
जनाराच नामा प्रथम संहननयुक्त होय ठे.

हवे ध्यान करनारनुं स्वरूप कहियेंत्रियें, योगीन्द्र, कृपकमुनीन्द्र, व्य-
वहार अपेक्ष्य, ध्यान करवाने योग्य थाय ठे, शुं करीने ? निविड, हठ,
पर्यकासन करीने, केवी रीतें ? निश्चल आसन करीने; कारण के आ-
सन जयज ध्यानना प्रथम प्राण ठे. यदाह ॥ आहारासण निदा, जयं
च काञ्जण जिणवर मण ॥ जाइका नियं अत्पा, उवइठं जिणवरिदेण
॥ १ ॥ पर्यकासन जंघाना अधोजागमां पग उपर करवाथी थाय ठे. वली
केटलाएक सिद्धासन करेठे, तेनुं स्वरूप आ प्रमाणे ठे. ॥ योनिं वाम-
पदा परेण निविडं, संपीड्य शिश्रं हनुं । न्यस्योरस्यचलेंद्रियः स्थिरमना
लोलां च ताद्वंतरे ॥ वंशस्थैर्यतया सुनिश्चलतया, पश्यन् त्रुवोरंतरं ।
योगी योगविधिप्रसाधनकृते, सिद्धासनं साधयेत् ॥ १ ॥ वली आस-
ननो कांइ नियम नथी एम पण वतावेहुं ठे, जे आसनथी चित्तनी स्थि-
रता थाय, एवुं गमे तेवा प्रकारनुं आसन होय, ते वास्तविक ठे. वली
ते योगीन्द्र केवा होय ठे ? नासिकाना अग्रजागमां जेणे नेत्रनी दृष्टि
स्थापन करेली ठे, एवा प्रसन्ननेत्रवाला ठे, कारण के नासाग्रन्यस्त लो-
चनवालाज ध्यानना साधक होय ठे ॥ यदाह ॥ ध्यानदंडकस्तुतौ ॥
नासावंशाग्रजाग, स्थितनयनयुगो, मुक्तताराप्रचारः । शेषाद्दक्षीणवृत्ति,
स्त्रिजुवनविधरो, द्रुांतयोगैकचक्षुः ॥ पर्यकातंकशून्यः, परिगलितघनो,
ह्वासनिःश्वासवातः । सद्धानारंजमूर्ति, श्रमवतु जिनो, जन्मसंचूतिजीतेः
॥ १ ॥ वली ते योगीन्द्र केवा होय ठे ? किंचित् उन्मीलित अर्द्धविक-
सित नेत्र ठे जेनां, कारण के योगियोनां समाधिसमयमां नेत्र अर्द्धवि-
कसित होय ठे. ॥ यदाह ॥ गंजीरस्तंजमूर्ति, व्ययगतकरणं, व्यापृ-

तिर्मदमदं । प्राणायामोललाट, स्थलनिहितमना, दत्तनासाग्रदृष्टिः ॥
 नाऽत्युन्मीलन्निमील, ज्ञयनमतितरां, वरुपर्यकबंधो । ध्याने प्रध्याय
 शुक्लं, सकलविदग्धव, यः सपायाङ्गिनोवः ॥ १ ॥ वली केवा ठे ते यो-
 गींद्र ? मन, चित्त, अंतःकरणना विकल्परूप व्यापारने बंध क्यों ठे,
 जेणें कारण के विकल्पज दृढकर्म बंधननो हेतु ठे. यदाह ॥ शुजावाह्य-
 शुजावापि, विकल्पा यस्य चेतसि ॥ सस्वं बध्नात्ययः स्वर्ण, बंधना तेन कर्म-
 णा ॥१॥ वरं निद्रा, वरंमूर्धा, वरं विकलताऽपि वा ॥ नत्वार्त्तरौद्रकुलेश्या,
 विकल्पाकुक्षितं मनः ॥ २ ॥ वली ते योगी केवा ठे ? संसारनो उधेद
 करवा वास्ते उधम ठे जेनो एवा ठे, कारण के जवने उधेद करवानी
 अजिलाषावाला ध्यानवाननेज योगनी सिद्धि थाय ठे. यदाह ॥ उत्सा-
 हान्निश्चयाङ्कैर्या, त्संतोषात्तत्त्वदर्शनात् ॥ मुनेर्जनपदत्यागा, त्पङ्क्तिर्योगः
 प्रसिद्धयेदिति ॥ १ ॥ तथा योगींद्रमुनि पवनने उध्वं प्रचारासि दश-
 मद्धार गोचर प्राप्त करे ठे. शुं करीने प्राप्त करे ठे ? अपानद्धार मार्गशी
 गुदाने रस्ते पोतानी इष्टाशी निकलता पवनने संकोचीने, मूलबंध युक्ति
 पूर्वक करे ठे. ते मूलबंध आ ठे ॥ पार्ष्णिजागेन संपीड्य, योनिमाकुंच-
 येद्गुदं ॥ अपानमूर्द्धमाकुप्य, मूलबंधोनिगद्यते ॥ १ ॥ आ आकुंचन क-
 र्मज प्राणायामनुं मूल ठे. ॥ यद्गुक्तं ॥ ध्यानदंडस्तुतौ ॥ संकोच्यापानरंभं
 हुतवह सदृशं, तंतुवत्सूक्ष्मरूपं । धृत्वा हृत्पद्मकोशे, तदनु च गलके ता-
 लुनि प्राणशक्तिं ॥ नीत्वा शून्यां, पुनरपि खगतिं, दीप्यमानं समंतात्,
 लोकालोकावलोकं, कलयति सकलां यस्य तुष्टो जिनेशः ॥ १ ॥

हवे पूरक प्राणायामनुं स्वरूप कहियेंठियें. योगी पूरक ध्यानना यो-
 गशी अतिप्रयत्नपूर्वक सर्व देहगतनाडीसमूहने पवनशी पूरे ठे. शुं क-
 रीने.? वार आंगल सुधी पवननुं आकर्षण करीने, अर्थात् वहारशी सर्व
 वाजुएशी वार आंगलप्रमाणे पवनने खेंचीने पूरेठे. तात्पर्य ए ठे के
 आकाश तत्व वहेतां थकां नासिकानी अंदरज पवन होयठे, अमितत्व
 वहेतां थकां चार आंगल प्रमाण वहार पवन उध्वगति स्फुरे ठे, वायु
 तत्व वहेतां ठ आंगल प्रमाण वहार पवन तिर्यग् स्फुरे ठे, पृथ्वीतत्व
 वहेतां थकां आठ आंगल प्रमाण वहार पवन मध्यम जागमां रहे ठे,
 अने जल तत्व वहेतां थकां वार आंगल प्रमाण पवन नीचे वहे ठे. एवी

रीति वार आंगल पर्यंत वारुण मंडल प्रचार अमृतमय पवन आकर्षणशी तेतुं नाम पूरकध्यानकर्म कहेवाय ठे.

हवे रेचक प्राणायाम कहियें ठियें. पूरक ध्याननी अनंतर साधक योगी, योगसामर्थ्यशी तेमज प्राणायाम अन्यासबलशी रेचकनामा पवन, नात्रिकमल उदरशी हलवे हलवे वहार काठे ठे, तेतुं नाम रेचक ध्यान ठे. यदाह ॥ वज्रासनः स्थिरवपुः स्थिरधीः सचित्त, मारोप्य रेचक समीरणजन्मचक्रे ॥ स्वांतेन रेचयति नाडिगतं समीरं, तत्कर्म रेचक मिति प्रतिपत्तिमेति ॥ १ ॥

हवे कुंजक ध्यान कहियें ठियें. योगी कुंजकनामा पवन, नात्रिकज कुंजक ध्यान अर्थात् कुंजककर्मप्रयोगशी कुंजवत् अर्थात् घडारूपं अतिशयेंकरी स्थिर करे ठे. ॥ यदाह ॥ चेतसि श्रयति कुंजकचक्रं, नाडिकासु निविडीकृतवातः ॥ कुंजवत्तरति यज्जलमध्ये, तद्दंति किल कुंजककर्म ॥ १ ॥ इति देशमात्र प्राणायामस्वरूपं.

हवे पवन जीतवाची मन वश थाय ठे, तेतुं स्वरूप कहियें ठियें. ज्यां मन ठे, त्यां पवन ठे, अने ज्यां पवन ठे, त्यां मन ठे. यदाह ॥ दुग्धांबुवत् संमिक्षितौ सदैव, तुल्यक्रियो मानसमारुतौ हि ॥ यावन्मनस्तत्र मरुत्प्रवृत्ति, यावन्मरुत्तत्र मनःप्रवृत्तिः ॥ १ ॥ तत्रैकनाशादपरस्य नाश, एकप्रवृत्तेरपरप्रवृत्तिः ॥ विध्वस्तघोरैर्द्वियवर्गाशुद्धि, स्तद्भूसनान्मोक्षपदस्य सिद्धिः ॥ २ ॥ आ प्रमाणे पूरक, रेचक, कुंजक पवनोनां अनुक्रमेण आकुंचन, निर्गमन साधीने, वायुनो संग्रह, तेमज चित्तनुं एकाग्रपणुं चिंतन करीने समाधिविधे निश्चलपणुं धारण करे ठे, कारण के पवन जीतवाचीज मन निश्चल थाय ठे. यदाह ॥ प्रचलति यदि, क्षोणी चक्रं, चलंत्यचला अपि । प्रलयपवन, प्रेखालोला, श्रलंति पयोधयः ॥ पवन जयिनः, स्वावष्टंज, प्रकाशितशक्तयः । स्थिरपरिणते, रात्मध्याना, चलंति न योगिनः ॥ २ ॥

हवे जावनीज प्रधानतातुं स्वरूप कहीयें ठियें. ऋषक श्रेणि आरौह करतां प्राणायामनो क्रम अर्थात् प्रौढ पवननो अन्यासक्रम जे कहेलो ठे, ते प्रागल्भ्यता अर्थात् रूढिपूर्वक जे प्रसिद्ध ठे, तेम वतावेलो ठे परंतु प्राणायाम करे तोज ऋषकश्रेणिए चडी शके एवो कांइ नियम नथी,

कारण के रूपकनो जावज रूपक श्रेणिनुं कारण ठे, परंतु प्राणायामादि जे आडंबर ठे ते कारण नहीं. यथा चर्पटिनापि ॥ नासाकंदं नाडीवृंदं, वायोश्चारः प्रत्याहारः ॥ प्राणायामो वीजग्रामो, ध्यानाच्यासो मंत्रन्यासः ॥ १ ॥ हृत्पद्मस्थं ब्रूमध्यस्थं, नासाग्रस्थं श्वासांतःस्थं ॥ तेजः शुद्धं ध्यानं बुद्धः, उँकाराख्यं सूर्यप्रनाख्यं ॥ २ ॥ ब्रह्माकाशं शून्याज्ञासं, मिथ्याजटपं चिंताकटपं ॥ कायाक्रांतं चित्तत्रान्तं, त्यक्त्वा सर्वं, मिथ्या गर्वं ॥ ३ ॥ गुर्वादिष्टं चिंतितमिष्टं, देहातीतं जावोपेतं ॥ त्यक्त्वा छंदं, नित्यानंदं; शुद्धं तत्त्वं जानीहि त्वं ॥ ४ ॥ अन्यच्च ॥ ओंकाराऽन्यसनं विचित्रकरणैः, प्राणस्य वायोर्जया । तेजश्चित्तनमात्मकायकमले, शून्यांतरालंबनं ॥ त्यक्त्वा सर्वमिदं कलेवरगतं, चिंतामनोविभ्रमं । तत्त्वं पश्यत जटपकटपनकला, स्तीतं स्वजावस्थितं ॥ १ ॥ आ सर्वं रूढिपूर्वक रूपक श्रेणिना आडंबर ठे, परंतु तत्वथी तो मरुदेवादिवत् जावज प्रधानं ठे.

हवे शुक्ल ध्यानना प्रथम पायानुं नाम कह्यैँ ठियें. मन, बचन, कायाना योगने बशकरनार मुनिने शुक्लध्याननो प्रथम पाद थाय ठे, ते पाद केवो ठे ? वितर्कसहित जे बर्ते ते सवितर्क, विचारसहित जे बर्ते ते सविचार, पृथक्त्वसहित जे बर्ते ते सपृथक्त्व. आ त्रणविशेषणयुक्त होवाथी शुक्लध्यानना प्रथम पायानुं नाम सपृथक्त्व, सवितर्क, सप्रविचार ठे.

हवे आ त्रणे विशेषणोनुं स्वरूप कह्यैँ ठियें. पूर्वोक्त प्रथम शुक्लध्यान त्रयात्मक क्रमोक्रमें गृहीत विशेष त्रण रूपें ठे. तेमां श्रुतचित्तरूप वितर्क ठे, तथा शब्द अर्थ योगांतरमां जे संक्रमण करवुं ते विचार ठे, अने द्रव्य, गुण, पर्यायादिथी जे अन्यपणुं ठे ते पृथक्त्व ठे.

हवे आ त्रणे विशेषणना प्रगट अर्थ कह्यैँ ठियें, जे ध्यानमां अंतरंगध्वनिरूप वितर्क, विचार रूप होय ते सवितर्क ध्यान ठे, कारण के स्वकीय निर्मल परमात्मतत्व अनुभवमय अंतरंग जावगत आगमना अवलंबनथी आ सवितर्कध्यान थाय ठे. जे ध्यानमां पूर्वोक्त वितर्क विचाररूप अर्थथी अर्थांतरमां संक्रमण होय, शब्दथी शब्दांतरमां संक्रमण होय, तथा योगथी योगांतरमां संक्रमण होय ते सविचार संक्रमण कहेवाय ठे. तथा जे ध्यानमां पूर्वोक्त वितर्क सविचार अर्थ व्यंजन योगां-

तर संक्रमणरूप पण शुद्धात्मानी पेटे ड्रव्यथी ड्रव्यांतरमां जाय ठे, अथवा गुणोथी गुणांतरमां जाय ठे, अथवा पर्यायोथी पर्यायांतरमां जाय-ठे, तेमां सहजावी ते गुण ठे; जेम के सुवर्णमां स्निग्धता, पीतता ठे, इत्यादि, अने क्रमजावी ते पर्याय ठे, जेमके सुवर्णमां मुद्रा, कुंडलादि. ते ड्रव्यगुण पर्यायांतरोमां जे ध्यानमां अन्यत्व पृथक्त्व ठे ते सपृथक्त्व ठे.

हवे शुद्ध ध्यानथी जे शुद्धि थाय ठे ते कहियें ठियें. समाधिवान् योगी पूर्वोक्तत्रयात्मक पृथक्त्व वितर्क सप्रविचार शुद्ध ध्यानने ध्यातां यकां परम प्रकृष्ट विशुद्धिने प्राप्त थाय ठे, ते शुद्धि केवी ठे? मुक्ति रूप लक्ष्मीना मुखने देखाडनारी ठे.

हवे तेनुं कांश्च विशेष स्वरूप कहियें ठियें. यद्यपि आ शुद्धध्याननो पायो प्रतिपाती (पतनशील) उत्पन्न थाय ठे, तो पण अति विशुद्ध हो-वाथी अर्थात् अत्यंत निर्मल होवाथी उपरना गुणस्थानमां आरोह कर-वानी चाहना रह्या करे ठे, अर्थात् उपरना गुणस्थानमां दोढेठे.

अपूर्वकरण गुणस्थानस्थ जीव निद्राद्विक, देवद्विक, पंचेंद्रियजाति, प्रशस्त विहायोगति, त्रसनवक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, कर्मण, वै-क्रिय उपांग, आहारक उपांग, आद्यसंस्थान, निर्माणनाम, तीर्थकरनाम, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, उद्वास. आ वत्रीश कर्मप्रकृतिनो बंधव्यवच्छेद थवाथी, ठवीश कर्म प्रकृतिनो बंध करेठे. तथा ठेली त्रण संहनन, अने सम्यक्त्व मोह, आ चारनो उदयव्यवच्छेद थवाथी वोंतेर कर्म प्रकृति वेदे ठे. अने १३० कर्म प्रकृतिनी सत्ता ठे. इति क्षपक श्रे-णि आठमा गुणस्थाननुं स्वरूप.

हवे क्षपक, अनिष्टतिनामा नवमा गुणस्थानकपर आरोह करेठे ल्यारे जे जे कर्म प्रकृतिनो ज्यां ज्यां क्षय थाय ठे, ते कहियेंठियें. क्षपकमुनि नवमा गुणस्थानकना नवजाग करे ठे. प्रथम जागमां सोल कर्म प्रकृतिनो क्षय करे ठे, ते आ प्रमाणे ठे, १ नरकगति, २ नर-कानुपूर्वी, ३ तिर्यग्गति, ४ तिर्यचानुपूर्वी, ५ साधारणनाम, ६ उद्यो-तनाम, ७ सूक्ष्म, ८ द्वीन्द्रियजाति, ९ त्रीन्द्रियजाति, १० चतुरिन्द्रिय जाति, ११ एकैन्द्रियजाति, १२ आतपनाम, १५ स्थानर्द्धित्रिक, १६ स्था-वरनाम. तथा बीजा जागमां अप्रत्याख्यान कपायनी तथा प्रत्याख्यान क-

षायनी चोक्की करे ठे, त्रीजा जागमां नपुंसक वेदनो अने चोथा जागमां स्त्रीवेदनो करे ठे, पांचमा जागमां हास्य, रति, अरति, जय, शोक, जुगुप्सा ठ नोकपायनो करे ठे, वाद ध्याननी अति निर्मलताथी ठा जागमां पुरुषवेदनो, सातमा जागमां संज्वलन क्रोधनो, आठमा जागमां संज्वलन माननो, अने नवमा जागमां संज्वलन मायानो करे ठे, तथा आ गुणस्थानमां वर्तता मुनि हास्य, अरति, जय, जुगुप्सा, आ चारनो व्यवहेद होवाथी, बावीश प्रकृतिनो बंध करे ठे, अने हास्यपट्टनो उदयव्यवहेद थवाथी ठासठ प्रकृतिने वेदेठे. तथा नवमा अंशमां मायापर्यंत प्रकृतियोनो करे करवाथी, पांतीश प्रकृति व्यवहेद थवाथी एकसो त्रण प्रकृतिनी सत्ता ठे.

हवे कपकना दशमा गुणस्थानकनुं स्वरूप लखीयें ठियें. पूर्वोक्त नवमा गुणस्थानक अन्तर कपकमुनि सूक्ष्म संपराय नामा दशमागुणस्थानपर आरोह करे ठे. शुं करीने ? कणमात्रमां संज्वलनना स्थूल लोचनो करे करतां थकां आरोह करे ठे. सूक्ष्म संपराय गुणस्थानस्थ जीव, पुरुषवेद तथा संज्वलन चतुष्कनो बंधव्यवहेद थवाथी सत्तर प्रकृतिनो बंध करे ठे, अने त्रण वेद तथा त्रण कपायनो उदयव्यवहेद थवाथी साठ प्रकृति वेदे ठे, मायानी सत्ता व्यवहेद थवाथी एकसो वे प्रकृतिनी सत्ता ठे.

हवे कपकमुनिने अग्नीआरमुं गुणस्थानक प्राप्त थतुं नथी, परंतु दशमा गुणस्थानकथी सूक्ष्म लोचना अंशोना सूक्ष्म खंड करतां करतां कपक, वारमा क्षीणमोहवीतराग गुणस्थानमां जाय ठे. अर्हीयां कपक श्रेणि समाप्त करे ठे. तेनो अनुक्रम आ प्रमाणे ठे. प्रथम अन्तानुबंधी चार कपायनो करे ठे, पठी सिध्यात्व मोहनीयनो, पठी मिश्रमोहनीयनो, पठी सम्यक्त्व मोहनीयनो, पठी अप्रत्याख्यान चार कपायनो, पठी प्रत्याख्यान चार कपायनो, पठी नपुंसक वेदनो, पठी हास्यपट्टकनो, पठी पुरुषवेदनो, पठी संज्वलन क्रोधनो, पठी संज्वलन माननो, पठी संज्वलन मायानो अने ठेवटे संज्वलन लोचनो करे ठे.

हवे वारमा गुणस्थानमां शुक्लध्याननो चीजोपायो प्राप्त थाय ठे तेनुं स्वरूप कहियें ठियें. कपकमुनि क्षीणमोही थवाथी वारमा गुणस्थान

मार्गमां परिणतिमान् यद्ने प्रथम शुक्लध्याननी रीतिमुज्व वीजा शु-
क्लध्याननो आश्रय करे ठे. केवी रीतें ? वीतराग यद्जवाथी "वीतराग"
अर्थात् विशेषेण इतो (गतो), रागोयस्मात् सवीतरागः, वली ते ऋपक
मुनि केवा ठे ? महायति, यथाख्यातचारित्री, शुद्धतर जावसंयुक्त एवा
ऋपक शुक्लध्यानना वीजा पायानो आश्रय करे ठे.

हवे तेज शुक्लध्याननां विशेषण नामसहित कहियें ठियें. ते हीण
मोहगुणस्थानवर्ती ऋपकमुनि, वीजा शुक्लध्यानने एकयोगधी ध्यायें ठे,
यदाह ॥ एकं त्रियोगजाजा, मायं स्यादपरमेकयोगवतां ॥ तनुयोगिनां
तृतीयं, नियोगानां चतुर्थं हि ॥ १ ॥ केवुं ध्यान ठे ? "अपृथक्त्वं पृ-
थक्त्ववर्जितं, अविचारं विचाररहितं, सवितर्कगुणान्वितं वितर्कजाव
गुणसंयुक्तं" एवां वीजो शुक्लध्यानने ध्यायठे.

हवे अपृथक्त्वनुं स्वरूप कहियें ठियें. तत्वज्ञाता एकत्व अर्थात् अ-
पृथक्त्व ज्ञानने धारण करे ठे, ते एकत्वपणुं शुं ठे ? जे केवल निजा-
त्मद्रव्य अर्थात् विशुद्ध परमात्मद्रव्य ठे तेज अथवा तेज परमात्मा द्र-
व्यनो केवल एक पर्याय, अथवा केवल एकगुण ए प्रकारें एक द्रव्य,
एक गुण, एक पर्याय, निश्चल अर्थात् चलनरहित ज्यां ध्यान करवामां
आवे ते एकत्व ठे.

हवे अविचारनुं स्वरूप कहियें ठियें. जे सद्ज्ञानकोविदोए शास्त्र आ-
म्नायथी शुक्लध्याननुं रहस्य जाणुं ठे, तेउए अविचार विशेषणसंयुक्त
वीजा शुक्लध्याननुं स्वरूप आ प्रमाणे कळुं ठे. पूर्वोक्तस्वरूपोमां व्यंजन
अर्थयोगोमां अर्थात् शब्दार्थ योगरूपोमां परावर्तविवर्जित शब्दथी श-
ब्दांतर इत्यादि क्रमथी रहित एवुं चिंतन श्रुत अनुसारेज करवामां आ-
वे ते अविचार ठे. आ कालमां सद्ध्यानकोविद अर्थात् शुक्लध्यानना
जेउ ज्ञाता ठे, तेउ पूर्वमुनिप्रणीत शास्त्र आमनाय विशेषथी ठे; परंतु आ
कालमां शुक्लध्यानना कोइ अनुजवी नथी. यदाहुः ॥ श्रीहेमचंद्रसूरि-
पादाः ॥ अनविष्ठित्याम्नायः, समागतोऽस्येति कीर्त्यतेऽस्मात्तिः ॥ दुष्कर
मप्याधुनिकैः, शुक्लध्यानं यथाशास्त्रं ॥ १ ॥

हवे सवितर्कनुं स्वरूप कहियें ठियें. सवितर्कगुणसंयुक्त वीजुं शुक्ल-

ध्यान जावश्रुतना आलंबनथी थाय ठे, सूक्ष्म अंतर्जट्टप जावगत अवलंबनमात्र चिंतवनथी थाय ठे.

हवे शुक्लध्यानजनित समरसीजावनुं स्वरूप कहियें ठियें. बीजा शुक्लध्यानमां वर्त्तता ध्यानी समरसीजाव धारण करे ठे. समरसीजाव एटले तदेकशरणता. कारण के आत्माने अपृथक्स्वरूपें परमात्मां लीन करीए त्यारेज समरसीजाव धारण थाय ठे. समरसीजाव केम करे? आत्माना अनुभवथी करे.

हवे क्षीणमोहगुणस्थानकने अंते शुं करे ठे? ते कहियें ठियें. पूर्वोक्त ध्यानथी तेमज बीजा शुक्लध्यानना योगथी कर्मशंभनोनुं दहन करीने योगांद्रमुनि अंतना प्रथमसमये अर्थात् वारमा गुणस्थानकना बीजा चरमसमयमां निद्रा अने प्रचला आ वे प्रकृतिनो दाय करे ठे.

हवे अंतसमये जे करे ठे ते कहियें ठियें. क्षीणमोह गुणस्थानके अंतसमयमां १ चक्षुदर्शन, २ अचक्षुदर्शन, ३ अवधिदर्शन, ४ केवलदर्शन, आ चार दर्शनावरणीय, तथा पांचप्रकारनां ज्ञानावरणीय, अने पांचप्रकारना अंतराय, ए चौद प्रकृतिनो दाय करीने क्षीणमोहांश थइने केवल स्वरूप थाय ठे. तथा क्षीणमोहगुणस्थानस्थ जीव, दर्शनचतुष्क, ज्ञानांतरायदशक, उच्चगोत्र, यशनाम, ए सोल प्रकृतिनो बंधव्यवछेद थवाथी एक शातावेदनीयनो बंध करे ठे. तथा १ संज्वलनलोच, २ रूपजनाराच संहनन, वे प्रकृतिनो उदयव्यवछेद थवाथी सत्तावन प्रकृति वेदे ठे. तथा संज्वलन लोचनी सत्ता दूर थवाथी एकसो एक प्रकृतिनी सत्ता ठे.

हवे क्षीणमोहांत प्रकृतियोनी संख्या कहियें ठियें. चोथा गुणस्थानकथी दाय थती थती त्रेसठ प्रकृति क्षीणमोहमां संपूर्ण थाय ठे. एक प्रकृति चोथा गुणस्थानकमां, एक पांचमामां, आठ सातमामां, ठत्रीश नवमामां, सत्तर चारमामां, एम सर्व मली त्रेसठ थइ. वाकीनी पंचाशी प्रकृति जीर्ण वस्त्रनी जेवी तेरमा सयोगी केवली गुणस्थानकमां रहे ठे.

हवे सयोगीकेवलीने जे जाव तथा सम्यक्त्व, अने चारित्र थाय ठे ते कहियें ठियें. ते केवली जगवंत आत्माने आ गुणस्थानकमां दायिक शुरूजाव प्रगट थाय ठे, परम उत्कृष्ट दायिक सम्यक्त्व थाय ठे, अने

यथाख्यातनामा द्वायिक चारित्र थाय ठे, मतलब के उपशम अने क्योपशम आ वे जाव रहेता नथी.

हवे ते केवली आत्माना केवलनी विज्ञूति कहियेंठियें. ते केवलज्ञान रूप सूर्यना प्रकाशथी चराचर जगत् केवलज्ञानी आत्माने हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष ज्ञासन थाय ठे. आ स्थले केवलज्ञानने. सूर्यनी उपमात्र व्यवहारथीज कही ठे. निश्चय स्वरूपें तो केवलज्ञान अने सूर्यमा अपार अंतर ठे.

हवे जे आत्माउं तीर्थकरनामकर्म उपार्जन करे ठे तेनुं विशेष स्वरूप कहियेंठियें. अर्हतजक्तिप्रमुख वीशपुण्यस्थानकोनुं जे आत्माउं विशेष आराधन करे ठे, तेउं तीर्थकरनाम कर्म उपार्जन करे ठे. ते वीशस्थानक आ ठे. गाथा ॥ अरिहंत सिद्ध पवयण, गुरु थेर बहुस्सुए तवस्तीसु ॥ वज्रलयाइसु, अजिस्कण्णो वजग्गेय ॥ १ ॥ दंसण विणए आव, स्सए सीलव्वए निरइयारे ॥ खणलवच्चियाए, वेयावच्चे समाहीयं ॥ २ ॥ अपुव्व नाणग्गहणं, सुयज्जत्ती पवयण पजावणया ॥ एएहिं कारणेहिं, तिठयरत्तं लहइ जीवो ॥ ३ ॥ आ गाथाउंनो अर्थ आगल लखशुं. आ गुणस्थानकमां, तीर्थकर नामकर्मना उदयथी ते केवली त्रिचुवनपति जिनेंद्र थाय ठे. जिन अर्थात् सामान्य केवली, तेउंनो जे इंद्र ते जिनेंद्र कहेवाय ठे.

हवे तीर्थकरना महिमानुं वर्णन करियें ठियें. ते जगवान् तीर्थकर, प्रथम परिच्छेदमां वर्णन कर्या मुजव चोत्रीश अतिशययुक्त होय ठे. सर्व देवताउं तथा मनुष्यो जेमने नमस्कार करेठे, एवा सर्वोत्तम, सकलशासनमां प्रधान एवुं तीर्थप्रवर्त्तन करे ठे, अने उत्कृष्टथी देशोनपूर्वकोटि सुधी विद्यमान रहे ठे.

हवे ते तीर्थकरनामकर्म केवीरीतें वेदवामां आवे ठे तेनुं स्वरूप कहियेंठियें. पृथ्वीमंडलमां विहार करतां जव्यजीवोने प्रतिबोधी, तेउंने सर्वविरति तेमज देशविरति करवाथी तीर्थकरनाम कर्म वेदवामां आवे ठे. जो तीर्थकरनामकर्मनो उदय न होयतो जगवान् कृतकृत्य थवाथी तेमने उपदेश करवानुं शुं प्रयोजन ठे ? ते कारणथी जे वादी जगवानने निःशरीरी, नैरुपाधिक, मुखरहित, सर्वव्यापी माने ठे, ते जगवान् देहादिना अज्ञावथी धर्मेना उपदेशक थइ शकता नथी. जो उपाधिरहित,

सर्वव्यापी परमेश्वर पण उपदेशक थइ शकता होय तो तेवा परमेश्वर आ कालमां अमारा जेवाने केम उपदेश करता नथी ? कारण के ते वादीना कथनमुजब पूर्वकालमां अग्नि आदि ऋषियोने तेमणे प्रेर्या हता, तथा ब्रह्मादिद्वारा चार वेदादिना उपदेश तेमणे कयों हतो, तथा मूसा इसाद्वारा जगतना जीवोने उपदेश कयों, तो हाल केम उपदेश नथी करता ? परोपकारीने उपदेश करवामां शुं विलंब ठे ? जो कहो के आ कालमां सर्वजीव उपदेश देवा योग्य नथी, तेथी उपदेश आपता नथी. तो पूर्वकालमां पण सर्वजीवोए परमेश्वरनो उपदेश मानेलो नथी. जुड. प्रथम तो कालासुर प्रमुख अनेक जीवोए उपदेश मानेलो नथी. बीजो अजाजीवे पण मानेलो नथी, तेमज यहूदाए तेमज केटलाएक इसराइलियोए पण मानेलो नथी; ते कारणथी पूर्वकालमां पण परमेश्वरने उपदेश देवो योग्य न होतो. जो कहो के, परमेश्वरें ते वखते उपदेश केम आप्यो, अने हाल केम आपता नथी, ते वाकतमां तेनी वात ते जाणे, तो पठी तमे एम केम कहोतो के परमेश्वरने मुख नथी ? ते कारणथी तेज सत्य ठे के तीर्थकरनाम कर्मने वेदवा वास्ते जगवान् उपदेश आपे ठे, अने जे वखते उपदेश आपेठे ते वखते देहधारी होय ठे आटली चर्चा वस.

केवलज्ञानवान् पृथ्वीमंडलमां उत्कृष्ट आठ वर्ष न्यून एक कोटि पूर्व प्रमाण विचरे ठे. देवताए रचेला कंचन कमलोपर पग राखी चाखे ठे आठ प्रातिहार्यसंयुक्त अनेक सुरासुरकोटिसंसेवित विहार करे ठे. आ स्थिति सामान्यप्रकारथी केवलज्ञानवान्नी कही ठे. जिनेइ तो मध्यस्थितिवाला होय ठे.

हवे केवली समुद्घातकरण कहियेंठियें. केवलज्ञानवान् ज्यारे वेदनी कर्मनी स्थितिथी आयुकर्मनी स्थिति अल्प जाणे ठे, त्यारे वंने स्थितिउने तुल्य करवावास्ते, केवली समुद्घात करे ठे. ते समुद्घातनुं स्वरूप आ प्रमाणे ठे. प्रथम समुद्घातशब्दना अर्थ कहियें ठियें. यथास्वजावस्थित आत्मप्रदेशोने वेदनादि सात कारणोथी समंतात् उद्घातनं अर्थात् स्वजावथी अन्यजावपणे परिणमन करवुं तेनुं नाम समुद्घात ठे. समुद्घातना सात प्रकार ठे १ वेदना स०, २ कपाय स०, ३ मरण स०,

४ वैक्रिय स०, ५ तेजः स०, ६ आहारक स०, ७ केवलि स०. आ सात समुद्घातमांहेनी केवलिसमुद्घात अर्हींश्चा ग्रहण करवी. केवली जगवान् केवलिसमुद्घात करतां प्रथम समयमां वेदनी आयुर्कर्मने सम करवावास्ते आत्मप्रदेशोथी ऊर्द्धलोकांतसुधी दंडाकार आत्मप्रदेश लंवावे ठे, बीजा समयमां पूर्व, पश्चिमदिशामां आत्मप्रदेशोथी कपाट आकार करे ठे, त्रीजा समयमां उत्तर दक्षिण आत्मप्रदेशोनो मंथनाकार करे ठे, चोथासमयमां अंतरो पूर्ण करवाथी सर्वलोकव्यापी थइ जाय ठे, एवीरीतें केवली चोथे समये विश्वव्यापी थाय ठे.

हवे अर्हींश्चाथी निवृत्ति करे ठे ते कहियें ठियें. ए प्रमाणे केवली आत्मप्रदेशोनो विस्तार करवाना प्रयोगथी कर्मलेशने सम करे ठे; समकर्यां पठी समुद्घातथी पाठा निवर्त्तन करे ठे. पांचमा समयमां जगत् पूर्णताना अंतरोथी निवर्त्ते ठे, ठेठे समये मंथानपणुं दूर करे ठे, सातमे समये कपाटाकार दूर करे ठे, अने आठमे समये दंडत्व उपसंहार करतां थकां स्वप्नावस्थ थाय ठे. ॥ यदाहुर्वाचकमुख्याः। दंडं प्रथमे समये, कपाटमथ चोत्तरे तथा समये ॥ मंथानमथ तृतीये, लोकव्यापी चतुर्थे तु ॥ १ ॥ संहरति पंचमे त्वं, तराणि मंथानमथ पुनः पष्ठे ॥ सप्तमके तु कपाटं, संहरति तथाऽष्टमे दंडं ॥ २ ॥

हवे केवली समुद्घात करतां थकां जेवा योगवान् तथा अनाहारक थाय ठे ते कहियेंठियें. प्रथम अने अंतसमयमां औदारिक काययोगवाला थाय ठे, बीजा अने ठष्ठा समयमां मिश्र औदारिक काययोगी थाय ठे. अर्हीयां मिश्रपणुं कार्मणसाये औदारिकनुं ठे. त्रीजा, चोथा अने पांचमा समयमां केवल कार्मण काययोगवाला थाय ठे. जे समयमां केवली मात्र कार्मणकाययोगवाला होय ठे ते समयमां अनाहारक होय ठे.

हवे जे केवली समुद्घात करे ठे, अने जेठ करता नथी, ते कहियें ठियें. जेठने ठ महिनाथी अधिक आयु विद्यमान ठतां केवल ज्ञान थाय तेठ तो निश्चयें समुद्घात करे ठे; अने जेठनुं आयुष्य ठ महिनानी अंदर होय ते बखते जेठने केवलज्ञान थाय तेठनी वाचतमां जजना ठे, अर्थात् तेठ समुद्घात करे अथवा नहिपण करे. यदाह ॥ ठम्मासाठ

सेसा, उप्पन्नं जेसिं केवलं नाणं ॥ ते नियमा समुग्घाइय, सेसा समुग्घाय जइयवा ॥ १ ॥

हवे समुद्घातथी निवृत्त थइ केवली जे कांइ करे ठे ते कहियेंठियें. केवली समुद्घातथी निवृत्त थइ मन, वचन, काययोग निरोधवा वास्ते शुक्लध्यानना त्रीजा पायाने ध्याय ठे. शुक्लध्याननो त्रीजो पायो सूद्धक्रिया निवृत्ति नामनो ठे. ते पायाथी कंपनरूप क्रियाने सूद्ध करे ठे.

हवे मन, वचन, कायाना योगने जेवीरीतें सूद्ध करे ठे ते कहियेंठियें. ते केवली सूद्धक्रिया निवृत्तिनामा त्रीजुं शुक्लध्यान ध्यातां अर्चित्य आत्मवीर्यनी शक्तिथी वादरकाययोगस्वज्ञावमां स्थित थइने, वादर वचन-योग तथा वादर मनोयोगना पुज्जलोने सूद्ध करे ठे, त्यार वाद वादर काययोगने सूद्ध करे ठे. पठी सूद्धकाययोगमां द्वाण मात्र रहीने तत्काल सूद्धवचन, मनोयोगना पुज्जलोने अपचय करे ठे. त्यारपठी सूद्धकाययोगमां द्वाणमात्र रहीने ते केवली प्रगट निज आत्मानुजव सूद्धक्रिया चिद्रूपनो अर्थात् स्वयमेव पोताना स्वरूपनो अनुजव करे ठे.

हवे जे सूद्धक्रियावाला शरीरनी स्थिति तेज केवलीउनुं ध्यान ठे ते कहिएठिए. जेप्रकारें उच्चस्थ योगीउना मननी स्थिरताने ध्यान कहीए ठीए, तेजप्रकारें शरीरनी निश्चलतानुं केवलीउने ध्यान थाय ठे. शैलेशीकरण आरंज करनारा सूद्धकाययोगी ह्रस्वाद्दर पांच उच्चारण करतां जे काल लागे तेतलुं आयुष्य पोतानुं वाकी रहे ठे त्यारे शरीरने शैलवत् निश्चल करवावास्ते अपरिपातरूप चोथुं शुक्लध्यान शैलेशीकरणरूप थाय ठे. त्यारपठी ते केवली शैलेशीकरणारंजी सूद्धकाययोगमां रहेतां थकां शीघ्र अयोगी गुणस्थानमां जवानी इठा करे ठे.

हवे ते केवली जगवान् सयोगी गुणस्थानना अंत समयमां औदारिकद्विक, अस्थिरद्विक, विहायोगतिद्विक, प्रत्येकत्रिक, संस्थान पट्टक, अगुरु लघुचतुष्क, वर्णादिचतुष्क, निर्माण, तैजस, कर्मणं, प्रथम संहनन, स्वरद्विक, एक वेदनीय आ त्रीश प्रकृतिनो उदयविधेद करेठे. अहींआं अंगोपांगनो उदयव्यवधेद थवाथी अंत्यांग संस्थान अवगाहनाथी त्रीजो जागन्धून अवगाहना करे ठे. केवीरीतें ? पोताना आत्मप्रदेशोने घनरूप करवाथी चरम शरीरनां अंगोपांगमां जे नासिकादि ठिड ठे.

तेजने पूर्ण करे ठे. तेथी आत्मप्रदेशो घनरूप थइ जाय ठे. अने अत्र-गाहना त्रीजो जाग न्यून थाय ठे. ह्वे सयोगी गुणस्थानस्य जीव एक विध बंध, उपांत्य समय सुधी अने ज्ञानांतराय पंच तथा दर्शन चतुष्क उदयव्यवहृद थवाथी वेंतालीश प्रकृति वेदे ठे. तथा १ निद्रा, २ प्रचक्षा, १२ ज्ञानांतराय दशक, १६ दर्शनचतुष्क, आ सोलप्रकृतिनी सत्ता व्यवहृद थवाथी पंचाशी प्रकृतिनी सत्ता ठे.

ह्वे अयोगी गुणस्थानकनी स्थिति कहियें ठियें. चौदमा गुणस्थानकमां रहेतां थकां जिनेंझनी लघु पंचाक्षर “ अइउरुलृ ” उच्चारणमात्र अर्थात् आ पांच अक्षर बोलतां जेटलो काल लागे तेटली स्थिति ठे. अयोगी गुणस्थानकमां अनिवृत्तिनामं शुक्लध्याननो चोथो पाद ठे. तेनुं स्वरूप आ प्रमाणे ठे. जे ध्यानमां सूक्ष्म काययोग क्रिया पण “ समु-ष्ठिन्न ” सर्वथा निवृत्त थइ जाय ठे, ते समुष्ठिन्नक्रिया नामं शुक्लध्याननुं चोथुं ध्यान ठे. ते ध्यान केनुं ठे ? मुक्ति मेहेजना छारतमान ठे.

शिष्य पुठे ठे के मारा मनमां वे शंका ठे. तेनुं समाधान कृपा करी करो ! प्रथम शंका. हे प्रभु ! देह विद्यमान ठतां अयोगी केवी रीतें होइ शके ? वीजी शंका. जो सर्वथा काययोगनो अज्ञाव थयो ठे तो देह-हानो अज्ञाव ठतां ध्यान केवीरीतें घटे ?

आचार्य जगवान् उत्तर आपे ठे. जो शिष्य ! अयोगी गुणस्थानमां सूक्ष्मकाययोग विद्यमान ठतां अयोगी कहेवाय ठे तेनुं कारण ए ठे के ते काययोगथी जे क्रिया थाय ठे ते अति सूक्ष्मरूप ठे, तथा ते काय-योग शीघ्र क्षय पामनार ठे, बली कायानुं कार्य करवामां असमर्थ हो-वाथी काय होवा ठतां पण अयोगी ठे. बली शरीर आश्रय होवाथी ध्यान पण ठे. ते कारणथी बने वावतमां विरोध नथी ते विरोध कोने नथी ? अयोगीगुणस्थानवर्ती परमेष्टि जगवंतने. ते परमेष्टि जगवंत केवा ठे ? निजशुद्धात्मचिद्रूप तन्मय पणे उत्पन्न, निर्जर, परमानंद विराज मान ठे.

ह्वे ध्यानना निश्चय, व्यवहारनुं स्वरूप कहियें ठियें. तत्वथी अर्थात् निश्चय नयथी आत्माज ध्याता ठे, आत्माज करण रूप ठे, आत्माज कर्म

रूपतापन्नने ध्याय ठे. तेनाथी अन्य, उपचाररूप अष्टांगयोग प्रवृत्ति लक्षण ते सर्व व्यवहारनयथी ध्यान जाणवुं.

हवे अयोगी गुणस्थान वर्तिना उपांत्य समयनां कृत्य कहियें त्रियें. केवल चिद्रूपमय आत्मस्वरूपना धारक योगी, अयोगी गुणस्थानवर्ती स्फुट प्रगट उपांत्य समयमां शीघ्र युगपत् समकालें वहाँतेर कर्मप्रकृतिनो क्षय करेठे. ते आ ठे. शरीर पांच, बंधन पांच, संघात पांच, अंगोपांग त्रण, संस्थान ठ, वर्ण पांच, रस पांच; संहनन ठ, अस्थिर ठ, स्पर्श आठ, गंध वे, नीचगोत्र, अगुरुलघु चतुष्क, देवगति, देवानुपूर्वी, खगतिद्विक, प्रत्येकत्रिक, सुस्वर, अपर्याप्तिनाम, निर्माणनाम, वेमांथी कोशपण एक वेदनी, आ वहाँतेर कर्मप्रकृति मुक्तिपुरीना द्वारनी अर्गलाचूत ठे, ते उपांत्य समय अर्थात् द्विचरम समयमां क्षय करेठे.

हवे अयोगी परमात्मा अंतसमयमां जे जे प्रकृति क्षय करीने जे कांश् करेठे ते कहिये त्रियें. अंतसमये एकवेदनी, आदेयनाम, पर्याप्तिनाम, त्रसनाम, वादरनाम, मनुष्यायु, यशनाम, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, सौजाग्य उच्चगोत्र, पंचेंद्रियत्व, तीर्थकरनाम. आ तेर प्रकृति क्षय करीने तेज समयमां सिद्धपर्यायने प्राप्त थायठे. ते सिद्धपरमेष्ठी, सनातन जगवान् शाश्वत लोकांत पर्यंत जायठे. तथा अयोगीगुणस्थानस्थ जीव अबंधक ठे. तथा एकवेदनी, आदेय यश, सुजग, त्रसत्रिक, पंचेंद्रियत्व, मनुष्यगति, मनुष्यायु, उच्चगोत्र, तीर्थकरनाम, आ चार प्रकृति वेदेठे. अंतना वे समय पहेलां पंचाशीनी सत्ता रहेठे, उपांत्य समयमां तेर प्रकृतिनी सत्ता रहेठे. अने अंतसमये सत्तारहित थायठे. इति अयोगी चतुर्दशगुणस्थान स्वरूपं ॥

आशंका:—“निःकर्म” कर्मरहित आत्मा ते समये लोकांतमां केवी सीतें जाय ठे?

समाधान:—कर्मरहित सिद्धनी ऊर्द्धगति थायठे. कया हेतुथी थायठे? पूर्वप्रयोगथी अर्थात् अचित्त्य आत्मवीर्यथी उपांत्य वे समयमां पंचाशी कर्मप्रकृति क्षय करवावास्ते जे व्यापार प्रारंज कयो हतो तेनाथी ऊर्ध्वगति थायठे. आ प्रथम हेतु ठे. तथा कर्मसंगतिरहित थवाथी ऊर्ध्वगति थायठे, आ बीजो हेतुठे. तथा गाढतर बंधनोथी रहित थवाथी

ऊर्ध्वगति थायठे. आ त्रीजो हेतुठे. तथा कर्मरहित जीवनो ऊर्ध्वगमन स्वभाव ठे. आ चोथो हेतु ठे. आ चारहेतु चारदृष्टांतथी वतावीए ठी-ए. १ जेम कुंजकारनुं चक्र पूर्वप्रयोगथी फर्याकरे ठे, तेम आत्मानी पूर्व-प्रयोगथीऊर्ध्वगति थाय ठे. २ जेम माटीना लेपथी रहित यतां तुंबडानी जलमां ऊर्ध्वगति थाय ठे तेम अष्टकर्मरूप लेपरहित यतां धर्मास्तिका-यरूप जलथी आत्मानी ऊर्ध्वगति थाय ठे. ३ जेम परंडफल वीजादि-बंधनोथी तुटुं यतां ऊर्ध्वगमन करे ठे, तेवीजरीते कर्मवीजादि बंध वि-छेद यतां सिद्धपण ऊर्ध्वगमन करे ठे. ४ जेम अग्निनो ऊर्ध्वज्वलन स्व-भाव ठे तेम आत्मानो पण ऊर्ध्वगमन स्वभाव ठे.

हवे कर्मरहित आत्मानी अधोगति तथा तिठीं गति केम यती नथी ते कहिए ठिए. सिद्ध आत्मा कर्मगौरव अज्ञावथी अधोगमन धरतो न-थी, तथा प्रेरककर्म अज्ञावथी तिठीं पण गति करतो नथी, तेमज धर्मा-स्तिकायना अज्ञावथी लोकनी उपर पण गमन करी शकतो नथी. लो-कमांज धर्मास्तिकाय होवाथी ते जीव पुज्जलनी गतिनो हेतुरूप ठे. म-त्स्यादिने जेम जल ठे तेम. ते धर्मास्ति अलोकमां नथी, तेथी सिद्ध अ-लोकमां जइ शकता नथी.

हवे सिद्धशिला उपर लोकांतमां सिद्ध रहेठे तेनुं स्वरूप कहिएठि-ए. ईपत्प्राग्जारा नामनी सिद्धशिला चौद राजलोकना मस्तक उपर व्यवस्थित ठे, तेनाथी सिद्धो पासे होवाथी ते सिद्धशिला कहेवाय ठे. परंतु सिद्ध परमात्मा कांइ ते शिला उपर वेठेला नथी. सिद्ध तो ते शि-लाथी उंचे लोकांतमां विराजमान ठे. ते शिला केवी ठे ? मनोइ, मनो-हारिणी ठे, वली ते शिला केवी ठे ? सुरजि कपुरथी पण अधिक सुगं-धवाली ठे, कोमल ठे, जेना सूक्ष्म श्रव्यवो ठे. वली ते शिला केवी ठे ? पुण्या, पवित्र, परम ज्ञासुरा, प्रकृष्ट तेजवंत ठे, मनुष्यक्षेत्र समान लांबी पहोली ठे, श्वेत ठाकाकार ठे, उत्तान ठाकाकार ठे, अत्यंत शुभ्ररूप ठे, सर्वार्थसिद्धविमानथी वार योजन उपर ठे. वली ते पृथ्वी मध्यजाग-मां आठ योजन जाडी ठे, तथा प्रांतमां घटती घटती मांखीनी पांखथी पण पातली ठे. ते शिलानी उपर एक योजन लोकांत ठे, ते योजननो जे चोथो कोस ठे, ते कोसना ठाकागमां सिद्धोनी श्रवगाहना ठे, अ-

यति वे हजार धनुष्प्रमाण, कोशना ठठा जागमां एटले त्रणसे तेत्रीश धनुष् अने वत्रीश आंगलनी सिद्धोना आत्मप्रदेशोनी अवगाहना ठे.

हवे सिद्धोना आत्मप्रदेशनी अवगाहनानो आकार केवो ठे ते लखीए ठिए. जेम मूस (कुलडी) मां मीण जरीने गालीए, ते गली-जवाथी आकाशनो जेवो आकार थाय ठे तेवो सिद्धोना आकार ठे.

हवे सिद्ध परमात्माना ज्ञान दर्शननो विषय लखीयें ठियें. त्रैलोक्यो दरवर्ती, चौद रज्ज्वात्मकलोकमां गुणपर्यायसंयुक्त जे जे वस्तुं ठे, ते ते जीवाजीव सर्व पदार्थोंने सिद्ध परमात्मा जाणें ठे. सामान्यरूपें देखे-ठे, विशेषरूपें जाणें ठे कारण के वस्तुमात्र सामान्य विशेषात्मक ठे.

हवे सिद्धोना आठ गुण कहियें ठियें. १ ज्ञानावरण कर्मना क्षयथी केवलज्ञान प्रगट थयेल ठे, २ दर्शनावरण कर्मना क्षयथी केवल दर्शन प्रगट थयेल ठे, ३ वेदनीय कर्मना क्षयथी अव्यावाध अनंतसुख थयेल ठे, ४ दर्शन मोहनीय तथा चारित्रमोहनीयनो क्षय थवाथी शुरू.स-म्यक्त्व चारित्र क्षायकरूप थयेल ठे, ५ आयुर्मनो क्षय थवाथी अक्षयगति थयेल ठे, ६ नामकर्मनो क्षय थवाथी अमूर्तपणुं प्रगट थयेल ठे, ७ गोत्रकर्मनो क्षय थवाथी अनंत अवगाहना प्रगट थयेल ठे, ८ अंतरायकर्मनो क्षय थवाथी अनंतवीर्य प्रगट थयेल ठे.

हवे सिद्धोना सुखतुं स्वरूप कहियें ठियें. चक्रवर्तिनी पदवी तेमज इंद्रनी पदवीना सुख करतां सिद्धतुं सुख अनंतगणुं ठे. वली ते सुख केवुं ठे? क्लेशरहित ठे. “अविद्यास्मिता” राग, द्वेष, अज्ञिनिवेश इत्यादि क्लेश जेमां नथी. वली ते सुख केवुं ठे? अव्यय ठे, स्वस्वजावथी व्यय न थाय तेवुं ठे.

हवे सिद्धजगधंतें जे प्राप्त करेल ठे तेनो सार कहियें ठियें. सिद्धज-गधंतें परमपद प्राप्त करेल ठे, ते परमपद केवुं ठे? आराधकोने आराध्य ठे, साधकोए सम्यक्दर्शनज्ञानचारित्रादिथी साधेल ठे, ध्यायकोने ध्येय ठे, निरंतर अनेकप्रकारना ध्यानना उपायथी ध्याववा योग्य ठे; जे पद अज्ञच्यजीवोने सदा दुर्लभ ठे, केटलाएक ज्ञच्यजीवोने पण दुर्लभ ठे, दुर्लभ्योने कष्टथी प्राप्त थाय ठे, एतुं परमपद सिद्धजगधंतें प्राप्त करेल ठे. वली ते पद केवुं ठे? चिदानंदमय चिद्रूप परमानंदरूप ठे.

हवे मुक्तिनुं स्वरूप कहियेंठियें. कोइ वादी अत्यंतज्ञावरूप मुक्ति माने ठे, ते बौद्धोनी मुक्ति ठे. कोइ वादी जडमयी, ज्ञान अज्ञावमयी मुक्ति माने ठे. ते नैयायिक, वैशेषिकमतवालानी मुक्ति ठे. कोइ वादी मुक्ति प्राप्त कर्यापठी फरी ते आत्मा संसारमां अवतार धारण करेठे, फरी मुक्तरूप थाय ठे एवी मुक्ति माने ठे, ते आजीविका मतवालानी मुक्ति ठे. कोइ वादी क्लिष्ट कर्मशी विषयसुखमय मुक्ति माने ठे, ते कहे ठे के, मोक्षमां जोग जोगववा वास्ते बहु अप्सराउ मले ठे, खावा-वास्ते बहु खादिष्ट वस्तुउ मले ठे, पीवा वास्ते खादिष्ट मदिरा मले ठे, रहेवा वास्ते सुंदर वाग मले ठे, इत्यादि. कोइवादी कहे ठे के, आत्मानी मुक्ति कदापि थती नथी, ते जैमिनी मुनिनो मत ठे. खरडज्ञानी कहे ठे के जे वेदोक्त अनुष्ठान करे ठे, ते सर्वथा उपाधिरहित तो यतो नथी; परंतु शुचपुण्यना फलथी सुंदर देह प्राप्त करीने, ईश्वरनी साथे मलीने, केटलाएक कटपो सुधी सुख जोग जोगवे ठे, ज्यां इष्टा थाय त्यां उडीने चाल्या जाय ठे, फरी संसारमां जन्म लहे ठे, फरी पूर्ववत् सुख जोग जोगवे ठे, ए प्रमाणे अनादि अनंतकाल सुधी कर्या करे ठे, परंतु एक स्थलें स्थिति करता नथी, एवी तेमनी मुक्ति ठे, सर्वज्ञ अर्हत परमेश्वरें सत्तरूप, ज्ञानदर्शन रूप, असाररूप, जे आ संसार ठे तेनाथी विरुद्ध, साररूप, निस्सीम. आत्यंतिक सुखरूप, अनंत, अतीन्द्रिय आनंद अनुभवस्थान, अप्रतिपाति, स्वस्वरूपावस्थानरूप, मुक्ति कही ठे. बृहद्गङ्गीय श्रीवज्रसेनसूरिना शिष्य श्रीहेमतिलक सूरि पदप्रतिष्ठित श्रीरत्नशेखर सूरिए चौदगुणस्थानकनुं स्वरूप लखेल ठे, तेने अनुसारें ज्ञापामय किंचित् गुणस्थानक स्वरूप में लखेल ठे.

प्रश्नः— हे जैन ! तमे सर्वे वादिउंनी कहेली मुक्ति अनुपादेय समज्या, अने अर्हतनी कहेली मुक्ति उपादेय समज्या, तेनुं शुं कारणठे ?

उत्तरः— हेजव्य ! सर्वे वादिउंनी मुक्ति, परमदर्शननुं निरूपण चतुर्थ परिच्छेदमां करेल ठे, त्यां वतावेल ठे, ते जोतां आ वादिउंनी मुक्ति वास्तविक नथी. जुउं. ज्यारे अत्यंतज्ञावरूप मुक्ति थाय त्यारे आत्मानो ज अज्ञाव थयो, हवे मोक्षफल कोने प्राप्त थयुं ? एवो कोण होय के जे आत्माना अत्यंतज्ञाववास्ते यत्न करे ? तथा ज्ञानाज्ञावरूप जे मुक्ति.

माने ठे, ते पण वास्तविक नथी, कारण के ज्यारे ज्ञाननो अजाव मुक्तने थाय त्यारे पापाण पण मोक्षरूप थइ जाय. हवे एवो कोण प्रेक्षावान् ठे जे पोंताना आत्माने पापाणतुल्य बनाववा चाहे ? तथा जे आत्मानी सर्वव्यापिरूप मुक्ति माने ठे, अर्थात् ज्यारे आत्मानी मुक्ति थाय ठे, त्यारे आत्मा सर्वव्यापी मोक्षरूप थइ जाय ठे. आ कहेबुं पण प्रमाण अनजिज्ञ मतवालानुं ठे, कारण के आत्मा कोइ प्रमाणथी सर्व लोक-व्यापी सिद्ध थइ शकतो नथी. तेनी विशेष चर्चा जोवी होय तो स्याद् वादरत्नाकरावतारिका अवलोकन करवी. तथा आत्मानो मोक्ष थया पठी फरी संसारमां जन्म लेवो, फरी मुक्त थबुं, आ तो मोक्ष शेनो ? आ तो (ज्ञांडो) नो वेश थयो, ते कारणथी आ मत पण वास्तविक नथी. तथा जे मतवाला मोक्षमां स्त्रियोनो जोग माने ठे, ते विपयना लोलुपी ठे. तथा खरडज्ञानीनी मुक्ति पण अप्रमाणिक ठे, कोइ प्रमाणथी सिद्ध थती नथी. ते कारणथी अर्हत जगवंतें जे मुक्ति कही ठे, ते निर्दोष ठे. ॥ इतिश्रीतपागणीयमुनिश्रीदगणिसणिविजयतद्विष्यमुनिश्रीबुद्धिविजयतद्विष्यमुन्यात्मारामानंदविजयविरचितजैनतत्त्वादृशधर्मतत्त्वनिरूपणाधिकारे (तद्गुर्जर जायांतरे) चतुर्दशगुणस्थानज्ञाननिर्णयनामा षष्ठः परिच्छेदः संपूर्णः ॥ ६ ॥

॥ अथ सप्तमपरिच्छेदप्रारंभः ॥

आ परिच्छेदमां सम्यक् दर्शननुं स्वरूप लखियें ठियें. सम्यक् दर्शननुं स्वरूप पूर्वे कांइक लखी आव्या ठियें, परंतु ज्ञव्यजीवोने बोध थवा वास्ते विस्तारथी लखवानी जरुर ठे तेथी विशेष लखिये ठियें. सम्यक्त्वना वे प्रकार ठे १ व्यवहार सम्यक्त्व, २ निश्चय सम्यक्त्व. यथार्थ तत्त्वरूप विज्ञानपूर्वक रुचि, ते सम्यक्त्व. ते सम्यक्त्व, त्रण तत्त्व उपर यथार्थ रुचि थवाथी थाय ठे. त्रण तत्त्व आ ठे, १ देवतत्त्व, २ गुरुतत्त्व, ३ धर्मतत्त्व. तेनेविषे श्रद्धा (प्रतीति) जे पुरुष करे ते सम्यक्त्ववान् थाय ठे. ते श्रद्धाना वे जेद ठे. १ व्यवहार, २ निश्चय. तेउ मध्येनी प्रथम व्यवहारश्रद्धानुं स्वरूप लखिये ठियें.

व्यवहार श्रद्धामां देव श्री अरिहंत, जेनुं स्वरूप प्रथम परिच्छेदमां वर्णवेबुं ठे, ते अहिंशां जाणी वेबुं. अरिहंतना चार निक्षेप अर्थात् स्व-

रूप ठे. १ नामनिक्षेप, २ स्थापनानिक्षेप, ३ द्रव्यनिक्षेप, ४ जावनिक्षेप
आ चारे निक्षेपतुं विस्तारपूर्वक स्वरूप जोबुं होय तो विशेषावश्यक
अवलोकन करवुं. प्रथम निक्षेप, नाम अर्हंत अर्थात् “नमो अरिहंतानुं”
एम कहेवुं. आ पदनो जप करवाथी अनेक जीव संसारसमुद्र तरी ग-
येल ठे. वीजो स्थापनानिक्षेप, ते अरिहंतनी प्रतिमा, समस्त दोष चि-
होथी रहित सहज सुजग, समचतुरस्र संस्थानवाली, पद्मासन, कायो-
त्सर्ग मुद्रारूप, शांतरसमय जिनविंव देखीने, तेनी सेवा, पूजा, जक्ति
करवाथी अनंत जीवोए मोक्ष प्राप्त करेल ठे,

प्रश्नः—अरिहंतनी प्रतिमा पूजत्री तथा तेने नमस्कार करवो, एम
स्थापना निक्षेपने मानी, प्रतिमाने मुक्तिदायक समजवी, आ निःकेवल
मूर्खतानुं चिह्न ठे, कारण के प्रतिमा जडरूप होवाथी शुं आपी शके ठे ?

उत्तरः—हे जव्य ? आप कोइ पण शास्त्रने परमेश्वरनां वचनरूप मा-
नोठो के नहि ? जो शास्त्रने परमेश्वरनां वचनरूप मानता हो, तेमज
ते शास्त्रने सत्यस्वरूपें संसारसमुद्रथी पार उतारनार मानता हो तो,
तेवीज रीतें परमेश्वरनी प्रतिमाने मानवामां शा वास्ते लज्जा धारण क-
रोठो ? जेबुं शास्त्र जडरूप ठे, अर्थात् तेमां श्याही अने कागल शिवाय
वाकी कांइ पण नथी, तेवी परमेश्वरनी प्रतिमा पण ठे, जो एम कहो के
कागलो उपर श्याहीथी अक्षर संस्थान पडेलो वांचवाथी परमेश्वरना क-
थननो बोध थाय ठे, तो तेवीज रीतें परमेश्वरनी मूर्ति देखवाथी पण
परमेश्वरना स्वरूपनो बोध थाय ठे.

प्रश्नः—प्रतिमा देखवाथी अरिहंत स्वरूप तो स्मरण थाय ठे, परंतु प्र-
तिमानी जक्ति करवाथी शुं लाज ठे ?

उत्तरः—शास्त्र श्रवण करवाथी परमेश्वरना वचननो बोध थयो तो पण
जक्तजनो जेम शास्त्रने उच्चस्थानमां राखे ठे, कोइ शिरपर लड फरे ठे,
कोइ गलामां लटकावी राखे ठे, केटलाएक सिंहासन उपर, केटलाएक
सुंदर वाजोठ उपर शास्त्रोने सुंदर सुंदर रुमालोमां लपेटी राखे ठे, अने
शास्त्रीनी पूजा, जक्ति, बहुमान, नमस्कार प्रमुख करे ठे. जेम शास्त्रनां
वचनो विनय, बहुमानपूर्वक श्रवण करवाथी तेथी थता अनेक लाजनो
जक्तजनो अनुभव करे ठे, तेवीजरीतें जिन प्रतिमानी विनय, बहुमानपू-

वैक चक्ति करवाथी तेनी शांतमुद्रा सेवकजनने परमशांतरस प्रमुख अनेक लाज उत्पन्न करावे ठे.

प्रश्न:—जेम पठरनी गायथी दूधनी गरज सरती नथी, तेम प्रतिमाथी पण कांइ गरज सरती नथी, तो हवे प्रतिमाने शावास्ते मानवी जोइयें ?

उत्तर:—जेम कोइ पुरुष मुखथी गाय, गाय, एम सखरूपें उच्चारकरतां ठतां पण तेनुं उदर दूधथी चरातुं नथी, तेम परमेश्वरनुं नाम लेवाथी, तेमज तेनो जाप करवाथी पण कांइ लाज थतो नथी. ते कारणथी परमेश्वरनुं नाम पण न लेवुं जोइयें ?

प्रश्न:—परमेश्वरनुं नाम लेवाथी तो अमारुं अंतःकरण शुद्ध थाय ठे.

उत्तर:—तेवीजरीतें परमेश्वरनी प्रतिमा देखवाथी पण परमेश्वरना स्वरूपनो बोध थाय ठे. तेथी अंतःकरणनी शुद्धि अहिंश्या पण सरखीज ठे.

प्रश्न:—परमेश्वरनुं नाम लेवाथी पुण्य ठे तो पठी प्रतिमा शावास्ते पूजवी ?

उत्तर:—जेवी स्थापना (प्रतिमा) देखवाथी आत्मानी शुद्ध परिणति थाय ठे, तेवी नामथी थती नथी. कारण के जेम कोइ सुंदर यौवनवंती स्त्रीनुं नाम लेवाथी राग तो उत्पन्न थाय ठे, परंतु जो ते सुंदर यौवनवती स्त्रीनी मूर्ति प्रगट सर्वाकारवाली सन्मुख देखीए तो अधिक तर विषयराग उत्पन्न थाय ठे, तेदलाज कारणसर श्री दशवैकालिक सूत्रमां लखेलुं ठे के “ चित्तजित्ती न निज्जाए नारी वासुलंकियं ” अर्थात् स्त्रीना चित्रामणवाली जीत देखवाथी पण विकार उत्पन्न थाय ठे. आवात तो प्रगट (प्रसिद्ध) ठे के रागीनी मूर्ति देखवाथी राग उत्पन्न थाय ठे, तथा कोकशास्त्रोक्त स्त्री, पुरुषनां विषय सेवनना चोराशी आसन देखवाथी तत्काल विकार उत्पन्न थाय ठे, तेवीज रीतें निर्विकार स्थापना रूप शांतमुद्रा, श्री वीतराग परमात्मानी देखवाथी जेवो निर्विकार शांतिजाव उत्पन्न थाय ठे, तेवो नाम लेवाथी थतो नथी.

प्रश्न:—जेम कोइ स्त्रीना चर्तारनुं नाम देवदत्त ठे, ते देवदत्त मरीगयो, वाद ते स्त्रीए पोताना पति देवदत्तनी मूर्ति बनावी; ते मूर्तिथी जेम ते स्त्रीनुं सुदाग, संतानोत्पत्ति तथा कामइष्टा पूर्ण थतां नथी, तेवीज रीतें जगवाननी मूर्तिथी पण कांइ लाज थतो नथी.

उत्तर:—देवदत्तनी स्त्री देवदत्तना मरण पठी आसन पिठाधीने देवद-

तना नामनी माला फेरवे, तेथी जेम ते खीनुं सुहाग रहेतुं नथी, तथा पतिनुं नाम लेवाथी जेम संतानोत्पत्ति यती नथी, तथा कामेष्टा तृप्त यती नथी, तेवीज रीतें जो कहेवामां आवशे तो तो जगवाननुं नाम लेवाथी पण कांइ सिद्धि थशे नहि. आ दृष्टांतथी तो जगवाननुं नाम पण न लेवुं जोइए ?

प्रश्न:-प्रतिमा तो कारीगर वनावे ठे, ते कारीगरने पण पूजवा जोइये ?

उत्तर:-वेदादि शास्त्र लिखारी (लहीआ) लखे ठे, तेउने पण पूजवा जोइए. तेमज साधुनां मात पिताने साधुथी अधिक पूजवां जोइए.

प्रश्न:-आ कालमां कोइपण बुद्धिमान् स्थापना मानता नथी.

उत्तर:-बुद्धिमान् तो सर्व माने ठे, परंतु मूर्ख मानता नथी.

प्रश्न:-कया बुद्धिमान् स्थापना माने ठे ? वतावो तेउनां नाम ?

उत्तर:-प्रथम तो सांसारिक विद्यावाळा सर्व बुद्धिमान्, जूगोल, खगोल, छिप, अर्थात् युरोपखंड आदिमां इखंड प्रमुखनां चित्र सर्व, स्थापनारूप माने ठे, तेमज वनावे ठे; तथा ककार आदि जे अक्षरो ठे ते सर्व पुरुषना (ईश्वरना) शब्दनी स्थापना करे ठे. वली जैनिउना मतमां एकसो आठ मणका, मालामां राखवामां आवे ठे, परंतु न्यूनाधिक राखवामां आवता नथी तेनो हेतु ए ठे के जैन, चारगुण अरिहंत पदना माने ठे, आठगुण सिद्ध पदना माने ठे, ठंवीश गुण आचार्यपना माने ठे, पचीश गुण उपाध्याय पदना माने ठे, अने सत्तावीश गुण साधु पदना माने ठे, सर्व मली एकसो आठ गुण थाय ठे; ते वास्ते जैनीउना मतमां मालामां जे मणका ठे, ते एकेक मणका एकेक गुणनी स्थापना ठे, तेथी आ माला पण स्थापना ठे; तेवीज रीतें बीजा मतमां पण माला, तसवीर ठे, ते सर्व कोइने कोइ वस्तुनी स्थापना ठे, नहि तो एकसो आठ अथवा एकसो एकनो नियम नहि जोइए. वली पादरी लोकोपण पोताना ठापेला पुस्तकोमां इत्तामसीह (जीससक्राइस्ट) नी मूर्ति तेज वखतनी ठपावे ठे, के जे वखते मसीहने शूली उपर देवाने खइ जता हता. ते मूर्तिने देखवाथी इत्तामसीहनी सर्व अत्रस्या ख्यालमां आवी जाय ठे. वस ! स्थापनानुं प्रयोजन तो एज ठे के ते देखवाथी असल वस्तुनुं स्वरूप याद आवी जाय ठे. आश्चर्य तो एज ठे

के वर्तमानमां केटलाएक तुब्बुद्धिवाला पोताना वनावेला पुस्तकमां यज्ञशाला तथा यज्ञोपकरणनी स्थापना पोताना हाथथी करीने पोताना शिष्योने जणावे ठे के यज्ञोपकरण आ आकृतिनां जोइए, ठतां फरी कहे ठे के अमे स्थापनाने मानता नथी. हवे विचार करवो जोइए के ते उना करतां अधिक मंदमति कोइ जगत्मां ठे ? पोते स्थापना करे ठे, ठतांपि फरी कहे ठे के अमे स्थापनाने मानता नथी. ते कारणथी जे पुरुष पोताना शास्त्रना कर्त्ताने देहधारी मानशे, ते अवश्य तेनी मूर्त्तिने पण मानशे, अने जेउं पोताना शास्त्रना उपदेष्टाने देहरहित माने ठे, तेउं अल्पबुद्धिमंत होवथी प्रमाण अनजिज्ञ ठे, कारण के जेने देह नथी, ते शास्त्रना उपदेष्टा कदापि होइ शकता नथी, कारण के देह रहित होवुं, अने शास्त्रना उपदेश देवावाला थवुं, ए वातमां कोइ पण प्रमाण नथी. वही निराकार, सर्वव्यापी परमेश्वरनुं ध्यानपण कोइ करी शकतुं नथी, दृष्टांत, जेम आकाशनुं ध्यान. ते कारणथी अढार दूषणोथी रहित जे परमेश्वर ठे, तेनी मूर्त्ति अवश्य मानवी तथा पूजवी जोइए, एवा देव तो अर्हंतज ठे, ते कारणथी अर्हंतनी प्रतिमा मानवी जोइए, परंतु कोइ डुर्बुद्धिमान्ना कुहेतुउंथी तजवी न जोइए. इति स्थापना.

हवे त्रीजा ड्रव्यनिक्षेपनुं स्वरूप एवुं ठे के, जे जीवें तीर्थकर नाम कर्मनो निकाचित बंध करेलो ठे, ते जीवमां जावि गुणोनों आरोप, अर्थात् जविष्यमां तीर्थकर जगवान् आ प्रमाणे थशे, एवो वर्त्तमानमां तेनामां आरोप करीने बंदन, पूजन करवथी अनेक जव्यजीवोए मोक्ष प्राप्त करेल ठे.

चोथो जावनिक्षेप. वर्त्तमानकालमां सीमंधर प्रमुख तीर्थकर केवल-ज्ञानसंयुक्त, समवसरणमां विराजमान, जव्यजीवोना प्रतिबोधक, चतुर्विधसंघना स्थापक, एवा जाव अर्हंत, जेना चरणकमलनी सेवा करीने अनेक जीव मोक्ष प्राप्त करेठे, आ जावनिक्षेप ठे. आ चारे निक्षेपें संयुक्त, एवा जे अरिहंत, देवाधिदेव, महागोप, महामाहण, महानिर्यामक, महासार्थवाह, महावैद्य, महापरोपकारी, करुणासमुद्र, इत्यादि अनेक उपमा लायक, जव्यजीवोनों अज्ञान अंधकार दूर करवाने सूर्य समान, जेमनां वचन प्रमाणथी अविरोधि, एवा मुनिमनमोहन, योगी-

श्वर, चिदानंदघनरूप, अरिहंतने हुं देव अर्थात् परमेश्वर मानुं, तेनी सेवा करुं, तेनी आज्ञा शिरपर धारण करुं, एम जे मानुं ते प्रयम व्यवहार शुरू देवतत्व ठे.

वीजा निश्चय शुरू देवतत्वनुं स्वरूप कहीयें ठीयें. जे शुरू आत्मस्वरूपनो अनुभव करवो, ते शुरूआत्मस्वरूपज निश्चय देवतत्व ठे. केहुं ठे ते आत्मस्वरूप ? पांचवर्ण, वे गंध, पांच रस, आठ स्पर्श, शब्द, क्रिया, तेउथी रहित, तथा योगथी रहित, अतींद्रिय, अविनाशी, अनुपाधि, अवंधी, अक्लेशी, अमूर्ति, शुरू चैतन्य, ज्ञान, दर्शन, चारित्रादि अनंतगुणोनुं चाजन, सच्चिदानंद स्वरूपी एवो मारो आत्मा ठे, तेज निश्चय देव ठे.

ह्वे वीजा गुरुतत्वनुं स्वरूप कहीयें ठीयें. तेना पण वे जेद ठे. १ शुरू व्यवहार गुरु, २ शुरूनिश्चय गुरु. तेमां शुरू व्यवहारगुरुनुं स्वरूप तो गुरुतत्व निरूपण परिच्छेदमां लखी आव्या ठीए, त्यांथी जाणी लेनुं. एवा साधुने गुरु करी माने. एवा गुरुनी आज्ञा मुजव प्रवर्त्ते. एवा मुनिने पात्र बुद्धिथी शुरू अन्नादि आपे. इति व्यवहारशुरूगुरुतत्वस्वरूप.

निश्चय गुरुतत्व तो शुरूआत्मविज्ञानपूर्वक ठे. हेयोपादेय उपयोगयुक्त जे परिहार प्रवृत्तिज्ञान ते निश्चय गुरुतत्व ठे.

त्रीजा धर्मतत्वनुं स्वरूप कहीयें ठीयें. धर्मतत्त्वना पण वे जेद ठे. १ व्यवहारधर्मतत्व, निश्चयधर्मतत्व. तेमां व्यवहाररूपधर्म दया मुख्य ठे. अने सत्यादि व्रत सर्व दयानी रक्षावास्ते ठे; ते कारणथी दयानुं स्वरूप लखीए ठीए. दयाना आठ जेद ठे. १ द्रव्यदया, २ जावदया, ३ स्वदया, ४ परदया, ५ स्वरूप दया, ६ अनुबंध दया, ७ व्यवहार दया, ८ निश्चय दया.

१ द्रव्यदयानुं स्वरूप एहुं ठे के सर्वकाम यत्नापूर्वक करवां. जैनमत वालाउनो आ कुलधर्म ठे. सर्व जैनसमुदाय प्राणी गलीने पीए ठे, अन्न शोधीने खाय ठे, जे कोइ जैनी ठल कपट करे ठे, असत्य बोले ठे, विश्वासघात करे ठे, ते पापी जीव ठे, अने ते जैनमतने कलंकित करे ठे. ते सर्वदोष, ते जीवनाज ठे, जैनमतनो तेमां कांश्पण दोष नथी. जैनमत तो एवो पवित्र ठे के जेमां कांश्पण अनुचित उपदेश नथी. आ

वात सर्वसुख जनोने विदित ठे. ते कारणथी जे जे काम करवां ते सर्व यत्नापूर्वक जीवरक्षार्थी करवां ते द्रव्यदया समजवी.

१ वीजी जावदया. वीजा जीवोने गुणप्राप्ति वास्ते, तथा दुर्गतिमां पडतां जीवोना रक्षणवास्ते, अंतःकरणमां अनुकंपा बुद्धिसंयुक्त तेउने हितोपदेश करवो ते जावदया ठे.

त्रीजी स्वदया. पोताना आत्मानी. अनादि कालथी मिथ्यात्व अशुद्ध उपयोग, अशुद्धश्रद्धानपूर्वक अशुद्धप्रवृत्ति, तथा कपायादि जाव शस्त्रोथी समये समये, आत्माना ज्ञानादिगुणोरूप जावप्राणोना घातरूप, हिंसा थया करे ठे, एवी जिनेश्वर जगवान्नी वाणी श्रवण करवार्थी पूर्वोक्त जावशस्त्रोनो त्याग करीने, स्वसत्तामां प्रवृत्ति करीने, शुद्धोपयोग धारण करीने, विषय, कपायथी दूर रहीने, अने शुभ अशुभ कर्मफलना उदयमां अव्यापक रहीने अर्थात् सुखदुःखमां हर्षविषाद न करतां, प्रतिक्षण अशुभ कर्मने निदान दूर करवानी जे चिंता तेनुं नाम स्वदया ठे. आ स्वदयानी रुचिवाला जीव पोतानी परिणति शुद्ध करवा वास्ते जिनपूजा, तीर्थयात्रा, रथयात्रा प्रमुख शुभप्रवृत्ति करे, बहुमान पूर्वक जिनगुणामृतनुं पान करे, असत् प्रवृत्तिथी चित्तने हठावी तत्त्वालंबी करे, पुद्गलावलंबीपणं हठावे, आ शुभ आश्रवमां यद्यपि देखवामां केटलाएक जीवोनी हिंसा मालम पडे ठे, तोपण आत्मानी अशुद्ध परिणति दूर थवार्थी आत्मा गुणग्राही थाय ठे, ज्यारे गुणग्राही थाय ठे, त्यारे ज्ञानवान् थाय ठे, ते कारणथी सर्वसाधक जीवोने आ स्वदया परम साधन ठे. आ स्वदया वास्ते साधुपण नवकल्पी विहार करे ठे, उपदेश आपे ठे, चर्चा करेठे, तथा पूजन, प्रतिलेखन करे ठे. यद्यपि नदी नालां उतरतां तथा अन्य कार्यपरत्वें योगोनी चपलताथी आश्रव थाय ठें, तोपण चेतनस्वरूप अनुयायी रहेठे, जिनाज्ञा पाले ठे, कपाय स्थानमंद करे ठे, स्वठंदता दूर करे ठे, अने धर्म प्रवृत्तिनी वृद्धि करे ठे. आ स्वदया वास्ते साधुपण शुभाश्रव पोताना कल्पप्रमाणे आचरण करे ठे, परंतु आ आश्रव साधक दशमां बाधक नथी.

४ चोथी परदया, अर्थात् ठ कायना जीवोनी रक्षा करवी. ज्यां स्वदया ठे त्यां परदया निश्चयपूर्वक ठे, अने ज्यां परदया ठे, त्यां

स्वदयानी जजना ठे, अर्थात् होय पण खरी अने न होय पण खरी.

५ पांचमी स्वरूपदया. इह लोक, परलोकना विषयसुखवास्ते तथा लोकोनी देखादेखीथी जे जीवनी रक्षा करवी ते स्वरूपदया ठे. आ दयाथी विषयसुख तो प्राप्त थायठे, परंतु देडकाना चूर्णनी जेम संसारत्री वृद्धि थाय ठे. स्वरूपदया देखवामां दया ठे, परंतु जावें हिंसाज ठे.

६ ठठी अनुबंधदया. श्रावक मोटा आडंबरथी मुनिने वांदवा वास्ते जाय, तथा उपकार बुद्धिथी बीजा जीवोने सन्मार्गमां लाववावास्ते ताडना तर्जना करे, कोइने शिक्षा पण आपे. ए प्रमाणे करतां, देखवामां तो हिंसा ठे, परंतु अंते स्वपरने लाजनुं कारण होवार्थी दया ठे. वली साधु, आचार्य पोतानां शिष्य शिष्यालने तेउनी जूल याद करावे ठे, योग्य प्रसंगें शिक्षा करे ठे, कोइने अनुचित करतां निवारें ठे, कोइने एकवार कहे ठे, कोइने वारंवार कहे ठे, तथा शिक्षा करे ठे, कोइ उपर क्रोधपण करे ठे, शासनना प्रत्यनीकने पोतानी लब्धिथी दंडपण आपे ठे, इत्यादि कामोमां यद्यपि हिंसा देखाय ठे, तो पण फल दयानां ठे.

७ सातमी व्यवहारदया. जे विधिमार्ग अनुयायी जीवदया पाळे, सर्व क्रियाकलाप उपयोगपूर्वक करे ते व्यवहारदया ठे.

८ आठमी निश्चयदया. शुद्ध साध्य उपयोगमां एकत्वज्ञाव, अज्ञेद उपयोग, साध्यज्ञावमां एकताज्ञान, ते निश्चयदया. आ दयाथी उपरना गुणस्थानकोमां जीव आरोग्य करे ठे, तेथी आ दया उत्कृष्ट ठे; इत्यादि अनेक प्रकारथी दयाना स्वरूपविज्ञानपूर्वक, सूत्र, निर्युक्ति, ज्ञाप्य, चूर्णा, वृत्ति पंचांगी सम्मत, प्रत्यक्षादि प्रमाणपूर्वक, नैगमादि नय, नामादि निक्षेप, सप्तजंगी, ज्ञाननय, क्रियानय, निश्चय व्यवहार नय, तथा द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय, इत्यादि उजय ज्ञावमां यथावसरें अर्पित, अनर्पित नयनिपुणताथी, मुख्य गौण ज्ञावें उजयनयसम्मत, शुद्धस्याद् वादशैलीविज्ञानपूर्वक, श्रीसिद्धांतोक्त दान, शील, तप, ज्ञावनारूप शु-
जप्रवृत्ति तेनुं नाम शुद्धव्यवहार धर्म कहियें.

बीजो निश्चय धर्म. ते पोताना आत्मस्वरूपने जाणवुं तथा वस्तुना स्वज्ञावने जाणवो, जेम के मारो आत्मा शुद्ध चैतन्य रूप, असंख्यात प्रदेशी, अमूर्त्त, स्वदेहमात्रव्यापी, सर्व पुजलोथी जित्त, अखंड, अलिप्त,

ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, अव्यावाध, सत्चिदानंदादि अनंत गुणमय, अविनाशी, अनुपाधि, अविकारी ठे. तेनाथी विलक्षण जे परपु-
 ञ्जलादि ते मारा नथी. ते पुञ्जलना पांच विकार ठे, १ शब्द, २ रूप, ३
 रस, ४ गंध, ५ स्पर्श. आ पांचना उत्तर जेद अनेक ठे. आलोकाका
 शमां उद्योत, अंधकार, शब्द, सर्वरूपी वस्तुनी ठाया, रत्ननी कान्ति
 शीत, धूप, नानाप्रकारना रंग, रूप, संस्थान, नानाप्रकारना सुगंध, दु-
 गंध, नानाप्रकारना रस, सर्वसंसार जीवोना देह, चापा, मनना वि-
 कल्प, दशप्राण, ठ पर्याप्ति, हास्य, रति, अरति, जय, शोक, जुगुप्सा,
 खुशी, उदासि, कदाग्रह, हठ, लडाइ, क्रोधादि चार कषाय, शाता, अ-
 शाता, जंच, नीच, निद्रा, विकथा, सर्वपुण्य प्रकृति, सर्वपापप्रकृति, रीक,
 मोज, खीज, खेद, ठ लेश्या, लाजालाज, यश, अपयश, मूर्खता, त्रणप्र-
 कारना वेद, कामचेष्टा, गति, जाति, कुल, इत्यादि आठे कर्मनां विपाक
 फल. आ सर्व वावतो जीवने अनुभवसिद्ध ठे, अने सूक्ष्मपुञ्जल इंद्रिय
 अगोचर ठे, ते परमाणु आदि अनेक तरेहना ठे. पूर्वोक्त पुञ्जलना सं-
 योगथी जीव चारे गतिमां जटके ठे. आ पुञ्जल मारी जाति नथी,
 आ पुञ्जलनो मारी साथे कांइ वास्तव संबंध नथी, आ पुञ्जल सर्व
 त्यागवा योग्य ठे, जे आ पुञ्जलनो संसर्ग ठे तेज संसार ठे, आ पुञ्ज-
 लनी संगतथी ज्ञान, दर्शन, चारित्रादि गुण वगडी जाय ठे, जे आ
 पुञ्जल उव्यनी रचना ठे ते मारा आत्मानो स्वज्ञाव नथी, धर्मास्ति-
 काय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, आ चारे उव्य ज्ञेयरूप
 ठे, परंतु हुं ते सर्वथी अन्य हुं, तेउ मारा नहि, हुं तेउनो नहि, हुं ते-
 उनो साथी पण नहि, हुं मारा स्वरूपनोज स्वामी हुं, मारो स्वज्ञाव स-
 म्यगुदर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप ठे, वर्णरहित, गंधरहित, रसरहित, स्प-
 र्शरहित, चैतन्यगुण, अनंत, अव्यावाध, अनंत दान, लाज, जोग, उप-
 जोग, वीर्यादि अनंतगुणस्वरूप ठे, तेउनी श्रद्धा, ज्ञासन, रमणतारूप
 चिदानंदधन मारो स्वज्ञाव ठे. एवो जे मारो पूर्णानंद स्वज्ञाव, ते प्रगट
 करवावास्ते सर्व शुद्ध व्यवहारनय निमित्तमात्र ठे, परंतु मुख्य तो मारा
 स्वज्ञावमां जे रमणता करवी तेज शुद्ध साधन ठे, तेज धर्म ठे. इति नि-
 श्रयधर्मस्वरूप.

आ त्रणे तत्त्वनी जे निश्चय परिणतिरूप श्रुता ते सम्यक्त्व कहे-
वाय ठे. जे जीवने ए प्रमाणे बोध न होय ते जीव जो कर्दा पद्म्यात
रहित, एम मनमां धारे के " तं सर्वं निस्संकं, जं जीणेदिं पवेइयं इ-
त्यादि " जे जिनेश्वर जगवानं अर्थ कला ठे ते सर्व निःसंक्रित सत्य ठे,
तो तेनी एवी तत्त्वार्थश्रुता एण सम्यग्दर्शन कहेवाय ठे. तेनाची वि-
परीत ते मिथ्यात्व कहेवाय ठे. आ मिथ्यात्वनुं स्वरूप नवतत्वमरूपमां
लखी आख्या ठीण त्यांची जाणवुं. मिथ्यात्वनो त्याग तेज सम्यक्त्व क-
हेवाय ठे. इति व्यवहारसम्यक्त्वस्वरूप.

हवे निश्चय सम्यक्त्वनुं स्वरूप लखीण ठीण. पूर्वं निश्चय देव, गुरु
अने धर्मनुं जे स्वरूप करुं ठे, तेज निश्चय सम्यक्त्व ठे. जे जीव चार
अनंतानुबंधी कपाय, सम्यक्त्व मोह, मिश्रमोह, मिथ्यात्वमोह, आ
सात प्रकृतिनो उपशम, ह्योपशम, तथा ह्य करे तेने निश्चय सम्य-
क्त्व थाय ठे. निश्चय सम्यक्त्व परोक्षज्ञाननो विषय नथी, केवली
जाणी शके ठे, के आ जीवने निश्चय सम्यक्त्व ठे. आ सम्यक्त्व प्रगट
यतां जीवने नरक, तिर्यंच, आ वने गतिना आयुनो बंध यतो नथी.

हवे सम्यक्त्वनी करणी लखीये ठीयें. सम्यक्त्वनी जीव नित्य यो-
गवाइ मलतां, तथा शरीरमां व्याविनो अज्ञाव ठते. जिनप्रतिमानां
दर्शन कर्या पठी जोजन करे, जो जिनप्रतिमानो योग न मझे तो
पूर्व दिशि सन्मुख वेसी वर्तमान तीर्थकरोनुं चेत्यवंदन करे. जो रो-
गादि विघ्नची दर्शन न थाय तो जेठने आगार ठे, तेठना नियमनो
जंग यतो नथी. जिनेश्वर जगवान्ना मंदिरमां दश मोटी आशा-
तना अवश्य वजें. तेठनां नाम. १ तंत्रोळ, फल प्रमुख खावानी वस्तु
जगवान्ना मंदिरमां खाय नहि, २ पाणी, दुध, ठाश, अर्क प्रमुख पीये
नहि, ३ जोजन करे नहि, ४ मंदिरनी अंदर उपानह प्रमुख खावे
नहि, ५ स्त्री आदि संग मेद्युन तेवे नहि, ६ शयन करे नहि, ७ थुंके
नहि, ८ लघुशंका करे नहि, ९ जंगल (दिशा) जाय नहि, १० मं-
दिरमां जुगार, चोपट, चित्तरंज प्रमुख खेजे नहि. आ दश आशा-
तना टाळे, तथा उल्हटी चोराशी आशातना वजें. वली एक मासमां
आटला फुलहार चढावुं, एकमासमां आटवुं घी आपुं, एकवर्षमां आ-

टला अंगलूहणां आपुं, वर्षमां आटळुं केशर, चंदन, वरास, कपुरप्रमुख
 जगवान्नी पूजामां वापरुं, धूप, अग्रवत्ति उखेवुं, अद्दत, नैवेद्य, फल
 पूजा आ प्रमाणे करुं, धनने अनुसारें वर्षमां आटळी अष्टप्रकारी, सत्तर
 प्रकारी पूजा रचावुं, वर्षमां आटला रुपैया साधारणद्रव्यमां खरवुं, व-
 र्षमां आटळुं द्रव्य पूजावास्ते खरवुं, दिनदिन प्रति एक नवकारवाली
 अर्थात् माला पंचपरमेष्टि मंत्रनी, मोक्षनिमित्त जपुं, दिनप्रति रोगना
 अज्ञाव ठते नमस्कार सहित वे घडी दिन चडे त्यांसुधी चार आहारुं
 प्रत्याख्यान करुं, रात्रिमां छुविहार प्रत्याख्यान करुं, रोगादिकारणे न
 थड शके तो आगार, वर्षप्रति आटला साधर्मी वंधुठने जमावुं, ए प्रमाणे
 सम्यक्त्व पावुं; तथा सम्यक्त्वना पांच अतिचार ठे ते टाळुं. ते पांच
 अतिचानुं स्वरूप कहिये ठियें.

१ प्रथम शंका अतिचार. जिनवचनमां शंका न करवी, कारण के
 जिनवचन बहुज गंजीर ठे; ते सर्वना यथार्थ अर्थ समजावनारा आ का-
 लमां कोइ गुरु नथी, वली शास्त्रो जे ठे ते अनंतनयात्मक ठे. तेठमां
 गणतरी तथा संज्ञा विचित्र तरेहनी ठे. कोइ स्थलें कोडीशब्द फोडनो
 वाचक ठे, तो कोइ स्थलें रूढी वस्तुवाचक ठे, कारण के श्रीजडगणि
 द्दमाश्रमण सर्वसंघना सम्मत आचार्य, संघयणनामा पुस्तकमां तथा
 विशेषणवती ग्रंथमां लखेठे के, कोइक आचार्य कोडी शब्दने फोडनो
 वाचक मानता नथी, परंतु संज्ञांतर मानेठे, वर्तमान कालमां वीशने
 पण कोडी कहेठे, तथा सोरठ देशमां पांच थानाने पण कोडी कहेठे.
 जेवो आ कोडी शब्दमां मतांतर ठे, तेवी रीतें शत, सहस्र शब्दोपण
 कोइ संज्ञाना वाचक होय तो कांइ दोष नथी. वली शत्रुंजय तीर्थमां
 ज्यां मुनिठ मोक्ष गयेला ठे, त्यां पण पांच कोडी आदिशब्दोनी कोइ
 संज्ञा ठे, तेवीजरीतें ठप्पन कुलकोडी जादव कहेयायठे, त्यांपण याद-
 वोना ठप्पन कुलोनी कोडी कोइ संज्ञाविशेष ठे, एजप्रमाणे शास्त्रोमां
 सर्वस्थलें चक्रवर्तिनी सेना, तथा कोणिक चेटक राजाठनी सेनामां जे
 कोडी तथा शत सहस्र शब्दो ठे, ते संज्ञाविशेषवाचक संनय घायठे,
 ते कारणथी सर्व शब्दोना सर्वस्थलें एकतरग्या अर्थ मानया युक्त नथी.
 आ फयनमां पूज्यश्री जिनजडगणिद्दमाश्रमण पुरा साक्षो थापनारठे

बली केटलाएक जव्यजीवोए सामान्य प्रकारें एम पण सांजखेळुं ठे के पांचमा आरामां उत्कृष्ट एकसो वीश वर्षनुं मनुष्यनुं आयु ठे; ज्यारे ते जीवो कोइ अंग्रेज प्रमुखना मुखथी एम सांजखे ठे के दोढसो, बसो तथा अढीसो वर्षनी आयुवाला मनुष्य जोटानादि देशमां विद्यमान ठे, त्यारे दृढश्रद्धावाला, जोला जीव तो तेउनुं कहेवुं सत्य मानता नथी, कदापि मोटी आयुवालो मनुष्य तेउनी सन्मुख लावी उचो राखिए, तो पण तेउ तो ते वात जूठीज मानशे, कारण के तेउ एम माने ठे के अमारा जिनेंद्र देवनुं कथन कदापि असत्य नथी, परंतु जेउने जैनमतनी दृढश्रद्धा नथी, अने सांसारिक विद्यामां कांश्क निपुण ठे, पठी तेउ कदापि जैनमतवाला होय तो नण, तेउना मनमां अवश्य शंका पडी जाय ठे, कारण के तेउए पण जैनमतनां सर्व शास्त्र श्रवण कयां नथी. सारांश ए ठे के शास्त्रमां जे कथन ठे, ते सापेक्षक ठे, बाहुल्यताथी कहेल ठे, ते कथंचित् अन्यथा होय तां तेमां आश्चर्य मानवुं नहि; कारण के बहु शास्त्रोमां लखेळुं ठे के ज्योतिष चक्र अर्थात् तारामंडलना सर्व तारा मेरु पर्वतनी प्रदक्षिणा दीए ठे. आ वात सर्व जैनी माने ठे, परंतु ध्रुवना तारा कोइ स्थले फरता नथी, अने ध्रुवनी पासेना ताराउं जे सप्तऋषि रुढिमां प्रसिद्ध ठे, जेउने वालको मंजी, पहेरेदार, कुत्ता, तेमज चोर कहे ठे, तथा वीजा केटलाएक तारा ध्रुवनी नजीक ठे, ते सर्व ध्रुवनी प्रदक्षिणा फरे ठे, परंतु मेरु पर्वतनी प्रदक्षिणा देता नथी; आ बिना अमे जातें अनुजवेळी ठे, अने वीजाउने वतावी शकीए ठीए, तो पठी प्रथम जे शास्त्रकारें कहेळुं ठे के सर्वतारा मेरुनी प्रदक्षिणा दीए ठे, आ कथन जैनी केम सत्य माने ठे ?

समाधान एम ठे के, प्रथमनुं जे कथन ठे, ते बाहुल्यतानी अपेक्षाए ठे, कारण के बहु तारामंडल एवुं ठे के ते मेरु पर्वतनी प्रदक्षिणा फरेठे, अने केटलुंएक एवुं ठे के जेउं ध्रुवनीज आस पास चक्र दीए ठे. आ समाधान पूज्यश्री जिनज्जगणि क्षमाश्रमणजीए संघयण तथा विशेषणवती ग्रंथमां लखेळुं ठे, एवीरीतें के मेरु पर्वतनी चारे बाजुए चार ध्रुवठे, अने ते चारे ध्रुवोनी पासे एवा एवा ताराउं ठे जे निरंतर ते चारे ध्रुवोनीज आसपास चक्र दीए ठे. तेथी एम सिद्ध थयुं के शास्त्रनुं

जे कथन ठे ते वाहुल्यताए तेमज कोइ अपेक्षार्थी संयुक्त ठे, अने कोइस्थले स्थूल व्यवहार नयने मते कथन करेलुं ठे, परंतु सूक्ष्म तेमज अधिकन्यूनतानी विवक्षा करेली नथी. तेवीजरीतें सो वर्षेथी अधिक आयु जे पंचम कालमां कहेलुं ठे, ते वाहुल्यतानी अपेक्षा तथा आर्यखंड अर्थात् मध्यखंडनी अपेक्षा ठे; जो कोइ मनुष्यनुं दोढसो, वसो, तेमज अढीसो वर्षनुं आयुष्य थइ जाय तो मनमां जिनवचन माटे शंका न करवी, जेमके कोण जाणे जिनवचन सत्य हशे के असत्य हशे ? हेतु ए ठे के शास्त्रना आशय अति गंजीर ठे, अने वर्तमानमां यथार्थ वतावनारा गीतार्थ गुरु कोइ नथी.

आयुनी वावतमां समाधान एम ठे के जगवान् श्री महावीर स्वामिना निर्वाण पठी (५७५) वर्षे लगनग जैनमतना आचार्य श्री आर्य रक्षितसूरि नवपूर्वना पाठक थया. तेमनी पासे शक्र इंद्र निगोदना जीवनुं स्वरूप श्रवण करवा आव्या. शक्र इंद्रें प्रथम वृद्ध ब्राह्मणनुं रूप धारण करीने श्रीआर्यरक्षित सूरिजीने पुब्बुं, हे जगवन् ! हुं वृद्ध थयो हुं, जो माहं आयुष्य थोडुं होय तो मने कृपा करी वतावो, जेथी हुं अनशन करूं, ते सांजली सूरिजीए दशमा पूर्वना यवका अध्ययनमां उपयोग दइने जोयुं तो तेनुं आयुष्य सो वर्षेथी अधिक मालम पब्बुं, फरी उपयोग देतां वसो वर्षेथी अधिक जाणवामां आव्युं, फरी उपयोग देतां त्रणसो वर्षेथी अधिक जणायुं; ते वखते सूरिजीए विचार कर्यो के आ चारत वर्षेनो मनुष्य नथी. आ कथानक आवश्यक सूत्रनी सामायक अध्ययननी उपोद्घात निर्युक्तिमां ठे. आ कथानकथी एम सावीत थाय ठे के चारतवर्षेना मनुष्यनुं आयुष्य त्रणसो वर्षे सुधीनुं होय तो आश्चर्य नहि, कारण के श्री आर्यरक्षित सूरिजीए वृद्ध ब्राह्मणनुं आयु त्रणसो वर्षेथी अधिक देख्युं त्यारे कहुं के आ चारत वर्षेनो मनुष्य नथी. आ कथनथी कथंचित् त्रणसो वर्षेसुधीनुं आयुष्य चारतवर्षेमां मनुष्यनुं होय तो शुं आश्चर्य ठे ?

केटलाएक मनुष्यना मनमां एवी पण शंका ठे के जैनमतवाला चरतखंड क्यां सुधी माने ठे ? आ कालमां जे कांइ लोकोना देखवामां थयवा सांजलवामां आवे ठे के अमेरीकादि देश तेमज रूशीआ तथा

चीनादि देश चारतवर्षमां गणाय के नहि? समाधान मात्र एटलुंज ठे के अमेरिका तथा विलायतादि सर्वमुलकोनी वचमां जे समुद्र पढेला ठे ते ऋषभदेव तेमज चरत चक्रवर्तिना समयमां हता नहि, परंतु जगती वहार जे महासमुद्र ठे तेज हतो. ते कारणथी अर्थात् समुद्र थं-दर आवी जवाथी असल चरतक्षेत्रनुं स्वरूप बगडी गयुं, केटलाएक चाग समुद्र थइगयो, अने केटलाएक छिपो वनी गया.

आ वावतमां जैनमतना शत्रुंजय माहात्म्यनामा ग्रंथमां लखुं ठे के सगरनामा धीजा चक्रवर्ती चारतवर्षमां आ समुद्रने जंबूद्वीपनी दक्षिणदिशाना विजयंतनामा दरवाजाना रस्तेथी लावेल ठे, तेम लाववाथी बर्वरादि हजारो देश तो जलमां डुबी समुद्रनी चूमि वनी गया, जे जे उंचा देशो हता ते विलायतादि छीपो वनी गया. असल देशोनां नाम नष्ट थवाथी बहु देशोनां नाम कल्पित राखवामां आब्यां, अने चरत खंडनुं स्वरूप तदन फरीगयुं, केटलाएक देशोनी चारे वाजुए समुद्रफरी गयो, केटलाएक देशोना उत्तर चागमां बरफ पडवाथी, तेमज समय बदलाइ जवाथी, सर्वथा पाणी जामी गयुं, तेमज समुद्रसाथे मलीगयुं, तेथी चारे वाजुए समुद्रज देखाय ठे. गमनागमन पण तेज कारणथी बंध थइगयां. शास्त्रकारें तो प्रथम आरामां तथा ऋषभदेवजी अने चरत चक्रवर्तिना समयमां चारतवर्षनुं जे स्वरूप हतुं तेज प्रमाणे अद्यापि पर्यंत बतावेलुं जणाय ठे, परंतु चारतवर्षनुं स्वरूप बगडीने कांइनुं कांइ स्वरूप केवीरीतें थइगयुं तेनुं विस्तारथी वर्णन यथार्थ रीतें करेखुं देखवामां आवतुं नथी. कदापि कोइए लखेलुं इशे तो पण जैनमतनी उपर एवी एवी मोटी विपत्तिठ पडेली ठे के तेथी लाखो तो शुं बलके क्रोडो ग्रंथ नाश पामी गया ठे, ते कारणथी आ स्थलें सर्ववृत्तांत यथार्थरीतें बतावी शकतो नथी; परंतु जैनमतना जेटला ग्रंथ मारा वांचवामां आब्या ठे, तेजमांथी पण मने जे ठीक लागुं ठे ते आ ग्रंथमां में लखेलुं ठे.

सर्वक्षेत्र ते प्रमाणे अदल बदल थइ गयां; गंगा, सिंधु असल स्थान बहेती बहेती रही गइ. आगलनो प्रवाह समुद्रें रोकी लीधो, अने पाठलथी पाणी आवतुं बंध थइ गयुं. वाद जे पर्वतथी अधिक नदीनी प्र-

वृत्ति थइ ते नदी ते पर्वतथी निकलती लोकोए मानी लीधी. गंगा अने सिंधुमां कुल्लक हेमवंत पर्वतथी जल आववुं बंध थइ गयुं; नाममात्र सिंधु रही गइ. नगरीउंमां वनिता नगरीनी कटपनापर अयोध्या मानी, अने काबुलमां तद्विला अर्थात् बाहुवलनी नगरीनी कटपना करी, जेनुं नाम गिजनी प्रसिद्ध ठे, ते तद्विला पण आज रही नथी. कारण ए ठे के जैनिउंनी श्रद्धा अनुसारें प्रथम आराने तेमज रूपजदेव अने ऋत राजांना समयने व्यतीत थयां असंख्य वर्ष थइ गयां ठे, तो ते दरमी-आन देश, पर्वत, नदी, नगरादि उलट पालट थइ जाय तेमां शुं आश्चर्य ठे!

वली समुद्रनुं देशो उपर फरवुं तो तौरेत ग्रंथथी पण ठीक ठीक सिद्ध थाय ठे. पुराणादि ग्रंथोमां पण लखेवुं ठे के कोइ एवो समय हतो, जे वखतें समुद्रमां पाणी नहोतुं, पाठलथी आवेवुं ठे. ते कारणथी शत्रुंजय माहात्म्यमां जे लखेवुं ठे के ऋतकैत्रमां सगर चक्रवर्ती समुद्रनुं पाणी लाव्या ठे, ते कहेवुं वास्तविक लागे ठे.

श्रीतपगच्छना आचार्य विजयसेन सूरिपण पोताना प्रश्नोत्तरमां लखे-ठे के मागध, वरदाम अने प्रजासनामनां त्रण जे तीर्थ ठे, ते जगतीनी वहारना समुद्रमां ठे, तेथी पण सिद्ध थाय ठे के ऋत चक्रवर्ती ठ खंड साधवा तेमज मागधादि तीर्थ साधवा गया हता, त्यारे आ समुद्रनुं पाणी रस्तामां नहोतुं, अने शास्त्रकारोए तो सर्व शास्त्रोनी शैली श्री रूपजदेवजीना समयानुसार राखेली ठे, ते कारणथी चक्रवर्ती तमामनां कथन ऋत चक्रवर्ती सदृश वर्णन करेल ठे.

आ कालमां केटलाएक विद्वानोए जूगोलना हिसावथी पृथ्वीनुं स्वरूप लखेवुं ठे, तथा ते अनुसारें शरद् तथा गरम देशोना विभाग करेला ठे, ते जोतां, अगर जो के तेउना देखवा, सांजलवा, तथा थनुमान मुजव वर्तमान समयमां ए प्रमाणेज हशे, परंतु सदा काल एमज हुं, एम कहेवुं वास्तविक नथी. जूगोल हस्तामलक पुस्तकमां लखेवुं ठे के कृशीआना उत्तर जागमां ज्यां वरफ शिवाय वीजुं कांइ ठे नहि, त्यां गरमीना दिवसोमां वरफ गलवाथी तथा केटलाएक स्थले वरफना ढग ढली पडवाथी तेउनी नीचेथी एक जातना हाथी निकले ठे, हाथी पण सेंकडो निकले ठे, जेनुं नाम ते देशवाला मंमाथ कहे ठे. मोडुं था-

श्चर्य तों ते मेंमाथोने देखवाथी ए लागे ठे के ते जानवर गरम मुलकना रहेनारां ठे, तेउं आ शरद्मुलकमां क्यांथी आव्या ? तेउंने खावावास्ते पण त्यां कांइ नथी. आ कालमां जो एकपण हाथी ते मुलकमां लही जइ वांधीए तो थोडा वखतमां ते मरी जाय; उतां लाखो मेंमाथ ते मुलकमां क्यांथी जाता हशे ? तेमज शुं खाता हशे ? ते वायतमां मात्र एज खुलासो आपी शकाशे के कोइ समयमां ते मुलक गरमदेश हशे, वाद पवननी तसीर वदलावाथी शरद् मुलक थइ गयो. आ वृत्तांतथी एम सिद्ध थाय ठे के शरद् मुलक कोइ कालमां गरम थइ जाय ठे, अने गरम मुलक शरद् थइ जाय ठे, ते कारणथी जूगोलने अनुसारें शरदी, गरमीनी अवस्थानी जे कल्पना करवी, ते हमेशाने वास्ते डुरस्त नथी. शुं जाणीये देशोनी केवी केवी व्यवस्था वदलाइ चुकी ठे ? अने हर्जी शुं वदलावानी ठे ? जूस्तरवेत्ताउं लखे ठे के आफ्रिका खंडना मध्यजागमां आवेलुं शहरातुं रेतीनुं मोडुं रण जे हाल घणुंज उंचाणमां ठे ते एकवखत महासागरनुं तळीयुं हतुं. ते कारणथी जमिननी स्थितिनुं पुरुं स्वरूप तो मात्र सर्वज्ञ जाणी शके ठे.

वली आ पृथ्वीने जूगोल कहेवामां आवेठे, वली एम पण कहेवायठे के सूर्य फरतो नथी, परंतु पृथ्वी सूर्यनी आसपास फरेठे. आ वात अंग्रेजोएज शोधेली नथी परंतु अंग्रेजोनी पहेलां पण आ वातना माननारा जारतवर्षमां हता, कारण के जैनमतना शीलंगाचार्य जे विक्रमना ७०० वर्ष लगजग थया ठे, तेउं श्री आचारांगसूत्रनी वृत्तिमां लखेठे के, केटलाएक एम पण मानेठे के पृथ्वी गोल फरेठे अने सूर्य स्थिर रहेठे, परंतु आ मत जैनिर्जनो नथी. जैनमतना शास्त्रोमां तो प्रगट लखेल ठे के सूर्य चालेठे, अने पृथ्वी स्थिर रहेठे; वली सूर्यने फरवानां एकसो चोराशी मंरुल आकाशमां ठे, ते मंरुलोमां प्रवेश करवो, तथा दिनमान, रात्रिमाननी वधघट थवी, तथा ऋतुउंनुं वदलावुं, ग्रहणनुं लागवुं, सूर्यना अस्त उदयमां मतोना विवाद, इत्यादि अनेक वात, सर्व सूर्यप्रज्ञप्ति वा चंद्रप्रज्ञप्ति शास्त्रो अध्ययन करवाथी मालम पडेठे.

वली पृथ्वीने गोल साबीत करवामां तमुद्रमां चालतां वहाणना तलीयांने वदले वहाणना शडमात्र दूरजतां मालम पडेठे, इत्यादि जे जे कारणो

वतावेठे, ते ते कहेवावालाउनी समजमां जेम जेम आवतुं हशे तेम तेम वतावता हशे, परंतु अमारी समजणमां एम आवेठे के, नेत्रमां एवीज योग्यता ठे, जेथी वस्तुनी गोलाइज मालम पडे, कारण के ज्यारे अमे लांची तथा सरखा स्थलवाही सीधी सडक उपर उचा रङ्गीए ठीए, त्यारे अमारा पगनी जगाए सडक पहोली मालम पडेठे, अने ज्यारे दूरनो ते सडकनो जाग देखिये त्रियें त्यारे सडक सांकडी मालम पडेठे. वली तेज स्थलें आकाशमां मस्तकनी उपर सीधी लींटीए पहीने उंचे उडतां देखिये त्रियें, त्यारे जेटली उंचाश्ये दूर उडतुं अमने लागेठे, तेज पहीने ज्यारे सीधी लींटीमां थोडे दूर जइ उडतां देखिये त्रियें, त्यारे ते पही पृथ्वीनी बहु नजीक देखाय ठे. मात्र आटला अंतरना तफावतमां पृथ्वीनी एवी मोटी गोलाइ केम होय ? वली आकाशने ज्यारे देखिये त्रिये त्यारे घुमट जेवुं देखायठे, ते वावतमां जे कोइ एम कहे के धरतीनी गोलाईना सववथी आकाशपण गोल देखाय ठे, आ कहेवुं वास्तविक नथी; कारण के, पृथ्वी थोडाज दूरमां एटली गोल थइ शकती नथी, ते कारणथी नेत्रोमां जे वस्तुने जाणवानी जेवी योग्यता ठे तेवीज ते वस्तु देखाय ठे. एम कहेवुं वास्तविक लागे ठे.

वली आ पृथ्वी, अरतखंडनी बहु स्थले उंची, नीची मालम पडे ठे, कारण के श्रीहेमचंद्रसूरि प्रमुख आचार्य पद्मप्रज्ञचारित्रादिग्रंथोमां लखेठे के लंकाथी अमुक योजन पश्चिम दिशातरफ जइए तो आठ योजन नीचे पाताललंका ठे, जो ते योजन प्रमाण योजन होय तोतो. शा माटे अमेरिकाज पाताललंका न होय ? वली नीची जगा होवाथी बुद्धिमानोने पृथ्वी गोल मालम पडती होय. ते पाताललंकानी जेम वीजी जगाए पण धरती उंची नीची होय तो तेमां शुं आश्चर्य ठे ? कारण के पश्चिम महाविदेहनी धरती एक हजार योजन उंडी शास्त्रमां लखेली ठे, तेवीजरीतें वीजी जगाए पण धरती उंची नीची होवाथी कांइतुं कांइ मालम पडे, ते कारणथी जैनमतिए श्री अरिहंत जगवंतना कथनमां शंका न करवी जोइए.

केटलापक पुस्तकोमां लखेलुं अमे वांचेलुं तेमज सांजलेलुं पण ठे के अमेरिकादि मुखकोमां एवी विद्या फेलायली ठे के, जेथी वे हजार वर्ष

अगाध जे मनुष्यो मरण पास्या ठे तेउने हाल, बोलाववामां आवे ठे, वली तेउने ते बखतनो सर्व हेवाल पूठवामां आवेठे, त्यारे तेउ सर्व पोतानी व्यवस्था बतावेठे. परंतु मात्र परोक्ष रीतिं शब्द श्रवण तेउ करावेठे, प्रत्यक्ष तेउ देखाडता नथी; तथा अनेक तरेहना वीजा पण तमासा तेउ देखाडेठे, जे देखवाथी अल्पबुद्धिमानोनी बुद्धि अस्तव्यस्त थइ जायठे, अने तेउना मनमां अनेक शंका, कंखा उत्पन्न थइ जायठे, जे कारणथी अर्हतकथित धर्ममां अनादर थइ जायठे, कारण के जेम ते जीवोए जैनमतना पुरां शास्त्रो वाच्यां नथी, तेम श्रवण पण कर्या नथी, जेथी तेउना मनमां जलदी अधीरज पण थइ जायठे, परंतु पोताना मतनां सर्व पुस्तको वांच्या तेमज सांज्ञव्या विना मात्र तुठ वस्तुने वास्ते एकवार जैनधर्ममां शंका लाववी ते दीर्घदृष्टिपणुं नथी. पूर्वोक्त सर्व वृत्तांत इंद्रजालनी पूर्णविद्या जेउने आवडती होय तेउ बतावी शकेठे. में अमुक ग्रंथमां लखेलुं वाच्युं ठे के, कुमारपाल राजाना समयमां बोधिदेव नामनो एक ब्राह्मण हतो, तेणें कुमारपाल राजानी श्रद्धा जैनमतथी हठाववा वास्ते, कुमारपालनी अगाध तेना वंशना मूलराज आदि जे सात राजाउ थइगया हता तेउने नरक कुंडमां पडेल, विलाप करता, ए प्रमाणे कहेता देखाड्या के हे पुत्र ! जे दिवसथी तें जैनधर्म अंगीकार करेलो ठे, ते दिवसथी अमे तारा सात वडवाउ नरक कुंडमां पडेल ठीए, जो तुं अमारुं जलुं चहातो हो तो जैनधर्मने तजी दे. आवी वीना देखीने कुमारपाल राजा पोताना चित्तमां गनराया; तत्काल जइ पोताना गुरु श्री हेमचंद्र आचार्यने सर्व वृत्तांत कही पुठ्युं के हे महाराज ! आनो शुं हेतु ठे ? आचार्यजीए कथुं के हे राजेंद्र ! आ सर्व इंद्रजालनी विद्या ठे, आवो हुं पण तमोने कांश्क तमासो देखाडुं. त्यार वाद राजाने मकाननी अंदरना जागमां लइ जइ, चोवीश तीर्थकर समवसरणमां जुदा जुदा वेग ठे, अने कुमारपाल राजाना तेज सात पुरुषो तीर्थकरोनी सेवा करे ठे, तेमज कुमारपालने कहे ठे के हे पुत्र ! तुं मोटो पुण्यात्मा ठे के जेणें जैनधर्म अंगीकार करेल ठे. जे दिवसथी तें जैनधर्म अंगीकार करेल ठे, तेज दिवसथी अमे नरक कुंडमांथी निकली खर्गवासी थया ठीए, ते कारणथी हे जाइ ! तुं जैनधर्ममां दड रहे जे. त्यार वाद श्री हेमचंद्र

सूरि कुमारपाल राजाने वहार लाव्या. राजायें पुळ्युं के महाराज ! त-
मासो बहुज आश्चर्यकारी ठे. सूरिजीए कहुं के हे राजन् ! इंद्रजा-
लनी विद्या जेउने आवडती होय, ते एम करी शके ठे. इंद्रजाल वि-
द्यानां सत्तावीश पीठ ठे, तेमांथी सत्तर पीठ शंसारमां प्रचलित ठे, प-
रंतु सत्तावीशे पीठ हुं जाणुं हुं, हाल वीजो कोइपण चारत्तवर्षमां जा-
णतो नथी, अने जे गुरुउए अमने ते विद्या आपी हती, तेमणें एवी
आज्ञा पण करेली ठे के, जविष्यमां आ विद्या तमारे कोइने पण देवी
नहि, कारण के आ विद्याथी मोटो अनर्थ उत्पन्न थशे, सारांश के आ
कालमां जीव तुछ बुद्धिवाला होवाथी तेउने आ विद्या जरशे नहि,
वली तेज कारणथी अमारा आचार्योए योनिप्राचृत शास्त्र विवेद करी
दीधेलां ठे, ते योनि प्राचृतने अनुसारें आ इंद्रजाल रची शकाय ठे. आ
योनिप्राचृतनुं कथन व्यवहार जाण्यचूर्णीमां करेलुं ठे, ज्यां लख्युं ठे
के आ योनिप्राचृतमां तंत्रविद्या ठे, जेनाथी सर्प, घोडा, हाथी विगेरे
जीवतां जानवर, वस्तुउंना मेलापथी वनी शके ठे, तथा सुवर्ण, मणि,
रत्न प्रमुखपण वनी शके ठे. आ मशालामांज एवी मिलनशक्ति ठे के
मरजीमां आवे ते वनावी ल्यो ? ते कारणथी वर्तमानमां नवीन वस्तुने
देखीने कोइए जैनधर्मथी चलायमान न थवुं जोइए. तत्त्वार्थना महाजा-
प्यमां सामंतजद्र आचार्य पण लखे ठे के इंद्रजालीआ तीर्थकरनी स-
मान बाह्यरुद्धि सर्व वनावी शके ठे, ते कारणथी कोइ वाचतमां चम-
त्कार देखी जिनवचनमां शंका न करवी.

वली केटलाएक जैनमतवालाउने आ पण आश्चर्य ठे के, ज्यारे आ-
र्यावर्त्तमां वे प्रहरदिन होय ठे, त्यारे अमेरिकामां अर्धरात्रि होय ठे,
अने ज्यारे अमेरिकामां वे प्रहर दिवस थाय ठे, त्यारे आर्यावर्त्तमां अ-
र्धरात्रि थाय ठे, ते वाचतना चोकस समाचार तारनी मददथी तेमज घ-
डीआलना साधनथी मेलवी शकाय ठे. आ वातनो यथार्थ उत्तर हुं
आपी शकुं तेम नथी. मारी श्रद्धा एवी पण नथी के पूर्व आचार्योंनी
शाहादत शिवाय समाधान करुं, कारण के मात्र मारी कल्पनाथी कांइ
जैनमत सत्य थइ शकतो नथी, जैनमत तो पोताना स्वरूपथीज सत्य
घनशे, जो मारी कल्पनाज जैनमतनी सत्यतानुं कारण होय तो, कांइ

पूर्वाचार्यनी अपेक्षाज रहेशे नहि, वली जेना मनमां जे अर्थ सारो लागशे ते अर्थ वनावी देशे. जेम वर्तमानमां कोइ पाखंडी मस्कराए ऋग् आदि वेदो उपर स्वकपोल कल्पित टीका वनावेली ठे, ते अमे वांची पण ठे तेउण वेदमंत्रादि उपर जे ज्ञाप्य वनाव्युं ठे, ते मंत्रोना अर्थमां एवुं लखेलुं ठे के “अश्विनोट” अर्थात् वरालयंत्रथी चालनारां वहाण, तथा रेलगाडी चालवानो विधि, तथा पृथ्वी गोल ठे, ते सूर्यनी चारे वाजुए फरे ठे, अने सूर्य स्थिर ठे, इत्यादि अंग्रेजोए पोतानी बुद्धिना वलथी जे नवीन शोधनी विद्या वहार पाडी ठे, ते सर्व विद्याउनुं वेदोमां कथन ठे. पोताना शिष्योने वेदनुं महत्त्व वताववा वास्ते स्वकपोलकल्पित अर्थ वनावी लीधा ठे; अने पूर्व महीधरादि पंडितोए वेदो उपर जे दीपिका तथा ज्ञाप्यो रचेलां ठे तेउनी निंदा तेमज मूर्खता प्रगट करेली ठे. जेमके तेउं मूर्ख हता, तेउने वेदना अर्थ आवडता न होता.

प्रश्न:—पूर्वना अर्थ ठोडीने नवीन अर्थनी रचना करवानुं शुं कारण ठे?

उत्तर:—प्रथम तो वेदो उपरनां प्राचीन ज्ञाप्य, तेमज दीपिका मानवाथी वेदोनी सत्यता, ईश्वरोक्तता तेमज प्राचीनता सिद्ध थती न होती. ते कारणथी ईशावास्य उपनिषद् वर्जिने, सर्व उपनिषदो, सर्व ब्राह्मण जाग, सर्व स्मृति, पुराणादि शास्त्र, ज्ञाप्य, दीपिकादि मानवां तर्जी दीधां, तेमणे एवो विचार कयों के पूर्वोक्त सर्व ग्रंथो मानवाथी अमारो मत बीजा मतवाला खंडित करी देशे, कारण के पूर्वोक्त सर्व ग्रंथो युक्ति प्रमाणथी विकल ठे, वली प्राचीनोए जे अर्थ करेला ठे, तेमां केटलाएक अर्थ एवा ठे के जे श्रवण करवाथी श्रोताजनोने लज्जा उत्पन्न थाय ठे, कारण के महीधरकृत दीपिका जे वेदनी टीका ठे, तेमां मंत्रादिना जे अर्थ लखेला ठे, तेमां लख्युं ठे के यज्ञपत्नी घोडानुं विंग पकडीने पोतानी योनिमां प्रक्षेप करे, इत्यादि अर्थ ठे. तेनुं वर्णन आगल उपर लखीश. ते अर्थोने ठोडवावास्ते, अने वेदोनुं खंनन न थाय ते वास्ते स्वकपोल कल्पित ज्ञाप्य वनावी अंग्रेजादि पाश्चिमात्यनी रीतिमुजव तथा इंजिल मतानुसार अर्थ वनाव्या ठे, परंतु वेदादिवेचा बुद्धिमान् पुरुषो तो कोइ ते मानता नथी, अने जेउं माने ठे तेउं कांइ

वेदादि जाणता नथी, कारण के ज्यारे पूर्वना ऋषि मुनि, पंडित असत्यवादी तेमज तेउना वनावेला अर्थ असत्य ठे, त्यारे वर्त्तमानना वनावेलाउना अर्थ केवीरीतें सत्य करी शकशे ? जे मूलमांज असत्य ठे ते नवीन रचनाथी कदापि सत्य थवाना नथी. ते कारणथी पोतानी बुद्धिनो विचार सत्य मानवो, अने वेदोने माननारा प्राचीन संप्रदाय वालाना अर्थ जूठा मानवा, तेनाथी अधिक अविवेक तथा अन्याय शिरोमणि पणुं वीजुं कयुं ठे ? वही ज्यारे प्राचीनोना वनावेला अर्थ जूठा करशे, त्यारे तेउना वनावेला वेदो पण जूठाइ ठरशे, ते कारणथी जेउ मतधारी ठे, तेउए कां तो पोताना प्राचीनोना कथन करेला अर्थ मानवा जोइए, अथवा तो ते मतने तेमज तेमतनां शास्त्रने तजी देवां जोइए; अने तेज कारणथी मारी एवी श्रद्धा ठे के जैनमतमां जे प्रामाणिक तेमज पंचांगी कारक आचार्य लखी गया ठे तेउने अनुसारज मारे कथन करवुं जोइए, स्वकपोलकद्विपत कदापि नहि. जे स्वकपोल कद्विपत करशे तेमज मानशे, ते कदापि जैनमतवालो वनी शकशे नहि, अने तेनी कद्वपना पण सर्वथा सत्य ठरशे नहि, कारण के पूर्वाचार्य ज्यारे जूठा ठे, त्यारे नवीन कद्वपनावाला केवीरीतें साचा ठरशे ? ते सर्व कारणथी पूर्वना प्रश्ननो उत्तर पंचांगी प्रमाणथी हुं आपी शकतो नथी, कारण के १ शास्त्रो बहुज विधेद गया ठे, तथा २ आर्यरक्षितसूरिना समयमां चारे अनुयोग तोडीने पृथक् पृथक् अनुयोग रचवामां आव्या ठे, तथा ३ स्कंधिल आचार्यना समयमां वार वर्ष सुधी डुकाल पड्यो हतो ते वखंतमां शास्त्रो बहुज विस्मृत थवा लाग्यां, जेथी सर्व साधुउए दक्षिण मथुरामां समाज करी, जे प्रसंगे जे जे आचार्य तथा साधुउने जे जे शास्त्रनां जे जे स्थल, स्मृतिमां रखां हतां ते ते स्थल एकत्र करी. लखवामां आल्यां, वाद ४ देवर्द्धिगणि दामा श्रमण प्रजृति आचार्योए पानाउपर एक क्रोड ग्रंथो लख्या, वाकीना तजी दीधा, ५ प्रजावकचारित्रमां लखुं ठे के, सर्व शास्त्रो उपर टीका लखी हती, जे सर्व विधेद गइ, तथा ६ ब्राह्मणो अने बौद्धोए तो ग्रंथोनो बहुज नाश कयो, तथा ७ मुसलमानो ए पोताना समयमां सर्वमतनां शास्त्रो माटीमां मेलवी दीधां, अनेक सलगावी दीधां, शेष रखां ते चंडारोमां गुप्त रहेवाथी गलीगयां, अने व-

त्तमानमां जे जंडारोमां पडेलां ठे, ते सर्व अमे वांचेलां नथी, आटला आटला उपद्रवो जैनशास्त्रो उपर वीतवाथी अमे सर्व शंकाउनुं केवी रीतें समाधान करी शकीए ? ते कारणथी जैनमतमां शंका न करवी. अमे सर्व मतनां शास्त्रो अवलोकन करेलां ठे, परंतु जैनमतसमान अति उत्तम मत वीजो कोइपण मारा देखवामां आव्यो नथी, तेथी आ मतमां दृढ रहेतुं जोइए. १ शंका अतिचार ते कहेवायं ठे, जेम के जिनवचनोमां शंका करवी अर्थात् जिनेश्वर जगवानें कयन करेला जाव सत्य हशे के नहि ? आ प्रथम अतिचार ठे.

२ वीजो आकांक्षा अतिचार. अन्यमतवालाउनां अज्ञानकष्ट देखी, तेमज कोइ पाखंडीना विद्यामंत्रना चमत्कार देखी, तेमज पूर्वजन्मना अज्ञानकष्टथी फल पामेला अन्यमतवालाउने सुखी तेमज धनवान् देखी मनमां विचारे के अन्यमतवालाउना धर्म तथा ज्ञान सारां ठे, जेना प्रजावथी, तेउं धनवान्, सुखी, तथा पुत्रादि परिवारवाला थाय ठे, ते कारणथी हुं पण तेउंनोज धर्म अंगीकार करूं, जेथी हुं पण धनवान् तेमज पुत्र परिवारवालो थाउं. आकांक्षा अतिचार तेज जीवोने लागेठे, जे जीवोने जैनधर्मनो बहुज सारी रीतें बोध होतो नथी. कारण के जैनधर्मवाला पण सर्व दरिद्री तथा पुत्रादि परिवारथी रहित नथी, तेमज अन्यमतवाला पण सर्वे धनवान् तेमज परिवारवाला नथी, सारांश के सर्व पोतपोतानां पूर्वनां तथा जन्मांतरनां करेलां पुण्य पापनां फल जोगवे ठे. जुउं के केटलांएक, मनुष्यजन्ममां साते कुव्यसननो सेवनारां ठतां धनवान्, अने केटलांएक कसाइ, खाटकी इत्यादि नीचधंधानां करनारां पण धनवान् तेमज पुत्रादि परिवारवालां तेमज सुखी ठे, अने केटलाएक आ अवस्थाथी विपरीत ठे, ते कारणथी मात्र तेज सत्य ठे के दरेकजीव पोताना पूर्वना तेमज जन्मांतरना सुकृत दुष्कृतनुं फल जोगवे ठे, मात्र आ जन्मनां कृत्योनुंज फल जोगवता नथी. सर्व मतोमां राजाउ थइ गया ठे, तेमज रंक पण बहुज ठे, ते कारणथी वीजा मतनी आकांक्षा न करवी. जो करी ए तो वीजो अतिचार.

३ त्रीजो वित्तिगिष्ठा नामे अतिचार ठे. जे जीव पोतानां पूर्वजन्मनां करेलां पापोना उदयथी दुःख जोगवे ठे, त्यारे एवो विचार करे

के हुं जे धर्म करुं हुं, तेनुं फल मने शुं मलशे ? अर्थात् धर्मनुं फल मने मलशे के नहि ? वली जेठ धर्म करता नथी, तेठ सुखी ठे, अने हुं धर्म करुं हुं, ठतांपि दुःखी हुं, ते कारणथी कोण जाणे धर्मनुं फल हशे के नहि ? तथा साधुनां मखिन शरीर तथा मखिन वस्त्र देखीने मनमां दुगंठा करे के आ साधु सारा नथी, कारण के तेमनुं शरीर गंडु ठे तथा तेमनां वस्त्र पण गंदां ठे. तेठ संसारथी केवी रीतें तरी शकशे, जो तेठ उष्णजलथी स्नान करे तो तेथी कयुं महाव्रत तेठनुं जंग थाय ठे ?

उत्तर:—जो धर्मनुं फल न होय तो, संसारनी विचित्रता कदापि न होय, ते कारणथी धर्मनुं फल अवश्यमेव ठे. वली साधु जे मखिन वस्त्र राखे ठे, तेनुं कारण ए ठे के सुंदरवस्त्र राखवाथी मन शृंगार रतने चहाय ठे. वली स्त्रियो पण सुंदर वस्त्रवालाउने देखीने तेउनी साथे जोग जोगववानी इच्छा करे ठे. ते कारणथी शियल पालवानी इच्छा राखनारा साधुए शृंगार करवो वास्तविक नथी, वली स्नान, कामनुं प्रथम अंग ठे, तेथी साधुउने उचित नथी, अने कोइ कारण प्रसंगें साधु हाथ, पगादि धोवे तो ते कांइ दूषण नथी, वली साधुउने पोतानां शरीर उपर ममत्व पण नथी, अने शुचिमात्र स्नान तो साधु करे ठे. परंतु शरीरना सुखवास्ते. तथा शरीरने चमकाववा वास्ते स्नान करता नथी, कारण के जैनिउनी एवी श्रद्धाज नथी के स्नान करवाथी पाप दूर थइ जाय ठे. जलस्नानथी शरीरनो मेल दूर थाय ठे, शरीरनो ताप मटी जाय ठे, अने आलस दूर थाय ठे, परंतु पाप तो दूर थतुं नथी, जो जल स्नानथी पाप दूर थतुं होय तो, अनायासें सर्व जीवनी मुक्ति थइ जाय, कारण के एवुं कोइ नथी जे जल स्नान करतुं नथी. वली साधुने मेला समजवा, ते पण मोटी मूर्खता ठे, कारण के शरीरें मेल होवाथी आत्मा मखिन थतो नथी आत्मातो मात्र पापकरवाथीज मखिन थाय ठे. वली जगत व्यवहारमां मेलापणुं स्त्री साथे संजोग करवाथी, तेमज कोइ मखिन वस्तुनो स्पर्श करवाथी मानवामां आवे ठे, अने साधुतोते सर्व वस्तुना त्यागी ठे, तेथी मेला कहेवाय नहि, वलके साधुउने धन्यवाद देवो जोइए, केमके ताप पडे ठे, लू वाय ठे, पसीनो वहे ठे, ठतांपि साधु उघाडा पगे तेमज खुल्ले मस्तके विहार करे ठे, रात्रियें मात्र ठाजेला मकानमां सुवेठे,

पंखा करता नहीं, कोमल शय्या तेमज पलंग पर सुता नहीं, रात्रिए जलपण पीता नहीं, दिवसेपण उष्ण जल पीये ठे, आ प्रमाणे तेउनुं चारे तप ठे. तेउथी उलटा जेउं साधु वनी वेठा ठे, अने गरमी लागे ल्यारे पाडानी पेठे सरोवरमां जइ पडे ठे, एवा सुखशीलिआ शुं तरी जशे ? जेउने कोइ वातनो नियम नहीं. वली हाथी, घोडा, रेल प्रमुखनी स्वारि करवी, सर्व प्रकारनां फलजङ्गण करवां, धन राखवां, मकान बांधवां, खेती करवी, कराववी, गाय, जैंस, हाथी, घोडा प्रमुख जानवर तथा रथादि अने शस्त्रादि सरंजाम राखवा, ठल, बलथी लोको पासेथी धन लेवां, स्त्रीउं साथे विषयसेवन करवां, सुंदर खानपान करवां, मांसजङ्गण करवां, मदिरापान करवां, जांगना रगडा, चरसनी चलमो उडाववी, हाथपग तथा शरीरने वेश्यानी जेम चमकाववां, चित्तमां मोटा अजिमान राखवां, दंड पीलवा, कुस्ती करवी, इत्यादि अनेक साधुउंने अनुचित कामो करवां, उतां श्री श्री स्वामिजी महाराज वनीठणी वेसवुं, अमे महंत ठइए, अमे गादिपति ठइए, अमे जट्टारक ठइए, अमे श्रीपूज्य ठइए, अमे जगतनो उद्धार करीए ठइए, अमे महान् अद्वैतब्रह्मवेत्ता ठइए, अमे गुरु ईश्वरनी उपासना वतावीए ठइए, अमे मूर्तिपूजन पाखंडनो नाश करीए ठइए.

हवे ज्ञव्य जीवोए विचार करवो जोइए के, पूर्वोक्त कुगुरुउं शुं जल स्नान करवाथी संसार समुद्रथी तरी जशे ? अने जेउं, जीवहिंसा, असत्य, चोरी, मिथुन तेमज परिग्रह, आ पांचेना त्यागी, शरीरना ममत्वरहित, प्रतिबंधरहित, कामक्रोधना त्यागी, महातपस्वी, मधुकर वृत्तिथी जिह्वा लेनारा, इत्यादि अनेक गुणोथी सुशोचित, शुं जल स्नान नहिं करवाथी पातकी थइजशे ? कदापि थशे नहिं. ते कारणथी साधुउंने देखी जुगुप्सा न करवी, जो करे तो त्रीजो अतिचार.

चोथो मिथ्यादृष्टिनी प्रशंसारूप अतिचार ठे. जिनप्रणीत आज्ञाथी जे बहार ठे ते मिथ्यादृष्टि ठे, कारण के सर्वज्ञनां कथन करेलां वचनो ते मानता नहीं, अने असर्वज्ञनां कथन करेलां वचनो सत्य माने ठे, वली असर्वज्ञप्रणीत शास्त्रोमां जे अयोग्य वातो कहेली ठे, तेउंने तुपाववा वचने स्वकपोलकल्पित ज्ञाप्य, टीका, अर्थ वनावी मूर्ख लोकोने बहेकावी

गप्पां मारता फरे ठे, वली जेउने धर्मनियम कांइ पण नथी, अने अनाथ पशुउने मारि जाणे ठे, तथा धूर्तपणाथी साचो डोल धारण करी मूखीने मिथ्यात्व जाळमां फसावे ठे, एवा मिथ्यादृष्टि ठे; तेउनी प्रशंसा करवी, तथा जिनाझा वहार एवा अज्ञान कष्ट करनाराउने कहेवुं के, अहो ! केवा महान् तपस्वी ठे ! महापुरुष ठे ! महापंडित ठे ! तेउनी वरावरी करी शके तेवा कोण ठे ? तेउण धर्मनी वृद्धि वास्तेज अवतार धारण करेल ठे. वली मिथ्यादृष्टि कोइ व्रत यज्ञादि करे तो तेनी वहुज प्रशंसा करे, तमे वहुज सारां काम करो गो, तमारो अवतार सफल ठे, इत्यादि प्रशंसा करे, ते चोथो अतिचार ठे.

५ पांचमो मिथ्यादृष्टिनो परिचय करवो ते अतिचार ठे. मिथ्यादृष्टिनी साथे वहुज मेलाप राखे, खान पान करे, वास करे, इत्यादि अनेक प्रकारथी सहवास करवाथी मिथ्यादृष्टिनी वासना लागीजवाथी धर्मथी च्रष्ट थवाय ठे, ते कारणथी मिथ्यादृष्टिनो बहुपरिचय करवो ते वास्तविक नथी. जो करे तो पांचमो अतिचार.

ज्यारे गृहस्थने सम्यक्त्व आपवामां आवे ठे, त्यारे तेने गुरु ठ आगार वतावे ठे. जो ठ कारणोमां तमने कांइ अनुचित काम करवुं पडे तो आ ठ आगार राखी शकाय जेथी तमारुं सम्यक्त्व कलंकित थशे नहि, ते ठ आगार नीचे मुजब ठे.

१ प्रथम “ रायाजिउगेणं ” नगरना स्वामि जे राजा, ते कोइ अनुचित काम जोरावरीथी करावे तो सम्यक्त्वमां दूषण लागे नहि.

२ वीजा “ गणाजिउगेणं ” गण अर्थात् ज्ञाति तथा पंचायत, ते कहे के आ काम तमे अवश्य करो, नहि तो तमने ज्ञाति तथा पंचायत मोहोरो दंड करशे. तेवे प्रसंगे जो ते काम करवुं पडे तो सम्यक्त्वमां दूषण नहि.

३ त्रीजो “ वलाजिउगेणं ” वलवंत चोर, म्हेवादि तेउने वश पडतां, जोरावरीथी तेउ अनुचित काम करावे तो सम्यक्त्वमां अतिचाररूप दूषण नहि.

४ चोथो देवाजिउगेणं ” कोइ छुष्ट देवता क्षेत्रपालादि, व्यंतर शरीरमां प्रवेश करी अनुचित काम करावे तो जंग नहि, तथा कोइ देवता

मरणांत दुःख थापे, जेथी मनमां धैर्य न रहे, अने मरणांत कष्ट जाणी कांइ विरुद्ध काम करवुं पडे तो सम्यक्त्वमां अतिचार जंग नहि.

५ “गुरुनिग्गहेणं” गुरु ते मातपितादि तेमना आग्रहथी कांइ अनुचित काम करवुं पडे; तथा गुरु ते धर्माचार्यादि तथा जिनमंदिर, ते जेने अर्थात् गुरुने कोइ दुष्ट संकट देतो होय, तथा जिनमंदिर तोडतो होय. जिनप्रतिमानुं खंडन करतो होय, तो गुरुनिग्रह ठे, तेजनी रक्षा वास्ते कांइ अनुचित काम करवुं पडे तो सम्यक्त्वमां दूषण नहि.

६ ठो “वित्तिकंतारेणं” वृत्ति जे दुकालादि आपत्ति आवी पडे, त्यारे आजीविकावास्ते कोइ मिथ्यादृष्टिने अनुसारें चालवुं पडे, तथा आजीविकावास्ते कोइ विरुद्ध आचरण करवुं पडे तो दूषण नहि. आ ठ वस्तुना आगारोने ठ ठिंडी कहेठे. तथा चार आगार बीजा ठे तेपण कहियें ठियें.

१ अन्नवृणाचोगेणं” कोइ कार्य अजाणपणे, उपयोग आप्या विना, कांइनुं कांइ थइ जाय, ज्यारे याद आवे, त्यारे फरी ते कार्य न करवुं ते प्रथम आगार.

२ “सहस्सागारेणं” कोइ काम अकस्मात् थइ जाय; पोताना मनमां जाणेंठे के आ काम मारे करवावुं नथी, योगीनी चपलताथी तथा निरंतरना बहु अच्युसथी जाणतां ठतां पण विरुद्ध कार्य थइ जाय तो सम्यक्त्वमां जंग नहि, आ बीजो आगार.

३ “महत्तरागारेणं” कोइ मोटो लाज थाय ठे, परंतु सम्यक्त्वमां दूषण लागेठे, तथा कोइ मोटा ज्ञानीनी आझाथी कमवेशी करवुं पडे तो, आ बीजो आगार ठे.

४ “सव्वसमाहि वत्तिआ गारेणं” सर्व समाधि व्यत्ययथी अर्थात् मोटा सन्निपातादि रोगोने प्रसंगें वावरा थइ जवाथी, तथा अतिवृद्धावस्थां स्मृतिजंग थवाथी, तथा रोगादि संकट समये मनमां आर्त्तध्यान थइ जवाने प्रसंगें, तथा सर्पादि डंख मारवाथी असमाधि थवाना समयमां, आ आगार ठे. तेथी सम्यक्त्व तथा व्रतजंग थतां नथी. तेवे प्रसंगें, कोइ मूर्खना कहेवाथी आर्त्तध्यानमां प्राण त्यागवा ते योग्य नथी. केटलाएक जैनमतना अनजिज्ञोतुं एम पण कहेवुं ठे के, गमे तेम थइ जाय तोपण, जे नियम वीधेलुं ठे, ते कदापि तोडवुं नहि, आ कहेवुं स-

वैया वास्तविक नथी, कारण के जो पहेलेथी आगार राख्या ठे, तो पठी व्रतजंग केवीरीतें थायठे ? अने जेठ आर्त्तध्यानमां मंरी जायठे, तथा आगार राखता नथी, तेठ जैनमार्गनी शैलीना अजाण ठे. ते कारणथी ठ ठिंडी अने चार आगार सर्व वारे व्रतमां जाणवा. वली साधुना सर्व प्रत्याख्यानमां अनशन पर्यंत आज चार आगार जाणवा. इतिश्री तपग-
ष्ठियगणिश्रीमणिविजय, तष्ठिय मुनिश्रीवृद्धिविजयतष्ठिय मुन्यात्मा रामानंदविजयविरचिते जैनतत्त्वादर्श (गुर्जर जायांतरे) सम्यग्दर्शननि-
र्णयनामा सप्तमपरिच्छेदः संपूर्णः ॥ ७ ॥

॥ अथाष्टमपरिच्छेद प्रारंभः ॥

आ परिच्छेदमां चारित्रनुं स्वरूप लखियें ठियें, चारित्र धर्मना वे जेद ठे. एक सर्वचारित्र, वीजुं देशचारित्र. तेमां सर्व चारित्र तो साधुमां होयठे. तेनुं स्वरूप आ परिच्छेदमां लखिये ठियें. देशचारित्रना वार जेद ठे. देशचारित्र गृहस्थधर्म ठे. वार व्रतरूप ठे. तेनुं किंचित् स्वरूप ल-
खतां प्रथम स्थूलप्राणातिपातविरमण व्रतनुं स्वरूप लखियें ठियें.

१ स्थूलप्राणातिपातविरमणव्रतना वे जेद ठे. एक ड्रव्य प्राणातिपात व्रत, वीजुं जाव प्राणातिपात व्रत. ड्रव्यप्राणातिपात विरमणव्रतनुं स्वरूप एवुं ठे के, परजीवने पोताना आत्मासमान जाणीने तेठना दश ड्रव्यप्रा-
णनी रक्षा करवी. आ व्यवहार दयारूप ठे. वीजुं जाव प्राणातिपातव्रत. ते पोतानो आत्मा कर्मवश पड्यो थको दुःख पामेठे; वली जावप्राण जे ज्ञान, दर्शन, चारित्रादि, तेठना, मिथ्यात्व, कपायादि अशुद्ध प्रवर्त्तनथी प्रतिक्षण घात थया करेठे, ते कर्मशत्रुंथी जावप्राणनो घात थतो अ-
टकाववा वास्ते, तथा आत्माने कर्मशत्रुथी ठोडावावास्ते उपाय करवा ते उपाय आ प्रमाणे. आत्मरमणता करे. परजाव रमणता लागे. शुद्धउप-
योगमां प्रवर्त्त. कर्मना उदयमां अव्यापक रहे. एक स्वजाव मग्नतां करे. आ उपजोग समस्त कर्मशत्रुंनो उच्छेद करवाने अमोघ शस्त्रो ठे. अ-
र्थात् सकल परजाव इष्टता दूर करी, स्वरूप सन्मुखरूप उपयोगमां प्रव-
र्त्तावुं, तेनुं नाम जावप्राणातिपात विरमणव्रत कहियें. तेनुंजनाम जाव.
ह्वे स्थूल नाम मोटा दृष्टिगोचर, हात्ते, चाले तेवा जे व्रसजीव, ते-
उने संकल्पथी न हणुं. अर्हियां हिंसाना चार प्रकार वतावीए ठीए.

आकुट्टी, ते निषेध वस्तुने उत्साहथी करवी, जेमके संपूर्णफलना जडथां करवां, ते श्रावकने निषेध ठे, तेथी जेणे जेटली जातनां फल खावामां राख्यां होय, तेउंमांथी कोष्पण फलनुं जडथुं न करवुं, ठतां मनमां उत्साहपूर्वक जडथां करे तो आकुट्टी हिंसा लागे. २ दर्पहिंसा, ते चित्तना उठरंगथी, उन्मत्तपणाथी, गर्वधारण करीने, दोडे. तेमज गाडी, घोडा प्रमुख दोडावे तो दर्पहिंसा लागे. ३ कल्पहिंसा, ते शरीरना कामजोगवास्ते तीव्र अजिजापापूर्वक, कामनो जोस चडाववावास्ते त्रस जीवनी हिंसा करी, गोली, माजम प्रमुख वनावी खाय तो कल्पहिंसा लागे. ४ प्रमादहिंसा, ते घरनां कामकाज, जेमके रांधवुं, दलवुं, जरडवुं प्रमुख अनेक काम करतां त्रसजीवनी हिंसा थड जाय तो प्रमाद हिंसा लागे. आ चारे हिंसामांहेनी प्रथमनी हिंसा, तथा वीजी हिंसा तो विलकुल न करवी जोडए. ते कारणथी संकल्पथी आकुट्टी तथा दर्पथी त्रसजीव हणवानो त्याग करे. वली जेम आ कीडी जाय ठे, तेने हुं मारुं? एवा संकल्पथी हणवुं, हणाववुं, ते आकुट्टी संकल्प कहेवाय ठे, एवा संकल्पथी निरपराधी जीवोने, कारण विना हणुं नहि. हणावुं नहि, एवो नियम करे, अने सांसारिक आरंज, रांधवा प्रमुखनां काम करतां, तथा पुत्रादिना शरीरमां कीडा प्रमुख पडतां, व्याधिने प्रसंगे औपधोपचार करतां यत्नापूर्वक प्रवर्त्ते. वली घोडा, बलद प्रमुखने चावक प्रमुख मारवा पडे तेनो आगार राखे. तथा पेटमां कृमि, गंडोला, पगमां नारां अर्थात् वाला, हरस, जू प्रमुख अनेक जीव शरीरमां उपजे, तथा खजन, मित्रादिना शरीरमां उपजे, तेना उपचार करवानी जयणा राखे. कारण के साधुने तो त्रस तथा स्यावर, सूक्ष्म तथा वादर, सर्वजीवोनी हिंसा नवकोटी विशुद्ध अप्रमत्त योगोथी सर्व हिंसानो त्याग ठे, तेथी साधुने वीश विश्वा दया ठे, अने गृहस्थथी तो सवा विश्वा दया पली शके ठे. तेतुं स्वरूप लखीए ठीए.

॥ गाथा ॥ जीवासुहुमा धूला, संकप्पा आरंजा जवे छुविहा ॥ सवराह निरवराहा, साविस्का एव निरविस्का ॥ १ ॥ अर्थः—जगत्मां जीव वे प्रकारना ठे. १ स्यावर, २ त्रस. तेमां स्यावरना वे जेद ठे, १ सूक्ष्म, २ वादर. तेमां सूक्ष्मजीवोनी हिंसा तो यतीज नथी, कारण के अति-

सूक्ष्म जीवोना शरीरने बाह्य शस्त्रना घा लागता नथी; परंतु अर्हीश्चा तो सूक्ष्मशब्द, स्थावर जीवो जे पृथ्वी, पाणी, अग्नि, पवन, वनस्पतिरूप पांच वादर स्थावर, तेउं सूक्ष्म वाचक ठे, अने स्थूल जीव ते द्वींद्रिय, तींद्रिय, चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय जाणवा. आ वंने जेदमां सर्वजीव आवी गया. ते सर्व जीवोनी त्रिकरण शुद्धिथी साधु रक्षा करे ठे, ते कारणथी साधुने वीश विश्वा (वसा) दया ठे. श्रावकथी तो पांच स्थावरनी दया पलती नथी, सच्चित्त आहारादि करवाथी अवश्य हिंसा थाय ठे, ते कारणथी दश विश्वा दया दूर थइ. वाकी दश विश्वा रहीं. सारांश के त्रसजीवनी दया रहीं. त्रसजीवनी हिंसाना पण वे जेद ठे. एक संकटपथी हणवा, बीजा आरंजथी हणवा. तेमां संकटपथी हणवानो त्याग ठे, परंतु आरंजनी हिंसानो श्रावकने त्याग नथी, आरंज हिंसामां यत्ना राखवानी ठे, कारण के आरंज हिंसा श्रावकने थाय ठे, ते कारणथी दश विश्वामांथी पांच विश्वा वाद थइ, अर्थात् संकटपथी त्रसजीवनी हिंसानो त्याग ठे. वली तेना पण वे जेद ठे. एक सापराधी, बीजा निरपराधी. तेमां निरपराधी जीवोने न हणवा, अने सापराधी जीवोने हणवानी जयणा ठे. कारण के सापराधी जीवनी दया श्रावकथी सदा सर्वथा पलती नथी. जेम के घरमां चोर आवी चोरी करी धन, माल लइ जता होय, तेउंने मार्या, कुट्या विना तेउं धन, माल ठोडता न होय, तथा पोतानी स्त्रीनी साथे कोइ अन्यपुरुष डुराचार सेवतो देखवामां आवे, तेवे प्रसंगे मारवो पडे, तथा कोइ श्रावक राजा होय, अथवा तो राजाना हुकमथी युद्ध करवा जवुं पडे, तेवे प्रसंगे श्रावक, प्रथम शस्त्र चलावे नहि, परंतु ज्यारे शत्रु शस्त्र चलावी मारवा आवे ते समये शत्रुने मारवा पडे. तथा सिंहादि जानवर खावा आवे, ते वखते तेउंने मारवां पडे. त्यारे संकटपथी पण हिंसानो त्याग नथी. ते कारणथी पांच विश्वामांथी अरधी वाद थइ, वाकी अर्ही विश्वा दया रहीं. अर्थात् मात्र निरपराधी त्रसजीव दृष्टिगोचर आवे तेउंने न मारुं. एवो नियम रह्यो. तेनापण वे जेद ठे, एक सापेक्ष, बीजो निरपेक्ष. तेमां पण सापेक्ष निरपराधी त्रसजीवनी दया श्रावकथी पलती नथी, कारण के श्रावक ज्यारे घोडा गाडी, बलद गाडी, घोडा, घोडी प्रमुखनी

स्वारि करे ठे, त्यारे घोडाप्रमुखने हांकता चावकादि मारे ठे; अर्हीआं घोडा तथा बलदोए कांइ तेउंनो अपराध कयों नथी, तेउंनी पीठ उपर तो चडी रह्या ठे, अने जाणता नथी के ते विचाराउंने चालवानी शक्ति ठे के नहि ? ज्यारे ते जीवो हलवे हलवे चाले ठे, तेमज चालता नथी, त्यारे अज्ञानना उदयथी तेउंने गालो देठे, तथा मारे ठे, एम निरपराधी जीवोने दुःख आपे ठे. बली पोताना शरीरमां तेमज पोताना कुटुंबीउं तथा स्वजन, मित्रादिना शरीरमां अर्थात् मस्तकमां, मुखमां, कानमां इत्यादि अवयवोमां कीडा पडे, तेउंने दूर करवावास्ते दवा खगाववी पडेठे, जेथी ते जीवोना नाश थाय ठे, आ जीवोए श्रावकोनो कांइ अपराध करेलो नथी, कारण के तेउं तो पोताना कर्मना वशथी एवी योनिमां उत्पन्न थाय ठे. कांइ श्रावकनुं वुरुं करवुं, तेमने दुख देवुं, एवा संकल्पथी उत्पन्न थता नथी. परंतु तेउंनी हिंसा श्रावकथी त्यागी शकाती नथी. ते कारणथी बली अरधी वाद थइ. बाकी सवा विश्वा दया रही. आ सवा विश्वा दया शुरू श्रावक होय ते पाळी शके ठे. अर्थात् संकल्पथी निरपराधी ब्रस जीवोने कारण विना इणुं नहि. आ प्रतिज्ञा ज्यांसुधी पोतानी शक्ति रहे त्यां सुधी पाळे. निर्ध्वंसपणुं न करे. सदा मनमां एवी जावना राखे के रखे मारथी कोइ पणजोव हणाय ? बली घरमां आरंज करतां पण यत्नाथी प्रवत्तं. लाकडां सखगाववा वास्ते लावे ते सडेलां लावे नहि. आगल उपर जेमां जीव न पडे एवा सुकां, पाकां लाकडां लावे; बली रसोइने बखते लांकडांने खंखेरी जीवरहित करी सखगावे. तथा घी तेल प्रमुख रस जरेली वस्तुउंनां वासणोनां मुख बांधी यत्नाथी ते चीजो राखे. उघाडां ते वासणो न राखे. तथा चुलानी उपर अने पाणीआरा उपर चंदरवा बांधे. खावाने जे अन्न अर्थात् अनाज लावे ते जीजेनुं लावे नहि. शुरू नवुं अनाज लावे, कदापि एक वर्ष उपरांतनुं अनाज लावे तो जेमां जीव न पड्या होय तेवुं लावे. तथा पाणी गलवा वास्ते बहुज जाडुं बस्र राखे. दरेक पहोरे पाणी गळे. पाणीनो संखारो, जे कुवानुं ते पाणी होय, ते कुवामां नाखे. तथा वर्षाऋतुमां अनेक प्रकारना असंख्य जीवोनी उत्पत्ति थायठे, तेथी ते ऋतुमां गाडी, रथनी स्वारि न करे, कारण के ज्यां

चक्र फरेते त्यां असंख्य जीवोनो विध्वंस थइ जायते. हरिकाय, बहुवी-
जवालां फल, त्रससंयुक्त फल खाय नहि. पलंग प्रमुखमां मांकड प्र-
मुख जीव पडे, ते पलंगादि तडकामां राखे नहि, वीजो पलंग वदले.
वली सडेलां अनाज तडकामां राखे नहि. अन्नना संसर्गवाळुं एतुं पाणी
मोरीमां नाखे नहि, कारण के मोरीमां बहुज जीव उत्पन्न थायते, वली
मोरीमां सडो थाय तो घरमां विमारी थइ जायते. तथा फागण शुद्ध
१५ पठी आठ मास सुधी अर्थात् कारतक शुद्धी १५ सुधी पांढडावालां
शाक चाजी खाय नहि, कारण के पत्रशाकमां बहुज त्रसजीव उत्पन्न
थायते, एक तो त्रसजीवनी हिंसा थायते, अने वीजुं ते खावाथी अने-
क रोग शरीरमां उत्पन्न थायते. तथा शीतकालमां एक मास, उनाखामां
वीश दिवस अने चोमासामां पंदर दिवस उपरांतनी वनावेली मिठाइ
(पकान्न) खाय नहि, कारण के तेमां त्रस, स्थावर जीव उत्पन्न थायते,
तथा खानारने रोगोत्पत्ति थायते. वली वासी अन्न, रोटली, अथाणां
प्रमुख वासी खाय नहि, अन्न वासी खावाथी रोगोत्पत्ति थायते, तेमज
बुद्धि मंद थायते, अने जीवोनो नाश थाय ते. आर्द्धा नक्षत्र वेग पठी
केरी खाय नहि, कारण के त्यारथी केरीना रसमां बहुज जीवनी उत्प-
त्ति थायते. कठोल ठाशमां खाय नहि. घरमां सावरणी राखे ते कोमल
शण प्रमुखनी राखे, जेथी जीव मरे नहि. तथा स्नान करती वखते बहु
जल ढोले नहि, रेतीवाली जमीनमां स्नान करे, मोटा वासणमां वेसी
स्नान करे, अने स्नाननुं पाणी मेदानमां थोडुं थोडुं ठांटी दे. मोरी
(खाल) उपर वेसी स्नान करे नहि. ज्यांसुधी थोडा पापवाला व्यापार,
तथा नोकरी मळे त्यांसुधी महापापवाला व्यापार, नोकरी करे नहि.
कोइनो हक त्रोडे नहि. घरमां जूग अन्ननुं पाणी वे घडी उपरांत राखे
नहि, कारण के तेमां जीव उत्पन्न थइ जायते. तथा जे वस्तु उपाडे
तथा मुके ते वखते प्रथम ते जगाने देखीने तथा पुंजीने ते वस्तु लहे
तथा मुके. मोटी मोरीमां पाणी ढोले नहि. दिवावत्ती सलगावे ते फा-
नस प्रमुखमां जीवरक्षा वास्ते राखे. जे वासणथी पाणी लहे, ते वासण
जुतुं फरी पाणीमां वोले नहि कारण के मुखनी लाल लागवाथी जीव
उत्पन्न थायते. वली बहु साथे वेसी जुतुं खावा, पिवाथी बुद्धि संकोच

पामे ठे. वली केटलाएक रोग एवा होय ठे के, जे रोगवादानुं जुनुं खावा, पिवामां आवे तो, ते रोगवादानो रोग, खानारा पिनाराने लागी जायठे. जेमके कोढ, कय, खस, शीतला प्रमुख ते कारणथी वस्तु एठी करवी नहि, अने वहुनी साथे एकठां वेसी खावुं नहि. वली पाणीना माटलामांथी पाणी काढवावास्ते दांडीवालो लोटो राखे. इत्यादि शुरू व्यवहारथी प्रवर्त्ते तो श्रावकने सवा विश्वा दया रहे. आ प्रमाणे श्रावकनुं प्रथम व्रत शुरू ठे. आ व्रतना पांच अतिचार अर्थात् पांच कलंक ठे, तेउने वर्जवा. तेनुं स्वरूप लखिये ठियें.

१ प्रथम वध अतिचार. ते क्रोधना उदयथी तेमज बलना अजिमानथी, निर्दय थइने, घोडा, बलद, गाय प्रमुखने मारे कुटे तथा चलावे ते प्रथम अतिचार.

२ वंध अतिचार. ते गाय, बलद, वाठडा प्रमुख जीवने, कठण जधरा वंधनथी वांधे. ते जीवो कठण वंधनथी वहुज दुःख पामे ठे, वली कदापि अग्निनो उपद्रव थयो होय तो जलदीथी तुटी शकतो नथी, अने मरी जायठे, ते कारणथी कठण वंधन पण अतिचारठे. तेथी जना वरने वांधवा ते ढीला वंधनथी वांधवा जोइए. वली कोइ गुहेगार मनुष्यने पण गाढ वंधनथी वांधवो नहि. जो वांधे तो वीजो अतिचार लागे.

३ वीजो ठ विष्टेद अतिचार. ते बलद प्रमुखना नाक, कान ठेदावे, नाथ नांखे, खांसी करे तो वीजो अतिचार लागे.

४ चोथो अतिचार आरोपण अतिचार. ते बलद प्रमुख जेटलो चार सहन करी शके तेना करतां विशेष चार नाखे. श्रावकें निरंतर जे बलद, घोडा, खच्चर गाडीप्रमुखमां जेटलो चार वहन करी शकता होय, तेनाथी मण, वे मण चार उठो नाखवो जोइए; तोज पोतानुं व्रत शुरू रहे ठे. तेमां पण जो कोइ जानवरनी शक्ति मंद थइ होय तो, विवेक राखी, चार घणोज उठो करी नाखे. वली जानवर दुर्बल थाय तो तेनां घास, दाणा, पाणीनी पण वारंवार खवर राखे; परंतु एवो विचार न करे के वीजाउं जेटलो चार लादता होय, तेटलो हुं पण लाया कलंक. शक्तिप्रमाणे जानवर पासे चार वहन करावे तो व्यवहार शुरू रहे. पोतानी पासे अधिक चार होय तो वीजां चाडां करे, परंतु तुठ

विचार करी अतिचार जरे नहि. श्रावक एवा व्यवहारथी प्रवर्त्ते नहि तो चोथो अतिचार लागे.

५ पांचमो ज्ञात, पाणीनो व्यवहेद करवो ते अतिचार. बलद, घोडा-प्रमुखने जे खावायोग्य होय, ते बंध करी दे; अथवा थोडुं थोडुं काढी लहे. खावानो वखत वितावे. इत्यादि करतां अतिचार लागे.

बली कोइनी आजीविका, नोकरी बंध करवी, तेपण आज अतिचारमां ठे. श्रावक तो दास, दासी, कुटुंबना नाना, मोटा सर्वनी तथा गाय, बलद प्रमुखनी खावा, पीवानी खबर लइ, पठी पोते जोजन करे. आ पांच अतिचार ठे. उपलक्षणथी हिंसाकारी मंत्र तंत्रादि कोइने करे तो श्रावकने अतिचार लागे. आ पांचे अतिचार श्रावक जाणे, परंतु करे नहि. आ वारे व्रतना सर्व अतिचार जंग होवाना संजव असंजवनी विशेष चर्चा जोवी होय तो धर्मरत्नप्रकरणग्रंथनी श्रीदेवेंद्रसूरिकृत टीका जोवी. अहींआं तो मात्र हुं अतिचारज लखुंहुं. इति श्रावक प्रथम व्रत.

बीजा स्थूल मृपावादविरमणव्रतनुं स्वरूप लखीए ठीए. स्थूल अर्थात् मोटुं. मोटा जूठानो (विरमण) त्याग करवो ते. मोटां जूठां बोलवाथी जगत्मां बोलनारनी अप्रतीति थइ जाय ठे, अपयश फेलाय ठे, धर्मनी निंदा थाय ठे, अने पोतानी मतलब वास्ते जे कमवेश करुं, तेनो जे त्याग, ते मृपावादविरमण व्रत कहेवाय ठे. मृपावादना वे जेद ठे. १ ड्रव्यमृपावाद, २ जावमृपावाद. तेमां सांसारिक तेमज धार्मिक व्यवहारमां जाणपणे तेमज अजाणपणे जे असत्य बोलवुं ते ड्रव्य मृपावाद ठे; अने सर्व परजाव वस्तुने अर्थात् पुजलादि जडवस्तुने आत्मत्व बुद्धिथी पोतानी कहेवी, तथा राग, द्वेष, कृष्णादि लेश्याथी आगम विरूढ बोलवुं, शास्त्रना साचा अर्थ कुयुक्तिथी नष्ट करवा, उत्सूत्र बोलवुं, ते जावमृपावाद कहेवाय ठे.

आ व्रत सर्वव्रतोमां मोटुं ठे. ते पालवामां बहुज शुद्धउपयोग तेमज होंशियारी जोइए, कारण के प्रथम व्रतमां तो मात्र जीवस्वरूपजाणवाथी दया पत्नी शके ठे. बीजानी वस्तु तेनी परवानगी विना न लीधाथी अदत्त विरमण व्रत पत्नी शके ठे. स्त्री मात्रनो संग त्यागवाथी मैथुन

विरमणव्रत पत्नी शके ठे, अने नवविध परिग्रहनो त्याग करवाची परिग्रह विरमणव्रत पत्नी शके ठे. एवीरीतें एकेक ड्रव्यने जाणवाची आ चारे व्रत पत्नी शकाय ठे, अने मृपावाद विरमण व्रत तो ज्यां सुधी पद ड्रव्यनी गुणपर्यायिची तथा ड्रव्य, क्षेत्र, काल, जावची सारीरीतें पिठान न थइ होय, त्यां सुधी बरावर पालवुं कठिन ठे, कारण के एक पर्यायमात्रपण विरुद्ध जाणण करवाची आ व्रतजंग थइ जाय ठे. तेज-कारणची शास्त्रमां साधुठने बहु बोलवानो निषेध करेलो ठे. वली पूर्वोक्त चारे महाव्रतोमांची एक महाव्रत जो जंग थाय, तो चारित्रनो जंग थाय, अथवा नहि पण थाय, कारण के जो एकज कुशील सेवन करे, तो सर्वथा चारित्रजंग थाय, वीजाव्रतोना खंडनची चारित्रदेशजंगयाय, परंतु तेनुं ज्ञान, दर्शनजंग न थाय. आ व्यवहारजाप्यनुं कथन ठे, अने जो मृपावाद विरमणव्रतजंग थाय तो तो ज्ञान, दर्शन तेमज चारित्र, आ त्रणे जडमूलची जतां रहे ठे. अने बोलनार मरीने दुर्गतिमां जाय ठे, अनंत संसारी, दुर्लजबोधी थइ जायठे, ते कारणची जो आ व्रत पालवुं होय तो पद ड्रव्यना गुणपर्यायिनुं स्वरूप जाणवा वास्ते अति उद्यम करे. कदापि बुद्धिनी मंदता होय तो गीतार्थना वचन प्रमाणे श्रद्धा प्ररूपणा करे. तात्पर्य ए ठे के ड्रव्य मृपावादना त्यागी जीव तो उए दर्शनोमां प्राप्त थइ शके ठे, परंतु जाव मृपावादना त्यागी तो मात्र श्रीजिनेंद्र देवना मतमांज मली शकशे. जे जीव श्रद्धा रुचि शुद्ध धारण करशे, तेज तेवो थइ शकशे. आ मृपावादना पांच मोटा जेद ठे, ते श्रावकें अवश्य वर्जवा जोइए, तेची तेनुं स्वरूप कहिये ठियें.

१ कन्यालीक जूठ. पोताना मेलापीनी कन्या होय अने तेनुं वेश वाल करवानो प्रसंग होय, ते वखते कन्यानी मागणी करनारा पुठे के आ कन्या केवी ठे ? ते प्रसंगे संवंधीनी प्रीतिना कारणची, ते कन्यामां जे दूषण होय ते दुपावे, वली गुण न होय उतांपि अधिक गुणवाली कहे, तेमज कहे के आ कन्या निर्दोष ठे, आवी कुलवती, सुलक्षणवती, साक्षत् देवांगना समान, तमने मलवी मुश्केल ठे. वली जो कन्यानां मातपिता साथे छेप होय तो, कन्या निर्दोष, होय, उतांपि कहेके आ कन्यामां सारां लक्षण नथी, मांजरी आंखवाली ठे, साणणवाली ठे, तेनी

साथे संबंध करशो तो जरूर पश्चात्ताप करशो, ए प्रमाणे श्रवतां दूषणो कहेवां आ कन्यालीक जूछ ठे. प्रथम तो व्रतधारी श्रावक कोइना संगाइ संबंधना जगडामां पड़े नही, कदापि पोतानां सगां, मित्रादि होय, अने तेउं पुठे तो यथार्थ कहे, वली कहे के जाइ ! तमे पोतानी मेले निश्चय करी ल्यो. कारण के जन्मपर्यंतनुं काम ठे. ए प्रमाणे कहे, परंतु असत्य न बोले, आ कन्यालीकमां उपलक्षणथी सर्व वे पगवालांनुं असत्य न बोले.

२ गवालीक जूछ. सर्व चौपद, ते हाथी, घोडा, बलद, गाय, जैस प्रमुख, संबंधी असत्य न बोले.

३ भूम्यालीक जूछ. ते बीजानी जमीनने पोतानी कहेवी, तेमज बीजानी जमीनने त्रीजानी कहेवी इत्यादि, तेमज घर, हवेली, वाडी, बाग, वृक्षादि संबंधी, तथा सर्व परिग्रहसंबंधी पण जूछ न बोले.

४ थापणमोसानुं जूछ. कोइपुरुप श्रावकने प्रतीतवालो जाणीने तेने पोतानी कांइ वस्तु साही राख्याविना, तेमज लखत कराव्याविना सोंपी गयो होय, पाठो सोंपनार मागवा आवे, त्यारे राखनार इनकार करे, अने कहे के तमे कोने सोंपी गया ठो ? हुं तो तमोने जाणतो पण नथी के तमे कोण ठो ? एम असत्य बोली तेनी वस्तु उलवे. आ महापाप श्रावकें कदापि नहि करवुं जोइए.

५ जूछी साही पुरवी. वे सखस थापसमां टंटो करे ठे, तेवामां एकनी पासेथी धन लइ, अथवा तो तेनी शरम खातर, जूछी साही पुरवी. आ कामपण श्रावकें नहीं करवुं जोइए. आ व्रतना पांच अतिचार ठे, ते वर्जवा.

१ सहसाच्याख्यान अतिचार. विचार कर्याविना कोइने कलंक देवां, जेम के तुं व्यञ्जिचारि ठो, चोर ठो, जूछो ठो, इत्यादि. श्रावक कदापि कोइनो प्रगट श्रवगुण देखे, तोपण पोताना मुखथी तेने जरापण दुःख थाय तेम न बोले, तो पठी जेमां महापाप ठे एवुं कलंक तो केमज थापे ?

२ रहसाच्याख्यान अतिचार. वे अथवा वधारे सखसो एकांतमां वेली कांइमत बांधे ठे. तेउने देखी कहे के तमे राज्य विरुद्ध प्रपंच करो ठो, एम कही तेउनी चुगली खाइ, तेउने राज्यदंड अपाववो ते महापाप ठे.

३ खदारा मंत्रज्ञेद अतिचार. पोतानी स्त्रीए कांइ ठानी वात कहेली होय, ते वात पति लोकोमां प्रकट करे. उपलक्षणथी चाइ प्रमुखनी कहेली वात प्रगट करवी. तात्पर्य ए ठे के मर्मवाली वात प्रगटयवाथी स्त्री आदि कुवामां पडी डुवी मरे ठे.

४ मृषा उपदेश अतिचार. वीजाउने असत्य कामो करवानो उपदेश आपवो. वली विषयसेववानां चोराशी आसन शिखववां, तथा वीजाउ जेथी दुःखमां आवी पडे तेवो उपदेश करवो. वली वीर्यपुष्टिनां श्लोप-धादि वताववां, जेथी विषय, कपाय अत्यंत वृद्धि पामे, अने जेथी बहुज विषयसेवन करवामां आवे तेवो उपदेश करवो ते.

५ कूट लेखकरण अतिचार. जूठा दस्तावेज वनाववा, जूठी सही करवी, जूठी महोर ठाप करवी, अहरो जुंसी नाखी, नवा अहरो दाखल करवा, इत्यादि वीजाने नुकशान थाय तथा दुःख थाय एवा हेतुथी कूटलेख करवा ते आ पांच आतिचार. तथा पूर्वोक्त पांचप्रकारनां असत्य नरकादि गतिनां कारण जाणी, श्रावक अवश्य वजें. इति मृ-पावादविरमणव्रत.

३ त्रीजा स्थूल अदत्तादानविरमण व्रतनुं स्वरूप लखियें ठियें. मोटी चोरी करवी, जेमके धाड चोरी करवी, रस्तानी छुट करवी. गणेशीउ मारी जीत फोडी खातर पाडवुं, जवरदस्तिथी वीजानी वस्तु लेवी, ठल कपटथी ठगीने वीजानी वस्तु लेवी, विश्वासघात करी वीजानी वस्तु उ-लवी जवी, अपराधसहित मिलकतनो खोटो उपयोग करवो, मिलकतनी अदलावदली करवी, इत्यादि अदत्तादान अर्थात् चोरीनुं स्वरूप ठे. चोरी करवाथी परलोकमां नरकादि माठी गति प्राप्त थाय ठे, अने आ लो-कमां पण प्रगट थवाथी राज्यदंड, अपयश, तथा अप्रतीति थाय ठे. ते कारणथी श्रावक अदत्तादाननो त्याग करे. अदत्तादान व्रतना वे जेदठे, ते कहियें ठियें.

द्रव्य अदत्तादान विरमण व्रत. पूर्वोक्त प्रकारें वीजाउनी पडेली के विसरेली वस्तु लेवी नहि ते द्रव्य अदत्तादान विरमणव्रत ठे.

१ चाव अदत्तादान विरमणव्रत. पर जे पुजल द्रव्य, तेनी रचना, वर्ण, गंध, रस, स्पर्शादिरूप, त्रेवीश विषय, तथा आठकर्मनी वर्गणा,

आ सर्व पराइ वस्तु ठे, ते वस्तु तत्वज्ञानमां जीवने अग्राह्य ठे, ठतां तेमनी जे उदय जावथी वांढा करवी ते जाव चोरी समजवी. जिनागम श्रवण करी तेमनो त्याग करवो, तथा पुजलानंदि पणानो अजाव करवो, तेज जाव अदत्तादान विरमण व्रत ठे. जे जे कर्मप्रकृतिनो बंध नाश पामेल होय, ते जाव अदत्त विरमण व्रत कहेवाय. सामान्य प्रकारें अदत्तना चार जेद ठे.

१ कोइनी वस्तु तेनी परवानगी विना लेवी ते स्वामि अदत्त. २ सचित्त वस्तु अर्थात् जीववाली वस्तु, फूल, फल, वीज, गुह्या, पत्र, कंद मूलादि, वकरा, गाय, सुअरादि, तेउनो नाश करवो, ठेदवां, जेदवां, कापवां इत्यादि ते जीव अदत्त, हेतु ए ठे के फुलादि जीवोण पोताना शरीरने ठेदवा, जेदवानी आइहा आपी नथी, के अमारुं ठेदन, जेदन करो, ते कारणथी ते जीव अदत्त ठे. ३ जे वस्तु तीर्थकर, अहंत जगवतें निपेध करेली ठे, तेउनुं जे ग्रहण करवुं, जेमके साधुने अशुरू आहार करवानो निपेध ठे, अने श्रावकने अन्नद्वय वस्तुग्रहण करवानो निपेध ठे, ठतां तेउं आइहाविरुद्ध ग्रहण करे तो ते तीर्थकर अदत्त. ४ कोइ साधु शास्त्रोक्त रीति मुजव निर्दोष आहार शुरू ग्रहण करी लावे, पठी ते आहारादिने गुरुनी आइहा बिना उपजोगमां लहे तो ते गुरु अदत्त.

पूर्वोक्त चारे अदत्त संपूर्ण तो जैनना यतिज त्यागी शके, ग्रहस्थथी तो मात्र स्वामि अदत्तज त्यागी शकाय ठे, ते कारणथी तेनीज आस्थले मुख्यता ठे. सारांश के पराइ वस्तु पूर्वोक्त रीतें लेवी नहि, जो लहे तो चोर कहेवाय, राज्यदंड पामे, अपयश, अपकीर्ति, अप्रतीति थाय, ते कारणथी पारकी वस्तु ग्रहण करवी नहि. जे वस्तु यत् किंचित् मूल वाली ठे, अर्थात् जे लेवाथी तेना मालेकने एउं जुकसान थतुं नथी के कोइ समजु माणसना विचारमां ते चारे पडतुं थाय, सारांश के जे लेवाथी चोर नाम पडतुं नथी, तेवी वस्तु लेवानी जयणा राखे. वली कोइनी पडीगयेली वस्तु हाथमां आवे, पठी जाणवामां आवे के ते वस्तु अमुक सखसनी ठे, तो ते वस्तु तेने आपे, जो ते वस्तुना मालेकनो पत्तो न मले, अने पोतानुं मन दृढ रहे तो ते वस्तु पोते राखे नहि; कदाचित् बहु मूल्यवान् वस्तु होय, अने मन दृढ रहे तो ते वस्तु

दत्त विरमण व्रत कहेवाय ठे. आ व्रतना पांच अतिचार ठे. ते वजें, तेनुं स्वरूप कहियें ठियें.

१ स्तेनाहृत अतिचार. चोरनी चोरेखी वस्तु स्तेनाहृत कहेवाय ठे. ते वस्तु लहे नहि, अर्थात् चोरनी वस्तु जाणीने लहे नहि, कारण के जे चोरीनी वस्तु जाणीने लहे ठे, ते लेनार पण चोर ठे, जैन मतना शास्त्रोमां चोरना सात प्रकार ठे. यथा ॥ चौरश्चौरापकोमंत्री, जेदइः काणकक्रयी ॥ अन्नदः स्थानदश्चैव, चौरः सतविधः स्मृतः ॥ १ ॥ आ प्रथम अतिचार.

१ प्रयोग अतिचार. ते चोरी करनाराने प्रेरणा करवी. जेमके अरे ! तमे धंधाविनाना ठानामाना आजकाल केम वेसी रह्या ठो ? जो तमारी पासे खरची न होय तो हुं मदद करूं. तमे लइ आवशो ते वस्तु हुं वेची आपीश, तमे चोरी करवा जाउं. इत्यादि वचनोथी चोरोने प्रेरणा करवी. आ बीजो अतिचार.

३ तत् प्रतिरूपक व्यवहार अतिचार. ते सारी वस्तुमां खराव वस्तु मेलवी वेचवी. जेमके केशरमां कसुंवादि मेलववां, घीमां ठासादि, हिं-गमां गुंदरादि मेलववां खोटी कस्तूरी खरी दाखल वेचवी, अफीणमां जेल संजेल करी वेचवुं, जूनावखने रंगावी नवाना जावथी वेचवां, रूमां पाणी नाखी वेचवुं, दुधमां पाणी जेलवी वेचवुं. इत्यादि काम करवां. आ त्रीजो अतिचार.

४ राज्य विरुद्ध गमन अतिचार. ते पोताना शेहेरना अथवा देशना राजाए फरमान कर्तुं होय के अमुक गाम जवुं आववुं नहि, तेमज ते गामना लोको साथे व्यापार करवो नहि, ठतां राजानी आझावुं जहंधन करीने वैरी राजाना देश गाममां जवुं आववुं तथा व्यापार करवो. आ चोथो अतिचार.

५ खोटां तोलां मापां राखवां ते अतिचार. उठां तोलां, मापथी देवुं, अने अधिक तोलां, मापथी लेवुं. आ पांचमो अतिचार. इतितृतीयव्रतस्वरूप.

चोथुं व्रत. मैथुनसेवननो त्याग, ते मैथुन त्यागव्रत कहेवाय ठे. मैथुनना वे जेद ठे. १ डव्य मैथुन त्याग, २ जाव मैथुन त्याग. डव्य मैथुन तो परखी तथा परपुरुष साथे संगम करवो ते तेमां पुरुष छीनो

त्याग करे, अने स्त्री पुरुषनो त्याग करे, अर्थात् अरस परस रतिक्रीडा काम सेवननो त्याग करे, ते ड्रव्यव्रह्मचारी तथा व्यवहारव्रह्मचारी कहेवाय ठे.

जाव मैथुननुं स्वरूप एवुं ठे के चेतनरूप पुरुषं, परपरिणतिरूप विपय विलास, अने तृष्णा, ममत्तारूप कुवासना, एवी निश्चय परस्त्रीने मली तेनी साथे लालन, पालन, कामविलास करवो ते. तेनुं जिनवाणीना उपदेशथी, तथा गुरुनी हितशिद्दाथी ज्ञान थयुं, त्यारे जातिद्दीन जाणीने, तेमज जविष्यमां तेनुं सेवन महादुःखदायक परिणामवाहुं थवानुं ठे एम जाणीने, तथा पूर्वकालमां तेना सेवनथी अनंत जन्म मरणनां दुःख अनुभव्यां ठे एम विचारीने ते विजातीय स्त्रीनो त्याग करवो ते ठीक ठे, अने मारी परमजक्त, स्वजातीय, उत्तम, मुकुलवती स्त्री, समत्तारूप सुंदरी, तेनो संग करवो वास्तविक ठे. वली विजाव परिणतिरूप परस्त्रीए मारी सर्वविचूति हरण करी ठे, तेथी सदगुरुनी सहायताथी हवे ते दुष्ट परिणतिरूप स्त्रीना संगनो थोडो निग्रह करुं, त्यागवानो जाव आदरुं, जेथी शुद्धस्वजाव घटरूप घरमां प्रवेश करुं, तथा मारा स्वरूपना तेजनी वृद्धि थाय एम प्रवर्तुं; एवी समजण लावीने परपरिणति मग्नतानो त्याग करे, तेमज कर्मना उदयमां व्यापक न थाय, अने शुद्ध चेतनाना संगी थाय, ते जाव मैथुनत्यागी कहेवाय ठे.

ड्रव्य मैथुनना त्यागी तो ठए दर्शनमां मली शकं ठे, परंतु जावमैथुनना त्यागी तो श्रीजिनवाणी श्रवण करवाथी, ज्यारे जेदज्ञान घटमां प्रगट थाय ठे, त्यारे जवपरिणतिथी सहज उदासीनरूप जाव थाय ठे; तेवा मैथुनना त्यागी जैनमतमांज होय ठे.

स्थूल परस्त्रीगमनविरमणव्रत. ते परस्त्रीनो त्याग करवो, परपुरुषनी विवाहिता स्त्री, तथा परनी राखेली स्त्री, तेनी साथे अनाचार न सेववो, एवुं जे प्रत्याख्यान, ते परदारगमन विरमण व्रत ठे; अने पोतानी स्त्रीमां संतोष करवो एवुं जे व्रत, ते स्वदारासंतोष व्रत ठे.

देवांगना तथा तिर्यंचणी, तेउनी साथे कावाथी मैथुन सेवन करवानो निषेध आ व्रतमां ठे. वली वर्त्तमान स्त्रीनो त्याग करीने, वीजी स्त्री साथे विवाह न करे; तथा दिवसें पोतानी स्त्री साथे पण मैथुन सेवन न करे, कारण के दिनसंज्ञोगथी जे संतान उत्पत्ति थाय ठे, ते

निर्वल थाय ठे. जो काम अजिलापा अधिक होय तो दिवसनी पण मर्यादा करे. तेवीजरीतें स्त्रीपण पर पुरुषनो त्याग करे. ए प्रमाणे चोथुं व्रत पावे. आ व्रतना पांच अतिचार ठे. ते वजें, ते लखियें ठियें.

१ अपरिग्रहीतागमन अतिचार. परण्या विनानी (कुमारी) तथा विधवा स्त्री अपरिग्रहीता कहेवाय ठे, कारण के तेउनो कोइ जर्तार नथी. कोइ अल्पमति, विषयाजिलापी मनमां एम विचारे के में तो परस्त्रीनो त्याग करेलो ठे, अने अपरिग्रहीता तो कोइनी स्त्री नथी, तेथी तेनी साथे विषयसेवन करवाथी मारुं व्रतजंग नहिं थाय, एवो विचार करीने कुमारी तथा विधवा स्त्रीनी साथे जोग विलास करे, तथा स्त्री पण व्रतधारण करीने कुंवारा तथा रांडेला पुरुषनी साथे व्यजिचार सेवन करे तो आ अतिचार लागे. आ प्रथम अतिचार.

२ इत्वर परिग्रहीतागमन अतिचार. इत्वर अर्थात् अल्पकाल कोइ पुरुषें थोडी मुदत माटे कोइ वेश्याने पोतानी करी राखेव्ही होय तेवे प्रसंगें ते पुरुष अज्ञानना उदयथी एवो विचार करे के मारे तो परस्त्रीनो त्याग ठे, अने वेश्यानो संबंध तो मारे अल्पकाल माटे ठे, तेथी वेश्यानी साथे सेवन करवाथी मारा व्रतनो जंग थशे नहिं, एवा अज्ञानतायुक्त विचारथी विषयसेवन करे तो बीजो अतिचार लागे. वली स्त्री पण पोतानी शोक्यना वाराने दिवसे पोताना जर्तारनी साथे विषय सेवन करे ते एवा बीचारथी के मेंतो मारापति साथे विषय सेवन करेल ठे, तेथी मारा व्रतनो जंग थशे नहिं, तेवे प्रसंगे स्त्रीने पण अतिचार लागे. पूर्वोक्त वंने रीतिमां श्रावक यथार्थ रीतें जाण्या पठी फरीथी ते प्रमाणे करे तो व्रतजंग थाय, परंतु अतिचार नहिं.

३ अनंगक्रीडा अतिचार. अनंगनाम काम. ते काम कंदर्प जाप्रत करवो. आलिंगन चुंबन प्रमुख करवां. नेत्रोना हाव जाव कटाह, उठा मस्करी प्रमुख, परस्त्री साथे करवां. मनमां एवो निचार वरवो के में तो परस्त्री साथे परस्पर एक शय्या उपर विषयसेवननो त्याग करेलो ठे, परंतु अनंगक्रीडानो त्याग करेलो नथी. एवो विचार करनार मूढमति जाणतो नथी के पूर्वोक्त कामक्रीडाथी व्रत कदापि रहीशके नहिं, कारण के तेथी मनोगृन्थी महापाप तो तेजीवें उपार्जन करी लीधुं. निश्चय नयना

मतथी तेनो व्रतजंग पण थइ गयो. वली पोतानी स्त्रीसाथे चोराशी आस-
नोथी विषयसेवन करे, तथा पंदर तिथिना विचारे स्त्रीनी साथे अंगमर्दनादि
पूर्वक काम प्रदीत करे, अत्यंत कामाजिलापी तथा पोतानी स्त्रीनो योग
न प्राप्त थाय तो हस्तकर्म करे. स्त्रीपण अत्यंत कामव्याप्त थइ गुह्यस्थान-
नमां वस्तु संचारादि हस्तकर्म करे. तेवा प्रसंगे आ आतिचार लागे. ते
कारणथी श्रावकें अनेक उपायथी काम इठा मंद करवी जोइयें, कारण
के विषयवृत्ति मंद थवाथी, अने वीर्यनुं रक्षण करवाथी, बुद्धि, आरोग्य-
ता, आयु, बल प्रमुख वृद्धि पामेठे, अने कामसेवन अधिक करवाथी
तेउनी मंदता थतां मन मलिन थायठे, पापवृद्धि पामेठे, हृदय, क्रम, मूर्धा,
क्लम, स्वेदादि अनेक रोग उत्पन्न थायठे. ते कारणथी मात्र जेथी वे-
दविकार शांत थाय, तेटलुंज मैथुन सेवन करवुं, एवी अजिलापा जो-
इए. वली ज्यारे काम उत्पन्न थाय, त्यारे स्त्रीनी कामसेवननी जगाने
जाजरु समान गणे. एवो विचार मनमां लावे के स्त्रीनुं शरीर मलमूत्र-
थी जरेलुं ठे, विषयसेवननुं स्थान अत्यंत मलिन, दुर्गंधमय ठे, मुखमां
पण दुर्गंधमय लाल ठे, नाकपण दुर्गंधयुक्त श्लेष्मवालुं ठे, कानमां मेल
ठे. पेटमां विष्टा मूत्र जरेल ठे, नसोमां खानपाननो दुर्गंधमय रस रु-
धिर, हाड, चाम, चरवी, वात पित्त, कफ जरेल ठे, स्त्रीनुं शरीर अत्यंत
अशुचिनुं पुतलुं ठे, ज्यांथी वास निकलशे त्यां महादुर्गंधमय वास निक-
लशे, वली ते शरीर अनित्य, अशाश्वत, सडन, पडन, विध्वंसन जाव-
वालुं ठे, ए प्रमाणे स्त्रीना शरीरनो खजाव ठतां दिलगिरि ठे के चतुर
पुरुषो पण कामाधीन थइ विषयसेवनमां मग्न रहेठे, तेथी पूर्वोक्त सत्य
समजथी विचार करी कामने शांत करे. आ त्रीजो अतिचार.

४ परविवाहकरण अतिचार. पोताना पुत्र, पुत्री विना, यशवास्ते
तथा पुण्यवास्ते, वीजाउना विवाह करे, करावे. आ चोथो अतिचार.

५ तीव्रानुराग अतिचार. पुरुष; स्त्रीउपर, तेमज स्त्री, पुरुष उपर काम
सेवन अजिलापाथी अत्यंत राग, स्नेह राखे. परस्त्रीने देखी मनमां ते-
नीसाथे मैथुन सेवननी बहुज चाहना राखे. रात दिन कामकाज करतां
सुतां, बेसतां, उठतां, जतां, आवतां, स्त्रीमांज चित्तवृत्ति राखे; तेमज
कामवृद्धिमाटे, अफीण, माजम, जांग, हरताल, पारा, त्रांबु प्रमुख

खाय, अने तेप्रमाणे खाइ कामवृद्धि करी, स्त्रीसाथे अत्यंत प्रीति करे. स्त्रीपण कामवृद्धिमाटे अनेक औपधोपचार करे, हावजाव, विषय, लालसा करे. आ पांचमो अतिचार. पांचे अतिचारनुं स्वरूप श्रावकजाणी तेने तजवानी अजिलापा करे. पांचे अतिचारनुं विशेष स्वरूप धर्मरत्न प्रकरणनी टीकाथी जाणवुं. इति चतुर्थव्रतं.

५ पांचमा स्थूलपरिग्रहपरिमाण व्रतनुं स्वरूप लखियें द्वियें. परिग्रहना वे जेदठे. एक बाह्यपरिग्रह अधिकरणरूप, ते द्रव्य परिग्रह, नवप्रकारनो ठे. बीजो जाव परिग्रह, ते चौद अर्च्यंतर ग्रंथिरूप, परजाव ग्रहणरूप, समस्त प्रदेश सहित, सकपायीपणे बंध, ते जाव परिग्रह ठे. वली शास्त्रमां मुख्य वृत्तिथी, मूर्च्छाने जाव परिग्रह, कहेली ठे. तेमां चौद प्रकारना अर्च्यंतर परिग्रह आप्रमाणे ठे. १ हास्य, २ रति, ३ अरति, ४ जय, ५ शोक, ६ जुगुप्सा, ७ क्रोध, ८ मान, ९ माया, १० लोच, ११ स्त्रीवेद, १२ पुरुषवेद, १३ नपुंसकवेद, १४ मिथ्यात्व. आ चौद अर्च्यंतर ग्रंथि ठे. आ संसारमां जीवने केवल अविरतिना वलथी इष्टा, आकाशसमान अनंती ठे. कदापि तेनुं माप अइ शकतुं नथी. अविरतिना उदयथी इष्टा, अने इष्टावलथी कर्मबंधनमां पडतां थकां चारे गतिमां आ जीव त्रमण करेठे. जवितव्यताना योगें पुण्यना उदयथी मनुष्यजवादि सकल सामग्रीनो योग प्राप्त करीने सद्गुरुना सत्संगथी श्रीजिनेश्वर जगवाननी वाणी श्रवण करवामां आवी; अनुक्रमें चेतना, जाग्रतदशानो अनुजव करवा लागी; मनमां विचार थयो के अहो! हुं समस्त परजावथी अन्य तुं! अवंधी, अजेय, अजेय, अदाह्य धर्मीं तुं! परंतु इष्टाने अधीन बनवाथी समस्त वेदन, जेदन, परित्रमणादि दुःखोने जोगवानार परधर्मीं वनी रह्यो तुं! ते वास्ते समस्त परजावनुं मूल जे इष्टा ठे, ते दूर करुं. वाद समस्त परजाव त्यागरूप चारित्र आदरे. साधुवृत्ति अंगीकार करे; अने जे जीव इष्टानुं प्रवल होवाथी एकदम सर्व परिग्रह त्यागवाने समर्थ न होय, अने दोषथी करतो होय, तो गृहस्थधर्म, इष्टा परिमाणरूप व्रत आदरे. ते इष्टा परिमाण व्रत नवप्रकारे ठे. तेनुं स्वरूप.

१ प्रथम धनइष्टा परिमाणव्रत. धनना चार प्रकार ठे. १ गणिस धन नाळीपर प्रमुख, जे गणत्रीथी वेचवामां आवे ते. २ धरिस धन, गोल-

प्रमुख, जे तोळीने वेचवामां आवे ते. ३ परिच्छेद्य धन, सोनुं, रूपुं, जवा-
हिरप्रमुख, जे परीक्षाथी वेचवामां आवे ते. ४ मेय धन, डुधप्रमुख, जे
मापीने वेचवामां आवे ते. आ चारे प्रकारना धननुं परिमाण करे,
ते धन परिमाण व्रत.

१ धान्य परिमाण व्रत. धान्यना चोवीश प्रकार ठे. १ कमोद, २ घउं,
३ जुवार, ४ वाजरी, ५ जव, ६ मग, ७ मठ, ८ अडद, ९ घुंटा, १० वोडा,
११ मटर, १२ तुअर, १३ किसारी, १४ कोडवा, १५ कंगणी, १६ चणा,
१७ वाल, १८ मेथी, १९ कलथी, २० मसूर, २१ तल, २२ मंडवा, २३ कु-
री, २४ वंटी. आ धान्य खावा वास्ते तेमज व्यवहार वास्ते उपयोगी
ठे; अने १ धाणा (धनीया), २ जींडी, ३ सोवा. ४ अजवायन, ५ जीरुं,
आ पांच धान्यनी जाति ठे, परंतु औषधादिमां काममां आवे ठे. तथा
१ शामक, २ मणकी, ३ जुरट, ४ चेकरीआ, आ चार मारवाड देशमां
प्रसिद्ध ठे. वीजां पण केटलांएक धान्य वाड्याविना उगे ठे, जे लोको
डुकालना वखतमां खाय ठे. आ सर्व जातिनां धान्यनुं परिमाण करे.

३ क्षेत्रपरिग्रह व्रत. वाववाना खेतर, तथा वाग, वगीचादि जाण-
वां क्षेत्रना त्रण जेद ठे १ वर्षादिना पाणीथी ववाय एवां क्षेत्र, २ कुवा-
ना पाणीथी ववाय एवां क्षेत्र, ३ वंने प्रकारना पाणीथी ववाय एवां
क्षेत्र. ए प्रमाणे क्षेत्र परिमाण करे.

४ वास्तुक परिमाण व्रत. घर, हाट, हवेली प्रमुख. तेना पण त्रण
जेद ठे १ जमीन तल माल विनाना. २ एकमाल, वे माल, त्रणमाल,
यावत् सातमाल सुधी, ३ चोयरां. तेनुं परिमाण करे.

५ रूप्य परिग्रह परिमाणव्रत. सिक्का विनानुं काचुं रूपुं, तेना तोळ-
नुं परिमाण करे.

६ सुवर्णपरिग्रहपरिमाण व्रत. सिक्का विनानुं सोनुं, तेना तोळनुं
परिमाण करे.

७ कुपदपरिग्रहपरिमाण व्रत. त्रांनुं, पीतल, जसत, कांसुं, सीसुं,
लोडुं प्रमुख धातुनां वासणोना तोळनुं परिमाण करे.

८ डुपदपरिग्रहपरिमाण व्रत. दास, दासी, पगारदार मुनीम प्र-
मुख राखवां, तेनी संख्यानुं परिमाण करे.

ए चौपदपरिग्रहपरिमाण व्रत. गाय, जैस, घोडा, हाथी, बलद, बकरी प्रमुख जानवरो राखवानी संख्यानुं परिमाण करे.

हवे पोतानी इष्टा परिमाणथी परिग्रह केवीरीते राखे, ते कहीए ठीए. रुपुं तथा सोनुं, घडेळुं तेमज नहि घडेळुं आटला वजन राखुं, तथा रुपैया, सोनामहोर, जवाहीर, आटलां राखुं, ते प्रमाणे परिमाण करे, ते उपरांत पुण्योदयथी धनवृद्धि थाय तो, वधेलुं धन, धर्मकार्योमां वापरे. वली वर्षप्रति आटली जातनां वखं पहेरुं, तथा एकवरसमां आटलुं अन्न घर खरच वास्ते राखुं, तथा आटलुं व्यापार वास्ते राखुं, इत्यादि वावतोनुं स्वरूप विस्तारथी, सातमा व्रतना स्वरूपमां कथन करवामां आवशे. क्षेत्र परिमाणमां, खेतरो, वाडी, बगीचा, सर्व मली आटलां सांती वा विद्या जमीन राखुं, तथा घर, चोकबंध, खडकीबंध, डुकान, तवेला, बखारो, तथा परदेश संवंधी डुकानोनी जयणा तथा जाडे राखवाना मकानोनी जयणा, तथा जाडे राखेलां मकानो समराववानी जयणा राखे; तथा कुटुंब संवंधी घर वनाववाना उपदेशनी जयणा; वली पोताना संवंधी तेमज गुमास्ता परदेश गया होय, अने पाठल तेउनां घर प्रमुखसमराववां पडे तो जयणा, आजीविकावास्ते कोइनी चाकरी करवी पडे, तेवे प्रसंगे शेठना घरप्रमुख समराववानी जयणा. कुपद परिमाणमां त्रांवा, पितल, कांसा विगेरे धातुनां वांसणो तथा धातु टुटी अमुक मण राखवानी जयणा; छिपद परिमाणमां दास, दासी वेचाता लेवानो प्रतिबंध, परंतु पगारवाला नोकरो गणत्रीथी राखवा जोइए, वली अमुक गुमास्ता राखवानी जयणा, चौपद परिमाण, गाय, जैस, बकरी प्रमुख राखवानुं परिमाण संख्याथी करे. आ व्रतना पांच अतिचार ठे तेनुं स्वरूप लखीए ठीए.

१ धन परिमाण अतिक्रम अतिचार. ज्यारे इष्टा परिमाणथी अधिक धन थइ जाय, त्यारे तीव्र लोचना उदयथी मनमां एवो संकल्प करे के, मारो पुत्र मोटो थयो ठे, तेने धननी जरूर ठे, वलि ते कमाइ शके तेवो थयो ठे, तेथी मारे तेने धन थापवुं जोइए, एवो कुविकल्प करी पुत्रना नामथी अमुक रूपीथानी रकम जुदी राखे, ए प्रमाणे जुदी जुदी रीते धननां खातां राखे. धान्य पोताना परिमाणथी अधिक राखवानी

इत्रा थाय त्यारे वीजाउंना घरमां रखावे, अने मनमां एवो विचार अ-
ज्ञानताथी करे के में तो अमुक परिमाणधान्यनी वावतमां जे राखेल ठे,
तेटलुंज मारा घरमां ठे, तेथी जास्ती वीजाउंना घरमां राखवाथी मारा
व्रतमां दूषण लागतुं नथी. वली काचा मणनो हिसाव व्रत लेती वखते
राख्यो होय, अने पाठलथी लोचना कारणथी पाकामणनो हिसाव ग-
णी धान्य राखे, ए प्रमाणे करनारने प्रथम अतिचार लागे.

क्षेत्रपरिमाण अतिक्रम अतिचार ज्यारे इत्रा परिमाणथी अधिक घर,
दुकान, खेतर प्रमुख थइ जाय, त्यारे वचली जीत अथवा वाड होय तो
ते त्रोडी नाखी एक वनावे, मनमां विचारे के में तो गणत्रीथी परिमाण
करेल ठे, अने गणत्रीथी उपरांत में राखेलुं नथी, तेथी मारुं व्रत निर्दूषण
ठे. घर, दुकान प्रमुख मोटां करवाथी शुं दूषण ठे? ए प्रमाणे करे तो
वीजो अतिचार लागे.

३ रुप्यसुवर्ण परिमाण अतिक्रम अतिचार. ज्यारे सोनुं, रुपुं इत्रापरिमा-
णथी अधिक थाय त्यारे, पोताना, तेमज स्त्री, पुत्रादिकना आचरण प्रमुख
जारे तोल वालां वनावे. आ वीजो अतिचार.

४ कुपद परिमाण अतिक्रम अतिचार. त्रांवा, पितल प्रमुखनां वासणो
जे गणत्रीथी राखेलां होय ते, ज्यारे लोच विशेष थाय अने संपत्ति वधे
त्यारे गणत्रीमां तेटलांज राखे, परंतु तेथोनो वजनमां बहुज फेरफार
करे, वमणां वनावे; मनमां विचारे के मारी गणत्री उपरांत में राखेलां
नथी, तेथी मारुं व्रत अखंडित ठे. वली धातुनो काचो तोल परिमाणमां
राख्यो होय तो, पाठलथी पाका तोलथी धातु राखे. आ चोथो अतिचार.

५ द्विपद चतुष्पद परिमाण अतिक्रम अतिचार. दास, दासी, घोडा,
गाय, प्रमुख परिमाणथी अधिक थाय त्यारे वेचे, अथवा जाइ, पुत्रना
नामथी राखे, तो पांचमो अतिचार लागे इति. हवे ठघां, सातमां तथा
आठमां व्रतो जे गुणव्रत कहेवाय ठे, तेमां ठहुं व्रत दिक्ूपरिमाण व्रत ठे
तेमां दिशाना विचार ठे, तेनुं स्वरूप लखीए ठीए.

पूर्वना पांच अणुव्रतने आ व्रणव्रतथी गुणवृद्धि थाय ठे तेथी तेनुं
नाम गुणव्रत ठे. कारण के ज्यारे दिशिपरिमाण व्रत लीधुं, त्यारे तेक्षेत्र-
थी वहारना सर्व जीवाने अन्नयदान आप्युं, आ प्रथम प्राणातिपात वि-

रमणव्रतनी पुष्टि यद्; तेमज वहारना जीवो साथे असत्य बोलवानो प्रतिबंध थयो, तेथी सत्य व्रतने पुष्टि यद्. वली क्षेत्रवहारनी वस्तु चोरवानो त्याग थयो, तेथी अस्तेय व्रतनी पुष्टि यद्. तथा क्षेत्र वहारनी स्त्री साथे मैथुननो त्याग थयो तेथी ब्रह्मचर्य व्रतनी पुष्टि यद्. तथा वहार क्रय, विक्रयनो निषेध थयो तेथी पांचमा व्रतनी पुष्टि यद्. ए प्रमाणे पांचे व्रतने आ व्रतो गुणकारी ठे.

हवे दिशि परिमाण व्रतमां, चारे दिशि, तथा चारे विदिशि, ऊर्ध्व अने अधोदिशि, आ दशे दिशाओनुं परिमाण करे. तेना वे जेद ठे. १ व्यवहारथी, २ निश्चयथी. तेमां पोतानी कायाथी दशे दिशिमां जवा आववाना, तथा मनुष्य भोकलवाना, अने व्यापार करवानां परिमाण करे, तेने व्यवहार दिशि परिमाण व्रत कहीए.

निश्चयथी दिशि परिमाणनुं स्वरूप ए एवुं ठे के, नरकादि गतिमां जे गमन ठे, ते सर्व कर्मनो धर्म ठे. जेने वश पडवाथी आ जीव चारे गतिमां जटके ठे. चेतन परानुयायी यद् रहेल ठे, तेज कारणथी परजवानुसारी गति ब्रमण करे ठे; परंतु जीव तो शुरू चैतन्य, अगतिस्वभाव, तथा निश्चलस्वभाव ठे, एवुं जिनप्रणीत सिद्धांतना उपदेशथी समजीने, चेतन शुरूस्वरूप अनुयायी थाय, त्यारे पोतानो अगतिस्वभाव जाणीने सर्वत्रथी उदास रहे; समस्त क्षेत्रथी अप्रतिबंधक जावथी वत्ते; तेने निश्चयथी दिक्परिमाणव्रत कहीए. आ दशे दिशिनुं प्रमाण करे. तेना वे जेद ठे.

प्रथम जलमार्ग. वहाणथी अमुकदिशामां अमुक योजनसुधी अमुक छीप, बंदरोसुधी गमन करुं. जो पवन तथा वरसादना जोरथी अधिक जवाय तो आगार, अर्थात् व्रतजंग न थाय, तेमज अजाणपणे अथवा दिशाशून्य थवाथी अन्यस्थले जवाय तो तेनो पण आगार ठे.

वीजो स्थलमार्ग. जे जे दिशामां, जेटला जेटला योजन सुधि जवानुं परिमाण करेलुं, ठे, त्यां सुधी जद् शकाय, परंतु चोर, म्हेठादि पकडीने क्षेत्र नियमथी वहार लद् जाय तो तेनो आगार ठे. ऊर्ध्व दिशिमां वार कोशसुधी जवानी जयणा राखे, तथा अधोदिशिमां आठ कोश सुधी जवानी जयणा राखे तेमां उंचा चढीने नीचे उतरे ते अधोदि-

शिमां गणाय नहि. वली जेटला क्षेत्रनुं परिमाण राख्युं होय, तेटलाथी वहारना क्षेत्रना कोइ श्रोवखाणवाला पुरुपनो पत्र थावे तो, तेनो उत्तर लखवानी जयणा राखे, परंतु पोतानी तरफथी सारा काम बिना पत्र लखे नहिं. वली परदेशनी विकथा श्रवण करवानो आगार राखे. आ व्रतना पांच अतिचार ठे. ते नीचे मुजव.

१ ऊर्ध्वदिशा परिमाण अतिक्रम अतिचार. अनाजोगथी अथवा वं सुरतिथी अधिक चाढ्यां जवाय तो आ अतिचार लागे.

२ अधोदिशि परिमाण अतिक्रम अतिचार उपरमुजव.

३ तिर्थां दिशि परिमाण अतिक्रम अतिचार. उपरमुजव. जो नियम जंगना जयथी गुमास्तो मोकले तो पण अतिचार लागे.

४ एकदिशिमां सो योजन राखेला होय; अने बीजी दिशिमां पचास योजन राख्या होय; पाठलथी ज्यारे एकदिशिमां दोढसो योजन जवानुं वन्थुं होय त्यारे बीजी दिशाना पचास योजन ते दिशिमां जोडी द्द मनमां अज्ञानताथी एवो विचार करे के मारा नियम उपरांत हुं गया नथी, एवो विचार करी जाय तो आ अतिचार लागे.

५ स्मृति अंतर्धान अतिचार. पोताना नियम करेला योजननी संख्या चूली जाय, जेमके कोण जाणे, पूर्वदिशिमां केटला योजन राखेल ठे? सो राखेल ठे के पचास राखेल ठे? इत्यादि, एवी शंका यतां नियम उपरांत योजन जाय तो आ अतिचार लागे. इति पष्टव्रतं.

हवे सातमा जोगोपजोग व्रतनुं स्वरूप लखीये ठीयें. आ बीजुं गुणव्रत ठे. आ व्रत अंगीकार करी सचित्त वस्तु खावानो त्याग करे, अथवा परिमाण करे. वली जेमां बहु हिंसा होय एवो व्यापार न करे, तथा जे काममां अवश्य हिंसा बहुज करवी पडे, तेनो त्याग करे, अज्जदयनो त्याग करे. चौद नियमपण आ व्रतमां गणाय ठे. ते कारणथी आ व्रत पूर्वांक्त पांचे अणुव्रतोने गुणकारी ठे. आ व्रतना वे जेद ठे, ते कहीयें ठियें.

प्रथम व्यवहार. जदय अज्जदय पदार्थोनुं ज्ञान करी तेउनो त्यागकरे तथा आदर करे. वली आश्रव, संवरनुं ज्ञान करी, खानपानादि जे इंद्रियसुखनां कारण ठे, तेमां पोतानी शक्तिने अनुसारें बहु आरंजनां त्याग करी अद्वारंजी घाय, तेनुं नाम व्यवहार जोगोपजोग विरमणव्रत.

वीजो निश्चय. श्रीजिनवाणी श्रवण करी, वस्तुस्वरूपतुं तत्वज्ञान मे-
लवी, अंतःकरणमां विचार करे के जगत्मां जे परवस्तु ठे, ते सर्व हेय
ठे; ते कारणथी तत्ववेत्ता पुरुष परवस्तु खाय नहि, पीये नहि, तेमज
पोतानी पासेपण राखे नहि; अने शुद्ध चैतन्यजाव धारण करीने, परम
शांतरूप थइ, जे वस्तु, सडे, पडे, नाश पामे, जाती रहे, इत्यादि परव-
स्तु स्वरूप जाणीने, एवो विचार करे के आ सर्व पुजलपर्याय ठे, जग-
त्नी सर्व जूठ ठे; तेवी वस्तुनो जोगोपजोग करवो ते तत्ववेत्ताने उचि-
त नथी. एवा ज्ञानथी परजावनो त्याग करे, स्वगुणनी वृद्धि करे. एवुं
ज्ञान पामीने आत्माने स्वस्वरूपानंदी करे. चिद्धिलासनो अनुजवी करे.
तेने निश्चय जोगोपजोग विरमणव्रत कहियें.

जोगोपजोग शब्दनो अर्थ कहियें ठियें. आहार, पुष्प, विलेपनादि,
जे एकवार जोगववामां आवे, ते जोग कहेवाय; अने जुवन, वस्त्र, स्त्री-
आदि, जे वारंवार जोगववामां आवे, ते उपजोग कहेवाय. कर्माश्रयी,
आ व्रतना अनेक जेद ठे, ते आगल उपर लखवामां आवशे.

आवकें उत्सर्गमार्गमां तो निरवद्य आहार लेवो एवो लेख ठे, परंतु
शक्ति न होयतो, सचित्तनो त्याग करे; जो तेपण त्यागी न शके तो वा-
वीश अजद्वय अने वत्रीश अनंतकायनो तो अवश्य त्याग करवो जोइए.
प्रथम वावीश अजद्वयनुं विस्तारथी कथन करियें ठियें.

१ वडनां फल, २ पीपरनां फल, ३ पिलखणनां फल, ४ कठंवरनां फल,
५ गुलरनां फल. आ पांच फल अजद्वय ठे; कारण के आ पांचे फलमां
बहुज सूक्ष्म कीडा, त्रसजीव जरेला होयठे, जेउनी गणत्री थइ शकती नथी;
ते कारणथी धर्मात्मा जीव, आ पांचे फलनो त्याग करे. कदापि डुकालमां
अन्न न मले तोपण विवेकी जीव आ पांच फलनुं जहण न करे.

६ मदिरा, ७ मांस, ८ मधु, ९ माखण. आ चारेमां तेज वर्णना असं-
ख्यजीव उत्पन्न थायठे. आ चारे विगय, महाविगय ठे, तेमज अत्यंत वि-
कार उत्पन्न करनारीठे. तेमां प्रथम मदिरा ठे, ते अनेक दूषणयुक्त हो-
वाथी अवश्य त्यागवा योग्य ठे. ते दूषणो श्रीमद् हेमचंद्रसूरिकृत योग
शास्त्रमां दशश्लोकथी वर्णवेलां ठे तेनो अर्थ अहींआं लखियें ठियें.

१ मदिरा पीवाथी चतुर पुरुषनी बुद्धि नाश पामेठे, जेम दुर्जागी पुरुषने सुंदर स्त्री तजी देठे, तेम चतुर पुरुषने, बुद्धि तजी देठे. २ मदिरापानथी, पुरुष, पोतानी, माता, वेहेन, दीकरीने पण पोतानी चार्या समान समजी, जोराजोरीथी तेनी साथे विषयसेवनादि वलात्कार करेठे, पोतानी चार्याने, पोतानी मातासमान समजेठे; मदिरापानी एवा निर्लज्ज थइ महापाप करनारा थायठे. ३ मदिरापानी, पोताने तेमज परने पण जाणता नथी. ४ मदिरापानी, पोताना स्वामिने, किंकर समजेठे, अने पोताने स्वामि मानेठे, एवी निर्लज्ज बुद्धिवाला थायठे. ५ मदिरापानी, चोकमां केफ करी पडेलो होय, तेवे प्रसंगें कुतरो तेना म्हों उपर मुतरेठे. ६ मदिरापानी, चोकमां नग्न थइ निर्लज्ज थइ आलोटे ठे. ७ मदिरापानी गम्य, अगम्य, चोरी, यारी, खुन प्रमुख, जे जे कुकमां तेणें करेलां होय, ते सर्व, लोको सन्मुख प्रकाश करेठे. ८ मदिरा पीवाथी, शरीरनुं तेज, यश कीर्ति सर्व नाश पामेठे तेमज तात्कालिकी स्वाभाविकी बुद्धिपण ह्य पामे ठे. ९ मदिरापानी चूत बलग्यानी पेठे नाचे ठे. १० मदिरापानी, कचरा, कादव तेमज गंदीमां लोटे ठे. ११ मदिरा पीवाथी अंग शिथिल थइ जायठे. १२ मदिरा पीवाथी इंद्रियनुं तेज घटी जाय ठे. १३ मदिरा पीनार मोटी मूर्खाने प्राप्त थाय ठे. १४ विवेक ब्रष्ट थाय ठे. १५ संयम नष्ट थायठे, १६ ज्ञान नष्ट थायठे, १७ सत्य नष्ट थायठे. १८ शौच नष्ट थायठे, १९ दया नष्ट थायठे, २० क्रमा नष्ट थायठे, जेम अग्निथी तृण जसम थइ जायठे, तेम उपरना गुणो नाश पामेठे, २१ मदिरा, चोरी, तेमज परस्त्री गमनादि दुराचरणोनुं कारण ठे, कारण के मदिरापानी कयां कुकर्म करता नथी. २२ मदिरा, आपत्ति तेमज बध, बंधननुं कारण ठे, २३ मदिराना रसमां बहुज जीव उत्पन्न थायठे, ते कारणथी दयाधर्माने मदिरा हेयठे. २४ मदिरापानी, लीधानुं, न लीधुं कहेठे. २५ आप्यानुं नहि आप्युं कहेठे. २६ कर्मानुं न कर्मुं कहेठे. २७ मदिरापानी, घरमां तेमज बहार परधननुं हरण करेठे. २८ मदिरापानी, वाला, युवति, वृद्धा, ब्राह्मणी, चांडाली प्रमुख स्त्रीयोने जोगवी वेठे, २९ मदिरापानी अरराट करेठे, ३० गीत गायठे, ३१ आलोटे ठे, ३२ दोडेठे, ३३ क्रोध करेठे, ३४ रोवेठे, ३५ हसेठे, ३६ स्थंजनात् थइ जायठे, ३७

मांसनी अनुमोदना करनारं, ७ देवता, पितरो तेमज अतिथिउने मांस आपनार आ सात. साक्षात् तेमज परंपराये जीवना वधकरनारा ठे. मनुस्वमी, मनुस्मृतिमां पण कहे ठे के श्लोक ॥ अनुमंता विशसिता, निहंता क्रयविक्रयी ॥ संस्कर्ता चोपहर्ता च, खादकश्चेति घातकाः ॥ १ ॥ अर्थ. १ मांसनु अनुमोदन करनार, २ मारेखा जीवनां अंगना विजाग करनार, ३ जीवना वध करनार, ४ मांस वेचनार, ५ मांस रांधनार, ६ मांस पीरसनार, ७ मांसखानार, आ साते घातकी ठे, अर्थात् जीवना वधकरनार ठे. वली मनुस्मृतिमां कहेलुं ठे के ॥ यथा ॥ अकृत्वा प्राणिनां हिंसां, मांसं नोत्पद्यते क्वचित् ॥ न च प्राणिवधात् स्वर्गं, स्तस्मान् मांसं विवर्जयेत् ॥ २ ॥ अर्थः—जीवनो वध न करवामां आवे त्यांसुधी मांस थतुं नथी, तेमज जीववधथी स्वर्ग प्राप्त थतुं नथी, परंतु नरकगति थायठे, तेथी मांसनो त्याग करवो.

मांस खानारने वधक कहेवानो हेतु ए के मांस खानारा न होय तो कसाई प्रमुख शावास्ते वीजा जीवना वध करे ? जे प्राणीउं पोताना मांसनी, वीजा प्राणीउंना मांसथी पुष्टि करेठे, अर्थात् वीजा प्राणीउंना प्राणथी पोताने सप्राण करेठे, ते जीवो, थोडी जीदगीवास्ते पोतानो नाश करे ठे. मात्र पोताना जीवनवास्ते करोडो जीवने दुःख आपे ठे. उं शरीर शुं निरंतर रहेवानुं ठे ? जे शरीरमां सुंदर मिष्टान्न, विष्टा प्रश् जायठे, दूध जेवी अमृतवस्तुउं मूत्र थश् जाय ठे, तेवा शरीरने वास्ते कोण बुद्धिमान् जीव वध, तेमज मांसजक्षण करे. ?

जेउं मांसजक्षण करवामां कांश्पण दूषण नथी, एतुं लखी गया ठे, तेउं महामूढ, अविवेकी, तेमज स्वेढ हता एम लागे ठे; कारण के तेउं लखे ठे के ॥ यथा ॥ न मांसजक्षणे दोषो, न मद्ये न च मैथुने ॥ प्रवृत्ति रेषा चूतानां, निवृत्तिस्तु महाफला ॥ १ ॥ आ श्लोकना लखनार, वाघ गीध, वरु, सिंह, गीध प्रमुख मांसाहारी प्राणीना गुरु लागे ठे; तेउं जो गुरु न होयतो उपदेश रूपें आ कथन करे नहि ? वली तेउं जो न उपदेश आपत तो आ प्राणीउंने मांस खावानुं, कोण शीखवत मदिरा पीवामां अने मैथुनसेवनमां कांश्पण पाप नथी, परंतु तेउंनी निवृत्तिथी

મહાફલ છે. હવે જુઠં તેઠની શ્રદ્ધાનતા ? કેવો સ્વવચનવિરોધ છે ? જે કરવામાં પાપ નથી, તે ત્યાગવામાં ધર્મફલ કદાપિ હોઈ શકે ?

હવે નિરુક્તિવલયથી પણ માંસ ત્યાગવા યોગ્ય છે, તે વાવતમાં મનુજી કહે છે કે ॥ શ્લોક ॥ માંસજઠ્ઠાથિતાઽમુત્ર, યસ્ય માંસમિહાદ્યહં ॥ ૧ ॥ તન્મામાંસસ્ય માંસત્વે, નિરુક્તં મનુરબ્રવીત્ ॥ ૧ ॥ અર્થ:—જેનું માંસ હું જાતન્મામાંસસ્ય માંસત્વે, નિરુક્તં મનુરબ્રવીત્ ॥ ૧ ॥ અર્થ:—જેનું માંસ હું જાત-જુઠું, તે જીવ, પરજવમાં મને જઠ્ઠાણ કરશે, આ નિરુક્તિથી મનુજી કહે છે કે, માંસજઠ્ઠાણ કરનારને મહાપાપ લાગે છે. જે પ્રાણીનું માંસ ખાવામાં લંકે, પટ છે, તેનું જે જે જલચર મત્સ્યાદિજીવો, સ્થલચરમૃગાદિ જીવો, અને સ્થલચર, તેતરાદિ જીવોને દેખતાંજ, તેઠને મારીને ખાવાની તેઠની મતિ થાય છે. સાદાત્ ઢાકણની જેવી ખાવાની વૃત્તિ થાય છે. માંસ ખાનારા ઉત્તમ પદાર્થોનો પરિહાર કરી નીચ પદાર્થોને ગ્રહણ કરવામાં ઉચત થાય છે. સાદાત્ કાગડાની જેમ અમૃત ઠોડી વિષમાં ચાંચ દે છે. તેનું જ નામ નિર્વિવેકતા છે. ॥ શ્લોક ॥ ચે જઠ્ઠાથિન્તિ પિશિતં, દિવ્યજોજ્યેપુ સત્સ્વપિ ॥ સુધારસં પરિત્યજ્ય, ઝુંજતે તે હલાહલં ॥ ૧ ॥ અર્થ:—સર્વ ધાતુઠને પુષ્ટિ આપનાર, તથા ઈન્દ્રિયને શ્રાદ્ધાદકારક, દિવ્ય જોજન સમાન, ડુધ, સ્ત્રી, વહી પ્રમુખ, તથા મોદક, સુતરફેણી, ધારી, શાજાં, મોહનથાલ, મેસુવ, સકરપારા, ઘેવર પ્રમુખ મિષ્ટાન્ન, તથા શ્કુરસ, ડાહ, નારંગી, સફરજન, સંતરા પ્રમુખ ઉત્તમફલ તથા વદામ, પસ્તા, ઇલચી, જાયફલ, જાવંત્રી પ્રમુખ મુખવાસી ઉત્તમ વસ્તુ તજીને મૂઢમતિ, વિસ્તગંધિ, સૂગવાલા, તથા વમન થાય તેવા વીજત્સ માંસનું જઠ્ઠાણ કરે છે. તેઠ જીવિતવ્યની વૃદ્ધિવાસ્તે અમૃતરસને તજીને જીવિતવ્યનો નાશ કરનાર હલાહલ, વિપત્તું જઠ્ઠાણ કરે છે. વાલક પણ પથ્થરને ઠોડી, સુવર્ણને ગ્રહણ કરે છે, પરંતુ માંસાહારી પુરુષ તો માંસથી અધિક પુષ્ટિ આપનાર દિવ્ય જોજનનો ત્યાગ કરી માંસને ગ્રહણ કરે છે, તેથી તેઠ વાલક કરતાં પણ શ્રદ્ધાની છે. માંસ ખાવાથી મનુષ્યની નિર્દયી પ્રકૃતિ થઈ જાય છે તેથી તેઠ ધર્મને યોગ્ય રહી શકતા નથી. ધર્મનું મૂલ દયા છે, આ સિદ્ધાંત સર્વ ઉત્તમ પુરુષો તથા સંતજનો શ્રંગીકાર કરે છે, તેથી માંસાહારી, માંસ ખાવાથી દયાયુક્ત રહી શકતાજ નથી, અને તેજ કારણથી તેઠને કસાઈ સમાન કહ્યા છે, તેથી માંસાહારીને ધર્મ નથી.

प्रश्नः—मांसाहारी पोते पोताने अधर्मां केम बनावे ठे ?

उत्तरः—मांसना खादमां लुब्ध थवाथी, तेउं दया के धर्म कांइ पण जाणता नथी. कदाचित् जाणवामां आवे तो पण मांसलुब्ध थइ जवाथी मांसने तजवाने समर्थ रहेता नथी. ते कारणथी मनमां विचारे ठे के आपणी समान वीजाउं थइ जाय तो कोइ निंदा करे नहि, तेथी पोते वीजाने मांसजक्षण नहि करवानो उपदेश करी शकता नथी.

केटलाएक मूढमति पोते तो मांस खाता नथी, परंतु देवता, अतिथिं अने पितरोने माटे मांसनो उपयोग करे ठे. तेउंना शास्त्रकार कहेठे के ॥ यथा ॥ क्रीत्वा स्वयं वा उत्पाद्य, परोपहतमेव वा ॥ देवान् पित्रून् सम-
न्यर्च्य, खादन् मांसं न दूष्यति ॥ १ ॥ अर्थः—आ श्लोक मृगपक्षिउंना विषयमां ठे. कसाइनी डुकान विना, पारधी तेमज शिकारी, अने जान-
वरोने मारनाराउं पासेथी मूल आपीने मांस लेउं अने ते देवता, अति-
थि तेमज पितरोने आपुं जोइए; कारण के कसाइनी डुकानना मांस-
थी देवता, पितरोनी पूजा थइ शकती नथी, तेथी पोते मांस उत्पन्न क-
रीने पित्तुआदिने आपे तो तेउं प्रसन्न थायठे. पोते मांस आ प्रमाणे उ-
त्पन्न करे. ब्राह्मण, मागीने मांस लावे, क्षत्रिय शिकार करीने मांस लावे
अथवा कोइए मांसनी जेट करी होय, तो ते मांसथी देवता पितरोनी
पूजा करीने, पठी पोते मांस खाय तो दोष नथी. आ कथन, महामूढ
तथा 'मिथ्यादृष्टिउंनुंज ठे; कारण के दयाधर्मां, आस्तिकमतवालाउंने तो
मांस दृष्टिथीपण जोउं योग्य नथी, तो पठी देवता, अतिथिनुं पूजन मां-
सथी करउं, आ विचार स्वप्नमांण तेउंने केम आवे ? वही देवताउंने
मांस चढावउं, ते बुद्धिमानूउं काम नथी, कारण के देवताउं तो महापु-
ण्यवान् ठे, केवल आहार करता नथी, तो आवो डुगंठा उत्पन्न करे तैवो
आहार देवता केम ग्रहण करे ? तेथी जेउं देवताउंने मांसाहारी कहे ठे,
तेउं महाअज्ञानी ठे. वही पितरो, पोतपोताना पुण्य पापने अनुसारं, सा-
री अथवा माठी गतिने प्राप्त थयेला ठे, तेउं ते गतिमां पोताना कर्म-
नां फल चोगवे ठे, अने पुत्रना करेला कर्मनां फल तेउंने कांइपण ला-
गतां नथी, तो हवे मांस आपवाना पापनुं तो शुंज कहेउं ? पुत्रादिना
सुकृतनां फलपण तेउंने पहुँचतां नथी; कारण के आंवाने सेचन करवा-

थी केवल फलीञ्चूत यती नथी. तथा अतिथिनी जक्ति वास्ते मांसतुं अर्पण नरकपातनो हेतु होवाथी, महा अधर्मनुं कारण ठे. आ वावतमां कोइ एवो सवाल करे के, जे वात श्रुति, स्मृतिमां ठे, ते मानवी जोइए.

उत्तर:- आ कथन वास्तविक नथी. जे वात श्रुति, स्मृतिमां अप्रामाणिक होय, ते बुद्धिमान् कदापि मानेज नहि, कारण के श्रुतिमां अमे एम सांजलीए ठीए के “वचांसि ज्ञूयांसि यथा पापघ्नोगोस्पर्शः द्रुमाणां च पूजागादीनां च पूजागादीनां च वधः स्वर्ग्यः ब्राह्मण जोजनं पितृप्रीणनं मायावीन्यधिदैवतानि बहौ हुतं देवप्रीतिप्रदं ” आबुं कथन जे श्रुतियोमां ठे, तेने युक्तिकुशल पुरुष कदापि मानशे नहि; तेथी मांस-थी देवतानी पूजा करवी ते महा अज्ञानता ठे. वली केटलाएक कहे ठे के, जेम मंत्रथी संस्कृत, अग्नि दाह करतो नथी, तेमज मंत्रथी संस्कार पामेलुं मांस दोषकारक रहेतुं नथी. आ कथन मनुजीनुं ठे ॥ यथा ॥ असंस्कृतान् पशून् मंत्रै, नाद्याद्विप्रः कथंचन ॥ मंत्रैश्च संस्कृतानद्या, ष्ठाश्वतं विधिमास्थितः ॥ १ ॥ अर्थ:- मंत्रथी असंस्कृत पशुर्जनुं मांस ब्राह्मण न खाय, अने मंत्रथी संस्कृत पशुनुं मांस खाय तो, शाश्वता नित्य वैदिक विधिमां रहेलोठे एम जाणवो.

आ वावतमां समाधान ए ठे के, मंत्रथी जे मांस पवित्र करवामां आबुं होय, ते पण धर्मी पुरुष कदापि जक्षण न करे. कारण के मंत्र जेम अग्निनी दाहकशक्तिने रोके, तेम नरकादिप्रापण शक्ति जे मांस नी ठे, तेने दूर करवाने मंत्रमां शक्ति नथी. जो तेवी शक्ति मंत्रमां होय तो, दरेक पाप करीने, पठी ते पापना नाशकरनार मंत्रनुं स्मरण करवा मात्रथीज ते पाप नाश थई जाय, जो ए प्रमाणे होय तो वेदोमां पापनो निषेध करेलो ठे, ते कथन सर्व निरर्थक समजवुं; कारण के सर्वपाप मंत्रस्मरणथीज नाश थाय ठे, पठी निषेध करवानी शी जरूर हती ? ते कारणथी आ पण अज्ञानीर्जनुंज कथन ठे.

वली केटलाएक कहे ठे के जेम अल्प मद्यपानथी निस्तो चडतो नथी, तेम थोडुं मांस खावाथी पाप लागतुं नथी.

उत्तर:- थोडुं पण मांस बुद्धिमान् खाय नहि. जेम थोडुं पण विप दुःखदायक थाय ठे, तेम थोडुं पण मांस दोषरूप थाय ठे.

ह्वे मांस खावामां जे अनुत्तर दूषण ठे ते कहीए ठीए. तत्काल मांसमां समूर्धिम जीव उत्पन्न थाय ठे, तेमज अनंत निगोदरूप जीव, तेनुं संतान वारंवार उत्पन्न थया करे ठे, ते कारणथी महादूषण ठे. ॥ यदाहुः ॥ आमासु अपक्वासु, अविपच्यमाणासु मंसपेसीसु ॥ सयय चि य उववाज्ज, जणिलं निगोय जीवाणं ॥ १ ॥ अर्थः— काची, तेमज अपक्व जे मांसनी पेशी रांधवामां आवे ठे, ते रंधाया ठतां पण तेमां निरंतर निगोदना जीव उत्पन्न थाय ठे. ते कारणथी मांसजक्षण, नरक गमन करनार जीवोने पुरी खरची ठे, तेथी उत्तम जीवे कदापि मांस जक्षण करवुं नहि.

ह्वे मांसजक्षण करवानो उपदेश जेठए करेलो ठे, तेठनां नाम लखीए ठीए. १ मांस खावाना लाजचुडं, २ मर्यादारहितो, ३ नास्तिको, ४ अद्वयबुद्धिमानो, ५ असत्य शास्त्र वनावनाराजं, ६ पशुना वैरीजं. मांसाहारी समान कोशपण निर्दय नथी. मांस आहारथी अधिक, नरक अग्निमाटे इंधन नथी. गंदकी खाइने सूअरो जे पोतानांशरीर पुष्ट करे ठे ते सारां ठे, परंतु जीवने मारीने मांस खानारा सारा नथी.

प्रश्नः— सर्वजीवोनुं मांस खावुं, एम सर्व कुशास्त्रोमां लखेलुं ठे, परंतु मनुष्यनुं मांस खावुं, एम कोशपण शास्त्रमां लख्युं नथी, तेनुं शुं कारणते ?

उत्तरः—पोताना शरीरना मांसनी रक्षावास्ते कोशपण कुशास्त्रिए मनुष्यनुं मांस खावुं लख्युं नथी; कारण के तेठ जाणता हता के, मनुष्यनुं मांस खावुं, एम शास्त्रमां लखशुं तो, मनुष्य कदी अमने पण मारीने खाइ जशे. तेथी लखेलुं नथी.

जेठ पुरुषना मांसमां तेमज पशुना मांसमां तफावत मानता नथी, तेठ समान कोइ धर्मी नथी; अने ते वावतमां जेठ तफावत माने ठे, अने मांस खाय ठे, तेठ समान कोइ पापी नथी. वली मांसनी उत्पत्ति रुधिरथी थाय ठे, तथा विष्टाना रसथी तेनी वृद्धि थाय ठे, वली लोही जेमां जरेलुं रहे ठे, अने कृमि जेमां उत्पन्न थाय ठे, एवा मांसने बुद्धिमान् केम खाइ शके? आश्चर्य तो एज ठे के ब्राह्मण लोको धर्म तो शुचिमूल कहे ठे. अने सात धातुथी जे मांस हाड वने ठे, ते मांस हाडने मुखमां दांतथी चावे ठे. ह्वे तेवाउने कुतरा समान गणवा के शु-

चिधर्मवाला गणवा ? तेथी जे डुष्टोनी एवी समज ठे के, अन्न तथा मांस, आ वंने एक सरखां ठे, तेउनी बुद्धिमां, जीवित तथा मृत्यु आपनारां अमृत तेमज विष सरखांज ठे.

वली जे जडबुद्धिमानोनुं एवुं मानवुं ठे के, उदननी जेम, मांस प्राणीनुं अंग होवाथी खावा योग्य ठे. आ तेउनी मान्यता वास्तविक नथी, कारण के जो तेम होय तो गायनुं मूत्र, तथा माता, पिता, स्त्री, पुत्री, ए सर्वेनुं मूत्र तेमज विष्टा, केम खाता पीता नथी, कारण के ते पण प्राणीना अंगथी उत्पन्न थयेल ठे. वली पोतानी स्त्रीनी जेम, पोतानी माता, वेहेन दीकरीनी साथे केम गमन करता नथी ? स्त्रीत्व तेमज प्राणी अंगत्व सर्व स्थलें बराबर ठे. वली जेम गायनुं दुध पीउं ठो, अने मातानुं पय पान करो ठो, तेम गायनुं रुधिर तेमज मातानुं रुधिर केम पिता नथी ? कारण के प्राणी अंग हेतु सर्वस्थलें तुल्य ठे. ते हेतुथी जेउं अन्न तथा मांसने एक सरखां माने ठे, तेउं महापापीउंना सरदारठे.

वली शंखने पवित्र माने ठे; परंतु पशुना हाडने कोइ पवित्र मानता नथी, ते कारणथी अन्न तेमज मांस, प्राणी अंग ठे, तो पण अन्न अन्नद्वय ठे, अने मांस अन्नद्वय ठे. एक पंचेंद्रिय जीवनो बध करीने मांस खावाथी जेम खानारने नरकगति प्राप्त थाय ठे, तेम तेवी माठी गति अन्नखानारनी थती नथी; कारण के अन्न, मांस थईं शकतुं नथी. मांसनी तसीरोथी अन्ननी तसीरो और तरेहनी ठे. मांस महाविकार करे ठे, अन्न तेम करतुं नथी. इत्यादि विलक्षण स्वभाव ठे, तेथी मांस खानारनी नरकगति जाणीने संत पुरुषो अन्नना चोजनथी तृप्ति माने ठे, अने उत्तम पद प्राप्त करे ठे. आ सर्व मांसनां दूषणो श्रीमद् हेमचंद्रसूरिकृत योगशास्त्रने अनुसारें लखेलां ठे. वली वर्तमानमां बुद्धिमान् पाश्चिमात्य लोकोए मांस खावाथी चोवीश दुर्गुण प्रगट थाय ठे, एम वतावेखुं ठे, अने मदिराथी तो एटली खरावी थाय ठे के जेनी गणत्री पण थईं शकती नथी. ते कारणथी मदिरा तेमज मांस आ वंने अन्नद्वयनो थावक त्याग करे. आ सातमुं अन्नद्वय कथुं.

७ आठमुं अन्नद्वय माखण ठे. जैनमतना शास्त्रानुसार ठाशथी घट्टार काटेला माखणने ज्यारे अंतर्मुहूर्त अर्थात् वे घडी कास व्यतीत

थाय ठे, त्यारे ते माखणमां सूक्ष्म जीवो तेज वर्णना उत्पन्न थइ जाय ठे, ते कारणथी माखण त्यागवा योग्य ठे. जैनलोकोए ठाशथी माखण वहार काढीने, तत्काल अग्निसंयोगथी, वनावीने, गल्लीने, पठी खावुं जोइए; कारण के ए रीतिथी शास्त्रोक्त जीव तेमां उत्पन्न थता नथी तेनी हिंसा थती नथी, वली माखी, कंसारी, महरादि जीवोना अक्वयव प्रमुख पण, घी गलवाथी निकली जाय ठे; वली माखण कामनी पण वृद्धि करे ठे, तेथी मनमां खोटा विकल्प उत्पन्न थाय ठे; तेथी श्रावकें माखण न खावुं जोइए. वली एक जीवनो नाश करवाथी ज्यारे पाप थाय ठे, त्यारे पूर्वोक्त रीतिथी माखण तो जीवोतुंज पिंड थइ जाय ठे. तेथी माखण खावाथी पापनी गणतरी केम थइ शके ?

प्रश्न:- माखणमां वे घडी पठी कोइपण जीव उत्पन्न थयेल थमे देखता नथी, तो केवीरीतें तमारुं कहेवुं सत्य मानी शकीए ?

उत्तर:- जेठ जैनमतना शास्त्रोने सत्य मानशे, तेठ तो शास्त्रकारना कथनने सत्यज मानशे, थने जेठ जैननां शास्त्रोने सत्य मानता नथी तेठ कदापि आ कथन सत्यमानो अथवा न मानो, परंतु थमे तो आ वातमां आगम प्रमाण विना वीजुं प्रमाण दर्श शकता नथी. तात्पर्य ए ठे के वस्तु वे प्रकारें सिद्ध थाय ठे; एक हेतुगम्य, वीजी आगमगम्य माखणद्विदवादिमां जे जीव उत्पन्न थाय ठे, ते हेतुगम्य नथी, परंतु आगमगम्य ठे. ते कारणथी जे आगम सर्वइ जिन अहंत वीतरागें कथन करेल ठे, ते सत्य होवाथी मानवुं जोइए. जो कोइ पुरुष, कोइपण शास्त्रने सत्य नहि मानतां, आंखथी देखेली वस्तुनेज मानशे, तो तेनाथी स्वर्ग नरकादि, जे अदृष्ट ठे, ते पण मानी शकाशे नहि. वली परमेश्वर सातमा अथवा चौदमा असमान उपर ठे, तथा जीव, पुण्य, पाप करवाथी स्वर्ग, नरकमां जाय ठे, आ पण नहिज मानी शकाशे. इत्यादि थनेक वावतो तेनाथी मानी शकाशे नहि. जो वीजी वावतो, इंडियोने अगम्य, मानशे तो, आगम प्रमाण पण मानवुं पडशे, कारण के सर्व वस्तु अमारी दृष्टिमां आवि शकती नथी.

ए नवमुं अज्ज्ज मधु अर्थात् मधु थनेक जीवोना घात थवाथी उत्पन्न थाय ठे. आ परलोकविरुद्ध दोष ठे; थने मुखनी वाखना जे-

बुं डुगंठा उत्पादक ठे, आ इहलोकविरुद्ध दोष ठे. ते कारणथी धर्मी श्रावकें मध न खावुं जोइए.

हवे मधखानारनुं पापीपणुं वतावीए ठीए. ॥ श्लोक ॥ जक्ष्यन् मा-
क्षिकं ह्यङ्गं, जंतुलक्ष्योऽङ्गं ॥ स्तोकजंतुनिहंतृज्यः, सौनिकेज्योऽति-
रिच्यते ॥ १ ॥ अर्थः—अर्थात् नाना, हाडरहित लाखो जीवोनो ज्यारे नाश
थायठे, त्यारे मध उत्पन्न थाय ठे, ज्यारे मध जक्षण करवामां आवे ठे,
त्यारे थोडा पशु मारनारा कसाइथी पण अधिक पाप खानारने लागेठे,
कारण के जक्षण करनारा पण घातक ठे, आ वात उपर सारी रीतें वता-
वेदी ठे. वदी लोक व्यवहारमां पण एवुं नोजन निंदनीय ठे, अने मध
तो महा जूठ एतुं ठे. कारण के एकेक फुलनो मकरंद (रस) पीशने
मांखीउं ते रसने वमन करे ठे. तेज मध ठे. ते कारणथी धर्मीपुरुषें जूठ
न खावुं जोइए. आ वात लोकव्यवहारमां प्रसिद्ध ठे.

वदी कोइ कहे के मध तो त्रिदोषने दूर करनार ठे, ते कारणथी औ-
षधमां जक्षण करवाथी शुं दोष ठे ?

उत्तरः—अप्यौषधकृते जग्धं, मधु श्वन्ननिबंधनं ॥ जक्षितः प्राणनाशाय
कालकूटकणोपिहि ॥ १ ॥ अर्थः—रसनी लंपटताथी मध खाय तेनी वात तो
दूर रही, परंतु औषधवास्ते पण जे मध खाय, अने तेथी कदापि रोगनो
नाशपण थाय तोषण, तेथी नरकगतितुं कारण प्रगट थाय ठे, कारण के
प्रमादना उदयथी, जीववानो अर्था उतां पण जे कोइ कालकूट विपनो
एक कण पण खाशे तो, अवश्य तेना प्राण नाश पामशे.

प्रश्नः—मध तो खजूर, द्राक्षादि रसनी जेम मीतुं ठे, सर्व इंद्रियोने सु-
खकारि ठे, तो तेने त्यागवाने शा वास्ते उपदेश करोठो ?

उत्तरः—मधमां मीगश ठे, ए वात सत्य ठे, पण ते व्यवहारथी ठे,
परमार्थथी तो नरकनी वेदनानो हेतु होवाथी मध अत्यंत कडवुं ठे.

हवे मधने पवित्र मानी जे मंदबुद्धिमानो देवस्नानमां उपयोगी माने
ठे, तेउठुं उपहास्य शास्त्रकार करे ठे ॥ लोक ॥ मक्षिकामुखनिष्ठयूतं,
जंतुघातोऽङ्गं मधु ॥ अहो पवित्रं मन्वाना, देवस्नाने प्रयुजं ते ॥ १ ॥
अर्थः—मांखीउंना मुखनी जूठ तथा जीव घातमां हजारो वच्चां तेमज
इंढां मारवाथी जे उत्पन्न थायठे, ते वच्चां तेमज इंढां व्याय ठे, त्यारे तेना

शरीरनुं पाणी (लोही) पण मधमां मली जाय ठे, हवे जुळ के मध केवुं अपवित्र ठे? अहो शब्द श्लोकमां उपहास्य माटे ठे. कारण के जेवा ते देवता ठे, तेवी पवित्र वस्तु पण तेमने चडाववामां आवे ठे. आ उपहास्य ठे. ॥ यथा ॥ करजाणां विवाहे तु, रासजास्तत्रगायकाः ॥ परस्परं प्रशंसन्ति, अहोरूपमहोर्ध्वनिः ॥ आश्लोकमां अहो शब्द उपहास्य माटे ठे. इति नवमुं अज्ञद्वय.

१० पाणीनो वनावेलो वरफ अज्ञद्वय ठे. वरफ असंख्य अप्रकाय जीवोनुं पिंड ठे. ते खावाथी चेतना मंद थायठे, तत्काल शरदी थायठे. कांझण वलवृद्धि थती नथी. वीतराग अर्हंतजगवन्तें निषेध करेल ठे, ते कारणथी अज्ञद्वय ठे.

११ अफीणप्रमुख विषवस्तुळ अज्ञद्वय ठे. कारण के फेरी वस्तुळ खावाथी उदरमां कृमि, गंडोलादि जे जीव होय ठे, ते मरीजायठे. विष खावाथी चेतना मुंजाय ठे. वली जो खावानी टेव पडी जायठे तो, पठी ठोडुं मुश्केल थायठे. वखतसर न मले तो क्रोध उत्पन्न थाय ठे. शरीर शिथिल थइ जायठे. वली जे व्यसनी थायठे, तेनाथी व्रत, नियम प्रायः अंगीकार थइ शकतां नथी. व्यसनिनो स्वभाव वारंवार अदलवदल थायठे. ज्यारे अमल खायठे, त्यारे एकरंग थायठे; ज्यारे अमल उतरी जायठे, त्यारे वीजो रंग थायठे. वली स्वतंत्रता तजी, पराधीन पणु अंगीकार करवुं पडेठे. अमलनो खाद पण बुरो ठे. वली विषखानारा ज्यां लघुनीत, वडीनीत करेठे, त्यां त्रस, स्थावर जीवोनी हिंसा थायठे. सोमल, वठनाग, हरताल प्रमुख सर्व विषमां दाखल थायठे. तेउनो त्याग करवो श्रावकने उचित ठे.

१२ करा, जे आकाशमांथी वरसादमां पडेठे. आ पण अज्ञद्वय ठे.

१३ सर्वजातनी काची माटी अज्ञद्वय ठे. काची, सचित्त माटी, नाना प्रकारनी असंख्य जीवात्मक ठे. माटी खावाथी पेटमां वडु जीव उत्पन्न थायठे. पांडु रोग, आमरोग, वात, पित्त, पथरीप्रमुखरोग उत्पन्न थाय ठे. माटी वडु खावाथी शरीरनो पीलो रंग थायठे. वली केदनीएक जातनी माटीमां देडकाप्रमुखजीवोनी योनि ठे. ते कारणोथी अज्ञद्वय ठे.

१४ रात्रिजोजन अज्ञद्वय ठे. रात्रिजोजनमां प्रत्यक्षथी आलोकमां दूषणो ठे, अने परलोकमां ते दुःखुं हेतु ठे; रात्रिए चारे आहार अज्ञ-

ह्य ठे. रात्रिमां जे जे रंगना पदार्थोनो आहार करवामां आवे ठे, ते ते रंगना जीवो, जेनुं नाम तमस्काय ठे, तेते पदार्थोमां उत्पन्न थायठे. वली आश्रितजीवपण बहुज होयठे. तथा रात्रिमां उचित अनुचित वस्तुर्जनो जेल, संजेल थइ जायठे. वली रात्रिचोजनमां प्रसंग दोष बहुज लागेठे. जेम के, ज्यारे रात्रिए खावानुं वनशे, त्यारे रात्रिचोजन वास्ते, निरंतर रसोइपण करवी पडशे; रसोइ करतां, त्रस, स्थावर जीवोनो संहार थइ जशे; तेथी श्रावकना कुलाचारनो नाश थशे. वली सूक्ष्मत्रस जीव नजरमां पण श्रावता नथी, कदापि देखाय तो निध्वंस परिणाम थवाथी यत्ना पण रही शकती नथी. ज्यारे अग्नि वलेठे, त्यारे पासेनी जीतपर जे आश्रित जीवो रहेला होय, ते तापथी आकुल व्याकुल थइने, अग्निमां पडे ठे. वली सर्पादि जेरी जानवर कदापि होय, तो तेना मुखथी जो चोजनमां लाल पडेतो, पोतानो तेमज खानारा सर्वनो विनाश थायठे. वली पतंगिआ, गरोली, ठपकटी, मकडी, मठर, करोलीआ प्रमुख जीवो जे रात्रिए आसपास होयठे, ते अग्निना प्रकाशथी चोजनमां आवी पडे तो, जारे रोगोत्पत्ति थायठे. यद्भुक्तं योगशास्त्रे ॥ मेधां पिपीलिका हंति, यूका कुर्याद्भ्रूलो दरं ॥ कुरुते मक्षिका वान्तिं, कुष्टरोगं च कोलिका ॥ १ ॥ कंटकोदारुखंडं च, वितनोति गलव्यथां ॥ व्यंजनांतर्निपतित, स्तालु विध्यति वृश्चिकः ॥ विलग्नश्च गले वालः, खरजंगाय जायते ॥ इत्यादयोदृष्टदोषाः, सर्वेषां निशि चोजने ॥३॥ अर्थः—अन्नादिमांकीडी खावामां आवे तो बुद्धिनाश या मंद थायठे, जु खावामां आवी जाय तो जलोदर थायठे, माखी वमन करावे ठे, अने मकडी कुष्टरोग उत्पन्न करेठे. कांटाअथवा लाकडानाकटका खावामां आवी जाय तो, गलामां व्याधि उत्पन्न करेठे, अने रांधवानुं चाजन उघाडतां जो विंठी पडी जायतो तालबुं विंधी नारखेठे, इत्यादि दृष्टदोष रात्रिचोजन करवामां सर्वे लोकोने देखवामां आवेठे. वली जेम रसोइ करतां पटकाय जीवोनी हिंसा रात्रिए करवी पडेठे, तेवीज रीतें रांधेलां चाजनो धोवाथी जलगत जीवोनो पण विनाश थायठे. वली जल पडवाथी चूमिपर कुंथु, कीडी प्रमुखनो पण नाश थायठे. ते कारणथी जीवरक्षाने छन्नार प्राणी रात्रिचोजन करे नहिं.

प्रश्नः—ज्यां अन्नपण रांधवुं न पडे, तेमज चाजन पण धोवां न पडे पण

वनावी राखेला लाडवा प्रमुख तथा तैयार खजुर, डाहादि जे न्हय ठे. ते खावामां शुं दोपठे ?

उत्तर:—यथा ॥ नाप्रेक्ष्य सूक्ष्मजंतूनि, निश्चयात् प्राशुकान्यपि ॥
अप्युक्तं केवलज्ञानै, निंदितं यन्निशाशनं ॥ १ ॥ अर्थ:—भोदक तथा फ-
लादि अगर जो प्राशुक अर्थात् अचेतन पण ठे, तो पण रात्रिए न खा-
वा जोशए, कारण के कुंथवादि सूक्ष्मजंतुं रात्रिए नजरे पडता नथी; वली
केवलज्ञानी, जेने निरंतर सर्वकांश देखाय ठे, तेउं पण रात्रिए जोजन
करता नथी. सूक्ष्मजंतुंनी रक्षा वास्ते, तेमज अशुद्ध व्यवहार दूर कर-
वावास्ते, केवलज्ञानी रात्रिए आहार करता नथी. अगर जो दीवा प्रमु-
खना प्रकाशयी कीडीप्रमुख दृष्टिए पडेठे, तो पण मूलगुणनी विराधना
टालवा वास्ते रात्रि जोजन अनाचरणीय ठे.

हवे लौकिक मतवादीउंनी सम्मतिपूर्वक रात्रिजोजननो निषेध क-
रीए ठीए. यथा ॥ धर्मविद्वैव जुंजीत, कदाचन दिनात्यये ॥ वाह्या
अपि निशाज्ज्यं, यदज्ज्यं प्रचक्षते ॥ १ ॥ श्रुतधर्मनो ज्ञाता कदापि
रोत्रिजोजन करे नहि, कारण के जिनशासनयी वहारना मतवालाउं पण
रात्रिजोजनने अज्ञद्वय कहेठे. तेउंना शास्त्रोमां कहेलुं ठे के ॥ यथा ॥ त्र-
यीतेजोमयोज्ञानु, रिति वेदविदोविदुः ॥ तत्करेः पूतमखिलं, शुजं कर्म
समाचरेत् ॥ १ ॥ अर्थ:—ऋग्, यजुः, साम लक्षण त्रणे वेद, तेउंनुं जे ते-
ज ते सूर्य ठे. “ आदित्यः त्रयीततुः ” एवुं सूर्यनुं नाम ठे. ए प्रमाणे वे-
दोने जाणनारा जाणे ठे; ते सूर्यना विद्यमान अर्थात् किरणोयी पवित्र
यतां सर्व शुचकामो अंगीकार करे; ज्यारे सूर्य न होय त्यारे शुच कर्मों
करे नहि. ते शुचकर्मोंनां नाम तेउंए आ प्रमाणे लखेलां ठे. ॥ यथा ॥
नैवाहुतिर्न च स्नानं, न श्राद्धं देवतार्चनं ॥ दानं वा विहितं रात्रौ, जोज-
नं च विशेषतः ॥१॥ अर्थ:—आहुति अर्थात् अग्निमां घीप्रक्षेप करवुं, स्नान
अर्थात् शरीरना अंगोने घोवां, श्राद्ध पितृकर्म, देवपूजा, दानदेवुं, अने
जोजन तो विशेषें करी नज करवुं; आटला कामो रात्रिए नज करवां.

वली परमतमां वीजा वे श्लोक ठे ॥ यथा ॥ देवैस्तु जुक्तं पूर्वाह्णे, म-
ध्याह्णे ऋषिजिस्तथा ॥ अपराह्णे तु पितृभिः, सायाह्णे दैत्यदानवैः ॥ १ ॥
संध्यायां यद्दरदोभिः, सदा जुक्तं कुलोद्ग्रह ॥ सर्ववेलां व्यतिक्रम्य,

रात्रौ शुक्तमोजनं ॥ २ ॥ अर्थः—सवारमां देवतां चोजन करे ठे. म-
ध्याहे ऋषि चोजन करे ठे. दिवसना पाठला जागमां पितरो चोजन करे
ठे, सायाहे अर्थात् विकाल वेलाए दैत्य दानवो चोजन करे ठे. संध्यावे-
लाए यक्ष गुह्यक, राक्षसो चोजन करे ठे.

सर्व देवतार्त्तनो वखत उल्लंघन करीने रात्रिए जे खावुं ते अन्नद्वय ठे.
आ प्रमाणे पुराणोना श्लोकथी रात्रिचोजननो निषेध कर्यो.

हृवे वैद्यक शास्त्र मुजव रात्रिचोजनना निषेधनो संवाद कहियें ठियें.
॥ यथा ॥ आयुर्वेदेषु ॥ हृन्नाजि पद्मसंकोच, श्रंडरोचिरपायतः ॥ अतो
नक्तं न चोक्तव्यं, सूक्ष्मजीवादानापि ॥ १ ॥ आ शरीरमां वे कमल ठे.
एक हृदय पद्म, ते अधोमुख ठे, वीजुंनान्जिपद्म, ऊर्ध्वमुख ठे, आ वंने
कमलो सूर्य अस्त अवाथी रात्रिए संकोचाइ जाय ठे, ते कारणथी रा-
त्रिए न खावुं जोश्यें, वली रात्रियें सूक्ष्म जीवो खावामां आचवाथी अ-
नेक तरेहना रोग उत्पन्न आय ठे. आ परपक्षनो संवाद कह्यो.

हृवे विशेषरीतें स्वमतथी रात्रिचोजननो निषेध करियें ठियें. ॥ य-
था ॥ संसृज्जजीवसंघातं, जुंजानानिशिचोजनं ॥ राक्षसेन्यो विशि-
ष्यंते, मूढात्मानः कथं नु ते ॥ १ ॥ ज्यारे रात्रिए खावामां आवे ठे, त्यारे
जीवनो समूह चोजनमां पडीजाय ठे, एवा अंध समान रात्रिए खा-
नाराउने राक्षसोथी पण अधिक शा वास्ते न कहेवा जोइए ? जिन-
धर्मथी रहित अइ, मनुष्य विरतिपणानो त्याग करे ठे, या तो तेने अं-
गीकार करतो नथी, त्यारे तेने पुछ, शिंग विनानो पशुज समजवो.
॥ यद्धुक्तं ॥ वासरे च रजन्यांच, यः खादन्नेव तिष्ठति ॥ शृंगपुष्प-
रिच्छ्रष्टः, सस्पष्टं पशुरेव हि ॥ १ ॥

हृवे रात्रिचोजननिवृत्ति वास्ते पुण्यवंत आत्माउने विशेष बोधस्व-
रूप कहियें ठियें. ॥ यथा ॥ अहोमुखेऽवसाने च, यो ह्ये ह्ये घटिके त्यजेत् ॥
निशाचोजनदोषज्ञो, श्चात्यसौ पुण्यचोजनं ॥ १ ॥ अर्थः—दिवसना उ-
दय तेमज अस्त समयनी वे वे घडी बर्जवी जोइए, कारण के रात्रि नि-
कट होय ठे; तेज कारणथी सिद्धांतमां सर्व जघन्य प्रत्याख्यान मुहूर्त
प्रमाण, नमस्कारसहित कथन करेल ठे. रात्रिचोजनना दूषणोने जा-
णनार श्रावक वे घडी ज्यारे दिवस वाकी रहे, त्यारे चोजन करे, जो वे

घडीथी न्यून दिवस रहेतां जोजन करे तो रात्रिजोजनना प्रत्याख्याननो लाज तेने मलतो नथी; कदापि कोइ सखस रात्रिण खातो न होय, परंतु जो तेणें रात्रिजोजननुं प्रत्याख्यान न कर्युं होय तो, तेने पण कांइ फल मलतुं नथी, कारण के तेणे प्रतिज्ञा करेली नथी. जेम शराफने त्यां रुपेश्रा जमे करावीयें, परंतु व्याजनो करार न करीण तो व्याज मलतुं नथी तेम ते कारणथी नियम अचक्ष्य करतुं जोइण.

हवे रात्रिजोजन करनाराउने परलोकमां शुं फल मखे ठे ते कहीण ठीये ॥ यथा ॥ उलूककाकमार्जर, शुभ्रशंवरशूकराः ॥ अहिगृध्रिकगोधाश्च, जायन्ते रात्रिजोजनात् ॥ १ ॥ अर्थः-बुवड, काग, विलाडी, गीध, हरणीया, सूअर, सर्प, विंठी, घो इत्यादि तिर्यंचयोनिमां रात्रिजोजन करनाराउ मरीने जायठे; अने जेउ रात्रिजोजन करता नथी, तेउने एक वर्षमां ठ महीनाना तपनुं फल मखेठे. इति रात्रिजोजन अचक्ष्य संपूर्ण.

१५ बहु वीजवालां फलपण अचक्ष्य ठे. जेमां गर्ज थोडो होय अने वीज बहु होय, एवां जे रींगणां, पटोल, खसखस, पंपोटा प्रमुख अचक्ष्य ठे. तेमां जेटलां वीजठे, ते सर्व पर्याप्ता जीवठे. खावामां थोडां आवे, अने जीवघात बहुज थायठे. वली बहु वीजवालां फल खावाथीपित्त प्रमुख रोग थायठे; तथा जिनाज्ञा विरुद्धे.

संधान अर्थात् अथाणां (अचाार) ऋण दिवस उपरांतनां अचक्ष्यठे. अथाणां केरीनां, लींनुनां, पाननां, करमदानां, हलदरनां, गरमर प्रमुखनां वनाववामां आवेठे; कदापि घी, तेल के पाणीनां होय तोपण ऋण दिवस उपरांतनां अचक्ष्य ठे. परंतु तफावत एटलो ठे के जे फल पोतेज खाटां ठे अथवा तो जेमने खाटाश साथे मेलवेलं होय, अर्थात् खाटी केरी साथे मेलव्यां होय तो ते अथाणां ऋण दिवस उपरांत अचक्ष्य ठे, अने जेउमां खाटाश नथी ते अथाणां एक रात्रि उपरांत अचक्ष्य ठे. अथाणामां त्रस जीव उत्पन्न थायठे, अने वीजां प्रमुखतो मूळें अचक्ष्य ठे, तो पठी तेना अथाणांनुं तो शुंज कहेतु? अथाणामां चोथे दिवसे निश्चये वे इंद्रिय जीव उत्पन्न थायठे, अने जूहो हाथ लागी जायतो पंचेन्द्रिय जीव उत्पन्न थायठे. वीजा मतवालार्जनां शास्त्रोमां पण अथाणा नरकनां हेतु लखेलांठे. इतिअथाणा अचक्ष्य.

१६ छिदल, जेनी वे दाळ थइ जाय, तेमज घाणीमां पीलवाथी जेमां-
थी तेल निकले नहि, एवां सर्व धान्य छिदल कहेवाय ठे. छिदलनी साथे
जे गोरस अग्नि उपर चढेवुं नथी, एवुं काचुं दही, दुध के ठाश मेलवी
जमवुं नहि. गरम करेलां दही, दुध के ठाश, ठंडां थइ गया पठी पण
तेउंनी साथे छिदल मेलवी खावामां आवे तो दोष नथी.

१७ सर्व जातिनां रींगणां अन्नद्वये. एक तो तेमां बहुज वीजठे, तेना
वीटमां सूक्ष्म त्रस जीव होयठे, वली ते कामनी वृद्धि करेठे, निद्रा अधि-
क लावेठे, कांश्क बुद्धिनेपण जाडी करेठे, तेनुं नामपण सुंदर नथी, आ-
कारपण अमनोइ ठे, कफ रोगने उत्तेजक ठे, अधिक खावाथी चोथीया-
ताव, क्षयादि रोग थइ जायठे. वली सर्व जातिनां फल सुकांपण खावा-
मां आवेठे, परंतु आ सुकववाथी पण खावायोग्य रहेतुं नथी. सुकव्याप-
ठी तो एवुं थइ जायठे के जाणे मुंएला उंदरनी खाल. तेथी आ द्रव्य
अशुद्ध ठे, अने अन्नद्वये.

१८ तुष्टफल, जांबु, पीडु इत्यादि, तथा अत्यंत कोमल फल पण अ-
न्नद्वये, कारण के एवी वस्तुउं बहु खावामां आवे तोपण तृप्ति थती नथी.
खावामां थोडुं आवे ठे, अने वधारे फेंकी देवुं पडे ठे. फल खाधा पठी
तेनी गोठली जे मुखमां चुसीने फेंकी देवांमां आवेठे, तेमां असंख्य पंचे-
न्द्रिय समूर्धिम जीव उत्पन्न थायठे. वली जे मनुष्य बहुज तुष्ट फल खा-
यठे; तेने तत्काल रोग उत्पन्न थायठे.

१९ अजाणुं फल, अर्थात् जे फलनुं नाम कोझना जाणवामां न होय,
तथा जे कोझना खावामां न आवुं होय, ते फल पण अन्नद्वये; कारण
के तेनुं फल खावाथी कदाच जेरी होयतो मरण थइ जाय, अथवा तो
दिवानापणुं थइ जाय.

२० चक्षितरस, जे वस्तुनो काल पुरो थइ गयो होय, तेमज स्वाद व-
दलाइ गयो होय, (कारण के स्वाद बदलाइ जाय ठे, त्वारे काल पण
पुरो थइ जाय ठे) तथा जेमांथी दुर्गंध निकलवी शरु थइ होय, तथा
जेमां खाल उत्पन्न थइ होय, ते वस्तु चक्षितरस समजवी. आ पण अ-
न्नद्वये ठे. रोटली, शाक, खीचडी, वडां, नरमपुरी, शीरो, हलवो, इत्यादि
रांपेली अनेक वस्तुउं जेमां पाणी आवेठे, तेउं एक रात उपरांत अन्न-

द्वय ठे; तथा दास, जजीश्रां, वडां जेमां पाणी होय ठे, ते चार पद्दोर उ-
परांत अजद्वय ठे. छिदल विनानी घेंस तथा चोखा जे ठाशमां रांग्या होय
ते आठ पद्दोर उपरांत अजद्वय ठे. वली वर्षाकालमां सारी रीतें जे मी-
गाइ वनाववामां आवी होय, ते पंदर दिवस उपरांत अजद्वय ठे, जो पं-
दर दिवस अगाउ वगडी जाय तो वगडतांज अजद्वय ठे; एवी रीतें सर्वत्र
जाणी खेवुं. उनालामां मीगाइनी स्थिति विश दिवसनी ठे. शियालामां
मीगाइनी स्थिति एक मासनी ठे. उपरांत अजद्वय ठे. वहाँ सोल पद्दोर
उपरांत अजद्वय ठे; ठाशनीपण तैटलीज स्थिति ठे. चखितरसमां वे इं-
द्रिय जीव उत्पन्न थाय ठे, ते कारणधी ते अजद्वय ठे.

१२ वत्रीश अनंतकाय सर्व अजद्वय ठे, कारण के सोइना अग्रजाग
उपर जेटलो अनंतकायनो कटको रहे, तैटला कटकामां अनंत जीव
ठे, ते कारणधी अजद्वय ठे. वत्रीश अनंतकायनां नाम. १ जूमिनी अं-
दर जेटला कंद उत्पन्न थाय ठे, ते सर्व अनंत काय ठे, २ सूरणकंद, ३
वज्रकंद, ४ लीली हलदर, ५ आडु, ६ लीलो कचुरो, ७ वरीआलीकंद, ८
शतावरी बेल औपधी ठे, ९ कुंआर, १० योहरकंद, ११ गलो, १२ लसण,
१३ वांसनां कारेलां, १४ गाजर, १५ सुणी, १६ लोढाकंद, १७ गरमर,
१८ कोमल पत्र अर्थात् नवा अंकुरा उगेठे ते, सर्व वनस्पति उगति व-
खतना अंकुर, सर्व प्रथम अनंतकाय होय ठे, पठी ज्यारे वधे ठे त्यारे,
प्रत्येक पण थइ जाय ठे, अने अनंतकाय पण रहेठे, १९ खरसुआकंद,
२० थेगकंद, तथा थेगनामनीजाजी, २१ लीली मोय, २२ लवण वृद्धनी
ठाल, २३ खिलोडी, २४ अमृतबेल, २५ मूली, २६ जूमिरुहा ते जूमि-
फोडा ठाकाकार थाय ठे, २७ बधुलानी उगती जाजी, २८ वरुहार, २९
सुअरवल्ली, मोटीबेल जंगलमां थाय ठे, ३० पलंकानी जाजी, ३१ कोमल
आंवली, ज्यां सुधी तेमां वी यतां नथी, त्यां सुधी अनंतकाय ठे, ३२
आलुख, रतालुं, पिंडालुं, आ वत्रीश अनंतकायनां नाम सामान्य प्र-
कारे कहां ठे, विशेष नाम तो अनेक ठे; कारण के कोइ वनस्पति तो
पंचांग अनंतकाय ठे, कोइतुं मूल अनंत काय ठे, कोइनां पान, कोइनां
फूल, कोइनी ठाल, कोइतुं काष्ठ, एम कोइतुं एक अंग, कोइनां वे अंग,

कोशनां त्रण श्रंग, कोशनां चार श्रंग, कोशनां पांच श्रंग, अनंतकाय ठे. इति वत्रीश अनंतकाय अज्जदय.

हवे अनंतकाय जाणवावास्ते तेनां लक्षणो लखीए ठीए. जेनां पांदडां, फूल, फल प्रमुखनी नसो गूढ होय, देखाती न होय, तथा जेनी संधि गुप्त होय, जे त्रोडवाथी वरावर झुटता होय तथा जेनुं मूल कापतां ठतां पण जे उगे, जेनां पांदडां मोटां, दलदार, चीकणां होय, जेनां पांदडां तेमज फल बहुज कोमल होय, ते सर्व अनंतकाय जाणवां.

अज्जदयोमां अफीण, जांग प्रमुख जेनुं वंधाण प्रथमथी अइ गयुं होय, ते राखवानी जयणा करे. रात्रिजोजनमां चोविहार, तिविहार, डुविहार, एक महिनामां आटला करुं एवो नियम करे; वली रोगादि प्रसंगें कोइ श्रौपधीमां कोइ अज्जदय खावुं पडे तो, तेनी जयणा राखे. वली वत्रीश अनंतकाय तो सर्वथा अज्जदय ठे, ठतांपि रोगादि कारणे श्रौपधीमां खावी पडे तो, तेनी जयणा राखे, तथा अजाणपणे कोइ वस्तुमां मेलवेली खावामां आवे तो, तेनी जयणा राखे, इति वावीश अज्जदय स्वरूपं.

हवे चौद नियमनुं विस्तारथी स्वरूप लखीए ठीए. ॥ गाथा ॥ सचित्तद्व विगइ, वाणेह तंघोल वरू कुसुमेसु ॥ वाहणसयण विलेवण, वंजदिसिन्हाणजत्तेसु ॥१॥ अर्थः—श्रावकें जावजीव पांच अणुव्रतमां इष्टा परिमाणमां, प्रथमनी अनेक तरेहनी कर्मपरिणतिना संजवथी, पोताना निवाह सामर्थ्यनो उदय अति दुस्तर विचारीने बहुज वस्तुं खुल्ली राखी ठे, तेमांथी फरी नित्यनो आश्रव निवारवावास्ते, संक्षेप करवावास्ते, चौद नियमनुं धारण निरंतर राखवुं जोइए, तेनुं स्वरूप लखीए ठीए.

१ प्रथम सचित्त परिमाण. मुख्यवृत्तिएतो श्रावके सचित्तनो त्याग करवो जोइए, कारण के अचित्त वस्तु खावामां चार गुण ठे. प्रथमतो अप्राशुक जलादिनुं पीवुं वर्जवाथी, सर्व सचित्त वस्तुंनो त्याग थायठे. ज्यांसुधी वस्तु अचित्त न थाय, त्यांसुधी मुखमां प्रक्षेप करे नहि, वीजुं रसनेंद्रिय पर जय मेलवाय ठे, कारण के केटलीएक वस्तुं रांध्या विनानी स्वादवाली होयठे, तेउंनो त्याग थाय ठे, प्रीजुं, अचित्त पीवाथी कामचेष्टा मंद अइ जाय ठे, वली चित्तमां निरंतर एवो खटको रद्देठे के रंगे माराथी सचित्त वस्तु खावामां थावी जाय १ चोयुं, जलादिद्रव्य अचेतन

करवामां जीव हिंसा थइ, ते तो कर्मबंधनुं कारण वनी चूकी, परंतु क्षणे क्षणे जे असंख्य जीवोनी उत्पत्ति थति ह्ती, ते मटी गइ, ते हिंसा बंध पडी; उतां कोइ मूढमति पोतानी मनःकल्पनाथी एवो विचार करे के वस्तु अचित्त करवामां पट्कायना जीवोनी हिंसा थाय ठे, अने सचित्त जलादि पीवामां तो एक जलादिनीज हिंसा थाय ठे, ते कारणथी सचित्त त्यागवानी जरूर.नथी. एवा विचार करनारा मूखोंए जिनमतनुं रहस्य जाणेलुंज नथी; कारण के सचित्तनो त्याग करवाथी, आत्मदमनता, औत्सुक्यनिवारणता, विषय, कपायनी मंदता थाय ठे. वली जेमां खदया गुण बहुज ठे, तेपण ते जाणता नथी. सचित्तनो त्याग करवामां अनेक लाज ठे ते अनुज्ञवसिद्ध ठे.

२ वीजुं ड्रव्यनियम. धातु, शिला, काष्ठ, माटीनुं पात्र प्रमुख तथा पोतानी आंगळी प्रमुख विना, जे मुखमां खावामां आवे ते ड्रव्य कहेवाय ठे. “ परिणामांतरापन्नं ड्रव्यमुच्यते ” तेमां खीचडी, मोदक, पापड, वडां प्रमुख बहु वस्तुर्तनां वने ठे, तो पण परिणामांतरथी एकज; ड्रव्य ठे; तथा एकज घडंनी वनेली रोटली, पोली, पुरी, घुघरी, वाटी प्रमुख ठे, तो पण दरेक जिन्न ड्रव्य ठे, कारण के नामांतर, खादांतर, रूपांतर, परिणामांतरथी ड्रव्यांतर थइ जाय ठे. वली कोइक आचार्य ड्रव्यनुं स्वरूप वीजी रीतथी कहे ठे. परंतु उपर वतावेनुं स्वरूप, बहु वृद्ध आचार्योंने संमत ठे. ड्रव्यनुं परिमाण ए प्रमाणे करे के आज्ञे हुं आटवां ड्रव्य खाइश.

३ त्रीजुं विगय नियम—विगय दस प्रकारना ठे. तेमां १ मध, २ माखण, ३ मांस, ४ मदिरा, आ चार तो महाविगय ठे. तेउंनो त्याग वावीश अज्ञदयना स्वरूपमां वतावी आव्या ठीए. वाकीनां ७ विगयनां नाम. १ दुध, २ दही, ३ घी, ४ तेल, ५ गोल, ६ सर्व जातनां पकान्न. आठ विगयमांथी नित्य एक, वे, त्रण आदि विगयोनी त्याग करे, तेमज एकेक विगयना पांच पांच निवियाता पण त्याग करवा जोइए, परंतु निवियाता त्याग करवानो विचार मनमां न होय तो, प्रत्याख्यान करवाने अवसरे मनमां धारे के मारे विगयनो त्याग ठे. परंतु निवियातानो त्याग नथी.

४ चोथुं उपानह. जोडा, पगरखा, खडावा, मोजां, बूट प्रमुख पहेरवानो नियम करे; कारण के आ सवें जीवहिंसानां अधिकरण ठे. तेमां आचकें जिनपूजादि कारणविना खडावा (पाटली) तो कदापि पेहेरवी नहि; कारण के तेनी नीचे जे जीव आवी जाय ठे, ते जीवता रहेता नथी. वली गृहस्थ लोकोने पगरखां विना चावलुं नथी, ते कारणथी पगरखांनी मर्यादा करे; पठी बीजाना पगरखामां पग न मुके. कदापि नूल चूक थई जायतो आगार.

५ पांचमुं तंबोल. तंबोल ते चोथो स्वादिम आहार ठे. तेनुं नियम करे. तेमां पान, सोपारी, लवींग, एलायची, तज, जावंत्री, पीपर प्रमुख करियाणानी चीजो जेथी मुखशुद्धि थाय ठे, परंतु उदर चरातुं नथी, तेनो समावेश थाय ठे. तेनुं परिमाण वजनथी करे.

६ ठतुं वस्त्र नियम ठे. मनुष्यें पोताना पांचे अंगोपर पहेरवानां वस्त्रोनी संख्यानुं नियम करवुं के, आजना दिवसमां मारे आटलां वस्त्र पहेरवानां, तथा आटलां उढवानां राखवां. रात्रिए पहेरवानां वस्त्र, तथा स्नान समयनां वस्त्र, तेमज समुच्चय वस्त्रनी संख्या करी ले. अजाणतां जेल, संजेल थाय तो आगार.

७ सातमुं फूलना जोगनुं नियम. मस्तकमां राखवानां, गलामां पहेरवानां, शय्यापर विठाववानां, फूलनो तोल, तथा फूलोना तकीआ, फूलोना पंखा, फूलोना चंद्रवा, फूलोनी जाली प्रमुख जे जे वस्तुउ जोगववामां आवे तेनी, तथा फूलनी ठडी, शहरा, कलगी, हार, गोटा तेमज जे फूल सुंघवामां आवे, तेना तोलनुं परिमाण करे.

८ आठमुं वाहननियम. रथ, गाडी, घोडा, पालखी, उंट, वखद, नाव, प्रमुख जेनी उपर वेसी ज्यां जवुं होय त्यां जइ शकाय, ते वाहन, सर्वना त्रण प्रकार ठे. १ तरतुं, २ फरतुं, ३ उडतुं. तेउनी संख्यानुं नियम कठे.

९ नवमुं शयन नियम. शय्यानुं नियम करे, तेमां खाट, पाट, वीजुं खुरशी, पालखी, सुखासन प्रमुख जेटलां राखवां होय. ते सर्व मनमयां विना-

१० दशमुं विलेपननियम. जोगने अर्थे केशर, चंदन, त्राथी कामतेलादि जे पदार्थो अंगमर्दनादिकारणे उपयोगमां लेवा होय, ते के रखे म. तथा तोल सहित मनमां धारी ले; अंगलूहणां पण एर्वय अचेतन

खी ले; परंतु एटलो अपवाद के, देवपूजा, देवदर्शनादि प्रसंगों, तेमज धर्म करणी करतां हस्तमां धूपादि लेवां पड़े, तथा मस्तके तिलक करवुं पड़े, तथा जगवानने अर्चन करवा वखते चंदनादि विलेपन करवुं पड़े, तेनुं श्रावकने नियम नथी.

११ अग्नीश्वारमुं ब्रह्मचर्यनियम. दिवसे तेमज रात्रिए आटली वखत खस्त्री साथे मैथुनसेवन करुं ते उपरांत मैथुनसेवननो त्याग ठे. वली हास्य, विनोद, आलिंगन, चुंवनादि करवाना जांगा राखे.

१२ वारमुं दिशिनुं नियम. अमुक दिशिमां आज मारे अमुक कोस उपरांत जवुं नहि; तेमां आदेश, उपदेश, माणस मोकलवुं तथा पत्र व्यवहार, विगेरे सर्वनो समावेश थाय ठे; जेवी रीतें पाट्टी शके तेवुं नियम करे.

१३ तेरमुं स्नाननियम. आजे तेलादिमर्दनपूर्वक अथवा मर्दन विना आटली वखत स्नान करुं, तेनुं प्रमाण करे, तेमां देवपूजा वास्ते नियमथी अधिक स्नान करवुं पड़े तो, व्रतजंग नहि.

१४ चौदमुं जात पाणीनुं नियम. चार आहारमांथी स्वादिमनुं नियम तो श्रावकें तंबोल नियममां करी लीधुं ठे, तेथी वाकीना त्रण आहारुं नियम करवानुं ठे; तेमां प्रथम अशन, ते रोटली, जात, कचोरी, शीरा प्रमुखना वजननुं परिमाण करे, ते उपरांत त्यागे. पोताना घरमां बहु परिवार होय, तेउने वास्ते अशनादि कराववां पड़े तेनी जयणा राखे. वली बीजाने घेर न्याति आदि जमतां होय तेवे प्रसंगे जमवा जवुं पड़े, त्यां अधिक रसोइ वनावेली होय, तेनुं दूषण नियमधारीने नथी; कारण के नियमधारियें तो पोताना जोजनाथें वापरवानुं परिमाण करेवुं ठे, परंतु ज्ञाति वास्ते मर्यादा करेली नथी. नियममां अशनना तोलनुं परिमाण करे बीजुं पाणी पीवाना तोलनुं परिमाण करे. त्रीजुं स्वादिम, जे मिष्टान्न पदार्थ खावाना तोलनुं परिमाण करे. आ चौद नियम ठे.

नाम. क जाववाला श्रावक सचित्तादि परिमाणमां अव्यनुं परिमाण जु-
आठ विप नामथी राखे, तो बहुज निर्जरा थाय. इति चौदनियमस्वरूप.
मज एकेकंदर कर्मादाननुं स्वरूप देखीए ठीये. नीचेना पंदर व्यापार श्रावकें
रंतु निवियानरण के ते करवामां बहुज पापठे, कदापि पोतानी आजीविका न
करवाने अव्यूय तो करवाना व्यापारनुं परिमाणकरें. ते पंदर कर्मादाननां नाम.
यातानो त्या

१ प्रथम इंगालकर्म. कोयला बनाववा, इंट बनाववी, जठ्ठीमां अनेक प्रकारनां ठाम बनाववां, ते सर्वे वेचवां; बुहारनां काम, सोनारनां काम, पंगडीकारनां काम, कलालनां काम, जठ्ठीआरानां काम, हलवाइनां काम, धातुगालक प्रमुख जे जे कामो अग्निथी थाय, तेसर्वे इंगाल कर्म ठे; आ कामोमां पाप बहुज लागे ठे, अने लाज बहु मलतो नथी; तेथी आवक आवां काम करे नहि.

२ वीजुं वनकर्म. ठेद्यां, अण्ठेद्यां वन वेचवां; वाडी, वंगीचानां फूल, फल, कंदमूल, घास, काष्ठ, वांसादि, तेमज तमाम लीढी वनस्पति करवी, तथा वेचवी, आ सर्व वनकर्म ठे.

३ त्रीजुं साडी कर्म. गाडी, रथ, दमणीआं, शीगराम, वहाण, आग वोट, हल, वंताल, चरखा, घाणी, चक्की, धुंसरा प्रमुख बनाववां तथा वेचवां आ सर्व शकटकर्म ठे.

४ चोथुं जाडी कर्म. गाडां प्रमुख वलद उंट खच्चर गधेडा घोडा पाडा जेंस प्रमुखथी वहेवरावी, वीजानां जाडां करी, आजीविका चलाववी ते जाडी कर्म.

५ पांचमुं फोडी कर्म. आजीविकावास्ते, कुवा, वाव, तलाव प्रमुख खोदवा, खोदाववां, हल चलाववां, पठर फोडवा, खाण खोदाववी इत्यादि स्फोटिक कर्म ठे. आ पांचे कर्ममां बहुज जीवोनी हिंसां थायठे, तेथी पांचे कुकर्म कहेवाय ठे. हवे पांच कुवाणिज्यनुं स्वरूप लखीये ठीये.

१ प्रथम दंतकुवाणिज्य. हाथीना दांत, घुवडना नख, जीज, कलेजां, पक्षीउनां रोम, गायनां चमर, हरणनां सींग, गेंडांना सींग, रेशमना कृमि इत्यादि जे त्रस जीवोनां अंगोपांग वेचवां, ते सर्वे दंतकुवाणिज्य ठे. ज्यारे ते वस्तु उ लेवा वास्ते आगरमां जवुं पडे, त्यारे जिह्वादि लोक तत्काल हाथी गेंडा प्रमुख जीवोनी हिंसांमां प्रवृत्त थाय ठे. महाअनर्थरूप पापनां काम आचरे ठे. त्यां जवाथी आपणा परिणाम पण मलिन थइ जायठे. कदाचित् तीव्रलोचप्रस्त थवाथी, जिह्वादि व्याधोने कहेवुं पडे के, अ-सारे मोटा नारे दांत प्रमुख जोश्ये ठीये, त्यारे ते लोको तत्काल हाथी प्रमुखने मारी आपणने जोश्टी वस्तु लावी आपणे. तेथी आवकने वस्तु-नी जरूर होय तेवे प्रसंगे आगरमां नहि जतां, ते वाचतना व्यापारी पा-

सेयी ते वस्तु ले. एक चमर लेवा जतां एक गाय मरे: ते कारणयी वि-
चारीने व्यापार करे.

१ बीजुं लाख कुवाणिज्य. लाख, धावडी, गली, साजीखार, मणसील,
हरताल प्रमुख सर्वे लाख कुवाणिज्य ठे. लाख, त्रस जीवोना समूहशीज
वने ठे, पठी ज्यारे रंग काढे ठे, अने तेने अन्नयी सडावे ठे, त्यारे तेमां
त्रसजीवनी उत्पत्ति थाय ठे. महाद्रुर्गधि रुधिर सरखो वर्ण देखाय ठे.
धावडीमां त्रसजीव उपजें ठे, कुंथवा पण बहुज थायठे, मदिरानुं थंगठे.
वली गली ज्यारे सडावे ठे, त्यारे तेमां त्रसजीवनी उत्पत्ति थाय ठे. ग-
लीना कुंमपांण त्रसजीव बहुज उत्पन्न थाय ठे; गलीवालां वखो पहेरवा-
मां जू लीखादि त्रसजीव उत्पन्न थाय ठे. हरताल, मणसीलने पीसती व-
खत यत्न न रखायतो मांखी प्रमुख अनेक जीव मरी जाय ठे.

३ त्रीजुं रसकुवाणिज्य. मदिरा, मांस इत्यादि वस्तुजना व्यापार महापा-
परूप ठे. वली दुध, दहीं, घी, तेल, गोल, खांड प्रमुख जे नरम वस्तुजठे,
तेजुंनो जे व्यापार ते रसकुवाणिज्य ठे. आ व्यापारमां अनेक जीवो-
नो घात थाय ठे.

४ चोथुं केशवाणिज्य. द्विपद जे मनुष्य दास, दासी प्रमुख, खरीद करी
वेचवां, तथा चौपद ते गाय, घोडा, बलद जेंस प्रमुख खरीद करी वेच-
वां; तथा पक्षीजमां तित्तर, मोर, पोपट, मेंना, प्रमुख, वेचवां. आ वाणि-
ज्यमां बहुज पाप ठे.

५ पांचमुं विषवाणिज्य. सोमल, वठनांग, अफीण, मणसील, हरताल,
चरस, गांजो प्रमुख; तथा शस्त्र, ते धनुष्, तलवार, कटारी, ठरी, वरठी,
फरसी, कुहाडी, कोदाली, बंडुक, वखतर, ढाल, गोली, तोप प्रमुख जे सं-
ग्राममां उपयोगमां आवेठे, तथा हल, मुशल, उखल, दंताली, कर्वत, दं-
तरडी, हवाइ पटाका, शतघ्नी प्रमुख, आ सर्वे हिंसानां अधिकरण ठे; तेजुंनो
जे व्यापार ते विषवाणिज्य ठे. हवे पांच सामान्य कर्म वतावीये ठिये.

१ प्रथम यंत्रपीलन कर्म. तल, एरंडी, इत्तु आदि पीली, पीलाबी, वे-
चवां, आ सर्वे जीवहिंसाना निमित्तरूप कर्म ठे.

२ बीजुं निर्वातन कर्म. बलद, घोडानी खांसी करवी; घोडा, बलद, उं-
द प्रमुखने दाग देवां; कोटवालपणुं, जेलखानाना जेलरनुं काम, मेहेसु-

ल इजाराणां काम, चोरीना भाल खेवानां काम, इत्यादि निर्दयपणानां सर्वकाम निर्लाभन कर्ममां समाय ठे.

३ त्रीजुं दावाग्निदान कर्म. केटलाएक मिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीव धर्म मानीने वनमां आग लगावी देठे; तेज मनमां एम धारे ठे के, नवुं घास उत्पन्न थशे, त्यारे गाय प्रमुख चरशे, जिह्वादि लोक सुखेथी र-हेशे, अन्न निपजशे, इत्यादि विचार लावी वनदवतुं काम करे, परंतु आग लगाडवाथी लाखो जीवोनो नाश थइ जायठे, तेनो विचार तेजने आवे नहि. ते कारणथी आग न लगाववी. जोइए.

४ चोथुं शोषणकर्म. वाव, तलाव, सरोवर, कुवा प्रमुखतुं पाणी पोताना खेतरादिमां एवी रीतें लावतुं के, तमाम पाणी वहार निकलतां लाखो जीव पाठल, जलरहित थइ तरफडी मरी जाय, आ शोषण कर्म ठे. ते कारणथी सर्व पाणीशोषण न करवुं.

५ पांचमुं असतीपोषण. कर्म कुतूहलने वास्ते कुतरा, विलाडा प्रमुख हिंसक जीवोतुं पोषण करवुं. वली दुष्ट जार्या तथा दुराचारी पुत्रादिनुं मोहथी पोषण करवुं, तेजने सारां, नरसां नहि जाणतां, मनमां आवे तेवी रीतें, तेजने राजी राखवानो यल करवो, तथा बेचवावास्ते दुराचारी दास, दासीतुं पोषण करवुं, इत्यादि असतीपोषणकर्म कहेवाय ठे. वली माठी, कसाइ, वाघरी, चमार, प्रमुख बहु हिंसक जीवोनी साथे व्यापार करवो, तेजने अव्यादिनी मदद आंपवी, आ पण दुष्टजीवोतुं पोषण ठे. कदापि अनुकंपायुक्त बुद्धिथी श्रानादि पशुज पोषण करवामां आवे तो ते वाचतमां निपेध नथी. वली पोताना मोहोहामां कदाचित् तेवा जीवोनी खवर खेवी पडे, तेमज पोताना कुटुंबीजतुं पोषण करवुं पडे तेमां पूर्वोक्त दोष नथी; कारण के ते लोकनीति, राज्यनीतिनुं फरमान ठे. आ पांच सामान्य कर्म. इति पंदर कर्मादान स्वरूप.

हवे आ जोगोपजोग व्रतना पांच अतिचारनुं स्वरूप लखीए ठीए.

१ प्रथम सचित्त आहार अतिचार. मूल चांगे तो थावक सयं सचित्तनो त्याग करे, जो तेम न थइ शके तो, तेनुं परिमाण करे. तेमां सयं सचित्तना त्यागी, तथा सचित्तना परिमाणवाला, जो अनाजोगादिकथी सचित्त आहार करे, जेम के जल, उष्ण करतां घण उकाळा (उजरा)

आवी जाय त्यारे शुक्र प्राशुक थायठे, परंतु एक उकाला अथवा वे उकालानुं पाणी तो मिश्र उदक कहेवाय ठे, ते पाणीने अचित्त जाणी पीये, तथा सचित्त वस्तुने अचित्त थवामां विलंब होय; वतांपि तेने अचित्त जाणी खाय तो प्रथम अतिचार लागे.

२ वीजुं सचित्त प्रतिवद्धाहार अतिचार. जेने सचित्त वस्तुनो नियम ठे, ते तत्काल खेरनी गांठशी गुंदर उखेडीने खाय, तेमां गुंदर तो अचित्त ठे, परंतु सचित्तनी साथे मलेलो हतो, तेथी दोष लागे ठे. वली पाकी केरी चूसे, तथा वोर, रायणना समूहने खाय, अने मनमां एम जाणे के हुं तो अचित्त खावतुं, सचित्त गोठली, ठलीआने फेंकी दश, तेमां शुं दोष ठे? एवा विचारथी खाय तो, वीजो अतिचार लागे.

३ त्रीजो अपक्वाहार अतिचार. चाढ्या वगरनो लोट, तथा जेने अग्नि संस्कार न करवामां आव्यो होय, एवो काचो लोट फाके; कारण के श्री सिद्धांतमां कहुं ठे के, आटो दढ्या पठी, चाढ्या विना केटलाएक दिवस मिश्र रहेठे. श्रावण, जादरवा मासमां अणचाढ्यो आटो पीस्यापठी, पांच दिवस मिश्र रहेठे, आसो, कारतक मासमां चार दिवस मिश्र रहे ठे, मागशर, पोप मासमां त्रण दिवस मिश्र रहे ठे, माघ, फागण मासमां पांच पहोर मिश्र रहेठे, चैत्र, वैशाख मासमां चार पहोर मिश्र रहेठे, अने जेठ असाढ मासमां त्रण पहोर मिश्र रहेठे, पठी अचित्त थइ जायठे, तेथी मिश्र खायतो, त्रीजो अतिचार लागे.

४ चोथा डुपक्वाहार अतिचार, कांश्क काचा तथा कांश्क पाका, एवा सर्व जातिना उंला, उंवी, पोंक, जुवार, वाजरा, घळं प्रमुखना लीला पोंक वीजथी जरेला, ते अग्निसंस्कार करतां जेना केटलाएक दाणा अचित्त थाय, तथा केटलाएक दाणा सचित्त रहे, तेने अचित्त जाणी खाय तो, चोथो अतिचार लागे.

५ पांचमो तुठौपधि ऋण अतिचार. तुठ अर्थात् असार जे खावाथी तृप्ति न थाय, परंतु खावामां पाप बहुज लागतुं होय, जेमके चणानां फूलखाय, वोरना ठलियामांथी गरज काढी खाय, वाल, चणा, मग, चोलानी फली खाय, आ वस्तुं खावामां प्रसंगदूपणो बहुज लागेठे; कारण

के केटलीएक वनस्पति अति कोमल अवस्थामां अनंतकायपण होयते, ते खावाची अनंतकायनो व्रतजंग थायते. आ पांचमो अतिचार,

हवे आठमा अनर्थदंड विरमणव्रततुं स्वरूप कहियें ठियें. पोताना प्रयोजनवास्ते करवुं ते अर्थदंड कहेवाय ठे. धन, धान्य क्षेत्रादि नवविध परिग्रहमां हानि वृद्धि थाय, त्यारे करे, कारण के धनवृद्धिने निमित्ते संसारी जीवने बहुपापनां कारणो सेववां पडेठे, तेवे प्रसंगे साचुं, जुवुं बोल्याविना रहीं शकालुं नथी. पापनां उपकरणां पण मेलववां पडेठे, ज्यारे कांइ मनसुवो करवो पडे, त्यारे विकल्परूप आर्त्तध्यान करवुं पडेठे, कारण के धनादि परिग्रह अजीविका अर्थे जरूरना ठे, तेवास्ते धननी वृद्धि निमित्ते जे जे पाप करवामां आवेठे ते ते सर्व अर्थदंठे, वली ज्यारे धननी हानि थायते, त्यारे धननी हानि दूर करवा वास्ते अनेक विकल्प रूप पाप करवां पडेठे, तेपण अर्थदंडठे; कारण के धन, व्यवहार संसार सुखतुं मुख्य कारण ठे, ते व्यवहार वास्ते जे जे पाप करवां पडे ते सर्व अर्थदंड ठे. वली पोताना खजन कुटुंब परिवारादि वास्ते अवश्य जे जे पाप सेववां पडे, ते ते सर्व अर्थदंड ठे; अने चोथुं, पांच प्रकारनी इंद्रियोना जोगवास्ते जे पाप करवां पडे ते पण अर्थदंड ठे. पूर्वोक्त चार प्रयोजनविना जे पाप करवामां आवे ते अनर्थदंड जाणवां. तेना चार जेद ठे. १ अपध्यान अनर्थदंड, २ पापोपदेश अनर्थदंड, ३ हिंसाप्रदान अनर्थदंड, ४ प्रमादाचरित अनर्थदंड. तेमां प्रथम जे अपध्यान अनर्थदंड ठे, तेना वली वे जेदठे. १ आर्त्तध्यान; २ रौद्रध्यान; तेमां आर्त्तध्यानना चार जेद ठे, ते पृथक् पृथक् कहियें ठियें.

१ प्रथम इष्टवियोग आर्त्तध्यान. पोताने प्राप्त थयेला नवविध परिग्रहनो रखे वियोग थाय, एतुं चिंतवन निरंतर मनमां लाव्या करे, अने कदाचित् तेनो वियोग थाय तो मनमां घणोज खेद धारण निरंतर तेने वास्ते विक्षोपात कर्या करे, तेमज पोताना खलीए ठीए. पिता, पुत्र, पुत्री, जायां जाइ, वेहेन, मित्रादि परदेश गावक सय सचि-तो मृत्यु पाम्यां होय ते प्रसंगे अत्यंत चिंता करे, खाण करे. तेमां सय योगना दुःखची आत्मघात करवानो विचार करे, निं अनाजोगादिकची इत्यादि प्रसंगे, जे चिंतवन थाय ते आर्त्तध्यान श्रेण उकाला (उजरा)

वीजुं अनिष्ट संयोगार्त्तध्यान, इंद्रियसुखने विघ्नकारक अनिष्ट शब्दादिनो संयोग रखे मने थाय एवी मनमां चिंता करे, बली घरमां स्त्री खराव मली होय, पुत्र कपूत थयो होय, जाइ विश्वासघाती, वे दील-वालो होय, पिता क्रोधी होय, माता डुराचरणी होय, मित्र कृतघ्न मद्यो होय, एवा प्रसंगोमां निरंतर तेउनो उपाय करवानी चिंता थाय. बली स्त्री मनमां एवो विचार करे के, मारी शोक्य बहुज खराव ठे, मारा पतिने रोज जुलावो खवरावे ठे, रखे मने कोइ दिन पतिवियोग करावे ? तेथी ते रांडनो कांइ उपाय करवो जोइए. बली सेवक मनमां एवो विचार करे के, मारा शेठनी पासे मारो अमुक डुश्मन थवश्य चाडीखाशे, अने मारादरज्जाने नरम करी नाखशे, अथवा तो शेठने जूतुं, साचुं कही मने नोकरीथी रद वातल करावशे, तो पठी हुं शुं करीश, तेथी ते डुश्मननो कांइक उपाय करवो जोइए. तेवे प्रसंगं, तेउना निग्रह वास्ते, यंत्र, मंत्र, कारण, वशीकरण प्रमुख करे. तेउं उपर जूवां कलंक मूके, बखिदान देवावास्ते त्रसजीवने मारे. आ सर्व पोताना शत्रुना निग्रह वास्ते करे. बली मूठ मारी तथा वीर नाखी मारवा चाहे, परंतु मूर्ख मनमां विचारे नहि, के जो तुं दीलमां साचो ठे, तो तने शुं फिकर ठे ? बली ज्यां सुधी सामानुं पुण्य बलवान् ठे, त्यांसुधी तुं मंत्र, यंत्रथी तेनुं कांइ पण बुरुं करवाने शक्तिमान् नथी. बली पोताना मनमां एवो कुविकल्प करे के मारा डुश्मनना कुलमां अमुक सख्त जवरदस्त उत्पन्न थयेल. ठे, रखे मने त्रविष्यमां हेरान करे ? कोइ रीतें तेनी राज्य दरवारमां आवरु जाय, अथवा दंड थाय तो ठीक ठे. बली जो तेनुं ठिड् मली जाय तो सरकारने अरज करी तेने देश निकाल करावुं. आ प्रमाणे मूर्ख, मूढ जीव संकल्प कर्या करे ठे. बली गाममां चोरनो उपडव थयाय, त्थे ठे, तेथी ते डुष्टोने पकडी सख्तशिद्दा थाय, अथवा तो फां-चोथो अतिचारो सारुं. बली अमुक सख्त बहुज फाटी गयो ठे, मारी ठे, तेथी ते हरामजादानो कांइक बंदोवस्त करवो जो-तृप्ति न थाय, परंतु ईर्ष्या निंदा न करे. आ प्रमाणे निरंतर असत्य विलखाय, बोरना बलि नथी. जे कांइ सारुं नरखुं थाय ठे, ते पुण्य, पापने लानी फली खाय, आ व.

आधीन ठे; तेम उतां मूढात्मा विह्वी जेम फोकट मनोरथ करे ठे. आ सर्व विना प्रयोजननां पाप ठे, तेथी अनर्थदंन लागे ठे.

३ त्रीजुं रोगनिदानार्त्तध्यान. मारा शरीरमां कोइ कोइ वखत रोग थाय ठे, ते न थाय तो सारुं. एवो विचार लावी, लोकोने पुठे के अमुक रोगनो शुं उपाय हशे ? कोइ कहे के अमुक अमुक जो खावामां थावे तो रोग थतो नथी. ते सांजली ते वस्तुज अजदय होय तो पण खाइ जाय. वली ज्यारे शरीरमां रोग होय, त्यारे बहुज हाय हाय करे, आरंज करे, जोशीने पूठे के मारो आ रोग क्यारे जशे ? वैद्यने वारंवार पूठे के गमे तेवी दवानो उपयोग करो, अने मारो रोग टालो. वली मनमां विचारे के रखे मारा उपर कोइए जाडु कथुं होय ! ठेवटे रोग दूर करवा वास्ते, कुलविरुद्ध, धर्मविरुद्ध आचरण करे. रोग दूर करवा वास्ते औपध, जडी, बूटी, मंत्र, तंत्र शीखे; मनमां विचारे के कोइ वखत काम आवशे. आ त्रीजो जेद ठे.

४ चोथुं अग्रशौच आर्त्तध्यान. जविष्य कालनी चिंता करे. जेम के आवता वर्षमां मोटां लग्न करीश, डुकान मांडीश, घर बंधावीश, जे देखी बीजाजं बहुज आश्चर्य पामशे. वली फलाणा खेतरनो, वाडी अथवा वगीचो करवो ठे, जेथी बीजाजना वाग नकामा थई जशे, डुश्मनोनी गति ते देखीने वलशे; वली अमुक वस्तुजनों में बेपार कथीं ठे; ते वस्तुजनों जाव चडी जाय तो मने बहुज सारो लाज मले, इत्यादि अनेक तरेहनी जविष्य कालनी चिंता करे. आ कुविकल्पो शेखचह्वी सरखा ठे. इति आर्त्तध्यान स्वरूपसंक्षेप.

हवे रौद्रध्याननुं स्वरूप कहियें त्रियें. प्रथम हिंसा नंद रौद्रध्यान. त्रस, स्थावर जीवोनी हिंसा करीने मनमां बहुज आनंद माने. बहु पाप युक्त कामो करी घर, डुकान, वाग, वाडी प्रमुख वनावे. जे देखी छेने प्रशंसा करे त्यारे मनमां बहुज हर्ष पामे. वली मनमां विचारे माता, जेवो अकलवाज कोण ठे ? आवी हिकमत कोण लडावि ज्ञय, अथवा वनाववा प्रसंगे नदयानदयनो लेश मात्र विचार नहिं काये नहि, विरसएखि वास्ते, माल मसाला बहुज नाखी बहुज स्त्र क्रोधानुर रहे, वली जमणवार प्रसंगे तीव्र मानना उदयथी पोत

राववा वास्ते अनेक आरंजनां काम करे जेथी असंख्य जीवोनी हिंसा थइ जाय, ठतांपि मनमां आनंद माने. पोताना, सगाना, मित्रना के कुटुंबीजना दुश्मनोतुं जुंहुं करवा, तेउने नुकशान करवा मनमां संकल्प कर्या करे. वली मनमां विचार करे के अमुक रीतें दुश्मनो पायमाल थाय तेउनुं सत्यानाश जाय, तेउनां घर वार नाश पामे तो सारुं, जेथी मारा अंतःकरणमां शांति थाय. वली राजाउनी लडाइनी वातो सांजली तथा दुश्मन राजाउना योद्धाउ नाश पामता जाणी मनमां बहुज प्रमोद माने. वली कोइ शिकारीए व्याघ्रादि पशुउनो शिकार कर्या होय ते सांजली मनमां खुशी थाय. वली एवा शिकारी तथा योद्धाउनी बहुज प्रशंसा करे, जेथी तेउ विशेष हिंसानां काम करवा सारुं उदके-राय. पोते दुश्मनने मारी अत्यंत राजी थाय, मूठ मरडे, अनेक तरेहथी पोतानी जयपताका फरके एवां हिंसानां काम करी आनंद माने. सारांश के बीजा जीवोनुं जेमां मातुं थाय तेवां तमाम कामोमां पोते आनंद माने, आरौद्रध्याननो प्रथम पायो नरकगतिनो हेतु ठे. प्राणीमात्रनुं सारुं नरसुं थवुं ते दरेकना कर्माधीन ठे, ठतांपि मूढ आत्मा अनंताकाल सुधी संसारमां परित्रमण करवासारु महाअनर्थकारक दुध्यान ध्यातां लेशमात्र विचार करतो नथी.

१ बीजुं मृपानंद रौद्रध्यान. जुतुं बोली, ठल कपट करी, मनमां बहुज खुशी थाय; वली मनमां विचारे के में एवी युक्तिसर वात बनावीने करी ठे के कोइनी ताकात नथी के मारा प्रपंचने समजी शके. मतकवाजीपणुं एक जुदी शक्ति ठे; आज काल मारी साथे प्रपंच वाजीमां कोइ फावी शके एम समजनुं नहि. वली बोलवुं, ते पण करामात ठे. एवा शुंचना प्रसंगें, जो हुं न होत तो, शुं परिणाम आवत, तेनी अत्यारे शी वात ? वली अनेक तरेहनां दगावाजी, विश्वासघातनां कामो करी मनमां पोतानी चतु-सीए देवा. माटे बहुज खुशी थाय; वली बीजाउं पोताने बहुज युक्तिसर बोल-उपर ईर्ष्या तथा पोते नहि फसतां, बीजाउंने जालमां नाखवाने शक्तिमान् ठे इए; जेथी फेने ठे, तथा एवां कामो करतां मारी वाहवाह बोलाय ठे एम-मा-कल्पो करे तो आनंद पामे. वली राज्यदरवारमां तथा बीजाउं पासे दुश्मनो-बीजाउं कांइ बगडतुं न.

३ त्रीजुं चौर्यानिंद रौद्रध्यान. अनेक तरेहनां ठल कपट, दगावाजी, विश्वास घात करी, ञ्जक जीवोनी बहु मूखवाली वस्तु थोडीकिंमत आपी लइखे अने मनमां खुशी थाय. वली चोरी, धाडचोरी, रस्तानी लुट, जव-राश्टी कढावतुं इत्यादि कामो करी परधन मेलवी बहुज खुशी थाय; ते-वा चोर लूटाराउनी पासेथी मिलकत लेवामां, तेउने मदद करवामां बहुज हिंसतथी प्रवत्ते अने लाज मेलवी. आनंद माने पोते वेपारी होय अने माल खरीद करवा घराक आव्यो होय, तेवे प्रसंगे विश्वास बेसाडी, नमुनो कांश्क वतावी, माल कांश्क तरेहनो आपे, अने पोते सोदो करे-वामां करामातवालो पोताने माने. जरवामां, तोलवामां उतुं आपवानी बा-नत राखे. चोपडामां, उरावती वखते जाव जे बोड्या होय तेनाथी जा-स्ति लखे. रू प्रमुख माल वेचवामां मालमां जेल संजेल करी लेनारने ठे-तरी, मनमां खुशी थाय. नोकरीनो धंधो करतो उघराणीलावी खाइ जाय, अने खुशी थाय; वली शेठने ठल कपट करी ठेतरे, अने राजी करे, पठी मनमां विचारे के में केवी युक्ति लडावी, पैसा खाइ गयो, अने शेठने खुशी कर्या वली दगावाजीथी पैसा मेलवी मनमां एतुं अजिमान लावे के, मारा जेवी कमावानी शक्ति कोनामां ठे ? चोरी करी मनमां एवो खुशी थाय के, मारी चतुराइ तथा शक्तिने कोण समजी शके तेतुं ठे. जूछा दस्तावेज व-नावी, लोको उपर न्यायनी अदालतोमां खोटा दावा करी, फतेह मेलवी, धन अन्यायथी उपार्जन करी, पोताने रुझि, सिझि वालो देखी मनमां बहुज आनंद पामे. न्यायना अधिकारीउने में ठेतया, तेथी मारा जेवो कोण चालाक ठे, इत्यादि चौर्यानिंद रौद्रध्यान अनेक तरेहथी मूढात्मा ध्यावे:

४ चोथुं संरक्षणानंद रौद्रध्यान. नवविध परिग्रह, धन, धान्यादि बहु-ज वंधारी मनमां खुशी थाय, लोजनो थोज नथी एवो विचार निरंतर आलसुठ करे ठे, शक्तिहीन करे ठे, परंतु पोते मनमां विचारे के, परि-ग्रह एज जगत्मां सार ठे, पैसा विनाना मनुष्य पशु समान ठे, तेथी प-राख्या करे. वली मनमां विचारे के इव्य मेलवतुं तेमां तो ताकात ठे, प-रंतु मेलवेलुं साचवी राखतुं, तेमां तो बहुज ताकात जोइए ठीये. में क-रामात थजमावी न होत तो था पैसा जलवावा मुश्कल हता. वली म-

नमां विचारे के धर्म, दान, पुण्य इत्यादिकामोमां पैसा खरचवा तेनुं फल मलेखुं कोणें प्रत्यक्ष दीतुं ठे. धर्मधुतारारुंये अखाडा मांकी लोकोने लुट-वाना रस्ता बांध्या ठे जेउं तेउंनी जालमां फसाइ जाय, तेउं अकलहीन, पैसा केम पेदा थाय ठे, तेनी जेउंने लेशमात्र खबर नथी, एवा लोकोज होय ठे. पोते "चमडी नुटे पण दमडी न तुटे" एवीज मनोवृत्ति निरंतर राखी खुशी माने ठे. लोकविरुद्ध, राज्यविरुद्ध, कुल तथा धर्मविरुद्ध कामो करी पैसा मेलवी, अने जालवी राखी, मनमां पोतानी बडाइ माने. वली मनमां विचारे के में एकलायेंज आ धन मेलवुं ठे, अने वीजाउंतो मात्र खानारा ठे, बोजारूप ठे, हुं पैसा नहि साचवीश तो, आ सर्वेना चूडा हाल थशे, वली पोताना नशीवनेज सारुं मानी अजिमान कर्या करे, कदाच कर्मना उदयें कोइ रकम बलाइ जाय तो मनमां बहुज पश्चात्ताप करे, तमाम लोकोना नलीआं गणे, रात दिवस धन नष्ट थवाथी धास्ती राखी सुखे सुवे नहि. घर, डुकान, पेटी, तेजुरीनां तालां, वारंवार टंटोव्या करे, सगा पुत्रनो पण लेशमात्र विश्वास करे नहि. वीजाउंनेपण एवीज कुबुद्धि आपे. इत्यादि अनेक तरेहथी संरक्षणानुबंधी रौद्रध्यान ध्यावे. आर्त्त अने रौद्र वंने अर्पध्यान दुर्गतिनां हेतु ठे, तेथी ते तजवा योग्यठे.

२ वीजुं पापकर्मोपदेश अनर्थदंड. वीजाउंने कहे के तमारा पैसा शुं कामना ठे, सारां घर वार वंधावो, गाडी करो, घोडा फेरवो, अनेक तरेहनां कारखानां करो, पैसा साथे आववाना नथी माटे वाडी, बगीचा करी मोज शोख माणो. वली तमारा घोडानी खांसी करावो, बलदने नाथ बलावो, घोडो अनाडी थइ गयो ठे तेथी चाबक खारने सोंपो; वली तमारा खेतरमां सूड थइ गयेल ठे, घांस पण उगतुं नथी, तेथी सूड कापी नखावो, एक बखत दब आपो. वली तमे गंदा ठो माटे न्हावो, धुवो; तमारा घर सगबड बगरनां ठे, माटे खाल कुवा, पायखानां करावो, इत्यादि अनेक तरेहना उपदेश जेथी पापस्थानको सेववां पढे तेवा करे.

३ वीजुं हिंस्रप्रदान अनर्थदंड. हिंसाकारी वस्तुउं जेम के गाडी, हल, मुशल, घंटी, अग्नि, तलवार, वंधुक, जालां, ठरी, दातरडां, अफीण, बघनाग प्रमुख वीजाउंने दाक्षिणता विना, माग्या विना आपवां ते हिंस्रप्रदान अनर्थदंड ठे.

४ चोथुं प्रमादाचरण अनर्थदंड. कुतूहलथी गीत, नाटक तमासां, मेला प्रमुख जोवा, सांजलवा जाय. अहिंआं कुतूहलथी एम. लखवानो हेतु ए ठे के, इंडियोना विषयो अतिशयपणे सेववानी इत्थामां प्रमाद आचरण ठे, परंतु जिनेयात्रा, स्वामिजक्ति, अष्टाश्महोत्सव, रथयात्रा, तीर्थयात्रा प्रमुख जोवामां प्रमाद आचरण नथी; कारण के ते तो सम्यक्त्वनी पुष्टिनां साधनो ठे. वली कामशास्त्र तथा चोराशी आसनथी कामवृद्धि करवामां वारंवार मध्या रहेवुं, जूगार खेलवा, मदिरापान करवां, शिकार करवा, जलक्रीडा, स्नानादि करवां, जल उठालवां, वृद्धोने दोरडां वांधी हिंचकवां, हाथी घोडा, गेंडां, कुकडा प्रमुख जानवरोने अंदर अंदर लडाववां, पोताना शत्रूठना वंशजो उपर द्वेषभाव राखवा. वली जक्तकथा करवी, जेमके मांस फलाणा प्राणीनुं बहुज सारं पुष्टिवाळुं ठे, मदिरापानथी शरीरमां ताकत आवेठे, अमुक जातना लाडवा खाळ तो शरीर मजबुत थशे, दुध खुव पीळ जेथी वीर्यवृद्धि थशे, अने कामसेवन मनोइ थशे. अमुकशाक, चाजी मसालादार अमुकरीतेंज खाद आपेठे, तेना जेवी लीजत वीजामां नथी. अमे पण एज रीतें खान पान करिए ठीए. वली स्त्रीकथा करे, जेम के फलाणा देशनी स्त्रीं बहुज खुव सुरत ठे, अमुक शेहेरनी स्त्रीं चतुर ठे, हाव, जाव, कटाका, चुंवनादि प्रसंगे अमुक स्त्रीं बहुज आनंद आपे ठे. वली स्त्रींनी प्रशंसारूप श्लोक बोले जेम के “कर्णाटी सुरतोपचारकुशला, लाटी विदग्धे प्रिये” इत्यादि. वली स्त्रींनां रूपवृद्धिकारक, स्तनकठिनत्वकारक, योनिसंकोचक उपाय बतावे तथा एवी अनेक तरेहनी मैथुनजावी कथा करे. वली देशकथा करे. जेम के पूर्वदेशमां अनेक तरेहनी वस्तुं उत्पन्न थाय ठे, खांड, गोल, शाल, मद्यादि बहुज सारां थाय ठे, उत्तर देशना लोको बहुज शूरवीर होय ठे, लढाइ करवामां वहाडुर होय ठे, काठीयावाडना घोडा बहुज सारा होय ठे, चाकरी बहु वखत आपे ठे; वली जालना घंठ घणाज सारा, इत्यादि देश संबंधी अनेक तरेहनी चित्र, विचित्र कथा करवी. तथा राज्यकथा करवी. जेम के अमारा राज्यमां बहुज दोलत ठे, शूरवीर योद्धां ठे, अमुक राज्यमां लोको उपर बहुज जुलम थाय ठे, कर लेवाय ठे. अंग्रेजतुं राज्य बहुज सारं ठे. रुशिया व-

हुज जुलमगार राजा ठे. फलाणां राज्यो वचे लडाइ उठशे, फलाणां वलवामां अमुक राजाए बहुज वहाडुरीनुं काम करुं, इत्यादि. वली रोग, अथवा थाक लाग्या शिवाय आखी रात सुइ रहेंतुं ते पण प्रमाद आचरण ठे. पूर्वोक्त प्रमाद आचरण श्रावक वजें. तथा जिनमंदिरमां काम चेष्टा, हांसी, लडाइ, शुंकुं, निद्रा लेवी, खोटी कथा करवी तथा आहार करवा, इत्यादि अनर्थदंड ठे. आ व्रतना पांच अतिचार ठे ते कहीए ठीए.

१ प्रथम कंदर्पचेष्टा. मुखविकार, ब्रुविकार, नेत्रविकार करवा, हाथनी चेष्टा वताववी, पगनी चेष्टा वताववी, पगनी चेष्टा करी वीजाउने हसाववा, कोइने क्रोध, थाय तेम करवुं, पोतानी लघुता थाय, तथा धर्मनी निंदा थाय तेवी कुचेष्टा करवी, आ प्रथम अतिचार.

२ वीजो मुखरिवचन अतिचार. चांड, कुतूहली लोकोनी जेम मुखरी पणुं करे, असंबद्ध वचन बोले, वीजाउनां मर्म प्रगट करे, वीजाउ कष्टमां पडे तेवां वचन बोले; लघुता थाय, वेर वधे, लवाडीपणुं कहेवाय, तथा चुगलखोर कहेवाय, एवां वचन बोले, वली लोकोमां लाज जाय एवुं वाचालपणुंकरे तो वीजो अतिचार.

३ त्रीजो जोगोपजोग अतिरिक्त अतिचार. स्नान, पान, जोजन, चंदन, कुसुम, कस्तूरी, वस्त्र, आजरणादि पोताना शरीरना जोग उपरांत अधिक मेलववां; ते पण अनर्थदंड ठे. आ प्रसंगे वृद्ध आचार्योनी संप्रदाय वतावीए ठीए. तेल, आमलां, दहीं प्रमुख स्नानने वास्ते अधिक लइ जाय तो, तेनी लाखचथी वीजा बहु लोको तेनी पाठल तलाव उपर स्नान वास्ते जशे, त्यां स्नान करवाथी पाणीना पूरा प्रमुख बहुज अप् कायना जीवोनी विराधना थशे, तेथी श्रावकें एवी रीतें स्नान करवा न जवुं जोइए. श्रावकनो स्नान करवानो विधि आ वावतमां आ प्रमाणे ठे. प्रथम तो श्रावके घरमांज स्नान करवुं जोइए, कदापि पोताने घेर तेवी सगवड न होय तो, तेल, आमलां प्रमुख पोताने घेर वावरी, मेल काढी, तलावना कांठा उपर वेसी पाणी वासणमां गली स्नान करवुं, इत्यादि जीवरक्षा माटे कालजी राखे. वली फूलादिमां जीवनो संचार लागे तो तेने परिहरे, एम सर्व स्थलें उपयोगपूर्वक प्रवर्त्ते. न प्रवर्त्ते तो त्रीजो अतिचार.

४ चौथो कौकुच्य अतिचार. जे बोलवार्थी पोतानो तेमज बीजाउना आत्मा काम, क्रोधरूप थइ जाय वली विरहनी वार्ताउ, शृंगार रसनी साखी, ठंड, कवित्त, श्लोक विगेरे, तेमज परजराग काफ़ी राग प्रमुख रागमां काममर्म कथन करे तो आ अतिचार लागे.

५ पांचमो संयुक्त अधिकरण अतिचार. जेमके उखलनी साथे मुश्ल, हलनी साथे फाला, गाडीनी साथे धोंसरुं, धनुपनी साथे तीर, इत्यादि श्रावक राखे नहि, कारण के एवां पापनां अधिकरण साथे राखवार्थी कोइ तरत लइ जाय, वली लेवा आवे त्यारे ना कही शकाय नहि, तेथी जो अलग अलग होयतो लेवा आवनारने सुखेथी जवाव आपी शकाय. आ पांचमो अतिचार. हवे नवमा सामायिक व्रतनुं स्वरूप लखीए ठिये, पूर्वोक्त आठे व्रतने पुष्टिकारक, तथा आत्मगुणोने वृद्धि कारक अने अविरतिकपायमां तादात्म्यजावथी मलेली अनादि अशुद्धता रूप विज्ञाव परिणति, तेना अच्युसने ठोडाववावास्ते तथा आत्म अनुभव करवा वास्ते अने सहज आनंद स्वरूपरस प्रगट करवा वास्ते आ शिद्धाव्रत ठे; अर्थात् शुद्ध अच्युस रूप नवमुं सामायिक व्रत ठे. वे घडी काल प्रमाण समतामां रहेबुं रागद्वेषरूप हेतुउमां मध्यस्थ रहेबुं तेने पंडित पुरुषो सामायिक व्रत कहेठे. वली सम अर्थात् रागद्वेषरहित परिणाम, जे, थवार्थी ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूप मोक्ष मार्ग तेनो "आय" अर्थात् लाज, प्रशमसुखरूपतेनो इक कहेतां जाव ते सामायिक ठे. श्रावक मन वचन कायानी खोटी चेष्टा तेमज आर्त्तध्यान रौद्रध्याननो त्याग करीने सामायिक करे. आवश्यकसूत्रमां लख्युं ठे के, ज्यारे श्रावक सामायिक करेठे, त्यारे ते साधु समान थाय ठे, ते कारणथी श्रावक सामायिकमां देवस्नात्र, पूजादि न करे, कारण के जाव पूजा वास्ते इव्य पूजा ठे, अने जावस्तव सामायिकमां प्राप्त थइ जाय ठे ते कारणथी इव्य स्तव जिनपूजा सामायिकमां श्रावक उचित नथी. सामायिक करनार श्रावक वत्रीश दूपणो तजीने सामायिक करे, ते वत्रीश दूपणोमां प्रथम कायानां वार दूपणो ठे तेनुं स्वरूप लखीयेठीये. ।

१ प्रथम आसनदोष. सामायिकमां पग उपर पग चढावीने वेसे तो दोष लागे, कारण के गुरुविनयमां लाघवता थाय ठे, वली ते अजिमानुं

आसन ठे, तेथी एवी रीतें वेसे के विनयगुण रहे, उद्धताइ मालम न पडे तथा अयत्ना न थाय.

१ चलासन दोष. आसन स्थिर राखे, वारंवार उंचा नीचा थाय, चपलतायुक्त प्रवर्त्तें, मुख्य रीति तो ए ठे के श्रावक एकज आसन उपर सामायिक पुरुं करे, अर्द्धिगपण रहे कदाचित् रोग, निर्वलताना कारण्थी एक आसन पर टकी न शकाय तो, अने फरवुं पडे तो उपयोग संयुक्त, यत्नापूर्वक चरवलाथी पूंजन प्रमार्जन करीने आसन फेरवे, पूर्वोक्त विधि न करे तो, आ दोष लागे.

३ चलदृष्टि दोष. सामायिक लीधा पठी, नासिका उपर दृष्टि राखे, मनमां शुरु उपयोग राखे, मौन पणें ध्यान करे. वली सामायिकमां जो शास्त्राज्यास करवो होय तो, यत्नापूर्वक, मुख आगल मुहपति राखीने, दृष्टि पुस्तक उपर राखीने जणे अथवा श्रवण करे. वली जो कायोत्सर्ग करे तो, चार आंगल पाठलथी पग पहोला राखे, योगमुद्राथी उचा थइ, वंने वाहु प्रलंबित करे, दृष्टि नासिका उपर राखे, अथवा जमणा पगना अंगुठा उपर राखे; आ शुरु सामायिक करवानो विधि ठे, ते विधिने तजीने चपलपणाथी चकित मृगनी जेम चारे दिशि ए आंख फेरवे तो आ दोष ठे.

४ सावद्य क्रिया दोष. क्रिया तो करे, परंतु तेमां कांश्क सावद्य क्रिया करे, अथवा सावद्य क्रियानी संज्ञा करे तो आ दोष लागे.

५ आलंघन दोष. सामायिकमां जींत प्रमुखनुं आलंघन अर्थात् पुंठ लगावी वेसवुं. पूंज्या, प्रमाज्या विनानी जींतपर पुंठ लगाववाथी जीव वेष्टा होय तो तेनो घात थाय ठे, तेमज निद्रापण आवे ठे.

६ आकुंचन प्रसारण दोष. सामायिक लीधा पठी प्रयोजन विना हाथ, पग, संकोचे, लांवा करे. मोटा कारण विना सामायिकमां हलवुं नहि. जरूरी काममां चरवलाथी पुंजी, प्रमार्जी हलवुं.

७ आलस दोष. अंगमां आलस मरडे, कमर वांकी करे, प्रमाद सेवे, प्रमाद सेवनथी बहुज अनादर व्रतमां थाय ठे, कायामां अरति उत्पन्न थाय ठे, ज्यारे उठे, त्यारे आलस मरडी, अशोचनीय रीतें उठे तो आ दोष लागे.

७ मोटन दोष. सामायिकमां आंगलीना टाचका फोडे; आ पण प्रमादनी प्रवळताथी थाय ठे.

८ मलदोष. सामायिकमां खजवाले, वळूरे. मुख्यवृत्तिए तो सामायिकमां खरजने सहन करे, परंतु लाचार थइ जाय तो चरवला प्रमुखथी प्रमार्जी धीमे धीमे खजवाले एवी शैली ठे.

९ विमासण दोष. सामायिकमां गलामां हाथ लगवावी वेसे तो आ दोष लागे.

१० निद्रा दोष. सामायिकमां निद्रा लीधा करे.

११ आछादन दोष. शीत प्रमुखनी प्रवळताथी पोतानां समस्त अंगोपांग वस्त्रथी ढांके. आ वार दोष कायासंबंधी ठे.

हवे वचनना दश दोष लखीए ठीए.

१ कुवोल दोष. सामायिकमां कुवचन, कर्कश वचन बोले.

२ सहसाकार दोष. सामायिकमां विचार कर्या विना बोले.

३ असत् आरोपण दोष. सामायिकमां कोशना उपर खोडूं तोमत आवे एवां वचन बोले. न कर्याने कर्युं कहे.

४ निरपेक्षवाक्य दोष. सामायिकमां शास्त्रनी अपेक्षा विना बोले पोताना ठेंदें बोले.

५ संक्षेपदोष. सामायिकमां सूत्र, पाठ संक्षेपथी करे; अक्षर पाठादि यथार्थ कहे नहि, तो पांचमो दोष लागे.

६ कलहदोष. साधर्मीं साथे क्लेश करे; सामायिकमां कोशमिथ्यात्वी गालो दे उपसर्ग करे, कुवचन बोले, तो पण तेनी साथे कलह नहि करवो जोशए, तो पठी पोताना साधर्मीं जाइ साथे क्लेश तो केमज थइ शके ? जो करे तो आ दोष लागे.

७ विकथा दोष. सामायिकमां राज्यकथा प्रमुख चारे विकथा करे तो आ दोष लागे.

८ हास्य दोष. सामायिकमां बीजानी हांसी, मश्करी करे.

९ अशुद्ध पाठ दोष. सामायिकमां सूत्रपाठ शुद्ध बोले नहि, उतावळथी सामायिक लहे तथा पारे, त्यारे हीनाधिक उच्चारे यद्वा तद्वा सूत्रोपदे.

१० सुणमुण दोष. सामायिकमां प्रगट स्पष्ट अक्षरोच्चार न करे. बी-

जाउने एवं लागे के जाणे मद्य गणगणाट करे ठे. पद, गायाना ठेकाणा विना गडवड करी पाठ घोली जाय. आ वचनना दश दोप कहा.

इचे मनना दश दोप लखीए ठीए.

१ अविवेक दोप. सामायिकमां सर्व क्रिया करे, परंतु मनमां विवेक रहित पणें करे. उरुताइथी करे. मनमां विचारे के सामायिक करवाथी कोण तरी गयुं ठे ? सामायिकमां शुं फल ठे ? इत्यादि विकल्प करे.

२ यशोवांठा दोप. सामायिक करीने यशःकीर्त्तिनी इष्टा करे.

३ धनवांठा दोप. सामायिक करी तेनाथी धन मेलववानी वांठा राखे.

४ गर्व दोप. सामायिक करी मनमां अजिमान करे के हुंज खरो धर्मा हुं. मनेज सारीरीतें सामायिक करतां आवडे ठे. वीजा मूर्ख लोकोने शुं गम पडे.

५ जय दोप. लोकोनी निंदाथी डरीने सामायिक करे. लोको कहेके जूळ जाइ ! श्रावकना कुलमां उत्पन्न थया ठे, मोटा मानवंता गणाय ठे, परंतु धर्म कर्मनुं तो नाम पण जाणता नथी, धर्म तो दूर रहो, परंतु निरंतर एक सामायिक पण करता नथी. एवी लोकोनी निंदाथी डरीने सामायिक करे.

६ निदान दोप. सामायिक करी निदान करे के आ सामायिकना फलथी मने धन, स्त्री, पुत्र, राज्य, इंद्र, चक्रवर्त्तिनी पदवी मले तो साहं.

७ संशय दोप. कोण जाणे सामायिकनुं फल मलतुं हशे के नहि ? जेने तत्त्व प्रतीत न होय तेज एवो कुविकल्प करे.

८ कपाय दोप. सामायिकमां कपाय करे, क्रोधादिसंयुक्त मन ठतां सामायिक करवा वेसी जाय. सामायिकमां कपायनो तो संपूर्ण अज्ञाय जोइये.

९ अविनय दोप. विनयरहितपणे सामायिक करे.

१० अबहुमान दोप. सामायिक बहुमान. अकिञ्चाव, उत्साहपूर्वक न करे. आ दश मनना दोप ठे. उपर वताव्या प्रमाणे वत्रीश द्रुपण रहित सामायिक करे. सामायिक व्रतना पांच अतिचार टाझे, तेनुं स्वरूप कहिये ठिये.

१ काय दुःप्रणिधान अतिचार. शरीरना अवयव, हाय, पग प्रमुख, पुंज्या, प्रमाज्याविना ह्वावे, जीते पीठ खगावी वेसे.

२ मनोदुःप्रणिधान अतिचार. मनमां कुव्यापार चिंतवन, क्रोध, लो-

ज, झोह, अजिमान, ईर्ष्या, व्यासंग, संत्रमचित्त सहित सामायिक करे.
३ वचन दुःप्रणिधान अतिचार. सामायिकमां सावय वचन बोले, सू-
त्राक्षर हीनाधिक पढे. स्पष्ट उच्चार न करे.

४ अनवस्था दोष रूप अतिचार. सामायिक वखतसर न करे, जो करे
तो पण वे मर्यादाथी, आदरविना, उतावलयथी करे.

५ स्मृतिविहीन अतिचार. सामायिक करी ठे के नहि ? सामायिक
पारी ठे के नहि ? लीधी ठे तो क्यारे लीधी ठे ? श्ल्यादि झूल करे इति
नवम सामायिक व्रतस्वरूप.

हवे दशमा दिशावकाशिक व्रतनुं स्वरूप लखीए ठीए. ठठा व्रतमांजे
दिशाजनुं परिमाण करेखुं होय, ते जावजीव सुधीनुं होय ठे, तेमां बहु
क्षेत्र मर्यादा तुटी राखी होय ठे, तैटलानी हररोज जरूर पडती नथी,
ते कारणथी दिन दिन प्रत्ये न्यूनन्यून करे, जेमके आजरोज पांच कोश,
वा दशकोश, वा पचीश कोश, वा वे माइल, वा नगरना दरवाजासुधि,
वा अमुक वाग वगीचा सुधि मारे गमन करवानी तुट ठे, उपरांत प्रति-
बंध ठे, एवुं जे नियम ते दिशावकाशिक व्रत कहेवाय ठे. अर्थात् आ व्रत
ठठाव्रतनुं संक्षेपव्रत ठे. उपलक्षणथी पांच अणुव्रतादिनो संक्षेप थोडा
कालनो तेपण आ व्रतमां समाय ठे. आ व्रत चार मास, एक मास, वीश
दिवस, पांच दिवस, अहोरात्र, एक दिवस, एक रात्रि, वा एक मुहूर्-
त्तमात्र कालसुधी पण लइ शकाय ठे. नियम एवी रीतें करे के अमु-
क नगरादिमां शरीरथी जाइश, ते उपरांत शरीरें जवानो निपेध ठे. आ
व्रतवाला श्रावकने देश, परदेशना व्यापार होय तो करेला क्षेत्रपरिमाण
उपरांत कायाथी ते जइ शके नहि, परंतु दूरदेशना कागल प्रमुख आवे
ते वांचवानो, तेमज माणस मोकलवानो आगार ठे. एवुं नियम ते राखी
शके. परदेशनी वात सांचलवानो आगार राखे, परंतु जेउने परदेशनो व्या-
पार न होय, ते कागल, चीठी प्रमुखपण वांचे नहि, तेमज आदमी पण
मोकले नाह. बली चित्तवृत्ति स्थिर होय, अने संकल्प विकल्प न थता
होय तो परदेशनी वात पण श्रवण करे नहि. जो तेम रही शकातुं
न होय तो आगार राखे, परंतु जाणीने पोताना व्रतने दोष लगवे नहि.
आ दिशावकाशिक व्रत निरंतर सवारमां चौद नियमनी यादगिरीमां उ-

प्रयोगपूर्वक राखे, अने रात्रिण जुहुं राखे, आ व्रत जेवी रीतें गुरुमुन्यची धारे तेवी रीतें पावे. आ व्रतना पांच अतिचार वर्जवा, ते कहीण ठीण.

१ आणवण प्रयोग अतिचार. नियम करेला क्षेत्रची बहारना क्षेत्रमां कोइ वस्तु होय, अने तेनी जरूर पडे, त्यारे विचारे के मारे तो नियम करेला क्षेत्रची बहार जवानो निषेध ठे, तेची कोइ त्यां जतुं होय तेने कहे के अमुक वस्तु मारे वास्ते लेता आवजो. पठी विचारे के मांरं व्रत जंग थयुं नहि. अने वस्तु आवी गइ. आ प्रथम अतिचार.

२ पेसवण प्रयोग अतिचार. वीजा आदमीनी साथे पोताना नियम उपरांतना क्षेत्र बहार कोइ वस्तु मोकळवी ते.

३ सदाणुवाय अतिचार. नियमनी जूमिकाबहार कोइ आदमी जतो होय, तेनी पासे कांइ काम करावतुं होय, त्यारे तेने खोंखारो प्रमुख करी घोळावे, पठी कहे के अमुक वस्तु लेता आवजो. आ वीजो अतिचार ठे.

४ रूपानुपाती अतिचार. पोताना नियम उपरांतना क्षेत्रें कोइ आदमी जतो होय, तेनी साथे कांइ काम होय, त्यारे हवेली अथवा डुकानना उपरना मजला उपर चडी, पोते तेनी दृष्टिए पडे तैम करे, पत्री जनार आदमी पोतानी पासे आवे, एटखे पोताना मतस्यनी सर्वे वात तेनी साथे करे तो आ अतिचार लागे.

५ पुजलाक्षेप अतिचार. पोताना नियम उपरांतनी जूमिकाए कोइ आदमी जतो होय, अने तेनी साथे कांइ काम होय, त्यारे तेना उपर कांकरो फेंके, जेची ते पोतानी पासे आवे त्यारे, तेनी साथे सर्वे मतस्यनी वातचित्त करे तो आ अतिचार लागे. इतिदशमं.

हवे अग्नीआरमा पोषधोपवास व्रततुं स्वरूप खखीण ठीण. पोषध व्रतना चार जेद ठे, तेमां प्रथम आहार पोषध ठे, तेना पण वे जेद ठे, एक देशधी, वीजो सर्वधी. देशधी तो त्रिविहार उपवास करीने वा आचाम्ब (आयंजिल) करीने, वा त्रिविहार एकासणुं करीने पोषध करे, तेनो विधि खखीण ठीण.

पोषध लीधा पहेलां पोताने घेर कही राखे के, हुं आजे पोषध उचरवानो हुं, तेमां आचाम्ब अथवा एकासणुं करवानो हुं, तेची नोजनने अवसरे आहार करवा आवीश, अथवा तमे ते अथसरे पोषध शाजानां

आहार लक्ष्. आबजो, एम यथायोग्य कथन करी पोषध करवा आवे, पोषध व्रत उचरे; वाद देववंदन कर्या पठी कटासणुं, चरवलो तथा मुहपत्ति, आ त्रण उपकरण साथे लक्ष पोताने घेर जुनुं होय तो, चादर उढी, साधुनी जेम उपयोगसंयुक्त मार्गमां यत्नापूर्वक चाळी, जोजन स्थानकें जइ, प्रथम इरिया वहिया पडिक्रमे, गमनागमननी आलोचना करे, पठी कटासणा उपर वेसी, आहार करवानुं जाजन पडिलेही (प्रतिलेखी) वाद पोताने लेवा योग्य आहार लक्षे, साधुनी जेम रस शुद्धिरहित आहार करे, आहारने सारो अथवा बुरो कहे नहि, मुख्थी बोध्या विना आहार करे, आहारनुं जूठ पडे नहि, आहार कर्या पठी उण्ण जलथी आहारनुं वासण धोइने पी जाय, वासण शुद्ध करी, सुकवी, उपयोगसंयुक्त पोषधशालामां आवे, मार्गमां जतां आवतां कोइनी साथे वात करे नहि, पोषधशालामां पूर्वना स्थानपर आवी वेसे; इरिया वही पडिक्रमि, चैत्यवंदन करी, धर्मक्रियामां प्रवत्तें. जो पोतानो संवंधी अथवा सेवक पोषधशालामां आहार लक्ष् आव्यो होय तो, पूर्वोक्त रीतिए आहार करी वासण पाठां आपी दे, पठी धर्म क्रियामां प्रवत्तें. आ देशथी पोषध कहेवाय ठे; अने जो चारे आहारनां पञ्चखाण करी पोषध करे तो सर्वथी कहेवाय ठे. आ प्रथम जेद ठे.

२ शरीरसत्कार पोषध. तेमां सर्वथा शरीरसत्कार पोषध ते शरीरनो सर्वथा सत्कार. स्नान, धोवन, धावन, तैलमर्दन, वस्त्राचरणादि शृंगार प्रमुख कांइ पण शुश्रूपा करे नहि, साधुनी जेम अपरिकमिति शरीर राखे; अने जो पोषधमां हाथ, पण प्रमुखनी शुश्रूपा करवी एवो आगार राखे तो, ते देश शरीर सत्कार पोषध कहेवाय ठे.

३ अन्नह्यचर्य पोषध. त्रिकरण शुद्धिए ब्रह्मचर्य व्रत पालवुं ते सर्वथा ब्रह्मचर्य पोषध ठे; अने मन, वचन, दृष्टि प्रमुखनो आगार राखवो, अथवा परिमाण राखवुं, ते देशथी ब्रह्मचर्य पोषध कहेवाय ठे.

४ सर्वथा सावयव्यापारनो त्याग, ते सर्वथी अव्यापार पोषध ठे, अने एकादि व्यापारनो आगार राखवो ते देशथी अव्यापार पोषध ठे,

५ प्रमाणे चारे प्रकारना पोषधना वे वे जेद ठे. पूर्वकालमां ज्यारे आगम व्यवहारी गुरु विचरता हता, अने धावक पण शुद्ध उपयोग

वाला हता, त्यारे जे जे प्रतिज्ञाउं लेता हता, ते ते सर्व अखंडित, तेथी-
ज रीतें पालता हता, झूलता नहि, तेम न्यूनाधिक पण करता नहि;
अने गुरु पण अतिशय ज्ञानना प्रज्ञावथी योग्यता जाणीने देश वा सर्व
पोपधनो आदेश आपता हता; तथा श्रावक पण कदाचित् स्मृतिजंग
यता हता, तो पण तत्काल प्रायश्चित्त लइ लेता हता. आ कालमां तो
एवा उपयोगवाला जीवज नथी. दुपम कालना प्रज्ञावथी जड बुद्धि जी-
व बहुज ठे. ते कारणथी पूर्वाचार्योण उपकारने अर्थे आहार पोपध तो
बंदे करवाने राख्यां, अने चाकीना व्रणे पोपध जितव्यवहार ग्रंथने अ-
नुसारें निषेध करी दीधा ठे. आ प्रवृत्ति वर्तमान संघमां प्रचलित ठे.
पोपध तो श्रावकें अवश्य करवा जोइए; कारण के कर्मरूप जावरोग
वास्ते ते परम औपधि ठे. तेथी ज्यारे पर्वनो दिवस आवे, त्यारे अव-
श्य पोपध करवो जोइए. तेना पांच अतिचार वर्जवा, ते कहीए ठीए.

१ अल्पडिलेहिय दुप्पडिलेहिय सिद्धा संघारक अतिचार. जे स्या-
नमां पोपध संस्थारक (संघारो) क्यो होय, ते जूमिका तथा संघारा-
नी पडिलेहणा न करे, अर्थात् संघारांनी जगा सारी रीतें निघा करीने
नेत्रथी जोवे नहि, कदापि जोवे तो पण प्रमादने वश यइ. कांश्क दे-
खी, कांश्क न देखी एम करे-

२ अल्पमधिय दुप्पमधिय सिद्धा संघारक अतिचार. संघाराने र-
जोहरणादिथी पूंजे नहि, कदापि पूंजे तो पण यथार्थ न पूंजे, गढवड क-
री दे, जीवरहा साचवे नहि.

३ अल्पडिलेहिय, दुप्पडिलेहिय उच्चार पासवण जूमि अतिचार. लघुशं-
का, वडीशंका परठववानी जूमिका नेत्रथी अवलोकन न करे; अवलोकन
करे तोपण जेम तेम करी काम चलावे, जीवयत्ना विना करे, परिठवे.

४ अल्पमधिय, दुप्पमधिय उच्चार पासवण जूमि अतिचार. ज्यां मूत्र,
विष्ठा करे, त्यां जूमिकाने प्रथम पूंज्याविना मल, मूत्र करे; कदाच पूंजे
तोपण यद्वा तद्वा करे, परंतु यत्नापूर्वक न पूंजे.

५ पोसह विहि विवरीए अतिचार. पोपधमां क्रुधा लागे, त्यारे पार-
णानी चिंता करे, जेम के प्रजातें अमुक वस्तुउं करावीने आहार करीश
वली अमुक काम करवा सारु अमुक स्यानकें जवुं पडशे. अमुकनी पासे

उधराणी ठे, ते तगादो कर्या बिना आपशे नहि; वली शरीर थाकी गयुं ठे तेथी प्रजातमां तेल मर्दन करावीश, गरम पाणीथी खान करीश, अ-
मुक पोशाक पहरेरीश, स्त्रीनी साथे जोगविलास करीश, इत्यादि सावध
चितवन करे. संध्याए पोषध मंडल शोधन करे नहि, आखी रात सुइ
रहे, वा विकथा करे. पोषधनां अठार दूषणो वर्जे नहि.

ते अठार दूषणो आ प्रमाणे. पोसहमां व्रती विनाना श्रावकनुं लावे-
लुं पाणी पीये, १ पोषध वास्ते सरस आहार करे, २ पोषधने आगळे दि-
वसे अनेक तरेहनी रसवती मेलवी आहार करे, ४ पोषध निमित्तें, अथ-
वा पोषधने आगळे दिवसे विज्ञूपा करे, ५ पोषधवास्ते वस्त्र धोवरावे,
६ पोषधवास्ते आचरण घडावी पहरे, स्त्रीपण नथ, कंकणादि सोहाग-
नां चिन्ह शिवाय नवां घरेणां घडावी पहरे, ७ पोषध वास्ते वस्त्र रंगावी
पहरे, ८ पोषधमां शरीरनो मेल उत्तारे, ९ पोषधमां काल बिना निद्रा ल-
हे, १० पोषधमां स्त्री कथा करे, स्त्रीने सारी, बुरी कहे, ११ पोषधमां ज-
क्तकथा करे, आहारने सारो, नरसो कहे, १२ पोषधमां राज्यकथा करे,
शुद्धनी वार्त्ता करे, १३ पोषधमां देशकथा करे, देशने सारो, नरसो कहे,
१४ लघु शंका जूमि पूज्या बिना करे. १५ बीजानी निंदा करे, १६ स्त्री,
माता, पिता, पुत्र, ज्ञाइ, वहेन साथे वार्त्तालाप करे, १७ चोरनी कथा
करे, १८ स्त्रीनां अंगोपांग स्तन, जंघादि निहाले. आ अठार दूषणो वर्जे
तो शुद्ध पोषध जाणवो. इति एकादश व्रतस्वरूपं.

हवे वारमा अतिथि संविज्ञाग व्रतनुं स्वरूप लखीए ठियें. जेणें लौ-
किक वपोंत्सवादि तिथियोनो त्याग करेलो होय ते अतिथि कहेवायठे,
जेम परोणो (मेमान) तिथि बिना आवे ठे, अर्थात् अमुक तिथियेंज आवे
एवो जेम नियम नथी, तेम जे साधु होय ठे ते अणचित्तव्याज आवे ठे,
तेथी ते अतिथि जाणवा. एवा मधुकर वृत्तिवालाथी जो विज्ञाग करे. अ-
र्थात् शुद्ध व्यवहारन्यायोपार्जित धनथी, वस्तुजं लावी, पोताना उदरपू-
रणायें जे रसोइ करी ठे, तेमांथी उत्तम कुलाचारपूर्वक पूर्वे कर्म पश्चात्क-
र्मादिदोपरहित, शुद्ध निर्दोष आहार, जक्तिपूर्वक साधुने बहोरावे
(आपे) ते अतिथि संविज्ञाग व्रत कहेवाय ठे. प्रथम दान देनारमां जो
पांच गुण होय तो ते दातार शुद्ध होय ठे, ते पांच गुण सखिये ठिये.

१ जैनमार्गी दातारने, शुरू पात्रनो योग प्राप्त थवाथी, अर्थात् पोताना घरमां मुनिराजनां दर्शन मात्र थवाथी अंतरंगमां बहुज आनंद पामे, जेम पोतानो अत्यंत प्यारो, हितकारी मित्र बहु वखतधी दूर देशांतर गयो होय, जेनी कोइ वखत विस्मृति अइ न होय, अने जेने मलवाने निरंतर अंतःकरणमां आतुरता रहेती होय; एवा परम वल्लभ मित्रने अकस्मात् मलवाथी जेम आनंदनां आंसु आवी जाय, तेवीज रीतें मुनिराजने पोताने घेर पधारेला जोइ आनंदनां आंसु लावे, मनमां विचारे के आज माहं परम जाग्य के, आवा मुनिराज मारे घेर पधार्या. वली हुं केवो हुं ? अनादिकालधी जूल ज्रमित, ड्रव्य संवल रहित, दारिद्र्य अंधजावपीडित, ज्ञानलोचनरहित, अपार संसार चक्रमां जटकनार एवा मने, अत्यंत अकथनीय दुःखसंयुक्त देखीने, मारा उपर परम दयादृष्टिपूर्वक, प्रथम ज्ञानांजन शलाकाथी मारां ज्ञानरूपनेत्र उघाडी दीधां, वली त्रण तत्व सेवारूप व्यापार मने शिखव्यो, तथा रत्नत्रयीरूप पुंजी (राशि) मने आपी माहं अनादि कालनुं दारिद्र्य दूर कर्युं, मने उत्तमपुरुषोनी गणतरीमां लावी मुक्यो, एवा गुरु मुनिराज निःस्वार्थे परोपकारी मारा घर आंगणामां पधार्या एवा प्रशस्त राग जावना उद्घासथी आनंदनां आंसु लावे, एवी पुष्ट जावनां जावे आ दातारनो प्रथम गुण ठे.

२ जेम संसारमां जीवने अत्यंत इष्ट वस्तुना संयोगथी रोमावलि विकस्वर थाय ठे, तेम मुनिराजने देखी, अति चकिना प्रजावथी रोमावलि विकस्वर थाय, अने अंतःकरणमां हर्षे समाय नहि. आ बीजो गुण ठे.

३ मुनिराजने देखी बहुमान एवी रीतें करे, जेम कोइ गृहस्थने घेर, राजा पधार्या होय, अने ते राजानुं बहुमान, जेम ते गृहस्थ करे, एवा विचारथी के आजे मारा जाग्यनो उदय थयो के राज्यना स्वामि, राजाधिराज मारे घेर पधार्या, माटे उत्तम प्रकारनां नजराणां आ वखते करवां ते मने उचित ठे, कारण के राजानुं पधारवुं वारंवार थतुं नथी, एम निश्चय करी जेम उत्तम वस्तु उ जेट करे, तेवी रीतें आवक पण मुनिराजनुं बहुमान करे; मनमां विचारे के आवा निःस्पृहीयोमां शिरोमणी, जगद्बंधु, जगद् हितकारी, जगद् वत्सल, निष्कामी, आत्मानंदी, करुणासा-

गर, संसारजलधि उद्धरण, परोपकार करणीमां चतुर, क्रोधादि कषाय निवारक, तरण तारण, एवा मुनिराज मारे घेर पधार्या, तेथी आजे मारुं अहो जाग्य ठे! एतुं जाणी संत्रमसंयुक्त सन्मुख जाय, त्रिकरणशुद्ध परिणामथी विनति करे के हे स्वामि! दीन दयाल पधारो! मारुं गृहांगण पवित्र करो! एम अति सन्मानपूर्वक घरमां पधरावे; मनमां विचारे के आजे मारो पुण्योदय थयो, जे साधु आहार पाणीनो अनुग्रह करे ठे. कारण के साधुने आहार खेवामां बहुज विधि ठे, साधु शुद्ध जात पाणी जाणे तोज लहे, ते कारणथी रखे माराथी कांइ दोष लागी जाय, एवो विचार करी, त्रिकरण शुद्ध, बहुमानपूर्वक, उपयोगसंयुक्त, विधिपूर्वक आहार लावे, लांवीने मधुरस्वरथी विनति करे के हे स्वामि! आ शुद्ध आहार ठे, तेथी सेवक उपर परम कृपादृष्टि करी पात्र पसारी मारो निस्तार करो; एम विनति करतां थकां आहार बहोरावे. मुनिपण ते आहारने योग्य जाणीने लइ ठे. श्रावकपण दान देवा योग्य जे जे वस्तु उ होय, ते सर्वनी निमंत्रणा करे, ए प्रमाणे विधिपूर्वक दान दइ हाथ जोडी, पृथ्वी उपर मस्तक लगावी, नमस्कार करे; पठी मिटवचनोथी विनति करे के हे कृपानिधान! सेवक उपर मोटी कृपा करी, आजे मारुं घर पवित्र थयुं. पूरा पुण्योदयविना मुनिराजनो योग क्यांथी मले? वली हे स्वामि! कृपा करी अशन, पान, खादिस, स्वादिस, औषध, वस्त्र, पात्र, शय्या, संस्तारकादितुं प्रयोजन होय तो अवश्य सेवक उपर अनुग्रह करी पधार-शो, आप तो मुनिराज गुणवान् वेपरवाह ठो, आपने कोइ वस्तुनी कमी नथी, कोइनी साथे प्रतिबंध नथी, आप पवननी जेम अप्रतिवद्ध ठो, तोपण मारा उपर जरूर फरी उपकार करशो, एम कहेतां कहेतां पोताना आंगणानी सीमा सुधी पहुँचाडे. आ त्रीजो गुण ठे.

४ मुनिराजने वलावी, चंदना करी, घेर आवी, चोजन करवा वेसे, परंतु मनमां आनंदना उत्तरा आव्या करे, विचारे के आजे मारुं अहो जाग्य थयुं! आज कोइ उत्तम घात थशे; कारण के आजे निःस्पृही; सद्दज उदासी, स्वसुखविलास! मुनिराजने विनति करी आहार प्रतिष्ठा-प्यो, अने आहार बहोरावता वचमां कांइ विघ्न आव्युं नहि. आजे कृ-

तकृत्य थयो; वली आवा मुनिराजनो योग क्यारे मले ? एवी-अनुमोदना वारंवार करे, आ चोथो गुण ठे.

५ जेम कोइ मंद जाग्यवान् व्यापार करतां थोहुं थोहुं कमाय, तेने कोइ दिवस कोइ सोदामां लाख रुपैयानी प्राप्ति थइ जाय, त्यारे जेवो ते आनंदित थाय, अने फरी तेज व्यापारनी जेवी चाहना राखे, तेनाथी पण अधिक, श्रावक साधुने दान देवानी चाहना राखे. आ पांचमो गुण ठे. आ पांच गुण युक्त दान थापे तो अतिथिसंविज्ञाग व्रत होय. आ व्रतना पांच अतिचार वर्जवा, ते लखीए ठीए.

१ सचित्त निक्षेप अतिचार. सचित्त पृथ्वी, जल, कुंज, चूला, इंधना-दि उपर साधुने न देवानी बुद्धिथी आहार राखे; मनमां एवो विचार करे के साधु तो आहार लेशे नहि, परंतु निमंत्रणा करवाथी मारुं अति-थिसंविज्ञाग व्रत वन्युं रहेशे. आ प्रथम अतिचार.

२ सचित्त पीहण अतिचार. आहारने सचित्त वस्तुथी ढांके, सूरण, कंद, पत्र, पुष्पादिथी न देवानी बुद्धिथी ढांकी राखे तो बीजो अतिचार.

३ कालातिक्रम अतिचार. साधुने जिज्ञानो काल वित्या पठी, अथवा जिज्ञा काल पहेलां, अथवा साधु आहार करी रह्या होय ते पठी, आ-हारनी निमंत्रणा करवा जाय तो बीजो अतिचार.

४ परव्यपदेश अतिचार. साधु ज्यारे याचना करे, त्यारे क्रोध करे; पोतानी पासे वस्तु होय ठतां, मागतां थापे नहि; वली थापे तो पण एवा विचारथी के आवा गरीब लोको साधुने थापे ठे तो, तेउनाथी थुं हुं ग-रीब थुं ते न थापुं? आवी जावनाथी थापे तो चोथो अतिचार.

५ गोल, खांड प्रमुख पोतानी वस्तु होय, ते न थापवानी बुद्धिए पारकी कहे, अने पारकी वस्तु होय ते थापवानी बुद्धिए पोतानी कहे तो आ पांचमो अतिचार. इति श्री अतिथिसंविज्ञागव्रतं संपूर्णं.

सम्यक्त्वपूर्वक चारव्रतरूप, गृहस्थ धर्मनुं स्वरूप धर्मरत्न प्रकरण, तथा योगशास्त्रादि ग्रंथानुसार संक्षेपमात्र लखेल ठे; विशेष जाणवानी अजि-लापावालाए धर्मरत्नशास्त्र वृत्ति, तथा योगशास्त्र जोवां.

इति श्रीतपोगाणीयगणिश्रीमणित्रिजयतद्विष्यश्रीमुनिबुद्धिविजयतद्विष्य

मुन्यात्मारामानंदविजयविरचित जैनतत्त्वादर्श (ज्ञापांतरे) श्रावकनिरूपण
नामा अष्टमपरिच्छेदः संपूर्णः ॥

॥ अथ नवमपरिच्छेदप्रारंभः ॥

श्रावकोनां ४ कृत्यो वे. १ दिनकृत्य, २ रात्रिकृत्य, ३ पर्वकृत्य, ४ चातुर्मासिक कृत्य, ५ संवत्सरकृत्य, ६ जन्मकृत्य, तेमांथी प्रथम दिनकृत्यविधि, आ परिच्छेदमां श्राद्धविधिग्रंथ तथा श्रावककौमुदी शास्त्रानुसार लखियें ठियें.

प्रथम तो श्रावकें निद्रा अल्प लेवी जोइए. ज्यारे एक प्रहर रात्रि शेष रहे, त्यारे निद्रा तजी उठवुं जोइए. कोइने बहु निद्रा आवती होय तो पण जघन्यथी चौदमा ब्राह्ममुहूर्त्तमां अवश्य उठवुं जोइए. सवारमां वहेलां उठवाथी इहलोक परलोकनां अनेक कार्य सिद्ध थाय ठे, ते अवसरें बुद्धिपण निर्मल, सुंदर होय ठे. पूर्वापर विचार बहुज सारी रीतें थइ शके ठे. ग्रंथकार एम पण लखे ठे के निरंतर जेने सूतां सूतां सूर्योदय थइ जाय; तेनुं आयुष्य अल्प थाय ठे; तेथी ब्राह्ममुहूर्त्तमां अवश्य उठवुं जोइए. ज्यारे निद्रानो त्याग करी उठे, त्यारे मनमां विचारे के हुं श्रावकवुं, पोताना घरमां सुतो हतो के वीजाना घरमां सुतो हतो ? नीचे सुतो हतो के उपरमावे सुतो हतो ? दिवसना सुतो हतो के रात्रिना सुतो हतो ? इत्यादि विचार करतां निद्रानो वेग न मटे तो नासिका तेमज मुखनो श्वासोन्नास रोके, तेम करवाथी निद्रा तत्काल दूर थइ जाय ठे, पठी द्वार सारी रीतें तपासी जरुर होय तो लघुशंकादि करे. रात्रिमां जागतां कोइने कांइ कहेवुं पडेतो, मंदस्वरथी कहे, उंचे स्वरें शब्दोच्चार करे नहि. उंचा स्वरथी बोलवाथी रात्रिमां ठपकली प्रमुख हिंसक जीव जागी जाय तो माखी प्रमुख अनेक जीवोनी ते हिंसा करे ठे. कसाइ जागी जाय तो, गाय, बकरी, घेटा प्रमुखने मारवाने चाख्यो जाय ठे, माठी जाल लइ पोतावुं काम शरु करवा जाय ठे, बाघरी, आहेडी, मदिरापानी, खुनी, परब्रीलंपट, तस्कर, लूटारा, धोवी, घांची, कुंजार प्रमुख अनेक हिंसा करनारा जीवो जागवाथी अनेक तरेहनां पापकर्ममां प्रवृत्त थइ जाय ठे. आ सर्व

पापनुं निमित्त कारण रात्रिए उंचा खरथी वात करनारने थाय, तेथी उंचा खरथी रात्रिमां नहि बोलवुं जोइये.

सवारमां निजानो ठेद थाय स्यारे तत्त्वज्ञाता श्रावकें तत्त्वविचार करवो जोइये. तत्त्व पांच ठे. १ पृथ्वी, २ जल, ३ अग्नि, ४ वायु, ५ आकाश, निजाना ठेद समये जो पृथ्वीतत्त्व तथा जलतत्त्व वहेतां होय तो शुच ठे अने जो अग्नि, वायु के आकाशतत्त्व वहेतां होय तो दुःखदायक ठे. शुक्लपक्ष प्रतिपद् दिने जो वामनासिकानो खर चालतो होय तो पंदर दिवस सुधी आनंद आरोग्य रहे; अने कृष्णपक्षनी एकमने दिवसे जो दक्षिण नासिकानो खर वहेतो होय तो पंदर दिवस सुधी सुख आनंद रहे; तेनाथी विपर्यय होयतो विपर्यय फल थाय.

शुक्ल पक्षना प्रथमना त्रण दिवस वामनासिकानो खर उठतां वहेतो होय तो शुच ठे. ते पठीना त्रण दिवस दक्षिणखर चालतो होय तो शुच ठे, वली ते पठीना त्रण दिवस वाम खर चालतो होय तो शुच ठे, एम अनुक्रमें पंदर दिवस सुधी समजवुं. तथा कृष्णपक्षनी एकमना दिवसथी त्रण दिवस सुधी दक्षिणखर वहेतो होय तो शुच ठे, ते पठीना त्रण दिवस वामखर वहेतो होय तो शुच ठे. वली ते पठीना त्रण दिवस दक्षिण खर वहेतो होय तो शुच ठे, एम पंदर दिवस सुधी जाणवुं. तथा चंद्रखरमां सूर्य उगतो होय, अने सूर्यखरमां सूर्य अस्त थतो होय तो शुच ठे. तथा सूर्यनाडीमां सूर्य उदय होय, अने चंद्रनाडीमां अस्त थाय तो पण शुच ठे. कोइ शाखना मत प्रमाणे रवि, मंगल, गुरु, शनि, आ चार वारमां दक्षिणखरमां सूर्यनाडी दिवस उगतां चाले तो शुच ठे, अने सोम, बुध तथा शुक्र आ त्रण वारमां सूतां, उठतां चंद्रखर वामखर चाले तो शुच ठे, तेनाथी विपर्यय चाले तो अशुच ठे.

वली कोइक शाखकारना मत प्रमाणे संक्रांतिना क्रमथी सूर्य चंद्रनाडी वहे तो शुच ठे, जेम के मेप संक्रांतिने दिवस सूर्यखर चाले, तथा वृषसंक्रांतिने दिने चंद्रनाडी चाले तो शुच जाणवी इत्यादि. तथा कोइक मतमां चंद्रमां राशि पलटे ते अनुक्रमें अडी घडी सुधी एक नाडी वहे ठे इत्यादि; परंतु जैनमतना आचार्य श्रीहेमचंद्रादिनो तो प्रथम लख्या प्रमाणे मत ठे. उत्रीश गुरु अक्षरो उच्चार करतां जेटलो

काल लागे ठे; तेदलो काल वायुनो एक नाडीमांथी वीजी नाडीमां संचार करतां लागे ठे.

हवे पांचतत्त्व संबंधी बोधस्वरूप कहियें ठियें. नासिकानो पवन जो उंचो जाय तो अग्नि तत्त्व, जो नीचो जाय तो जल तत्त्व, जो तिठो जाय तो वायु तत्त्व, जो नासिकाथी निकली सिधो तिठो जाय तो पृथ्वी तत्त्व; जो नासिकाना वंने पुटनी अंदर वहे, वहार निकले नहि तो आकाश तत्त्व; ए प्रमाणे जाणवुं.

प्रथम पवन तत्त्व वहेठे; पठी अग्नि तत्त्व वहे ठे, पठी जल तत्त्व वहेठे, पठी पृथ्वी तत्त्व वहेठे, पठी आकाश तत्त्व वहेठे. निरंतर आ प्रमाणे अनुक्रमेठे. वंने नाडीउमां पांचे तत्त्व वहे ठे; तेमां पृथ्वी तत्त्व पंचाश पल प्रमाण वहे ठे; जल तत्त्व चाळीश पल प्रमाण वहे ठे, अग्नि तत्त्व त्रीश पल प्रमाण वहेठे. वायु तत्त्व वीश पल प्रमाण वहेठे, आकाश तत्त्व दश पल प्रमाण वहेठे.

पृथ्वी अने जल तत्त्वमां शांतिकार्य करवां; अग्नि, वायु तथा आकाश तत्त्वमां दीप्तिमान् अने स्थिर कार्य करवां; ए प्रमाणे करे तो शुभ फलोद्भति थाय ठे, जीववानो प्रश्न, जयप्रश्न, लाजप्रश्न, धनार्जन प्रश्न, मेघवर्षण प्रश्न, पुत्र होवानो प्रश्न, जवा आववना प्रश्न, आ प्रश्नो जो पृथ्वी अने जल तत्त्वमां करे तो शुभ थाय; अने अग्नि, वायु वहेतां करे तो शुभ थाय नहि; वली जो पृथ्वी तत्त्वमां प्रश्न करे तो कार्यनी सिद्धि स्थिरपणे थाय, अने जल तत्त्वमां कार्य शीघ्रताथी थाय.

प्रथमनी जिनपूजा करतां, धन कमावा जतां, पाणिग्रहण करतां किल्लो लेतां, नदी उतरतां, गयेलानुं आगमन पुठतां, जीवननो प्रश्न करतां, घर क्षेत्रादि खरीदतां, करीआणां लेतां, वेचतां, वर्षनुं प्रश्न करतां, नोकरी करतां, खेती करतां, शत्रुने जीततां, विद्यारंज करतां, राज्याजिपेक करतां, इत्यादि शुभ कार्यों करतां चंद्रनाडी वहे तो कल्याणकारी ठे.

प्रश्नसमये कार्यना आरंजमां पूर्ण वामनाडी प्रवेश करती होय, लारे निश्चयपूर्वक कार्यसिद्धि जाणवी, तेमां संदेह नथी. वली अमुक सख्त केदमांथी क्यारे लुटशे ? अमुक रोगी साजो क्यारे थशे ! अमुक स्थानत्रष्ट थयेलो क्यारे पद प्राप्त करशे ? आ प्रश्नोमां, तथा शुद्ध करवाना प्र-

श्रमां वैरीने मलतां, अकस्मात् जय पामतां, स्नान करतां, जोजन करतां, पाणी पीतां, सुतां, गइ वस्तुनी खोज करतां, मैथुन करतां, विवाद करतां, कष्टमां पडतां, आटला कायोंमां सूर्यनाडी वहेती होय तो शुभ ठे, कोइक आचार्य एम पण कहे ठे के, विद्यारंजमां, दीक्षामां, शास्त्राच्यासमां, विवादमां, राजाना देखवामां, मंत्र यंत्रना साधनमां, सूर्यनाडी शुभ ठे; अथवा जो चंद्रादि खर चालतो होय तो निरंतर ते वाजुनो पग उठावीने प्रथम चाले तो कार्यसिद्धि थाय.

पापी जीवोनी तथा शत्रुर्तना दूत प्रमुख जे क्लेश कराववा वाला ठे, तेउनी सन्मुख, जे नासिकानी वाजुबंध होय ते पासुं राखे तो सुख, लाज अने जय थाय. शय्याथी उठतां शुक्ल पद्ममां डावो पग, अने कृष्ण पद्ममां जमणो पग धरती उपर मुके. आ विधिष् श्रावक निद्रा त्यागे.

श्रावक अत्यंत बहुमानपूर्वक मंगलकार्यवास्ते पंच परमेष्टि नमस्कारमंत्रस्मरण करे. शय्यामां वेठां थकां मनमां पंच परमेष्टिमंत्रस्मरण करे. वचनथी उच्चार न करे. जो मुखथी उच्चार करे तो शय्यानो त्याग करी धरती उपर वेसी नमस्कारमंत्र पढे. ए प्रमाणे नमस्कारमंत्र अंतःकरणमां स्मरण करतां करतां शय्याथी उठे; पवित्र जमीन उपर वेसे. पठी पूर्व अथवा उत्तर दिशि सन्मुख मुख करी उच्चा थइ चित्तनी एकाग्रता वास्ते कमलबंध करी जापथी नमस्कार मंत्र पढे. तेमां आठ पांखडीनुं कमल चिंतवे, तेनी कर्णिकां अरिहंत पदनुं स्थापन करे, पूर्व पांखडीमां सिद्ध पदनुं, दक्षिण पांखडीमां आचार्यपदनुं, पश्चिम पांखडीमां उपाध्यायपदनुं, उत्तरपांखडीमां साधुपदनुं स्थापन करे; वाकीनां चूल्कानां चारे पद अग्न्यादि चारे खुणामां अनुक्रमें स्थापन करे. "उक्तं चाष्टमप्रकाशे योगशास्त्रे श्रीहेमचंद्रसूरजिः" अष्टपत्रे सितांजोजे, कर्णिकायां करस्थितिः ॥ आद्यं सप्ताक्षरं मंत्रं, पवित्रं चिंतयेत्ततः ॥ १ ॥ सिद्धादिकचतुष्कं च, दिक्पत्रेषु यथाक्रमं ॥ चूलापादचतुष्कं च, विदिक्पत्रेषु चिंतयेत् ॥ २ ॥ त्रिशुद्धं चिंतयन्नस्य, शतमष्टोत्तरं मुनिः ॥ जुंजानोपि लज्जत्येव, चतुर्थतपसः फलं ॥ ३ ॥

हाथना आवर्तथी पंच मंगल मंत्र, नित्य स्मरण जे करता होय; तेउने पिशाचादि ठलता नथी. बंधनादि कष्टमां, विपरीत शंखावर्तकादि

अक्षरोथी, अथवा विपरीतपदोथी पंच मंगल मंत्र लक्षादि जाप करे तो शीघ्र क्लेशादि नाश पामे. जो हाथ उपर जाप न करी शके तो सूत्रनी रखनी वा रुद्राक्षादिनी माला उपर जप करे. मालावालो हाथ हृदय सन्मुख राखे, शरीरें, शरीरना वस्त्रोने तथा भूमिकाने माला लागवा देवी नहि. अंगुठानी उपर माला राखी, तर्जनी आंगलीथी, नख लगाव्या विना, मणका फेरवे, मेरु उल्लंघन न करे. शास्त्रकार लखेठे के, जो आंगलीना अग्रथी जाप करे, जाप करतां मेरु उल्लंघन करे, अने रखडता चित्तथी जाप करे तो बहुज अल्प फल मले ठे. जाप करनार वीजाउथी एकिला रही शब्दोथी जाप नहि करतां मौनपणे जाप करे तो श्रेष्ठ ठे. जाप करतां थाकी जाय तो ध्यान करे, ध्यान करतां थाके तो जाप करे, वनेथी थाके तो स्तोत्र बोले.

श्रीपादलिखितआचार्यकृत प्रतिष्ठाकल्पपरुतिमां लख्युं ठे के, जाप त्रण तरेहथी थाय ठे. १ मानस, २ उपांशु, ३ ज्ञाप्य. तेमां मानस जाप मनमां विचारणाथी थाय, स्वसंवेद्य होय; उपांशु जाप वीजा तो सांज्ञले नहि, परंतु अंतर्जल्प थाय; अने ज्ञाप्य जाप वीजाना सांज्ञलवामां थावे तेम थाय. आ त्रणे अनुक्रमें उत्तम, मध्यम अने अधम जाणवा. मानस जापथी शांति थाय ठे, अर्थात् शांतिने वास्ते मानस जाप करवो, पुष्टिने वास्ते उपांशु जाप करवो, अने आकर्षणादिमां ज्ञाप्य जाप करवो.

नमस्कार मंत्रनां पांचपद, नवपद, अनानुपूर्वी चित्तनी एकाग्रता वास्ते गणे. जो नवकार मंत्रनो एक अक्षर, वा एकपद पण जपे तो पण जाप थइ शके ठे. यदुक्तं योगशास्त्रे अष्टमप्रकाशे ॥ पंच परमेष्टि मंत्रना “अरिहंत सिद्ध आयरिय उवद्याय साहू” आ सोल अक्षरनो जाप, तथा “अरिहंत सिद्ध” आ ठ अक्षरनो जाप, तथा “अरिहंत” आ चार अक्षरनो जाप, तथा आकार जे वर्ण ठे, ते मण मंत्र ठे. आ सर्व जापनुं फल स्वर्ग वा मोक्ष ठे. वली व्यवहारफल आ प्रमाणे जाणनुं, पड्वर्णनो (ठ अक्षरनो) जाप त्रणसो वार करे, चारवर्णनो जाप चारसो वार करे, अने सोल अक्षरनो जाप बसो वार करे तो एक अपवासनुं फल मले ठे. वली “अ” वर्ण नाजि कमलमां स्थित ध्यावे, “सि” वर्ण मस्तक कमलमां स्थित ध्यावे, “आ” कार मुख कम-

लमां स्थित ध्यावे, “उ” कार हृदयकमलमां स्थित ध्यावे, तथा “सा” कार कंठपिंजरमां स्थित ध्यावे. आ सर्व जाप कल्याणकारी ठे. “असि आ उसा” आ पांच वीज ठे. आ पांचे वीजोनो उंकार वने ठे.

बद्धी वीजा वीजमंत्रना पण जाप करे, जेम के “नमःसिद्धेभ्यः” आबो मंत्र, जो इहलोकना फलनी इठा होय तो आकार सहित पढवो जोइये; अने जो मोक्षवास्ते जाप करवो होय तो आकार रहित पढवो जोइये. आ जापादि करवाथी बहुज फल थाय ठे ॥ यतः ॥ पूजाकोटि समंस्तोत्रं पूजाकोटिसमोजपः ॥ जपकोटिसमं ध्यानं, ध्यानकोटिसमोलयः ॥ १॥ ध्याननी सिद्धि वास्ते श्रीजिनजन्म, दीक्षादि कल्याण चूमिरूप तीर्थमां जाप; अथवा कोइ वीजा विविक्त स्थानमां जइ ध्यान करे. ध्याननुं स्वरूप जोवुं होय तो आवश्यकसूत्रांतर्गत ध्यानशतक अवलोकन करवुं. नमस्कारमंत्रनो जाप इहलोकमां पण बहुज लाभकारक ठे, ॥ उक्तंच महानिशीथे ॥ नासेइ चोर सावय, विसहरजल जलण बंधण जयाइ ॥ चिंतिज्जांतो रखस, रणरायजयाइ जावेण ॥ १ ॥ अर्थः—चोर, सिंह, सर्प, पाणी, अग्नि, बंधन, संग्राम, राजजय, आ सर्व जय पंच परमेष्ठि मंत्रना स्मरणथी नाश पामे ठे. एकाग्र जावथी जपे तो आ फल थाय ठे. पंच परमेष्ठि मंत्र सर्व स्थले जणवो जोइए. नमस्कार मंत्रना एक अक्षरना जापथी सात सागरोपमनुं करेलुं पाप नाश पामे ठे, जो संपूर्ण पंच परमेष्ठि मंत्र जपे तो पांचसो सागरोपमनुं करेलुं पाप नाश थाय ठे. तथा जे पुरुष एक लाखवार पंच परमेष्ठि मंत्रनो जाप करे, अने नमस्कारमंत्रनी विधिपूर्वक पूजा करे तो तीर्थकर गोत्र, नाम कर्मनो बंध करे. आ कथनमां संदेह नथी; अने आठ क्रोड, आठ लाख, आठ हजार, आठसो, आठ वार जो पंच परमेष्ठि मंत्रनो जाप, जे जीव करे ते वीजा जवमां सिद्ध थाय ठे. ते कारणथी सूतां, उठतां प्रथम नमस्कारस्मरण करवो, त्यारवाद धर्म जागरणा करवी, ते आ प्रमाणे.

हुं कोण हुं? कइ मारी जाति ठे? शुं मारुं कुल ठे? कोण मारा इष्ट देव ठे? कोण मारा गुरु ठे? शुं मारो धर्म ठे? शुं मारो अजिग्रह ठे? शुं मारी अवस्था ठे? शुं मे सुकृतादि करेल ठे? शुं मे दुष्कृत करेलां नथी? शुं हुं करवाने समर्थ हुं? शुं हुं करी शकतो नथी? मने कोइदे-

खे ठे के नहि? पोतानी झूल आत्मा जाणे ठे, ठतां केम तजतो नथी? आज कइ तिथि? क्या अरिहंतनो कल्याणक दिवस ठे? आज माहं शुं कृत्य ठे? क्या देशमां हुं? क्या कालमां हुं? सवारमां उठी ए प्रमाणे स्मरण करवाथी जीव सावधान थइ जाय ठे. जे विरुद्ध कृत्य होय तेनो परिहार करे ठे. पोताना नियमनो निर्वाह, तथा नवीन गुणोनी प्राप्ति थाय ठे. आज धर्म जागरणा आणंद कामदेवादि श्रावकोए करीनें प्रतिमादि विशेष धर्म करणी करेली ठे.

हवे जे श्रावक प्रतिक्रमण करनार होयते प्रतिक्रमण करे, अने जे प्रतिक्रमण न करे, तेपण रागादिमय कुखम, प्रद्वेषादिमय अनिष्ट फलना सूचक, तेउने दूर करवा वास्ते, तथा खममां स्त्रीसंग प्रसंगादिक करवानां खोटां खम आव्यां होय तो, एकसो आठ उठ्ठास प्रमाण कायोत्सर्ग करे. आ कथन व्यवहारजाप्यमां ठे. वली विवेक विलासादि ग्रंथोमां एहुं लख्युं ठे के, खम देख्या पठी, फरी सुहुं नहि; तथा देखेहुं खम दिवसें सदगुरुनीपासे कहेहुं. जो माहुं खम आव्युं होय तो फरी सुहुं ठीक ठे. माहुं खम कोशने कहेहुं नहि. वली समधातुवाला, प्रशांतचित्तवाला, धर्मी, नीरोगी, जितेंद्रिय, आटलाउने जे शुजाशुज खम आवे ते सत्यज थाय ठे. खम नवकारणथी आवे ठे. तेनां नाम कहिये ठिये.

१ अनुजव करेली वस्तुनुं, २ सांजलेली वातनुं, ३ देखेली विनानुं, ४ वात, पित्त अने कफना विकारथी, ५ चिंतित वस्तुनुं, ६ सहज खजावथी, ७ देवताना उपदेशथी, ८ पुण्यना प्रजावथी, ९ पापना प्रजावथी, खम आवे ठे. तेमां प्रथमनां ठ कारणोथी जो खम आवे तो ते निरर्थक ठे, अने पाठलनां त्रण कारणोथी जो खम आवे तो ते सत्य थाय ठे.

रात्रिना पहेला पहोरमां खम आवे तो एक वर्षमां फल आपे, वीजा प्रहरमां खम आवे तो ठ महिनामां फल आपे, त्रीजा प्रहरमां खम आवे तो त्रण महिनामां फल आपे, चोथा प्रहरमां खम आवे तो, एक मासमां फल आपे, सवारमां वे घडी रात्रिठतां खम आवे तो दश दिवसमां फल आपे, सूर्योदयमां खम आवे तो तत्काल फल आपे.

जे खममां बहुज आल जंजाल देखवामां आवे, तथा जे रोगोदयथी खम आवे अने जे मलमूत्रनी बाधा ठतां खम आवे, ते त्रणे खम निर-

र्थक ठे. जो पहैलां अशुच स्वप्न आवे, अने पठी शुच स्वप्न आवे, तो शुच फल आपे, तथा जो पहैलां शुच स्वप्न आवे, अने पठी अशुच स्वप्न आवे तो, अशुच फल आपे; जो मातुं स्वप्न आवे तो शांति अर्थात् देवपूजा, दांनादि करवां. स्वप्न चिंतामणि ग्रंथमां पण लख्युं ठे के, अनिष्ट स्वप्न देखीने सुइ जवुं, कोइने कहेवुं नहि, तेम करे तो पठी ते स्वप्न फल आपतुं नथी. सूता उठीने जिनेश्वर देवनी प्रतिमाने नमस्कार करीने, जिनेश्वरनुं ध्यान करे, स्तुति करे, स्मरण करे, पंचपरमेष्ठि मंत्र उचरे, तो खोडुं स्वप्न लयथइ जाय ठे. वली जे पुरुष देवगुरुनी पूजा करे ठे, निज शक्ति अनुसार तप करे ठे, अने निरंतर धर्मेना रागी ठे, तेउने मातुं स्वप्न पण सारुं फल आपे ठे; तथा जे पुरुष देवगुरुनुं स्मरण करीने, तथा शत्रुंजय, समेतशिखरप्रमुख शुच तीर्थीनां नाम, अने गौतमस्वामि, सुधर्मस्वामि, प्रमुख आचार्यीनां नाम स्मरण करीने सूवे, तेने कदापि मातुं स्वप्न आवतुं नथी.

थुंकवुं होय तो राखमां थुंकवुं जोइए. शरीरने दृढ करवा वास्ते हस्तथी वज्रीकरण करे; अश्रितत्व, तथा वायुतत्व ज्यारे वहेतां होय, त्यारे कसरत करी कंठसुधी दूध पीये; कोइ आचार्य कहे ठे के थाठ पसली पाणीनी पीवी, तेनुं नाम वज्रीकरण ठे. उठतांज माता पिता, पितामह, वडीलजाइ प्रमुखने नमस्कार करे, तो तीर्थयात्रा समान फल ठे. तेथी दररोज नमस्कार करवा जोइए. जेउए वृद्धोनी सेवा करी नथी, तेउने धर्मेनी प्राप्ति थती नथी. जेउ शीलमां, संतोपमां, तथा ज्ञान ध्यानादिमां मोटा होय तेउ वृद्ध कहेवाय ठे. तेउनी सेवा अवश्य करवी जोइये. वली जेणें राजानी सेवा करी नथी, तथा जेणें पोताना शत्रुउने मात कर्या नथी, तेने धर्म, अर्थ अने सुख दूर ठे.

आवकें सवारमां उठी चौद नियम धारवा जोइए. तेनुं स्वरूप आंगल वतावेळुं ठे. विवेकवान् पुरुष सम्यक्त्वपूर्वक वार व्रत विधिसहित गुरुमुखथी धारण करे, कारण के विरतिपणुं अन्यासधीज पली शके ठे, ते कारणथी धर्मेनो अन्यासपण करवो जोइए; अन्यासविना क्रियापण सारी रीतें बनी शकती नथी. ध्यान मौनादि सर्वें, अन्यास करतां दुःसाध्य नथी. जे जीव आ जन्ममां सारो अथवा बुरो जेवो अन्यास करे

ठे, तेज प्रायःत्रविष्यना जन्ममां पामे ठे. वली पांचम, आठम, चौदश प्रमुख दिवसें तपादि नियम धर्मी पुरुषें जे जे अंगीकार करेलो होय, तेमां तिथ्यंतरनी त्रान्तिथी सचित्त-जलादि, पान, तंबोल, प्रमुख खावायोग्य, खाइ लीधुं होय, पठी एम जाणवामां आवे के आजे अमुक तप करवानो दिवस ठे, ठतां मारी जूल थइ गइ, एम याद आवतांज जो कांइ मुखमां होय तो, तेने राखादिमां फेंकी दे, प्राशुक पाणीथी मुखशुद्धि करीने तप कर्तुं होय तेवी रीतें रहे तो नियमजंग थतो नथी; अने जो संपूर्ण जोजन कर्या पठी जाणवामां आवे के, आजे तपनो दिवस ठे, तो आगळे दिवसे दंडनिमित्तें ते तप करे. समाप्त थया पठी तेना उपर पोरिसी एकाशनादि तप अधिक करे; अने जो तपनो दिवस जाणतां ठतां एक दाणोपण खाय तो व्रतजंग थइ जाय ठे; अने व्रतजंग जाणीने करतुं ते नरकादिनो हेतु ठे. वली जो तप कर्या पठी अत्यंत मांदगी थइ जाय, अथवा जूतादि दोषथी परवश थइ जाय, वा सर्पादि करडे, इत्यादि असमाधिमां तप करवाने समर्थ न होय तोपण चार अगार उच्चारण करवाथी व्रतजंग थतुं नथी; एम सर्व नियमोमां जाणीलेतुं. उक्तंच ॥ वयजंगे गुरु दोसो, थोवस्तवि पालणा गुणकारि ॥ गुरुलाघवं च नेयं, धम्म मिअ उ आगारा ॥ १ ॥ अर्थः—व्रतजंग थवाथी महादूषण थाय ठे, जो पालवामां आवे तो थोडुं व्रत पण गुणकारी ठे, ते कारणथी गुरुलघु जाणीने जगवानें धर्ममां आगार कहेला ठे.

वली नियम आ प्रमाणे ग्रहण करवां जोइए. प्रथम तो मिथ्यात्व त्यागवा योग्य ठे. निरंतर यथाशक्ति एक, वे, त्रण वार जिनदर्शन, संपूर्ण देववंदन, चैत्यवंदन करवां जोइए; तेवीज रीतें गुरुनो योग मले तो दीर्घ, लघुवंदना करवी. जो गुरु हाजर न होय तो धर्माचार्यनुं नाम लइ वंदना करवी. वली श्रावक वर्षाश्रुतुमां निरंतर पांच पर्वना दिवसे अष्टप्रकारी पूजा करे; ज्यांसुधी जीवे त्यांसुधी नतुं अन्न, नतुं फल, पकान्नादि देवने चडाव्याविना खाय नहि. निरंतर नैवेद्य, सोपारी, वदामादि देवनी आगल चढावे. त्रण चोमासामां तथा संवत्सरी दिवाली प्रमुखमां चोखानां अष्टमंगल जरी ढोवे. नित्य, वा पर्वना दिवसोए, वा वर्षमां खादिस सर्ववस्तु देव, गुरुने अर्पण करी जोजन करे. प्रतिमास, प्रतिवर्ष महाध्वजा प्रमुख

उत्सव करीने चडावे. स्नात्रमहोत्सव, अष्टोत्तरी पूजा, रात्रि जागरण करे. निरंतर चोमासा आदिमां केटलीएक वार जिनमंदिर, धर्मशाला प्रमार्जन करे, करावे, देरासर समरावे, पौषधशाला लिंपे, लींपावे. प्रतिवर्ष जिनमंदिरमां अंगलुहणां आपे, दीवानेवास्ते रु आपे, तेल आपे, घी आपे, केशर, सुखड आपे, पौषधशालामां कटासणा, मुहपत्ति, चरबला, धोतीआं, कांवल, दोरा, उन प्रमुख आपे. वर्षमां श्रावकोने वेसवावास्ते केटलीएक पाट, वाजोठ प्रमुख आपे. जो निर्धन होय तो पण वर्षमां एक दिवस सुतरना दोरा, वा आंटी प्रमुख आपी संघपूजा करे. केटलाएक साधमीं वंधुजने शक्ति अनुसार जोजन करावी साधर्मिवात्सल्य प्रमुख करे. निरंतर केटलोएक काउसगग करे. स्वाध्याय करे. निरंतर जघन्यथी नवकारसीतुं प्रत्याख्यान करे. रात्रिए चरित्र प्रत्याख्यान करे. वंने वखत प्रतिक्रमण करे. आ करणी प्रथम करवा पठी चार व्रत अंगीकार करे. तेमां पण सातमा व्रतमां सचित्त, अचित्त अने मिश्रवस्तुतुं स्वरूप सारी रीतें जाणवुं जोशए.

जेम प्रायः सर्वधान्य, अनाज, तेमज धाणा, जीरं, अजमो, वरीआली, सुआ, राइ, खसखस प्रमुख सर्वकण, सर्वपत्र, सर्वे लीलांफल, तथा मीतुं खारो, लालरंगतुं सिंधालूण, संचल, माटी, खडी, हिरमची, लीलां दातण प्रमुख, सर्वव्यवहारथी सचित्त (सजीव) ठे; तथा पाणीमां पलालेला चणा, घडं प्रमुख अनाज, तथा चणा, मग, अडद, तूअर प्रमुखनी दाल जेमां आखा दाणा रहीगया होय, ते सर्वे मिश्र ठे; तथा प्रथम मीतुं लगाडीने अग्निनी वाष्प प्रमुख आप्या विना, तथा तपावेल्ली रेतीमां नाख्याविना चणा, घडं, जुआर प्रमुख जूजे ते, तथा खारो प्रमुख आप्याविना मसखेला तल, लंदा, लंवी, पोंक, थोडी शेकेली फली तथा चिचडा प्रमुखफल, मरचां, राइ हींग प्रमुखथी वघारे; तथा जेनी अंदर बीज सचित्त होय एवां पाकेलां सर्वफल, मिश्रठे. तथा तलवट, तिलकूट जे दिन करवामां आवे ते दिन मिश्रठे. जो तलमां अनाज प्रमुख नाखी कूटे तो एक मुहूर्त्त पठी अचित्त थायठे. वली दक्षिण मालवादि देशोमां बहु गोल प्रमुख नाखवाथी तेज रोज अचित्त थइ जायठे. वृद्धनो तत्काल उखडेलो गुंदर, लाख, ठाल, तरततुं फोडेकुं नालीचेर, लींबु, दाडम,

संतरां, केरी, निंब तथा शेरडीनो तत्कालनो काढेलो रस, तथा तत्काल काढेलुं तलनुं तेल, तत्काल जांगेलां वीज, नालीयेर, सोपारी, सिंगोडां-प्रमुख, तथा वीजरहित करेलां पाकां फल खडबूजादि, तथा अत्यंत मर्दन करीने कणकाढेला जीरादि, आ सर्व अंतर्मुहूर्त सुधी मिश्र ठे, पठी प्राशुकनो व्यवहार ठे. तथा वीजांपण प्रबल अग्निना योगविना प्राशुक करेला अंतर्मुहूर्त सुधी मिश्रठे, पठी प्राशुकनो व्यवहार ठे. वली अ-प्राशुक पाणी, काचां फल, काचां अनाज अगर जो बहुज मर्दन कर्यां होय तोपण लवण अग्नि प्रमुख प्रबल शस्त्र विना, प्राशुक यतां नथी; कारण के श्री पंचमांग जगवतीसूत्रना उगणीशमा शतकना त्रीजा उदेश-मां लख्युं ठे के. वज्रमय शिला, वज्रमय लोटो, अने आमला प्रमाण पृथ्वीकाय लक्ष्णे एकवीश वार वाटवामां आवे तोपण केटलाएक पृथ्वीकायना जीवोनो लोटाने स्पर्श पण यतो नथी, एवी ते जीवोनी सूक्ष्म कायाठे.

वली सो योजन उपरांतथी आवेलां हरडां, खारेक, द्राक्ष, लालद्राक्ष, खजुरादि मेवा, तीखां, पीपर, जायफल, बदाम, अखोड, नेउजा, जरगोजा, पस्तां, चारोली, चीनी, उज्वल सिंधालूण, साजी, जठ्ठीमां पकावेळुं लूण, वनावटी खार, कुंजारें करेली माटी एलायची, लवांग, जावंत्री, सूकी मोथ, कोकणदेश प्रमुखनां केलां उनां करेलां सिंगोडां, सोपारी, आ सर्वनो प्राशुक व्यवहार ठे. साधु पण कारण प्रसंगें ग्रहण करे ठे. आ वात कल्पज्ञाप्यमां पण लखेली ठे. “जोयण सयं तु गंतु अणाहारे जंड संकंति” इत्यादि. तेमां हरडे, पीपर प्रमुख आचरणीय ठे ते कारणथी वेवाय ठे, अने खजूर, द्राक्ष प्रमुख अनाचरणीय ठे. वली उत्पल कमल, पद्मकमल, तडकामां राखवाथी एक पहोरनी अंदरज अचित्त थइ जाय ठे; अने मोगरानां फुल, जुझनां फुल तडकामां बहुवखत पढ्यां रहे तो पण अचित्त यतां नथी, परंतु मोगरानां फुल पाणीमां नाखेलां एक पहोरनी अंदरज अचित्त थइ जाय ठे, अने उत्पल कमल तथा पद्मकमल वंने पाणीमां राखवाथी बहु वखत सुधी अचित्त यतां नथी. “शीतयोनिकत्वात्.” तथा पांदडाना, कूळोना, तेमज जे फलोमां गोठली बंधाइ न होय तेना, तथा बथुआ प्रमुख छीछी वनस्प-

तिना, आ सर्वना डीटीआं (वृत्) करमाइ जाय त्तारे ते जीवरहित थयां जाणवां, आ कथन श्रीकल्पजाप्यवृत्तिमां ठे.

श्री पंचमांगना ठठा शतकना पांचमा उद्देशामां सचित्त अचित्त वस्तुनुं स्वरूप आ प्रमाणे लखेलुं ठे, शाल, व्रीहि, घउं, जव, जवजव, आ पांच धान्यनी जाति कोठारमां, मोटा पालामां वा माळा याने कोठार विशेषमां मुख ढांकीने राखे तथा लींपे, चारे वाजुथी लींपे, अने उपर मजबुत ढांकणुं राखी सील मारवाजेतुं वंध करे तो केटलाककाल सुधी तेमां जीव योनि रहे ? आ प्रमाणे प्रश्नुठवाथी जगवान् कहेठे के हे गोतम ! जघन्य तो अंतर्मुहूर्त रहे, अने उत्कृष्ट तो त्रण वर्ष रहे, पठी अचित्त थइ जाय. तथा वटाणा, मसूर, तल, मग, अडद, वाल, कलथी, चोला, तुश्चर, चणा इत्यादि धान्य सर्व उपर प्रमाणे जाणवुं, परंतु ए-टलुं विशेषके, ते उत्कृष्टथी पांच वर्ष उपरांत अचित्त थइ जाय ठे. तथा अलसी, कसुंवानी करड, कोडुं, कंगणी, वंटी, राल, कोडुसक, सण, सरसव, मूलीनां बीज इत्यादि धान्यपण उपर प्रमाणे जाणवां, परंतु उत्कृष्टथी सात वर्ष उपरांत अचित्त थइ जाय ठे. तथा कपासनां डोडवां उत्कृष्टथी त्रण वर्ष उपरांत अचित्त थइ जाय ठे. आपण कल्पजाप्यनी वृत्तिमां ठे. तथा चाट्या विन्नानो आटो (लोट) श्रावण, चादरवा महिनामां पांच दिवस सुधी मिश्र रहेठे. पठी अचित्त थाय ठे; आसो, कारतक मासमां चारदिनसुधी मिश्र रहेठे, पठी अचित्त थाय ठे; मागसर पोस मासमां त्रणदिन सुधी मिश्र रहे ठे, पठी अचित्त थाय ठे; माहा, फागणमासमां पांच पहोर मिश्र रहे ठे, तथा चैत्र, वैशाख मासमां चार पहोर मिश्र रहे ठे, तथा ज्येष्ठ, आषाढ मासमां त्रणपहोर मिश्र रहे ठे, उपरांत अचित्त थइ जाय ठे. जो तत्काल चाली ले तो अंतर्मुहूर्तसुधी मिश्र रहे, पठी अचित्त थाय ठे.

प्रश्नः— पीसेलो आटो केटला दिवसनो अचित्त जोगीने तथा श्रावकने खावो योग्य ठे ?

उत्तरः— सिद्धांतमां आटानी मर्यादानो नियम अमारा वाचवामां आव्यो नथी, परंतु बुद्धिमान् नवुं जुनुं अनाज, सरस नीरस क्षेत्र, वर्षा, शीत, उष्णादि ऋतु, तेमां पण ते आटानो पंदर दिवस के मासादि का-

लमां, वर्ण, गंध, रस, स्पर्शादि वगडेल देखे, तेमज तेमां सुरसली प्रमुख जीव पडेल्ला देखे तो ते न खाय; जो खायतो जीवहिंसा थाय अने रोगोत्पत्तिनुं कारण थाय.

मिठाइनी मर्यादा अने वीदलनो निषेध, उपर सातमा व्रतमां लखी आठ्या ठीए; त्यांथी जाणवुं. दहीमां सोल पहोर उपरांत जीव उत्पन्न थाय ठे, वली विवेकी जीवोयें रींगणां, टींवर, जांबु, घिलां, पीलु, कमदां, पाकां गुंदां, पंचु, महुडां, मोर, वालोल, मोटां वोर, चणीआंवीर काचां कोठ फल, खस खस, तल इत्यादि न खावां जोइए. तेमां त्रस-जीव थाय ठे. तथा जे फल लालरंग देखवामां वूरां लागे, पाकीगयेलां तथा गोल, एवा कंकोडां, फणस प्रमुखपण वूरी जावनाना हेतु होवाथी न खावां जोइए. वली जे फल जे देशमां खावां विरुद्ध लागे, जे मके कडवुं तुंवडुं, कूप्मांड अर्थात् कोहोळुं हलवुं (कडु) ते पण न खावां जोइए. वली अज्जदय, अनंतकाय, कंदमूल, पठी ते परघरनां अचित्त करेलां, रांधेलां होय तोपण न खावां जोइए; कारण के एक तो निःशूकता अने बीजा रसलंपटता तथा वृद्ध्यादि दोषनो प्रसंग थाय ठे. ते कारणथी न खावां जोइए. तथा उकालेलां सेलरां, रांधेलां आर्झादि-कंद, सूरण, रींगणाप्रमुख अगरे जो के अचित्त ठे तोपण आवक प्रसंगदूपण त्यागवा वास्ते न खाय. वली मूला तो पंचाग खावा योग्य नथी. निषिद्धत्वात्. तथा शूठ अने हलदर, नाम तेमज खाद जेद थवाथी अज्जदय नथी. तथा उकालेळुं पाणी त्रण उजरा आवे तयारे अचित्त थइ जाय ठे. आ कथन पिंडनिर्युक्तिमां ठे. चोखाना धोणनुं पाणी ज्यारे नितरीने निर्मल थइजाय, तयारे अचित्त थाय ठे. वली उण जलनी मर्यादा प्रवचनसारोद्धारादि ग्रंथोमां आ प्रमाणे लखी ठे. त्रण वखत उजरा आवेलुं उणजल उनालाना चारे मासमां पांच पहोर अचित्त रहेठे. आ चूलेथी उतार्या पठीनी मर्यादा ठे. तथा वर्षाकृतुना चारे मासमां त्रण पहोर अचित्त, अने शियालाना चारे मासमां चार पहोर अचित्त रहे ठे, पठी सचित्त थइ जाय ठे. जो ग्लान, वाल, वृद्धादि साधु वास्ते मर्यादा उपरांत राखवुं होय तो द्वारादि वस्तुनो प्रक्षेप करीने राखवुं, तेम करवाथी सचित्त थतुं नथी. आ कथन प्रवचन सारोद्धारना

१३६ मा द्वारमां ठे. तथा कांगडु मग, मठ अने हरडादिनां मीज (गो-
ठली) अग्ररजो के अचित्त ठे, तोपण योनि राखवा वास्ते, तथा निःशू-
कतादि परिहार वास्ते दांतथी तोडवा न जोइए. इत्यादि सचित्त वस्तुनुं
स्वरूप जाणीने सातमुं व्रत अंगीकर करवुं जोइए.

श्रावकें प्रथम तो निरवद्य (दोष रहित) आहार करवो जोइए, तेम
न करी शके तो सर्व सचित्त वस्तु खावानो त्याग करवो जोइए; तेम
पण न करी शके तो वावीश अन्नद्वय अने वत्रीश अन्नंतकाय तो अ-
वश्य त्यागवा जोइए. वली चौद नियम धारवा जोइए. सूइ उठीने य-
थाशक्ति नियम ग्रहण करवुं, पठी यथाशक्ति प्रत्याख्यान करवुं. नम-
स्कार सहित पोरसी प्रमुख प्रत्याख्यान, जो सूर्य उदय पहेलां उचर-
वामां श्रावे तो शुरू ठे, अन्यथा शुरू नथी. शेष प्रत्याख्यान सूर्योदय
पठी पण थइ शके ठे. नवकारशी जो सूर्योदय पहेलां उचरवामां श्रावी
होय तो तेनी पठीना पोरसी तेमज साढ पोरसी प्रमुख प्रत्याख्यानो थइ
शके ठे. जे नमस्कारसहित सूर्योदयनी पहेलां उच्चारण न करीए तो
कोइपण काल प्रत्याख्यान करवुं शुरू नथी; अने जो प्रथम नमस्कारा-
दि प्रत्याख्यान मुष्टि सहितादि करे तो सर्वकाल प्रत्याख्यान करवा-
मां श्रावे ते शुरूज थाय ठे.

रात्रिए चौविहार करे अने दिवसें एकासणुं करे, पठी ग्रंथिसहित
प्रत्याख्यान करे तो तेने दरेकमासमां उगणत्रीश उपवासनुं फल मखे ठे.
दररोज वे वखत नोजन, उपर कहेली रीति प्रमाणे करे तो तेने अष्टा-
वीश उपवासनुं फल मखे ठे; कारण के नोजन करतां वे घडी काल ला-
गे ठे, बाकीनो काल तपमां व्यतीत थाय ठे. आ कथन पद्मचरित्रमां ठे.
प्रत्याख्यान उपयोगपूर्वक पुरुं थइजाय तो पारे.

हवे चारप्रकारना आहारना विजाग कहीयें ठीयें. अनाज, पक्वान्न,
रोटखा प्रमुख, जेनाथी ह्युधानो नाशथइ शके, ते प्रथम अशन नामनो
आहार ठे. ठाशनुं पाणी तथा उष्णजल प्रमुख आ बीजो पाननामा आ-
हार ठे. फल, फूल, शेलडीरस, सुखडीप्रमुख, आ त्रीजो खादिमनामा
आहार ठे; अने सूंठ, हरडे, पिपलीमूल, तीखां, जीरं, अजमो, जायफल,
जावंत्री, अशोलीठं, खेरवडी, जेठीमध, तज, तमालपत्र, एलायची, कोठ,

विडंग, विडलवण, अजमोद, कुलिंजण, पीपर, चीणकवाव, कचूर, मुस्ता, कंटासेलीउं, कपूर, संचल, हरडां, वहेडां, कुंठजठं, बबुल, धव, खदिर, पान, सोपारी, हिंग, हिंगुलाष्टक, त्रेवीसठं, पंचकुल, पुष्करमूल, जवासा मूल, वावची, तुलसी, आ सर्व खादिम नामा चोथा आहारमां ठे. प्रवचन सारोद्धारादि ग्रंथो तेमज ज्ञाप्यमां आ विचार वतावेल ठे. कल्पवृत्तिमां तेने खादिम कहे ठे. कोइ अजमाने पण खादिम कहे ठे. आ मतांतर ठे. आ सर्वस्वादिमनामा आहार ठे. वली एलायची तथा कपुरप्रमुखथी वासित करेलुं जल डुविहार प्रत्याख्यानमां पीवुं कल्पे ठे. तथा वेशण, वरीआली, सोय, कोठवडी, आमलागांठ, आंवाणी गोठली, लोंबुनां पान प्रमुख खादिम होवाथी डुविहार प्रत्याख्यानमां लेवां कल्पतां नथी. त्रिविहार प्रत्याख्यानमां मात्र जल पीवुं कल्पे ठे. तेमां पण फुकारेलुं पाणी, तथा साकर, कपुर, एलची, कष्टा, खेर, चूर्णक, सेलक, पाडलादिवासित जल, जो नितारीने तेमज गलीने वापरे तो कल्पे, अन्यथा नही.

शास्त्रोमां मध, गोल, साकर, खांडप्रमुख स्वादिममां गणेलो ठे, अने डाह, शर्करादि जल, तक्र प्रमुखने पानमां गणेलो ठे, तो पण ते डुविहार प्रत्याख्यानमां कल्पता नथी. उक्तं च ॥ नागपुरीयगठना करेला प्रत्याख्यानज्ञाप्यमां कहुं ठे के ॥ दखा पाणाईयं, पाणं तह साइमं गुडाईयं ॥ पढियं सुयंमि तहविहु, तिचीजणगंति नायरिअं ॥ १ ॥ स्त्रीनी साथे जोग करवाथी चोविहारनो जंग थतो नथी; परंतु घालकना तथा स्त्रीना होठ मुखमां लइ चुंवन करवामां आवे तो जंग थाय. वली डुविहार प्रत्याख्यानमां तेम पण करे तो जंग थतो नथी. प्रत्याख्यान मात्र आहारनुंज कराय ठे, परंतु रोम आहारनुं करवामां आवतुं नथी, तेथी लेपादि करवाथी प्रत्याख्यानमां जंग थतो नथी.

वली नीचेनी वस्तुं कोइपण प्रकारना आहारमां गणाती नथी तेनां नाम. पंचांग लोंवडो, गोमूत्र, गली, कडुं, करीआतुं, अतिविप, कडानी ठाल, चीड, चंदन, डाख, हरिडा, रोहणी, उपलोठ, वज, त्रिफला, वायलनी ठाल, धंमासो, नहि, आसंध, रिंगणी, एडियो, गुगल, हरडां दख, कपासनी जड, जाल, वेरी, कंधेर, करीर, तेनी जड, पुंआड, वाह-

थोरी, आठी मजीठ, बोल, वीजकाष्ठ, कुंथार, चित्रक, कुंदरु प्रमुख जे जे वस्तुज खामामां अनिष्ट लागे ते सर्व अणाहारिक ठे. आ अणाहारी वस्तु रोगादि कष्टमां चोविहार प्रत्याख्यानमां पण खामामां थावे तो जंग थतो नथी. आ प्रमाणे आहारना जेद जाणीने प्रत्याख्यान करे.

पठी दिशाए जवुं, दांतण करवुं, उल उतारवी, कोगला करवा, आ सर्व देशस्नान करी पवित्र थवुं जोइए. आ कथन अनुवादरूप ठे; कारण के पूर्वोक्त सर्वकामो सवारमां उठी प्रायः सर्व गृहस्थ करे ठे; तेमां शास्त्रोपदेशनी अपेक्षा नथी, कारण के व्यवहारथी स्वतः सिद्ध ठे, परंतु तेनो विधि शास्त्रमां कहेलो ठे. प्रथम मलोत्सर्ग (दिशाए जवा) नो विधि आ प्रमाणे ठे. ॥ यद्रुक्तं विवेकविलासग्रंथे ॥ मूत्रोत्सर्गं, मलोत्सर्गं मैथुनं स्नानजोजनं ॥ संध्यादिकर्म पूजा च, कुर्याज्जपं च मौनवान् ॥ १ ॥ अर्थः—मुतरवुं, दिशाए जवुं, मैथुन करवुं, स्नान, जोजन, संध्यादि कर्म, पूजा, जाप, आ सर्व मौनपणें करवां; तथा वने संध्या वस्त्र पेहेरीने करे दिवसे उत्तर सन्मुख मुख राखी लघुशंका करे. वली सर्व नक्षत्रोतुं तेज सूर्यथी अवराइ जाय, अने सूर्यनुं मंडल अर्धवहार थावे त्यांसुधी सवारनी संध्या करे; तथा सूर्य अर्थ अस्त थाय, पठी वे त्रण नक्षत्रो ज्यां सुधी नजरे न पडे, त्यांसुधी सायंकाल कहेवाय ठे. वली राखना ढगला उपर, ठाणना ढगला उपर, गायोने वेसवाना स्थानमां, सर्पनी वंवी उपर, ज्यां बहुलोक पुरीषोत्सर्ग करता होय त्यां, उत्तम वृद्धनी नीचे, रस्ता उपरना वृद्धनी हेठल, रस्तामां सूर्य सन्मुख, पाणीनी जगामां, स्मशानमां, नदीना कांठा उपर, जे जगाने खीउं पूजती होय ते जगाउपर, इत्यादि स्थानोमां मलोत्सर्ग न करे. परंतु ज्यां वेसवाथी कोइ गाल दीए नहि, मारे कुटे नही, पकडी लइ जाय नहि तेवा स्थानमां तेमज ज्यां वेसवाथी पडी जवाय नही, ज्यां जमीनमां पोलाण होय नही, मछर डांसादि त्रसजीव तथा वीजप्रमुख होय नही, एवा उचित स्थानमां मलोत्सर्ग करे. वली गामनी तथा कोशना घरनी समीप मलोत्सर्ग न करे. जे तरफथी पवन आवतो होय, तथा गामनी पूर्व दिशि तरफ पुंठ करीने मलोत्सर्ग न करे. तथा मूत्रनो वेग रोकवो नही. मूत्रनो वेग रोकवाथी नेत्रमां हानि थाय ठे, अने दिशानो

वेग रोकवाथी मृत्यु थइ जाय ठे. वली वमन रोकवाथी कुष्ट रोग थइ जाय ठे. कदापि आ त्रणे वात नही. थाय तो रोग तो अवश्य थरो. श्लेष्म करवामां आवे त्त्यारे तेना उपर धूड नाखी देवी; कारण के श्री प्रज्ञापना उपांगना प्रथम पदमां लख्युं ठे के चौदस्थानमां संमूर्धिम जीव उत्पन्न थाय ठे. ते चौदस्थाननां नाम १ पुरीष (विष्टा) मां, २ मूत्रमां, ३ मुखना थुंकमां, ४ नाकना मेलमां, ५ वमनमां, ६ पित्तमां, ७ वीर्यमां, ८ वीर्य रुधिरना संगममां, ९ राध (परु) मां, १० वीर्यना पुद्गल अलग निकली पडे तेमां, ११ जीवरहित कलेवरमां, १२ स्त्री पुरुषना संयोगमां, १३ नगरनी मोरीमां, १४ सर्व अशुचिस्थानमां, जेमके कानना मेलमां, आंखना चीपडामां, बगलना मेलमां; इत्यादि. आ सर्वे चौद वोल मनुष्यना संसर्गवाला ग्रहण करवा अने ज्यारे शरीरथी अलग मेल थाय ठे, त्त्यारे जीव उत्पन्न थाय ठे.

वली दांतण पण निरवद्य स्थानमां करे. दातण अचित्त जाणेलो वृ-
ह्मनुं कोमल करे; दांतोने दृढ करवा वास्ते तर्जनी आंगलीथी दांतोनी
वीड घसे; जे दांतोने मेल पडे, तेना उपर धूड नाखी दे. दातण पण के-
वीरीतें करे? दातण सीधुं, गांठ विनानुं, जेनो कुचो सारो थाय तेवुं,
आगल जतां पातळुं, नानी आंगली समान जाडुं, सारीचूमिमां उत्पन्न
थयेवुं, एवुं लइ तेने कनिष्ठा अने अनामिका आंगली वचे पकडी, प्रथम
जमणी दाढा घसे, पठी डावी दाढा घसे; स्वस्थ थइ उपयोगथी दांतने
अने पेढाने पीडा न थाय तेम घसे. उत्तर तथा पूर्वसन्मुख निश्चलासन
थी वेसी मौनयुक्त दातण करे. दुर्गंधी, सुकी, पोली, खाटी, खारी वस्तु
दांतने न घसे वली व्यतीपात, रविवार, संक्रातिदिन, ग्रहण लागवाने
दिन, नवमी, अष्टमी, पडवो, चौदश, पूर्णमासी, अमावास्या, आ दिनो
मां दातण न करे. जो दातण न मले तो मुख शुद्धिने वास्ते वार को-
गला करे, अने उलतो हमेशां उतारे. दातणनी फाडथी जीजनो मेल
हलवे हलवे सघलो उतारीने शुद्ध स्थानमां दातण धोइने पोताना मु-
खसन्मुख नाखे. वली खांसीवालां, श्वासवालां, तपवालां, अजीर्णवालां,
शोकवालां, तृपावालां, मुख पाकेलां, मस्तक, कान, नेत्र, हृदयना रो-
गवाला, दातण न करे.

मस्तकना केशने निरंतर समारे, जेथी माथामां जून पडे. पठी तिलक करे. तिलक करती वखते आरीसामां पोतानुं मुख न देखे तेमज मस्तक न देखे तो पांच दिवसनी अंदर पोतानुं मरण जाणवुं. जेणें उपवास पोरसी प्रमुख प्रत्याख्यान कर्युं होय ते दांत धोया विना शुद्ध ठे, कारण के तपनुं फल बहुज उत्तम ठे. लौकिक शास्त्रोमां पण उपवासादि करे तो दातण विनाज देवपूजा करे एवो पाठ ठे, ते कारणथी उपवासादिमां दातण करवानो लौकिकशास्त्रोमां निषेध ठे. यद्गुक्तं विष्णुचक्रिचंद्रोदय ग्रंथे ॥ प्रतिपदर्शपष्ठीपु, मध्यांते नवमीतिथौ ॥ संक्रांतिदिवसे प्राप्ते, न कुर्यात् दंतधावनं ॥ २ ॥ उपवासे तथा श्राद्धे, न कुर्यात् दंतधावनं ॥ दंतानां काष्ठसंयोगो, हंति सप्त कुलानि वै ॥ ३ ॥ इत्यादि.

ज्यारे स्नान करे त्यारे पनक कुंथुआदि जीवोथी रहित चूमिमां स्नान करे. चूमि उंची, नीची तथा पोली न होय त्यां स्नान करे. उष्ण प्राशुक जलथी स्नान करे, जो उष्ण जल न मळे, तो वस्त्रथी गली प्रमाण संयुक्त शीतल जलथी स्नान करे. व्यवहारशास्त्रोमां लख्युं ठे के, नम्र थइने, रोगठतां, परदेशथी आवीने, जोजन कर्या पठी, आचूपण पेहेरीने, कोइने विदाय करीने, मांगलिक कार्य कर्या पठी स्नान न करे; तथा अजाण्या पाणीमां, दुष्प्रवेशजलमां, मेलाजलमां, वृद्धोथी आढादित थयेला, शेवालथी आढादित जलमां स्नान न करे. वली शीतजलथी स्नान करी उष्णजोजन न करवुं जोइए. अने उष्ण जलथी स्नान करी शीत जोजन न करवुं जोइयें. तेलमर्दन निरंतर करवुं जोइए. स्नान कर्या पठी जेनी कांति फीकी देखाय, तथा जेना दांत परस्पर घसाय, अने जेना शरीरमां मडदा जेवी गंध आवे, तेनुं मरण त्रणदिवस अंदर समजवुं; तथा स्नान कर्यापठी जेना हृदयमां तथा वंने पगोमां तत्काल पाणी शोपाइ जाय, तो तेनुं ठ दिवसमां मरण समजवुं. मैथुनसेवीने तथा वमनकर्या पठी थोडीवार पठी स्नान करवुं. मृतकनी चितानो धुमाडो लाग्यो होय तथा मस्तक मुंडाव्युं होय तो गळेला शुद्ध जलथी स्नान करवुं. तेलमर्दनकरी स्नान कर्या पठी उज्वल वस्त्र, आचरण, पहरेवां. प्रयाणकरवाना दिवसे, संग्राममां जतां, विद्यामंत्र साधतां, रातना, सांके, पर्वदिवसे, नवमेदिवसे, स्नान न करे तथा मस्तक पण न मुंडावे, तथा

पक्ष्मां एकवार दाढीमस्तकना केश तथा नख दूर करावे, पोताने हाथे तथा दांते नख न उतारे. स्नान करवाथी शरीर पवित्र चैतन्य सुखकर, जावशुद्धिनो हेतु थाय ठे ॥ उक्तं च द्वितीये अष्टकप्रकरणे ॥ जलेन देहदेशस्य, कृष्णं पत् शुद्धिकारणं ॥ प्रायोन्यानुपरोधेन, अव्यस्नानं तदुच्यते ॥ १ ॥ अर्थः— जलथी शरीरनी त्वचामात्रनीज कृष्णमात्र शुद्धि ठे परंतु दीर्घकाल नही. शुद्धि जे थाय ठे ते पण प्रायः ठे. एकांत नथी, कारण के अतिसारादि रोगवालाने कृष्ण मात्र पण शुद्धि थती नथी. धोवा योग्य मेलथी बीजा नासिकादि अंतर्गत मेल जे ठे ते स्नानथी दूर थता नथी, अथवा पाणीविना बीजा जीवोनी हिंसा न करवाथी जे स्नान ठे ते बाह्य स्नान ठे. जे पुरुष स्नान करी जगवाननी तेमज साधुनी पूजा करे, तेनुं स्नान पण सारुं ठे, कारण के ते स्नान जावशुद्धि नुं निमित्त ठे. स्नान करवामां अप्रकायना जीवोनी विराधना ठे, तो पण सम्यक् दर्शननी शुद्धि रूप गुण ठे. ॥ यदुक्तं ॥ पूजाए कायवहो, पडिकुठो सोड किंतु जिण पूथा ॥ सम्मत्त शुद्धि हेउ, ति जावणीयाउं निरवज्जा ॥१॥ अर्थः—कोइ कहे ठे के पूजा करवाथी जीववध थायठे अने जीववध तो शास्त्रमां निषेध करेल ठे, ते कारणथी पूजा न करवी जोइए, तेनो उत्तर एवो ठे के, जिनराजनी पूजा, सम्यक्तवनी निर्मलता करनारी ठे, ते कारणथी जिनपूजा निरवध ठे. ए प्रमाणे देवपूजा वास्ते गृहस्थने स्नान करवा कहुं ठे, तथा शरीरना चैतन्य सुखवास्ते पण स्नान ठे, परंतु स्नान करवाथी पुण्य थाय ठे एम मानवुं ते मिथ्या ठे, कारण के जे कोइ तीर्थमां जइ जाणीने स्नान करे ठे तेने पण शरीर शुद्धि शिवाय बीजुं कांइ पण फल थतुं नथी. आ वात अन्यदर्शनना शास्त्रोमां पण कथन करेली ठे. उक्तं च ॥ स्कंदपुराणे काशीखंडे पष्ठाध्याये ॥ श्लोक ॥ मृदो चारसहस्रेण, जलकुंजशतेन च ॥ न शुद्ध्यंते दुराचारा; स्नानतीर्थशतैरपि ॥१॥ जायन्ते च त्रियंते च, जलेष्वेव जलौकसः ॥ न च गच्छन्ति ते स्वर्गं, मविशुद्धमनोमलाः ॥ २ ॥ चित्तं समाधिजिः शुद्धं, वदनं सत्य जापणैः ॥ ब्रह्मचर्यादिजिः कायः, शुद्धोगंगां विनाप्यसौ ॥ ३ ॥ चित्तं रागादिजिः क्लिष्ट, मलीकवचनैर्मुखं ॥ जीवहिंसादिजिः कायो, गंगा तस्य पराङ्मुखी ॥ ३ ॥ परदारा परद्रव्य, परद्रोहपराङ्मुखः ॥ गंगाप्या-

ह कदागत्य, मामयं पावयिष्यति ॥ ५ ॥ जलथी स्नान करवाथी असं-
ख्यजीवोनी विराधना थाय ठे, ते कारणथी पुण्य नथी. जलमां जीवना
अस्तित्वपणा माटे मीमांसाशास्त्रमां पण सिद्धि ठे ॥ यद्भुक्तं ॥ उत्तरमी-
मांसायां ॥ लूतास्यतंतुगलिते, ये क्रुद्धाः सन्ति जंतवः ॥ सूक्ष्मा त्रम-
माणास्ते, नैवयान्ति त्रिविष्टपं ॥ १ ॥ इत्यादि ॥

स्नान कर्यापठी गुंमडां होय अने राधादि स्त्रवे तो स्नानकरनारें अंग-
पूजा करवी नहि, वीजापासे कराववी, अने अग्रपूजा तथा चावपूजा
पोते पण करे तो कांश् दोष नथी. थोडीपण अपवित्रता होय तो देव
स्पर्श न करे. स्नान कर्यापठी पवित्र, मृष्टु, गंध, कापायिकादिवस्त्र पो-
तीयां ठोडीने पहेरे. पाणीथी जीजेला पगोथी धरतीने नही स्पर्श क-
रतां, पवित्र स्थानमां जश् उत्तर सन्मुख मुखकरी, सारां, मनोहर, नवां
वस्त्र, फाव्याविनानां, शिवायाविनानां, वर्णमां धोलां, एवां वस्त्र पहेरे. जे
वस्त्र केडमां पहेरेलुं होय, तथा जे वस्त्र पहेरी दिशायें गया होय, तथा
जे वस्त्र पहेरी मैथुनसेवन करेल होय, ते वस्त्र पहेरी पूजादि न करे;
वली एक वस्त्र पहेरी जोजन तथा देवपूजादि न करे. स्त्री कांचली प-
हेर्याविना देवपूजा न करे. ए प्रमाणे पुरुपने वे वस्त्र तथा स्त्रीने त्रण
वस्त्र पहेर्या विना पूजा करवी कल्पती नथी. देवपूजामां धोतीयुं अत्यंत
निर्मल धोलुं करवुं जोश्ये, निशीथचूर्णी तथा श्राद्धदिनकृत्य प्रमुख
ग्रंथोमां ए प्रमाणेज लख्युं ठे. तथा पूजा पोढशमां लख्युं ठे के, रेशमि
आदि जे सुंदर वस्त्र, लाल, पीलां होय ते पण पूजामां पहेरे तो ठीक ठे.
तथा “ एक साडियं उत्तरासंगं करेश् ” इत्यादि आगम प्रमाणथी उत्त-
रासंग अखंडवस्त्रनुं करे. वे कटके शीवेलुं वस्त्र पूजामां न कल्पे. वली
रेशमी वस्त्र पहेरी जोजन करे, पठी मनमां विचारे के आ तो सदा प-
वित्र ठे, एवा रेशमि वस्त्रथी जिनपूजा न करे. तथा जे वस्त्र पहेरी पूजा
करे, ते वस्त्रने पण पहेरवाने अनुसारे वारंवार धोवरावे. धूपदश् पवित्र
करे. धोतीयुं थोडावखतज पहेरवुं जोश्ये, ते धोतीयाथी परसेवो के श्ले-
ष्म दूर न करवां जोश्ये. कारण के तेम करवाथी अपवित्रता थाय ठे.
वली पहेरेलावस्त्रोनी साथे पूजानां वस्त्रो अडाडवां न जोश्ये. वीजानां
पहेरेलां धोतीयां पहेरवां न जोश्यें. वली वाल, वृद्ध, स्त्रीना पहेरवामां

आव्यां होय ते वस्त्र तो विशेषें करी न पहरेवां जोइए. वली सारा स्थानथी उत्तम तथा कुशलमाणस पासे, पवित्र वासणथी आञ्जानसंयुक्त, रस्तामां लाववाना विधिसहित, पाणी तथा पुष्प पूजा वास्ते मगाववां जोइए. पुष्प लावनारने सारी रीतें किंमत आपी प्रसन्न करवो जोइये. पंठी मुखकोशवांधी, पवित्रस्थानमां, जेमां कोइ जीवन पढ्या होय एवा शोधेला केशर, कर्पूरादिथी मिश्रचंदन घसे, शोधेलो सुंदर धूप, दीप, अखंड चोखा, अस्पृश्यां प्रशंसा करवा योग्य नैवेद्य, फलादि सामग्री मेलवे. आ प्रमाणे अव्यथी पवित्र थई, तथा जावथी पवित्रता, राग द्वेष, कषाय, ईर्ष्या रहित थइ, तथा इहलोक, परलोकना सुखोनी इछा रहित थई, अने कुतूहल, चपलतादि त्यागकरी, एकाग्र चित्तारूप जाव शुद्धि करे ॥ उक्तंच ॥ मनोवाक्कायवस्त्रोर्वी, पूजोपकरणस्थितेः ॥ शुद्धिः सप्तविधा कार्या, श्रीअर्हत पूजनक्षणे ॥ १ ॥

ए प्रमाणे अव्यजावथी शुरू थई जिनमंदिरमां दक्षिणदिशाए पुरुष अने वामदिशाए स्त्री, यत्नपूर्वक प्रवेश करे. प्रवेशना अवसरमां दक्षिण पग प्रथम धरे, पंठी सुगंधवाला, मीठां सरसअव्योथी, पराङ्मुख वामस्वर चालतां, मौनपणे देवपूजा करे. वली त्रण नैवेधिकी करण त्रण प्रदक्षिणा विधिथी पवित्र पाटउपर पद्मासनादि सुखासनपर बेसी, चंदनना गाममांथी चंदन बीजी कटोरीमां तथा हथेलीमां लई मस्तकमां तिलक करे. तथा हस्तकंकण श्री चंदनचर्चित, धूपित हस्तथी जिन अर्हतने पूजी, १ अंग पूजा, २ अग्रपूजा, ३ जावपूजा, जेतुं स्वरूप आगल कथन करवामां आवशे, ते प्रमाणे पूजी, प्रत्याख्यान जे पूर्वे कर्तुं हुतुं, ते यथाशक्ति देवनी साक्षीए उच्चारे, त्यार पंठी विधिथी मोटा पंचायती देरासरमां जई पूजा करे, ते आ प्रमाणे विधि सहित करे.

जो राजा प्रमुख महाकृद्धिवाला पूजा करवा जाय तो सर्वशुद्धि, सर्वशोभा, सर्वयुक्ति, सर्वसेना प्रमुख मेलवी अतिउद्यमसहित जिनमतनी प्रजावना वास्ते महाआखंडवरपूर्वक जिनमंदिरमां पूजा करवा वास्ते जाय. जेम दशार्णजद्र राजा श्रीमहावीर जगवंतने वांढवावास्ते सर्व सामग्री मेलवी गया हता तेम जाय.

वली जे सामान्यकृद्धिवाला होय ते अजिमानरहित लोकापहास्य-

तजीने यथायोग्य आढंबर सहित मित्र, चाण्ड, पुत्रादि सहित परिवार
मेलवी जाय. जिनमंदिरमां प्रवेश करतां पहेलां १ पुष्प तंत्रोल प्रमुख
सरसजुर्वादि त्यागे, २ ठरी, पावडी, मुगट, हाथी प्रमुख सचित्त अचि-
त्त वस्तु शरीरना जोगने त्यागे, ३ मुगट शिवाय वाकीनां आचरण प्र-
मुख अचित्त वस्तु न त्यागे, एकवडा वस्त्रतुं उत्तरासंग करे, ४ जिनेश्वर
जगवाननी मूर्ति देखी अंजली वरु थइ मस्तक उपर लगावी ॥ नमो
जिणाणं ॥ एवो पाठ कहे, ५ मन एकाग्र करे, ६ प्रमाणे पांच अजिगम
साचवी नैपेधिकीपूर्वक प्रवेश करे.

जो राजा जिनमंदिरमां प्रवेश करे तो तत्काल राज्यचिह्न दूर करे.
१ तलवार, २ ठत्र, ३ स्वारी, ४ मुगट, ५ चामर. आ पांचे राज्यचिह्न
त्यागे. अग्रद्वारमां प्रवेश करतां घरव्यापारनो निपेध करवावास्ते त्रण नै-
पेधिकी करे, परंतु त्रणे निस्तीहिनी एक निस्तीहि गणवामां आवे, कार-
ण के प्रथमनी निस्तीहिथी मात्र घर व्यापारनो निपेध करवामां आवे
ठे; त्यारपठी मूलविंवने नमस्कार करीने कल्याणनी इठावाला पुरुपें सर्व
कृत्य दक्षिण वाजुयें करवां. ते कारणथी मूलविंवनी दक्षिण वाजुपथी
चालतां, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आ त्रणेनी आराधना निमित्तें त्रण प्रदक्षि-
णा आपे. प्रदक्षिणा देतां थकां समवसरणस्य चाररूपसंयुक्त जिनेश्वर
जगवानने ध्यावे, गजारांमां पेसतां वाम दक्षिणदिशायें जे विंव होय तेने
नमस्कार करे. ते कारणथी सर्वमंदिरमां चार तरफना समवसरणने आ-
कारें त्रण तरफ त्रणविंव स्थापन करवामां आवे ठे, एम करवाथी अरि-
हंतनी पाठल वेसवानो जे दोष होय ते दूर थइ जाय ठे; पीठ कोइ पण
पासे रहेती नथी. त्यारपठी चैत्यप्रमार्जन प्रमुख जे आगल लखवामां
आवशे ते करे, पठी सर्व प्रकारनी पूजा सामग्री वास्ते, तथा देहरा स-
मारवाना कामने निपेध करवावास्ते बीजी निस्तीहि मुख्यमंडपादिमां
करे, पठी मूलविंवने त्रण प्रणाम करी पूजा करे. जाप्यकारें पण कहुं ठे
के त्रणनिस्तीहि करी, प्रवेश करी, मंडपमां जिनेश्वर जगवानने चूमिउ-
पर सिंहासनमां स्थापन करी, हस्तजोडी, विधिथी त्रण वार प्रणाम करे,
त्यारपठी हर्षथी उल्लसित थइ मुखकोश वांधी जिनप्रतिमा उपरनां नि-
र्माळ्य फुल प्रमुख मोरपीठीथी दूर करे. जिनमंदिरतुं प्रमार्जनपण पोते

करे वा, वीजा पासे करावे. पठी जिनविंवनी पूजा विधिपूर्वक करे. मुख कोश आठ पडतुं करे, जेथी मुख तथा नासिकानो श्वास रुंधाय. वर्षारु-
तुमां निर्माळ्यमां कुंथुआदि जीवपण उत्पन्न थाय ठे, तेथी निर्माळ्य अने
स्नात्रजल जुदांजुदां पवित्र स्थानमां नाखे. तेथी आशातनापण दूर थाय
ठे. कलशधारण करी जल पूजा करती वखते आ प्रमाणे जावना जावे.

हे स्वामिन् ! बालपणामां मेरुशिखरपर सुवर्णकलशें करी इंद्रप्रमुख
देवताज्यें आपने स्नान कराव्युं हतुं, तेजने धन्य ठे, जेज्ये आपनां दर्श-
न कर्यां हतां. इत्यादि जावना जावी यत्नापूर्वक बालाकुंचिथी जिनविं-
व उपरथी चंदनादि उतारे, पठी जलथी प्रक्षालन करीने वे अंगदूहणाथी
जिनप्रतिमाने निर्जल करे. पठी पग, जानु, कर, मस्तकें पूजा अनुक्रमें
नवअंगमां चंदनादिथी करे. कोइ आचार्य कहे ठे के प्रथम मस्तकमां ति-
लक करी पठी नवअंगें पूजा करे. श्रीजिनप्रज्ञसूरिकृतपूजाविधि ग्रंथ-
मां लख्युं ठे के, सरस, सुरजि चंदनथी देवनी, दक्षिणजानु, दक्षिण स्कं-
ध, ललाट, वामस्कंध, वामजानु, आ क्रमें पूजा करे, हृदयप्रमुखमां पण
पूजा करे तो नवअंगनी पूजा थाय ठे. नवअंगमां पूजा करी, पांचे वर्ण-
नां सुगंधमय अखंड पुष्पो, चंदनसुगंधथी वासित करी, प्रभुपर चढावे. प्र-
थम कोश्यें मोटा मंडाणथी पूजा करी होय अने पोतानी पासे पूजानी
तेवी सामग्री न होय तो प्रथमनी पूजा उतारे नही; कारण के विशिष्ट
पूजा देखवाथी जव्य जीवोने जे पुण्यानुबंधि पुण्य थतुं, तेनो अंतराय
थइ जाय ठे; ते कारणथी प्रथमनी पूजाने विशेष शोचनीय करे. आ
कथन बृहद्जाप्यमां ठे.

बली पूजा उपर पूजा करवी ते निर्माळ्य लक्षण नहि होवाथी, नि-
र्माळ्य नथी. जे डब्यो जोगविनष्ट ठे, तेज गीतार्थोंयें निर्माळ्य कथन
करेल ठे, आरूपणो वारंवार पहेराववामां थावे जे, निर्माळ्य थतां नथी.
नहीं तो गंध, वस्त्रथी एकसो आठ जिनप्रतिमानां अंग केवी रीतें लुहा-
य ? ते कारणथी जिनविंव आरोपित जे जे वस्तु शोचरहित, सुगंधरहित
देखाय, अने जे जव्य जीवोने प्रमोदनो हेतु न होय, तेनेज बहुश्रुतो
निर्माळ्य कहे ठे, आ कथन संपाचार वृत्तिमां लखेल ठे. चढावेला चोखा

कोइ आचार्य निर्मात्य कहे ठे, अने कोइ तेम कहेता नथी; तत्र गुं ठे ? ते केवली जाणे.

चंदन, पुष्पादि पूजा एवी रीतें करवी के जेथी जगवाननां मुख नेत्रादि ढंकाइ जाय नही. वली बहु शोजनीय लागे तेवी करवी. कारण केदेखनारने प्रमोद तथा पुष्पादिनी वृद्धि थाय.

पूजा त्रण प्रकारनी ठे. १ श्रंगपूजा, २ श्रग्रपूजा, ३ चावपूजा. तेमां निर्मात्य दूर करवां, प्रमार्जन करवां, श्रंगप्रक्षालन करवुं, वालाकुंची करवी, कुसुमांजलि करवी, पंचामृत स्नात्रथी शुद्धोदकधारा देवी, धूपित स्वध, मृदुगंध कपायकादि वस्त्रथी श्रंगलूहणां करवां, वरास कुंकुममिश्र गोशीर्ष चंदन प्रमुखथी विलेपन करवुं, गोरोचन कस्तूरिथी तिलक करवां, सुगंधमयपुष्पोथी आंगी रचवी, बहु मूल्यवान सुवर्ण, रत्न, माणिक मोती प्रमुखना श्रलंकार, आचरण पहेराववां. जेम श्रीवस्तुपालें पोते जरावेला सवालाल विंवो वास्ते, तथा श्रीशत्रुंजयनी उपर सर्वविंवीनां रत्न, सुवर्णनां आचरण कराव्यां हतां, तथा दमयंतीए पाठला जवमां श्रष्टापद पर्वत उपर चोवीश तीर्थकरोने तिलक कराव्यां हतां, तेवी रीतें करावे. कारण के प्रतिमाजीनी जेटली उत्कृष्ट सामग्री मेलववामां थावे, तेदलीज अधिक शुच जावनी. वृद्धि जव्यजीवोने थाय ठे; तथा १ ग्रंथिम २ वेष्टिम, ३ पूरिम, ४ संघातिमरूप चतुर्विध प्रधान अम्लान विधिथी लावेलां शतपत्र, सहस्रपत्र, मोगरा, जाइ, जुइ, चंपक, गुलाबादि पुष्पविशेषनी माला, मुगट, शेहरा आदिथी आंगी रचना करे. फूलना चंदरवा, जाली, जरूखा करे, जेथी श्रत्यंतप्रमोद थाय. वली जिनेश्वर जगवानना हाथमां विजोरां, नाखियर, सोपारी, नागरवेल, मोहोर, रूपीआ, लाडु प्रमुख राखे. वली वासप्रदेष करे; तथा सुगंधमय दशांग धूप उखेवे. आ सर्व श्रंगपूजामां थावे ठे. महाजाप्यमां कहुं ठे के ॥ गाथा ॥ न्हवण विलेवण आहरण, वत्थ फल गंध धूप पुष्फेहिं ॥ कीरइ जियंगपूया, तत्थ विही एस नायवो ॥ १ ॥ वत्थेण वंधिजणना, संअहवा जहासमाहीए ॥ वज्जेयवंतुतया, देहमवि कंडुअणमाइ ॥ २ ॥ अन्न्यत्रापि गाथा ॥ कायकं दुअणं वज्जे, तह खेल विगिंचणं ॥ शुइयुत्त जणणं चैव, हुअंतो जगवंधुणो ॥१॥ देव पूजनना श्रवसरमां मुख्यवृत्तिए तो मोनज रहेवुं जोइ-

ये. जो तेम न रही शके तो पापकारी वचन तो सर्वथा त्यागे. पापनी संज्ञापण वजें, कारण के प्रथम निस्सीहि करी गृहव्यापारादिनो निषेध करेले ठे. मूलविंबनी विस्तार सहित पूजा करे. पढी अनुक्रमें सर्व वीजां विंबोनी पूजा करे, द्वारविंब तथा समवसरणविंबोनी पूजा, मूलविंबनी पूजा कर्यापढी गज्जारथी निकलती वखत करवी जोश्ये एवो संजव ठे; परंतु प्रवेश करतां तो मूलविंबनीज पूजा करवी उचित लागे ठे. संघाचारवृत्तिमां एवो लेख ठे तेथी मूलनायकनी पूजा सर्वविंबोथी पहेळां तथा सविशेष करवी जोश्ये. ॥ उक्तं ॥ उचिञ्चत्तं पूआये, विसेस करणं तु मूलविंबस्स ॥ जंपडइ तत्थ पढमं, जणस्सदिठी सहमणेणं ॥ १ ॥

शिष्य प्रश्नः— चंदनादिथी प्रथम एक मूलनायकने पूजवा अने वीजा विंबोनी पढी पूजा करवी, आ तो स्वामि, सेवक जाव कर्यो. तेवो जाव लोकनाथ तीर्थकरमां नथी; वली एक विंबनी बहुज आदर सत्कारथी पूजा करवी, अने वीजां विंबोनी अद्वयपूजा करवी, आ तो अमने चारे आशातना थती मालम पडे ठे.

गुरुउत्तरः— ज्ञानवंत पुरुषोने अर्हत प्रतिमाळमां नायक, सेवकनी बुद्धि होती नथी, कारण केसर्व प्रतिमाजीना एक सरिखाज परिवार, प्रातिहार्य प्रमुख देखाय ठे, आ व्यवहारमात्र ठे, जे विंब प्रथम स्थापन करवामां आवेल होय, ते मूलनायक ठे, आ व्यवहारथी शेष प्रतिमाळनो नायकजाव दूर थतो नथी, अथवा तो तेमने लघुता जाव प्राप्त थतो नथी.

एक प्रतिमाजिने वंदन, पूजा, नैवेद्य चढाववां, आ उचित प्रवृत्तिवाला पुरुषने आशातना नथी. जेम मृत्तिकानी वनावेदी प्रतिमानी पूजा फूलादि रहित उचित ठे, अने सुवर्ण प्रमुखनी प्रतिमाने खान विलेपनादि उचित ठे. वली एकज प्रतिमाना कढ्याणक प्रमुखना मंहोत्सव आडंबरथी करवामां आवे ते वीजी प्रतिमाळने आशातनाना कारण थता नथी, जेम धर्मीपुरुषने वंदन, पूजन करतां वीजा उत्तम जीवोनी आशातना गणाती नथी तेम; आ प्रमाणे उचित प्रवृत्ति करतां जेम आशातना थती नथी. जिनमंदिरमां जिनविंबनी जे पूजा करवामां आवे ठे, ते तीर्थकरोने वास्ते पूजा करवामां आवती नथी, परंतु पोताना आत्माने, पूजा शुभजावोनुं निमित्तकारण होवाथी करवामां आवे ठे; जे बलवान्

निमित्त कारणथी आत्मानां उपादान कारणो स्मरणमां आवे ठे, तेमज वीजाउने बोधि (सम्भ्यक्त्व) नी प्राप्ति थाय ठे. कोइ जीवतो श्री जिनमंदिरने देखीने प्रतिबोध पामे ठे, कोइ जीव जिनप्रतिमानुं प्रशांतरूप देखी बोधिवीज पामे ठे, कोइ पूजानो महिमा देखी, अने कोइगुरुना उपदेशथी प्रतिबोधि पामी जाय ठे. ते कारणथी चैत्यजिनविंवनी रचना बहुजसुंदर, उत्तम प्रकारनी करवी जोइए, अने पोतानी शक्ति अनुसारे मुख्यविंवनी विशेष, अद्भुत शोभा करवी जोइए.

गृह देरासर तो हालपण, पीतल, ताम्र, रुपामय कराववाने समर्थ ठे. ज्यारे पीतलप्रमुखना बनाववानी शक्ति न होय तो दांतादिमय पीतल तरेह रंगावे, कोरणीविशिष्ट काष्ठादिमय करावे. घर चैत्य तथा चैत्यसमुच्चयमां निरंतर सर्वस्थले प्रमार्जन करावे, तेल प्रमुखथी काष्ठ रंगावे, जेशी घुण न लागे. वली सामान्यथी खडी प्रमुखथी धोलावे. श्री तीर्थकरादिना पंचकढ्याणक प्रमुखनां चित्रो करावे. समग्रपूजानां उपकरणो करावे, पडदा, कनात, चंदरवादि आपे, एवं एवं कामो करे के जेशी जिनमंदिरादिनी अधिक अधिक शोभा थाय. घरदेरासरमां तेमज तेनी उपर धोतीआं प्रमुख न नाखे, घरदेरासरनी पण चोराशी आशातना टाले. पीतल वा पापाणनी जे प्रतिमा होय ते सर्वविंवोनुं एक अंगदूहणाथी पाणी लूहे. पठी निरंतर वीजां सुकोमल अंगदूहणाथी सर्व विंवोनुं पाणी लूहे, वारंवार सर्व अंगोउपर अंगदूहणां फेरवी पाणीनी असर विलकुल रहेवा न दे. ते प्रमाणे करवाथी प्रतिमा उज्वल थती जाय ठे. ज्यां ज्यां प्रतिमानां अंगोपांग पर जल रहि जाय, त्यां त्यां प्रतिमाने श्यामता थइ जाय ठे.

नव, पंचतीर्थी, चोवीशी पढादिमां स्नानजलनो प्रतिमाजीने परस्पर स्पर्श थवाथी आशातना थाय ठे, एवी आशंका न करवी जोइए. अशक्य परिहार होवाथी. १ एक अर्हंतनी प्रतिमा होय, तेनुं नाम व्यक्त ठे. २ एकज पापाणादिमां जरत ऐरवतक्षेत्रनी चोवीशी घनावे, तेनुं नाम क्षेत्र प्रतिमा ठे. ३ तेवीजरीतें एकसो सिन्हेर प्रतिमाने महाख्य कहे ठे. ४ फूलनी वृष्टि करतां जे माळा घर देवतां ठे, तेनुं रूप पंचतीर्थी उपर बनावे ठे, वली जिनप्रतिमाने न्हवण करतां पेहेलां मा-

लाधरने पाणीनो स्पर्श थयापठी जिनविं व उपर ते पाणी पडे ठे. तेमां दोष नथी. आ वृद्धोनी आचरणा ठे. तेवीजरीतें चोवीशी गट्टा आदिमां पण जाणी लेवुं. ग्रंथोमां पण एवीज रीति देखवामां आवे ठे ॥ ज्ञाप्य-कारनुं वचन अर्हीयां लखीयें ठीयें. जिनराजनी कृच्छ्रि देखावावास्ते को-इ जक्तजन एक प्रतिमा वनावे ठे, साथे प्रगटपणे अष्टमहाप्रातिहार्य दे-वागमं सुशोचिंत रचावे ठे. १ दर्शन, ज्ञान, चारित्रनी आराधनावास्ते कोइ त्रण तीर्थी प्रतिमा वनावे ठे. ३ कोइ जक्तजन पंच परमेष्ठिना आ-राधन निमित्तें उद्यापन (उजमणा) मां पंचतीर्थी प्रतिमा चरावे ठे. ४ चोवीश तीर्थकरोनां कट्याणक, तप उजमणां वास्ते जरतक्षेत्रमां जे कृ-पजादि चोवीशे तीर्थकरो थया ठे, तेजना बहुमान वास्ते कोइ चोवीशी वनावे ठे. कोइ जक्तिथी मनुष्यलोकमां उत्कृष्टा एककालमां एकसो सि-त्तेर तीर्थकर विहरमाननी एकसो सित्तेर प्रतिमा वनावे ठे; ते कारणथी त्रण तीर्थी, पांचतीर्थी, चोवीशी आदिनुं वनावडुं युक्तियुक्त ठे. आ पूर्वोक्त सर्व अंगपूजा ठे.

हवे अग्र पूजानुं वर्णन करीये. ठीये. रूपाना अथवा सोनाना वा धो-ला अक्षत, सरसव प्रमुखथी अष्टमंगलादि आलेखन करे, जेम श्रेणि-कराजा दररोज एकसो आठ सोनाना जवथी त्रिकाल जगवाननी प्रति-मा सन्मुख साथीठ करता हूता तेम करे; अथवा ज्ञान, दर्शन, चारि-त्रनी आराधनावास्ते अनुक्रमें पाटला उपर अक्षतना त्रण पुंज करे त-था साथीआ करे. तथा अशन ते एक रोटळी जातप्रमुख, १ शेलडी र-सप्रमुख ते पान, ३ पक्वान्नादि ते खादिम, ४ तंबोलादि ते स्वादिम. आ चारे प्रकारनां नैवेद्य जगवान् सन्मुख ढोवे. तथा उत्तम प्रकारना लीळां फल तथा सुकां फल. दाडिम, सफरजन, संतरां, नालीअर, वदाम प्रमुख प्रजु आगल ढोवे. वली गोशीर्ष चंदनादिथी तथा पुष्पप्रकरथी विलेपन पूजनकरी आरति प्रमुख दीपक पूजा करे. आ सर्व अग्रपूजा ठे. ॥ यद्-ज्ञाप्यं ॥ गाथा ॥ गंधर्व नट वाश्य, लवण जलारत्तिश्चाइ दीवाइ ॥ जं-किचं सवंपिठं, अरइ अग्रपूथाए ॥ १ ॥ नैवेद्य पूजातो दररोज करवी ते सुखदायक ठे, तेनुं फलपण मोटुं ठे. कोरुं अनाज तथा रांघेयुं अना-ज पण चढावे. लौकिक शास्त्रमां पण कहुं ठे के ॥ भूपोदहति पापानि,

दीपोमृत्युविनाशकः ॥ नैवेद्यं विपुलं राज्यं, सिद्धिदात्री प्रदक्षिणा ॥ १ ॥
 नैवेद्य चढावतुं, आरति करवो इत्यादि आगममां पण लखेल ठे. “ की-
 रइ वलि ” एवो पाठ आवश्यकनिर्युक्तिमां ठे. तथा निशीथचूर्णीमां पण
 वलि चढाववी एम लखेल ठे. वली कल्पजाप्यमां पण लखेलुं ठे के, जे
 नैवेद्य जिनप्रतिमा आगल चढाववावास्ते कर्तुं होय, ते साधुने न क-
 ह्ये. तथा प्रतिष्ठाप्राप्तृतथी रचैली, श्रीपादलिप्त आचार्यकृत प्रतिष्ठाप-
 ऋतिमां लखुं ठे के, आरति उतारवी, मंगल दीवो कर्यापठी चार स्त्री
 मली नैवेद्य, गीतगानविधिथी करे. ॥ तथा च महानिशीथे तृतीये अध्य-
 यने ॥ अरिहंताणं जगवंताणं गंधमल्लपर्व्व समज्जाणोवलेवण विचित्त व-
 लिवत्य धूवइएहिं पूआ सक्कारेहिं पइदिण मच्चणंपि कुवाणा तिहुपणं
 करेमोत्ति ॥ इति अग्रपूजा.

ह्वे जावपूजानुं स्वरूप लखीये ठीये. उव्यपूजानो व्यापार निपेधवा
 वास्ते त्रीजी निस्तीहि त्रणवार करे. श्रीजिनेश्वर जगवाननी दक्षिण वा-
 जुयें पुरुप, अने डावी वाजुयें स्त्री रहे. आशातना टालवावास्ते मंदिरमां
 जघन्यथी चूमिनो संजव होतां नव हाथ प्रमाण, अने घरदेरासरमां ज-
 घन्यथी एक हाथ प्रमाण, अने उत्कृष्टथी साठ हाथ प्रमाण अवग्रह ठे.
 तेनी वहार वेसीने चैत्यवंदन विशिष्ट काव्योथी करे. श्रीनिशीथमां, व-
 सुदेवहिंडमां, तथा अन्यशास्त्रोमां, श्रावकोयें पण कायोत्सर्ग, स्तुति आ-
 दि करी चैत्यवंदन करेल ठे, एवा पाठ ठे. जाप्यमां चैत्यवंदन त्रण तरे-
 हथी करवुं कहेलठे. एक जघन्य चैत्यवंदन, ते वे हाथ जोडी, मस्तकनमा-
 वी, प्रणाम करवा, यथा “ नमो अरिहंताणं ” इति, अथवा श्लोकादि वो-
 ली नमस्कार करवो, अथवा एक शक्रस्तव घोले तो जघन्य चैत्यवंदन
 थाय. वीजुं मध्यम चैत्यवंदन, ते चैत्यस्तव दंडकयुगल ‘ अरिहंत चेइ-
 आण ’ इत्यादि कायोत्सर्ग कर्या पठी एकस्तुति कहेवी ते. त्रीजुं उत्कृ-
 ष्ट चैत्यवंदन, ते पंचदंड, १ शक्रस्तव, २ चैत्यस्तव, ३ नामस्तव, ४ श्रुतस्त-
 व, ५ सिद्धस्तव, प्रणिधान, जयवीरराय इत्यादि. वली कोइ आचार्यनो एवो
 मत ठे के एकशक्रस्तव करवाथी जघन्य चैत्यवंदन थायठे, वे त्रणशक्र-
 स्तव करवाथी मध्यम चैत्यवंदन थायठे, अने चार अथवा पांच शक्रस्तव
 करवाथी उत्कृष्ट चैत्यवंदन थायठे. तेनोविधि चैत्यवंदन जाप्यथीजाणवो.

चैत्यवंदन निरंतर सातवखत करवुं, एम महानिशीथमां साधु वास्ते कहेलठे. श्रावकनेपण उत्कृष्टथी सातवखत चैत्यवंदन करवा कहुंठे. १ प्रतिक्रमणमां, २ मंदिरमां, ३ आहार करतां पेहेलां, ४ दिवस चरित्र करतां, ५ देवसी प्रतिक्रमणमां, ६ सूती वखत, ७ सूइ उठतां वखत. आ प्रमाणे सातवखत चैत्यवंदन साधुवास्ते कहेल ठे. श्रावक जो आठ पहोरमां प्रतिक्रमण करतो होय तो ते निश्चयें सातवार चैत्यवंदन करे; वे प्रतिक्रमणमां वे चैत्यवंदन करे, त्रीजुंसुतीवखत, चोथुं उठतीवखत, अने त्रणकाल पूजाकर्या पठी त्रणवार. एम सात वार श्रावक चैत्यवंदन करे. जे श्रावक एकवार प्रतिक्रमण करे, ते ठवार चैत्यवंदन करे, जे प्रतिक्रमण न करे ते पांचवार चैत्यवंदन करे; जे सूतां उठतां पण चैत्यवंदन न करे ते त्रण वार करे. जो नगरमां बहु जिनमंदिरो होय तो सातथी अधिक पण चैत्यवंदन करे. वली जो त्रणकाल जिनपूजा न करी शके तो त्रिकाल देववंदन करे. कारण के श्रीमहानिशीथमां लख्युं ठे के जेने गुरुप्रथम जैनमतनी श्रद्धा करावे, तेने प्रथम आ प्रमाणे नियम आपे. सवारमां जिनप्रतिमाना दर्शन कर्या विना पाणीपण पीवुं नही. मध्याहे ज्यांसुधी जिनप्रतिमा अने साधुनी वंदना न करे, त्यांसुधी जोजन करवुं नही. संध्या समय चैत्यवंदन कर्याविना शय्या उपर पग मुकवो नहि.

वली गीत नृत्य जे अग्रपूजामां वर्णवेलां ठे, ते जाव पूजामां पण आवी शकेठे. गीत, नृत्य मुख्यवृत्तियें तो श्रावक पोतेज करे, जेम निशीथ चूर्णीमां उदायिन राजानी राणी प्रजावतीनुं व्याख्यान ठे तेम. वली पूजा करवाना अवसरमां श्रीअरिहंतनी त्रण अवस्थानी कल्पना करे, तेमां स्नान करती वखत ठद्वस्थ अवस्थानी कल्पना करे; आठ प्रातिहार्यनी शोजा करतां के केवली अवस्थानी कल्पना करे; पर्यकासन, कायोत्सर्गासन देखी सिद्ध अवस्थानी कल्पना करे. ठद्वस्थ अवस्था पण त्रण तरेहथी कल्पे, एकजन्म अवस्था, वीजी राज्य अवस्था, त्रीजी साधुपणानी अवस्था. स्नाननी वखत जन्म अवस्था कल्पे; माला, आचरण पहेरावती वखत राज्य अवस्था कल्पे, दाढी, मुठ, मस्तकना वालो न होवाथी साधु अवस्था विचारे. तेमां साधु, केवली तथा मोक्ष अवस्थाने वंदना करे.

वली पूजा पंचप्रकार, अष्टप्रकार, अने धनवान् होय तो सर्वप्रकारथी

पूजा करे. तेमां पुष्प, अक्षत, गंध, दीप, धूप, आ पंचप्रकारें पूजा जाणवी, अने जल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, फल, आ अष्टप्रकारें पूजा जाणवी. ते अष्टविध कर्मने मथनारी ठे. वली स्नात्र, विलेपन, वस्त्र, आञ्जूपणादि, फल, दीप, गीत, नाटक, आरति आदि करे, ते सर्वोपचार पूजा ठे ॥ इति बृहद्भाष्ये ॥

वली पूजाना त्रण ज्ञेद ठे. १ पोते कायाथी पूजानी सामग्री खावे, २ वचनोथी वीजा पासे मगावे, ३ मनथी सुंदर पुष्प, फल, प्रमुखथी पूजा करे. एम काया, वचन अने मन, त्रणे योगथी, करे, करावे, अनुमोदे. आ त्रण प्रकारें पूजा समजवी.

वली एक फल, वीजी नैवेद्य, त्रीजी शुद्ध, चोथी प्रतिपत्ति ते वीतरागनी आज्ञापालन रूप, आ चार प्रकारें पूजा, यथाशक्तियें करे. लक्षितविस्तरादिग्रंथोमां “पुषामिपस्तोत्र प्रतिपत्ति” अर्थात् फूल, नैवेद्य, स्तोत्र अने आज्ञा आराधनीय, आ उत्तरोत्तर प्रधान ठे ॥ श्ल्यागमोक्तं पूजाज्ञेदचतुष्टयं ॥

वली पूजाना वे प्रकार ठे, १ द्रव्यपूजा, २ जावपूजा. पुष्पादिथी जिनराजनी पूजा करवी, ते द्रव्यपूजा ठे, अने जिनेश्वरनी आज्ञा पालवी ते जावपूजाठे. वली पुष्पारोहणं, गंधारोहणं श्ल्यादि सत्तर ज्ञेदथी, तथा स्नात्र विलेपनादि एकवीश ज्ञेदथी पूजा ठे; परंतु अंगपूजा, अग्रपूजा, अने जावपूजा, आ त्रणे पूजा, सर्वपूजाळनी अंतर्जावीठे. तेमां पूजाना सत्तर ज्ञेद लखीये ठीये.

१ स्नात्र करवुं २ विलेपन करवुं, ३ चट्टुजोडा वा वस्त्रयुगल, ४ वास सुगंध, ५ पुष्पारोहण, ६ पुष्पनी माला, ७ पंचरंगी फूल चढाववां, ८ त्रीमसेनी बरासतुं चूर्ण ठांटवुं, ९ आञ्जरण पहेराववां, १० पुष्पना गृह वनाववां, ११ फूलना पगर, बरसाद करवो, १२ पुष्पनी आंगी रचन, १३ अष्टमंगल, अक्षत, १४ धूप पूजन, १५ गीत, १६ नृत्य, १७ वाजित्र, इति.

हवे पूजाना एकवीश ज्ञेद लखीये ठीये. तेनुं वर्णन करतां पहेलां पूजा करनारें शुं शुं नियमो जालववा जोश्ये तेनुं स्वरूप लखीये ठीये. १ पूजा करनार पूर्वदिशि तरफ मुख करी स्नान करे २ पश्चिम दिशातरफ

मुख करी दातण करे, ३ उत्तर दिशासन्मुख उच्चा रही श्वेत वस्त्र पहरे,
 ४ पूर्वोत्तर मुख राखी पूजा करे, ५ घरमां प्रवेश करतां डावीवाज्ये शक्य
 रहित झूमिमां देरासर करावे, ६ झूमिथी उंचुं दोढ हाथ राखी देरासर
 करावे. जो देरासर नीची झूमिकामां करावे तो तेनो वंश दिवसें दिवसें
 नीची स्थितिमां उतरतो जशे. ७ दक्षिण दिशि तथा विदिशि सन्मुख
 मुख न करे. ८ घरदेरासरमां पश्चिम सन्मुख मुख करी पूजा करे तो,
 चौथी पेढीमां संताननो उठेद थाय. ९ दक्षिण दिशितरफ मुख करी पूजा
 करे तो संतानहीन थाय. १० अग्निकोणें करे तो धनहानि थाय. ११ वा-
 युखुणे करे तो संतान न थाय. १२ नैरुत्य खुणे कुलहाय थाय. १३ ईशान
 खुणे करे तो, एकस्थले रेहेवानुं न वने. १४ वंने पग, वंने जानु, वंने हाथ,
 वंने स्कंध, मस्तक आ नव अंगमां अनुक्रमें पूजा करे, १५ चंदन शिवाय
 पूजा करे नहीं. १६ कंठमां, हृदयमां, नाजिमां तिलक करे. १७ नवे अं-
 गमां नवतिलकथी निरंतर पूजा करे. १८ सवारमां प्रथम वासपूजा करे.
 १९ मध्याह्ने पुष्पथी पूजा करे. २० संध्याये दीपथी पूजा करे. २१ जे फूल
 हाथमांथी धरती उपर पडे, जे पगने लागी जाय, जे मस्तकथी उपर चा-
 द्युं जाय, जे मेलां वस्त्रमां राखवामां आवेल होय, जे नाजिथी नीचे रा-
 खवामां आवेल होय, जेने दुष्ट जननो स्पर्श थयो होय, जे बहुस्थले जां-
 गी गयुं होय, जे जीवोथी खवायुं होय, एवां फल चक्रजनोयें जिनपू-
 जामां उपयोगमां देवां नहि. २२ एक फूलना वे कटका करी पूजन क-
 रवुं नहीं. २३ कलीने ठेदवी नहीं, चंपक उत्पलादि फुलोने जांगवामां
 बहु दोपठे. २४ गंध, धूप, अक्षत, पुष्पमाला, दीपक, नैवेद्य, जल, उत्त-
 म फल, इत्यादिथी जिनराजनी पूजा निरंतर करे. २५ शांतिकार्यमां श्वेत
 वस्त्र पेहेरी पूजा करे २६ अव्यलाजने वास्ते पीलांवस्त्र पेहेरी पूजा करे.
 २७ शत्रु जीतवा वास्ते कालां वस्त्र पेहेरी पूजा करे. मांगलिक कार्यवास्ते
 लालवस्त्र पेहेरी पूजा करे. २८ मुक्तिवास्ते पांच वर्णनां वस्त्र पेहेरी पूजा
 करे. ३० शांतिकार्यवास्ते पंचामृतनो होम, दीवा, घी, गोल, लवणनो
 अग्निमां प्रक्षेप करवो ते पुष्टि हेतु जाणवो. ३१ फाटेलां, दांडीथां करे-
 लां, ठिडवालां, कापेलां, जेनो रातो वर्ण जयानक होय, एवां वस्त्र पेहे-
 री, दान, पूजा, तप, होम अने सामायिक प्रमुख करे तो ते निष्फल थाय.

३३ पद्मासन वेसी, नासाग्रलोचन स्थापन करी मौनता धारण करी वस्त्रथी मुखकोश बांधी, जिनराजनी पूजा करे.

हृवे पूर्वोक्त एकवीश प्रकारी पूजानां नाम लखीये ठीये. १ स्नात्र पूजा, २ विलेपनपूजा, ३ आचरण पूजा, ४ पुष्पपूजा, ५ वासपूजा. ६ धूप, ७ दीप, ८ फल, ९ अद्भुत, १० नागरवेलनां पान, ११ सोपारी, १२ नेवेद्य, १३ जल, १४ वस्त्र, १५ चामर, १६ ठत्र, १७ वाजित्र, १८ गीत, १९ नाटक, २० स्तुति, २१ चंडारवृद्धि. जे वस्तुलं बहुज सुंदर होय, ते जिनराजनी पूजामां वापरवी जोइये. आ पूजाना प्रकार श्री उमास्वातिवाचककृत पूजाप्रकरणमां प्रसिद्ध ठे.

विवेकविलासमां लख्युंठे के श्रावक ईशानखुणामां पण देवघर बनावे. वली पगउपर पगधारणकरी, विपमासने वेसी. उथडकआसने वेसि, वामपग उंचा राखी, वामहस्तथी जिनराजनी पूजा न करे. शुष्क पुष्पोथी पूजा न करे. जे पुष्प धरतीपर पडीगयुं होय, जेनी पांखडी सडीगइ होय, नीच लोकोनो जेने स्पर्श थयो होय, जे देखवामां अशुभ होय, जे विकस्वर न थयां होय, जे कीडार्थी खवायेलां होय. जे रातनां वासी होय, जे मकडीनां जालांवालां होय, जे अमनोइ होय, जे दुर्गंधवालां होय, सुगंधरहित होय. खाटी गंधवालां होय, मलमूत्रनी जगामां उत्पन्न थयेलां होय, अपवित्र थयेलां होय, एवां पुष्पोथी जिनराजनी पूजा न करवी. विस्तारसहित पूजा करवाना अवसरमां, तथा निरंतर अने विशेषें करी पर्वदिवसोमां सात अथवा पांच कुसुमांजलि चढावे. पठी जगवाननी पूजा करे. कुसुमांजलि करतां आ विधि करे.

प्रजातसमये प्रथम निर्माळ्य उतारे, पठी प्रह्लादकरे, संक्षेपथी पूजा करे, आरति मंगल दीवो करे. पठी स्नात्रादि पूजासहित वीजी वार पूजानो आरंज करे. देवनी पासे पंचामृतसंयुक्त कलश स्थापन करे. पठी “मुक्तालंकार विका,र सारसौम्यत्वकांतिकमनीयं ॥ सहजनिजरूपनिर्जित, जगद्धयं पातु जिनविवं” ॥ १ ॥ आ गाथा कही अलंकार उतारे, पठी “अवणिय कुसुमाहरणं, पयइ पइठिय मनोहरछायं ॥ जाणरूवं मङ्गलपीठं, संठियं वो सिवं दिसतं ॥ २ ॥ आ गाथा कही जमणे अंगें कलशथी प्रह्लादन करी, चंदन करी, चंदन चर्ची, धूप उखेवे. पठी कं-

लश श्रेणिवंध स्थापन करे, उपर सुंदर वस्त्र ढांके, पठी सुंदर केशर, चंदन, धूपथी हाथ पवित्र करे, मस्तकमां श्रावक तिलक करे, हस्तउपर चंदननुं कंकण करे, हाथ धूपवासित करे. पठी स्नात्र करनारा श्रावक श्रेणिवंध उजा रही आ प्रमाणे कुसुमांजलिनी पाठ उचरे. "सयवंत कुंद मालइ, बहुविह कुसुमाइ पंचवन्नाइ ॥ जिणनाह हवण काले, दिंतिसुरा कुसुमांजलि हठा ॥ १ ॥ एम उचरी जिनराजना अंग उपर पुष्प चढावे. वढी " गंधायष्ठिय महुयर, मणहर जंकार सइ संगीअ ॥ जिणचलणो वरिमुक्का, हरउ तुह कुसुमांजलि डुरियं ॥ आ गाथा कही जिनराजना चरणकमल उपर एक श्रावक कुसुमांजलि चढावे सर्वकुसुमांजलिना पाठमां तिलक करवां, चंदन, पुष्पपत्रादि धूपवासित करी एकत्र चढाववां. ए प्रमाणे सर्वकुसुमांजलि करी रह्या पठी, जे जिनेश्वर जगवाननी स्थापना करी होय, तेमना जन्माजिपेक कलशनो अत्यंत मधुरस्वरथी पाठ कहे. पठी घी, शेलडीरस, डुध, दही, सुगंधजल इत्यादिथी करी राखेला पंचामृतथी जिनराजने स्नात्र करे. स्नात्र करतां धूप उखेवे, जिनराजनुं शरीर पुष्परहित न करे. यदाहुर्वादिवेताल श्रीशान्तिसूरयआचार्याः ॥ ज्यांसुधी स्नात्रसमाप्ति न थाय, त्यां सुधी जगवाननुं मस्तक शून्य न राखवुं. निरंतर जलधारा अने उत्तमपुष्पोनी वृष्टि जिनराज पर करे; अने स्नात्र करती वखते चामर, संगीत, तूर्यादि आडंबर स्वशक्ति अनुसार करे.

स्नात्र कर्यापठी सर्वश्रावकें निर्मल जलधारा देवी. धारा देती वखत आ प्रमाणे पाठ उचारे. ॥ अजिपेक तोयधारा, धारेव ध्यानमंडलाग्रस्य ॥ जवजवनजित्तिजागान्, जूयोऽपि जिनत्तु जागवती ॥ १ ॥ पठी जिनराजनुं अंग लूही, विलेपन चंदनथी करे, पुष्पादि चढावे, धूप उखेवे, उत्तम नैवेद्य तथा फल चढावे. पठी ज्ञानादि त्रणे सहित त्रण लोकना स्वामि पासे त्रण पुंज स्नात्रकार करे. प्रथम वडिल श्रावक त्रण पुंज करे, पठी नानो श्रावक तथा श्राविका अनुक्रमें करे. श्री जिनजन्ममहोत्सवमां पण स्नात्र करती वखते प्रथम अच्युत इंद्र, पोताना देवतासंयुक्त स्नात्र करे ठे, पठी अनुक्रमें बीजा इंद्र स्नात्र करे ठे. स्नात्रजल पोताना मस्तक उपर श्रावक प्रक्षेप करे तो दोष नथी. ॥ यडुकं

श्रीहेमचंद्राचार्यैः श्रीवीरचरिते ॥ अज्जिपेकजलं तज्जु, सुरासुरनरोगाः ॥ ववंदिरे मुहुमुहुः, सर्वांगं परिचिक्षिपुः ॥ १ ॥ श्रीपद्मचरित्रना उगणत्रीशमा उद्देशमां कच्छुं के, राजा दशरथं पोतानी राणीउने स्नात्रजल मोकद्व्युं ठे. वली वृहत्शांतिस्तोत्रमां “ शांतिपानीयं मस्तके दातव्यमित्युक्तं ” वली सांजलीये ठीये के, जरासंधं ज्यारे जरा विद्या ठोडी, त्यारं तेनाथी पीडा पामती सेनाने देखी श्रीनेमिनाथ जगवानना कहेवाथी श्रीकृष्णं धरणेंद्रदेवतुं आराधन कर्युं. धरणेंद्रं पातालमां रहेली श्रीपार्श्वनाथजीनी प्रतिमाने शंखेश्वरपुरमां लावीने, तेनुं स्नात्रजल ठांटी सेना सचेत करी. वली श्रीजिनदेशना अनंतर राजाप्रमुख जे चावलोनी वली उगले ठे, तेमांथी अरधा चोखा तो धरती उपर नही पडतां देवताउं लइ लहे ठे. अरधा उगलनारा लइ लहे ठे, वाकीना सर्व लोक लूटी लहे ठे. ते चोखानो एक पण दाणो जो मस्तकमां राखे तो, सर्वरोग उपशांत थइ जाय ठे. वली ठ महिना सुधी नवा रोग थता नथी. आ कथन आवश्यकसूत्रमां ठे. पठी सद्गुरुनी प्रतिष्ठित, अतिसुंदर हीरागल प्रमुख वखनी मोटी ध्वजा, अतिउत्साहपूर्वक त्रण प्रदिक्षणा दइ विधिथी चढावे. सर्वसंघ यथाशक्ति नैवेद्य प्रमुख चढावे.

हवे आरति मंगलदीवो श्री अरिहंतनी सन्मुख करवो तेनो विचार लखीये ठीये. मंगलदीवानी पासे अग्निनुं पात्र स्थापन करवुं, तेमां लवणजल अनुक्रमें नाखवुं. प्रथम “ उवणेउमंगलं वो, जिणाण मुइ लावि जाल संचलिआ ॥ तित्थपवत्तण समए, तिथसविव मुक्का कुसुमवुठी ॥ आ गाथा कही कुसुमवृष्टि करे. वली “ उअह पडिजग्गापसरं, पयाहिणं मुणिवइं करेऊणं ॥ पडईस लोणणल, ज्जिअं च लोणं हुं अचहंमि ॥ इत्यादि पाठथी विधिपूर्वक जिनराजने त्रणवार पुष्पसहित लवण जल उतारे. पठी अनुक्रमें पूजा करी आरति धूप प्रक्षेपसहित वने वाजुए अत्यंत, कलशथी पाणीनी धारा देतां श्रावक पुष्पोने विखेरे. पठी “ मरगय मणि घडिय विसा, ल थालमाणिक्क मंडिअ पईवं ॥ नवणयर करुखित्तं, जमठं जाणारत्तिअं तुह्म ” इत्यादि पाठपूर्वक प्रधानथालमां आरति राखी उत्सवसहित त्रणवार उतारे. आ कथन, त्रेशठ शलाका पुरुष चरित्रादिमां ठे. मंगलदीपक पण आरतिनी जेम पूजे- पूजती वखत आ

पाठ कहे ॥ गाथा ॥ जामिज्जंतो सुरा, सुरिहिंतुहनाह् मंगल पईवो ॥
 कणयाय लस्स नजइ, जाणुव पयाहिणं दिंतो ॥ १ ॥ ए प्रमाणे मंगल-
 दीवो उतारी देदीप्यमान जिनराजना चरण कमलपासे राखे. आरति
 बुजावी देवामां दोष नथी. आरति अने मंगलदीवो मुख्य वृत्तिए, धी,
 साकर, कर्पूरादिथी करे. तेम करवाथी विशेष फल ठे. “मुक्तालंका-
 र” इत्यादि जे गाथाउं कही ते श्रीहरिचन्द्र सूरिजीनी करेली मालम
 पडे ठे; कारण के श्रीहरिचन्द्रसूरिकृत समरादित्य चरित्रनामा ग्रंथनी
 आदिमां “उवणेउ मंगलेवो” एवो पाठ ठे ॥ इति नमस्कारस्य दर्शनात् ॥
 वली आ गाथा तपगठमां प्रसिद्ध ठे. ते कारणथी सर्व गाथा
 अहीं लखी नथी.

स्नात्रादिमां समाचारी विशेषथी विविधप्रकारनो विधि देखवाथी व्या-
 मोह न करवो; कारण के सर्व आचार्योनी अर्हद्भक्तिरूप फलनी सि-
 ङ्खिवास्ते प्रवृत्ति होवाथी ते दोषरूप नथी. गणधरादि समाचारीउंमां प-
 ण बहुज जेद होयठे. तेथी जे जे, धर्मथी विरुद्ध न होय, अने अर्हत
 जक्तिने पोषक होय, ते ते सर्वकार्य कोइने पण असम्मत नथी. एवी री-
 तें सर्व धर्मकार्यमां जाणी लेवुं. वली लवण आरति प्रमुखनुं उतारवुं, सं-
 प्रदायथी सर्वगठोमां तेमज परदर्शनोमां पण करतां देखीयें ठीयें. तथा
 श्रीजिनप्रज्ञसूरिकृत पूजाविधिशास्त्रमां तो लख्युं ठे के ॥ गाथा ॥ लव-
 णाई उत्तारण, पालित्तय सूरिमाइ पुवपुरिसेहिं ॥ संहारेण अणुन्नयंपि,
 संपयं सिठी एकारि ज्ञाइ ॥ १ ॥ अर्थः—लवणादि उतारवा श्रीपादक्षिप्त
 सूरिप्रमुख पूर्वपुरुषोयें एकवार करवानी आझा आपीठे. वर्तमानमां अमे
 ते अनुसार करावीये ठीये. स्नात्रमां सर्वप्रकारें विस्तारसहित पूजा प्र-
 ज्ञावनादि करवाथी परलोकमां उत्कृष्ट मोक्ष प्राप्तिरूप फल थायठे. जेम
 चोसठ इंद्रोयें जिनजन्मस्नात्रमहोत्सव कर्यां ठे, ते प्रमाणे श्रावक अति-
 उत्साहथी करे. तेम करवाथी आ लोकमां पुण्य अने निर्जरा अने पर-
 लोकमां मोक्षफल प्राप्त थायठे. आ कथन राजप्रश्रीय उपांगमां करेलठे.

हवे प्रतिमा पण अनेक प्रकारनी ठे. तेनी पूजानो विधि सम्यक्त्व प्र-
 करणमां आ प्रमाणे लख्यो ठे. ॥ गाथा ॥ गुरु कारिश्वाइ केइ, अन्नेसय
 कारिश्वाइ तं विंति ॥ विहि कारिश्वाइ अन्ने, पडिमाये पूअण विहाणं ॥१॥

व्याख्या:- गुरु अर्थात् माता, पिता, दादा, पर दादा, प्रमुख तेजनी करावेली प्रतिमा पूजवी जोइये, एम कोइ कहेठे. वली कोइ कहेठे के, पोतानी करावेली, प्रतिष्ठित करेली प्रतिमा पूजवी जोइये, तथा कोइ कहेठे के विधीयी करावेली, प्रतिष्ठा थयेली प्रतिमा पूजवी जोइये. आ सर्वमां यथार्थ पद्द तो आ ठे- ममत्वरहित सर्वप्रतिमाने विशेषरहित पूजवी जोइये, कारण के सर्वस्थलें तीर्थकरनो आकार देखवार्थी तीर्थकर बुद्धि उत्पन्न थायठे, जो एम न मानीयें तो जिनधिवनी श्रवज्ञायी, ते जीवने निश्चयें डुरंतसंसारमां त्रमणरूप दंड प्राप्त थशे.

वली एवो पण कुविकल्प न करवो के जे अविधियि जिनमंदिर, जिनप्रतिमा वनेलां होय, तेने पूजवार्थी, अने तेवा अविधिमागंनी अनुमोदनाथी जगवंतनी आज्ञाजंगरूप दूषण लागेठे. तथाहि कल्पनाप्ये ॥ गाथा ॥ निस्सकड मनिस्सकडे, चेइये सब्बहिं थुइतिन्नि ॥ वेळंच चेइ आणिय, नाठइ क्किकिया वावि ॥ २ ॥ व्याख्या:-निश्चाकृत तेने कहीये, जे गछना प्रतिबंधथी वनेल होय, जेम के आ अमारा गछनुं मंदिर ठे, वीजुं अनिश्चाकृत, जेना उपर कोइ गछनो प्रतिबंध नथी; आ सर्व जिनमंदिरोमां त्रण थुइ कहेवी. जो सर्वजिनमंदिरोमां त्रण त्रण थुइ (स्तुति) कहेतां बहु काल लागी जाय, अने जिनमंदिर बहु होय, तो एकेक जिनमंदिरमां एकेक थुइ कहेवी; परंतु सर्वजिनमंदिरमां विशेषरहित शक्ति करवी.

वली जिनमंदिरमां करोलीआनां जालां लागीगयां होय, तेने दूर करवावास्ते, जेने जिनमंदिरनी सुप्रत करी होय, तेने साधु जोरथी उपदेश करे, एवी रीतें के, तमे जिनमंदिरनी नोकरी खाउठो, ठतां सार संजाल केम करता नथी? वली जेनी कोइ सारसंजाल न करे, तेने असंबिस देवकुलिका कहेठे. ते मंदिरोमां जे करोलीआनां जालां होय ते दूर करवावास्ते, सेवकोने प्रेरणाकरे, के तमे जिनमंदिरने मांखीनीपांखनी जेम चमक दमकवालां राखो, जो सेवक लोक न माने तो नित्रंठना करे, पठी साधु पोते जयणार्थी ते जालां दूर करे; कारण के जिनमंदिर, ज्ञानजंडारप्रमुखनी साधु उपेक्षा न करे एवो पाठ ठे. पूर्वोक्त चैत्यगमन पूजा तथा स्नात्रादिविधि जे वर्णन कर्यो, ते सर्व धनवान् श्रावकनी अपेक्षा-

यें कह्यो ठे. जो श्रावक धनवान् न होय तो पोताना घरमां सामाधिक करीने कोइनी साथे देण देणनो तकरार न होय, ते उपयोग सहित, साधुनी जेम इयां समिति शोधतां नैपेधिकी त्रण करी जाव पूजानुयायि विधिथी जिनमंदिर आवे. पूजादिसामग्रीना अजावथी ड्रव्यपूजा करवाने असमर्थ ठे, ते कारणथी सामाधिक पारी कायाथी जे कांइ पुष्पगुंथनादि कृत्य थाय ते करे.

प्रश्नः—सामाधिकनो त्याग करी ड्रव्यपूजा करवी उचित ठे ?

उत्तरः—सामाधिक तो तेने स्वाधीन ठे. मरजीमां आवे ते वखते क करी ले, परंतु पूजानो योग मलबो तेने बहुज दुर्लभ ठे, कारण के पूजानुं मंडाण तो संघसमुदायने आधीन ठे, कोइकज वखत होयठे. तेकारणथी पूजामां विशेषपुण्य ठे. यदागमः ॥ “ जीवाण बोहि लाजो, सम्महिठीण होइ पिअकरणं ॥ आणाजिणिंद जत्ति; तित्थस्स पत्तावणा चैव ॥ १ ॥ ते कारणथी अनेक गुण ठे, तेथी चैत्यकार्य करे. आ कथन दिनकृत्य सूत्रमां ठे. दशत्रिक, पांच अजिगम; इत्यादि विधि प्रधानपणें सर्वदेवपूजा, वंदनादि धर्मानुष्ठाननुं महाफल थाय ठे, अन्यथा अल्पफल ठे. वली अविधिथी करतां उपद्रव पण थइ जाय ठे. ॥ उक्तं च ॥ धर्मानुष्ठान वैतथ्यात्, प्रत्यवायो महान् जवेत् ॥ रौद्रदुःखौघजननो, दुष्प्रयुक्तादि चोपधात् ॥ १ ॥ चैत्यवंदनादि अविधिथी करतां आगममां प्रायश्चित्त कहेल ठे. महानिशीथना सातमा अध्ययनमां अविधिथी चैत्यवंदन करतां प्रायश्चित्त वर्णवेल ठे. देवता अने विद्या, मंत्रादिविधिथीज ।सद्ध थाय ठे.

जो कोइ एम कहे के विधिपूर्वक न थतुं होय तो न करवुं ते श्रेष्ठ ठे ? आ कथन अयुक्त ठे. ॥ यदुक्तं ॥ अविहिकया वरमकयं, असूआ वयणं जणंति समयच्च ॥ पायष्ठित्तं अकए, गुरुअं वितहं कए लहुयं ॥१॥ अर्थः—अविधिथी करतां न करवुं ते सारुं ठे, एवुं जे कहेवुं, ते असूया वचन ठे. तेम बोधनार सिद्धांतनो जाणकार नथी जैनशास्त्रनुं एवुं कथन ठे के जे न करे, तेने गुरु प्रायश्चित्त लागे ठे, अने जे अविधिथी करे तेने लघु प्रायश्चित्त आवे ठे; ते कारणथी धर्म जरुर करवो जोइए, अने विधिमागनी अन्वेपणा करवी तेज तत्त्व ठे. तेज श्रद्धावंतनुं लक्षण ठे.

सर्वकृत्य करी अविधि आशातना निमित्त मिथ्या दुष्कृत देवुं.
 श्रंग, अग्र अने जाव, त्रणे पूजानुं फल शास्त्रमां आ प्रमाणे लख्युं
 ठे. विघ्न उपशांत करनार श्रंगपूजा ठे, मोटा अच्युदय पुण्यने साध-
 नार अग्रपूजा ठे, मोक्षप्रदात्री जावपूजा ठे. पूजा करनार, संसारना प्रधान
 जोग जोगवी, पठी सिद्धपद प्राप्त करे ठे; पूजा करवाची मन शांत थाय-
 ठे, मननी शांतिची उत्तम, शुद्ध ध्यान थाय ठे, अने शुद्धध्यानची मोक्ष
 थये अव्यावाध सुख ठे.

वली जिनराजनी जक्तिना पांच प्रकार ठे. यथा ॥ पुष्पाद्यर्चा तदा-
 सा च, तद्द्रव्यपरिरक्षणं ॥ उत्सवास्तीर्थयात्रा च, जक्तिः पंचविधा जि-
 ने ॥ १ ॥ अर्थः— पुष्पादिची पूजन, जिनेश्वर जगवाननी आज्ञा पाल
 वी ते, देवद्रव्यनुं रक्षण करवुं, महोत्सव करवो ते, अने तीर्थयात्रा. आ
 पांचप्रकारनी जक्ति ठे. द्रव्यपूजा, आ जोग अने अनाजोग वे प्रकारें
 ठे. तेमां श्री वीतरागदेवना गुण जाणी, वीतराग जावनाची, आदर सं-
 युक्त, जिनप्रतिमानी जे पूजा ते आजोग द्रव्यपूजा ठे. आ पूजाची
 चारित्रनो दाज थाय ठे, कर्मनो नाश थाय ठे, ते कारणची बुद्धिमान्
 एवी पूजा अवश्य करे; अने जेठ पूजानो विधि जाणता नथी, तथा
 श्रीजिनराजना गुणपण जाणता नथी, तेठनी जे पूजा ते अनाजोगपूजा
 ठे. आ पूजा शुद्धपरिणाम पुण्यनुं कारण ठे, बोधिलाजनो हेतु ठे, अने
 पापक्षय करवानुं कारण ठे; वली ते पुरुषना जन्मने धन्यठे, अने जविष्य
 काळे तेनुं कल्याण थायठे, कारण के जो के ते वीतरागना गुणोने जा-
 णतो नथी, तोपण जक्ति प्रीतिनो उद्भास तेना अंतःकरणमां उठलेठे;
 अने जे पुरुषने अरिहंतविंव उपर द्वेष ठे, ते पुरुष जारे कर्मा तथा
 जवाचिनंदी ठे; जेम रोगीने अपथ्यपर रुचि थाय अने पथ्य पर द्वेष थाय,
 ल्यारे मरणकाळ पास समजायठे, तेम जिनविंव उपर जेने द्वेषठे; तेने प-
 ण दीर्घसंसार परित्रमण जाणवुं.

अर्हीआं सर्व जे जावपूजा कही, ते श्रीजिनाज्ञानुं पालवुं समजवुं.
 वीजुं त्यागवुं. सुकृतनो श्रंगीकार अने दुष्कृतनो त्याग. तेमां स्वीकारप-
 क्षची परिहारपक्ष बहुज श्रेष्ठे, कारण के जे निषिद्ध आचरण करे ठे,
 तेनुं सुकृतपण बहु गुणदायक थतुं नथी. जो वने वावतो वने तो पूर्ण-

फल थायठे. ड्रव्यपूजानुं फल अच्युतदेवलोके, अने जावपूजानुं फल अंतर्मुहूर्त्तमां मोक्ष ठे.

ड्रव्यपूजामां यद्यपि षट्कायना जीवोनी किंचित् विराधना थायठे, तो पण कुवाना दृष्टांतनी जेम गृहस्थने करवा योग्य ठे; कारण के करनार अने देखनारने गणतरी रहित पुण्यबंधनुं कारण होवाथी करवा योग्य ठे, जेम नवा गाममां स्नान पानादि वास्ते लोक कुवा खोदेठे, तेउने प्यास, श्रम, कीचडादिथी मखिनता थायठे, परंतु कुवानुं जल निकलतांज तेउनी तथा वीजाउनी तृपादि सर्व दूर थइ जायठे, अने तमाम प्रकारनुं सुख थायठे; तेवीज रीतें ड्रव्यपूजामां जाणी लेवुं. आ कथन आवश्यक निर्युक्तिमां ठे, तथा वीजे स्थले पण लखेल ठे. ॥ गाथा ॥ आरंज पसत्ताणं, गिह्णीणथ्य जीववह अविरयाणं ॥ जवअडवि निवडियाणं, दव्वउठं चव आलंबो ॥ १ ॥ श्लोक ॥ वृत्तं शार्दूलविक्रीडितं ॥ स्थेयोवायुवलेन निर्वृतिकरं निर्वाणनिर्घातिना, स्वायत्तं बहुनायकेन सुबहु स्वल्पेन सारं परं ॥ निःसारेण धनेन पुण्यममलं कृत्वा जिनाज्यर्चनं, योग्यहाति वणिक् सएव निपुणो वाणिज्यकर्मण्यलम् ॥ १ ॥ यास्याभ्यायतनं जिनस्य लज्जते, ध्यायंश्चतुर्थं फलं, पठं चोत्थित उद्यतोऽष्टममथो गंतुं प्रवृत्तोऽध्वनि ॥ श्रद्धालुर्दशमं वहिर्जिनगृहात् प्राप्तस्ततो द्वादशं, मध्ये पाक्षिकमीक्षते जिनपतौ, मासोपवासं फलम् ॥२॥ पद्मचरित्रमां लख्युंठे के, १ ज्यारे जिनमंदिरमां जवानो विचार करे, त्यारे एक उपवासनुं फल थायठे, २ जो उठे तो वे उपवासनुं फल थाय ठे, ३ चालवानी शरुआत करतां त्रण उपवासनुं फल थायठे, ४ चाली निकले चार उपवावसनुं फल थाय ठे, ५ कांश्क जतां पांच उपवासनुं फल थाय ठे, ६ अर्थ मार्गे पहुँचतां एकपक्षउपवासनुं फल थायठे, ७ जिनराजने देखतां एकमास उपवासनुं फल थायठे, ८ जिनजुवनमां संप्राप्त यतां ठमासी उपवासनुं फल थायठे, ९ जिनमंदिरना दरवाजा पर स्थित यतां एकवर्षना तपनुं फल थायठे, १० जिनराजनी प्रदक्षिणा देतां सो वर्षना तपनुं फल थायठे, ११ पूजा करतां हजार वर्षना तपनुं फल थायठे, १२ स्तुति करतां अनंतगणुं फल थायठे, १३ जिनमंदिर प्रमार्जन करतां सो-गणुं पुण्य थायठे, १४ धोडतां हजारगणुं पुण्य थायठे, १५ पुष्पमाला च-

ढावतां लाखगणुं पुण्य थायठे, १६ गीत, वाजित्रयी स्तुतिकरतां अन्त-
गणुं पुण्य थायठे.

पूजा निरंतर त्रणसंध्याये करवी जोश्ये ॥ यतः ॥ जिनस्य पूजनं हंति,
प्रातःपापं निशाज्वं ॥ आजन्मविहितं मध्ये, सप्तजन्मकृतं निशि ॥ १ ॥
जलाहारौपधस्त्राप, विद्योत्सर्गकृपिक्रियाः ॥ सत्फलाः स्वस्वकाले स्यु, रेवं
पूजा जिनेश्वरे ॥ २ ॥ गाथा ॥ जीणपुत्राण तिसंजं, कुणमाणो सोहृण्य
सम्मत्तं ॥ तिष्ठयर नामगोत्तं, पावइ सेणीश्च नरिंदुव ॥ १ ॥ जो पुणइ तिसंजं,
जिणंदरायं सयाविगयदोसं ॥ सोतइय जवे सिज्जइ, अहवा सत्तठमे जम्मे
॥ २ ॥ सवायरेण जयवं, पूइज्जंतो वि देवनाहेहिं ॥ नोहोइपूइउं खलु,
जम्हाणं तगुणो जयवं ॥ ३ ॥

वही देवपूजादि समये हृदयमां बहुमान राखे तथा शुद्ध विधि स-
हित जक्ति करे. जिनमतमां चार प्रकारनां अनुष्ठान कखां ठे. १ प्रीति
सहित, २ जक्ति सहित, ३ वचन प्रधान, ४ असंग अनुष्ठान. जेमां प्री-
तिनो रसवधे, अने क्रिया करनार जइक स्वजाववालो होय, तेने, जेम
वालकने रत्नादि देखी प्रीति थाय, तेम क्रियामां प्रीति थाय, ते प्रीति
अनुष्ठान. २ ज्यां क्रिया करनार विवेकवान् होय अने बहुमानसंयुक्त क्रि-
या करे, अने वाकी सर्व प्रथम अनुष्ठाननी जेम करे, ते जक्ति अनुष्ठान
ठे; अगर जो के स्त्री अने माता पालन, पोपण करवामां सरखां थाय ठे,
तोपण स्त्रीउपर प्रीति राग ठे, अने माता उपर जक्तिराग ठे ३ जिनगु-
णनो जाणनार, सूत्रोक्तविधिपूर्वक जिनप्रतिमानी चंदनादि क्रिया करे,
ते वचनानुष्ठान चारित्रवंतने निश्चयें होयठे. ४ जे अच्यासना रसयी सू-
त्रआलोचना विनाज फलमां निःस्पृही अइने क्रिया करवी, ते असंग अ-
नुष्ठान ठे, जेम कुंजार प्रथम चक्रने दंडयी फेरवे ठे, पठी दंड तजी दे तो
पण चक्र फरेठे; आ दृष्टांत वचन अनुष्ठान अने असंग अनुष्ठानतुं ठे.

चारेमां प्रथम तो जावनाना लेशयी प्रायः बालक प्रमुखने प्राप्त था-
य ठे, अने उत्तरोत्तर अधिक गुण प्राप्त यतां बीजां अनुष्ठान थाय ठे.
आ चारे प्रकारनां अनुष्ठान बहुमानसहित अने विधिपूर्वक करे, तो रू-
पैठपण खरो अने सिको पण खरो, आ प्रथम जेद. जे पुरुष जक्तिराग
तथा बहुमानसंयुक्त होय, परंतु विधि जाणतो न होय, तेनी क्रिया

एकांत खराव नथी, अशठ (चतुर) पुरुषनां अनुष्ठान अतिचार सहित पण शुद्धिनां कारण ठे; कारण के जे रत्न अंदरथी निर्मल ठे, तेनो बाह्य मेल सुखें दूर करी सकाय ठे, आ रूपैउं खरो अने सिको खोटो, एवो बीजो जेद. जे पुरुष, कपट तथा असत्यादि दोषसंयुक्त ठे, अने पोतानुं बहुमान तथा कीर्त्ति बधारवा वास्ते, वा लोकोने उगवावास्ते विधिपूर्वक सर्व अनुष्ठान करे ठे, तेने महा अनर्थरूप फल थाय ठे, आ रूपैउं खोटो अने सिको खरो, एवो बीजो जेद, जे अज्ञानी तथा मिथ्यादृष्टि जीवोनां कृत्यो, ते रूपैउं पण खोटो अने सिको पण खोटो, एवो चोथो जेद. तेकारणथी जे देवपूजादि क्रिया बहुमान अने विधिपूर्वक करे तेने संपूर्ण फल थाय ठे.

हवे उचित चिंतानुं खरूप कहीए ठीए. मंदिरने प्रमार्जन करवुं, कराववुं, जे स्थले मंदिरनो जाग लुटी पड्यो होय ते समराववो, प्रतिमाजी तथा परिवारने निर्मल राखवां, विशिष्टपूजा, दीपोत्सव, पुष्प प्रमुखनी शोभा करवी, आशातनाउं सर्व टालवी, अक्षत, नैवेद्य, फल प्रमुखनी चिंता राखवी, चंदन, केशर, धूप, दीप, तेलनो संग्रह करवो, विनाश न थाय तेवी रीतिए देवद्रव्यनी रक्षा करवी, वे चार श्रावकोने साथे राखी देवद्रव्यनी उघराणी करवी, देवद्रव्यने बहुज यत्नथी निर्जय स्थानमां राखवुं, देवद्रव्यनुं उपज, खरचनुं नामुं प्रगटपणे लखवुं तथा राखवुं, पोते देवद्रव्य आपवुं, बीजाउं पासेथी अपाववुं, देवद्रव्य कोशनी पासे लेणुं होय, त्यां देवना नोकरोने मोकली, जे रीतिए देवद्रव्य जाय नही, ते रीतिए उघराणी कराववी, एवी अनेक रीतें देवद्रव्यनी चिंता तथा सार संजाल करवी.

बली देरा प्रमुखनी चिंता अनेक तरेहनी ठे, तेमां धनवान् धनथी तेमज स्वजनना बलथी चिंता राखे, ते चिंता तेमने सुकर ठे, अने धन विनाना पोताना शरीरबलथी तथा स्वजनबलथी सहाय आपे, ते तेमने साध्य ठे. जेनुं जेटवुं बल होय, ते विशेष रीतें तेटलो बल करे. जे चिंता अल्पकालमां दूर थइ जाय, ते बीजी निस्तीहि पेहेलां करे. वाकीनी बीजी यथायोग्यरीतें पठी करे. तेबीजरीतें धर्मशाला तथा गुरु अने ज्ञान प्रमुखनी पण यथोचित सर्वशक्तिथी चिंता करे; कारण के देवगुरु

आदिनी सार संज्ञाल श्रावक विना वीजा कोइ करनार नथी, ते कारणथी श्रावकें ते वावतमां शिथिल न रेहेवुं जोइए. देवगुरु प्रमुखनी जक्ति, सेवा, सार संज्ञाल, जो श्रावक न करे तो तेना सम्यक्त्वमां कलंक लागे ठे. वली जे श्रावक देवगुरुनो जक्त ठे, तेनाथी कदाचित् कोइ आशातना पण थइ जाय, तो पण तेनुं फल अतिष्ठुःखदायक नथी. ते कारणथी चेत्यादि कृत्यमां निरंतर प्रवृत्त थवुं. यथा ॥ देहे ड्रव्ये कुटुंबे च, सर्वसंसारिणां रतिः ॥ जिने जिनमते संघे, पुनर्मोक्षाजिलापिणां ॥

देव गुरु प्रमुखथी आशातना, जघन्यादि जेदें त्रण प्रकारें ठे. तेमां प्रथम ज्ञाननी आशातनानुं स्वरूप कहीए ठीए. ज्ञाननां पुस्तक, पाटी, जपमाला प्रमुखने मुखनुं थुंक लेश मात्र लागी जाय, हीन अधिक अद्धारोच्चार थाय, ज्ञाननां उपकरण, पाटी, पुस्तक, नवकारवाली प्रमुख पासे होय ते वखतें अधोवातनिःसर्गादि थाय, ते जघन्य आशातना ठे. अकाले पठन प्रमुख करवुं, उपधान वहन कर्या विना सूत्र जणवां, त्रांतिपूर्वक, अर्थनी अन्यथा कल्पना करवी, पुस्तक प्रमुखने प्रमादथी पगादिनो स्पर्श करवो, जूमिपर नाखवां, ज्ञाननां उपकरणो पासे ठतां, आहार मूत्रादि करवां, ते मध्यम आशातना ठे. थुंकथी अद्धार मांजवा, पाटी, पोथी प्रमुख ज्ञाननां उपकरण उपर वेसवुं तथा सुवा प्रमुख करवुं, ज्ञानोपकरणो पासे ठतां वडीनीत करवी, ज्ञान तथा ज्ञानीनी निंदा, द्वेष तथा उपघातादि करवां, उत्सूत्र जापण प्रमुख करवां, ते उत्कृष्ट आशातना ठे.

हवे देवनी आशातना कहीए ठीए. तेमां वास, वरास, केशर प्रमुखना डावदाने वजाववा, श्वास लागी जाय तथा वद्वना ठेडायी देवने स्पर्श थइ जाय ते जघन्य आशातना ठे. धोतीथ्यां प्रमुख पवित्र वस्त्र कर्या विना पूजा करवी, पूजानां वस्त्र जूमिपर नाखवां, श्रुत्यादि मध्यम आशातना ठे. प्रतिमाजीने पगथी संघट्टो करवो, श्लेषम अने थुंक लगाववुं, प्रतिमानो जंग करवो, जिनेश्वर जगवाननी हेक्षण करवी ते उत्कृष्ट आशातना ठे.

हवे देवनी जघन्यथी दश आशातना, मध्यम चालीश आशातना अने उत्कृष्ट चोराशी आशातना ठे, तेमां जघन्य दश आशातना न क-

रवी ते लखीए ठीए. जिनमंदिरमां १ पान सोपारी खावां नहि, २ पाणी पीवुं नहि, ३ जोजन करवुं नहि; ४ पगरखां मुकवां नहि, ५ स्त्री संजोग करवो नहि, ६ सुवुं नहि, ७ थुंकवुं नहि, ८ मूतरवुं नहि, ९ दिशाए जवुं नहि, १० जुगार खेलवो नहि.

हवे मध्यम चात्तीश आशातना वर्जवी तेनां नाम कहीए ठीए १ मूतरवुं नहि, २ दिशा जवुं नहि, ३ पगरखां पेहेरवां नहि, ४ पाणी पीवुं नहि, ५ जमवुं नहि, ६ सुवुं नहि, ७ मैथुनसेवन करवुं नहि, ८ तंवोख खावां नहि, ९ थुंकवुं नहि, १० जुगार खेलवो नहि, ११ माथुं जोवुं नहि, जुंथो काढवी नहि, १२ विकथा करवी नहि, १३ पलोठी करी वेसवुं नहि, १४ पग लांवा पसारवा नहि, १५ ऊघडो करवो नहि, १६ हांसी करवी नहि. १७ ईर्ष्या करवी नहि, १८ उंचे आसने वेसवुं नहि, १९ केश उंलवा नहि, २० ठत्री उंढवी नहि, २१ खड्ग राखवुं नहि, २२ मुगट धारण करवो नहि, २३ चामर वींजाववां नहि, २४ स्त्रीना कामविलास हांसि करवी नहि, २५ धरणुं लगाववुं नहि, २६ क्रीडा, खेल करवा नहि, २७ मुखकोश विना पूजा करवी नहि, २८ मेला शरीरथी तेमज मेला वस्त्रथी पूजा करवी नहि, २९ पूजा करतां मन चपल करवुं नहि, ३० शरीरना जोगना सचित्त डव्यने वहार मुक्याविना मंदिरमां जवुं नहि. ३१ अचित्त डव्य, आचूषण प्रमुख उतारीने जवुं नहि, ३२ एक साडी उत्तरासंग करवुं, ३३ जगवानने देखतांज हाथ जोडवा, ३४ शक्ति ठतां पूजा करवी, ३५ अनिष्ट पुष्पोष्ठी पूजा न करवी, ३६ पूजा प्रमुख आदर सहित करवां, ३७ जिन प्रतिमाना निंदकने वहार काढवा, ३८ मंदिरना डव्यथी सार संजाल करवी, ३९ शक्ति ठतां असवारीपर चडी मंदिरमां जवुं नहि, ४० देरासरमां वडिलथी पेहेलां चैत्यवंदन करवुं नहि. जिनेंज जुवनमां तथा ज्यां प्रतिमाजी होय त्यां चात्तीश आशातना उपरमुजव वर्जवी.

हवे उत्कृष्ट चोराशी आशातनानां नाम लखीये ठीये. १ जिनमंदिरमां श्लेष्म, वडखो नाखवो, २ जूआ आदिनी क्रीडा करवी, ३ कलह करवो, ४ धनुपादि कला शिखवी, ५ कोगला करवा, ६ तंवोख खावां, ७ तंवोखनो उंगाल नाखवो, ८ गाल देवी, ९ दिशामात्रा करवी, १० हाथप्रमुं-

खधोवा, ११ केशसमारवा, १२ नख समारवा, १३ लोही नाखवुं, १४ सुखडी प्रमुख खावुं, १५ गुंमडा प्रमुखनी त्वचा नाखवी, १६ श्रौपधखातां पित्त नाखवुं. १७ वमन करवुं, १८ दांत उखडेखो नाखवो, १९ हाथ पग मसलाववा, २० घोडाप्रमुख वांधवा, २१ दांतनो मेल नाखवो, २२ श्रांखनो मेल नाखवो, २३ नखनो मेल नाखवो, २४ गालनो मेल नाखवो, २५ नाकनो मेल नाखवो, २६ माथानो मेल नाखवो, २७ शरीरनो मेल नाखवो, २८ काननो मेल नाखवो, २९ जूतादि खिन्नी लेखावास्ते मंत्रसाधवा, वा राजाप्रमुखनुं काम होय, तेनो विचार करवो, ३० मंदिरमां विंवाह प्रमुखनी पंचात करवी, ३१ व्यापारनां लेखां करवां, ३२ राज्यनुं काम वेहेंची आपवुं, अथवा जाइप्रमुखने धननो हिस्सो वेहेंची आपवो, ३३ घरनो जंडार मंदिरमां राखवो, ३४ पगलपर पगराखी खराव आसन करी वेसवुं, ३५ मंदिरनी जीतउपर ठाणां थापवां, ठाणनो ढगलो करवो, ३६ वस्त्र सुकववां, ३७ दाल दलवी, ३८ पापड वडी सुकववी, ३९ वडां वनाववां, उपलक्षणथी केर, चीजडां, शाकप्रमुख सुकववा नाखवां; ४० राजा प्रमुखना लेणदारना जयथी नासी मूलगजारामां संताइ जवुं, ४१ पुत्रकलत्रादिना मरणथी मंदिरमां रोवुं, ४२ राज्यकथा, देशकथा, स्त्रीकथा, जक्तकथा आ चार विकथा करवी, ४३ धनुपादि शस्त्र घडवां, ४४ गाय, बलदप्रमुख राखवा, ४५ टाढ उडाडवा अग्नि तापवो, ४६ धान्यादि रांधवां, ४७ रूपैथा परखवा, ४८ विधिथी निस्सीहि न करवी, ४९ उत्र, ५० पगरखां, ५१ शस्त्र, ५२ चामर, मंदिर वहार न सुकवां, ५३ मन एकाग्र न करवुं, ५४ तेलादिनुं मईन करवुं, ५५ शरीरना जोगनां सच्चि पुष्पादिनो त्याग न करवो, ५६ द्वार, मुद्रा, कुंडलादि वहार मुकी, आववुं. तेम करवाथी आशातना लागे, कारण के लोकोमां एम कहेवाय के अर्हंतना जक्त सर्व कंगाल, जिखारी ठे, जेथी जिन मतनी खधुता थाय. ५७ जगवानने देखतांज हाथ न जोडवा, ५८ एकसाडी उत्तरासंग न करे, ५९ मुगट मस्तकपर राखे, ६० माथाउपर मोलीयुं लपेटे, ६१ फूलना शहरा राखे, ६२ नाडीश्ररनां ठोतरां नाखे, ६३ गेडी खेले, ६४ पिताप्रमुखने जुहार करे, ६५ जांड चेष्टा करे, ६६ तिरस्कार वास्ते हुंकारा, हुंकारा करे, ६७ लेणावास्ते घरेणुं घाले, ६८ खडाइ करे, ६९ माथाना बाल सुकवे, ७० पलोठी मारी वेसे, ७१ लाकडीनी पावडी

पगमां राखे, ७२ पग लांवा करे, ७३ सुखनेवास्ते हाथताली (पुडपुडी)
 आपे, ७४ शरीरना अवयवो धोइ कीचड करावे, ७५ पगने लागेली धूल
 उडाडे ७६ जुं नाखे, ७७ जोजन जमे, ७८ मैथुनक्रीडा करे, ७९ गुह्य
 चिह्न उघाडुं राखी वेसे, ८० वैद्यकनुं काम करे, ८१ क्रयविक्रयरूप वा-
 णिज्य करे, ८२ शय्या बनावी सुवे, ८३ पाणी पीवाने वास्ते माटळुं राखे,
 मंदिरनी परनालनुं पाणीले, ८४ स्नान करवानी जगा वनावे. आ उत्कृष्ट
 चोराशी आशातना जिनमंदिरमां वजे.

हवे गुरुनी तेत्रीश आशातना लखीये ठीये. १ गुरुनी आगल चालवुं
 ते आशातना ठे, परंतु रस्तो वताववा वास्ते चाले तो आशातना नथी.
 २ गुरुनी वरावर चालवुं, गुरुथी पाठल अडकीने चालवुं, आ चालवानी
 जेम त्रण आशातना कही, तेम वेसवानी त्रण आशातना, तेमज उजा
 रहेवानी त्रण आशातना जाणवी, एम नव आशातना थइ, १०
 जोजन करतां गुरुनी पेहेलां शिष्ये चळु करवुं, ११ गमनागमन गुरुना पे-
 हेलां आलोववुं, १२ रात्रिमां गुरु पुठे के कोण जागे ठे? एम सवाल सां-
 जलतां ठतां, अने जागतां ठतां उत्तर न आपवो, १३ जो कोझे कांइ
 कहेवुं होयतो गुरुनी पेहेलां शिष्ये कही देवुं, १४ बीजा साधुउनी पासे
 अशनादि आलोवे, पठी गुरुपासे आलोवे १५ तेबीज रीतें अशनादि प्र-
 थम बीजा साधुने वतावे, पठी गुरुने वतावे, १६ अन्नादिवास्ते प्रथम बी-
 जा साधुउने निमंत्रणा करे, पठी गुरुने निमंत्रणा करे, १७ गुरुने पुठ्यावि-
 ना बीजाउने स्निग्ध, मधुरादि आहार आपी दे, १८ स्वेच्छाथी, गुरुने य-
 त्किंचित् आहार आपी, पोते स्निग्धादि आहार खाय, १९ गुरु बोलावे
 तो बोले नहि, गुरुने बहुज कठोर वचन कहे, २० ज्यारे गुरु बोलावे,
 त्यारे आसन उपर वेठांज उत्तर आपे, २१ गुरु बोलावे त्यारे बोले के शुं
 कहो ठो? २२ गुरुने डुंकारा करे, २३ गुरु प्रेरणा करे, त्यारे गुरुनी प्रेर-
 णाने उत्तर आपी हणे, जेम के गुरु कहे के हे शिष्य! तमे अमुक
 ग्लाननी वैय्यावष्ट केम न करी, त्यारे शिष्य कहे तमे केम करता नथी?
 २४ गुरु कथा करे त्यारे मनमां प्रसन्न न थाय, परंतु विमन राखे २५
 सूत्रादि कहेतां गुरुने कहे के, तमने अर्थ याद नथी? तेनो अर्थ आ
 प्रमाणे थतो नथी? २६ गुरु कथा करे, ते कथानी वचमां जंगपाडे, अने

कहे के हुं कथा करीश. १७ परखदाने विखेरे, कहे के ह्वे जिहानो अवसर थयो ठे, इत्यादि, १८ परखदा उव्याविना गुरुनी कहेली कथाने, पोतानी चतुराइ देखाडवा वास्ते विशेष करी कहे, ३० गुरुनी शय्या संथाराने पगथी संघटो करे, ३१ गुरुनी शय्याउपर वेसवाप्रमुखं करे, ३२ गुरुथी उंचे आसने वेसे, ३३ गुरुनी वरावर आसन करे. आ तेत्रीश गुरुनी आशातना शिष्य वजें.

आ गुरुनी आशातना त्रण प्रकारनी ठे. पगादिथी संघटो करे ते जघन्य आशातना. श्लेष्म, थुंकादि गुरुने लवमात्र लगावे, ते मध्यम आशातना. गुरुनो आदेश न करे, जो करे तो पण उलटो करे, कठोरवचन बोले, गुरुनुं कह्युं न सांजले, ते उत्कृष्ट आशातना ठे.

स्थापनाचार्यनी आशातना पण त्रण प्रकारनी ठे, अहीं तहीं ह्वावे चलावे, पगनो स्पर्श करे ते जघन्य आशातना; भूमि उपर नाखे, वा अवज्ञाथी धारण करे ते मध्यम आशातना; स्थापनाचार्यने खोवे तथा त्रोडे ते उत्कृष्ट आशातना ठे; तेवीजरीतें ज्ञानोपकरण, दर्शनोपकरण, तथा चारित्रोपकरण, रजोहरणादि, मुखवस्त्रिका, दंडक, दंडिका प्रमुखनी पण आशातना टाले.

श्रावकें सर्वधर्मोपकरण चरवला, मुहपत्ति प्रमुख विधिपूर्वक स्वस्थानमां स्थापना प्रमुख करवी जोइए, अन्यथा धर्मनी अवज्ञा प्रमुख दूषणो लागे. शास्त्रमां लख्युं ठे के जे उत्सूत्र जाखे, तथा अर्हत अने गुरुनी अवज्ञा प्रमुख महाआशातना करे ते सावद्याचार्य, मरीचि, जमालि, कुलवाहुकादिनी पेठे अनंत जन्म मरणनी वृद्धि करे. यतः ॥ उस्सुत्त चासगाणं, वोही नासो अणंत संसारो ॥ पाणञ्च एवि धीरा, उस्सुत्तं तान चासंति ॥ १ ॥ तिठयर पवयण सुयं, आयरियं गणहरं महिद्धियं ॥ आसायं तो बहुसो, अणंत संसारिउं होई ॥ २ ॥

तेवीजरीतें देवद्रव्य, ज्ञानद्रव्य, साधारण द्रव्य तथा गुरु द्रव्य, वस्त्र, पात्रादि, तेनो विनाश थतो देखी, वचाव नहि करतां उपेक्षा करवी; ते पण महा आशातना ठे. यदूचे ॥ गाथा ॥ चेइअ दव विणासे, इ-सिधाए पवयणस्सं उडाहे ॥ संजइ चउत्थ जंगे, मूलग्गी बोहि ला-जस्स ॥ १ ॥ तथा श्रावक दिनकृत्य, दर्शनशुद्धि आदि शास्त्रोमां लख्युं

ठे के ॥ गाथा ॥ चेइअ दवं साहा, रणं च जो उहइ मोहि अमईउं ॥
धम्मंच सोनयाणाइ, अहवा वड्ढाउठं न रए ॥ १ ॥ अर्थः—चैत्यद्रव्य
तथा साधारणद्रव्यनो जे मोहितमति नाश करे, ते कां तो धर्म जा-
णतो नथी, अथ वा तो तेषें नरकनुं आयुष्य बांधेलुं ठे, तेज कारणथी एवं
अयोग्य काम करे ठे; वली चैत्यद्रव्यनो नाश, नक्षण तथा उपेक्षा को-
इ करतो होय, तेने जो साधु न हठावे, तो ते साधु पण अनंत सं-
सारी थइ जाय.

प्रश्नः—मन, वचन, कायाथी जेषें सावयनो त्याग करेल ठे, एवा य-
तिने चैत्यद्रव्यनी रक्षा करवानो शुं अधिकार ठे ?

उत्तरः—जो राजा, वजीर के श्रेष्ठ प्रमुखनी याचना करी तेउनी पा-
सेथी घर, डुकान, गामादि लइ विधिथी नवी पेदाश उत्पन्न करे तो
तारुं विवक्षित दूषण लागशे; परंतु यथा नक्षकादिथी जे कोइए प्रथम
आपेल होय, तेनो नाश थतो देखी रक्षा करे तो कांइ दूषण लागतुं
नथी, बलके जिनाझानी आराधना होवथी धर्मनी पुष्टि थाय ठे.

नवां जिनमंदिर वनाववाथी, जे पूर्वे वनेलां ठे, तेना प्रतिपंथि अर्थात्
शत्रुने जो साधु हठावे, तो ते साधुने प्रायश्चित्त नथी, तथा ते साधुनी,
प्रतिज्ञा पण जंग थती नथी. आगम पण एमज कथन करे ठे. ते का-
रणथी जिनद्रव्य जे खाय तथा उपेक्षा करे, ते श्रावक आगलना जन्म-
मां बुद्धिहीन थाय, अने पापकर्मथी लेपायमान थाय ठे. यथा ॥ आ-
यणं जो जंजइ, पडिवन्नं धणं न देइ देवस्त ॥ नस्तंतं समुविखइ, सो-
विहु परिजमइ संसारे ॥ १ ॥ अर्थः—जे पुरुष मंदिरनी आमदानी जां-
गे, अने जे मोढेथी बोल्याठतां, जिनद्रव्य न आपे, ते पण संसारमां प-
रिजमण करे. तथा ॥ जिणवयण बुद्धिकरं, पचावगं नाण दंसण गुणाणं ॥
जखंतो जीणदवं, अणंत संसारीउं होई ॥ २ ॥ अर्थः—जे जिनमतनी
वृद्धि करे, चैत्यपूजा, चैत्य समारवां, महापूजा, सत्कारादि करी, ज्ञा-
न दर्शननी प्रज्ञावना करे, परंतु जिनद्रव्यनो नाश करे, तो ते अनंतसं-
सारी थाय, अने जो जिनद्रव्यनी रक्षा करे तो अल्पसंसारी थाय; दे-
वद्रव्यनी वृद्धि करे तो तीर्थकर नाम कर्म बांधे; परंतु पंदर कर्मादान,
असत्य व्यापार दूर करी. सद्ब्यवहारथी जिनद्रव्यनी वृद्धि करे. ॥

यतः ॥ जिणवर आणा रहियं, वद्धारंतावि केवि जिणदधं ॥ बुद्धंति ज-
वसमुद्धे, मूढा मोह्णेण अन्नाणी ॥ १ ॥

कोइ कहे ठे के श्रावक विना वीजाउने तेउंना अधिक किंमतना दागीना राखीने कालांतरे व्याजनी वृद्धि करे, ते उचित ठे. एम कहेवुं पण ठीक ठे; कारण के सम्यक्त्वपचीशी आदि ग्रंथोमां संकाशनी कथांमां तेमज लखेल ठे. चैत्यद्रव्य चंद्राण करवाथी बहुज कष्ट पामवुं पडे ठे. सागर श्रेष्ठिवत् ॥ आ कथा श्राद्धविधि ग्रंथथी जाणवी. ज्ञानद्रव्य पण देवद्रव्यनी जेम अकल्पनीय ठे, अर्थात् तेनो पण नाश न करवो, चंद्राण न करवुं, अने वगडतां तेनी सार संज्ञाल करवी; तेवीज री-
तें साधारण द्रव्य पण संघनी अनुज्ञाथीज कल्पे ठे. अनुज्ञाविना काममां लेवुं न कल्पे. संघें पण साते क्षेत्रमांज साधारण द्रव्य वापरवुं जोइए. वीजा मागनाराउने पण तेमांथी आपवुं न जोइए. तेवीज रीतें ज्ञान संबंधी कागल, पत्रादि, साधुनुं आपेवुं श्रावकें पोताना कार्यमां नहि वापरवुं जोइये. पोतानी पोथीमां पण नही राखवुं जोइए. स्थापनाचार्य अने जपमालादि लइ लेवानो व्यवहार तो देखाय ठे; तथा गुरुनी आ-
ज्ञा विना साधु साध्वीए लिखिया पासे लखावुं. तेमज वल्ल सूत्रादिनुं लेवुं पण कल्पतुं नथी. इत्यादि विचारी लेवुं. ते कारणथी थोडा पण ज्ञान तेमज साधारण द्रव्यनो जोग न करवो जोइए.

देवने नामें बोले, ते द्रव्य तत्काल आपवुं जोइए, कारण के देवद्रव्य जेटवुं शीघ्र आपे, तेटवुं उत्तम ठे. कदापि विलंब करे तो पठी कोण जाणे धनहानि, वा मरण थाय? तेवे प्रसंगे देवद्रव्यनुं ऋण रही जाय. वली संसारी गृहस्थोनुं देवुं पण श्रावकें शीघ्र आपवुं जोइए, तो पठी देवद्रव्य वास्ते शुंज कहेवुं? जे वखत माला पेहेरावी, वा जो कांइ देवद्रव्यना चंडारमां आपवानुं कर्युं, तेज वखतथी ते देवद्रव्य थइ चुक्युं. ते द्रव्यथी जे लाज मेलवाय ते पण देवद्रव्य समजवुं. ते द्रव्य श्रावकें जोगववुं न जोइए, तेज कारणथी शीघ्र आपी देवुं जोइए. जो मास आदि पठी आपवानो करार करे तो करार उपर भाग्या विना जरूर आपी देवुं. जो करार वित्यावाद आपे तो देवद्रव्य खावानो दोष लागे. देवद्रव्यनी उघराणी पण श्रावक पोतानी उघराणीनी पेठे यत्तथी

करे. जो देवद्रव्य लेवामां ढील करे, अने कदाचित् देवादारनी दुर्निष्क आदि कारणथी दरिद्रादि अवस्था आवी जाय तो फरी मलबुं मुश्केल थइ जाय, वली देनार पण उत्साहपूर्वक कपटरहित थइ शीघ्र आपी दे; नही तो देवद्रव्य नक्षण करवानो दोष ठे.

वली देव, ज्ञान तथा साधारण संवंधी डुकान, खेतर, वाडी, घर, पडर, इंट, चुनो, काष्ठ, वांस, माटी, खडी, चंदन, केशर, बरास, फूल, चंगेरी, धूपपात्र, कलश, वांसकुंपी, ठत्र, सिंहासन, चामर, चंदरवा, जालर, जेरी, चंदनी, तंबु, कनात, पडदा, कांबल, वाजोठ, तखता, पाटला, पाटी, घडा, वेवा, उरसीआ, काजल, जल, दीवा, चैत्यशाला, परनालतुं पाणी इत्यादि सर्व देव विगेरेतुं पोताना काममां न वापरबुं जोइये. तुटी जाय, फाटीजाय, वा मखिन थायतो महादोष लागेठे. देवनी पासे वलता दीवाना प्रकाशमां कोइ सांसारिक काम करे तो ते मरीने तिर्यंच थाय; ते कारणथी देवना दिवामां खतपत्रादि वांचवां न जोइये. रुपीआपण न परखवा. घरनां काम तो करवांज नहि. वली देवना केशर चंदनतुं तिलकपण न करबुं. देवना जलथी हाथ पण न धोवा. स्नात्रजलपण थोडुंज वापरबुं जोइये. देवना जालर, मृदंग, जेरीप्रमुख जे जे सामान, गुरु तथा संघना कार्यमां वापरे, तो ते वावतनो नकराणो आपी वापरे. कदाचित् कोइ उपकरण तुटी जायतो पोताना पैसा खरची नबुं वनावी आपे. देवना दीप फानस प्रमुखमां जुदाज राखे; अने जो साधारण ड्रव्यनी जालर प्रमुख वस्तुतुं वनावे तो सर्व धर्मकार्यमां वापरी शकाय. तेमां दोष नथी. जेवा जावथी करे, तेबुं प्रमाण ठे.

देवनां तथा ज्ञान खातानां घर प्रमुख पण श्रावकें निःशुकतादि दोष होवथी चाडे राखवां न जोइये. साधारण ड्रव्यना घरप्रमुख संघनी अनुमतिथी लोकव्यवहारें चाडुं आपी वापरे तो दोष नथी; परंतु चाडुं करारने दिवसे पोतानीमेले आपी देबुं जोइये. चाडे राखेबुं मकान समराववामां पोतानुं धन वापरे तो हिसावमां मजरे ले. तेमां दोष नथी; कोइ साधर्मी दुःखी होय, निर्धन थइ गयो होय, अने ते संघनी आझाथी चाडुं आप्याविना रहे तोपण दोष नथी. वली तीर्थादिमां अथवा देरासरमां बहु वखत रेहेबुं पडे, तेमां सुवे, तो त्यांपण व्यवहार मुजब अधिक चाडुं

आपे, उंडुं जाडुं आपे तो दोष लागे. जाडुं आप्याविना देव ज्ञान तथा साधारण संबंधी कलश, पाटला प्रमुख उपकरणो उजमणामां, पुस्तक पूजामां, नंदी प्रमुखमां मांडवासारु न देवां जोड्ये; कारण के उजमणां पोताना नामथी करवामां आंवेठे, अने तेमां देव, ज्ञान, वा साधारण खातानी वस्तुळ नकरा शिवाय वपराय तो दोष लागेठे.

घर देरासरमां चडाववामां आवेला अक्षत, सोपारी, वदाम, प्रमुख वेचवाथी जे धन उपजे, तेनां पुष्प प्रमुख लड घरदेरासरमां न चडावे, मोटामंदिरमां पण न चडावे. जे पूजारी होयतेने सर्व हकीकत कहे; अने मंदिरनुं डव्य ठे, पण मारुं नथी एम स्पष्ट कहे. पूजारी न होय तो संघसमझ कही दे. एम न कहे तो महादोष ठे. घरदेरासरनुं नेवेद्यादि मालीने आपे, परंतु तेथी मालीनी नोकरी हिसावमां न ले. प्रथमथीज जोड्ती पुष्पादि वस्तु आपवी एवा करारथी काम ले तो दोष नथी. मुख्यवृत्तियें तो नोकरीवास्ते चडेळुं आपवाथी जुडुं आपवुं जोड्ये.

घरदेरासरमां चडेला अक्षत प्रमुख मोटा मंदिरमां मोकलावी आपे, अन्यथा घरदेरासरना डव्यथी घरदेरासरनी पूजा गणाशे, परंतु पोताना डव्यनी अशे नहि. तेम करवाथी अनादर, अवज्ञादि दोष ठे, तेथी तेम करवुं युक्त नथी. खडव्यथीज पूजा करवी उचित ठे. देरानां नेवेद्य, अक्षतादि पोताना डव्यनी जेम साचववां जोड्ये, वरावर किंमते वेची, देव डव्य वधारवुं जोड्ये. परंतु जेम तेम वेची आपी देवां न जोड्ये. जो तेम करे तो देवडव्य नाश करवानो दोष लागेठे.

सर्व रीतें रक्षण करतां ठतां चोर, अग्नि आदिना उपडव्यथी देवडव्यनाश पामे तो चिंताकारकने दोष नथी.

देव, गुरु, यात्रा, तीर्थपूजा, संघपूजा, साधर्मिवात्सल्य, स्नात्रप्रज्ञावना, ज्ञान लखाववा प्रमुख कारणोवास्ते वीजाळ पासेथी धन ले, त्यारे चार पांच पुरुपोने साङ्गी राखी ले; पठी खरचवाना प्रसंगमां पण गुरुसंघ प्रमुख प्रगट कही दे, के आ धन में अमुक सख्तनुं आपेळुं खरचेळुं ठे. मारुं नथी.

तीर्थादिमां, तेमज पूजा स्नात्रमां, ध्वजा चडाववा प्रमुख आवश्यक कर्तव्यमां खरच वीजाने शिर नहि नाखतां, पोतेज यथाशक्ति करे. जो कोड्यें धन खरचवाने आप्युं होय तो तेनुं नाम प्रगट बोली काम करे.

जो घणाये मल्ली साधर्मिवात्सल्य, संघपूजादि कार्यमां धन वापरवा आप्युं होय तो जेनो जेनो जेटलो जेटलो हिस्सो होय ते ते सर्व प्रगटपणे कही दे, नहिं तो पुण्यफलनी चोरी लागे.

बली मरणांत समये माता, पिता प्रमुखें जे धर्ममां खरचवा कहुं होय, तथा पुत्रादि जे खरच करवुं कबुल करे. ते बहु श्रावकोपासे कही देवुं जोशए. जेम के हुं तमारा नामथी अमुक दिवसनी अंदर अमुक धन खरचीश, तमे तेनी अनुमोदना करो. पठी ते धन सर्व समक, पोताना नामथी नही, परंतु माता पिता प्रमुखना नामथी ते मुदतनी अंदर खरची देवुं जोशए. धर्मनां खरच मुख्यवृत्तिए तो साधारण अ-व्यथीज करवां जोशए; कारण के ज्यां ज्यां काम पडे, त्यां त्यां उपयोगमां आवे. सात क्षेत्रोमां जे क्षेत्र सीदालुं होय, तेमां धन खरची, तेने टेको आपे. कोश श्रावक निर्धन थइ गयो होय तो, तेने तेज धनथी सहाय आपे ॥ लोकेष्युक्तं ॥ दरिद्रं जर राजेंद्र, मा समृद्धं कदाचन ॥ व्याधितस्यो-पधं पथ्यं, नीरोगस्य किमौपधं ॥ १ ॥ तेज कारणथी, परजावना; संघ पे-हेरामणी तथा लाणीप्रमुखमां, जे निर्धन साधर्मी होय, तेने विशेष वस्तु आपवी जोशये; अन्यथा धर्म अवज्ञादि-दोष लागे. बली धनवानथी निर्धनने अधिक देवुं ते पण युक्तठे. जो शक्ति न होय तो वंनेने वरावर आपे.

पोतानो खरच धर्मद्रव्यथी न करवो जोशये. यात्रादि निमित्त जे धन काढवामां आवे, ते सर्व देवादि निमित्त थयुं. जो ते द्रव्य पोताना जो-जनमां अथवा गाडी प्रमुख जाडामां वापरे तो अवश्य तेने देवद्रव्यखा-वानो दोष लागे. कदाचित् अज्ञानताथी, चूकथी, वे समजथी, इत्यादि कारणथी कोश श्रावक देवादि द्रव्यनो उपचोग करी ले, तेना प्रायश्चित्त-मां, जेटलुं द्रव्य तेणें उपचोगमां लीधुं होय तेटलुं द्रव्य देव, साधारण संवंधी जुहुं काढे मरणसमये शक्तिना अज्ञावथी धर्मस्थानमां थोडुं ख-रचे, परंतु देवुं कोशुं राखे नहिं. देवप्रमुखनुं द्रव्य तो विशेषें करी राखे नहिं. ए प्रमाणे श्रीजिनराजनी पूजा, शक्ति, द्रव्य रक्षणादि दृढ जा-वथी करवां जोशये. इति.

हवे गुरुवंदनविधि लखीये. ठीये. ज्ञानादि पांच आचार संयुक्त होय;

तथा जे शुरु प्ररूपक होय, ते गुरु ठे. पांच आचारनुं स्वरूप जोनुं होय तो, श्रीरत्नशेखरसूरिकृत आचारप्रदीप ग्रंथ जोइ लेवो.

पूर्वोक्त गुरु, आचार्य प्रमुख सन्मुख, जे प्रत्याख्यान पूर्व पोते पोतानी मेले कर्युं हतुं, ते विशेष रीतें विधिपूर्वक गुरुमुखधी उचरावे; कारण के प्रत्याख्यान त्रणतरेहथी करवामां आवेठे. १ आत्मसाक्षिक, २ देवसाक्षिक, ३ गुरुसाक्षिक, तेनो विधि आ ठे—

गुरु, मंदिरमां देववंदनार्थें, स्नात्रादि देखवावास्ते, धर्मोपदेश देवावास्ते, जिनमंदिरमां आख्या होय, तथा वस्तिमां होय, त्यां मंदिरनी जेम त्रण निस्सिहि, पांच अत्तिगमनादि, यथायोग्य विधिपूर्वक जइ गुरु धर्मोपदेश आपे ते पहेलां अथवा पठी यथाविधियें पचवीश आवश्यक, शुरु द्वादशावर्त्त वंदन करे; गुरुवंदननुं फल बहुज मोडुं ठे. कृष्णवासुदेववत्. ज्ञाप्यमां वंदनाना त्रण प्रकारठे. एक तो मस्तक नमावतुं ते फेटावंदना, वीजी संपूर्ण वे खमासणां प्रमुख कहेवां ते स्तोत्रवंदना, त्रीजी द्वादशावर्त्त करवाथी, द्वादशावर्त्तवंदना थाय ठे. प्रथमनी वंदना सर्व संघने करवी; वीजीवंदना सर्व स्वदर्शनी साधुजने करवी; अने त्रीजी वंदना पदवीधर आचार्य प्रमुखने करवी.

जेणें सवारनुं पडिकमाणुं न कर्युं होय, तेणें विधिपूर्वक वंदना करवी; कारण के ज्ञाप्यमां लख्युं ठे के, सवारनो वंदनाविधि आ प्रमाणे करे. प्रथम १ ज्ञाप्योक्तविधियें श्यापथ प्रतिक्रमे, पठी २ कुस्थाननो कायोत्सर्ग करे, सो उच्चास प्रमाण करे, जो स्वर्गमां स्त्रीसाथे संगम कर्यो होय तो अशुचिनी सर्व जगा धोइ, पठी एक सो आठ श्वासोच्चास प्रमाण कायोत्सर्ग करे. पठी ३ चैत्यवंदन करे. पठी ४ क्षमाश्रमणपूर्वक मुहपत्ति प्रतिलेखे, पठी ५ वे वंदणां दे, पठी ६ देवसि आदिक आलोवे, पठी ७ वांदणां दे, पठी; ८ अप्रुठिठमि कहे, पठी ९ वे वांदणां दे, पठी १० प्रत्याख्यान करे, पठी ११ जगवान अहं इत्यादि चार क्षमाश्रमण दे, पठी १२ स्वाध्याय संदिसाहु कहे, पठी क्षमाश्रमणपूर्वक सहाय करुं एम कहे, पठी स्वाध्याय करे.

हवे संध्यावंदनविधि लखीयें ठीयें. १ श्यापथ पडिकमे, पठी २ चैत्यवंदन करे, पठी ३ क्षमाश्रमणपूर्वक मुखवस्त्रिकानुं प्रतिलेखन करे, प-

ठी ४ वे वादणां दे, पठी ५ दिवसचरिमतुं प्रत्याख्यान करे, पठी ६ वे वादणां दे, पठी ७ देवसि आलोउं कहे, पठी ८ वे वादणां दे, पठी ९ अपुच्छिउं कहे, पठी १० जगवान् आदि चार स्तोत्रवंदना करे, पठी ११ देवसि प्रायश्चित्तनो काउसग्ग करे, पठी १२ पूर्ववत् वे खमासमण दइ स्वाध्याय करे.

जो गुरुतुं चित्त वीजां कार्य करवातरफ होय, तो संक्षेपमात्र वंदना करे. एम वंदनापूर्वक गुरुपासे प्रत्याख्यान करावे; कारण के श्रावक प्र-
ज्ञितिसूत्रमां लख्युं ठे के, प्रत्याख्यान करवाना परिणाम दृढ होय तो प-
ण, गुरुपासे प्रत्याख्यान करे; गुरुपासे प्रत्याख्यान करवामां चार गुण ठे.
१ दृढता थायठे, २ आज्ञापालन थायठे, ३ कर्मनो क्षय थाय ठे, ४ उप-
शमनी वृद्धि थाय ठे.

एविज रीतें दैवसिक, चातुर्मासिक नियमादि पण गुरु विद्यमान उतां, गुरुनी साक्षियेंज करवा जोश्ये. योगशास्त्रमां गुरुनी जक्ति आ प्रमाणे क-
हीठे. तथा ॥ अच्युत्थानं तदालोके, ज्ञियानं च तदागमे ॥ शिरस्यंजलि
संश्लेषः, स्वयमासनढौकनं ॥ १ ॥ आसनाजिग्रहोजक्त्या, वंदना पर्युपा-
सनं ॥ तद्यानेऽनुगमश्चेति, प्रतिपत्तिरियं गुरौ ॥ २ ॥ अर्थः—१ गुरुने आ-
वता देखी उजां थवुं, २ सन्मुख लेवा जवुं, ३ मस्तक उपर अंजलि बांधी
प्रणाम करवा, ४ आसन देवुं, ५ ज्यारे गुरु आसन उपर बेसे, त्यारेमारे
बेसवुं एवो अजिग्रह करवो, ६ जक्तिथी वंदना, पर्युपासना करवी, ७
ज्यारे गुरुजाय त्यारे पहाँचाडवा जवुं; वली १ गुरुने अडी वरावर न वे-
से, २ गुरुथी आगल न वेसे, ३ गुरुनी तरफ पीठ दइ न वेसे, ४ गुरुनी पा-
से पग उपर पग चडावी न वेसे, ५ पलोठी मारी न वेसे, ६ हाथथी जंघा
लपेटी न वेसे, ७ पग पसारी न वेसे, ८ विकथा न करे, ९ बहु हसे नहि
१० निद्रा ले नहि, ११ मन, वचन, काया गोपवी, वे हाथ जोडी, जक्ति
बहुमानपूर्वक, उपयोगसहित सांजले. सारांश के गुरुपासे धर्म सांज-
लवाथी आ लोक तथा परलोक संबंधी बहु गुणो प्राप्त थायठे.

वली गुरुने पुठे, साहेव ! कोइ साधु रागग्रस्त ठे, तो वैद्यने वोलावुं ?
औपधादि उपचारवास्ते फरमावो ? गुरुना फरमान मुजब करे. गुरु गंध-
नी सर्व तरेहथी सार संज्ञाल ले. जोजनने श्रवसरे उपाश्रये जइ साधुने
निमंत्रणा करे, वली औपध प्रमुख जे जेने पथ्य होय ते तेने आपे. ज्यारे

साधु, श्रावकने घेर आवे, त्यारे जे जे वस्तु साधुने योग्य होय, ते ते सर्व वस्तु देवावास्ते निमंत्रणा करे. सर्व वस्तुर्तनां नाम साधुपासे ले, जो के साधु न लहे तोपण दाताने जीर्णशेठवत् पुण्य फल ठे. रोगी साधुनी वैयावच्च करवाथी जीवनंद वैद्यवत् महापुण्य फल थायठे. साधुर्तने रेहेवा वास्ते स्थान आपे; जिनशासनना प्रत्यनीकने सर्वशक्ति वापरी निवारण करे. साधवीर्तनी दुष्ट, नास्तिक, दुःशील पुरुपोथी रक्षा करे. पोताना घरनी पासे बंदोवस्तवाला, सुंदर उपाश्रय रहेवा आपे, ते साधवीर्तनी, पोतानी स्त्री, बहु, वेहेन, दीकरी प्रमुख पासे सेवाजक्ति करावे. पोतानी दीकरीर्तने साधवीर्त पासे विद्या शिखवा मोकले. जो कोइ दीकरीने विद्यान्यास करतां वैराग्य आय, तो साधवीने आपे, जो कोइ साधवी धर्मकृत्य चूली जाय, तो स्मरण करावे. जो कोइ साधवी अन्यायमां प्रवृत्ति करे तो तेने निवारे. वली पोते दररोज गुरुपासे नवीन नवीन शास्त्र अन्यास करे. जो अल्पबुद्धि होय तोपण जणवानो विचार न ठोडे. इत्यादि धर्मकृत्य कर्मा पठी, श्रावक जो राजा होय तो राजसत्तामां जाय, प्रधान होय तो, न्यायसत्तामां जाय, वाणीर्त होय तो बजारमां दुकाने जाय, इत्यादि उचित स्थानमां, जइ, धर्मथी विरुद्ध न होय ते रीतें धन उपार्जन करवानी चिंता करे.

हवे राजा केवी रीतें प्रवर्त्ते ते लखीये ठीये. राजा, दरिद्री मान्य, अमान्य, उत्तम, अधमादि सर्वलोकोनो पक्षपातरहित मध्यस्थरीतें न्याय करे. प्रधाननुं कर्त्तव्य ए ठे के तेणें राजा तथा प्रजा, उन्नयने नुकशान न थाय तेवी रीतें प्रवर्त्तवुं जोइये. कारण के नीतिशास्त्रनो श्लोकठे के जे मंत्री राजानुं हित वांठेठे, तेना उपर प्रजा छेपकरे ठे, अने जे प्रजानुं हित करे ठे, तेने राजा तजी देठे, तेथी एवी विपमस्थितिबिचारपूर्वक राजा प्रजा वनेना हितनो प्रधानें विचार करी काम करवां जोइये.

वणिक व्यापारीर्तनी फरज ए ठे के तेमणे व्यापारनी शुद्धि करवी जोइये. यदाह ॥ विवहारसुद्धि देसाइ, विरुद्धाच्य उचिय चरणेहिं ॥ तो कुणइ अत्यचिंतं, निवाहितो नियंभम्मं ॥१॥ व्यापारनी शुद्धि, देशादि विरुद्धनो त्याग, उचित आचरण, आ त्रण साचवी धन उपार्जनकरवानी चिंता करे. वली पोताना धर्मनोपण निर्वाह करे. संसारमां एवुं कोइ कार्य नथी,

जे धनथी सिद्ध न थाय ? ते कारणथी बुद्धिमान् धन उपार्जन करवानो यत्न करे ॥ यदाह ॥ नहि तद्विद्यते किंचि, यदर्थेन न सिद्ध्यति ॥ यत्नेन-मतिमांस्तस्मा, दर्थमेकं प्रसाधयेत् ॥ १ ॥ आश्लोकमां जे अर्थचिंता बतावी, ते अनुवादरूप समजवी, कारण के धन उपार्जन करवानी चिंता लोकमां स्वतः सिद्धते, कांश् शास्त्रकारना उपदेशथी नथी; अने “ धर्म निर्वाहयन् ” आ जे कथनते, ते कहेवायोग्य ठे, कारण के तेनी आगल प्राप्ति नथी. शास्त्रनो उपदेश अप्राप्त अर्थनी प्राप्ति वास्तेज होय ठे, शेष सर्व अनुवादादिरूप ठे.

हवे आजीविका चलाववानी प्रकार कहीये ठीये. आजीविका चलाववानी सात साधन ठे. १ व्यापार करवो, २ विद्याभ्यास करवो, ३ खेती करवी, ४ पशुजंतुं पालन करवुं, ५ कारीगरी करवी, ६ नोकरी, ७ जीव मागवी. १ तेमां व्यापार करवाथी वणिक लोकोनी आजीविका चालेठे, २ विद्यार्थी वैद्यप्रमुखनी आजीविका चाले ठे, ३ खेती करवाथी कणवी प्रमुखनी आजीविका चाले ठे, ४ पशुपालनथी गोवाल प्रमुखनी आजीविका चाले ठे, ५ शिल्पथी चितारादिनी आजीविका चाले ठे. ६ नोकरी करवाथी सिपाइ लोकोनी आजीविका चाले ठे, ७ जिद्दामां मागीखानाराजनी आजीविका ठे. १ व्यापार धान्य, घी, तेल, कपास, सूतर, वस्त्र, धातु, मणी, माणिक, मोती, रुपैया, सोनैया प्रमुख, तथा जे जे जातनां करीआणां ठे, ते सर्वनो व्यापार चाले ठे; वली जे व्याज बटाव करवो तेपण व्यापार ठे.

२ विद्यापण, औषधि, रस, रसायन, चूर्ण अंजनादि, वली वास्तुक शास्त्र, शकुनशास्त्र, चूत जविष्यादि निमित्त, सामुद्रिक, चूडामणी, जवाहिर परीक्षानां शास्त्र, तार्किक शास्त्र, न्यायशास्त्र, धर्म, अर्थ, कामना अनेक जेदथी अनेक प्रकारें ठे. आ वैद्यविद्यामां लोच, वा कपट करवुं ते ठीक नहीं; कारण के तेम करवाथी प्रायः दुर्ध्यान थवाथी गुणनी प्राप्ति थती नथी. वली जेने जेनाथी लाज थाय ठे, ते तेज वातने चाहेठे. तडुकं ॥ आर्या ॥ विग्रहमिष्टंतिजटा, वैद्याश्च व्याधिपीडितं लोकं ॥ मृतकं बहुलं विप्राः, हेमसुजिह्वं च निर्ग्रथाः ॥१॥ अर्थः—सुजट संग्राम चाहे ठे, वैद्य रोगपीडित लोकोने चाहे ठे, ब्राह्मण, लोकोनां बहु मरण चाहे ठे, अने नि-

ग्रंथ साधु निरुपद्रव अने सुकालने चाहे ठे. वली जे वैद अत्यंत लोभी होय; धनवास्ते नुकशानकारक औषध जाणीने आपतो होय, जेना मनामां दया न होय, जे त्यागी, वैरागीने औषध न आपतो होय, जे गरीब अनाथ लोकोपासेथी तेजने मरता जाणतां पण धन खुंची लेतो होय, जे मांस मद्यादि अन्नह्य वस्तु जक्षण करवानुं वतावतो होय, जे खोटां औषध वनावी लोकोने उगतो होय, एवा वैद्य नरक गतिमां गमन करनारा ठे; अने जे वैद्य सात्विक प्रकृतिवाला होय, निर्लोभी होय, अने परोपकारी होय, पूर्वोक्त दूषणो रहित होय, एवा वैद्यने तेनी विद्या श्रीऋषजदेवजीना जीव जीवानंद वैद्यनी जेम वने जवोमां गुण देवावालीठे. एवा वैद्य विद्यार्थी आजीविका चलावे तो उत्तम ठे.

३-४ खेती तथा पशुपालन. खेती त्रण प्रकारें थाय ठे. १ वरसादथी, २ कुवा, नेहेरथी, ३ वनेथी. पशुपालन अर्थात् गाय, जेंस, चकरी, उंट, बलद, घोडा, हाथी, तेजने वेची आजीविका करवी. आ वने काम आत्मस्वरूपना अजिलापी त्रिवेकिपुरुषोने करवां उचित नथी. जो निर्वाह न चालतो होय, अने ते काम करवुं पडतुं होय तो, वीज वाववानो समय-जाणे, जूमि, सरस, नीरस जाणे, इत्यादि खेती संवंधी सारी माहिती मेलवी काम करे तो धनवृद्धि थाय; वली पशुपालन धंधामां पशुजं उपर निर्दयपणुं न करे, पशुना कोइ अवयव ठेदे नहि, सारी रीतें सारसंजाल करे, तो लाज मेलवे.

शिल्प आजीविका ठे. शिल्प सो तरेहना ठे, मूल तो शिल्प पांच ठे. १ कुंजार, २ लुहार, ३ चितारो, ४ वणकर, ५ नाइ; आ पांचेना वीश वीश जेद ठे. यद्यपि आ कालमां न्यून अधिक हरो, परंतु श्रीऋषज देवजी-ए प्रथम सो तरेहना शिल्प पर्यायो शिखव्या हता. ते कारणथी ते प्रमाणे अत्रे लखेल ठे. जे सांसारिक विद्या ते सर्व शिल्पमां ठे, वाकी कोइकज कर्ममां ठे. शिल्पविद्या गुरुना उपदेशथी प्राप्त थाय ठे, अने कर्म, स्वयमेव प्राप्त थाय ठे. आ कर्म पण सामान्यथी चार प्रकारें ठे. १ बुद्धिथी धन कमाववुं ते उत्तम. २ हाथथी धन मेलववुं ते मध्यम. ३ पगथी धन मेलववुं ते अधम. ४ मस्तके वोजो उगावी कमाववुं ते अधमाधम, समजवुं.

६ सेवा करी आजीविका करवी ते, सेवा, राजानी, शेठनी तथा सामान्य लोकोनी नोकरी करवी ते. प्रथम तो नोकरी कोइनी पण न करवी जोइए; कारण के नोकरी ते परतंत्रता ठे. जो निर्वाह न थतो होय तो नोकरी पण करवी, जेनामां नीचेना गुणो होय, तेवा सख्सनी नोकरी करवी. १ जे काननो काचो न होय, २ शरमवालो होय, ३ कृतज्ञ होय, ४ सात्विक, गंजीर, धीर, उदार, शीलवान् गुणोनो रागी होय, तेवा पुरुषनी नोकरी करवी. जे क्रूरप्रकृतिवालो होय, कुव्यसनी होय, लोची होय, मूर्ख होय, निरंतरनो रोगी होय, चतुर न होय, अन्यायी होय, एवा पुरुषनी नोकरी न करवी. वली कामंदकीय नामना नीतिशास्त्रमां लख्युं ठे के, जे राजानी बृद्ध पुरुषोए सेवा करी ठे, ते राजा उत्तम ठे. वली स्वामिए पण जेवो सेवक होय, तेवुं सन्मान करवुं, ते तेनी फरज ठे. सेवक पण जो शेठ थाक्यो होय, भ्रूख्यो होय, क्रोधमां होय, व्याकुल होय, तृपावंत होय, शयन करतो होय, बीजाउं तेनी पासे थरज करता होय, तेवे प्रसंगे, विनति न करे. वली राजानी माता, राजानी राणी, राजकुमार, मुख्य प्रधान, न्यायाधीश, राजाना दरवान, तेउनी साथे सेवकें राजानी तरेह वर्तना राखवी जोइए. ए प्रमाणे वर्ते तो धननी प्राप्ति दुर्लभ न समजवी. यथा ॥ इच्छुक्तेत्रं; समुद्रश्च, योनिपोषणमेवच ॥ प्रसादोऽच्युजां चैव, सद्यो भ्रंति दरिद्रतां ॥ १ ॥ निंदंतु मानिनां सेवा, राजादीनां सुखेपिणः ॥ स्वजनाः स्वजनोद्धार, संहारोन विना तथा ॥ २ ॥ मंत्री, न्यायाधीश, सेनानी, सर्वनोकरी, नृपसेवानी अंतर्जावी ठे; परंतु जेख खानाना दरोगानी नोकरी, नगरना फोजदारनी नोकरी. तथा सीमापालनी नोकरी, इत्यादि कनिष्ठ नोकरी न करवी जोइए; कारण के आ नोकरी लोकोपर निर्दयता करावनारी ठे, तेथीं श्रावकें तो विलकुल न करवी जोइए. जो कोइ श्रावक राज्याधिकारी थइ जाय, तो वस्तुपाल प्रमुखनी जेम महार्धर्म, कीर्तिनां कामो करनारो थाय, श्रावक मुख्यवृत्तिए तो सम्यक् दृष्टिनीज नोकरी करे.

७ जीख मागी आजीविका करवी ते, जीख मागवाना अनेक प्रकार ठे. तेमां धर्म उपष्टंज मात्र आहार, वस्त्र, पात्रादिनी जिह्वा लेवी, ते पण जे साधुए सर्व संसार तथा परिग्रहना संगनो त्याग कर्यो ठे, तेणे

मागवी उचित ठे; कारण के तेने जीख मागवाशिवाय वीजी गति नथी. पूज्यपादश्री हरिचन्द्र सूरिजीए पोताना पांचमा अष्टकमां जिहा अण प्रकारें लखी ठे. प्रथम सर्वसंपत्करी जिहा, वीजी पौरुपणी जिहा, वीजी वृत्तिजिहा ठे, जे साधु परिग्रहना त्यागी, धर्मध्यानसंयुक्त, जिनाहापूर्वक पट्कायना आरंजयी रहित, तेनी जे जिहा, ते सवे संपत्करी जिहा ठे; अने जे साधु तो वन्या ठे, परंतु साधुना गुण जेनामां नथी, वली जे गृहस्थावासमां दृष्ट पुष्ट पट्कायना आरंजी, पडिमा बहन नहि करता एवा श्रावक, तथा वीजा गृहस्थ जे मागीने खाय तेनी जे जिहा, ते पौरुपणी जिहा ठे; ते पुरुषो धर्मनी लाघवता करनारा ठे, पूर्वजन्ममां जिनाहा खंडन करनारा ठे, वली आगल अन्त जन्मसुधी दुःख पामशे. जेउं निर्धन, लुला, लंगडा, आंधला, पांगला, असमर्थ, काम करवानी शक्ति विनाना, तेउंनी जे जिहा, ते वृत्तिजिहा ठे. आ जिहा दुष्ट नथी. आ जिहा करनाराउंथी धर्मनी लाघवता आदि यतां नथी; कारण के जे तेउंने आपे ठे, ते अनुकंपा (दया) थी आपे ठे. देनारा पुण्य उपार्जन करे ठे; ते कारणथी गृहस्थें जीख न मागवी जोशए. जीख मागवाथी धर्मनी निंदा थाय ठे, अने धर्मनी निंदाथी दुर्लजबोधी थाय ठे. जीख मागवाथी उदर पूर्ण तो थाय ठे, परंतु लक्ष्मी यती नथी. यतः ॥ लक्ष्मीर्वसति वाणिज्ये, किंचिदस्ति च कर्पणे ॥ अस्ति नास्ति च सेवायां, जिहायां न कदाचन ॥ १ ॥ मनुस्मृतिना चोथा अध्यायमां लख्युं ठे के, ज्यारे व्यापार करे, त्यारे कष्टमां मदद आपनार पुंजीनुं बल, स्वजाग्योदय, देश, काल देखीने करे; व्यापार शरुआतमां थोडो करे, पठी लाज जाणे तो विशेष करे, कदाचित् निर्वाह न यतां खर कर्म पण करे, तो पण पोते पोतानी निंदा करतां करे. देख्या विना, तेमज परीक्षा कर्या विना सोदो न ले, जे सोदो संदेहवालो होय ते, वहुनी साथे मलीने ले, ज्यां स्वचक्र, परचक्र प्रमुखनो उपद्रव न होय, अने धर्म सामग्री होय, ते स्थलमां व्यापार करे.

कालथी, अण अछाइ तथा पर्वतिथिने दिन व्यापार न करे. जे वस्तु वर्षाकाल साथे विराधी होय, तेनो त्याग करे; जावथी, जे क्षत्रिय जातिना व्यापारी राजा प्रमुख होय, तेउंनी साथे व्यापार न करे, पोताना

विरोधीने उधारे न आपे, तेमज नट, विट, वेश्या, जुगारी प्रमुखने तो विशेषे करी उधारे न आपे, हथीआर बांधनारानी साथे, तेमज ब्राह्मण व्यापारी साथे लेण देण न करे, लेण देण करवामां व्याजें धीरधार करे त्यारे अधिक किंमतना दागीन राखी ते उपर रूपीआ धीरे, कारण के तेथी मागवाथी थतो बलेश, विरोध, धर्महानि, धरणादि कष्ट थतां नथी. जो एम निर्वाह न थाय तो, सत्यवादीने व्याजु उधार धीरे, व्याज पण अधिक न खाय, सेंकडे पांच ठ टका सुधीतुं खाय, जेथी निंदां न थाय तेम करे,

जो देवुं होय तो, करारनी मुदत उपर माग्या विनाज करज आपी दे, कदाचित् निर्धनपणाथी एकज वारे न आपी शके तो किस्तो प्रमाणे जरुर आपी दे, कारण के देवुं कोइतुं राखतुं न जोइय. यदुक्तं ॥ धर्मरंज्जे ऋणवृद्धे, कन्यादाने धनागमे ॥ शत्रुघातेऽग्निरोगे च, कालक्षेपं न कारयेत् ॥ १ ॥ जो देवुं न आपी शकाय, तो लेणदारना नोकर थइ देवुं वाले, नही तो जवांतरोमां तेना चाकर, पाडा, बलद, उंट, गधेडा, खच्चर, घोडा प्रमुख वनी देवुं आपवुं पडशे. लेणदार पण ज्यारे जाणे के, आ देणदार आपवाने समर्थ नथी, त्यारे बिलकुल मागवुं ठोडी दे, एम कहे के ज्यारे तुं आपवाने शक्तिमान् था, त्यारे आपजे, नहि तो आ धन में धर्ममां वापर्युं ठे एम समजवुं, पोताना चोपडामां पण हुं लखुंतुं के तारी पासे मारे कांइ पण हवे लेणुं नथी.

आवके मुख्यवृत्तियें तो धर्मिजनोनी साथेज व्यवहार करवो जोइये, कारण के वने पासे धन रहेशे तो धर्ममां वापरशे, अने जो कोइ स्त्रेवादि नीचमाणस पासे धन रही जाय तो व्युत्सर्जन करी दे, अने व्युत्सर्जन कर्या पठी जो ते स्त्रेवादि धन पावुं आपी दे, तो धन धर्ममां खरचवावास्ते संघने सुप्रत करे, अने व्युत्सर्जन करेख ठे एम पण कही दे, तेवीज रीतें जे कांइ वस्तु खोवाइ होय अने शोधतां ठतां हाथ न लागे तो ते वस्तु पण व्युत्सर्जन करी दे, पठी कदाचित् पोताने धनहानि थइ जाय, वा धननी अप्राप्ति थइ जाय, तो पण खेद न करे, कारण के खेद न करवो, तेज लक्ष्मी मलवानुं मूल कारण ठे.

बहु धन जतुं रहै, तोपण धर्म करवामां आवस न करे; कारण के सं-

पत्ति अने विपत्ति मोटा पुरुपोनेज आये ठे. निरंतर एक सरखा दिवसो कोइना जता नथी, पूर्वजन्म जन्मांतरना पुण्य पापना उदयथी संपत्ति, विपत्ति आवी मले ठे; ते कारणथी धैर्यनुं श्रवलंचन करवुं तेज श्रेष्ठ ठे. कदी अनेक उपायो करतां ठतां पण दरिद्रता दूर न थाय तो कोइ जाग्यवाननो आधार ले, कारण के काष्टनी साथे लोडुं पण तरे ठे.

जो बहु धन थइ जाय तो, अजिमान न करे, कारण के लक्ष्मीनी साथे पांचवस्तुलं आवेठे. १ निर्दयपणुं, २ अहंकार, ३ तृष्णा, ४ कठणवचननो व्यापार, ५ वैश्या, नट, विट, नीचपात्र बल्लजता. तेथी कदाच बहु धन थइ जाय तो, आ पांचने आववानो श्रवकाश न आपे, कोइनी साथे लडाइ न करे, पोताथी बलवान् साथे तो कदापि लडाइ न करे. बली १ धनवंत, २ राजा, ३ पद्मवाला, ४ बलवान्, ५ दीर्घरोपी, ६ गुरु, ७ नीच, ८ तपस्वी, आ आठेनी साथे वाद न करे; ज्यांसुधी नरमाशथी काम थाय त्यांसुधि कडकपणुं न अंगीकार करे. लेवा देवामां ज्ञांति, जूलादिथी अन्यथा थइ जाय तो, विवाद न करे, परंतु न्यायपूर्वक चोखवट करे. न्याय करनाराज्ये पण निर्लोचनी, पद्मपातरहित, रहेवुं जोइये. बली जे वस्तु मोंधी थवाथी समुदायने पीडा थाय, तेवी वस्तु मोंधी थवानो विचार न करे. कदाचित् कर्मयोगथी डुकाल प्रमुख थइ जाय, तोपण सोदामां वमणो, त्रमणो लाज थइ जाय, त्यारेपण अनाजमां बहु लाज लेवानी बानत न राखे. व्याजपण सेंकडे ठ टका अर्थात् आठ आना उपरांत न ले. कोइनुं पडीगयेवुं, विसरी गयेवुं, धन न ले. कालांतरे क्रयविक्रयादिमां देशकालादि श्रपेक्षा, उचित तथा शिष्टजन अर्निदित लाज ले. आ कथन पंचाशकसूत्रमां ठे. बली खोटा तोल, खोटा माप, न्यूनादिक व्यापार, रसमां जेल, संजेल प्रमुख न करे, वस्तुनुं अनुचित, मूल तथा व्याज न ले. लांच न ले, घालमेल न करे; घसायेवो, तेमज खोटो रूपीलं खरामां न आपे; वीजाना व्यापारमां जांग फोड न करे, घराक न ललचावे, वानकी कांइ देखाडी माल वीजो न आपे, अंधारामां राखी वस्तु न आपे, खोटां खत पत्रादि न वनावे, इत्यादि परवंचनपणुं लागे. सर्वथा व्यवहारशुद्धि करे, कारण के व्यवहार शुद्धिज गृहस्यधर्मनुं मूलठे.

बली स्वामिजोह, मित्रजोह, विश्वासघात, बालजोह, वृद्धजोह, देव-

गुरुद्रोह न करे, थापणमोसो न करे, आ सर्व महापापनां काम ठे. वली कुडी साक्षी, रोष, विश्वासघात, कृतघ्नता, आ चार कर्म चंडालपणां ठे, तेथी ते त्यागे. असत्य बोलवुं ते सर्व पापथी मोटुं पाप ठे, तेथी असत्य सर्वथा न बोले. न्यायथी धन उपार्जन करे, अने अन्यायी लोको जे सुखी देखाय ठे. ते अन्यायथी सुखी नथी, परंतु तेजना पूर्वजन्मना पुण्यना फलथी सुखीठे; कारण के कर्मफल चार प्रकारनां ठे. यदाहुर्धर्मघोष सूरिपादाः ॥ एक पुण्यानुबंधिपुण्यठे, वीजुं पापानुबंधि पुण्यठे, त्रीजुं पुण्यानुबंधि पापठे, चोथुं पापानुबंधि पाप ठे. आ चारे प्रकारने कांश्क विस्तारथी वतावीए ठीये.

१ जेणे जिनधर्मनी विलकुल विराधना करी नथी, परंतु संपूर्ण आराधना करी, जेठ संसारमां जवांतरमां महासुखी, धनाढ्य उत्पन्न थाय, तेठ पुण्यानुबंधि पुण्यवाला समजवा. जरत, वाहुवलिवत्

२ जे पुरुषो नीरोगादि गुणयुक्त होय, अने धनाढ्यपण होय, परंतु कोणिक राजानी पेटे पाप आचरणमां तत्पर होय, ते पापानुबंधि पुण्यवाला समजवा. आ पुण्य पूर्वजन्ममां अज्ञान कष्ट करवाथी थाय ठे.

३ जे पुरुषो पापना उदयथी दरिद्री तथा दुःखी होय, परंतु श्रीजिनधर्ममां बहुज अनुरक्त होय, धर्म करवामां तत्पर होय, तेठ पुण्यानुबंधि पापवाला समजवा, दुमक महर्षिवत्. पूर्वजन्ममां लेशमात्र दयादि सुकृत करवाथी थाय ठे.

४ जेठ पापी, चंडाल कर्मना करनारा, अधर्मी निर्दय, पाप करी पश्चात्ताप नही करनारा एवा पुरुषो दुःखी ठे, तो पण पाप करवामां निरंतर तरपर ठे. तेठ पापानुबंधि पापवाला ठे, कालिकसुरीआ कसाइवत्.

घाह्य जे नव प्रकारनी परिग्रहरूप रुद्धि ठे, अने अंतरंग जे आत्मानि अनंतगुणरूप रुद्धि ठे, ते पुण्यानुबंधि पुण्यथीज मलेठे; तेथी कदापि कोइ जीव पापानुबंधि पुण्यना प्रजावथी आ लोकमां सुखी देखाय तो पण जविष्यना जन्मोमां महादुःख तथा आपदा पामवाना.

वली जे मेहेसूलनी चोरी ठे, ते स्वामिद्रोह ठे, आ चोरी आ लोक तेमज परलोकमां अनर्थनी दायक ठे; वली जेमां वीजाने पीडा थाय, एवो व्यवहार न करे॥ यतः ॥ शाब्देन मित्रं कपटेन धर्मं, परोपतापेन

समृद्धिजावं ॥ सुखेन विद्यां परुषेण नारीं, वांठंति ये व्यक्तमपंडितास्ते ॥
 १ ॥ तथा जेवी रीतें लोकोने रागजाव थाय, तेवो यत्न करे. यतः ॥ वंश-
 स्थवृत्तं ॥ जितेंद्रियत्वं विनयस्य कारणं, गुणप्रकर्षोविनयादवाप्यते ॥
 गुणप्रकर्षेण जनोनुरज्यते, जनानुरागप्रज्ञवाहि संपदः ॥ १ ॥ वली धन-
 नी हानि तथा लाज, संग्रहादि गुह्य राखे, बीजा पासे प्रकाश न करे.
 यतः ॥ स्वकीयं दारमाहारं, सुकृतं ऋविणं गुणं ॥ दुष्कर्म मर्म मंत्रं च, प-
 रेयां न प्रकाशयेत् ॥ १ ॥ वली अस्त्यपण न बोले, जो राजा, गुरु आदि
 पुढे तो सत्य कही दे. सत्य बोलवुं तेज पुरुषनो उत्तम धर्म ठे.

वली यथार्थ कही मित्रनुं मन हरण करे, वांधव जनोने सन्मान आपी
 वश करे, स्त्रीने प्रेमथी वश करे, चाकरोने दान आपी वश करे, अने दा-
 क्षिण्यताथी बीजा लोकोनां मन हरण करे. वली कोइ जगाये पोताना
 कार्यनी सिद्धिवास्ते बलवान् पुरुषोने पण आगल करे. वली ज्यां प्रीति
 होय, त्यां लेणदेणनो व्यापार न करे. आ कथन सोमनीतिमां पण ठे.

साह्यीविना मित्रना घरमांपण धनादि राखवां न जोश्ये, कारण के
 लोच महाबुरो ठे. वली जो सोंपनार सख्त गुजरी जाय तो ते धन तेना
 पुत्रादिने पातुं आपी देवुं जोश्ये. जो धन सोंपनारनो कोइ संबंधी न
 होय तो ते धन सर्व लोकोनी समक्ष धर्मस्थानमां लगाने. वली श्रावक,
 देवगुरु, चैत्य, जिनमंदिरना साचा अथवा जूठा पण सोगंद न खाय. व-
 ली बीजाउना साह्यीपण न थाय. यतः ॥ कर्पासिक ऋषि कहे ठे ॥ अ-
 नीश्वरस्य द्वे ज्ञार्ये, पथि क्षेत्रं द्विधा कृषिः ॥ प्रातिज्ञाव्यं च साह्यं च,
 पंचानर्थाः स्वयंकृताः ॥ १ ॥

वली श्रावक मुख्य वृत्तियें तो जे गाममां रहे, त्यांज व्यापार करे, का-
 रण के तेम करवाथी कुटुंबनो अविद्योग, घरनां कार्य, तथा धर्मकार्यादि
 सर्व बनी रहे ठे. कदापि पोताना गाममां निर्वाह न थाय तो, पासेना दे-
 शांतरमां व्यापार करे, ज्यांथी जरूरी काम प्रसंगे पोताने घेर जलदीथी
 आवी शकाय. एवा कोण पामर ठे के, पोताना देशमां निर्वाह यतो होय
 उतां परदेशमां जाय ॥ यतः ॥ जीवंतोपि मृताः पंच, श्रूयंतं किल जारते ॥ द-
 रिद्रोव्याधितो मूर्खः, प्रवासी नित्यसेवकः ॥ १ ॥ जो निर्वाह न यतो
 होय तो, पोते न जाय, तेमज पुत्रादिने परदेश न मोकले, परंतु सुपरी-

हित गुमास्ताने परदेश भोकले, जो पोतानेज परदेश जवुं पडे तो, शुभ मुहूर्त्त, सारां शुक्रन, निमित्त देखीने तथा देव गुरुने वंदना करीने, मंगलपूर्वक, जाग्यवान् पुरुषोना सथवारामां, निद्रादि प्रमाद तजी, केटलाएक पोताना ज्ञातिबंधुर्जने साथे लइ जाय, कारण के जाग्यवान्ता सथवाराथी विघ्न नाश पामे ठे. वली लेणदेण, गुप्त धन, सर्व, पिता ज्ञाइ, के पुत्रादिने वतावी जाय, पोताना संबंधीर्जने सारी शिखामण आपी जाय, बहुमानपूर्वक सेवकोने बोलावी जाय. जीववानी इहा होय तो, देवगुरुनुं अपमान करी, कोइनी निर्जठना करी, स्त्री आदिने ताडना, तर्जना करी, अने बालकने रोवरावी न जाय. कदापि कोइ पूर्वमहोत्सवादिना दिवसो निकट होय तो उत्सव करीने जाय. यतः ॥ उत्सवमशनं सर्वं, प्रगुणं चोपेक्ष्य मंगलमशेषं ॥ असमापिते च सूतक, युगेंगनत्तौ च नो यायात् ॥ १ ॥ वली दूध पीइने, मैथुनसेवन करीने, खानकरीने पोतानी स्त्रीने मारीने, वमन करीने, थुंकीने, रुदन करीने, कठण शब्द सुणीने, गावो सुणीने, परदेश न जाय; वली शिर मुंडावीने, आंसु पाडीने, अने माठां शुक्रन थतां पण ग्रामांतर न जाय.

वली कार्यने वास्ते जो चाले तो जे स्वर वेहेतो होय, ते वाजुनो पग प्रथम उपाडी मुके, जेथी कार्यसिद्धि थाय. वली रोगी, वृद्ध, ब्राह्मण, आंधलो माणस, गाय, पूजनीय, राजा, गर्जवती स्त्री, जार उयाडनार, तेजने कांइ आपीने ग्रामांतर जाय. वली धान्य पाकुं अथवा काचुं तथा पूजा योग्य मंत्रमंडल तेने तजे नहि. वली खाननुं जल, रुधिर, मड्डुं, थुंक, श्लेष्म, विष्टा, मूत्र, वलतो अग्नि, साप, मनुष्य, शस्त्र, आ वस्तुने उलंघे नहि. वली नदीने कांठे, गायना गोकुलमां, बडना जाडनी नीचे, जलाशयमां, अने कुवाना कांठा उपर विष्टा न करे. वली रात्रियें वृद्धनीचे न रहे. उत्सव तथा सूतक पुरां थये परदेश जाय, साथ विना परदेश न जाय, दासनी साथे न जाय, मध्याहे तथा अर्धरात्रियें मुसाफरी न करे. वली क्रूर प्रकृतिवाला मनुष्य, कोटवाल, चाडीआ, दरजी, धोवीप्रमुख, अने नीचमित्रनी साथे गोष्ठि न करे. तेजनी साथे अकाले चाले नहि. वली पाडा, गधेडा अने गायनी असवारी करे नहि. वली हाथीथी हजार हाथ, गाडाथी पांच हाथ, अने घोडा तथा शिंगडावाला जनावरोथी द-

श हाथ दूर रहे. वली खरची विना मुसाफरी करे नहि. बहु निद्रा लहे नहि. रस्तामां कोइनो विश्वास राखे नहि. एकलो कोइना घरमां जाय नहि. जुनां वहाण उपर चडे नहि. एकलो नदीमां प्रवेश करे नहि. मु इकेलीवाली जगामां साधनो विना जाय नहि. अगाध पाणीमां प्रवेश करे नहि. जेठ बहु क्रोधी होय, बहु सुखशीलिया होय, तथा बहु कंजुस होय, तेवाउनी साथे मुसाफरी करे नहि. तथा बांधवाना, मारवाना, जूगार खेलवाना, पीडाना, खजानाना, अने अंतेउरना स्थानमां गमन करे नहि. तथा बुरा स्थानमां, स्मशानमां, शून्यस्थानमां, चोकमां सूकाघासमां, कूडाकचवरमां; उंचीनींची जगामां, उकरडामां, वृक्षाग्रमां पर्वताग्रमां, नदीना कांठामां, कूवाना कांठपर, आ स्थानोमां दीर्घकाल वेसे नहि. वली जे जे कामो जे जे वखते करवां होय ते ते वखते करे, परंतु गफलत करे नहि, तेम तजे नहि.

पुरुषें सुशोभित वस्त्र पहरेवानो आडंबर तजवो न जोइए. परदेशमां गमन करतां तो विशेषें करी न तजवो जोइए; कारण के आडंबरथी अनेक कायों सिद्ध थाय ठे. वली जे कायों करवां ते पंचपरमेष्टि स्मरण पूर्वक, तथा गौतमादि गणधरोनां नामग्रहणपूर्वक करे; तेमज देव गुरुनी ऋक्तिवास्ते धननी कल्पना करे. कारण के ज्यारे धन कमावानो प्रारंज थाय, त्यारे नफामांथी अमुक हिस्सो सातदेशोमां अवश्य लगावीश, एवी जावना अवश्य करवी जोइए.

ज्यारे लाभ प्राप्तथाय, त्यारे जावना अनुसारे मनोरथ सफल करे, कारण के व्यापारुं फल धनप्राप्ति ठे अने धनप्राप्तिनुं फल, धर्म कायोंमां धननो व्यय ठे. तेम न थाय तो व्यापार करवो ते नरक तिर्यंच गति पामवानुं कारण थाय ठे. जो धर्मकार्यमां धन खरचाय तो ते धर्म-धन कहेवाय ठे, अने जो पापकार्यमां खरचाय तो पापधन कहेवाय ठे. ऋद्धिना त्रण प्रकार ठे. १ धर्मऋद्धि, २ जोगऋद्धि, ३ पापऋद्धि. जो धर्मकार्यमां धन वपराय तो धर्म ऋद्धि, शरीरना जोगमां वपराय तो जोगऋद्धि; अने धर्म, जोगथी रहित ते पापऋद्धि जाणवी. ते कारणथी निरंतर स्वधननो दानादि धर्मकार्यमां व्यय थवो जोइए, जो थोडुं धन होय तो थोडुं धन धर्मकार्यमां वापरुं; कारण के इष्टानुसारिणी

शक्ति कोष्कनेज होय ठे. धनउपार्जन करवानो उपाय निरंतर करवो जोइए, परंतु अत्यंत लोभ न करवो जोइये. धर्म अर्थ अने काम यथावसरे सेवन करवा जोइये, परंतु अत्यंत कामासक्त न थवुं जोइए. धन पण न्यायपूर्वक उपार्जन करवुं जोइए. न्यायोपार्जित धन सत्पात्रादिमां वापरवाना चार जंग ठे, ते लखीए ठीए.

न्यायोपार्जित धन सत्पात्रादिमां वापरवाना चार जंग ठे ते लखियें ठियें. १ न्यायोपार्जित सत्पात्र विनियोगरूप प्रथम जंग. पुण्यानुबंधिपुण्यबंधनो हेतु होवाथी, वैमानिकदेवतापणुं, जोगचूमियुक्त मनुष्यपणुं, सम्यक्त्वादिनी प्राप्ति, निकटमोक्ष फल, इत्यादि, ठे. धन सार्थवाह, तथा शालिजडादिवत्.

२ न्यायोपार्जित असत्पात्रविनियोगरूप बीजो जंग. पापानुबंधी पुण्यनो हेतु होवाथी जोगमात्र फल पण ठे. तो पण परिणामें विरस फल ठे. जेम लक्षजोय्य करनार ब्राह्मण अनेकजवोमां किंचित् सुख जोगवीने सेचनक नामें सर्वांग सुलक्षणो जडहस्ती थयो.

३ अन्यायोपार्जित सत्पात्रपरिपोषरूप त्रीजो जंग. तेनुं सारा क्षेत्रमां सामो बावी देवावत् फल ठे. ए सुखानुबंधीहोवाथी राज्यना कारजारीजना अत्यंत आरंज उपार्जित धन समान ठे. एवुं धन पण धर्मकार्यमां वापरवामां आवे तो सारुं ठे. आवु पर्वत उपर जिनमंदिर बंधावनार विमलचंद्र तथा वस्तुपाल, तेजपाल मंत्रीनी जेम लाजकारक ठे. जो तेवुं धन पण धर्मकार्यमां न वापरवामां आवे तो दुर्गति तेमज अपकीर्त्ति, तेनुं फल ठे. मम्मण शेठनी जेम.

४ अन्यायोपार्जितकुपात्रपोषरूप चोथो जंग. आ जंग सर्व प्रकारें त्यागवा योग्य ठे. कारण के अन्यायोपार्जित धन अने तेनो कुपात्रमां उपयोग करवो, ते एवुं ठे के, गायने मारी तेना मांसथी कागडानुं पोषण करवुं. ते कारणथी गृहस्थें न्यायथी धन उपार्जन करवुं जोइए.

श्राद्धदिनकृत्यसूत्रमां लख्युं ठे के व्यवहारशुद्धि, तेज धर्मनुं मूल ठे. जेनो व्यापार शुद्ध ठे, तेनुं धन पण शुद्ध ठे; जेनुं धन शुद्ध ठे, तेनो आहार शुद्ध ठे; जेनो आहार शुद्ध ठे, तेनो देह शुद्ध ठे; जेनो देह शुद्ध ठे, ते धर्मेने योग्य ठे. एवो पुरुष जे जे कृत्य करे, ते सर्व सफल थाय. जे

व्यवहार शुद्ध न करे, ते धर्मनी निंदा कराववाची स्वपरने दुर्लजबोधी करे; ते कारणची व्यवहारशुद्धि अवश्य करवी जोडण.

वली देशादि विरुद्धनो त्याग करे. देश, काल, राजविरुद्धादि परिशुरे. आ कथन हितोपदेश भालानुसार करेल ठे. जे पुरुष देश, काल, राज्य तेमज धर्मविरुद्ध तजे, ते सम्यग् धर्मनी प्राप्ति करे ठे.

देशविरुद्ध आ प्रमाणे. मारवाड देशमां खेती करवी अने सोरठ देशमां मदिरा वनाववी, इत्यादि देशविरुद्ध समजवुं. वली जे जे देशमां जे जे कार्य शिष्टजनो अनाचरणीय माने ते ते कार्य ते देशमां करवां ते देशविरुद्ध ठे. जाति कुलादि अपेक्षाए जे अनुचित होय ते पण देश विरुद्ध ठे. ब्राह्मण जातियें सुरापान करवुं ते जातिकुलविरुद्ध ठे, अने एक देशवालानी सन्मुख वीजा देशवालानी निंदा करवी ते देशविरुद्ध ठे.

कालविरुद्ध आ प्रमाणे. शीतकालमां हिमालय समीप गमन करवुं, उष्णकालमां आफ्रिका देशमां मुसाफरी करवी. वर्षाऋतुमां मरुदेशमां गमन करवुं, ङुकालमां अनाजसहित जंगलमां मुसाफरी करवी, राजाडना परस्पर विरोधना वखतमां तथा धाड पाडुड रस्तो रोकी वेग होय ते वखते मुसाफरी करवी, सांजनी वखते धनसहित प्रयाण करवुं, इत्यादि स्थानकोमां, अति सामर्थ्य, सहाय तथा दृढबल विना गमन करे तो प्राणनाश तथा धननाशनो संभव ठे. फागण मासपठी तलादिनो व्यापार, तल पीलाववा, तलादि नक्षण करवा, तथा वर्षाऋतुमां शाक पत्रादि चाजी प्रमुख खावां तथा बहु जीवाकुल भूमिमां हल फेरवां, इत्यादि महादोषनां कारण ठे.

राजविरुद्ध आ प्रमाणे. राजाना अर्वाणवाद बोलवा, जेने राजा मान्य करता होय, तेडने न मानवा, राजाना वैरीडनी साथे मेलाप करवो, राजाना शत्रुडना स्थानमां लोचनी जवुं, राजाना शत्रुडनी साथे व्यापार करवो, राजाना काममां पोतानी इष्टापूर्वक विधिनिषेध करवा.

लोकविरुद्ध आ प्रमाणे. नगर निवासीडनी साथे प्रतिकूलपणे वर्तवुं, खामिडोह करवो, लोकोनी निंदा करवी, गुणवान् तेमज धनवाननी निंदा करवी, पोतानी वडाश गावी, सरलनी हांसि करवी, गुणवान् उपर मत्सर करवो, कृतघ्नपणुं करवुं, बहुलोकोना विरोधी साथे सं-

गत करवी, लोको जेने मान्य करे तेनी श्रवज्ञा करवी, उत्तम आचार वालाउ कष्टमां पडे त्त्यारे राजा थवुं, पोतानी शक्ति ठतां साधर्मिनां कष्टनिवारण न करवां, देशादि उचित आचरणनुं उल्लंघन करवुं, थोहुं धन ठतां महाधनवाननो वेप धारण करवो, धनवान ठतां मेलां वस्त्र पहरेवां, श्रत्यादि लोकविरुद्ध ठे. आ सर्व इह लोकना अपयशनां कारण ठे. यदुवाच वाचकमुख्यः ॥ लोकः खट्वाधारः, सर्वेषां धर्मचारिणां यस्मात् ॥ तस्माद्लोकविरुद्धं, धर्मविरुद्धं च संत्याज्यं ॥ १ ॥ अर्थः— श्री उमास्वातिवाचक पूर्वधर आचार्य कहे ठे के, सर्वे धर्म करनाराउने लोक (जनसमुदाय) आधार चूत ठे, ते कारणथी लोकविरुद्ध तथा धर्मविरुद्ध वंने निरंतर त्यागवा योग्य ठे. तेम करवाथी धर्मनो सुखे निर्वाह थाय ठे. लोकविरुद्ध त्याग करवाथी सर्वलोकोने ते वद्वज थाय ठे, अने लोकप्रिय थवुं तेज सम्यक्त्व तरुनुं बीज ठे.

हवे धर्मविरुद्ध लखीए ठीए; मिथ्यात्वनी करणी करवी, गाय प्रमुख सर्व प्राणीउने निर्दयताथी ताडना करवी तेमज ते जीवोनी हिंसा करवी, तेउने दृढ बंधनथी बांधवां, मांकड, जू प्रमुख कुडजंतुउने निराधार फेंकवां तथा मारवां, तडकामां नाखवां, अप्रकायना जीवोनी अत्यंत विराधना करवी, पाणी गलवा माटे मजबुत गलणां न राखवां, पाणी गल्या पठी संखारो फेंकी देवो, अनाज, इंधन, शाक, पत्र, तांबूल, फलादि शोभ्याविना खावां. सोपारी, खारेक, उंली, फली, प्रमुख संपूर्ण, जांग्या विना मुखमां नाखवां, जीवाकुल जूमिउपर स्नान करवुं, मलमूत्र करवां, उपयोग विना गमनागमन करवुं, जीवयुक्त धान्यादि दखवां, जरडवां, रांधवां, श्रत्यादि हिंसायुक्त काम करवां; धर्मनां कार्यों अनादरथी करवां, देव, गुरु अने साधर्मिउनी निंदा करवी तथा द्वेष करवो. जिनमंदिरनुं डव्य खावुं, देवगुरु, धर्मना निंदकनी संगत करवी, धर्मिजीवोनी मइकरी करवी, अत्यंत कपाययुक्त काम करवां, पंदर कर्मादाननां आचरण तथा व्यापार तीव्र मलिन अर्धवसायपूर्वक करवा, पापयुक्त नोकरी करवी, श्रत्यादि अनेक धर्मविरुद्ध कार्यों ठे. आ पांचे प्रकारनां विरुद्ध श्रावकें त्यागवां जोइए.

हवे उचित आचरण कहीये ठीये. पिता प्रमुख नव जनोनी साथे उ-

चित आचरण अर्थात् स्नेहवृद्धि, कीर्त्यादिहेतु कार्य करवां, ते हितो-
पदेशमाला ग्रंथानुसार लखीये ठीये. नवजनोनी साथे उचित आचरण
करवां तेजनां नाम. १ पिता, २ माता, ३ वंधु, ४ स्त्री, ५ पुत्र, ६ स्वजन,
७ गुरु, ८ नगरवासी लोक, ९ परतीर्थिको अर्थात् वीजा मतवालाउ.

१ पितानी साथे उचित आचरण आ प्रमाणे. ते मन, वचन, कायाथी
त्रण प्रकारें थायठे. तेमां कायाथी पिताना शरीरनी शुश्रूषा करवी, किंकर-
नी जेम विनय, वैयावच्च करवी, पिताना मुखमांथी निकलतां पेहेलां ते-
ना अंतःकरणनो व्यापार समजी तेनी अजिलापा पूर्ण करवी, पितानुं व-
चन उपाडी लेंवुं, प्रसंगें पितानां चरणप्रक्षालन करवां, पितानी चंपी क-
रवी, वृद्धपिताने उठतां, वेसतां आश्वासना करवी, देशकाल उचित, स्व-
शक्ति अनुसार जोजन, शय्या, वस्त्रादि विनयपूर्वक पितानी आझानु-
सार आपवां, पितानी चाकरी पोते करवी, नोकरो पासे प्रसंग शिवाय क-
राववी नही; पितानुं वचन पालवा वास्ते श्रीरामचंज्जी राज्याजिपेकनो
त्याग करी वनवास गया, ए दृष्टांत ध्यानमां राखवुं. वली पितानुं वचन
सुण्युं अणसुण्युं न करवुं, मस्तक धूणाववुं नहि, कालक्षेप करवो नहि,
पितानी आझानुसार वर्तवुं, सर्व कार्यों थलपूर्वक पोताना मनमां करवा-
नो उत्साह थयो होय ते पितानी पासे प्रगट करवो. पिताने जे कार्य क-
रवुं वास्तविक लागे ते करवुं, पिता, माता, गुरु अने बहुश्रुत आराध्यां
थकां, सर्वकार्यनुं रहस्य प्रकाश करे ठे. पिता कदाचित् कठिन वचन
बोले तो पण क्रोध न करवो, पितानां जे जे धर्मकार्य करवाना मनोरथ
थाय ते ते पुरा करवा.

२ हवे मातानी साथे उचित आचरणनुं स्वरूप कहीये ठीये. पितानी
जेम मातानी सर्वप्रकारें जक्ति करे, परंतु माताना मनोरथ पितानी अ-
धिक पूरा करे. देवपूजा, गुरुसेवा, धर्मश्रवण करवुं, देशविरति अंगीकार
करवी, आवश्यक करवां, सात क्षेत्रमां धन वावरवुं, तीर्थयात्रा करवी, अ-
नाथदीननो उद्धार करवो इत्यादि सर्व माताना मनोरथ विशेषरीतें पू-
र्ण करवा. ए प्रमाणे पूर्ण करे तोज उचित आचरण कर्यां समजवां. उत्त-
म सुपुत्रने ते प्रमाणे करवानी फरज ठे, कारण के मातापितानो उपकार
अतुल्य ठे, ते उपकारनो बदलो नथी. कदाच मातापिताने सुपुत्र श्री अ-

रिहंतना धर्ममां जोडे तोज मातपिताना उपकारनो वदलो वली शके ठे, तेम करवाथीज मातापिताना उपकारनुं कण वली शके ठे, ते शिवाय वीजा कोइ उपायथी मातापिताना उपकारनुं कण वली शकतुं नथी. आ कथन श्रीस्थानांग सूत्रमां ठे.

हवे माता संबंधी उचित आचरणमां जे विशेष ठे ते लखीये ठीये. माताना चित्तने अनुसरतुं ते उत्तम पुत्रनी फरज ठे. स्त्री जातिनो स्वजावज प्रायः एवो होय ठे, पोतानी धारणा मुजव न थाय तो जलदीथी चित्त खेदयुक्त थइ जाय, ते कारणथी जे काममां खेद या पीडा थाय ते काम न करतुं. पिताथी माता विशेष पूज्य ठे. मनुस्वामी कहे ठे के ॥ उपाध्यायाद्दशाचार्यः, आचार्येभ्यः शतंपिता ॥ सहस्रं तु पितुर्माता, गौरवेणातिरिच्यते ॥ १ ॥ वली वीजाउपण कहे ठे के, ज्यां सुधि दुध पीये त्यां सुधी आ, मारी माता एम पशुपण जाणे ठे; चोजन न खाइ शके त्यांसुधि आ मारी माता एम अधम पुरुष जाणे ठे, ज्यांसुधी घरनुं काम करे त्यांसुधी आ मारी माता एम मध्यम पुरुष माने ठे अने ज्यां सुधी जीवे त्यांसुधी तीर्थरूप उत्तम पुरुष पोतानी माने माने ठे.

३ सहोदर अर्थात् वंधु साथे उचित आचरण आ प्रमाणे. मोटाजाइने पिता समान गणे, अने मोटो जाइ नानाजाइने सर्वकार्यमां साथे जोडे. जो उरमान मातानो दीकरो (जाइ) होय तो जेम श्रीरामचंद्र अने लक्ष्मणनो परस्पर प्रेम हतो तेवो परस्पर प्रेम राखवो जोइये. वली वडील वंधुनी स्त्रीउनी साथे तथा तेमना पुत्र, पुत्रीउनी साथे पण उचित आचरण यथायोग्य करे, परंतु पृथग्जाव न करे. जाइनी व्यापारमां सलाह लहे. ठानी वात न राखे. धननो व्यवहारपण जाइथी गुप्त न राखे. वंधुने निरंतर शिखामण आपे, जेथी धूर्त्त, प्रपंचीना ठल कपटमां ते न फसाय. वंधुने माठी सोवत लागी होय, वा ते अविनीत थयो होय तो सज्जन पुरुषोनी सोवतमां दालच आपी उतारे, पोते नम्रताथी शिखामण आपे, पोताना मित्रोद्वारा शिखामण अपावे, काका, मामा, इत्यादि सगासंबंधी द्वारा तेने शिक्षा अपावे, अन्योक्तिथी वचन कहे, परंतु पोते तर्जना करे, कारण के ताडना तर्जनाथी वंधुमां अविनीतपणुं तथा अमर्यादा बधती जाय ठे. सासुं बोखनारो थइ जाय ठे; तेथी हृदयमां प्रेम

सहित बहारथी ज्यारे जाइने देखे त्यारे तेना अंतःकरणमां पण ते बहु राजी थाय एवो देखाव वतावे. ज्यारे जाइ. विनयमार्गमां आवी जाय त्यारे निष्कपटपणे मीठां वचनोथी तेनी साथे निरंतर वत्तें. कदाचित् जाइ अविनीतपणुं न तजे तो, चित्तमां विचारे के, तेनी प्रकृतिज एवी ठे, एम मनमां समाधान करी उदासीनपणे वत्तें. वली जाइनी स्त्री तथा तेना पुत्रोनी साथे समदृष्टि सर्वे कार्यमां राखे. ऊरमान जाइनी साथे विशेषरीतें प्रेमपूर्वक प्रवत्तें; कारण के तेनी साथे देशमात्र अंतर राखवार्थी अप्रतीति थइ जाय ठे, अने लोकमां पण निंदा थाय ठे. ते-वीजरीतें माता, पिता अने बंधुसमान वीजा जे जे पुरुषो ठे, तेउंनी साथे उचित आचरणो विचारी लेवां. यतः ॥ जनकश्चोपकर्त्ताच, यस्तु वियां प्रयच्छति ॥ अन्नदः प्राणदश्चैव, पंचैते पितरः स्मृताः ॥ १ ॥ राजपत्नी गुरोः पत्नी, पत्नीमाता तथैव च ॥ स्वमाता चोपमाता च, पंचैतामातरः स्मृताः ॥ २ ॥ सहोदरः सहाध्यायी, मित्रं वा रोगपालकः ॥ मार्गे वाक्य सखायश्च, पंचैते त्रातरः स्मृताः ॥ ३ ॥ वली पोताना जाइउने धर्मकार्यमां पण प्रवर्तावे; तेवीज रीतें मित्रनी साथे पण उचित आचरण करे.

४ हवे स्त्रीनी साथे उचित आचरण कहीए ठीए. विवाहित स्त्रीनी साथे स्नेहसंयुक्त वचन व्यापार राखे, स्त्रीने सर्वकार्यमां अजिमुख करे, बह्व्रज अने स्नेहयुक्त वाणीविलास निश्चयपूर्वक प्रेमतुं जीवन ठे. स्नानप्रसंगें वा परिश्रमने प्रसंगें पगचंपी प्रमुख कार्यमां स्त्रीने प्रवर्तावे. उत्तरोत्तर कार्यमां पतिनो स्नेह पत्नीना अंतरंगमां प्रवर्तें ठे, त्यारे पत्नी कदापि डुराचरण करवानी अजिलापा करती नथी. देश, काल, समृद्धिपूर्वक स्त्रीने उचित बह्वाचरणथी अलंकृत करे; कारण के अलंकारसंयुक्त स्त्री, लक्ष्मीनी वृद्धि करे ठे. रात्रिए स्त्रीने बह्वाचरण करवा अनुज्ञा आपे नहि. वली कुशील, पाखंडी, जगत योगी इत्यादि नीचपुरुषोनी संगतमां प्रवर्तवा दे नहि. यहकार्यमां स्त्रीने निरंतर जोडी राखे. राजमार्गे उजां रद्दतां तथा वैश्याना पाढामां जतां निवारे. प्रतिक्रमण, सामायिक, देवदर्शनादि धर्मकृत्यो करवावास्ते, जिनमंदिर वा उपाश्रये जवामां, माता, वेहेन प्रमुख सुशील स्त्रीउनी संगतिमां जवानी अनुज्ञा आपे, घरनां काम, दान, सगासंबंधीनां सन्मान, रसोश्नां

काम प्रमुखमां अधिष्ठाता करे. स्त्री प्रजातसमये शय्या उगवे, घर प्रमार्जन करे, दूधनां वासण धोवे, चूल्हानी चोकाप्रमुख क्रिया करे, गाम वासण मांजे, अनाज पीसें, गाय, जंस दोवे, बलोणुं करे, रसोइ करे, जमनारने पीरसे, जूठां वासणो मांजे, सासु, नणंद, जेठ, देवर इत्यादि-नो विनय करे. पूर्वोक्त कार्योंमां स्त्रीने निरंतर जोडे, जो पूर्वोक्त कार्योंमां स्त्रीने न जोडे तो, स्त्री नवराश पामी चपलताथी विकारने पाम जाय ठे. काममां लागी रेहेवाथी स्त्रीनी रक्षा थाय ठे, अने मनोवृत्ति शांत रहे ठे. वली जरतार स्त्रीनी सन्मुख जोवे, बोलावे, गुणकीर्त्तन करे, धन वख आचूषण थापे, स्त्री जेम कहे तेम करे, स्त्रीने दूर न राखे, तोज स्त्रीनो जरतार उपर अत्यंत प्रेम थाय ठे; तथा स्त्रीने नही जोवाथी, विशेष देखवाथी, देखीने नही बोलाववाथी, अपमान आपवाथी, अहंकार करवाथी. इत्यादि वावतोथी प्रेम त्रुटी जाय ठे. वली जरतार परदेश बहु वखत रहे तो विरहथी स्त्री अनुचित काम पण करी खे, ते कारणथी जरतारें बहु वखत परदेशमां पण न रेहेवुं जोइए. स्त्री जूल करे त्यारे शिक्षा करे, अने रीसाय तो मनावे. घरनां गुह्य तथा धननी हानि वृद्धि स्त्रीनी आगल प्रगट न करे. क्रोधनो आवेश आववाथी वीजी स्त्रीसाथे परणे नहि. वे स्त्रीवाला जरतारने अत्यंत दुःख ठे. कदाचित् संतानोत्पत्तिवास्ते वे स्त्री परणे, तो वंने उपर समजाव राखी प्रवर्त्ते. स्त्री ज्यारे कोइ काममां मोटी जूल करे, त्यारे एवी शिक्षा करे के फरी कदापि तेवी जूल करे नहि. रीसायेवी स्त्रीने पण जो न मनावे तो सोमजट विप्रनी चार्या अंवानी जेम कुवामां जइ पडे, इत्यादि अनर्थ अनेक करे. ते कारणथी स्त्रीनी साथे सर्वकाम, स्नेहयुक्त वचनोथी करावे. कठिनशब्दोथी करावे नहि.

जो निर्गुणस्त्री मखे तो विशेषरीतिं तेनी साथे नरमाशथी प्रवर्त्ते, परंतु तेवी स्त्रीने घरमां प्रधान न करे. जे घरमां पुरुषनी जेम स्त्रीसामर्थ्य, प्रधानपणुं करे ते घर प्रायः नाश पामे ठे, आ कथन बाहुल्यताथी ठे, कारण के केटलीएक स्त्रियो एवी बुद्धिवाली होय ठे के तेने पुत्रीने जो काम करवामां आवे तो बहुज लाज थाय ठे. जेम तेजपालनी पत्नी अनुपदेवीने पुत्रीने, वस्तुपाल तथा तेजपाल काम करता ह-

ता. वली स्त्री ज्यारे धर्मकार्यो करे, तप करे, चारित्र ले, उद्यापन करे, दान दे, देवपूजा करे, तीर्थयात्रादि करे, इत्यादि जे जे उत्तम कार्यो करे, ते सर्वमां उत्साह धरे, शक्ति प्रमाणे धन आये, सुशीलपणे सहाय आपी तेना मनोरथ पूर्ण करे, अंतराय न करे; कारण के स्त्री जे जे धर्मकृत्यो करे तेमां पति ते ते कृत्यो करवामां राजी थाय तो ते पतिने पण पुण्य थाय ठे.

५ हवे पुत्रनी साथे उचित आचरण लखीए ठीए. पिता पोताना पुत्रनुं बाल्यावस्थांमां अत्यंत मनोझ आहारथी पोपण करे. स्वेच्छापूर्वक नाना प्रकारनी क्रीडा करावे. मनोझ पुष्ट आहारथी बालकनी बुद्धि बल तथा कान्तिनी वृद्धि थाय ठे, अने स्वेच्छायुक्त क्रीडाथी शरीर पुष्ट थाय ठे; अंगोपांग संकुचित थतां नथी. यतः ॥ छालयेत् पंचवर्षाणि, दश वर्षाणि ताडयेत् ॥ प्राप्ते तु षोडशे वर्षे, पुत्रं मित्रवदाचरेत् ॥ १ ॥ वली देव, गुरु, धर्म अने सुखी स्वजनादिनी संगत करावे. उत्तम जातिवान्, कुलाचारी, शीलवान् एवा पुरुषनी साथे मित्राचारी करावे; गुरु आदिनो परिचय थवाथी बाल्यावस्थांमां पुत्र उत्तम वासनावालो थाय ठे, बल्कल चीरीयवत्. जाति, कुल, आचारसंयुक्तनी मित्रताथी, दैवयोगथी कदापि अनर्थपण आवी पडे तो पण, जला मित्रनी सहायताथी कष्ट दूर थई जाय ठे. जेम अन्नयकुमारनी साथे मित्रता करवाथी आर्द्धकुमारने जली वासना थईगई तेम. ज्यारे पुत्र अठारवर्षनो थाय, त्यारे तेनो विवाह करे, कारण के बाल्यावस्थांमां वीर्यक्षय थइजवाथी, बुद्धि, पराक्रम, तथा आयुष्यवृद्धि पामतां नथी. सर्वजैनमतना शास्त्रमां आ प्रमाणे लख्युं ठे. ज्यारे पुत्रने जोगसमर्थ जाणे त्यारे, तेनो विवाह करे. जे कन्यानी साथे विवाह करावे, ते कन्यानुं रूप, कुल, गुण समान होय तेनी साथे विवाह करावे. जे कन्यामां गुण, रूप सरखां न होय तथा जे कन्या वर्षमां अधिक होय, तेनी साथे विवाह करवामां अनेक विडंबना ठे. विवाहनुं प्रकरण हवे पत्नी लखशुं. पुत्रना उपर घरनो चार मूके, पुत्रने घरनो स्वामी करे. ज्यारे पुत्रनी उपर घरनो चार आवे ठे, त्यारे चिंतायुक्त रेहेवाथी ते कांश्चपण स्वहंद उन्मादादि करतो नथी; कारण के तेना जाणवामां आवे ठे के, धन बहुज मेहेनतथी प्राप्त थाय ठे, ते का-

रणथी अनुचित व्यय न करवो जोश्ये; परंतु पुत्रनी परीक्षा कर्त्ता पत्नी तेना उपर धरनो जार मुकवो जोश्ये. जेम प्रसेनजित् राजाए श्रेणिक पुत्र वास्ते कखुं तेम. पुत्रनी जेम पुत्री तथा नत्रीजानी साथे पण उचित आचरण करवां, तेवीज रीतें पुत्रनी बहुसाथे पण उचित आचरण करवां धनश्रेष्ठिवत्, पुत्रनी प्रशंसा प्रत्यक्ष न करे. ज्यारे कष्ट पडे त्यारे सुख दुःखनी वातो कहे, उपज निपज अने खर्चनुं स्वरूप कहे. वली पुत्रने राजसन्नानो अनुभव करावे, कारण के अणचित्तव्युं कष्ट आवी पडे त्यारे शुं करवुं तेनी गम पडे; वली दुष्ट जन उपद्रव करे. त्यारे राजकचेरी विना इलाज नथी. यतः ॥ गंतव्यं राजकुले, द्रष्टव्याराजपूजितालोकाः ॥ यद्यपि न ज्वंत्यर्था, स्तथाप्यनर्था विलीयंते ॥ १ ॥ वली पुत्रने परदेशना आचार, व्यवहारादिथी जाणकार करे. प्रसंगवशात् परदेशगमन करवुं पडे तो कोइ कष्टप्राप्त यतां उपाय सुजे. वली उरमान माना पुत्रनी साथे विशेष उचित करे.

६ हवे सगांठ साथे उचित आचरण लखीए ठीए. पिता, माता, स्त्रीना पक्षना जे लोक होय ठे ते सगां कहेवाय ठे. ते सगांठनो निरंतर तेमज मोटा प्रसंगमां आदर सत्कार करवो जोईए. पोते पण सगांठना काममां आगेवान तरीके प्रवर्त्तें तथा काम करे. जे स्वजन धनहीन होय, रोगग्रस्त होय तेनी सारवार करे; कारण के सगांठनो जे उद्धार करवो ते पोतानोज उद्धार करवो ठे. सगांठनी पाठल तेउनी निंदा न करे. सगांठना वैरीउं साथे मित्राचारी न करे. सगांठनी साथे प्रीति करवामां शुष्क कलह, हास्यादि वचनोनी लडाइ विगेरे निवारे. स्वजन घरमां न होय तो तेना घरमां एकलां गमन करे नहि. देव, गुरु अने धर्मनां कार्यमां स्वजनोनी साथे सामेल रहे. जे स्त्रीनो पति परदेश गयो होय. एवा स्वजनना घरमां एकलां गमन करे नहि. स्वजनोनी साथे खेणदेणनो व्यापार करे नहि. तथाहि ॥ यदीष्टेत् विपुलां प्रीतिं, प्रीणि तत्र न कारयेत् ॥ वाग्वादमर्थसंबंधं, परोक्षे दारदर्शनम् ॥ १ ॥ आ लोकना व्यावहारिक कार्यमां स्वजनोनी साथे एकचित्त रहे; अने जिन मंदिरादिधर्मकार्योमां तो अवश्य विशेष रीतें मेलाप पूर्वक प्रवर्त्तें. एवां कार्यो बहुजन संमतिथीज करवामां आवे तो शोजा ठे.

७ ह्वे गुरु उचित कह्णीए ठीए. धर्माचार्यनी साथे उचित जक्ति, श्रं-
तरंगपूर्वक, बहुमान संयुक्त, प्रवर्तवुं. वचन कायानां आघञ्जक प्रमुख
कृत्य करवां. गुरुपासे शुरू श्रुत्वापूर्वक धर्मोपदेश श्रवण करवो. गुरुनी
आज्ञा श्रंगीकार करवी. मनथी पण गुरुनुं अपमान न करवुं. गुरुना श्र-
वर्णवाद कोइनी पासे बोलवा नहि. गुरुनी प्रशंसा सर्वत्र प्रगट करवी,
गुरुनी प्रत्यक्ष तेमज परोक्ष स्तुति करवी, कारण के गुरुनी स्तुति श्रग-
णित पुण्यबंधनुं कारण ठे. गुरुनां ठिड कदापि जोवां नहि. गुरुनी सा-
थे मित्रनी जेम अनुवर्तन करे. गुरुना प्रत्यनीक, निंदकने सर्वशक्तिथी
निवारै. कदाचित् गुरु प्रमादना वशथी कांइ चूक करे तो एकांतमां हि-
तशिक्षा आपे, बली एम कहे के हे जगवन् ! आप सरखाने आ काम
करवुं उचित नथी. गुरुनो विनय करे, गुरुनी सन्मुख जाय, गुरुपासें आ-
वतां, आसन ठोडी उजा थइजाय; गुरुने आसन आपे. गुरुनी पगचंपी करे.
गुरुने शुरू, निर्दोष आहार, वस्त्रपात्रादि आपे. आ प्रमाणे गुरुनो ड्रव्यो-
पचार करे. जावोपचार, ते गुरुनुं परदेशमां निरंतर स्मरण करे इत्यादि.

८ ह्वे नगरवासी जनो प्रत्ये उचित आचरण कह्णीये ठीये. जे नग-
रमां निवास होय, ते नगरवासीउं, जेठनी पोताना सरखी व्यापारवृत्ति
होय तेउंनी साथे व्यापार विषयमां एकचित्तथी सुख दुःखादि प्रसंगें
तथा कष्ट प्राप्त थये अने राज्यउपद्रवादिमां अरस परस सामेल रहे
तथा सहाय आपे. तेउंनो अच्युदयमां उत्साहवान् रहे. राजदरवारमां
कोइनी चाडी चुगली न खाय. नगरनिवासिउंमां फाटे नहि. सर्वनी सा-
थे मली राजानी आज्ञा पाले. ज्यारे घणां नवलां माणसोपण एकत्र थ-
इ कार्य करे ठे, त्यारे तृणरज्जुवत् बलवान् थइ जाय ठे. ज्यारे वादविवाद
थइ जाय त्यारे पक्षपात तजी कार्य करे. कोइनी पासेथी लांच लइ अ-
सत्य कार्य न करे. कोइनी साथे सहज लडाइ थइ जाय तो न्यायनी अ-
दाखतमां फरीयाद करे नहि. राजाना कारनारीउं साथे लेणदेणनो व्य-
वहार न करे, कारण के ते लोकोने नाणां पाठां आपवामां क्रोध आवी
जाय ठे, तेवे प्रसंगें तेउं अनर्थ करे ठे, समान नगरवालाउंनी जेम अ-
समानवृत्तिवाला नगरनिवासीउंनी साथे पण यथायोग्य उचित आचरणकरे.

ए ह्वे परतीर्थी परमतवालाउंनी साथे उचित आचरण लखीए ठीये.

जे परमतवाला जिज्ञाने वास्ते पोताना घरमां आवेते सर्वप्रत्ये उचित करे. राजाना माननीयनुं विशेष उचित करे. उचित कृत्यं ते यथा योग्यदान देवा चाहे. अग्र जो ते साधुउपर मनमां प्रीति न होय तो पण घेर मागवा आवतां तेउनी उचित जक्ति करे; कारण के दान देवुं ते गृहस्थनो धर्मज ठे. वली कोइ महंत घेर आवी जाय तो सन्मुख गमन, आसन दान, उचां थवुं तथा दान आपवुं प्रमुख करे. परमतवाला कोइ कष्टमां पडे तो तेनो उद्धार करे. दुःखी जीवोनी दया करे. पुरुष अपेक्षा मधुर आलाप संलापादि करे. अन्य मतवालाने कामनुं पुढवा प्रमुख करे, जेम के आपनुं पधारनुं शा प्रयोजनवास्ते थयुं ठे ? पठी जे कार्य ते वतावे ते उचित होय तो करी आपे. वली दुःखी, अनाथ, आंधलां, वेहेरां, रोगग्रस्त प्रमुख दीन लोकोनी दीनता दूर करवावास्ते यथाशक्ति सहाय करे. जे आवकादि पूर्वोक्त लौकिक उचित आचरणमां कुशल होता नथी, तेउ जिनमतमां केवी रीतें कुशल होय शके ? ते कारणथी धर्माधिउण अवश्य उचित आचरणोमां निपुण थवुं जोइए. इति नवविध उचित आचरण समाप्त ॥

हवे अवसरें उचित बोलवुं ते बहुज गुणकारी ठे, तथा वीजुं जे कांइ कुशोच्चाकारी होय ते त्यागे, इत्यादि विवेकविलास अनुसारें लखीए ठीए. वगासुं, ठीक, उरुकार तथा हसवुं, मुख ढांकी मर्यादाथी करे. सज्जानी वचमां नाकमां आंगली घाली मेल न काढे, हाथना टाचका फोडे नहि, पर्यस्तिका करे नहि, पग पसारे नहि, निद्रा विकथा करे नहि, सज्जामां बुरी चेष्टा करे नहि, मात्र अवसर जोइनेज हसे, मात्र होत फरकाववारूप हसे, मुख फाडी खडखड हसे नहि, पोतानुं अंग वगासुं नहि, घास त्रोडे नहि, जूमिउपर लखे नहि, जूमिपर चित्रामण कांठे नहि, नखथी दांत घसे नहि, दांतथी नख त्रोडे नहि, अजिमानयुक्त वातो करे नहि, जाट धारणप्रमुखनी करेली प्रशंसाथी गर्व करे नहि पोतामां गुण होय तेनो निश्चय करे, पोताने समजीने बोले, नीच मनुष्य हलकां वचन पोताउपर उच्चारें तो सामां हलकां वचन पोते उच्चारें नहि, जे वात निश्चयपूर्वक न होय ते वात प्रगट करे नहि; कोइ पुरुषे काम आरंभवा विचार कयों होय, अने ते काम करवामां ते समर्थ न

होय तो प्रथमथीज तेने कहे के आ काम तमाराथी थइ शकशे नहि, कोइपण मनुष्यनुं वुरुं बोले नहि, पोताना बेरीनुं पण वुरुं बोले तो अन्योक्तिपूर्वक बोले; माता, पिता, रोगी, आचार्य, परोणा, अज्यागत, वंधु, तपस्वी, वृद्ध, बाल, स्त्री, वैद्य, पुत्र, गोत्री, पामर, वेहेन, बनेवी, मित्र आ सर्वनी साथे वचननी लडाइ न करे; सूर्यनी सन्मुख निरंतर जोवे नहि, चंद्रसूर्यना ग्रहणने जोवे नहि, उंडा कुवामां वांका वढी जोवे नहि, संध्यासमये आकाश सन्मुख जोवे नहि; वढी मैथुनक्रिया करनार, शिकार करनार, नग्नस्त्री, यौवनवंती स्त्री, पशुक्रीडा, कन्यानी योनि, तेउनी तरफ दृष्टि करे नहि; तेलमां, जलमां, शस्त्रमां, सूत्रमां, रुधिरमां, पोतानुं मुख जोवे नहि, ते प्रमाणे करवाथी आयु अल्प थाय ठे. जेणे आश्रय कर्यो होय तेनो त्याग करे नहि, नाश पामेली वस्तुमाटे शोक करे नहि, कोइनी निडानो जंग करे नहि, घणांती साथे वेर करे नहि, बहुजनसंमत होय तेवुंज वचन बोले, जे काममां रस न लागे, ते काम करे नहि, कदापि करवुं पडे तो पण घणाने मळीने करे. धर्म, पुण्य, दया, दानादि शुचकाममां बुद्धिमान् मुख्य थाय, अग्रेसर थाय, कोइनुं वुरुं करवामां अग्रेसर न थाय, सुपात्र साधुजमां कदापि मत्सर ईर्ष्या करावे नहि, पोते तेउना उपर करे नहि, पोतानी ज्ञातिवाला कष्टमां पड्या होय तेनी उपेक्षा करे नहि, पांच माणसने मेलवी आदरसहित ते कष्ट दूर करे. माननीय पुरुषनुं मानजंग करे नहि. दरिद्र, पीडित, मित्र, साधर्मी, ज्ञातिमां बुद्धिमंत, गुणमां गरिष्ठ, संतानहीन, श्ल्यादिनुं कष्टमां पालन करे. पोताना कुलने जे काम करवुं उचित न होय ते काम करे नहि. नीतिशास्त्र तेमज बीजां शास्त्रो मुजव जे उचित आचरण होय तेज करे. अनुचित निरंतर वजे, वैद्यक ग्रंथमां लख्यामुजव एकप्रहरमां बेवार चोजन न करे, तथा वे प्रहर उलंघे नहि, कारण के एक पहोरमां बेवार खावाथी रोगोत्पत्ति थाय ठे, अने वे पहोर पठी न खाय तो बलह्वय थाय ठे.

हवे सुपात्रदानादि आपवानी युक्ति लखीए ठीए. चोजन अवसरें चक्तिसहित साधुजने निमंत्रणा करीने साधुनी साथे घरमां आवे, जो साधु स्वयमेव आवता होय तो सन्मुख जइ आदर सत्कार करे, विन-

यसहित संविज्ञ जावित अजावित क्षेत्र देखे, सुजिह्व दुर्जिह्वादि काल देखे, सुलज दुर्लजादि देवायोग्य वस्तु देखे; तथा आचार्य, उपाध्याय, गीतार्थ, तपस्वी, बाल, वृद्ध, ग्लान, सह असहादि अपेक्षापूर्वक महत्त्व, स्पर्द्धा, मत्सर, स्नेह, लज्जा, जय, दाक्षिण्य, परानुयायिपणुं, प्रत्युपकार, इष्टा, माया, विलंब, अनादर, बुरुं बोलवुं, पश्चात्तापादि, सर्व दाननां दूषणो वर्जा आत्माने संसारथी तारवा वास्ते एवी बुद्धिथी वेंतालीश दूषणरहित, घरमां जे कांइ अन्न, पकान्न, पाणी, वस्त्रादि होय, तेनी अनुक्रमें सर्वरीतें निमंत्रणा करे; पोताना हाथमां पात्र लई पासे रहेल चार्या प्रमुखथी दान बहोरावे; वंदना करी पोताना घरना द्वारसुधी साथे बोलावा जाय, पठी पाठा आवी जोजन करवा वेसे; साधुनो योग कदापि प्राप्त न थाय तो वरसादनी जेम साधुनी राह देखे, विचारे के साधु आवी जाय तो मारो जन्म सफल थइ जाय, ते कारणसर दिशावलोकन करे, जे जोजन साधुए न बहोर्युं होय ते श्रावक न खाय. जे श्रावक हृष्टपुष्ट साधुने विनाकारण अशुद्ध आहार आपे तो, लेनार देनार बंनेने रोगीना दृष्टांतनी जेम हितकारी नथी. जे साधुनो निर्वाह थतो न होय, दुर्जिह्व होय, साधु रोगी होय, अथवा वीजुं कांइ कारण होय, तेवे प्रसंगें साधुने अशुद्ध अप्राशुक आहार आपे तो लेनार देनार बंनेने हितकारी ठे. रस्ताना थाकेला, रोगी, शास्त्र पढनार, लोच करेल, अने व्रतधारीने पारणाने दिन, दान आपवामां आवे तो बहुज फल थाय ठे. आ सुपात्रदानजुं नाम अतिथिसंविज्ञाग कहेवाय ठे. यदागमः ॥ अतिहि संविज्ञागोनाम नायगयाणं ॥ इत्यादि पाठनो अर्थ कहीए ठीए. अतिथिसंविज्ञाग अर्थात् न्यायथी उपार्जन थयेल कल्पनीय अन्न, पाणी प्रमुख, देश, काल, श्रद्धा, सत्कार, क्रमयुक्त उत्कृष्ट जक्तिथी, आत्मानी अनुग्रहबुद्धिथी, संयतसाधुने दान आपवुं ते. सुपात्रदानथी देवतासंबंधी तथा श्रौदारिकादि संबंधी अद्भुत जोग, सर्व इष्ट सुखसमृद्धि, राज्यप्रमुख मनगमता संयोगनी प्राप्ति, अने निर्विलंब, निर्विघ्न, मोक्षफल प्राप्ति ठे. अन्नयदान अने सुपात्रदान मोक्षफल प्रदाता ठे, अनुकंपादान परंपराए मोक्षदाता ठे, अने अनुकंपादान, उचितदान तथा कीर्तिदान सांसारिक सुख जोगनां आपनारां ठे.

पात्र त्रण तरेहनां कथन करेखते. १ उत्तम पात्र साधु, २ मध्यम पात्र
श्रावक, ३ अविरति सम्यग्दृष्टि जघन्यपात्र, १ अनादर, २ कालविलंब,
३ विमुख, ४ असत्यबोलवुं, ५ दान दश् पश्चात्ताप, आ पांच सत् दाननां
कलंक ठे. १ आनंदनां आंसु आववां, २ रोमांचित थवुं, ३ बहुमान
देवुं, ४ मिष्टजापण, ५ दानदीघा पठी अनुमोदना, आ पांच सुपात्र दा-
ननां श्रूषण ठे. सुपात्रदाननुं परिग्रहपरिमाण करवानुं फल रत्नसार कु-
मारनी जेम थाय ठे. आ कथा श्राद्धविधिग्रंथथी जाणवी. ते कारण-
थी एवा साधुनो संयोग मलवाथी सुपात्रदान दिन प्रतिदिन विवेक-
वान् अवश्य करे.

जोजन अवसरें साधर्मी बंधु कोइ आव्या होय तो पोतानी साथे यथा
शक्ति जोजन करावे; कारण के तेउपण पात्र ठे. आंधळा बुला प्रमुख
मागनाराउने पण यथायोग्य आपे, कोइ मागनारने निराश जवा दे नहि.
धर्मनी निंदा न करावे, कठण अंतःकरण न करे. जोजनने अवसरें दया-
वंतें वारणाबंध न करवां जोइये, तेमांपण धनवानें तो अवश्य द्वार खुल्लां
राखवां जोइये. ॥ आगमेऽप्युक्तं ॥ नेव दारं पिहावेइ, जुंजमाणो सुसा-
वठ ॥ अणुकंपा जिणंदेहिं, सहाणं न निवारिया ॥ १ ॥ दिदूण पाणिनि-
वहं, जीमे जवसायरंमि डुखत्तं ॥ अविसेस अणुकंपं, डुहावि सामवठ
कुणइ ॥१॥ अर्थः— जोजनावसरें दरवाजा बंध करे नहिं. जिनेश्वर ज-
गवानें श्रावकने अनुकंपादान करवानी मना करी नथी. जीवोना समूह-
ने जयानक संसारमां दुःखपीडित देखीने तेउना उपर विशेषरहित
द्रव्य तेमज जावथी अनुकंपा करे. द्रव्यथी यथायोग्य अन्नादि आपे,
जावथी तेउने सन्मार्गमां प्रवर्त्तावे. श्री पंचमांग प्रमुखमां ज्यां श्रावकोनुं
वर्णन करेल ठे, त्यां आ प्रमाणे पाठ ठे “ अवयुंठि अडुवारा ” आ विशेष-
पण ध्यानमां राखी जिह्मुकादिने आपवावास्ते निरंतर द्वार उघाडां राखे.
संवत्सरीदान आपी तीर्थंकर महाराजाउयें पण दीन प्राणीउनो उद्धार
करेल ठे. कदापि डुकाळ पडे तो श्रावकोयें तो विशेषरीतें दीननो उद्धार
र करवो. पूर्वे विक्रमसंवत् १३१५ मां जडेसर गामनिवासी श्रीमाळ झा-
तिशाह जगडु श्रावकें ११२ एकसो वार दानशाला बंधावी दान आपेल

ठे. वली संवत् २४२९ मां सोनी सिंहा श्रावके २४००० हजार मण अन्न दीन जीवोने डुकालमां आपेल ठे.

माता, पिता, चाइ, वेहेन, पुत्र, स्त्री, सेवक, ग्लान, बांधेलां गाय प्रमुख जानवरो, आ सर्वनी जोजन अवसरें सार संजाल लेवी जोइये. मातपिताने जोजन करावि, पंच परमेष्टि स्मरण करी, प्रत्याख्यान पारी, सर्वनियम स्मरण करी, साम्यताथी जोजन करे. साम्यता अर्थात् जे अन्नपाणी परस्पर विरुद्ध न होय, उलटा परिणमे तेवा न होय, पोताना स्वभावने माफक होय तेवुं जोजन साम्य कहेवाय ठे. जे पुरुष जीवित पर्यंत साम्यताथी जोजन करे, ते कदी विष खाइ जाय तो, विष पण तेने अमृत थइ जाय. असाम्य जोजन करनारने अमृत पण विष थइ जाय ठे, परंतु अपवाद ए ठे के साम्यताथी पण पथ्यज खावुं जोइये, अपथ्य नही. खामां अत्यंत रुद्रिपणुं न जोइये. कंठनाडिथी ज्यारे जोजन नीचे उतरी जाय ठे, त्यारे सर्व जोजन वरावर थइ जायठे; ते कारणथी एक क्षणमात्रना खादने वास्ते अतिलोलता न करवी जोइये. वली अजक्ष्य, अनंतकाय, बहु सावधवस्तु अर्थात् बहु पापवाली वस्तु खाय नहि. जे मिताहार करे ठे ते बलवान् थाय ठे, अने जे बहु खाय ठे ते अनुक्रमें बलहीन थाय ठे. अधिक खावाथी अजीर्ण, वमन, विरेचनादि मरणांत कष्टपण थइ जाय ठे. यथा ॥ हितमितविषकजोजी, वामशयी नित्यचंक्रमणशीलः ॥ उज्जित मूत्रपुरीषः, स्त्रीषु जितात्मा जयति रोगान् ॥ अर्थः—खुब लागे त्यारे हितकारी एवुं थोडुं अन्न जमे, डावी वाजु नीचे राखी सुवे, निरंतर चालवानो अज्यांस राखे, ज्यारे बाधा थाय त्यारे तरत दिशामात्रा करे, अने स्त्री साथे जोग न करे ते पुरुष रोगो-उपर जय मेलवे ठे.

हवे जोजनविधि, व्यवहार शास्त्रानुसार लखिये ठीये, अति प्रजात-मां, अति संध्यामां तथा रात्रियें जोजन न करवुं जोइये. सडेलुं अने वासी अन्न न खावुं जोइये. चालतां खावुं नहि, जमणा पग उपर हाय राखी खावुं नहि, हाय उपर राखी खावुं नहि, खुल्ला आकाशमां खावुं नहि, तडकामां वेसी खावुं नहि, अंधारामां वेसी खावुं नहि, वृहनी नीचे वेसी खावुं नहि, तर्जनी आंगली उंची राखी कदापि खावुं नहि, मुख,

हाथ, पग तेमज वख्र धोयाविना खावुं नहि, नम्र घड् मेलानं वख्र पेहेरी, थाख पकड्याविना खावुं नहि, मात्र एक धोतियुं पेहेरी खावा वेसवुं नहि, जीनुं वख्र पेहेरी खावा वेसवुं नहि, जीनुं वख्र माये लपेट्टी खावुं नहि, ज्यारे अपवित्र होश्यें त्यारे खावुं नहि, अतिगुळ, रसलंपट थड् खावुं नहि, उपानसहित, व्यग्रचित्तें, निःकेवल नूमिपर वेसी, पाटउपर वेसी खावुं नहि, विदिशि तथा दक्षिणदिशि तरफ मुख राखी खावा वेसवुं नहि, पातला आसनपर वेसी खावुं नहि, आसन उपर पग राखी जोजन करवुं नहि, चंडाखना देखतां, धर्मधी पतित होय तेना देखतां, फूटेलां, तथा मखिन पात्रमां खावुं नहि; जे शाक प्रमुख वस्तु विष्टायी उत्पन्न थयेल होय ते खावी नहि, वालहत्याप्रमुख जेणे करेल होय तथा रजस्वला होय तेवी स्त्रीए स्पर्श करेली वस्तु खावी नहि. जे वस्तु गाय, श्वान, पंखीये सुंधी होय, जे वस्तु अजाणी होय, जे वस्तु फरीय़ी उण्ण करी होय, ते वस्तु खावी नहि, वचवचाट शब्द करतां खावुं नहि. मुख फाटतां वुरुं लागे एम मुख करी खावुं नहि. जोजन अवसरें वीजाउने वोखावी प्रीति उत्पन्न थाय तेम जोजन करवुं. देवगुरुनुं नाम स्मरण करी, समासन उपर वेसी पोतानी माता, वेहेन, चात्रु, चाणेज वा स्त्री प्रमुखें जे जोजन तैयार करेल होय ते पवित्रपणे पीरसातां मॉनपणे दक्षिण खर चालतां जमवुं. जे जे वस्तु खावी ते नासिकायें सुंधीने खावी, तेम करतां दृष्टिदोष नाश पामे ठे. अति खारुं, अतिखाटुं, अति उण्ण, अतिशीतल, अतिमीतुं तथा अतिशाक खावुं नहि. मुखमां स्वाद लागवा मात्र खावुं. अतिउण्ण खावाची रसनाश पामे ठे, अति खाटुं खावाची इंद्रियोनी शक्ति कम थड् जाय ठे, अतिखारुं खावाची नेत्र वगडी जायठे, अतिलिग्ध खावाची प्राणशक्ति मंद थड् जाय ठे, अति तीर्खुं तथा कडवुं खावाची कफ दूर थड् जाय ठे, कपायवुं अने मीतुं खावाची पित्त नाश पामे ठे, लिग्ध घृतादि खावाची वायु दूर थड् जाय ठे, वाकी शेष रोग ते न खावाची दूर थड् जाय ठे.

जे पुरुष शाक बहु खाय, घीघी रोटली खाय, डुधने चोखा खाय, बहु पाणी न पीये, अजीर्ण होय त्यारे खाय नहि, ते पुरुष रोगपर जीत मेलवे ठे. जोजन करती वखत प्रथम मीतुं अने स्निग्ध जोजन करे, व-

चमां तीक्ष्णं चोचनं करे, अने पाठल कडवुं चोचनं करे. उक्तं च ॥ सुस्निग्धमधुरैः पूर्वं, मश्नीयादन्वितं रसैः ॥ उर्व्याम्बलवणैर्मध्ये, पर्यंते कटुतिक्तकैः ॥

जो प्रथम नरम वस्तु खाय, मध्यमां कटु वस्तु खाय अंतमां फरी नरम वस्तु खाय तो बलवंत तथा नीरोगी थाय ठे. चोचननी पेहेलां पाणी पीये तो अग्निमंद थइ जाय ठे, चोचननी वचमां पीये तो रसायन समान गुणकारी थाय ठे, अने चोचननी अंतंते विपसमान थाय ठे. चोचननी अनंतर सर्व रसथी लिंपेला हाथथी एक अंजली रोज पीये, पशुनी जेम पाणी पीये नहि, पाणी पीधा पठी वाकी रहेलुं फेंकी दे, अंजलीथी पाणी पीये नहि, पाणी थोडुं पीवुं पथ्य ठे. पाणीथी नीजेला हाथ गलाउपर, कपोलउपर तथा नेत्र उपर लगाडे नहि. चोचन कर्या पठी अंगमर्दन, दिशागमन, वोज उठाववानुं काम, वेसी रेहेवुं तथा स्नान, एटलां काम करे नहि; चोचन कर्या पठी केटलो एक वखत वेसी रेहेवांमां आवे तो पेट मोटुं थइ जाय ठे. मुख खुलुं राखी चता सुवे तो बल वधे ठे, डावे पडखे सुवे तो आयु वधे ठे, चोचन करी दोडे तो मरण थवानो संजव ठे; चोचन कर्या पठी डावे पडखे वे घडीसुधी सुवे, परंतु निद्रा लहे नहि, अथवा सुवे नहि तो सो डगलां चाले. वीजे स्थलेपण कहुं ठे के देवने, साधुने, नगरना स्वामि राजाने अने स्वजनोने ज्यारे कष्ट आवे त्यारे तथा चंद्र, सूर्यना ग्रहण वखते विवेकवान् पुरुष, शक्ति होय तो चोचन न करे; तेवीज रीतें “अजीर्णप्रज्ञवारोगाः” तेथी अजीर्णमां पण चोचन करे नहि.

ज्वरनी आदिमां लांघण श्रेष्ठ ठे, परंतु वायुज्वर, श्रमज्वर, क्रोध ज्वर, शोकज्वर, कामज्वर, घावज्वर, एटला ज्वरने वर्जिने वाकीना ज्वरमां तथा नेत्ररोगमां लांघण करे.

देवगुरु वंदनना अयोगमां, तथा तीर्थ अने गुरुने नमस्कार करवा जती वखत, विशेषधर्मनुं तथा पुण्यनुं काम आरंजतां अने अष्टमी, चतुर्दशी आदि विशेष पर्वने दिवसे चोचन न करवुं जोइये. तपश्चर्यां था लोक अने परलोकमां बहुज हितकारी ठे, तथा गुणकारी ठे. चोचन कर्या पठी नवकार मंत्र गणी उठे. चेल्यवंदन करी, देवगुरुने यथायोग्यवं-

दन करे. चोजन कर्मा पठी गंठीसहित दिवस चरिम प्रत्याख्यान विधि-
थी करे; पठी गीतार्थ साधु, गीतार्थ श्रावक तथा सिद्धपुत्रादि समीप
स्वाध्याय (पठन पाठन) यथायोग्य करे. योगशास्त्रमां लख्युं ठे के जे
गुरुमुखशी जणेल होय, ते बीजार्जने जणावे, स्वाध्याय कर्मा पठी संध्या-
समये जिनपूजा करे, पठी प्रतिक्रमण करे, पठी स्वाध्याय करे, पठी वै-
यावच्च अर्थात् मुनिनी पगचंपी करे, पठी घेर आवी सर्व परिवारने मेल-
वी धर्मनुं स्वरूपकथन करे. उत्सर्गमार्गें तो श्रावकें एक वखतज चोज-
न करवुं जोश्ये ॥ यदज्ञाणि ॥ उत्सर्गोणं तु सद्योय, सचित्ताहारं वज्ज-
त्तं ॥ इक्कासणगजोश्य, वंजयारितहेवय ॥ १ ॥ जो एक वखत चोजन
करवाने समर्थ न होय, तो दिवसनो आठमो जाग अर्थात् चार घडी
दिवस बाकी रहे त्यारे चोजन करी ले, वे घडी दिवस बाकी रहेतां पहे-
लां तो चोजन करी लेवुं जोश्ये. पठी यथाशक्ति चार आहार, त्रण आ-
हार, वे आहार त्यागरूप दिवस चरिम, सूर्यजगतां सुधी करे. मुख्यवृ-
त्तियें तो दिवस ठतां प्रत्याख्यान करवुं जोश्ये, परंतु अपवादें रात्रियें पणकरे.

इति श्रीतपगङ्गीयगणिश्रीमणिविजयतठिष्यमुनिश्रीबुद्धिविजयतठि-
ष्यमुन्यात्मारामानंदविजयविरचितेजैनतत्त्वादर्शगुर्जरज्ञापांतरे श्राद्धशा-
स्त्रानुसारेण श्रावकदिनकृत्यप्रकाशकनामा नवमपरिच्छेदः संपूर्णः ॥

॥ अथ दशमपरिच्छेदप्रारंभः ॥

आ परिच्छेदमां श्रावकोनां १ रात्रिकृत्य, २ पर्वकृत्य, ३ चातुर्मासिक-
कृत्य, ४ संवत्सरीकृत्य, ५ जन्मकृत्य, आ पांच कृत्यतुं स्वरूप अनुक्रमें
लखवामां श्रावशे; प्रथम रात्रिकृत्य लखीये तीये.

साधुनी पासे तथा पौषधशाला प्रमुखमां यत्नापूर्वक प्रमार्जना करीने
सामायक लही श्रावक प्रतिक्रमण करे; पठी साधुर्जनी वैयावच्च (पगचं-
पी) करे. उत्सर्ग मार्गनी अपेक्षायें साधुने श्रावकपासे विश्रामण आ-
दि न कराववुं जोश्यें, परंतु श्रावक तेम करवानो जाव करे तो महाफल
थाय ठे; पठी श्राद्धविधि, श्राद्धदिनकृत्य, उपदेशमाला अने कर्मग्रंथ प्र-
मुख शास्त्रोनो स्वाध्याय करे, पठी सामायक पारी घेर जाय.

घेर आवी सम्यक्त्वमूल चार व्रतमां सर्व शक्तिथी यत्न करणादिरूप

तथा अर्हत्त्वैत्य अने साधर्मी वर्जित वासस्थानमां निरंतर अनिवासरूप, तथा पूजा प्रत्याख्यानादि अजिग्रहरूप, साते क्षेत्रमां यथाशक्ति व्यय करवारूप, सर्व परिवारने यथायोग्य धर्मोपदेश कथन करे. श्रावक जो पोताना परिवारने धर्मनुं स्वरूप यथायोग्य न कहे तो ते परिवार धर्मथी विमुख रहे, अने तेउने धर्मनी प्राप्ति न थाय, तेथी इह लोक परलोकनां अनेक तरेहनां ते पापकर्म करे, ते सर्व पाप मुख्य श्रावकने लागे. लौकिक व्यवहारशास्त्रमां पण कहुं ठे के चोरने चोरी करतां जाणतां ठतां तेने न निवारे अने खानपानादि आपे तो ते सहायक पण मददगार चोर गणाय ठे. धर्ममांपण तेमज जाणवुं. ते कारणथी श्रावकें डव्य तथा जावथी पोताना कुटुंबने निरंतर लाज आपवो जोइये. तेमां डव्यथी पुत्र, स्त्री प्रमुखने यथायोग्य अन्न वस्त्रादि आपवां जोइये, अने जावथी तेउने धर्मनो उपदेश करवो जोइये; तेमज वीजां जे दुःखी कुटुंबी होय तेउनां दुःख निवारवानी चिंता करवी जोइये. पाप लागवानी बावतमां अन्यशास्त्रमां पण कहुं ठे. यतः ॥ राक्षि रापूकृतं पापं, राक्षः पापं पुरोहिते ॥ चर्चरि स्त्रीकृतं पापं, शिष्यपापं गुरावपि ॥ १ ॥ धर्मदेशना आप्या पठी, रात्रिनो प्रथम पद्दोर व्यतीत थया वाद, शरीरने सुखजनक शय्यामां विधिपूर्वक अल्प निद्रा करे. बाहुद्वयतायें गृहस्थ, मैथुन अजिलापा वर्जे. जावजीवसुधी ब्रह्मचर्य व्रत पालवा समर्थ न होय तो, पर्वतिथियें तो अवश्य ब्रह्मचर्य व्रत पालवुं जोइयें.

जे शय्यामां मांकड प्रमुख पड्या होय, जे पलंग टुंको होय, जांगेलो होय, मेढी शय्या होय, जे पलंग वलेला लाकडानो वनावेलो होय, तेनो त्याग करे. पलंगमां चार जातसुधीनुं काष्ठ वपराय तो शुभ्र, अने वधारेनुं वपराय तो अशुभ्र, एम नीतिशास्त्रमां कहुं ठे. पूजनीय वस्तु उपर सुवे नहि, पाणीथी जीजायेला पग ठतां सुवे नहि, उत्तरदिशि तथा पश्चिम दिशि तरफ मस्तक राखी सुवे नहि, वांसनी जेम सुवे नहि, पगराखवानी तरफ सुवे नहि, हाथीना दांतनी जेम सुवे नहि, देवमंदिरना मूल गजारामां, सर्पनी वंधी उपर, वृहानी नीचे, तथा स्मशानमां सुवे नहि. कोइनी साथे लडाइ थइ होय तो शांति करी सुवे. सुवानी वखत पाणी पासे राखे. द्वार बंध करी, इष्टदेवने नमस्कार करी सर्व आहारनो त्याग

करी, उठवानां वस्त्र समारी शरीर साफ करी, डावी वाजु नीचे राखी शयन करे.

दिवसे सुवे नहि, परंतु क्रोध, शोक तथा मद्य शमाववावास्ते, तथा स्त्रीकर्म अने वीजी मेहेनतनो थाक लाग्यो होय तो ते मटाडवावास्ते, तेमज रस्तानो परिश्रम दूर करवावास्ते सुवे; वली अतिसारं, श्वास, हेडकी प्रमुख रोग दूर करवावास्ते सुवे; तथा बालक, वृद्ध अने बलहीण होय तेपण सुवे. वली अजीर्णना व्याधिवाला, वायाना व्याधिवाला, खांसीवाला. अने जेठने रात्रियें निद्रा न आवती होय वा अल्प आवती होय ते-उपण सुवे. तृषा, शूल अने गड गुमडानी वेदनाथी विह्वल होय तेपण दिवसे सुवे. जेठ अने असाड मासमां दिवसेपण सुबुं ते सारुं ठे. वीजा महिनामां जो सुवे तो कफ अने पित्तकर्ता थाय ठे. बहु बखत निद्रा ले-वी तेपण सारुं नथी, रात्रें ज्यारे सुवे त्यारे दिशावकाशिक व्रत उच्चरी सुवे, चार शरण ग्रहे, जीवराशि साथे खमावे, अठार पापस्थानक वोसि-रावे, दुष्कृतनी निंदा गर्हणा करे, सुकृतनुं अनुमोदन करे, अने नवकार सहित आ गाथा त्रण वार उच्चरे. ॥ जइ मेहुज्ज पमाउं, इमस्स देहस्स इ-माइ रयणीये ॥ आहारमुवहि देहं, सबं तिविद्देण वोसरियं ॥ १ ॥ अर्थ सुगम ठे. सागारी अनशन करे. सुती बखते पांच नवकार स्मरण करे. स्त्रीनी शय्याथी अलग शय्यामां सुवे, शय्यामां साथे सुवाथी विकार अ-धिक जागे ठे तथा जे वासना सुती बखते होय, ते जागतां सुधी दूर थ-ती नथी. वली अधिक विकारथी दिवानापणुं थइ जाय ठे; तथा मरण अवसरें गफलत थइ जाय तो पण सेचतन अवस्थामां जे वासना विद्य-मान हती तेज वासना रहे ठे ॥ इत्याप्तोपदेशः ॥ ते कारणथी सर्वथा उ-पशांतमोह थइने, तथा धर्म वैराग्यादि जावनाथी वासित थइने निद्रा-करे तो माठां स्वप्न न आवे. जे रीतियें सुंदर धर्ममयस्वप्न आवे ते रीतियें सुवे, जेथी कदाच निद्रामां आयुनी समाप्ति थइ जाय तो पण ते उत्त-म गतिमां जाय.

सुता पठी रात्रिमां जो जागी जवाय, अने तेवे प्रसंगे अनादि काल-ना अच्युत्सना रसथी कदाचित् काम पीडा करे, तो स्त्रीना शरीरना अ-शुचिपणानो विचार करे; अने श्रीजंबुस्वामि तथा श्रीस्थूलजडादि म-हर्षियोना तथा सुदर्शनप्रमुख महाश्रावकोनां दुष्कर शीयल पालवानी

दृढतानो विचार करे, वली स्त्रीना शरीरनी अपवित्रता जुगुप्सनीया-
दि. सर्व श्रीहेमचंद्रसूरिकृतयोगशास्त्रमां तथा श्रीमुनिसुंदरसूरिकृत
अध्यात्मकल्पद्रुममां जेम वतावेळ ठे, तेम विचारे, तेनुं लेशमात्र स्व-
रूप लखीये ठीये.

चामडी, हाड, मज्जा, आंतरडां, चरवी, नस, रुधिर, मांस, विष्टा, मूत्र,
खेल, खंखारादि अशुचि पुंजलनुं पिंड स्त्रीनुं शरीरठे, आ पिंडमां तुं शुं
रमणीय वस्तु देखे ठे? जे लोक विष्टाने दूरथी देखी थूथूकार करे ठे, तेज
मूढलोक विष्टा अने मूत्रथी जरेला एवा स्त्रीना शरीरनी अजिवापा करे
ठे! बहु ठिडोवाली विष्टानी कोथली जेना ठिडोमांथी कृमीजाल निक-
ले ठे, तथा कृमीजालथी जरेली, एवी स्त्री ठे. चपलता, माया, असत्यता,
ठगाइ इत्यादिथी संस्कारित थयेळ ठे, तेथी जे पुरुष मोहथी तेनो संगं
करे, जोगविदास करे, तेने नरकगति ठे. विष्टानी कोथलीरूप स्त्रीनां
अग्नीआरे द्वारथी अशुचि वहे ठे. जे द्वारने सुंधो, ते द्वारमांथी सडेला
कुतराना कलेवर समान दुर्गंध आवे ठे. हवे विचारमात्र एज आवेठे के
कामी पुरुषो आवा स्त्रीना शरीरमां रागांध केम थाय ठे? इत्यादि स्त्रीना
शरीरनी अशुचित्ता विचारे. धन्यठेमुनि जंबुकुमारने!! जेणे नवपरिणीत
आठ पद्मिनी स्त्री तथा नवाणुकोड सोनैया एक क्षणमात्रमां तजी दीधां!
तेनुं माहात्म्य विचारे; अने श्री शूलिचंद्र तथा सुदर्शन शेटना शिष्यलुं
माहात्म्य विचारे. वली कपाय जीतवाना उपाय चिंतवे, तथा जावस्थि-
तिनो विचार करे, अने धर्ममनोरथ जावनानी चिंतवना करे.

कपाय जीतवानो उपाय आ प्रमाणे. क्रोधने क्षमाथी जीते, मानने
नम्रताथी जीते, मायाने सरलताथी जीते, लोचने संतोषथी जीते, राग-
ने वैराग्यथी जीते, द्वेषने मित्रताथी जीते, मोहने विवेकथी जीते, काम-
ने, स्त्रीना शरीरनी अशुचित्व जावनाथी जीते, मत्सरने मननी मोटाइथी
जीते, विषयने संयमथी जीते, योगने गुप्तिथी जीते, आलसने उद्यमथी
जीते, अविरतिपणाने विरतिपणाथी जीते; आ प्रमाणे सर्व सुखेंथी जीती
शकाय ठे. पूर्वे महान् पुरुषोयें आ रीतियेंज कपायने जीतेळ ठे.

चवस्थिति महादुःखरूप ठे. चारे गतिमां जीव नाना प्रकारें दुःख पा-
मी रह्या ठे. नरकगतिना साते नरकोमां अत्यंत क्षेत्र वेदना ठे. चार न-

रकमां परस्पर शस्त्रोष्ठी उदीरेली वेदना ठे, अने त्रण नरकमां परमाधा-
मी कृत वेदना ठे. आंख बंध करी उघाडीयें तेटलो काल पण नरकवासी
जीवोने सुख नथी. मात्र दुःखज पूर्व जन्मना करेला पापथी उदय पा-
मेळ ठे. रात अने दिवस एक सरखां दुःखमां जाय ठे. नरकगतिमां जीव
जेटळुं दुःख जोगवे ठे, तेनाथी अनंतगणुं दुःख निगोदमां ते जोगवे ठे.
तिर्यंच गतिमां अंकुश, परोणा, लाकडीना प्रहार, शृंगमोडन, गलमो-
डन, तोडन, ठेदन, जेदन, दहन, अंकन, परवशत्वादि अनेक दुःख, जीव
पामे ठे. मनुष्यगतिमां गर्जमां रेहेवानुं दुःख, जन्म जरा मरणतुं दुःख,
रोग व्याधि दरिद्रता प्रमुखतुं नाना प्रकारतुं दुःख, माता, पिता, स्त्री, पु-
त्रना मरणादिथी थतुं दुःख इत्यादि अनेक तरेहनुं दुःख जीव पामे ठे.
देवगतिमां च्यवनतुं दुःख, दासपणानुं दुःख, पराजव, ईर्ष्यादि अनेक
दुःख ठे, इत्यादि जवस्थिति विचारे.

धर्ममनोरथजावना आ प्रमाणे करे. श्रावकना धरमां ज्ञान, दर्शन,
व्रतसहित दास थइ जाळं तो पण सारुं ठे, परंतु मिथ्यादृष्टिमां चक्र-
वर्ती राजा पण थवानी वांठा न करे. वली क्यारे हुं संवेगी वैराग्यवंत
गीतार्थ गुरुना चरणारविंदमां खजनादि संगरहित प्रव्रज्या ग्रहण क-
रीश ? तथा क्यारे हुं तिर्यंचना तथा पिशाचना जयथी निःप्रकंप थइ
स्मशानादि चूमिमां विधिपूर्वक कायोत्सर्ग करीश ? वली क्यारे हुं त-
पथी कृश शरीर वाळो थइ उत्तम पुरुषो नो मार्ग वहन करीश ? इत्यादि
जावनाथी कामकटकने जीते ॥ इति श्राद्धविधिग्रंथानुसाररात्रिकृत्यं ॥

हवे श्रावकनां पर्वकृत्य लखीए ठीए. अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्वना
दिवसोए धर्मनी पुष्टि जे करे तेतुं नाम पौषध ठे. जला व्रतवाला श्रा-
वकें पर्वने दिवसें अवश्य पौषध करवो जोइए. जो पर्वने दिवसें शरी-
रमां शांता न होय, अने पौषध न करी शके तो वे वार प्रतिक्रमण करे;
तेमज बहुवार सामायिक तथा दिशावकाशिक व्रत अंगीकार करे. पर्व-
दिवसोमां ब्रह्मचर्य व्रत पाळे. आरंज वर्जे. विशेष तप करे. चैत्यपरिपाटी
करे. सर्व साधुंने नमस्कार करे. सुपात्रदान, देवपूजा, गुरुभक्ति, इत्या-
दि सर्व, वीजा दिवसो करतां विशेष रीतें करे. धर्म करणी निरंतर
करवी ते सारुं ठे, जो निरंतर न करी शकाय तो पर्वने दिवसें तो अव-

श्य करवी जोश्ये. पर्वना दिवसो आ ठे—अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णमासी, अ-
मावास्या, आ एक मासमां ठ पर्व, अने पखवाडीआमां त्रण पर्व, तथा
वीज, पांचम, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी आ पांच तिथि, तीर्थकरोये
वर्णवेली ठे. वीजने दिवसे वे प्रकारना धर्मनुं आराधन करे, पंचमीने दि-
वसे ज्ञाननुं आराधन करे, अष्टमीने दिवसे आठ कर्मनो नाश करवा त-
पश्चर्या प्रमुख करे, एकादशीने दिवसे अगीआर अंगनुं आराधन करे
चतुर्दशीने दिवसे चौद पूर्वनुं आराधन करे, आ पांच तथा पूर्वोक्त पूर्ण
मासी अने अमावास्या, एम ठ पर्व थयां. वर्षमां ठ अष्टाष्ट पर्व ठे. चातु-
र्मासिक पर्वोमां सर्वथा आरंजनो त्याग जो न करी शके, तो स्व-
द्वपतर आरंज करे. पर्वने दिवसे सर्व सचित्त आहार वर्जे, श्रावकें निरं-
तर सचित्त आहार वर्जवो जोश्यें, जो तेम न करी शके तो पर्वने दिव-
से तो अवश्य वर्जवो जोश्यें. पर्वना दिवसोमां स्नान, शिरमुंडन, केश-
गुंथन, वस्त्रधोवन, वस्त्र रंगवां, गाडां ह्लादि चलाववां, धान्यना ठोड वां-
धवा, कोश अरहट्ट (रेंट) चलाववा, दलवुं, ज़रडवुं, पत्र, पुष्प, फल, तोड-
वां, सचित्त खडी, लीली वनस्पति विगेरे मर्दन करवी, लीपवुं, माटी खो-
दवी, घर वंधाववां इत्यादि सर्व आरंजनां काम यथाशक्ति त्यागवां जोश्यें;
तथा सर्व सचित्त आहारनो जो त्याग न करी शके, तो केटलीएक वस्तु-
उं नाम लइ खावानी टुट राखे, विशेषनो त्याग करे. ठये अष्टाष्टमां जि-
नराजनी पूजा करवी, तप करवुं, ब्रह्मचर्य पालवुं. ठये अष्टाष्टमां चैत्र त-
था आसो महिनानी एम वे अष्टाष्ट शाश्वती ठे. आ दिवसोमां वैमानि-
क देवता उंपण नंदीश्वरादिमां यात्रा उत्सव करे ठे. वाकीनी त्रण अष्टाष्ट
त्रण चोमासानी तथा चोथी पर्युपण पर्वनी, सर्व मली ठ अष्टाष्ट ठे.

प्रजात समये प्रत्याख्याननी वेलायें जे तिथि होय, ते जैनमतमां मा-
नवी प्रमाण ठे. सूर्योदयनां अनुसारें लोकमां पण दिवसनो व्यवहार हो-
वाधी तेम मानवुं प्रमाण ठे. तथा च निशीथजाप्ये ॥ चउमासीअ वरीसे,
पखिय पंचमसु नायवा ॥ ताऊ तिहिउं जासिं, उदेइ सूरु न अन्नाउं
॥ १ ॥ पूआ पच्चखाणं, पडिक्कमणं तहय नियमगहणं च ॥ जीये उदेइ सू-
रो, तीये तिहिये उकायवं ॥ २ ॥ उदयस्मि जातिहिस्ता, पमाणमिशरी-
कीरमाणीये ॥ आणा जंगण वत्था, मिठत्त विराहणं पावे ॥ ३ ॥ अर्थः—

चौमासी, संवत्सरी, पक्षी, पंचमी, अष्टमी, आ तिथिउं सूर्योदयमां होय ते प्रमाण ठे. अन्यथा नहि. पूजा, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, नियमग्रहण, जे तिथि सूर्योदयमां होय, ते दिवसेंज करवां जोश्ये, जे तिथि सूर्योदयमां होय तेज प्रमाण ठे, उदयतिथि विना जे कोइ वीजी तिथि करे, माने, ते आहाविराधक, अनवस्थाकारक, मिथ्यादृष्टि ठे. पाराशरस्मृति आदिमां पण लख्युं ठे ॥ आदित्योदयवेलायां, या स्तोकापि तिथिर्भवेत् ॥ सा संपूर्णैति संतव्या, प्रचुता नोदयं विना ॥ १ ॥ उमास्वातिवाचकप्रधोपश्चैवं श्रूयते ॥ क्षये पूर्वा तिथिः कार्या, वृद्धो कार्यातथोत्तरा ॥ श्री-वीरज्ञाननिर्वाणं, कार्यं लोकानुगौरिह ॥ १ ॥

वली श्री अर्हंतोना जन्मादि पंचकल्याणकना दिवसो पण पर्वमां ठे. जे वे, त्रण कल्याणकनो दिवस होय ते विशेषें करी पर्वनो मानवो जोश्यें. शास्त्रोमां श्रवण करीयें ठीयें के श्रीकृष्ण वासुदेव सर्व पर्वनुं आराधनकरवामां पोताने असमर्थ जाणीने, श्रीनेमिनाथ जगवानने पूवता ह्वा. हे जगवन्! उक्त पर्व कयुं ठे? जगवंतें कळुं के हे श्रीकृष्ण! मागशिर शुद्ध एकादशीनो दिवस सर्वोत्तम पर्व ठे; कारण के ते दिवसें श्रीजिनेंद्रोनां पांच कल्याणक थयेलां ठे, सर्वें क्षेत्रोनां मली दोढसो कल्याणक थयेलां ठे. पठी श्रीकृष्ण वासुदेवें मौन पौषधोपवास करी ते दिवस मान्यो, त्यारथी “यथा राजा तथा प्रजा” एन्यायें सर्व लोक एकादशी मानवा लाग्या, ते आज सुधी प्रसिद्ध ठे.

बीज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी आ तिथियोमां प्रायः जीवो परजवना आयुष्यनो वंध करे ठे, ते कारणथी आ तिथियोमां धर्मकरणी विशेष करवी जोश्यें. वली पर्वना महिमाना प्रजावथी अधर्मी, तथा निर्दय पण धर्मी अने दयावान् थइ जाय ठे, कृपण पण धन खरचे ठे, कुशील पण सुशील थइ जाय ठे, ते जयवंत रहो, जेणें संवत्सरी, चातुर्मासी आदि उत्तम पर्वोनुं कथन करेल ठे. जे अन्योयें चलावेलां पर्व ठे तेमां आग लगाववी, जीवमारवा, रोवां, कुटवां, धूल उडाडवी, वृद्धो तोडवां इत्यादि नाना प्रकारनां पाप थाय ठे, अने जे पर्व अरिहंत परमेश्वरें कथन करेल ठे, तेमां तो निःकेवल धर्म कृत्योज करवां कहेल ठे. ते का-

रणथी पर्व दिवसें पौषधादि करे. पौषधना जेद तथा विधि, सर्व श्राद्धविधि आदि ग्रंथोथी जाणी लेवी.

हवे चौमासिक कृत्य लखीए ठीए. चोमासामां विशेष नियम ग्रहण तथा परिग्रहनुं परिणाम करवुं जोइए. आ कृतुमां बहु जीवोनी उत्पत्ति थाय ठे, ते कारणथी गाडां, हल प्रमुख न चलाववां जोइए. आंवाणी केरीमां कीडा पडी जाय ठे, तेथी ते न खावी जोइए. देशविचार आंवाणी वावतमां विविध ठे. नियम वे प्रकारना ठे १ सुनिर्वाह, २ दुर्निर्वाह. धनवंतोने व्यापारनो त्याग, अने अविरतियोने सचित्तनो त्याग, रसनो त्याग, शाकपत्रनो त्याग तथा सामायिकादिनो अंगीकार दुर्निर्वाह ठे. अने देवपूजा, दान, महोत्सवादि सुनिर्वाह ठे; निर्धनोने तेउनाथी विपरीत रीतें ठे; अने चित्तनी एकाग्रता करवी, ते तो सर्वने डुप्कर ठे; तेथी दुर्निर्वाह नियमो न लइ शकाय तो, सुनिर्वाह नियमो अंगीकार करे. चोमासामां परगाम न जाय, जो निर्वाह न थइ शके तेम होय तो, जे गाम अवश्य जवुं पडे ते वाद करीने बीजा गामोनी मुसाफरी न करे. सर्व सचित्तनो त्याग करे. निर्वाह न थइ शके तेम होय तो सचित्तनुं परिमाण करे. निरंतर वे त्रणवार जिनराजनी अष्टप्रकारी पूजा करे. देववंदन करे, जिनमंदिरोमां सर्व जिनविंवोनी पूजा वंदना करे, स्नात्रपूजा, महामहोत्सव, प्रज्ञावना प्रमुख करे. गुरुनेवृहत् वंदना अने बीजा सर्व साधुठने प्रत्येक वंदना करे, चतुर्विंशति स्तवनो कायोत्सर्ग करे, अपूर्व ज्ञाननो पाठ करे, गुरुनी वैद्यावच्च करे, ब्रह्मचर्य पाळे, अचित्त पाणी पीये, सचित्तनो त्याग करे. वासी वस्तु, विदल, रोटली, पुरी प्रमुख, पापड, बडी, शाकनी सुकवणी, पत्रनां शाक, खारेक, खजूर, डाक्षा, खांड, गुंठ, प्रमुख, आ सर्वे नीलफूल लागी जवाथी अने कंथवा तथा लट अने कीडा पडी जवाथी खावा योग्य रहेतां नथी, ते कारणथी तेमनो त्याग करे. कदाचित् औषधादि विशेष कार्यमां लेवुं पडे तो सम्यक् रीतिए शोधीने वापरे. वली पलंग, स्नान, पगरखां, दातण इत्यादिनो त्याग करे. आचरण धोवां, वस्त्र रंगवां प्रमुखनो निषेध करे. घर, हाट, जीत, खाट, पाट, ठीकां, घी तेखनां वासणो, इंधन प्रमुखमां नीलफूल लागी जाय ठे, तेथी तेनी रक्षा वास्ते प्रथमयीज चुना

प्रमुख लगावे. मेल दूर करे. धूपमां न नाखे, शीतल स्थानमां राखे. दि-
वसें वे त्रण वखत पाणी गले. तेल, गोलं, ठाश प्रमुखनां वासणोनां मु-
खो यत्नाथी ढांकी राखे. उंसामणनुं पाणी तथा स्नाननुं पाणी ज्यां जी-
वाकुल चूमिका न होय, त्यां थोडुं थोडुं तुटुं तुटुं नाखी दे. चूला अने
दीवा उघाडा न राखे. खांडबुं, दलबुं, जरडबुं, वासणो धोवां, वस्त्र धो-
वां, इत्यादि कामो यत्नापूर्वक करे. जिनमंदिर अने धर्मशाला समरावी
राखे, यथाशक्ति उपधान, तप, प्रतिमा आदि वहन करे. इंद्रिय, क-
पायने जीते. योगशुद्धि तप, वीश स्थानक तप, अमृत अष्टमी तप; ए-
कादशांग तप, चौद पूर्व तप, नमस्कार तप, चोवीश तीर्थकरनां क-
व्याणिक तप, अक्षयनिधि तप, दमयंती तप, जडमहाजडादि तप, सं-
सारतारण अष्टाश तप, पद्ममासादि विशेष अनेक प्रकारची तप करे.
रात्रिण चतुर्विध आहार, त्रिविध आहार त्याग करे. पर्व दिवसें विक्र-
ति त्यागे, पर्व दिवसें पौषध उपवासादि करे. निरंतर पारणाने दिवसें
अतिथि संविज्ञाग करे. चातुर्मासिक अजिग्रह पूर्वाचार्योण आ प्रमाणे
वतावेला ठे- ज्ञानाचारमां, दर्शनाचारमां, चारित्राचारमां, तपश्चाचा-
रमां तथा वीर्याचारमां द्रव्यादि अनेक प्रकारना अजिग्रह करे, ते री-
ति आ प्रमाणे. ज्ञानाचारमां शक्ति अनुसारें सूत्र वांचे, श्रवण करे,
चितवे, शुक्ल पंचमीना रोज ज्ञाननी पूजा करे. दर्शनाचारमां देरास-
रमां काजो काढे, प्रमार्जन करे, लीपे, गुंढली करे, मंडल पूरे, चैत्य
जिन प्रतिमानी पूजा करे, देववंदन करे, जिनविंघोने निर्मल करे;
चारित्राचारमां जीवनी यत्ना करे. वनस्पतिमां कीडा पड्या होय तो
खार न लगावे, इंधनमां, जलमां, धान्यमां, अग्निमां जीव पड्या होय
तेनी रक्षा करे. कोझना उपर कळंक मूके नहि, कोझने कठण वचन वो-
ले नहि, तोठडाइशी कोझने बोलावे नहि, देव गुरुना सोगंद खाय न-
हि, कोझनी चाडी खाय नहि, कोझनी निंदा करे नहि, माता पिताने
दुःख लागे तेवां प्रहन्न काम करे नहि. निधान तथा पडेळुं धन देखी,
जेम शरीर अने धर्म न वगडे तेम प्रवर्ते. दिवसें ब्रह्मचर्य पाळे. रात्रिण
खदारासंतोष मात्र करे. धनधान्यादि नवप्रकारना परिग्रहनुं श्वाप-
रिमाण व्रत करे. दिशावकाशिक व्रत करे. स्नान, विलेपन, आचरण,

पुष्प, तंबूल, अण्ड, चरास, केशर, कस्तूरि विगेरे जोगवानी वस्तुजुं परिमाण करे. मजीठ, लाख, कसुंबो, गद्दी विगेरेथी रंगेलां वस्त्रोनुं परिमाण करे. जांबु, नारंगी, संतरां, सफरजन, झाङ्ग, दाडिम, बीजोरां, नादियर प्रमुख वस्तुजुं तथा लीलां शाक पत्रादि खावा योग्य होय तेनुं परिमाण करे; अनंतकायादि पदार्थनो त्याग करे. हीरा, माणिक, मोती, सोनुं, रुपुं इत्यादि वस्तुजुं, परिमाण करे. विगय तथा विगयगतनुं परिमाण करे. वस्त्र धोवां, जीत लीपवी, गार करवी, दलवा, खांडवानो नियम करे. पाणीमां धूवका मारे नहि. रांधवानुं परिमाण करे. व्यापारनुं परिमाण करे. व्यापार संबधे वा हरेक कार्यपरत्वे जूठी साही न पूरे, चोरीनो त्याग करे. परस्त्री साथे जापण तथा तेनुं देखनुं पण वजे, अनदंडथीर्थ न दंडावानो उपयोग राखे, सामायिक, पौषध करे, अतिथिसंविज्ञाग करे, आ सर्वनुं निरंतर नियम करे. जिनमंदिरमां निरंतर सारसंज्ञा राखे, पर्वना रोज तप करे, उजमणुं यथाशक्ति करे. धर्मना रक्षणवास्ते पाणीनुं गलणुं तथा मुहपत्ति प्रमुख आपे, औषध आपे, यथाशक्ति साधर्मीवात्सल्य करे. गुरुनो विनय करे. मासेंमासें अमुक सामायिक करे, वर्षमां अमुक पौषध करे. इतिश्राद्धश्राविकाचातुर्मासिकनियमस्वरूप ॥

हवे श्रावकोनां वपेकृत्य वार द्वारथी लखीए ठिए.

१ प्रथम संघपूजा करे. स्वद्रव्य अनुसार अत्यंत आदरसत्कारथी साधु साध्वी योग्य, निर्दोष वस्त्र, कांवल, लंघा, सूत्र, उन, पात्र, तुंबी, दंड, दंडिका, सोइ, कागल, दोतीश्रां, लेखण, पुस्तकादि श्रीगुरुनी सेनामां राखे, बीजां पण संयमनां उपकारी उपकरण होय ते पण आपे, जेम के प्रातिहारक, पीठ, फलक, पाटप्रमुख सर्व साधुजने आपे; तथा श्रावक, श्राविकारूप संघनी जक्ति यथाशक्ति पेहेरामणी प्रमुख करी सत्कार करे. देवगुरुना गुणोनुं गायन करनारा गंधर्वादि याचकोने पण यथोचित दान आपे. संघनी पूजाना त्रण प्रकार ठे. १ उत्कृष्ट, २ मध्यम, ३ जघन्य. सर्वदर्शनपूर्वक सर्वसत्कारथी संघनी पूजा करवी ते उत्कृष्ट पूजा. सूतरमात्रथी पूजा करवी ते जघन्यपूजा. शेष सर्वमध्यम पूजा ठे. अधिक खर्च करवानी शक्ति न होय तो, गुरुने मात्र मुखवस्त्रिका

आपी पूजा करे; वे चार श्रावक, श्राविकाउने सोपारी प्रमुख वर्षे प्रत्ये
आपे, ए प्रमाणे बहुमानथी संघपूजा करे तो निर्धनने पण महाफल ठे.
यतः ॥ संपत्तौ नियमाशक्तौ, सहनं यौवने व्रतं ॥ दारिद्र्ये दानमप्यल्पं,
महालाजाय जायते ॥ १ ॥

१ साधर्मी वात्सल्य करे. सर्व साधर्मीउं वा केटलाएकोनी यथाशक्ति
यथायोग्य चक्ति करे. पुत्रना जन्मोत्सवमां, विवाहमां तथा बीजां अनेक
कार्योमां साधर्मिउने निमंत्रणा करीने विशिष्ट जोजन, तांबूल, वस्त्राजर-
णादि आपे. कोइ साधर्मिने कांइ कष्ट आवी पडे तो पोतानुं धन खरची कष्ट
दूर करे. जो कोइ साधर्मी निर्धन थइ गयो होय तो धननो सहाय आपे.
परदेशमां खरची त्रुट थयो होय तो खरची आपी पोताने देश पहोचाडे.
धर्ममां अस्थिर थनारने स्थिर करे. सिदाताने सहाय करे. साधर्मी प्रमा-
दि थइ गयो होय तो प्रेरणा करी उद्योगी करे. साधर्मीउने विद्याच्यास
करावे. साधर्मिउने वांचना, पृष्ठना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा तथा धर्मकथा-
नो सहाय करे. धर्मकरणीनी सहायतावास्ते पौषधशाखा प्रमुख बंधावे, श्रा-
वक, श्राविका निराश्रितोना उद्धार वास्ते जंडोल करे. श्रावकोनी जेम
श्राविकाउनुं पण दरेक कार्यमां वात्सल्य करे. श्राविकापण ज्ञान, दर्शन,
चारित्र, शील, संतोपवादी होयठे. सधवानी जेम विधवाउं पण जे धर्म-
मां अनुरक्त होय तेमनुं वात्सल्य करे. विधवाउने अनेकरीतिं धर्मकार्यो-
मां योजे. तेउनुं माता तरेहू तथा वेन, दीकरी तरेहू हित चिंतवे. राजा-
उं जे श्रावक होय, तेउने तो अतिथिसंविज्ञागव्रत, साधर्मिउनुं वात्सल्य
करवाथी थइ शके ठे. मुनिउने राजपिंड कढपतुं नथी, तेथी श्रीचरतच-
क्री तथा दंडवीर्य राजा प्रमुखें ते प्रमाणेज करेल ठे. श्रीसंजवनाथ जगवं-
तना जीवें त्रीजा जवमां धातकीखंडना ऐरवत क्षेत्रनी क्षेमपुरी नगरीमां
विमलवाहन राजाने जवें महाकुशलमां सर्वसाधर्मिउने जोजन प्रमुखनी
सहायता आपवाथी तीर्थकरनामकर्म उपार्जन करेल ठे; तेमज देवगिरि
मांडवगढमां शाह जगत्सिंहें तथा थिरापड नगरमां श्रीमाल आचूयें
त्रणसो साठ साधर्मिउने धन आपी पोतानी तुल्य करेल ठे; तथा शाह
सारंगादि अनेक पुरुषोयें साधर्मिउनुं अनेक तरेहूथी वात्सल्य करेल ठे.

३ यात्राविधिं सखीये ठीये. दरेक वर्षे जघन्यथी एक यात्रा तो श्रव-

इयं करवी जोइये. यात्रानां त्रण प्रकार ठे. १ अठाइयात्रा, २ रथयात्रा, ३ तीर्थयात्रा, अछाइमां विस्तार सहित सर्व चैत्य परिपाटी करे, तेनुनाम चैत्ययात्रा पण कहेवायठे. रथयात्रा श्रीहेमचंद्रसूरिकृत परिशिष्टपूर्वमां जेम संप्रति राजायें करेल ठे, तेम करे; तथा महापद्मराजा चक्रवर्तियें जेम माताना मनोरथ पूर्ण करवावास्ते करेल ठे, तेम करे; अने जेम श्री-कुमारपाल राजायें रथयात्रा करी ठे तेवीरीतें करे.

तीर्थयात्रा आ प्रमाणे करे. श्रीशत्रुंजय, रैवताचलादि तीर्थ, तथा तीर्थकरोनां जन्म, दीक्षा, ज्ञान, निर्वाण अने विहारजूमि, आ सर्व स्थल, त्रव्यजीवोने प्रचूत शुभजावना संपादक ठे; ते कारणथी संसारथी तरवानां कारणो होवाथी ते तीर्थ कहेवायठे. ते तीर्थजूमिमां जवाथी सम्यक्त्व निर्मल थाय ठे. जिनशासननी उन्नति वास्ते जे रीतियें यात्रा करवी जोइये, ते रीति आ प्रमाणे ठे. प्रयाणना स्थानथी यात्राना स्थान सुधी १ निरंतर एकवार जोजन करे, २ सचित्तनो परिहार करे, ३ जूमि-शयन करे, ४ ब्रह्मचर्य-पाले, ५ सर्व सामग्री विद्यमान ठतां पगें चाले, ६ सम्यक्त्वनी निर्मलतापूर्वक वने वखत प्रतिक्रमण क्रिया करे. बली राजानी आज्ञा लइ यात्रागमन करे. विशिष्ट मंदिरोने सजावे. विनय, बहुमानसहित स्वजन तथा साधर्मिठने बोलावे, गुरुने साथे पधारवानी निमंत्रणा करे, अमारी पडह फेरावे, जिनमंदिरमां महापूजा, महोत्सव करावे, खरचीविनानाने खरची आपे, वाहनरहितने वाहन आपे, निराधारने यथायोग्य आधार आपे, सार्थवाहनी जेम उद्धोषणा करावी लोकोने उत्साहवंत करे, आडंबर सहित तंबु, डेरा, चरु, थाल, वासणो, प्रमुख साथे ले, गाडां, रथ, पालखी प्रमुख वाहनो तथा घोडा उंट प्रमुख जानवरो साथे सज्ज करावे, श्रीसंघनी रक्षावास्ते शूरवीर योद्धाठने साथे ले, योद्धाठने तलवार, बंडुक इत्यादि हथीआरो आपे, गीत, नाटक, वाजित्र प्रमुख सामग्री यथायोग्य मेलवे. पठी शुभमुहूर्ते, शुभ शुभने प्रस्थान (प्रयाण) करे, जोजनादिथी श्रीसंघनो सत्कार करे, संघपतिनुं तिलक करावे; संघनुं प्रयाण थया पठी उत्तरोत्तर मुकाम करवानो वंदोवस्त करे, रक्षापालोने रस्तामां आगल, पाठल, साथे राखे, संघ मुकाम पहुँचतां तेमने उतरवानी गोठवण करावे, रस्तामां कोइनी गाडी प्रमुख

चांगी त्रुटी जाय तो समरावी आपे, सर्वप्रकारें यथायोग्य संधने सहाय आपे, ग्राम, वा नगरें ज्यां जिनमंदिर आवे त्यां महाध्वजा आपे, चैत्य-परिवाडी आदि महोत्सव करे, जीर्ण चैत्योनो उद्धार कराववा सहाय आपे, ज्यारे तीर्थेने देखे त्यारे हीरा, मोती, सुवर्ण आदिथी वधावे, लाडवा प्रमुखना व्हाणा करे, साधर्मीवात्सल्य तथा यथोचित दान आपे; ज्यारे तीर्थमां प्रवेश करे त्यारे मोटा उत्सवथी प्रथम हर्षपूजामां धन चढावे, प्रदक्षिणा करे, अष्टप्रकारी, सत्तरजेदी, स्नात्रपूजा विगेरे अनेक प्रकारनी पूजा करे, धीनी धारा दे, पुष्पघर, कदलीघर प्रमुख वनावे, महाध्वजा चढावे, पूजाराप्रमुखने पेहेरामणी आपे, कोइ पण मांगनारने ना कहे नहि, रात्रि जागरण करे, अनेक प्रकारे गीत नृत्यादि उत्सव करे, तीर्थोपवास ठठ प्रमुख तपश्चर्या करे, अक्षतना अनेक प्रकारथी मंडल पूरे, अनेक प्रकारना फल तथा नैवेद्य, एकसो आठ, चोवीश, बासी, बावन, वहों-तेर आदि ढोवे, सर्व जड्य जोजननो थाल ढोवे; चंदरवा, श्रंगदूहणा सुंदर अनेक प्रकारे आपे, तीर्थस्थानमां दीपक वास्ते धी, तेल आपे; पूजानी सामग्री वास्ते, चंदन, केशर, बरास, कस्तूरि, श्रगर, दशांग, कलश, धूपधाणा, आरति, जालर, चामर, थाल, रकेवी, आचरण प्रमुख अनेक उत्तम वस्तुळ आपे, देरी करावे, कारीगरोने सत्कार आपे, तीर्थना वगडेला कामने समरावे, सार संजाल वास्ते बंदोवस्त करे, तीर्थ-रक्षकोनुं बहु सन्मान करे, पेहेरामणी आपे, साधर्मीवात्सल्य तथा गुरु-जक्ति करे. आ प्रमाणे यात्रा करी तेवीज रीते पाठा स्वस्थानके आवे, समतायुक्त सर्व क्रिया करे अने वर्षसुधी तीर्थ व्रतकरे, इति यात्राविधि ॥

हवे स्नात्र विधि लखीये ठीये. जिनमंदिरमां स्नात्र महोत्सवमां धी-नो मेरु करे, अष्टमंगल प्रमुखनी रचना करे, फल नैवेद्यादि ढोवे, उत्तम प्रकारना केशर, चंदन, पुष्प, श्रंवर प्रमुख लावे, सकल श्रावक समुदा-यने मेलवी गीत नृत्यादि आडंबरथी महापूजा रचावे, डुकूलादि महा-ध्वजा आपे, प्रौढ आडंबरथी प्रजावना निरंतर वा पर्व दिवसे करे, पर्व दिवसे पण न करी शके तो वर्षमां एकवार अवश्य करे. स्नात्र महोत्सव-मां स्वधननो व्यय योग्य रीते करे. जीनमतनो उद्योत थाय तेम करे.

देवद्रव्यनी वृद्धिवास्ते अनेक प्रकारे लोकोने उत्साह वधे तेवा कार्यो

करे, पूजामां, माला चढाववा प्रमुख कार्योंमां देवद्रव्यनी वृद्धि थाय तेवी योजना करे. केशर, चंदन, वरास प्रमुख अनेक वस्तु यथाशक्ति मुजब प्रति वर्ष आपे.

सुंदर आंगी, पत्रचंगी, सर्वांग आञ्जरण, पुष्पगृह, कदलीगृह, प्रमुखनी रचना करे, विविध यंत्रादिकनी रचना करे, गीत, नृत्यादि महोत्सव-करे, महापूजा रात्रि जागरण करे.

श्रुतज्ञान पुस्तक प्रमुखनी पूजा कर्पूरादिथी निरंतर सुगम ठे, अने प्रशस्त वस्त्रादिथी विशेष पूजा तो प्रतिमास शुक्ल पंचमीनारोज श्रावके करवी योग्यठे. जो शक्ति न होय तो पण वर्षमां एकवार तो अवश्य पूजा करे. तेनुं विस्तारथी स्वरूप ज्ञानज्ञक्ति द्वारमां लखवामां आवशे.

पंचपरमेष्टि नमस्कार, आवश्यक सूत्र, उपदेशमाला, उत्तराध्ययनादि ज्ञान दर्शननो तप करी जघन्यथी एकवार उद्यापन (उजमणु) करे; जेथी लक्ष्मीनी सफलता थाय; ज्यारे जप तपनुं उद्यापन करे, त्यारे चैत्यउपर कलशारोहण करे, फल चढावे, अक्षत पात्रना मस्तक उपर अक्षत चढावे. जेम जोजन उपर तांबुल अपाय ठे तेम, आ वाचतमां पण जाणवुं. उजमणानी विधि शास्त्रांतरथी जाणी लेवी.

तीर्थोनी प्रजावनावास्ते वाजते गाजते प्रौढ आडंबरथी गुरुनो प्रवेश-महोत्सव करावे. आ कथन व्यवहार जाण्यमां ठे. तेम करवाथी जिनमतनी प्रजावना थायठे. श्रीसंघनुं पण यथाशक्ति बहुमान, पूजा, जक्ति करे. नाखिये प्रमुखनी प्रजावना करे, तांबुल प्रदानरूप जक्ति करे, तेम करवाथी शासननी उन्नति थायठे, अने शासननी उन्नतिथी तीर्थंकरगोत्र उपार्जन थायठे. आ कथन ज्ञातासूत्रमां ठे.

गुरुनो योग प्राप्त थये ठते, जघन्यथी वर्षमां एकवार आलोचना ले, पोताना करेला सर्व पाप गुरुनी सन्मुख प्रगट करे, गुरु जे प्रायश्चित्त आपे ते श्रंगीकार करे, फरी तेवुं पाप न करे, तेनुं नाम आलोचना गृहण करवीठे, एम श्राद्ध जीतकढपादिमां विधि लखीठे. पक्षपठी, चार मास पठी, एक वर्षे पठी, उच्छुष्ट वार वर्षे पठी, निश्चयें आलोचना करे. पोताना शल्य काढवावास्ते, क्षेत्रथी सातसो योजन अने कालथी वारवर्षे सुधी गीतार्थ गुरुनी अन्वेपणा करे, ते गीतार्थ गुरु केवा होय? मन,

वचन, काया जेनां स्थिर होय, चारित्रवंत होय, आलोचना गृहणमां कुशल होय, प्रायश्चित्तना जाणकार होय, विपाद रहित होय, एवा गीतार्थ गुरु होय, ते आलोचना प्रायश्चित्त आपवा योग्य ठे.

गीतार्थ कोने कहीये ? १ जे निशीथादि वेद शास्त्रोना मूलपाठ, निर्युक्ति, ज्ञाप्य, चूर्णी आदिना जाणकार होय, ज्ञानादि पंचाचार युक्त होय, २ आधारवंत, आलोचित पापना धारणावाला होय, ३ आगमादि पांच व्यवहारना जाणवावाला होय, तेमां पण आ कालमां तो जीतव्यवहार मुख्य ठे, तेना जाणकार होय, ४ प्रायश्चित्त आलोचकनी लज्जा दूर करावनारा होय, ५ आलोचकनी शुद्धि करनारा होय, ६ आलोचकना पापकर्म वीजाउनी पासे न कहे, ७ आलोचक जेम निर्वाह करी शके, तेम प्रायश्चित्त आपे, ८ जे प्रायश्चित्त न करे तेने इहलोक परलोकना जय वतावे. आ आठ गुण युक्त गीतार्थ गुरु होय ठे.

साधु तथा श्रावके १ प्रथम तो पोताना गठमां गठना आचार्य पासे, २ तेना अज्ञावे, उपाध्यायनी पासे, ३ तेना अज्ञावे, प्रवर्तकनी पासे, ४ तेना अज्ञावे स्थिविरनी पासे, ५ तेना अज्ञावे गणावच्छेदकनी पासे, स्वगठमां आ पांचेना अज्ञावे संजोगी एक समाचारीवाला गठांतरमां पूर्वोक्त आचार्य प्रमुख पांचेनी पासे अनुक्रमे आलोचे, तेउनो पण अज्ञाव ठते, असंजोगी संवेगी गठमां पूर्वोक्तक्रमे आलोचे, तेउनो पण अज्ञाव ठते गीतार्थ पार्श्वस्थ (पासठ) नी पासे आलोचे, तेने अज्ञावे गीतार्थ सारूपीनी पासे आलोचे, तेने अज्ञावे पश्चात्कृतनी पासे आलोचे; जे शुक्ल वस्त्रधारी, शिरमुंडित, अवळकठ, रजोहरण रहित, ब्रह्मचारी, स्त्री रहित जिक्हावृत्ति होय ते सारूपी कहेवाय ठे; जे शिखासहित अर्थात् चोटली सहित तथा स्त्री सहित होय ते सिद्धपुत्र कहेवाय ठे. जे चारित्र ठोडी गृहस्थवेप धारण करे ठे, ते पश्चात्कृत कहेवाय ठे. आलोचनाने अवसरे पासठादिने पण गुरुनी जेम वंदना करे; कारण के विनय मूल धर्म ठे, ते कारणथी वंदना करे. जो ते पासठादि पोते पोताने गुणहीन जाणी वंदना न करावे, तो तेने आसन उपर वेसाडी प्रणाम मात्र करी आलोचना ले; तथा पश्चात्कृतने इत्वरसामायिक आरोपण दिंग आपी, पठी तेनी पासें यथाविधि पूर्वक आलोचना ले. पार्श्वस्थादिने अज्ञावे रा-

ज गृहादि गुणशील चैत्यादिमां ज्यां श्री अरिहंत, गणधरादि ए बहु-
वार लोकोने प्रायश्चित्त आपेलां होय, ते क्षेत्रमां रहेनारा देवताउये ते
देखेल होय, तेथी ते देवताउनुं अष्टम प्रमुख तपथी आराधन करी, तेनी
पासे आलोचे, कदाचित ते देवता चवी गया होय, अने तेने स्थानके बी-
जा देवता उत्पन्न थया होय, तो ते देवता महाविदेहना अरिहंतने पुढी-
ने प्रायश्चित्त आपे, तेने पण अजावे, पूर्वोत्तर दिशि सन्मुख मुख करी
अहंत सिद्धोनी समक्ष आलोवे, परंतु शक्य न राखे. आलोचना कर-
नारा पुरुष, मायारहित बालकनी जेम सरल थइ आलोवे. जे कोइ, को-
इपण कारणथी आलोचना न करे, ते आराधक नथी.

आलोचना करनार दस दोष वर्जि आलोचना करे. दस दोषना नाम.
१ गुरुने वैयावच्च प्रमुखथी प्रथम खुशी करी पढी आलोचना ले, जेथी
गुरु अल्प पायश्चित्त आपे, २ आ गुरु अल्प दंड आपे ठे, तेथी तेवा गुरुपा-
से तेवा अनुमानथी आलोवे, ३ जे अपराध बीजाये दीग होय तेज मा-
त्र आलोवे, परंतु बीजाये न देखेला होय ते न आलोववा ते, ४ वादर
दोषने आलोववा, अने सूक्ष्म दोषने न आलोववा ते, ५ सूक्ष्म दोषने
आलोववा, परंतु वादर दोषने न आलोववा ते, ६ अव्यक्त स्वरथी आ-
लोववुं, ७ गुरु समजे नहि तेवी रीते रोवो करीने आलोववुं ते; ८ आ-
लोचना कर्था पढी बहुजनोने सुणाववुं ते, ९ अव्यक्त अगीतार्थनी पासे
आलोववुं १० जे अपराध गुरुने कह्यो होय, तेज पोताना अपराधने आ-
लोचवो. आ दश दोष ठे.

आलोचना करवाथी, जेम बोजो उपाडनार चार दूर करवाथी हल-
को थाय ठे, तेम पापथी आलोचन करनार हलवो थाय ठे. पापरूप श-
क्य दूर थायठे, प्रमोद उत्पन्न थायठे. पोताना दोषोनी निवृत्ति आत्मसा-
क्षीये देखी बीजां पण आलोचना करे. सरलता प्राप्त थवाथी शुद्धता था-
य ठे. दुष्कर काम करनार कहेवाय ठे. दोषनुं सेवन करवुं ते दुष्कर नथी,
परंतु दोषनो प्रकाश करवो ते दुष्कर ठे. श्री तीर्थंकर जगवंतनी आज्ञा-
ना आराधक थायठे. आलोचना करवाथी बालहत्या, स्त्री हत्या, यतिहत्यादि
पाप, देवादि ड्रव्य नक्षत्र पाप, राजपत्नी गमनादि महापाप पण सम्य-
क् रीतिये गुरुदत्त प्रायश्चित्त करवाथी दूर थइ जायठे. जो एम न होय तो

दृढप्रहारी प्रमुख तेज ज्वमां मोक्ष केम प्राप्त करत १ ते कारणथी दर वपे चोमासामां तो अक्षय आलोयणा ले.

हवे जन्मकृत्य अहार द्वारोथी लखीये ठीये. १ प्रथम उचित द्वार. उचित अर्थात् योग्य वास करवानुं प्रथम स्थान करे; ज्यां रद्देवाथी धर्म, अर्थ, काम एत्रणेनी सिद्धि थाय. वीजे स्थले वसवाथी वने जव वगडी जायठे. जिल्हपल्लीमां, चोरोना गाममां, पर्वतनी तलेटीमां, हिंसक लोकोमां दुष्ट लोकोमां, धर्मीलोकोनी निंदा करनाराजमां, इत्यादि स्थानमां वास न करे. ज्यां जिनचैत्य होय, मुनिनुं आवागमन होय, श्रावक वसता होय, बुद्धिमान् लोको स्वजावेज शीलवान् होय, प्रजा धर्मशील होय, अने ज्यां बहु जल, इंधन, धान्यादि होय त्यां वास करे. जेम अजमेरनीपासे हर्षपुर नगर हतुं, एवा नगरमां रद्देवाथी, धनवंत, गुणवंत अने धर्मवंतनी संगतिथी विनय, विचार, आचार, उदारता, गंजीरता, धैर्यता, प्रतिष्ठा आदि गुणोनी प्राप्ति थायठे. धर्मकृत्यमां कुशलता थायठे; ते कारणथी कनिष्ठ गामोमां धनप्राप्ति होय तोपण वास न करे. यतः ॥ यद्विवांठसि मूर्खत्वं, ग्रामे वस दिनत्रयं ॥ अपूर्वस्यागमो नास्ति, पूर्वाधीतंच नश्यति ॥ १ ॥

उचितस्थान पण स्वचक्र, परचक्र, परस्पर विरोध, दुर्जिह्वा, मारी, प्रजाविरोध, अन्नादि वस्तुक्षय, इत्यादि कारणो प्रसंगे तत्काल तजी देवुं जोश्ये; नहि तो त्रिवर्गनी हानि थइ जायठे. जेम पूर्वे मुसलमानना जयथी लोको दिह्वीनो त्याग करी गुजरात प्रमुख देशोमां जवाथी सुखी अने धनवान थया; तथा जेम क्षितिप्रतिष्ठित शेहेर उज्जड थवाथी चंपा नगरी वसी, अने चंपा उज्जड थवाथी पाटलीपुत्र अर्थात् पटना वस्युं, तेम श्रावक पण पूर्वोक्त हानि जाणे तो नगर ठोडीने वीजी जगाये जइ वास करे.

रद्देवानुं घर पण सारा लोकोनी पडोशमां करे, परंतु वेद्या तिर्यंच, जिह्वाचर, श्रमण, वौद्ध, तापस, ब्राह्मण, कोटवाल, माठी, जुगारी, चोर, नट, जाट, कुकर्मी प्रमुखना पडोसमां घर वा डुकान न करे. जो देरानी पासे रद्दे तो हानि थाय. चोकमां, धूताराना वासमां अने प्रधानना पडोसमां रद्दे तो धन अने पुत्रनी हानि थाय. मूर्ख, अधर्मी, पाखंडी, पतित,

चोर, रोगी, क्रोधी, चंडाल, मदोन्मत्त, गुरुतदपग, वैरी, स्वामिवंचन, लोन्नी, रुषि-स्त्री अने वालहत्याना करनारा एटला लोको आपणुं हित करनारा होय, तोपण तेना पडोसमां वास न करवो; कारण के तेउनी संगतशी गुणहानि प्रमुख अनेक उपद्रव थायते.

ज्यां हाडतुं शक्य न होय, राख न होय, ज्यां डाज उगतो होय, सुंदर वर्ण, गंधवाली माटी होय, मीतुं जल होय, खोदतां धन निकले, ते जगा शुच समजवी. वळी जे चूमि शीतकालमां उष्ण स्पर्शवाली अने उष्णकालमां शीत स्पर्शवाली होय, ते जगा बहुज शुच जाणवी. एक हाथमात्र चूमि प्रथम खोदी, पठी तेज माटीशी तेज खाडो पुरवो, जो माटी वधे तो श्रेष्ठ चूमि जाणवी, जो माटी उंठी थाय तो कनिष्ठ चूमि जाणवी; तथा सो पगलां जरतां जेटलो काल लागे तेटला कालमां जे चूमिमां पाणी न सूकाय, ते उत्तम चूमि जाणवी. जो तेटला वखतमां एक आंगल जर पाणी शोपाइ जाय तो ते मध्यम चूमि जाणवी, जो एक आंगल उपरांत पाणी शोपाय तो अधम चूमि जाणवी; तथा पक्षांतरमां जे चूमिना खातरमां फूल नाखतां जो फूल सुकाय नहि तो ते उत्तम चूमि जाणवी, जो अर्ध सूकाय तो मध्यम चूमि जाणवी. जो सर्व सूकाइ जाय तो अधम चूमि जाणवी. जे चूमिमां शाल वावतां त्रण दिवसे उगे ते उत्तम, पांच दिवस पठी उगे ते मध्यम, अने सात दिवस पठी उगे ते हीन चूमि जाणवी.

सर्पनी वंवी उपर घर वनाववामां आवे तो रोग थाय, पोली चूमिउपर घर वनाववामां आवे तो निर्धन थाय, शक्य युक्त चूमिउपर वनाववामां आवे तो मरण थाय. मनुष्यनुं हाड तथा केशनुं शक्य होय तो मनुष्योनी हानि थाय, खरनुं शक्य होय तो राजाप्रमुखनो जय थाय, श्वाननुं हाड होय तो वालकनुं मरण थाय, वालकनुं हाड होय तो गृहस्वामि परदेशमां नाश पामे, गायनुं शक्य होय तो गौरुप धननी हानि थाय, मनुष्यना केश, कपाल अने जस्म होय तो मरण थाय.

प्रथम प्रहर अने ठेला प्रहर शिवायना वाकीना प्रहरमां वृद्धनी अने ध्वजानी ठाया घर उपर पडे तो दुःखदायक समजवी. अरिहंतना मंदिरनी पाठलना जागमां न रेहेतुं; ब्रह्मा अने कृष्णना मंदिरनी साथे न

रहेहुं, चंडिका अने सूर्यना मंदिरनी सन्मुख न रहेहुं, महादेवनी तो कोइ पण वाजुये रहेहुं नहि. कृष्णनी डावी वाजुये अने ब्रह्मानी जमणी वाजुये न रहेहुं. स्नाननुं पाणी, ध्वजानी ठाया अने विलेपन वजें. जिनमंदिरना शिखरनी ठाया अने अरिहंतनी दृष्टि पडे त्यां वास न करवो. नगर तथा गामनी इशान खुणमां घर न बनावे; बनावे तो उंची जातिवालो दुःख पामे.

घर बनावे तो वेचनारने पूरी किंमत आपे. पाडोशीने दुःख न आपे, घर खेती वखत कोइने दुःख न आपे, काष्ठ, पापाण, इंट प्रमुख वस्तु निर्दोष, दृढ, मजबुत अने नवीन होय ते वाजवी मूल आपीने ले, वेचाती वस्तुजंतुं योग्य मूल आपे, परंतु पोते इंट, चुनो पकाववानुं न करे. जिनप्रासादनी इंट प्रमुख न ग्रहण करे. शास्त्रमां कहुं ठे के, देरासर, कुवा, वाव, स्मशान, मठ अने राजाना मंदिर, तेजना काष्ठ, पठर, इंट प्रमुख सर्व गृहस्थना घरमां वपराय तो विरोधकारी ठे, अने धर्मना स्थानमां वपराय तो सुखदायक ठे.

पापाणमय घरमां काष्ठनो स्थंज अने काष्ठमय घरमां पापाणनो स्थंज न बनावे, मंदिरमां पण न बनावे. हलका काष्ठ, कोट्टानाकाष्ठ, अर्हटनाकाष्ठ, चरखानाकाष्ठ, कांटावाला वृक्षनाकाष्ठ, पंच उंवरनाकाष्ठ, आ सर्व काष्ठ घरमां न वापरे. बीजोरा, केला, दाडम, जंवीर, आंवली अने धतुराना काष्ठ पण वजें. आ वृक्षोनां मूल पडो कोशमांथी घरमां प्रवेश करे, वा तेजनी ठाया घरमां पडे तो कुलनो नाश करे. पूर्व दिशितरफ घर उंचुं होय तो धननो नाश आय, दक्षिणदिशिये उंचुं होयतो धननी वृद्धि आय, पश्चिमदिशिये उंचुं होय तो धनादिनी वृद्धि आय, अने उत्तरदिशि तरफ उंचुं होय तो उज्जड थाय. जे घर गोल होय, बहु खुणावाळुं होय, अथवा एक, वे वा त्रण खुणावाळुं होय, अने दक्षिण वामी तरफ लांबु होय, एवा घरमां वास न करवो. जे घरनां द्वार स्वयमेव उघडे वा बंध थाय ते घर सुखकारी नहि.

घरना द्वार उपर कलशादि चित्र होय तो शुभ ठे, अने नाटारंज, महाजारत तथा रामायणा युद्ध, राजार्जना युद्ध, ऋषिर्जना चरित्र, देवचरित्र, आ चित्रो घरमां शुभ नथी; तथा फल वृक्ष, पुष्प वेल, सरस्व-

ती, नव निधान, यज्ञस्तंभ, लक्ष्मी देवि, कलश, वर्द्धमान, चौद सप्ताव-
लि, आ चित्रो शुभ्र ठे.

खजूर, दाडम, केलां, कोहलां, बीजोरां, जे घरमां उगे ते घरनो नाश
थाय ठे. वडवृद्ध उगे तो लक्ष्मीनो नाश करे, कांटा वाला वृद्ध उगे तो
शत्रुनो जय करे, मोटा फलवाला वृद्ध उगे तो संताननो नाश करे, आ
वृद्धना काष्ठ पण वर्जे. कोइ शास्त्र एम पण कहे ठे के, घरनी पूर्वे वडवृद्ध
होय तो सारुं ठे, दक्षिण वाजुये उंबर वृद्ध शुभ्र ठे, पश्चिम पासे पीपल
वृद्ध अने उत्तर पासे पत्नीक्षण वृद्ध सारा ठे.

घरमां पूर्वदिशिये लक्ष्मीनुं घर करे, अग्नि खुणमां रसोइ करे, दक्षिण
दिशिये शयननी जगा करे, नैरुत खुणमां शस्त्रशाला करे, पश्चिमदि-
शिये चोजन क्रिया करे, वायु खुणमां अन्न संग्रह करे, उत्तर वाजुये पा-
णीआरुं करे, इशान खुणमां देव गृह करे, दक्षिण पासे अग्नि, पाणी,
गाय, वायु, अने दीवानी जूमिका वनावे, वामी वाजुये चोजन धान्य इ-
व्य, वाहन, अने देवतानी जूमि वनावे; आ पूर्वादि दिशा घरना दरवा-
जानी अपेक्षाये जाणवी, ठीकवत्, सूर्य अपेक्षाये नहि.

घर वनावनार सुधार, कडीआ, मजूरने करारथी अधिक मजूरी आपे,
तेमां शोचा समजवी. गृहस्थने योग्य घर वनावे, परंतु व्यर्थ मोटुं घर न
वनावे, कारण के तेम करवाथी व्यर्थ धन खरचाय ठे. घरना द्वारो मर्या-
दा पूर्वक राखे. बहु द्वार वनावे नहि. अधिक द्वारथी, दुष्ट जनोना प्र-
वेशनो जय तथा स्त्री अने धननो तेथी नाश थायठे. दरवाजाना वारणां
मजबुत वनावे, सांकल, आगळीआथी सुरक्षित करे. कमाड पण सुखे खु-
ले तेवा वनावे. जीतमां जुंगल राखवाथी पंचेंद्रिय जीवनी विराधना था-
यठे. कमाड वासे त्यारे यत्नाथी वासे; तेवीज रीते यत्नाथी उघाडे. पर-
नाल, खाल विगेरे उचित वनावे. आ प्रमाणे देश, काल, स्ववैभव उचि-
त, स्वजाति उचित, घर वनावी, विधि सहित, स्नात्रपूजा, साधर्मिवात्स-
ल्य, संघपूजा करी, शुभ्र मुहूर्ते, शुभ्र शुक्ने, प्रवेश करे तो सुखी थाय,
त्रिवर्गनी सिद्धिना हेतु थाय. इति प्रथम द्वार. २ वीजुं विद्याद्वार कहीये
ठीये. विद्या ते लखवुं, जणवुं, वाणिज्यादि कलानुं ग्रहण करवुं, अर्थात्
अध्ययन करवुं. जे विद्याच्यास करता नथी, ते मूर्ख रहेठे, अने पगले

पगले पराजव पामे ठे. विद्यावान् परदेशमां पण माननीय थाय ठे, ते कारण्थी सर्व प्रकारनी कला शिखवी जोश्ये. कोण जाणे क्षेत्र, कालना विशेष्थी कइ कलाथी आजीविका करवी पडशे? जेउं सर्व कला शिख्या होय, तेउंये पण पूर्वोक्त सात प्रकारनी आजीविकामांथी जे कलाथी सुखे निर्वाह थाय, ते कलाथी आजीविका करवी. जो सर्व कला शिखवाने समर्थ न होश्ये, तो जे कलाथी, पोतानो निर्वाह सुखे थाय, अने परलोकमां सारी गति थाय ते कला शिखवी. पुरुषे वे वात निरंतर ध्यानमां राखवी, एक, जेथी सुखे निर्वाह थाय ते, तथा वीजी जेथी मरण पठी सद्गति थाय ते, आवंने अवश्य शिखवी. ३ हवे विवाहद्वार लखीये ठीये. विवाह पण त्रिवर्ग शुद्धिनो हेतु होवाथी उचित करवो जोश्ये. अन्य गोत्रवाला साथे विवाह करवो जोश्ये. समान कूल, सदाचार, शील, रूप, वय, विद्या, धन, वेप, ज्ञापा, प्रतिष्ठादि गुणोमां जे पोतानी समान होय, तेनी साथे विवाह करे, अन्यथा कुटुंबक्लेश, अवहेलना प्रमुख अनेक विटंबना उत्पन्न थाय ठे. श्रीमतीवत्. सामुद्रिक शास्त्रोक्त शरीरना लक्षण अने जन्मपत्रिका देखी, वरकन्यानी परीक्षा करी विवाह करे. ॥ यद्रुक्तं ॥ कुलंच शीलंच सनाथताच, विद्याचवित्तंच वपुर्वयश्च ॥ वरेगुणाः सप्तविलोकनीया, स्ततः परंजाग्यवशाहि कन्या ॥१॥ जो वर मूर्ख होय, निर्धन होय, दूर रेहेनार होय, सूरमो होय, वैराग्यवंत मोक्षाजिलापी होय, वयमां कन्याथी त्रण गणो अधिक होय, तेवाने कन्या न देवी; वली अति धनवान्, अति नरम, अति क्रोधी, विकलांगी अने रोगी, तेवाने पण कन्या न देवी; तेमज कुल, जातिमां अतिहीन होय, मातपिताविनानो होय, स्त्री, पुत्र सहित जेने होय, तेने पण कन्या न देवी. वली जेने बहु जनोनी साथे वेर होय, दररोज कमाय तोज खावानुं साधन थाय तेम होय, आलसु होय, तेवाने पण कन्या न देवी. तथा जे एक गोत्री होय, व्यसनी होय, दरिद्र होय तेने पण कन्या न देवी. जे स्त्री, कपट रहितपणे जर्तारनी साथे वतें, देवरनी साथे पण कपट रहितपणे वतें, सासुनी चक्ति करे, सगा संबंधीनुं वात्सल्य करे, चाइउंमां स्नेहवाली होय, कमलनी जेम विकसित वदनवाली होय, ते कुलवधू सुलक्षणी जाणवी.

अग्नि देवनी साक्षीये पाणी ग्रहण करवुं ते विवाह कहेवाय ठे. जग-
 तमां विवाहना आर्यलोकमां आठ प्रकार ठे. १ ब्राह्म, २ दैव, ३ आर्य,
 ४ प्राजापत्य, ५ गांधर्व, ६ आसुर, ७ राक्षस, अने ८ पिशाच. जे वीवाहमां
 कन्यानो पिता पानेतर उंढाडी तथा अलंकार आपी पोतानी कन्या परणा-
 वे, ते ब्राह्मविवाह ठे; जे विवाहमां यज्ञ करनार ब्राह्मणने कन्यानो पि-
 ता धर्मनी क्रिया करतां पोतानी कन्या आपे ते देवविवाह ठे. जे वि-
 वाहमां कन्यानो पिता वरनी पासेथी गायनुं जोडुं लइ वरने कन्या परणा-
 वे ते आर्य विवाह ठे. आ ठेला वे विवाह लौकिक वेदसम्मत ठे. जैन
 वेदमां आ विवाह नथी, कारण के आ वे विवाहना मंत्रो जैनवेदमां न-
 थी; तेम प्रचलित व्यवहारमां पण नथी. जे विवाहमां कन्यानो पिता स-
 न्मान पूर्वक पोतानी कन्याने योग्य वरने आपे, ते प्राजापत्य विवाह ठे.
 आ चारे प्रकारना विवाह लौकिक नीतिमुजव उत्तम प्रकारना ठे. जे स्त्री-
 पुरुष मातापितानी आझाविना परस्पर रागथी पोतानी मेले विवाह करे,
 ते गांधर्व विवाह ठे. जे विवाहमां कन्यानो पिता वरनी पासेथी अवेज
 लइ कन्याने परणावे, ते आसुर विवाह ठे. जे पुरुष कन्याने जोरावरीथी
 ग्रहण करे, ते राक्षस विवाह ठे. जे पुरुष सुतेडी, मदोन्मत्त, वावरी क-
 न्याने ग्रहण करी लइ जाय ते पिशाच विवाह ठे. पाठलना चारे विवा-
 ह अधम विवाह ठे. जे विवाहमां वरवहुनी परस्पर बहुज प्रीति थाय, ते
 विवाह उत्तम प्रकारना विवाहमां गणाय ठे. सारी स्त्रीनो लाज तेज वी-
 वाहनुं फल ठे. सारो पुत्र उत्पन्न थाय तेज स्त्री मलवानुं फल ठे. जेम थ-
 वाथी चित्तवृत्ति अनुपहत रहे, शुद्धाचार रहे, देवगुरु, अतिथी, वांधव
 प्रमुखनो सत्कार थाय.

विवाहमां धननो व्यय; पोताना कुल वैजवनी मर्यादा मुजव तथा श-
 क्ति मुजव अने लोकमां वास्तविक लागे तेम करे, विशेष खर्च करवानी
 चाल करे नहि. अधिक खर्च तो धर्मना कार्योंमां करवो वास्तविक ठे.
 विवाहमां पण स्नात्र महोत्सव, महापूजा आदर सहित करे, नैवेद्यादि
 ढोवे, चतुर्विध संघनो सत्कार करे. विवाहना कार्यों संसार फलना आपे
 नारां ठे, तेथी तेवा प्रसंगे धर्मकार्योंमां व्यय थाय ते सफल ठे.

४ हवे मित्रद्वार कहीये ठीये. उत्तम प्रकृतिवाला, साधर्मी, गुणवान् धे-

र्यवान्, गंजीर, चतुर, विश्वासपात्र इत्यादि शुभ गुणवाला तथा प्रायः स मान वय तथा स्थितिवाला साथे मित्रता करे. तेवा मित्र कदाचित् धनहीन थइ जाय तोपण तेनी गरीब अत्रस्थामां तेने सहाय करे. ५ जिनमंदिरदार. जिनेश्वर जगवान्नुं मंदीर अति सुंदर, शिखर बंध, मंडपयुक्त जरतचक्रवर्ती प्रमुख महान् पुरुषोये वनावेलाणा चरित्रो ध्यानमां लइ निरजिमान वृत्तिथी, जन्मने सफल मानतां वनावे. विशिष्ट पापाण तथा काष्ठथी ते सुवर्ण, मणी, रत्नमय यथा शक्ति मुजव वनावे. जो शक्ति न होय तो घासनी कुंपडी पण न्यायोपार्जीत ड्रव्यथी वनावी, तेमां माटीनी प्रतिमा जरावी पूजे. जिनमंदिर न्यायोपार्जीत धनथीज वनावुं जोश्ये. जेणे जिनमंदिर वनाव्युं नथी, वा जिनप्रतिमां जरावी नथी, अने साधुपणुं प्राप्त कर्युं नथी, ते पोतानो मनुष्य जन्म हारी गयो ठे. जे पुरुष शक्तिने अज्ञावे मात्र पुष्पथी पण पूजा करे, ते परम पुन्य उपार्जन करे ठे, तो जेणे अत्यंत सुंदर जिनमंदिर मानरहित थइ वनाव्युं, तेना पुन्यनी शुं सिमा ? तेनो तो जन्मज कृतकृत्य ठे.

जिनमंदिर वनाववानी विधि लखीये ठीये. शुद्ध जूमिपरपूर्वे धर वनाववानी विधि कही, ते विशेष अनुसारे, मंदिर बंधावे, पापाण उत्तम जातिना वापरे, काष्ठपण शुद्ध, देवाधिष्ठित वनथी सूकां लावे. इंट, चुनो पोते पकावे ते सारुं नहि. यत्नापूर्वक जिनमंदिर कारीगरो पासे बंधावे. बंधाव्या पठी कारीगरोने पेहेरामणी, सन्मान आपे, तेउनी साथे ठल कपट न करे, तेउने पगार पण करार करतां अधिक आपे, जेथी तेउं जिनमंदिरनुं काम बहुज शुद्ध ध्यानतथी दीर्घकाल सुरक्षित रहे तेउं करे. जिनमंदिर बंधावतां शुभपरिणाम वास्ते श्रीसंघ तथा गुरु समक्ष कहे के, अविधिथी परधन जे मारी पासे प्राप्त थयुं होय, तेनुं फल ते धनना मालिकने ठे. ए प्रमाणे जिनमंदिर बंधावे. जिनमंदिर बंधावतां, जूमि खोदवी पडे, पठर लाववा पडे, इंट चुनानी जठीउं पण उपयोगमां लेवी पडे, सुरंग फोडवा पडे, इत्यादि अनेक महा आरंजना काम करवां पडे, तेथी जिनमंदिर न बंधावुं जोश्ये, एम लेश मात्र आशंका न करे. जिनमंदिर यत्नापूर्वक बंधावतां कूपदृष्टांत मुजव महालाज ठे. तेमां अनेक प्रतिमातुं स्थापन, पूजन, संघसमागम, धर्मदेशना, दर्शन वृत्तादि-

नी प्रतिपत्ति, शासनप्रजावना, इत्यादि अगणित पुण्य-बंधना हेतु प्राप्त थाय ठे, तेथी जिनमंदिर वंधाववुं, ते श्रावकनुं मुख्य कर्तव्य ठे.

जीर्णोद्धारनुं स्वरूप लखीये ठीये ॥ यतः ॥ नवीन जिनगेहस्य, विधाने यत्फलं जवेत् ॥ तस्माद्दृष्टगुणं पुण्यं, जीर्णोद्दारेण जायते ॥ १ ॥ जीर्णं समुद्धृते याव, तावत् पुण्यं न नूतने ॥ उपमदो महंस्तत्र, स्वचैत्य ख्यातिधीरपि ॥ २ ॥ वली कळुं ठे के ॥ राय अमच्च सेठी, कोढंबीये वि देसेणं काउं ॥ जीणे पुढायणे, जीणकप्पीवावि कारवइ ॥ १ ॥ अर्थ. राजा, मंत्री, शेठ, कोढंबी विगेरेने उपदेश दइ, जीर्ण जिनमंदिरनो उद्धार जिनकल्पी साधु पण करावे. जेणे जिन जवननो उद्धार कर्यो, तेणे जयंकर संसारथी पोताना आत्मानो उद्धार कर्यो, एम जाणवुं. जीर्ण चैत्य उद्धार करण पूर्वकज नवीन चैत्य कराववुं योग्य ठे, ते कारणथी श्री संप्रति राजाये नेवासी हजार जीर्णोद्धार कराव्या ठे, अने नवीन जिनमंदिर तो ठत्रीश हजारज वंधाव्यां ठे. तेवीज रीतें श्रीकुमारपाल राजा तथा वस्तुपाल प्रमुखे पण नवीन जिनमंदिरो करतां जीर्णोद्धार विशेष करावेल ठे.

ज्यारे जिनमंदिर तैयार थइ जाय, त्यारे तेमां प्रतिमाजी शीघ्र विराजमान करवा जोइये. यदाह श्रीहरिजइ सूरिः ॥ जिनजवने जिनविंबं, कारयितव्यं कुतंतु बुद्धिमता ॥ साधिष्ठानं ह्येवं, तदजवनं वृद्धिमदजवति ॥ १ ॥ जिनप्रतिमा स्थापन कर्या पठी देरासरमां चंडार, कलश, त्रांवाकुंडी विगेरे उपकरणो आपवां, तथा वाग, वाडी, गाम, नगर प्रमुख तेना रक्षणवास्ते राजाये आपवा जोइये. जेम श्रीसिद्धराजे श्रीरैवताचल पर्वत उपर श्रीनेमिनाथजगवंतना चैत्यवास्ते वारगाम जेटमां आप्यां तथा जेम कुमारपाल राजाये वीतजय पाटन खोदावतां त्रांवाना पत्र उपर श्री उदायन राजाना अर्पण करेला गामोनो लेख निकळ्यो, ते कबुल करी ते गामो आप्यां, ते प्रमाणे आपे. श्रीजिनमंदिर वंधाववानुं फल आ ठे. यथाशक्ति स्वधनने अनुसारे श्री जिनजवन करावेते पुरुष महर्किवंत विमानवासी देवताउं पण जेनी स्तुति करे, तथा जे चिरकाल सुख आनंद जोगवे, तेवा विमानवासी देवनी गति तथा उंची गति प्राप्त करे.

५ प्रतिमाद्धार. श्री अरिहंतनुं विंबमणि, सुवर्ण, धातु, पायाण, चंद-

नादि उत्तम काष्ठ, वा माटीनुं अंगुष्ठ प्रमाणथी यावत् पांचसो धनुष्य प्रमाण यथाशक्ति सुंदराकार शांतरसमय वनावे, श्री जिनप्रतिमा जरावनारने शुं फल प्राप्त थाय ठे ? ते लखीये ठीये ॥ यतः ॥ वसंततिलका वृत्तम् ॥ सन्मृत्तिका मल शिला तल दंत रौप्य, सौवर्ण रत्नमणि चंदन चारु विंवम् ॥ कुर्वति जैनमिह ये स्वधनानुरूपं, ते प्राप्नुवन्ति नृसुरेपुमहासुखानि ॥ १ ॥ तेप्रमाणे प्रतिमा जरावनारा, मनुष्य तथा देवगतिमां महासुख प्राप्त करे ठे. तथा, आर्या ॥ दारिद्रं दोहृगं, कुजाइ कुसरीरकुगइ कुमइ ॥ अघसाण रोगसोगा, न हुंति जिणविं व कारिणं ॥ १ ॥ अर्थ. जिनविं वना करावनार दारिद्र, दौर्भाग्य, कडुपुं शरीर, नरक तिर्यचनी माठी गति, बुरीबुद्धि, पराधीनपणुं, रोग, तथा शोक प्राप्त करता नथी.

प्रतिमा पण वास्तुशास्त्रमां कहेली विधिपूर्वक वनावे, सुलक्षणयुक्त वनावे, जेथी संततिनी वृद्धि थाय. जे प्रतिमा अन्यायोपार्जित ढव्यथी वनावेदी होय, तथा जे दोरंगादि रंगवाला पापाणनी वनेली होय, तेमज जेना अंग हीन अधिक होय, ते प्रतिमा खपरनी उन्नतिनो नाश करे ठे. जे प्रतिमानुं मुख, नाक, नेत्र, कटी, एटलां अंग खंडित होय, ते प्रतिमाने मूलनायक न करवी जोइये. जे प्रतिमाने सो वर्षथी अधिक वर्ष थइ गयां होय, अने जे प्रजाविक पुरुषनी प्रतिष्ठित करेली होय, ते प्रतिमा जो खंडित थइ गइ होय तोपण पूजवा योग्य ठे. पापाणमय विं वना परिवारमां जो बीजो रंग होय तो ते विं व सुखकारक नथी. जे विं व सम अंगुल प्रमाण होय ते शुभ नथी. एक आंगलथी अगीआर आंगलसुधीना प्रमाणवाला विं व गृहदेरासरमां पूजवा योग्य ठे, ते उपरांतना प्रमाणवाला विं व होय तो साधारण मंदिरमां पूजवा जोइये. आ कथन पूर्वाचार्योनुं ठे. निरयावलि सूत्रमां कखुं ठे के लेपनी, पापाणनी, काष्ठनी, दांतनी, लोहनी प्रतिमा परिवार तेमज प्रमाणरहित होय, तो गृहमां न पूजवी. गृहदेरासरमां प्रतिमाजी पासे नैवेद्यनो विस्तार अतिशय न करवो. त्रण काल प्रतिमानी पूजा करे, प्रतिमाजीने अक्षिपेक करी, प्रातः कालमां प्रथम प्रहर व्यतीत थये, अष्टप्रकारी पूजा करी, ज्ञावपूजा करे. प्रतिमाजी मुख्य वृत्तिये परिकर सहित, तिलक सहित, आजरण सहित करावे. मूलनायकजी तो विशेष रीतें शौचनिक वनाववाजो.

इये, कारण के जिनप्रतिमानी अधिक शोभा देखावाथी परिणाम अत्यंत सुंदर तथा उच्चासमान थाय ठे, अने तेथी अधिक निर्जरा थाय ठे. जिनमंदिर अने जिनप्रतिमा वनावनारने अतुल्य पुण्यफल थाय ठे. ज्यासुधी मंदिर अने प्रतिमा रहे त्यांसुधी वनावनारने पुण्य प्राप्त थया करे ठे. जेम् अष्टापद पर्वत उपर जगतचक्रवर्तीये करावेला मंदिर तथा रेवतगिरि उपर ब्रह्मोद्भना वनावेला कांचनमय मंदिर तथा प्रतिमा, तथा जगतचक्रवर्तीनी अंगुठीमां रहेली माणकेनी प्रतिमा, जे कुटपाक तीर्थमां माणिक्य स्वामिनी प्रतिमा कहेवाय ठे ते, तथा श्रीस्तंजनक पार्श्वनाथनी प्रतिमा जे आज पर्यंत पूजाय ठे, तेम पुण्यफल प्राप्त थाय ठे. तेज कारणथी आ चोवीसीमां जगतचक्रवर्तीये श्रीशत्रुंजयतीर्थ उपर रत्नमय चौमुख चोरासी मंडप संयुक्त श्रीरीपन्नदेव जगवाननुं मंदिर बंधाव्युं, ज्यां पांच क्रोड मुनिना परिवार सहित पुंडरीक गणधर मोक्ष पास्या. ज्ञान, निर्वाणना स्थानक पण वनाव्यां. तेवीज रीतें वाहुवली, मरुदेवी शृंगमां, रेवतगिरि, अर्बुदगिरि, वैज्जारगिरि, अने समेतशिखर उपर जिनमंदिरों वनाव्यां. प्रतिमाठ पण सुवर्णनी वनावी. जगत राजानी आठमी पाटे दंडवीर्य राजाये तथा वीजा सगर चक्रवर्तीये तेउनो उद्धार कराव्यो; तथा हरिपेण नामा दशमा चक्रवर्तीये श्रीजिनमंदिर मंडित पृथ्वी करी. संप्रति राजाये सवालाख जिनमंदिर तथा सवाक्रोड जिनप्रतीमा जरावी. गवाक्षियरना राजा आम राजा श्रावके श्रीमहावीर अरिहंतनुं एकसो एक हाथ उंचुं जिनमंदिर बंधाव्युं, तेमां साडात्रण क्रोड सोनामोहोरो खरची सात हाथ प्रमाण उंची श्रीमहावीर स्वामिनी प्रतिमा वीराजमान करी, मूल मंडपमां एकवीश लाख सोनैया खरच्या. श्रीकुमारपाल राजाये चौदसो चमालीश नवा जिनमंदिर बंधाव्यां, तथा सोलसो मंदिर जिणों उद्धार करी समराव्यां. ठनुं क्रोड रुपैया खरची त्रिजुवनविहार नामा जिनमंदिर बंधाव्युं, तेमां एकसो पचवीस आंगल प्रमाण अरिष्ट रत्नमयी प्रतिमा चोतेर देरी संयुक्त चोवीस प्रतिमा रत्ननी, चोवीस रूपानी स्थापन करी, तथा चौदजार प्रमाण एकेक चोवीसी वनावी. मंत्री वस्तुपाले तेरसो तेर नवा जिनमंदिर बंधाव्यां, अने वावीससो जीणों उद्धार कराव्या, सवालाख प्रतिमा जरावी, अने सवालाख सुवर्ण रत्नमय प्रतिमाजीनां

आचूषणो कराव्यां. शाह् पेथके चोरासी जिनमंदिर वंधाव्यां; ते सर्वे वीरमदे राजाना राज्यमां मांधाता तथा आँकार नगरमां अने देवगिरि उ-
पर क्रोडो रूपीआ खरची वंधाव्यां, त्रण लाख रूपीआ दानमां आप्या;
तथा श्रीशत्रुंजय तीर्थे उपर श्रीरीपन्नदेवजीनुं मंदिर सुवर्णपत्रथी म-
ढावी मेरुशृंग समान कर्युं हतुं. पूर्वोक्त सर्वे मंदिर, मुसलमान राजाउये
तथा अजेपाल राजाये जमीनदोस्त करी दीधां. शेष जे वचेलां ठे, ते
आज पण आबु, तारंगादि पर्वत उपर विद्यमान ठे.

५ प्रतिमानी प्रतिष्ठाछार. प्रतिमानी प्रतिष्ठा शीघ्र करवी जोइये, पो-
डशक ग्रंथमां लख्युं ठे के, मंदिर तैयार थया पठी दस दिवसनी अंदरज
प्रतिष्ठा करवी जोइये. प्रतिष्ठाविधि प्रतिष्ठाकल्पथी जाणवी.

६ दीक्षाछार. आवके पोताना पुत्र, पुत्री, जाइ, जत्रीजा, स्वजन, मि-
त्र, परिजन प्रमुख जे कोइ दीक्षा लेवाना अजिलापी होय, तेने मोटा
आडंबरथी महोत्सव करी दीक्षा अपाववी, उपस्थापना कराववी; वीजाउं
पण जे दीक्षा लेवावाला होय तेउने वास्ते महोत्सव करे, अने दीक्षा
अपावे तो महापुण्यनुं कारण ठे. जेना कुलमां चारित्र धारण करनार पु-
रुप होय, ते महापुण्यवान् कुल ठे. लौकिक शास्त्रमां पण कह्युं ठे के ॥
यतः ॥ तावद् ब्रमन्ति संसारे, पितरः पिंडकांक्षिणः ॥ यावत् कुले विशु-
द्धात्मा, यतिपुत्रो न जायते ॥ १ ॥

७ तत्पद स्थापनाछार. गणि, वाचनाचार्य, वाचक, आचार्यादि पदप्र-
तिष्ठा शासननी उन्नति वास्ते मोटा महोत्सवथी करे; जेम पूर्वे गणध-
रो वास्ते शक्र इंद्रे करेल ठे, तथा मंत्री वस्तुपाले एकवीश आचार्योंनी
पद स्थापना करी, तैम करे.

१० पुस्तक लखाववानुं छार. आचारांगादि सिद्धांतना ग्रंथो तथा जि-
नचरित्रादि अनेक ग्रंथो न्यायोपार्जीत धनथी लखावे. सुंदर कागलो उ-
पर सुंदर अक्षरोथी लखावे. पोते वांचे, संवेगी गीतार्थ पासे वंचावे. प्रौ-
ढ महोत्सवथी शुभ दिवसे पुस्तकनी पूजा करी बहुमान करावे. ग्रंथज-
णनाराउने वस्त्र, अन्नादिनी सहाय करे. पूर्वकालमां जे शास्त्रो हतां, ते
दुःपमकालना प्रजावथी वार वर्षना दुकालमां बहु विछेद गयां, वाकी जे
रक्षां ते जगवान् नागार्जुन स्कंदिलाचार्य प्रमुख महापुरुषोये पुस्तकोमां

लख्यां, त्यारथी लखेलां शास्त्रोनुं बहुमान थवा लाग्युं; ते कारणथी पुस्तक जरूर लखाववां जोश्ये; आ पुस्तको विभेद जशे तो आ क्षेत्रनां अनाथ जीवोनी शुं दशा थशे? तेउने ज्ञान शीरीते प्राप्त थशे? ते कारणथी पुस्तको अति आदरथी लखावी, पुस्तको सुंदर वस्त्रोथी बांधी, बहु यत्नाथी राखी, पूजवा जोश्ये. शाह पेथडे सातक्रोड अने मंत्री वस्तुपाले अठार क्रोड रुपैआ खरची ज्ञानना चंडार कराव्या. धिरापट्टीय संघपति आचूये पोतानी माताना रुपैआ त्रण क्रोड खरची सर्व आगमोनी प्रतो सोनेरी अक्षरोथी लखावी, शेष ग्रंथो शाहीना अक्षरोथी लखाव्या, माटे पुस्तकोनो उद्धार करवो.

११ पौषशाला वनाववानुं छार. श्रावके पौष करवावास्ते पोताने वास्ते तेमज बीजा साधमींउवास्ते साधारण स्थानमां पूर्वोक्त घर वनाववानी विधि अनुसारे पौषशाला बांधाववी जोश्ये. पौषशाला समराववा अवसरे सुसाधुने रहेवाने ते स्थान आपवुं तेमां महाफल ठे. श्रीवस्तुपाले (९७४) नवसे चोरासी पौषशाला बांधावी. श्रीसिद्धराज जयसिंह राजाये प्रधान सांतुने रहेवावास्ते बहु सुंदर आवास (मेहेल) बांधाव्यो, पठी श्रीवादि देवसूरिजीने ते वताववासारुं आमंत्रण कयुं. मंत्रीजीये पुव्युं “गुरुराज आवास केवो ठे? त्यारे शिष्य माणिक्ये कळुं के ते पौषशाला होय तो वर्णन करीये. मंत्रीयेकळुं के “आ पौषशाला हवेठे”

१२-१३. वारमा अने तेरमां छारमां जन्मथी जावजीवसुधी सम्यक दर्शन यथाशक्ति पाले, १३ तथा यथाशक्ति व्रतादि पाले.

१४ दीक्षा ग्रहणछार. श्रावक अवसर जाणी दीक्षा ग्रहण करे. वा व्यावस्थामां जो दीक्षा न लहे तो पोताना मनमां उगायो माने. जगतमां अतिवद्वज वस्तुवास्ते जेम लोक निरंतर चिंता राखे ठे, तेम श्रावक पण नित्य सर्ववीरति थवानी चिंता राखे. जो गृहस्थावास पाले, तोपण उदासीनताथी अलिप्तपणे, पोताने परोणा समान समजे, कारण के जाव श्रावकनां लक्षण सत्तर प्रकारना वर्णविलां ठे. तेना नाम.

१ स्त्रीथी वैराग्य, २ इंद्रियथी वैराग्य, ३ धनथी वैराग्य, ४ संसारथी वैराग्य, ५ विषयथी वैराग्य, ६ आरंजस्वरूप ज्ञान, ७ घरनो दुःखरूप अनुभव, ८ सम्यक् दर्शन धारणा, ९ गाडरीआ प्रवाहनो त्याग, १० धर्म-

मां अग्रेसरपणुं, आगमानुसार धर्ममां प्रवर्त्तना, ११ दानादिमां यथाशक्ति प्रवर्त्तना, १२ विधिमार्गमां प्रवर्त्तना, १३ मध्यस्थ वृत्ति, १४ अरक्तछिष्ट, १५ असंबद्ध, १६ परहितार्थे अर्थ, कामनो त्याग, १७ वेश्या वृत्तिये घरवास.

स्त्री अनर्थनुं स्थानठे, चपल चित्तवादी ठे, नरकनी सडक सरखी ठे, एम जाणी तेने वशवर्ती नहि थतां तेनाथी उदास रहे. १ इंद्रियो, चंचल घोडा समान ठे, मागी गतितरफ निरंतर दोडेठे, तेथी तेनुं यथार्थ स्वरूप जाणी सद्ज्ञानरूप रज्जुथी तेने दुष्ट प्रवृत्तिथी रोके. ३ धन सर्व अनर्थ तथा क्लेशनुं कारण ठे, तेथी धन प्राप्त थये, तथा प्राप्त करवामां अतिलोत्री थाय नहि. ४ संसार, चतुर्गति रूप दुःखमय, अनेक विटंबनाथी जरपुर ठे, तेथी तेमां आसक्ति न करे. ५ विषयसुख क्षणमात्रठे. तेनुं दुःख श्रेणि परंपरा ठे, तेथी विषय विषफल समान ठे, एम जाणी कदापि विषयमां गृह्णित्व न करे. ६ तीव्र आरंज निरंतर वर्जे, निर्वाह न थाय तोपण अल्पारंजी रहे, अने आरंज रहितनी स्तुति करे, सर्व जीवो उपर दयावंत रहे. ७ गृहवासने दुःख रूप, वंदीखाना समान मानी गृहवासमां उदासवृत्तिये रहे, अने चारित्र मोहनीय कर्मने जीतवानो उद्यम करे. ८ आस्तिक्य जाव संयुक्त जिनशासननी प्रजावना तथा गुरु-जक्ति करे, तेवी रीतें सम्यग्दर्शन निर्मल धारण करे. ९ जेवी रीतें मूर्ख लोको गाडरीआ प्रवाह प्रमाणे वर्त्ते, तेम नहि वर्त्ततां जिन आगम अनुसारे प्रवर्त्ते. ११ पोतानी शक्ति नहि गोपवतां चारे प्रकारनो दानादि धर्म करे. १२ हितकारी, अनवद्य, धर्मक्रियाने चिंतामणी रत्ननी जेम दुर्लभ जाणी तेप्रमाणे करतां कोइ मूर्खना हसवाथी खज्जा न धरे. १३ शरीर राखवावास्ते धन, खजन, आहार, घर प्रमुखमां प्रवर्त्ते, परंतु राग-द्वेष कोइ वस्तुमां न करे. १४ उपशांत वृत्ति सार ठे, एम विचारी राग-द्वेषमां लेपायमान न रहे, खोटो आग्रह न करे, हितनो अजिलापी थइ मध्यस्थ रहे. १५ सर्व वस्तुने क्षणजंगुर मानी निरंतर धनादि साथे अप्रतिबद्ध पणे रहे. १६ संसारथी विरक्त मन राखे, एम जाणे के जोग जोगववाथी आज पर्यंत कोइ तृप्त थयेल नथी, उतां स्त्री आदिना आग्रहथी जोगविलासमां प्रवर्त्ते तोपण विरक्तपणे रहे. १७ वेश्यानी जेम अजिलापा रहित वर्त्ते; एम विचारे के आ अनित्य सुख आज काल मारे ठोडवा-

नां ठे, तेथी घरवासमां स्थिर जाव न करे. ॥ इति धर्म रत्नशास्त्रे कथितं जाव श्रावक गुणवर्णनं ॥

एम शुच जावना वासित प्रथम कहेल दिनकृत्यादिमां रक्त ॥ “इण-
मेव निगंग्थे पवयणे अठे परमठे सेसे अणठे” एवी सिद्धांतोक्त रीतिये
वर्तमान-सर्व व्यापारोमां सर्व प्रयत्नथी वर्ततां थकां, सर्वत्र अप्रतिवद्ध चि-
त्त राखे, अनुक्रमें मोहने जीतवाने समर्थ थइ, पुत्र, जाइ, जत्रीजादिने
गृहचार सोंपी स्वशक्ति अनुसारे अर्हंतचैत्यमां अछाइ महोत्सव करी,
संघनी पूजा करी, दीन अनाथोने यथाशक्ति दान दइ, परिचित्त जनो
साथे खमतखामणा करी सुदर्शन शोठना जेम विधि सहित सर्वविर-
ति अंगीकार करे.

१५ पंदरमाद्धारमां—जो दीक्षा लेवानी शक्ति न होय तो आरंजना
त्याग करे, जो निर्वाह न थाय, तोपण अल्पारंजी रही सर्व सचित्त आ-
हारादि केटलाएक आरंजो तो त्यागे.

१६ ब्रह्मचर्यद्धारः जावोजीवसुधी ब्रह्मचर्य पाले, जो तेम न थाय तोप-
ण अमुक वखते तो अवश्य अंगीकार करे. जेम शाह पेथके वत्रीस व-
र्षनी अवस्थामां ब्रह्मचर्यव्रत अंगीकार कर्युं.

१७ प्रतिमाद्धार. प्रतिमादि तपविशेष करे, आदिशब्दथी संसार ता-
रणादि तप करे. अगीआर प्रतिमा श्रावकनी ठे, तेनुं स्वरूप आ प्रमाणे
ठे. रायाजिउगेणादि ठ आगार रहित तथा समग्र दर्शनना श्रद्धादि स-
डसठ बोल सहित, जय लज्जादि अतिचार रहित, त्रिकाल देवपूजामां
तत्परता पूर्वक एक मास सुधी सम्यक्त्व पाले, ते प्रथम प्रतिमा. वीजी
प्रतिमामां प्रथमनी प्रतिमानी विधिसहित, वे मास सुधी अखंडित पांच
अणुव्रत पाले. त्रीजी प्रतिमा. त्रण मास सुधी उजयकाल अप्रमत्त, पूर्वोक्त
बंधे प्रतिमासहित सामायिक करे. चौथी प्रतिमा. चार माससुधी चार पर्वे पू-
र्वनी त्रण प्रतिमा सहित अखंडित पौषध करे. पांचमी प्रतिमा. पांच मास-
सुधी स्नान न करे, रात्रिये चारे आहार वजें, दिवसे ब्रह्मचर्य पाले, कष्ट बांधे
नहि, चार पर्वे घरमां तथा चोकमां निःप्रकंप थइ सर्व रात्रि कायोत्सर्ग करे,
सर्वे पूर्वनी चार प्रतिमा सहित करे. आ वात आगल पण सर्व प्रतिमामां
जाणवी. ठठी प्रतिमा. ठ माससुधी ब्रह्मचारी थाय. सातमी प्रतिमा. सा-

त माससुधी सचित्त आहार वजें. आठमी प्रतिमा. आठ माससुधी पोते आरंज न करे. नवमीप्रतिमा. नवमाससुधी वीजा पासे पण आरंज करावे नहि. दसमी प्रतिमा. दस.मास सुधी छुरमुंडित रहे, अथवा अल्प चोटकी राखे. घरमां कांइ धन होय, अने घर मांहेना कोइ पुत्रे त्यारे कहे के हुं जाणुं तुं, अने जो न होय तो कहे जाणतो नथी, वाकी घरतुं सर्व काम वजें, पोताने निमित्ते घरमां जे आहार कयों होय ते पण न खाय. अगीआरमी प्रतिमा. अगीआर माससुधी घरनो संग त्यागे, लोच करे, अथवा छुरमुंडित रहे, रजोहरण, पात्राप्रमुख लइ, मुनिनो वेप धारण करी स्वकुलमां जिद्दा लहे. मुखथी एम कहे. “प्रतिमा प्रतिपन्नाय श्रमणोपासकाय जिद्दां देहि” आ प्रमाणे वचन बोले, परंतु धर्मलाज शब्द न कहे. सर्व रीतिये साधुनी जेम प्रवर्ते.

१७ आराधना द्वार. अंतकाल समये श्रावक दश प्रकारनी आराधना के जेनुं स्वरूप आगल कथन करवामां आवे ते ते, तथा संलेपणादि विधिपूर्वक करे. श्रावक ज्यारे सर्व धर्मकृत्यो करवाने अशक्त थाय, अने पोतानुं मरण पासे जाणे, त्यारे ड्रव अने ज्ञावथी संलेपणा करे. ड्रव्य संलेपणा ते अनुक्रमें आहारनो त्याग करे, अने ज्ञाव संलेपणा ते, क्रोधादि चारे कपायनो त्याग करे. पोतानुं मरण निकट ठे एम आ लक्षणेथी जाणे. १ बुरा स्वप्न आवता होय, २ प्रकृति, स्वज्ञावमां फेरफार थयो होय, दुर्निमित्त मलतां होय, ४ मोठा ग्रहनो योग थयो होय ५ आत्म आचरण विकृति पाम्या होय, वा कोइ देवतानी सहायथी जाणवामां आवे. जे ड्रव्यथी तथा ज्ञावथी संलेपणा न करे, अने अनशन करी दे, तो तेवा जीवने प्रायः दुर्ध्यान थवाथी कुगति थाय ठे, ते कारणथी संलेपणा अवश्य करे. पठी धर्मना उद्योत वास्ते संयम अंगीकार करे. एक दिवस पण दिद्दा ग्रहण करी संयम पालवामां आवे तो स्वर्ग प्राप्त थाय ठे. जेम नल राजाना ज्ञाइ कुबेरना पुत्र सिंहकेशरीए मात्र पांच दिवसनी दिद्दाथी केवलज्ञान प्राप्त कर्युं अने मोक्ष गया; तथा हरिवाहन राजाए पोतानुं आयुष्य मात्र नव प्रहर वाकी जाणी दिद्दा लीधी अने सर्वार्थसिद्ध विमाने गया. श्रावक दिद्दा अवसरे तेमज संथारा समये प्रज्ञावना वास्ते यथाशक्ति धन खरचे. जेम धिरापद्मीय संघपति आ-

जूए ते अक्सरे साते क्षेत्रमां सातकोड धनं वापर्युं, वली संयमनो योग न थाय तो शत्रुंजयादि तीर्थोए सुस्थानमां जइ, संक्षेपणा करी, निर्दोष स्थंडिलमां विधि पूर्वक चार आहार त्यागरूप आणंद, कामदेव श्रावकोनी जेम अनशन करे. पढी सर्व अतिचारना परिहार चार शरणादिरूप आराधना करे.

आराधना दश प्रकारे थाय ठे. १ सर्व अतिचार आलेवे, २ व्रत उचरे, ३ सर्व जीवो साथे खमावे, ४ पोताना आत्माने अढार पापस्यानकोथी व्युत्सर्जन करे, ५ चार शरण ग्रहण करे, ६ गमना गमन दुष्कृतोनी गर्हणा करे, ७ जे कोइए जीनमंदिरादि सुकृतो कयां होय, तेउनी अनुमोदना करे, ८ शुभ जावना जावे, ९ अनशन करे, अर्थात् चार आहार वा त्रण आहारनो त्याग करे, १० पंच नमस्कारनुं स्मरण करे. आ प्रमाणे आराधना करवाथी जो ते जवमां मुक्ति प्राप्त न थाय, तो पण सुदेव अथवा सुमनुष्यना आठ जव करी अवश्य ते आत्मा मोक्षरूप थांय.

आ प्रमाणे गृहस्थधर्म करवाथी निरंतर गृहस्थ लोको आ लोक परलोकमां सुख प्राप्त करे ठे, अने परंपराए मोक्ष प्राप्त करे ठे. इति श्री श्राद्धविधि अनुसार श्रावकस्य जन्म कृत्यादि स्वरूपं संपूर्णम् ॥

इति श्री तपगढीय मुनि श्री मणिविजयगणि तद्विष्यमुनि श्री बुद्धिविजय तद्विष्य मुनि श्री मुक्तिविजयगणि तस्य लघु गुरुव्रात मुनि आत्माराम आनंदविजय विरचिते जैनतत्त्वादर्शे गृहस्थधर्मनिरूपण नामा दशमः परिच्छेदः ॥ १० ॥

॥ अथ एकादश परिच्छेद प्रारंभः ॥

आ परिच्छेदमां श्री रिपजदेव जगवानथी, श्री महावीर स्वामि पर्यंत जैनमतादि शास्त्रानुसार इतिहासरूप पूर्व वृत्तांत लखीए ठीए, जेथी आ ग्रंथना वांचनारउने जैननो सेहेज इतिहास जाणवामां आवशे. वर्त्तमान समयमां केटलाएक जव्य जीवोनी एवी जीज्ञासा ठे के जैनमत क्यारथी प्रचलित थयेल ठे ? वली केटलाएकने एवी त्रांति ठे के, जैनमत बौद्धमतनी शाखा ठे, केटलाएक कहे ठे के बौद्धमत जैनमतनी शाखा ठे, कारण के तेउनुं माननुं एवुं ठे के आ वंने मतो कोइ का-

लमां एक हता, परंतु आचार्योंमां मतत्रेद यवाथी एक मतना वे वि-
 ज्ञाग, जैन अने बौद्ध थया ठे. बली केटलाएक कहे ठे के संवत् ५००
 नी लग्नग जैनमत उत्पन्न थयेल ठे, अने कोइक कहे ठे के विष्णु
 जगवाने दैत्योने धर्मत्रष्ट करवावास्ते अर्हतनो अवतार धारण करेलो
 ठे, बली कोइक कहे ठे के मछंदरनाथना शिष्योए जैनमत चलाव्यो ठे;
 इत्यादि अनेक दंतकथाउं चाले ठे, ते सर्व जैनमत न जाणवानुं कारण
 ठे. जेम चमार लोको कहे ठे के वानु अने चामु वे वेहेनो हती, तेमां
 वानुनी उंलाद सर्व अग्रवालादि वाणीआ थया, अने चामुनी उंलाद
 अमे चमार ठीए, ते कारणथी वाणीआ अने चमार एक वंशना ठे, ह-
 वे विचारवुं जोइए के चमारोनुं आ वोलवुं शुं वास्तविक ठे ? अने बु-
 ङ्खिवान लोको शुं ते वोलवुं सत्य मानशे ? तेवीज रीते जे कोइ स्वमति-
 कल्पनाथी वा दंतकथा श्रवण करवाथी जैनमतनी उत्पत्ति मानशे, ते प-
 ण जैनीउंने हसवा लायक थशे. सारांश ए ठे के प्रथम तो कोइ पण
 मतवाला जैनमतना मूलतत्वोने जाणता नथी. जुठ के शंकरदिग्विज-
 य ग्रंथमां श्रीशंकरस्वामिए जैनमतनुं जे खंडन लखेल ठे ते वांचतां अ-
 मने हसवुं आवे ठे. ज्यारे शंकरस्वामिए जैनमतनुं स्वरूपज जाण्युं न-
 थी, त्यारे तेनुं करेलुं जैनमतनुं खंडन, ते पुरुपनी ठायाने पुरुप जाणीने
 लाकडीथी मारवा सरखुं ठे. ज्यारे शंकरस्वामिनेज जैनमतनी माहिती
 नहोती, तो वर्तमान कालना सामान्य विद्वानोनी माहिती माटे शुं क-
 हेवुं ? ते कारणथी सर्वे जीज्ञासुठने बहुज नम्रता पूर्वक विनंति करीए
 ठीए के जैनमतनो सारी रीते अज्यास करी, जैनमतनुं खंडन मंडन
 करवुं, नहीं तो शंकरस्वामि अने रामानुज आचार्योंनी जेम तमे पण
 हसवा योग्य थइ पडशो.

सज्जनोने जाणवा वास्ते प्रथम आ जगतनुं कांइक स्वरूप लखीए
 ठीए. आ जगतने जैनी द्रव्यार्थिक नयना मतथी शाश्वत अर्थात् प्र-
 वाह रूपे निरंतर एवुंज माने ठे. आ जगतमां ठ प्रकारे काल वर्ते ठे,
 तेनेज जैनीउं ठ आरा कहे ठे. एक अवसर्पिणी काल, अर्थात् सर्व सा-
 री वस्तुउंनो अनुक्रमे नाश करतो करतो जे काल व्यतीत थाय, तेना
 ठ विज्ञागो ठे, अने वीजो उत्सर्पिणी काल अर्थात् सर्व सारी वस्तुउंने

अनुक्रमे वृद्धिमान् करतो करतो जे काल व्यतीत थाय, तेना पण ठं वि-
जाग ठे. दश कोटाकोटी सागरोपम प्रमाण एक अवसर्पिणी काल,
अने तेदलाज सागरोपम प्रमाण एक उत्सर्पिणी काल ठे. एक साग-
रोपम असंख्याता वर्णोना थाय ठे. तेनुं स्वरूप जैन शास्त्रथी जाणवुं. एक
अवसर्पिणी अने एक उत्सर्पिणी मली एक कालचक्र थाय ठे, अ-
र्थात् वीश कोटाकोटी सागरोपम प्रमाण एक कालचक्र ठे. एवा का-
लचक्र अनंता जूत कालमां व्यतीत थया, अने जविष्यमां पण व्यतीत
थशे. अवसर्पिणी काल पुरो यतां उत्सर्पिणी काल प्रारंज थाय ठे,
अने उत्सर्पिणी काल पुरो यतां अवसर्पिणी कालनो प्रारंज थाय ठे.
एवीज रीते अनादि अनंत काल सुधी आ प्रमाणेज व्यवस्था रहेशे.
हवे ठ आरानुं स्वरूप लखीए ठीए.

अवसर्पिणीनो प्रथम आरो सुपमसुपम चार कोटाकोटी सागरो-
पम प्रमाण ठे. ते कालमां जरत क्षेत्रनी जूमि बहुज सुंदर, रमणीय, म-
र्दलना तल समान समहती. ते कालना मनुष्य जडक, सरल स्वजावी,
अद्वप रागद्वेषी तथा अद्वप मोह, काम, क्रोधादि युक्त हता, सुंदर रू-
पवान्, निरोगी हता. दश जातिना कद्वपवृद्धोथी पोतानां खावा, पीवा,
पेहेरवा, सुवा विगेरे सर्व व्यवहारना कार्यों करी लेता हता. एक पुत्र
अने एक पुत्री; वेनुं युगल जन्मतुं हतुं. ज्यारे वंने यौवनवंत थता हता,
त्यारे वंने जाइ वेहेन, स्त्रीजरतारनो संबंध करता हता. तेउने वली ले-
वीज रीते युगल प्रसवता हता. तेउ पण पूर्वोक्त व्यवहार करता हता.
जैनमतना माप मुजव त्रण गाउ (कोस) प्रमाण तेउना शरीरनी उं-
चाइ हती. त्रण पदयोपम प्रमाण आयुष्य हतां. वसो ठपन पृष्ठकरंडना
हाड हतां. धर्मनो अज्ञाव हतो. जीवहिंसा, असत्यता, चोरी प्रमुख पाप
पण विशेष नहोतां. वृद्धोमांज रहेता हता. युगल समुहो पण गणत-
रीमां थोडा हता. वाकी चतुष्पद पंचेंद्रिय, पद्मी प्रमुख सर्व जातिना
जीव हता. तेउ पण सर्वे जडक हता. ह्युडक नहोता. शाक्ति प्रमुख सर्व
अनाज अने इह्यु प्रमुख सर्व वस्तुउं सर्व जंगलोमां स्वयमेव उत्पन्न थती
हती. तेउ कांइ मनुष्योना खानपानादिमां उपयोगमां आवती नहोती.
मनुष्यो तो मात्र कद्वपवृद्धोना फलफूलोनोज आहार करता हता. वस्त्रने

वदले वृद्धोनी ठाल तथा पांढां पेहेरता, उढता हता. इत्यादि सर्व वा-
वतनुं प्रथम आरातुं स्वरूप जंबुद्वीपप्रज्ञप्ति प्रमुख शास्त्रोष्ठी जाणवुं.

वीजो आरो सुपम त्रण कोटाकोटी सागरोपम, तेमां वे गाउ (कोश)
नुं देहमान, वे पत्योपमनुं आयुष्य, एकसो अष्टावीश पृष्ठकरंरुकनां हाड
हतां. शेष व्यवहार प्रथम आरा जेम हतो.

त्रीजो आरो सुपमदुपम; वे कोटाकोटी सागरोपम प्रमाण, एक
गाउ देहमान, एक पत्योपम आयुष्य, चोसठ पृष्ठकरंडक हाड हतां.
शेष व्यवहार प्रथम आरा प्रमाणे हतो. आ सर्व आरामां सर्व वस्तुउं
अनुक्रमे घटती ठेवटे आगलना आरा तुल्य रहे ठे, परंतु एक साथे
सर्व वस्तु एकदम घटती नथी.

ए प्रमाणे त्रीजा आराने ठेडे एक वंशमां सात कुलकर उत्पन्न थया.
जेउए ते कालना मनुष्यो वास्ते कांइक मर्यादा वांधी होय तेउ कुलकर
कहेवाय ठे. तेज सात कुलकरोने लौकिकमां सप्त मनु कहे ठे. वीजा
वंशोना कुलकर गणीयें तो श्री रूपजदेवजी शिवाय चौद कुलकर थाय
ठे, अने श्रीरूपजदेवजी पंदरमां कुलकर गणाय ठे.

पूर्वोक्त सात कुलकरोना नाम. १ विमल वाहन, २ चक्षुष्मान्, ३ य-
शस्वान्, ४ अजिचंद्र, ५ प्रश्रेणि, ६ मरुदेव, ७ नाजि. आ सातेनी त्रार्या-
ना नाम अनुक्रमे आ प्रमाणे. १ चंद्रयशा. २ चंद्रकान्ता, ३ सुरुपा, ४ प्र-
तिरूपा, ५ चक्षुःकान्ता, ६ श्रीकान्ता, ७ मरुदेवी. आ सर्व कुलकर गंगा
अने सिंधु नदीना मध्य खंडमां थया ठे.

आ कुलकर थवानुं कारण एवुं ठे के, त्रीजो आरो उत्तरतां, दश जा-
तिना कल्प वृद्धो कालना दोषथी अल्प थइ गया, तेथी युगलीयाउए
पोतपोताना वृद्धोपर ममत्व कर्यो.

ज्यारे वीजा युगलीयाउए राखेला वृद्धोथी फल खंवा लाग्या, त्यारे
ममत्ववाला युगलो तेउनी साथे क्लेश करवा लाग्या, युगलीया पुरुषोने
एवो विचार थयो के अमारा क्लेशनो निवेडो लावे तंत्रो कोइ पुरुष थाय
तो सारुं; तेवामां ते युगलीयाउ मध्येथी एक युगजन वनना एक श्वेत-
हाथीए प्रेमथी पोताना स्कंध उपर चडाव्यो. त्यारं तं युगल पुरुष ए-
कलो हाथी उपर चढी फरवा लाग्यो, त्यारे वीजा युगलो विचार करवा

लाग्या के, आ युगल अमारामां मोटोठे; कारण के ते हाथी उपर चडी फरे ठे, अने अमे तो पगे चालीये ठीये, तेथी तेने न्यायाधीश बनाववामां आवे तो सारुं, अर्थात् ते जे कहे ते अमारे मानवुं. पठी तेउए तेने न्यायाधीश बनाव्यो. जे कारणथी हाथीए युगलने पोतानी उपर चडाव्यो ते कारण, तथा तेउना पूर्व जवोनी कथा आवश्यकसूत्र तथा प्रथम अनुयोगथी जाणवी.

न्यायाधीश युगल विमलवाहने सर्व युगलियाने कल्पवृक्षो वेहेंची आप्यां. जे युगल पोताना वृक्षथी संतोप नही पामतां, वीजाना वृक्षथी फल लेवा लाग्या, तेउनी साथे क्लेष थतां, ते असंतोपी युगलोने विमलवाहन पासे लाववामां आवता हता. विमलवाहन तेउने कहेतो के "हा" तमे आ शुं करुं? त्वारथी विमलवाहने हाकारनी दंडनीति प्रवर्तावी. ते हाकार दंडनीतिथी फरी तेउ तेवा काम करता नहोता. पठी ते विमलवाहनना पुत्र चक्रुष्मान् थया; ते पण पोताना पितानी जेम राजा अर्थात् कुलकर थया. तेना वखतमां पण हाकारज दंड रह्यो. तेने यशस्वान् नामा पुत्र थया, यशस्वान्ने अज्जिचंद्र नामा पुत्र थया. आ वंनेना समयमां थोडा अपराधवालाने हाकार दंड अने विशेष अपराधवालाने मकार दंड, अर्थात् आ काम न करवुं, आ वे दंडनीति प्रवर्ता. अज्जिचंद्रना पुत्र प्रश्रेणि थया. प्रश्रेणिना पुत्र मरुदेव थया, अने मरुदेवनां पुत्र नाज्जि थया. आ त्रण कुलकरोना समयमां हाकार, मकार, अने धिक्कार, आ त्रण दंडनीति प्रवर्ता. तेमां थोडा अपराधीने हाकार, मध्यम अपराधीने मकार, अने उत्कृष्ट अपराधीने धिक्कार दंड करता हता. नाज्जि कुलकरने मरुदेवी नामा जार्या हती. आ नाज्जिकुलकर इक्वाकु चूमि अर्थात् विनिता नगरीनी चूमिमां विशेष काल निवास करता हता. आ चूमि काश्मीर देशनी उपर हती, कारण के विनिता नगरीनी चारे वाजुए चार पर्वत हता. पूर्व दिशिमां अष्टापद थर्थात् कैलास गिरि, दक्षिण दिशिमां महाशैल्य, पश्चिम दिशिमां सुशैल्य, अने उत्तर दिशिमां उदयाचल पर्वत, हता.

ते नाज्जिकुलकरनी मरुदेवी नामनी जार्यानी कुक्षिमां आपाढ वचोथनी रात्रिण सर्वाथसिखु देवलोकथी चवीने श्रीरीपजदेवनो जीव

गर्भमां पुत्रपणे उत्पन्न थयो. मरुदेवीये चौद खमो दीगं. इंद्र महाराजे खम फल कक्षां. चेत्र वद आठमने दिवसे श्रीरीपन्नदेवजीनो जन्म थयो. ठप्पन दिशाकुमारी तथा चोसठ इंद्रोये मळी जन्म महोत्सव कर्यां. मरु-देवीये चौद खममां प्रथम वृषजनुं खम दीनुं, तथा पुत्रना वंने साथलो-मां वृक्षजनुं चिन्ह हतुं, ते कारणथी पुत्रनुं नाम रीपन्न पाड्युं.

वाल्यावस्थामां श्रीरीपन्नदेवजीने ज्यारे चूख लागती हती, त्यारे पो-ताना हाथनो अंगुठो मुखमां लइ चूसता हता. ते अंगुठामां इंद्रे अमृ-तनो संचार कर्यां हतो. ज्यारे रीपन्नदेवजी मोटा थया त्यारे देवता ते-मने कल्पवृक्षना फल लावी आपता हता. ज्यारे रीपन्नदेवजी कांश्क न्यून वर्पना थया, त्यारे इंद्र तेमनी पासे आव्या, हाथमां इक्षुदंड ला-व्या, रिक्त हाथे स्वामि समीप जवुं उचित नथी ते कारणथी इक्षुदंड ला-व्या. श्रीरीपन्नदेवजी ते वखते नाजिकुलकरना खोलामां वेठा हता. श्री-रीपन्नदेवजीनी दृष्टि इक्षुदंड उपर पडी; इंद्रे कळुं जगवन्! थाप इक्षु ज-क्षण करशो? रीपन्नदेवजीये हाथ पसायों. इंद्रे इक्षुदंड आप्यो; त्यारथी इंद्रे रीपन्नदेवजीनो इक्ष्वाकु वंश स्थापन कर्यां; थने श्रीरीपन्नदेवजीना वंशवालार्जे काशकार पीधो, तेथी गोत्रनुं नाम काश्यप थयुं. श्रीरीपन्न-देवजीना जेजे वयमां जेजे कामो उचित हतां, तेते सर्व शक्र इंद्रे कर्यां. जेजे शक्रइंद्रो थाय ठे तेउनो अनादि कालथी आ जीतकल्प ठे, के प्र-थम जगवानना वयोचित सर्व काम करवां.

ते अवसरे एक ठोकरो थने एक ठोकरी, वेहेनजाइ वाल्यावस्था-मां ताडवृक्षनी नीचे रमता हता. ते समये ताडनुं फल पडवार्थी ठोकरो मरी गयो. नाजिकुलकरे ते समये विचार कर्यां के आ ठोकरी रीपन्न-देवनी जार्या थशे एम निश्चय करी पोतानी पासे राखी. तेनुं नाम सुनं-दा हतुं. वीजी जे रीपन्नदेवजीनी साथे जन्मी हती, तेनुं नाम सुमंगला हतुं. ते वंनेनी साथे रीपन्नदेव वाल्यावस्थामां रमता हता, अनुक्रमे यो-वन प्राप्त थये इंद्रे विवाहनो प्रारंज कर्यां. पूर्वे युगल समयमां विवाहवि-धि नहोतो, ते कारणथी आ विवाहमां पुरुपनां कृत्यो तो सर्व इंद्रे कर्यां, थने स्त्रीना कृत्य सर्व इंद्राणीउये कर्यां, त्यारथी विवाहविधि जगतमां प्रचलित थइ. श्रीरीपन्नदेवजीने वंने जार्याउनी साथे सांसारिक विषयसु-

ख जोगवतां ज्यारे ठ लाख पूर्व व्यतीत थया, त्यारे सुमंगला राणीने जरत थने ब्राह्मी युगल जन्म्या, थने सुनंदाने बाहुवली थने सुंदरीयुगल जन्म्या. पठी सुनंदाने तो बीजा पुत्र पुत्री जन्म्या नहि, परंतु सुमंगलाने उगणपचास पुत्रोना जोडलां जन्म्या. सर्व मली सो पुत्र थने वे पुत्रीं श्रीरीपन्नदेवजीना थया. तेउना नाम लखीये ठीये.

१. जरत, २ बाहुवली, ३ श्रीमस्तक, ४ श्रीपुत्रांगारक, ५ श्रीमद्विदेव, ६ अंगज्योति, ७ मलयदेव, ८ जार्गवतार्थ, ९ वंगदेव, १० वसुदेव, ११ मगधनाथ, १२ मानवर्तिक, १३ मानयुक्ति, १४ वैदर्जदेव, १५ वनवासनाथ, १६ महीपक, १७ धर्मराष्ट्र, १८ मायकदेव, १९ आत्मक, २० दंडक, २१ कलिंग, २२ इपकदेव, २३ पुरुषदेव, २४ अकल, २५ जोगदेव, २६ वीर्यजोग, २७ गणनाथ, २८ तीर्णनाथ, २९ अंबुदपति, ३० आयुवीर्य, ३१ नायक, ३२ काक्कि, ३३ आनर्त्तक, ३४ सारिक, ३५ ग्रहपति ३६ करदेव ३७ कठनाथ, ३८ सुराष्ट्र, ३९ नर्मद, ४० सारखत, ४१ तापसदेव, ४२ कुरु, ४३ जंगल, ४४ पंचाल, ४५ शूरसेन, ४६ पुट, ४७ कालंगदेव, ४८ काशीकुमार, ४९ कौशल्य, ५० जडकाश, ५१ विकाशक, ५२ त्रिगर्त्त, ५३ आवर्ष, ५४ साधु, ५५ मत्स्यदेव, ५६ कुलियक, ५७ मुपकदेव, ५८ वाल्हीक, ५९ कांवोज, ६० मडुनाथ, ६१ सांडक, ६२ आत्रेय, ६३ यवन, ६४ आजीर, ६५ वानदेव, ६६ वानस, ६७ कैकये, ६८ सिंधु, ६९ सौवीर, ७० गंधार, ७१ काष्ठदेव, ७२ तोषक, ७३ शौरक, ७४ नारछाज, ७५ शूरदेव, ७६ प्रस्थान, ७७ कर्णक, ७८ त्रिपुर नाथ, ७९ अवंतिनाथ, ८० चेदिपति, ८१ विष्कंज, ८२ नैपथ, ८३ दशार्णनाथ, ८४ कुसुमवर्ण, ८५ चूपाखदेव, ८६ पाल प्रजु, ८७ कुशल, ८८ पद्म, ८९ महापद्म, ९० विनिड, ९१ विकेश, ९२ वैदेह, ९३ कष्टपति, ९४ जडदेव, ९५ वज्रदेव, ९६ सांडजड, ९७ सेतज, ९८ वत्स, ९९ अंगदेव, १०० नरोत्तम. श्रीरीपन्नदेवजीना सो पुत्रोनां नाम कहां.

ते अवसरे जीवोना कपाय प्रवला थइ जवाथी पूर्वोक्त हकारादि त्रणे वंडनो जय मनुष्यो नही करवा लाग्या. ते वखते श्रीरीपन्नदेवजीने ज्ञानादि गुणोमां सर्वथी अधिक लोकोये देखवाथी, ते युगल लोकोये तेमने विनंति करी के हालमां सर्व लोक वंडनो जय करता नथी. श्रीरीपन्नदे-

वजी गर्जमां पण मति, श्रुत, अवधि, ए त्रणज्ञान संयुक्त हता. श्रीरीपन्नदेवजीना पूर्व जवोनो वृत्तांत श्री आवश्यक सूत्र तथा प्रथमानुयोगधी जाणवो. श्रीरीपन्नदेवजीये युगलक पुरुपोने कछुं के जे राजा थाय ठे, ते दंड करे ठे. राजा, मंत्री, कोटवालादि सेना संयुक्त होय ठे, अने ते कृताज्ञिपेक होय ठे, अने तेनी आज्ञा अततिक्रमणीय होय ठे. एवा वचनो श्रीरीपन्नदेवजीना श्रवण करी मिथुनको बोल्याके एवो राजा अमारो पण जले थाउं ! श्रीरीपन्नदेवजीये कछुं के जो तमारी एम वांठा होय तो नाजिकुलकर पासे जइ ते प्रमाणे याचना करो. मिथुनकोये नाजिकुलकरने ते प्रमाणे विनंति करी. नाजिकुलकरे कछुं के जाउं रीपन्नदेवजी तमारा राजा थया. पठी मिथुनको श्रीरीपन्नदेवजीनो राज्याज्ञिपेक करवावास्ते पद्मिनी सरोवरमां गया. ते अवसरे इंद्रजुं आसन कंपायमान थयुं. इंद्रे अवधिज्ञानथी राज्याज्ञिपेकनो अवसर जाणी अहींआ आवी श्रीरीपन्नदेवजीनो राज्याज्ञिपेक कर्यो. मुकुटआदि सर्व अलंकार जे राजाने योग्य हता ते पेहेराव्या. ते समये मिथुनक लोको पद्मसरोवरमांथी नलिनी कमलोमां पाणी लाव्या. तेउंये आवीने प्रचुनं अलंकृत दीठा, त्यारे सर्व जनोये रीपन्नदेवजीना चरण कमल उपर जल रेडी दीधुं. इंद्रे मनमां धिचार कर्यो के मिथुनको अति विनीत ठे; तेथी वैश्रमण्णे आज्ञा करी के आ विनीतोने रहेवावास्ते विनीता नामा नगरी वनावो ? वैश्रमण्णे विनीता नगरी वनावी अने युगलीआ तेमां वश्या. तेनुं स्वरूप श्रीशत्रुंजयमहात्म्यथी जाणवुं.

संग्रह वास्ते श्रीरीपन्नदेवजीना राज्यमां हाथी, घोडा, गाय, बलद प्रमुख वनमांथी पकडी लाववामां आव्या. श्रीरीपन्नदेवजीये चार प्रकारनो संग्रह कर्यो. १ उग्रा, २ जोगा, ३ राजन्या, ४ क्षत्रीया. जेउंने कोटवालनी पदवी आपी तेउं दंड करनार होवाथी उग्रवंशी कहेवाया. जेउंने गुरु अर्थात् वडील तरीके उंचामान्या तेउं जोगवंशी कहेवाया. जेउं श्रीरीपन्नदेवजीना मित्र थया तेउं राजन्यवंशी कहेवाया. बाकीनाउं क्षत्रियवंशी कहेवाया.

ज्यारे कल्पवृद्धोना फलोने अजाव थयो त्यारे पकाहार खावानो व्यवहार शीरीते शरु थयो तेनो विचार लखीये ठीये. कालना प्रजावधी

कल्पवृक्ष फलो आपता बंध थया, जेथी लोको वीजा वृद्धोना कंद, मूल, पत्र, फूल, फल खावा लाग्या. केटलाएक इक्षुरस पीवा लाग्या, अने काचा अनाज खावा लाग्या. केटलाएक दिवसो गया वाद ज्यारे लोकोने काचुं अनाज पचवा न लाग्युं, त्यारे रीपजदेवजी पासे तेउं आख्या. रीपजदेवजीए कहुं के, तमे हाथवती अनाज मसली फोतरा काढी नाखी खाउं. केटलाएक दिवसो पठी ते पण न पचवा लाग्या, त्यारे वीजी रीते काचा अनाज खावानी विधि बतावी; ए प्रमाणे अनेक रीते काचा अनाज खावानी रीत बतावी तोपण काल दोपथी अनाज पाचन न थवा लाग्युं. ते अवसरमां जंगलोमां वांस प्रमुखना घसावाथी अग्नि उत्पन्न थयो.

प्रश्नः— तमे कहो ठो के श्रीरीपजदेवजीने जातिस्मरण अने अवधि-ज्ञान हतुं, तो पठी रीपजदेवजीए प्रथमथीज अग्नि वनाववानी तेमज ते अग्निथी अनाज रांधीने खावानी विधि केम न बतावी ?

उत्तरः— हे जव्य ! एकांत स्निग्ध कालमां तेमज एकांत रुद्धकालमां अग्नि कोइ पण वस्तुथी उत्पन्न थइ शकती नथी. कदाचित् कोइ देवता महाविदेह क्षेत्रथी अग्निने अहींआ लइ पण आवे, तो पण ते अग्नि तत्काल उलवाइ जती हती. तेज कारणथी अग्निथी पकावी खावानी उपदेश कयों नहोतो.

हवे ज्यारे अग्निने तृणादि दाह करता देखी, अपूर्व रत्न जाणी तेउं पकडवा लाग्या, त्यारे तेउंना हाथ दाजवा लाग्या, तेथी जयज्वान्त थइ दोडता आवी श्रीरीपजदेवजीने तेउंए सर्व वृत्तांत कह्यो. रीपज देवजीए तेउंने अग्नि लाववानी विधि बतावी. ते विधि प्रमाणे अग्नि घरमां लावी तेउंएरीपजदेवजीने विनंति करी के हवे अमारें शुं करवुं ? रीपजदेवजीए हस्ति उपर वेगं थकां माटीनुं एक कुंडुं वनाव्युं. तेमां अनाज पाणी नाखी अग्नि उपर पकावी, रांधी खावानी सर्व विधि बतावी. जेना हाथथी प्रथम ते कुंडुं पकडाव्युं, अने जेने ते वनाववानी विधि बतावी ते कुंजार नामथी प्रसिद्ध थया; ते कारणथी कुंजार प्रजापति कहेवाय ठे. धीमे धीमे सर्व प्रकारना अनाज अनेक रीतथी पकावी खावानी विधि प्रवृत्त थइ गइ. सर्व विधि श्रीरीपजदेवजीएज बतावी ठे.

हचे शिल्पकार कहीये ठीये. श्रीरीपजदेवजीना उपदेशथी पांच मूल

शिल्पी अर्थात् कारीगर वन्या. तेना नाम. १ कुंजकार २ लोहकार, ३ चित्रकार, ४ वस्त्र वनावनार, ५ नाइ. एकेक शिल्पना अर्वांतर जेद वीशवी-
श ठे. सर्व मली एकसो शिल्प वनाव्या.

ह्वे कर्मद्वार लखीये ठीये. १ खेती करवानुं काम, २ वाणिज्य अर्थात् व्यापार करवानुं काम. इत्यादि. धन ममत्वना अनेक कामो वताव्यां. प्रथम माटीना संचयमां जरी एरण, हथोडो तथा साणसी प्रमुख वनाव्या, पठी तेउथी सर्व वस्तुउं काम लायक वनाववामां आवी.

जरतादि पुरुष वर्गना लोकोने व्होंतेर कला शिखवी. स्त्री जातिनी चोसठ कला ग्राह्मी, सुंदरी प्रमुखने शिखवी, तेना नाम १ लखवानी कला, २ वांचवानी कला, ३ गणितकला, ४ गीतकला, ५ नृत्यकला, ६ ताल वजाववानी कला, ७ पटह वजाववानी कला, ८ मृदंग वजाववानी कला, ९ वीणावगाडवानी कला, १० वंशपरिद्धा, ११ जेरीपरिद्धा, १२ १३ तुरंगपरिद्धा, १४ धातुवाद, १५ दृष्टिवाद, १६ मंत्रवाद, १७ वलि प-
खित विनाश, १८ रत्नपरिद्धा, १९ नारीपरिद्धा, २० नरपरिद्धा, २१ ठंद वंधन, २२ तर्कजटपन, २३ नीतिविचार, २४ तत्त्वविचार, २५ कविश-
क्ति, २६ ज्योतिष शास्त्रज्ञान, २७ वैद्यक ज्ञान, २८ पड्जाया, २९ योगा-
ज्यास, ३० रसायणविधि, ३१ अंजनविधि, ३२ अढार प्रकारनी लीपी, ३३ खमलक्षण, ३४ इंद्रजालदर्शन, ३५ खेतीकाम, ३६ व्यापारकाम, ३७ राज्यसेवा, ३८ शकुनविचार, ३९ वायुस्तंजन, ४० अग्निस्तंजन, ४१ मे-
घवृष्टि, ४२ विलेपनविधि, ४३ मर्दनविधि, ४४ उर्ध्वगमन, ४५ घटवं-
धन ४६ घट त्रमण, ४७ पत्रठेदन, ४८ मर्मजेदन, ४९ फलाकर्पण, ५० जलाकर्पण, ५१ लोकाचार, ५२ लोकरंजन, ५३ अफल वृद्धोने फलवा-
ला करवानुं काम, ५४ खड्गबंधन, ५५ ठरीबंधन, ५६ मुद्राविधि, ५७ लोहज्ञान, ५८ दंतसमारण, ५९ काललक्षण, ६० चित्रकरण, ६१ वा-
हुयुद्ध, ६२ मुष्टियुद्ध, ६३ दंडयुद्ध, ६४ दृष्टियुद्ध, ६५ वाग्युद्ध, ६६ खड्गयुद्ध, ६७ गारुड विद्या, ६८ सर्पदमन, ६९ चूतमर्दन, ७० योग ते
अव्यानुयोग, अक्षरानुयोग, व्याकरण, उंपधानुयोग, ७१ वर्षज्ञान, ७२ ना-
ममाला. आ पुरुषनी व्होंतेर कलाना नाम कल्यां.

ह्वे स्त्रीनी चोसठ कलाना नाम सखीये ठीये. १ नृत्यकला, २ श्रौचि-

त्यकला, ३ चित्रकला, ४ वाजीत्र ५ मंत्र ६ तंत्र, ७ ज्ञान, ८ विज्ञान, ९ दंज, १० जलस्थंज, ११ गीतगान, १२ तालमान, १३ मेघवृष्टि, १४ फलवृष्टि, १५ आरामारोपण, १६ आकारगोपन, १७ धर्मविचार, १८ शकुनविचार, १९ क्रियाकल्पन, २० संस्कृतजल्पन, २१ प्रसादनीति, २२ धर्मनीति, २३ वर्णिकावृद्धि, २४ स्वर्णसिद्धि, २५ तैलसुरजिकरण, २६ लीला संचारण, २७ गजतुरंगपरिहा, २८ स्त्रीपुरुषना लक्षण, २९ कामक्रिया, ३० अष्टादश लिपिपरिच्छेद, ३१ तत्कालबुद्धि, ३२ वस्तुशुद्धि, ३३ वैद्यकक्रिया, ३४ सुवर्णरत्नज्ञेद, ३५ घटत्रम, ३६ सारपरिश्रम, ३७ अंजनयोग, ३८ चूर्णयोग, ३९ हस्तलाघव, ४० वचनपाटव, ४१ जोज्यविधि, ४२ वाणिज्यविधि, ४३ काव्यशक्ति, ४४ व्याकरण, ४५ शास्त्रिखंडन ४६ मुखमंडन, ४७ कथाकथन, ४८ कुसुमगुंथन, ४९ वरवेप, ५० सकल ज्ञापा विशेष, ५१, अजिधानपरिज्ञान, ५२ आचरणप्रवेश, ५३ नृत्योपचार, ५४ गृह्याचार ५५ शाठ्यकरण, ५६ परनिराकरण ५७ धान्यरंधन, ५८ केशबंधन, ५९ वीणादिनाद, ६० वितंडावाद, ६१ अंकविचार ६२ लोकव्यवहार, ६३ अंत्याहारिका, ६४ प्रश्नप्रहेलिका. आ स्त्रीनी चोसठ कलाना नाम कहां.

वर्तमानमां सर्व सांसारिक कला पूर्वोक्त कलाउंनी अंतर्गत ठे. प्रथम लिपि कलाना अठार जेद दक्षिण हाथथी ब्राह्मी पुत्रीने शिखव्या. तेना नाम. हंसलिपि, २ चूतलिपि, ३ पद्मलिपि, ४ राक्षसलिपि, ५ यावनीलिपि, ६ तुरकीलिपि, ७ कीरीलिपि, ८ डावडीलिपि, ९ सैंधवीलिपि, १० मालवीलिपि, ११ नडीलिपि, १२ नागरीलिपि, १३ लाटीलिपि, १४ फारसीलिपि, १५ अनिमिच्छीलिपि, १६ चाणक्रीलिपि, १७ मूलदेवी, १८ उड्डीलिपि. आ अठार प्रकारनी ब्राह्मी लिपि, देश विशेषना जेदथी अनेक तरेहनी थये ली ठे. जेम के १ लाटी, २ चौडी, ३ डाहली, ४ कानडी, ५ गौर्जरी, ६ सोरठी, ७ मराठी, ८ कोंकणी, ९ खुरासाणी, १० मागधी, ११ सिंहली, १२ हाडी, १३ कीरी, १४ हम्मीरी, १५ परतीरी, १६ मसी, १७ मालवी, १८ महायोधी. इत्यादि. सुंदरी पुत्रीने डावा हाथथी अंकविद्या शिखवी. जे जगतमां गणितविद्या प्रचलित ठे, जेनाथी अनेक कायों सिद्ध थाय ठे. केटलीएक कला. लिपि तथा विद्या केटलीएकवार लुप्त थइ

जाय ठे, अने फरी सामग्री पामी प्रगट पण थाय ठे. परंतु नवीन कला, लिपि, वा विद्या उत्पन्न थती नथी. सर्व जे रीपन्नदेवजीए घतावेळ ठे, तेज चाले ठे, तेनुं स्वरूप आवश्यक सुत्रथी जाणवुं.

ब्राह्मीनुं लग्न वाहुवलीनी साथे कर्युं, अने सुंदरीनो विवाह जरतनी साथे कर्यो. ते वखतथी माता पितानो कन्या आपवानो व्यवहार प्रचलित थयो.

श्री रीपन्नदेवजीए एक उदरथी उत्पन्न थयेला वेहेनजाइनो विवाहनो संबंध दूर कर्यो. ते देखीने वीजाउं पण तेमज करवा लाग्या, श्री रीपन्नदेवजीए वहु वखत सुधी राज्य कर्युं, अने प्रजाने वास्ते अनेक तरेहथी सुखनां साधनो उत्पन्न करी आप्यां; अनेक तरेहनी विद्या, कला, कौशल्यता प्रजाने वतावी; जे कारणथी श्रीरीपन्नदेवजीने जैनीउं जगत्ना कर्ता माने ठे. वीजा मतवालाउं जे इश्वरनी करेली सृष्टि कहे ठे, ते पण इश्वर, आदीश्वर, जगदीश्वर, योगीश्वर, जगत्ना कर्ता ब्रह्माआदि, विष्णुआदि, योगीआदि, जगवानआदि, अर्हंतआदि, तीर्थकर, प्रथम गुरू, सर्वथी मोटा, इत्यादि नाम तथा महिमा जे गाय ठे, ते सर्व श्री रीपन्नदेवजीनोज गुणानुवाद ठे. वीजो कोइ सृष्टिनो कर्ता नथी.

अज्ञानी अने मूर्ख लोकोए स्वकपोलकल्पित शास्त्रोमां इश्वर विषयमां मनमानी कल्पना करेली ठे. ते कल्पना वहु जीवो आज पर्यंत साची मानी सर्व कायों कर्या जाय ठे. जैनमत विना सर्वमत प्रायः ब्राह्मणोएज चलाव्या ठे. ते कारणथी ब्राह्मणोज मतोना विश्वकर्मा ठे. लौकिक शास्त्रोमां जे कांइ निरूपण करेल ठे ते सर्व ब्राह्मणो वास्तेज ठे. कारण के शास्त्रो वनावनारारुंनाना संतान प्रमुख शास्त्रना आधारथी खुव खाय ठे, पीए ठे तथा आनंद करे ठे. ब्राह्मणो तथा वेदोनी उत्पत्ति आवश्यक आदि शास्त्रोमां जे प्रमाणे घतावी ठे, ते प्रमाणे जव्यजीवोने जाणवा वास्ते हुं पण आ स्थले लखुं तुं

निदान सर्व जगतनो व्यवहार चलावी, जरत पुत्रने विनीता नगरीनुं राज्य आप्युं. वाहुवली पुत्रने तद्विलानुं राज्य आप्युं. वाकीना पुत्रोने वीजा देशोनुं राज्य वेहेची आप्युं. ते पुत्रोना नामथी ते ते देशो-

ना नाम पण पाडवामां आढ्यां. जेम के अंगदेश, वंगदेश, मगधदेश इत्यादि देशोना नामो पण पुत्रोना नामथी पड्यां.

वाद श्री रीपजदेवजीए खयमेव दीक्षा लीधी, तेमनी साथे कठ महाकठ सामंतादि चार हजार पुरुपोए दीक्षा लीधी.

श्रीरीपजदेवजीने एक वर्ष सुधी जिद्धा न मळी, तेटला वखतमां चार हजार पुरुपो तो नूखे मरवाथी जटाधारी वनी कंद, मूल, फल, फूल पत्रादि आहार करतां गंगा नदीनां वंने किनारा उपर तापसो वनी रेहेवा लाग्या, अने श्री रीपजदेवजीनुं ध्यान तथा जाप ब्रह्माआदि शब्दोथी करवा लाग्या.

श्री रीपजदेवजी एक वर्षे वित्या वाद वैशाख सुद ३ ना रोज हस्तिनापुरमां आढ्या, त्यां श्री रीपजदेवजीना पौत्र श्रेयांस कुमारे जातिस्मरण ज्ञानना वलथी जिद्धा वास्ते विहार करता एवा जगवानने इच्छुरसथी पारणुं कराव्युं. ते वखतमां लोकोए जिद्धाचरोने देख्या न होता, अने जिद्धा आपवानी विधि पण तेउं जाणता न होता, ते कारणथी श्री रीपजदेवजीने लोको हाथी, घोडा, आचूपण, कन्या आदिनी जेटतो बहु करता हता, परंतु श्री रीपजदेवजी तो त्यागी होवाथी तेउंनी जेट लेता न होता. पठी लोकोए श्रेयांस कुमारने जिद्धा आपतां देखी पुव्युं के तमे रीपजदेवजीने जिद्धार्थी केवी रीते जाण्या? त्यारे श्रेयांस कुमारे लोकोने पोतानो तथा श्री रीपजदेवजीनो पूर्वना आठ जवोनो संबंध कह्यो. ते सर्व अधिकार आवश्यक शास्त्रथी जाणवो. पठी सर्व लोक जिद्धा देवानी रीति जाणी गया.

श्री रीपजदेवजी एक हजार वर्ष सुधी देशोमां उद्दस्यपणे विचरता ह्वा. ते अवस्थामां कठ अने महाकठना पुत्र नमि तथा विनमिएप्रभुनी घहुज सेवा जक्ति करी. तेउंने धरणेंडे प्रज्ञप्ति आदि अडतालीश हजार (४००००) विद्या आपी वेताद्वय गिरिनी दक्षिण तथा उत्तर वाजु रूप एकेक श्रेणिनुं दरेकने राज्य आप्युं. तेउं सर्वे विद्याधर कहेवाया. आ विद्याधरोना वंशमां रावण, कुंजकरणादि तथा वाली सुग्रीवादि अने पवन हनुमानादि सर्वे विद्याधर थया ठे.

एकदा उद्दस्य अवस्थामां श्री रीपजदेवजी विहार करता करता था-

हुवलीनी तद्विला नगरीमां गया. वहार वगीचामां कायोत्सर्गमां स्थित रक्षा. ज्यारे बाहुवलीने जगवान पधारवाना समाचार मळ्या, त्यारे तेणे विचार कयों के आवती काले वडा आडंबरथी पिताजीने वंदना करवा जइश. प्रजात समये ज्यारे मोटा आडंबरथी पिताजीने वंदना करवा गया, त्यारे जगवान तो त्यांथी विहार करी गया, एम जाणवामां आवतां बाहुवली बहुज उदास थइ गया. पठी श्रीरीपन्नदेवजीना चरणोना स्यल उपर धर्मचक्रनी स्थापना करी. आ धर्मचक्र तीर्थ विक्रम राजाना वंखत सुधी रचुं, पठी ज्यारे पश्चिम दिशामां नवा मतमतांतरो उत्पन्न थया, त्यारे ते तीर्थ नष्ट थयुं.

अनुक्रमे श्रीरीपन्नदेवजी जगवान वाल्हीक, जोनक, अडंब, इल्लाक, सुवर्णचूमि, पल्लवकादि देशोमां विहार करवा लाग्या. जेजे देशवालाठये श्रीरीपन्नदेवजीनां दर्शन कयां, तेउ सर्व जइक खजाववाला थया, अने वाकीनाठ सर्व म्लेष्ठ, निर्दयी, अनार्य थइ गया; अनेक कल्पनिक मतो मानवा लाग्या, अने तेउना व्यवहार पण विपरीत तरेहना थया.

श्रीरीपन्नदेवजी एक हजार वर्ष व्यतीत थया वाद विहार करता करता विनीता नगरीना पुरिमताल नामना वागमां गया. वगीचामां वड-वृद्ध नीचे फागण वदी एकादशीने दिवसे, त्रण दिवसना उपवास ठतां प्रथम पहोरमां केवलज्ञान तथा केवलदर्शन अर्थात् सचराचर जगतमां चूत, जविष्य वर्तमानना सर्व जीवाजीव वस्तुमात्रनुं उत्पत्ति स्थिति अने लयनुं जाणवुं तथा देखवुं थयुं. ते समये चोसठ इंद्रो त्यां आव्या, सम-वसरणी देवोये रचना करी, तेमां त्रण गढ अने वार दरवाजा वनाव्या, मध्य जागमां मणिपीठिका वनावी, तेना मध्य जागमां अशोक वृद्धनी रचना करी, तेनी नीचे दरवाजानी सन्मुख चारे दिशामां चार सिंहास-नोनी रचना करी. तेमां पूर्वना सिंहासन उपर श्रीरीपन्नदेव जगवान वि-राजमान थया, अने वाकीना त्रण सिंहासनो उपर जगवान सदृश त्रण विंवोनी स्थापना करी, जे विंवोने देखवाथी, ते ते दरवाजेथी आवनारा सर्वे श्रीरीपन्नदेव जगवाननेज ते ते वाजुये देखता हता. तेज कारणथी जगतमां चारमुखवाला श्रीरीपन्नदेव जगवानज ब्रह्माना नामथी प्रसिद्ध थया ठे. धनंजय कोशमां श्रीरीपन्नदेवजीनुं नाम ब्रह्मा लखेल ठे.

ज्यारे श्रीरीषज्ञदेव जगवानने केवलज्ञान उत्पन्न थयुं, त्यारे जरतराजा, ते वात श्रवण करी सकल परिवार संयुक्त समवसरणमां वंदना करवाने तेमज उपदेश श्रवण करवाने आब्या.

श्रीरीषज्ञदेव जगवाननो उपदेश श्रवण करी जरत राजाना पांचसो पुत्र तथा सातसो पौत्र, अने ब्राह्मी तथा बीजी अनेक स्त्रीउण दीक्षा लीधी. मरुदेवीजी तो जगवानना प्रातिहार्यांदि देखी तथा वाणी सांजली केवलज्ञान पामी मोक्ष पाम्या हतां. जरतना मोटा पुत्र रीषज्ञसेन (पुंडरीक) हता, ते सोरठ देशमां शत्रुंजय तीर्थ उपर अनशन करी मोक्ष पाम्या. ते कारणथी शत्रुंजयनुं नाम पुंडरीक राखवामां आब्युं.

जरतना जे पांचसो पुत्रोथे दीक्षा लीधी हती, तेउमां एकनुं नाम मरीचि हतुं. मरीचिने जैनदीक्षानुं पालवुं अति कठिन लागवाथी पोतानी आजीविका चलाववा वास्ते स्वमतिकल्पनाये तेमणे नवो उपाय उत्पन्न कर्यो. फरी गृहस्थावास अंगीकार करवानुं काम तेने हीनतावावुं लाग्युं, तेथी एक कुलिंग आरोपण कर्युं. एवा विचारथी के साधु तो मनदंड, वचनदंड अने कायदंडथी रहित ठे, अने हुं तो ए त्रणे दंड संयुक्त हुं; ते कारणथी मारे त्रिदंड राखवो जोश्यें. साधु तो ड्रव्य अने जावथी मुंडित ठे, तेथी लोच करे ठे, अने हुं तो ड्रव्यमुंडित हुं, तेथी मारे अस्त्राथी मस्तक मुंडावुं जोश्यें, अने शिखा पण राखवी जोश्यें; वली साधु तो पांच महाव्रत पाळे ठे, परंतु मारे तो मात्र स्थूल जीवनी हिंसानो त्याग ठे. साधु तो निःकंचनवाला ठे, अर्थात् परिग्रह रहित ठे, अने मारे तो पवित्रकादि राखवी जोश्यें. साधु तो शीलथी सुगंधित ठे, अने हुं तेवो नथी, तेथी मारे चंदन प्रमुखनी सुगंध लेवी ठीक ठे. साधु तो मोह रहित ठे, अने हुं तो मोह संयुक्त हुं, तेथी मोहाढादितने ठत्री राखवी जोश्यें. साधु तो उपानह रहित ठे, मारे तो उपानह पेहेरवा जोश्यें. साधु तो निर्मल ठे, तेथी शुक्लांबरधारी ठे, अने हुं तो क्रोध, मान, माया, लोभ आ चारे कपायो संयुक्त हुं, तेथी मलीन होवाथी, कपायवस्त्र अर्थात् गेरु रंगवालां वस्त्रो मारे राखवा जोश्यें. साधु तो सचित्त जलना त्यागी ठे, अने हुं तो गलीने सचित्त जल पीश, अने स्नान पण करीश. एवीज रीं स्थूल मृषावाद आदिथी पण ते निवृत्त थयो. आ प्रमाणे मरीचिये पोता

नी आजीविकावास्ते स्वमतिपूर्वक लिंग बनाव्युं, अने तेज लिंग परि-
ब्राजकोनुं रहुं.

मरीचि जगवाननी साथेज विहार करतो हतो, तेनुं साधुज्यी विप-
रीत लिंग देखी लोको पुठवा लाग्या, परंतु मरीचि साधुनो यथार्थ धर्म
कहेतो हतो, अने पोतानो पाखंड वेप पूर्वोक्त रीतिये प्रगट करतो हतो.
तेनीपासे उपदेश श्रवण करी जेठ दीक्षा लेवा चाहता हता, तेउने जग-
वानना साधु पासे दीक्षा लेवा मोकलतो हतो. एकदा मरीचि रोगग्रस्त
थयो, अने विचार करतां पोते असंयति ठे एवुं लागवाथी, तेमज सा-
धुज मारी वैयावच्च करशे नहीं, अने मारे तेउनी पासे वैयावच्च करावकी
ते पण ठीक नहीं एवुं धारी, मारे एक चेलो वैयावच्चवास्ते करवो जोश्ये,
एवो निश्चय कर्यो. आ वखते श्रीरीपजदेव जगवान निर्वाण पाम्या हता.
ते समये एक कपिल नामनो राजानो पुत्र हतो, ते मरीचि पासे धर्म श्र-
वण करवा आव्यो. मरीचिये तेने यथार्थ साधुनो धर्म वताव्यो. लिंग,
आचार सर्व वताव्या. कपिले पुव्युं के तमारुं लिंग विलक्षण केम ठे ?
मरीचिये कहुं हुं साधुधर्म पालवा असमर्थ तुं, तेज कारणथी आ लिंग,
निर्वाहवास्ते स्वकपोलकद्विपत वनावेल ठे. कपिले कहुं के मने पण श्री-
रीपजदेव जगवाननो धर्म रुचतो नथी. तमे कहो ? तमारी पासे धर्म ठे
के नहीं ? मरीचिये जाणुं के आ जारेकर्मी जीव ठे, अने मारोज शि-
ष्य थवा योग्य ठे, ते लोजथी मरीचिये कही दीधुं के त्यां पण धर्म ठे,
अने मारी पासे पण कांश्क धर्म ठे. ते सांजली कपिल मरीचिनो शिष्य
थयो. आ कपिल मुनिनी उत्पत्ति ठे. ते वखते मरीचि तेमज कपिलनी पासे
कोइ पण पुस्तक नहोतुं. निःकेवल जे कांश् आचार मरीचिये कपिलने वता-
व्यो, तेज आचार कपिल करतो रह्यो. मरीचिये उत्सूत्र जापण करवा-
थी एक कोटाकोटी सागरोपम सुधी संसारमां जन्ममरणनी वृद्धि करी.
मरीचि काल करी गयो. वाद कपिल ग्रंथार्थज्ञानशुन्य, मरीचिनी वता-
वेली रीति उपरज आचार पालतो हतो. कपिलने आसुरी नामनो शिष्य
थयो. कपिले आसुरीने पोतानोज सर्व आचार वताव्यो. कपिले बीजा
पण अनेक शिष्यो वनाव्या, तेउना प्रेममां रक्त थयो थको, मरीने ब्रह्मनामा
पांचमा देवलोकमां देवता थयो. उत्पत्ति अनंतर अवधिज्ञानथी जोयुं के

दानादि शुं शुं अनुष्ठान में कर्या ठें ? जेथी हुं देवता थयो, ज्ञानथी जोतां पोताना शिष्य आसुरीने ग्रंथार्थज्ञानशुन्य दीठो. विचार कर्यो के मारो शिष्य कंइ पण जाणतो नथी, तेने कांइक तत्त्वनो उपदेश करुं तो ठीक. एवो विचार करी कपिल देवता आकाशमां पंचवर्णना मंडलमां रही; पोताना शिष्यने तत्त्वज्ञाननो उपदेश करवा लाग्या. यथा— अव्यक्तथी-व्यक्त प्रगट थाय ठे; ते अवसरे पष्ठितंत्रशास्त्र आसुरीए रच्युं. तेमां एवुं कथन कर्युं के प्रकृतिमांथी महान् थाय ठे, अने महान्थी अहंकार थाय ठे, अहंकारथी गण षोडश थाय ठे, गणषोडशथी, पंचतन्मात्रा थाय ठे, अने पंचतन्मात्राथी पंच महाजूत थाय ठे, इत्यादि स्वरूप आ ग्रंथमां पूर्वे सांख्यमां लखी आव्या ठीयें. तेउना संप्रदायमां नामीसंख नामा आचार्य थया, त्यारथी ते मतनुं नाम सांख्यमत प्रसिद्ध थयुं. वास्तविक रीते सर्व परित्राजक संन्यासीउना लिंग आचारादि धर्मनुं मूल मरीचि थयो. ते सांख्यमतना तत्वो हाल पण जगवद्गीता तथा जगवतादि ग्रंथोमां अने सांख्यमतना शास्त्रोमां प्रचलित ठे. एक जैनमतविना बीजा सर्व मतनुं मूल आ मतथीज समजवुं जोइए.

ज्यारे श्रीरीपञ्जदेवजीने केवलज्ञान उत्पन्न थयुं. त्यारे जरतने पण तेज रोज आयुद्धशालामां चकरल उत्पन्न थयुं. जेथी जरते जरत क्षेत्रना ठए खंडोमां पोतानुं राज्य स्थापी आज्ञा मनावी, तेज कारणथी तेनुं नाम जरतखंड प्रसिद्ध थयुं.

ज्यारे जरते पोताना नाना जाइउने आज्ञा मनाववा वास्ते दूत मोकड्या, त्यारे तेउए विचार कर्यो के राज्य तो अमने पिताश्री आपी गया ठे. तो पठी जरतनी आज्ञा अमारे शा वास्ते मानवी जोइये ! चालो पिताश्री पासे जइ सर्व वृत्तांत कहीयें. जो पिताजी कहेके तमे जरतनी आज्ञा मानो तो पठी अमे जरतनी आज्ञा मानीशुं, अने पिताजी कहेके तमे जरतनी साथे लडो, तो पठी अमे जरतनीसाथे लडशुं, एवो विचार करी अछाणु जाइउ कैलास पर्वत उपर श्रीरीपञ्जदेव जगवान पासे गया. जगवान तेउना अंतःकरणना अजिप्राय जाणी तेउने उपदेश करता ह्वा. श्री जगवाने जे उपदेश कर्यो ते श्रीसूत्रकृतांग सूत्रना बीजा वेतालीय अध्ययनमां लखेल ठे. ते उपदेश श्रवण करी जगवानना अ-

छाणु पुत्रोऽदीक्षा लक्ष्मी दीधी. सर्वं तकरार तजी दीधी. तेम वनवायी
 जरतनी अपकीर्ति थइ; तेथी जरत चक्रवर्ती पांचसो गाडां पकानना
 लावी समवसरणमां आव्या, अने कहेवा लाग्या के हुं मारा जाइउने जो-
 जन करावीश, अने मारो अपराध क्षमा करावीश. श्री रीपजदेव ज-
 गवाने कछुं के, एवो आहार साधुने कल्पे नहीं. ते सांजली जरत म-
 नमां बहुज उदास थया. तेमणे पठी पुव्युं के जगवन् आ आहार कोने
 खवरावुं ? त्यारे इंडे कछुं के तमारथी जेठ गुणोमां अधिक होय तेउने
 आ जोजन आपो. जरते विचार कयों के मारथी गुणाधिक तो श्रावक ठे,
 तेथी तेउने जोजन करावुं, एवो निश्चय करी सर्वे गुणवान श्रावकोने जोजन
 कराव्युं. वली ते श्रावकोने जरतजीए कछुं के तमे सर्वे प्रतिदिन मारुं जोजन
 कर्या करो ? तमारे खेती वाणिज्यादि कांइ पण काम करवुं नहिं. निःकेवल
 स्वाध्याय करवामां तत्पर रहो. जोजन करी मारा मेहेलोना दरवाजा पासे
 बेसी आग्रमाणे कहो “जीतो जवान् वर्द्धते जयं तस्मान्माहन माहनेति”
 ते श्रावको पण तेमज करता हवा. जरत राजा तो जोगविलासमां मग्न
 रहेता हता, परंतु ज्यारे श्रावकोना शब्दो सांजलवामां आवता हता
 त्यारे मनमां विचारता हता के हुं कोनाथी जीतायो तुं ? विचार करतां
 निश्चय थयो के क्रोध, मान, माया अने लोच, आ चारे कपायोए मने
 जीतेल ठे. अने तेनाथीज जयनी वृद्धि ठे, एवा निश्चयात्मक विचारथी
 जरतजीने जारे वैराग्य उत्पन्न थतो हतो. अनुक्रमे रसोइ जमनारा श्रा-
 वको बहु बधी गया, तेथी रसोइ करनाराउण आवीने जरत महाराजने
 विनंति करी के आ समुदायमां श्रावक कोण ठे, अने कोण नथी ? ते
 थमे जाणी शकता नथी. जरतजीए तेउने कछुं के तमे पुठीने तेउने
 जोजन करावो. रसोइआउण जमनाराउने पुठतां, जेठ श्रावकना पांच
 अणुव्रत त्रण गुणव्रत अने चार शिक्षाव्रत धारण करनारा हता, तेउने
 श्रावक मानी जरत महाराज पासे तेउने लाववामां आवता हता. जरत
 महाराज तेउना शरीर उपर कांकणी रत्नथी त्रण त्रण रेखाना चिन्ह क-
 रता, अने दर ठ महीने तेउनी परीक्षा करवामां आवती हती. ते सर्व
 श्रावक ब्राह्मणना नामथी प्रसिद्ध थया; कारणके ज्यारे जरत महाराजना
 दरवाजा पासे तेउ माहन माहन शब्द वारंवार उच्चार करता हता,

त्यारे लोको तेजने माहन माहन कहेवा लाग्या. जैनमतना शास्त्रोमां प्राकृत जापामां हाल पण ब्राह्मणोने माहन शब्दथी लखेल ठे; संस्कृत ब्राह्मण शब्द ठे; ते प्राकृत व्याकरणमां वंजण तेमज माहणना स्वरूपथी सिद्ध थाय ठे, श्री अनुयोगद्वार सूत्रमां ब्राह्मणोना नाम “बुद्ध सावया” अर्थात् वडा श्रावक लखेल ठे. ए प्रमाणे ब्राह्मणोनी उत्पत्ति ठे, ते ब्राह्मणो पोताना पुत्रोने साधुजने आपता हता, अने जेज दीक्षा लेता न हता, तेज व्रतधारी श्रावक थता हता; आ रीति जरतना राज्यमां हती.

जरत महाराजना पुत्र आदित्यश थया, अर्थात् सूर्यश थया, जेना वंशजो जरतक्षेत्रमां सूर्यवंशी कहेवाय ठे. बाहुवलीना मोटा पुत्र चंद्रश थया, तेना वंशजो चंद्रवंशी कहेवाय ठे. श्रीरीपद्मदेवजीना कुरुवंशी कहेवाय ठे, जेजमां कौरव पांडव थयेला ठे.

ज्यारे सूर्यश सिंहासन उपर वेठा, त्यारे तेनी पासे काकणी रत्न न्होतुं. काकणीरत्न चक्रवर्ती शिवाय बीजा कोइ पासे होतुं नथी. ते कारणथी सूर्यश राजाये ब्राह्मण श्रावकोना गलामां सुवर्णमय यज्ञोपवीत दाखल करावी, जे जापामां जनोइ कहेवाय ठे. जोजन प्रमुख सर्वे, जरत महाराजनी जेम तेजने आपता रह्या. सूर्यशना पुत्र महायश गादी उपर वेठा, तेणे रूपानी यज्ञोपवीत वनावी आपी. बाद तेजना वंशजो रेशमी यज्ञोपवीत आपता हवा. ठेवटे सादा सूतरनी वनावामां आवी. आ प्रमाणे यज्ञोपवीतनी उत्पत्ति ठे.

जरतमहाराजनी आठ पाट सुधी तो ब्राह्मणोनी जक्ति जरतजीनी पेठेज थती रहीं. बाद प्रजा पण ब्राह्मणोने जोजन कराववा लागी. सर्व स्यले ब्राह्मणो पूजनीक गणावा लाग्या. ए प्रमाणे आठमा तीर्थंकर श्री चंद्रप्रज्ञ स्वामिना वखत सुधी सर्व ब्राह्मणो व्रतधारी जैनधर्मी श्रावको रह्या. श्रीचंद्रप्रज्ञ जगवाननी पठी केटलोएक काल व्यतीत थया बाद आ जरतखंडमां जैनमत अर्थात् चतुर्विध संघ तथा सर्व शास्त्रो विष्टेद थइ गयां, ते वखते ते ब्राह्मणाजासोने लोको पुठवा लाग्या के अमने धर्मनुं स्वरूप घतावो. ते वखते ब्राह्मणोये स्वमतिकल्पनाथी जेमां पोतानो खाज दीगो तेवो धर्म घताव्यो. अनेक ग्रंथो पण ते प्रमाणे वनावामां आव्या.

ज्यारे नवमा श्रीसुविधिनाथ (पुष्पदंत) अरिहंत थया, त्यारे फरी

जैनधर्म प्रगट थयो. ते जगवाननो धर्म केटलाएक ब्राह्मणाजासोये न अंगीकार कयों. स्वकपोलकट्पित मतनोज कदाग्रह राख्यो. साधुर्जनो छेप करवा लाग्या. चारे वेदोनां नामो बदलावी नाख्यां, अने ते वेदोमां मतलव पण कांइनी कांइ लखी दीधी.

ह्वे चारे वेदोनी उत्पत्ति लखीये ठीये. ज्यारे जरत राजाये ब्राह्मणोनी पूजा करी, त्यारे बीजा लोको पण ब्राह्मणोने अनेक तरेहनां दान आपवा लाग्या. ते प्रसंगे श्रीजरतचक्रवर्तीये श्रीरीपञ्चदेव जगवानना उपदेश अनुसार ब्राह्मणोने निरंतर स्वाध्याय करवावास्ते श्रीआदीश्वर (रीपञ्चदेव) जगवाननी स्तुति तथा श्रावकधर्मस्वरूपगर्जित चार आर्यवेदनी रचना करी. तेना नाम. १ संसार दर्शनवेद २ संस्थापन परामर्शनवेद, ३ तत्त्वावबोध वेद, ४ विद्याप्रबोध वेद. चारे वेदोमां सर्वनयसंयुक्त वस्तु स्वरूप कथन ते ब्राह्मणोने शिखववामां आव्युं. पुर्वोक्त चार वेद तथा ब्राह्मणो आठमा तीर्थंकर सुधी यथार्थ प्रवर्तता रह्या. आठमा तीर्थंकरनुं तीर्थ व्यवहेद थतां ब्राह्मणोये ब्रष्ट थइ धनना लोचथी ते वेदोमां जीवहिंसा दाखल करी. चारे वेद उलट पालट करी नाख्या. जैनधर्मनुं नाम चारे वेदमांथी काढी नाख्युं, एटलुंज नहीं पण अन्योक्तिथी “दैत्य दस्यु वेदवाह्य” इत्यादि नामोथी साधुर्जनी निंदागर्जित १ रुग्, २ यजुर, ३ साम, ४ अथर्व, आ चार नामना वेद कटपवामां आव्या. जे ब्राह्मणोये तीर्थंकरोनो उपदेश अंगीकार कयों, तेउये पूर्व वेदोना मंत्रोनो त्याग कयों नहीं. ते मंत्रो आजसुधी दक्षिणमां कर्णाटकदेशमां जैन ब्राह्मणोने कंठस्थ ठे. ते प्रमाणे अमे देख्युं ठे तथा सांचळ्युं ठे. अमारी पासे पण प्राचीन वेदोना केटलाएक मंत्रोठे. यतः ॥ सिरि जरह चक्रवट्टी, आयरिय वेयाणविस्सुउत्पत्ती ॥ माहणपढणत्थमिणं, कहियं सुहज्जाण विवहारं ॥ १ ॥ जीणतिठे बुद्धिन्ने, मिन्नत्ते माहणेहिंतेठविया ॥ अस्संज्याण पूआ, अप्पाणं काहिया तेहिं ॥ २ ॥ इत्यादि. ह्वे वेदोनीरचना हिंसा संयुक्त, याज्ञवल्क्य, सुलसा, पिप्पलाद अनेपर्वत प्रमुखोये केवी रीते रची तेनुं पण कांइक स्वरूप लखीये ठीये.

बृहदारण्यक उपनिषद्नी ज्ञाप्यमां लख्युं ठे के, यज्ञोनुं कथन करनार. याज्ञवल्क्य तेना पुत्र याज्ञवल्क्य ठे. ते कहेवार्थी एम. प्रतीत थाय ठे के

यज्ञोनी रीति प्रायः याज्ञवल्क्यथीज चाली ठे. ब्राह्मण लोकोथे शास्त्रोमां लख्युं ठे के याज्ञवल्क्ये पूर्ववती ब्रह्मविद्या वमीने नवीन ब्रह्मविद्या सूर्यनी पासे शिखी, प्रचलित करी; तेशी पण एज अनुमान थाय ठे के, याज्ञवल्क्येज प्राचीन वेद तर्जी दीधा अने नवा वेद बनाव्या.

श्री त्रेशठ शिलाका पुरुष चरित्र ग्रंथना आठमा पर्वना बीजा सर्गमां लख्युं ठे के काशपुरीमां वे संन्यासणीउं रहेती हती. एकतुं नाम सुलसा अने बीजीनुं नाम सुजडा हुतुं. वंने वेद, वेदांगोनी जाणकार हती. वंने वेहेनोए बहु वादीउंने वादमां जीत्या हता. ते अवसरे याज्ञवल्क्य परित्राजक तेउंनी साथे वाद करवाने आव्या. अरस परस एवी प्रतिज्ञा करी के, जे हारी जाय ते जीतनारनी सेवा करे. याज्ञवल्क्ये सुलसाने वादमां जीती अने पोतानी सेवा करनारी बनावी. सुलसा पण रातदिवस याज्ञवल्क्यनी सेवा करवा लागी, याज्ञवल्क्य अने सुलसा वंने यौवनवंत हता. तेशी कामातुर थइ जवाथी वंने जोगविलासमां लागी गया. निदान अग्नि अने घी साथे होय तो घी उंगल्या विना रहेतुं नथी. कामक्रीडामां मग्न थइ जवाथी काशपुरीनी पासेनी एक कुटीमां वंने वास करता हता. याज्ञवल्क्यथी सुलसाने पुत्र थयो. लोकोना उपहासना जयथी ते पुत्रने पिपलाना वृद्धनीचे मुकी वंने जणाउं दूर नासी गया. आ वृत्तांत सुलसानी वहेन सुजडना जाणवामां आव्युं. सुजडा वालकनीपासे आवी. वालकने देखतां ते स्वयमेव पीपलानुं फल मुखमां पडेलुं चवोलतुं हतुं. सुजडाये वालकने लइ पोताना स्थानमां आय्युं. तेनुं नाम पिप्पलाद राख्युं. यत्ताथी पालण कर्युं, वेदादि शास्त्रो जणाव्यां, पिप्पलाद बहु बुद्धिमान थयो. बहु वादीउंने जीती तेउंनां अजिमाननो तेणे नाश कख्यो. पिप्पलादनी साथे अनुक्रमे याज्ञवल्क्य तथा सुलसा पण वाद करवा आव्या, पिप्पलादे वंनेने वादमां जीत्या. वाद समुद्रा मासीना कहेवाथी तेना जाणवामां आव्यु के, ते वंने तेना माता पिता ठे. मने जन्म आपी निर्दयताथी वृद्धनीचे मुकी वंने नासी गया हता, ए वृत्तांत पण तेना जाणवामां आव्यो. अत्यंत क्रोधयुक्त थइ पिप्पलादे सम्यक् रीतिए याज्ञवल्क्य तथा सुलसा सन्मुख मातृमेध तथा पितृमेध यज्ञोने सिद्ध करी, पितृमेध यज्ञमां याज्ञवल्क्यनो अने मातृमेध यज्ञमां सुलसानो द्दोम कर्यो.

पिप्पलाद मीमांसक मतनो मुख्य आचार्य थयो. तेनो वातली नामा शिष्य थयो, त्यारथी जीवहिंसा संयुक्त यज्ञ प्रचलित थया.

याज्ञवल्क्ये नवा वेदो वनाव्या ठे, तेमां कांश् पण शंका नथी, कारण के वेदमां लख्युं ठे के “याज्ञवल्क्येती होवाच” अर्थात् याज्ञवल्क्य आ प्रमाणे कहेता हवा. वेदमां जे शाखाउं ठे ते वेद कर्ता ऋषियोना अधिकारनी ठे; तेथी आवश्यक सूत्रमां जे लख्युं ठे के जीवहिंसा संयुक्त जे वेद ठे, ते याज्ञवल्क्य अने सुलसा आदिये वनाव्या ठे, ते वात सत्य ठे, कारण के केटलीएक उपनिषदोमां पिप्पलादनुं नाम ठे, अने केटलाएक स्थले वीजा ऋषियोनां पण नामो ठे. जमदग्नि कश्यप तो वेदोमां खास नामथी लखेल ठे. हवे विचारो के वेदो नवा वनावचामां आव्या तेमां शुं शंका रहे ठे ?

वली लंकानो अधिपति राजा रावण, ज्यारे दिग्विजय करवा वास्ते देशोमां चतुरंगी सेना साथे वीजा राजाउने पोतानी आज्ञा मनाववा फरतो हतो, ते थवसरे नारदमुनि लाकडी प्रमुखना मारथी कुटाया होवाथी पोकार करता रावणनी पासे आव्या. रावणे नारदजीने पुत्रुं के तमने कोणे मार मार्यो, त्यारे नारदजीये कह्युं के, राजपुर नगरमां मरुत नामनो राजा ठे, ते मिध्यादृष्टि ठे, अने ब्राह्मणाज्ञासोना उपदेशथी यज्ञ करवा लाग्यो, ते समये शिकारीउनी जेम होमने वास्ते ते ब्राह्मणाज्ञासोने, अरराट शब्दो करता पशुउने यज्ञोमां होमवावास्ते मारतां में दीठा. आकाशथी उतरी मरुत राजा ब्राह्मणोनी साथे घेठो हतो, त्यां आवी, मरुतराजाने में कह्युं के आ तमें सर्वे शुं काम करवा लागी रह्या ठो? मरुतराजाए कह्युं के ब्राह्मणोना उपदेशथी देवताउनी तृप्तिवास्ते तेमज स्वर्ग प्राप्तिवास्ते पशुउना वलिदानथी आ यज्ञ करवो शरु कयों ठे, आ प्रमाणे यज्ञ करवो ते महा धर्म ठे. पठी में कह्युं के हे राजा ! चारे वेदोमां जे प्रमाणे यज्ञ करवानुं कथन करेल ठे, ते यज्ञ करवानी विधि तमने कह्युं तुं ते सांजलो? आत्मा यज्ञनो यष्टा अर्थात् करनार ठे, तप रूप अग्नि ठे, ज्ञानरूप घी ठे, कर्मरूप इंधन ठे, क्रोध, मान, माया, लोभादि पशुउं ठे, सत्यवचनरूप घूप अर्थात् यज्ञस्यंज ठे, सर्व जीवोने अजयदानरूप दक्षिणा ठे, अने ज्ञान दर्शन चारित्र रत्नत्रयीरूप त्रिवेदी

ठे. आ प्रमाणे यज्ञ वेदमां कथन करेल ठे, एवो यज्ञ जो योगाच्यास सं-
युक्त करवामां आवे तो ते करनारो मुक्ति प्राप्त करे ठे; परंतु राक्षसरूप
थइ वकराप्रमुखने मारी यज्ञ करवामां आवे तो, यज्ञ करनार, कराव-
नार, मरीने घोर नर्कमां चिरकाल महादुःख जोगवे ठे. हे राजा! तुं उ-
त्तम वंशमां उत्पन्न थयेल ठो, बुद्धिमान् तेमज धनवान् ठो, तेथी आ
व्याधोचित पापथी निवर्त. जो प्राणीवधथीज जीवोने स्वर्ग प्राप्त थतुं होत
तो अनायासे थोडा वखतमांज आ जीवलोक खाळी थइ जशे. आ मारा
वचनो सांजली यज्ञनी अग्निनी जेम प्रचंड थयेल्ला ब्राह्मणो लाकडी, सो-
टा, ढीका, पाट्ट मने मारवा लाग्या, तेथी जेम नदीना पूरथी जय पामे-
लो माणस उंची जमीन उपर चडी जाय ठे, तेम दोडतो हुं तमारीपासे
आव्यो हुं. हे रावण महाराज! निरपराधी पशुं मार्या जाय ठे. तेउंतुं
रक्षण करवामां तमे समर्थ ठो. जेम तमारां शरणथी हुं निर्जय हुं तेम
पशुंने शरण आपी निर्जय करो. ते सांजली रावण विमानथी उतरी
मरुत राजानी पासे आव्या. मरुत राजाये रावणनी जक्ति तथा आदर
सन्मान उत्तम प्रकारे कर्या. रावणे कहुं आ तमे शुं करो ठो? यज्ञमां
पशुवध करी नर्कनी महा माठी गति उपार्जन करवानुं तमोए आरंज्युं ठे.
धर्म तो तीर्थंकर महाराजाये अहिंसारूप कथन करेलो ठे, अने तेथीज
जगतनुं हित थाय ठे; ज्यारें पशुंने मारवामां तमे धर्म समज्या, त्यारे
अधर्म, धर्मनी तमने समजणज क्यां ठरी? माटे आ काम तमे तजी थो.
पठी सेहेज कोपमां आवी रावणे कहुं के जो यज्ञ करवानुं काम तजी
नही थो तो तेनुं फल आ लोकमां तो तमने हमणांज आपीश, अने पर-
लोकमां तमारे नर्कना मेमान थतुं पडशे. आवा जयात्मक वचन सांजली
मरुत राजाये यज्ञ करवो तजी दीधो, कारण के रावणनी आझा ते व-
खते एवी जयंकर हती के तेनुं कोइ उल्लंघन करी शकतुं नही. आ क-
थाथी एम पण सिद्ध थाय ठे के, ब्राह्मण लोको जे एम कहे ठे के, पूर्वे
राक्षसो यज्ञविध्वंस करता हता, ते कोण जाणे रावणादि जवरदस्त जे-
नधर्मी राजांये पशुवधरूप यज्ञो करता ठोडावी दीधा होय; अने तेज
कालथी ब्राह्मणोये पुराणादि शास्त्रोमां ते जवरदस्त जैनराजांने राक्षसो
खखेला ठे. चली एम पण सांजलवामां आव्युं ठे के नारदजीये मायाना

वशथी जैनमत धारण करी वेदोनी निंदा करी होय तोपण शुं जाणीये? आ कथानो आज तात्पर्य लोकोये लखेलो ठे.

रावणे नारदजीने पुढ्युं के आवो पापकारी पशुवधात्मक यज्ञ क्यांथी प्रचलित थयो? नारदजीये कछुं के शुक्तिमती नदीना किनारा उपर शुक्तिमती नामे नगरी ठे. वीशमा श्रीमुनिसुव्रत स्वामि हरिवंश तीर्थकरनी उलादमां केटलायेक राजा व्यतीत थइ गया पठी अजिचंद्र नामा राजा थयो. तेनो वसु नामनो पुत्र, महाबुद्धिवान, सत्यवादी जगत्मां प्रसिद्ध थयो. तेज नगरीमां क्षीरकदंबक नामना उपाध्याय रहेता हता. तेने पर्वत नामनो पुत्र हतो. ते क्षीरकदंबक उपाध्यायनी पासे वसुराजा, उपाध्यायजीनो पुत्र पर्वत अने हुं नारद त्रणे जणा अन्यास करता हता. एकदा अमो त्रणे शिष्यो अन्यासना श्रमथी रात्रिना वेहेला सुइ गया हता, उपाध्यायजी ते वखते जागता हता. अमो उपरना जागमां सुता हता, ते वखते वे ज्ञानवान् चारण साधु आकाशमां परस्पर वातो करता चाट्या जता हता, तेउ बोल्या के आ उपाध्यायजीना वे शिष्यो नर्कमां जशे, अने एक स्वर्गमां जशे. मुनियोतुं आ प्रमाणे बोलवुं सांचली उपाध्यायजी विचार करवा लाग्या के ज्यारे मारा शिखवेला शिष्यो नर्कमां जाय, त्यारे तेना करतां वधारे दुःखजनक बीजु शुं? परंतु त्रणमां नर्कमां कोण जशे अने स्वर्गमां कोण जशे? ते वातनो निर्णय करवा वास्ते त्रणेने एक साथे बोलाव्या. पठी गुरुये अमने दरेकने एकेक लोटनो कुकडो आप्यो, अने कछुं के कुकडाने एवी जगाये जइ मारो के ज्यां कोइ देखतुं न होय. पठी वसु अने पर्वत वंने जणा तो शून्य जगाउंमां जइ दरेक पोतपोताना कुकडाने मारी लाव्या, अने हुंतो ते लोटना कुकडाने लइ नगरीनी वहार बहुज दूर चाट्यो गयो. ज्यां कोइ नहोतुं त्यां जइ उचो रह्यो. चारे तरफ जोवा लाग्यो, अने मनमां आ प्रमाणे तर्क थवा लाग्या. गुरु महाराजे तो आझा करी ठे के, हे वत्स! आ कुकडाने तुं त्यां मारजे, के ज्यां कोइ तने देखतुं न होय! प्रथम तो आ कुकडाने हुंज देखुं तुं, वली कुकडो मने देखे ठे, खेचर देखे ठे, लोकपाल देखे ठे; ज्ञानी देखे ठे, एवुं तो जगत्मां कोइ पण स्थान नथी, ज्यां कोइ पण न देखतुं होय. ते कारणथी गुरुनो अजिप्राय

एज ठे के, आ कुकडानो वध न करवो, कारण के गुरु पूज्य तो निरंतर महा दयालु ठे, अने हिंसाथी पराङ्मुख ठे. मात्र अमारी परीक्षावास्ते आ आदेश आप्यो ठे, तेथी हुं तो कुकडाने मार्याविनाज कुकडाने लइ गुरुपासे आव्यो, अने कुकडाने नही मारवाना सघला विचार गुरुजीने कही दीधा. गुरुराजे मनमां निश्चय कयों के, आ नारद विवेकवालो ठे, तेथी स्वर्गमां जशे, गुरुजीये मने पोतानी ठाती साथे लगावी, बहु सारुं थयुं उत्तम उत्तम! एम कछुं; तेठलामां वसु अने पर्वत पण गुरु पासे आव्या, अने गुरुने कछुं के अमो कुकडाने एवी जगाये जइ मारी आव्या ठीये के ज्यां कोइ देखतुं न होतुं. गुरुये कछुं के तमे तो देखता हता, तथा खेचरो पण देखता हता. हे पापिष्ठो! तमे कुकडा केम मार्या? एम कही गुरुजीये विचार कयों के वसु अने पर्वतने जणाववानी मारी मेहेनत बृथा गइ. परंतु हुं शुं करुं! पाणी जेवा पात्रमां जाय ठे, तेवुंज वनी जाय ठे. विद्यानो पण तेवोज स्वप्नाव ठे. ज्यारे प्राण्यी प्यारो पर्वत पुत्र अने पुत्रथी प्यारो वसु वंने नर्कमां जाय, तो हवे मारे घरमां रहेवानुं शुं प्रयोजन ठे? एवा निवेद जावथी क्षीरकदंबक उपाध्यायजीये दीक्षा ग्रहण करी. साधु थया. तेनी पदवी पर्वते धारण करी, कारण के व्याख्यान करवामां पर्वत बहुज विचक्षण हतो. हुं (नारद) गुरु प्रसादथी सर्व शास्त्रोनों अज्यास करी मारे स्थानके आव्यो. वली अजिचंद्र राजाये संयम लेवाथी वसु तेना पितानी राज्यगादी उपर वेगो. वसु राजा जगत्मां सत्यवादी प्रसिद्ध थयो, अर्थात् वसुराजा कदापि जृतुं बोखता नथी, ए प्रमाणे लोकोमां तेनी प्रशंसा प्रसरी गइ. वसुराजाए पण पोतानी प्रशंसा निरंतर थया करे ते सारुं सत्य घोखवानुं दृढ व्रत अंगीकार कयुं. दरमीअन वसुराजाने एक स्फटिक सिंहासन प्रद्यन्न रीते एवुं मली गयुं के, सूर्यना प्रकाशमां ज्यारे वसुराजा ते सिंहासन उपर बेसतो त्यारे, ते सिंहासन लोकोना देखवामां घिसकुप्र आवतुं नहोतुं, तेथी लोकोमां एवी प्रसीद्धि थइ के, सत्यना प्रजावथी वसुराजानुं सिंहासन देवताउं आकाशमां अथर राखे ठे. तेनी थावी कीर्त्तिघी धीजा सर्वे राजाउं डरीने तेनी थाहा मानता हता, कारण के साची थयवा जूनी रामे ते रीते घयेली प्रसीद्धि पुरुपने जयफारी घाय ठे.

एकदा प्रस्तावे हूं (नारद) सूक्तिमती नगरीमां गयो. पर्वतने धेर जतां ते पोताना शिष्योने रूग्वेद जणावतो हतो, अने तेनो अर्थ पण शिखवतो हतो. प्रसंगे एवी श्रुति रूग्वेदमां आवी के “ अर्जेयष्टव्यमिति ” पर्वते आ श्रुतिनो एवो अर्थ कयों के अज अर्थात् वकरार्थी होम करवो, सारांश के वकराने मारी तेना मांसनो होम यज्ञमां करवो. ते सांजली में पर्वतने कछुं हे जाइ ! आ प्रमाणे व्याख्या कइ त्रांतिथी करे ठे ? गुरुश्रीक्षीरकदंबकजीए आ श्रुतिनी आवी व्याख्या करी नथी, गुरुजीए तो आ श्रुतिमां अज शब्दनो अर्थ त्रण वर्पनुं जुनुं धान्य करेलो ठे; “ न जायंत इत्यजा ” जे वाववाथी न उत्पन्न थाय ते अजा, आवो अर्थ श्रीगुरुजीए तमने तथा मने शिखाव्यो हतो, ते अर्थ तमे केम जूली जाउ ठो ? पर्वते कछुं के तमे जे अर्थ करोठो ते अर्थ गुरुजीए कयों नथी, परंतु हूं जे अर्थ करूं तुं, तेम अर्थ गुरुजीए कयों हतो, कारण के निघंटमां पण अजा नाम वकरीनुंज लखेलुं ठे. पठी में (नारदे) पर्वतने कछुं के शब्दोना अर्थ वे प्रकारे थाय ठे, एक मुख्यार्थ, वीजो गौणार्थ. आ स्यले श्री गुरुए गौणार्थ कयों हतो. गुरु धर्मोपदेष्टानुं वचन अने श्रुतिनो यथार्थ अर्थ, वंने अन्यथा करी हे मित्र ! तुं महापाप उपार्जन करे ठे. फरी पर्वते कछुं के अज शब्दनो अर्थ गुरुजीए मेप करेलो ठे, निघंटमां पण एज अर्थ ठे, तेने उल्लंघन करी तुं अधर्म उपार्जन करे ठे; वली आ वाचत निर्णय करवो होय तो वसुराजा जे आपणा सहाध्यायी ठे, तेने मध्यस्थ राखी आ श्रुतिना अर्थनो निर्णय करीए, परंतु सरत एटली के जेनो अर्थ जूगो ठरे तेनी जीह्वा ठेदवी. आ प्रमाणे प्रतिज्ञा ठरी. में पण पर्वतनी सरत मान्य करी, एवा विचारथी के साचने शुं आंच ठे ? पर्वतनी माताए ते वखते पर्वतने गुप्त रीते कछुं के हे पुत्र ! तुं आवो जूगो कदाग्रह ठोडीदे, कारण के में पण ते श्रुतिनो अर्थ त्रण वर्पनुं धान्यज सांजद्वयो ठे, माटे तें जे जीह्वा ठेदनी प्रतिज्ञा करी ते वास्तविक कर्तुं नथी. विचार कर्था बिना जे काम करवामां आवे ठे, तेथी आपत्तिमां आवी पडवानो प्रसंग आवे ठे. ते सांजली पर्वते कछुं के हे माताजी ! जे में प्रतिज्ञा करी ठे ते कोइ पण रीते हूं फेरवी शकुं तेम नथी. पठी पर्वतनी माता पोताना पुत्रनुं उःख

जाणी, दुःखी थवाथी वसु राजानी पासे गइ. पुत्रना जीवितव्य वास्ते कोण एवो ठे के जे उपाय न करे ? वसुराजाए पोताना गुरुनी पत्नीने आवतां देखी अपार सन्मान आप्युं. सिंहासन उपरथी उचो थयो, अने कहेवा लाग्यो के हे माता ! आजे में मारा गुरुराजना दर्शन कर्या. मारा सरखुं जे काम होय ते मने फरमावो ? गुरुपत्नीए कछुं के हे वसुराज ! मने पुत्रनी जिज्ञा आपो ? पुत्र विना मारे धन धान्यादि शुं कामना ठे ? वसुराजा ते सांजली कहेवा लाग्या के हे माता ! पर्वत तो मारे पूजवा योग्य तथा पालवा योग्य ठे, कारण के गुरुनी जेम गुरुना पुत्रनी साथे पण वर्तवुं जोइए, एम श्रुति वाक्य ठे; तो हवे कोणे क्रोधमां आवी कालने पत्रथी आमंत्रण कर्युं ठे ? जे मारा जाइ पर्वतने मारवा चाहे ठे ? वास्ते हे माता ! तमे सर्व वृत्तांत मने कहो ? गुरुपत्नीए सर्व वृत्तांत प्रतिज्ञा लीधी त्यां सुधीनो कही बताव्यो; ठेवटे कछुं के जो तमारा जाइनी रक्षा करवी होय तो अज शब्दनो मेप अर्थात् बकरो या बकरी अर्थ करवो, कारण के महात्मा पुरुषो परोपकार वास्ते पोताना प्राण पण अर्पण करे ठे, अने आपने तो मात्र वचनथी परोपकार करवानो ठे. वसुराजाए कछुं माताजी ! हुं मिथ्या वचन केवी रीते बोली शकुं ? सत्य बोलनारा पुरुषो पोताना प्राण जाय ठे तो पण असत्य बोलता नथी, तो गुरुनुं वचन अन्यथा करवुं, अने जूठी साही पुरबी, तेने वास्ते तो शुंज कहेवुं ? गुरुपत्नीए कछुं के क्यांतो गुरुना पुत्रनो जान बचशे, क्यांतो तमारा सत्य व्रतनो आग्रह रहेशे, बली हुं पण तेने ते बखते मारा प्राणनी हत्या आपीश. गुरुपत्नीना आ प्रमाणेना वचनो सांजली लाचार थइ तेणीनुं वचन अंगीकार कर्युं. गुरुपत्नी खुशी थइ पोताने घेर आवी. तत्काल नारद तथा पर्वत वंने वसुराजानी सजामां आव्या. ते प्रसंगे मोटा मोटा विद्वान् पुरुषो सजामां आवी पहुँच्या, अने वसुराजा स्फटिक सिंहासन उपर वेसी सजापति थइ पुठवा लाग्यो; पर्वत तथा नारदे पोतानो आद्यंत सर्व वृत्तांत वसुराजाने संजलाव्यो, ठेवटे कछुं के हे राजन् ! गुरुजीए आ वंने अर्थमांथी क्यो अर्थ कह्यो ठे ते तमे सत्य कही यो ? सजामां विराजेला वृद्ध ब्राह्मणोए पण कछुं के हे राजन् तमे सत्य सत्य जे होय तेज कही देजो.

कारण के सत्यथीज मेघ वरसे ठे, अने सत्यथीज देव सिद्ध थाय ठे, वली सत्यना प्रजावथीज आ लोक स्थिति करी रह्यो ठे, अने तमे पण पृथ्वीमां सत्यवादी सूर्यनी जेम प्रकाश करो ठो, तेथी सत्य कहेतुं, तेज तमने उचित ठे. हवे ते करतां विशेष अमारे तमने कांइ कहेवानुं नथी. आ प्रमाणे वृद्ध पुरुषोना वचनो सांजलतां ठतां पण वसुराजाए पोतानी सत्य बोलवानी प्रतिज्ञाने जलांजलि दइ “अजान्मेपान् गुरु व्याख्या दिति” अर्थात् अजनो अर्थ गुरुए मेघ (बकरो) कहेल ठे. ए प्रमाणे वसुराजाए बोलतांज असत्यना प्रजावथी व्यंतर देवताए वसुराजाना सिंहासनने तोडी वसुराजाने पृथ्वी उपर पठाब्यो, तेथी मरण पामी वसुराजा उग्र पापथी सातमी नरके गयो. वसुराजाना सिंहासन उपर, ते पठी अनुक्रमे वसुराजाना आठ पुत्रो १ पृथुवसु २ चित्रवसु, ३ वासव, ४ शक्त, ५ विजावसु, ६ विश्वावसु, ७ सूर, ८ महासूर, ए प्रमाणे उत्तरोत्तर गादी उपर बेठा. ते आठे पुत्रोने व्यंतर देवताउंए मारी नांख्या. पठी सुवसु नामनो नवमो पुत्र त्यांथी जागी नागपुरमां चाल्यो गयो, अने दसमो बृहद्भुवज नामनो पुत्र जागीने मथुरामां राज्य करवा लाग्यो. आ बृहद्भुवज राजाना वंशमां यडु नामा बहु प्रसिद्ध राजा थयो, त्यारथी हरिवंश नाम बदलाइ यडुवंश प्रसिद्ध थयुं.

यडुराजाने सूर नामा पुत्र थयो. सूर राजाने वे पुत्रो थया. मोटानुं नाम शौरी अने नानानुं नाम सुवीर हुतुं. शौरीने पितानी गादी मळी, परंतु पोताना नाना जाइ सुवीरने ते गादी आपी पोते कुशावर्त्त देशमां जइ पोताना नामनुं शौरीपुर नगर वसावी, राज्यधानीनुं नगर वनाव्युं-शौरीने अंधक विष्णु प्रमुख पुत्रो थया, अने अंधक विष्णुने दस पुत्रो थया. तेना नाम. १ समुद्रविजय. २ अद्भोच्य, ३ स्तिमित, ४ सागर, ५ हिंसवान्, ६ अचल, ७ धरण, ८ पूर्ण, ९ अजिचंद्र, १० वसुदेव. तेमां समुद्रविजयना मोटापुत्र अरिष्टनेमि, जैनमतना वावीशमा तीर्थकर थया, अने वसुदेवना पुत्र प्रतापी कृष्ण वासुदेव तथा बलचंद्रजी थया. सुवीरना पुत्र जोजवृष्णि अने जोजवृष्णिना पुत्र उग्रसेन थया, उग्रसेननो पुत्र कंस थयो. वसुराजानो बीजो पुत्र सुवसु नासीने नागपुर गयो.

तेने बृहद्रथ नामनो पुत्र थयो. तेणे राजग्रहमां राज्य करुं. तेनो पुत्र ज-
रासिंधु थयो. आ वृत्तांत में अहींआ प्रसंगथी लखेल ठे.

हवे अहींआ नगरना लोको तथा पंडितोये पर्वतनी बहुज निंदा क-
री. पर्वतने कछुं के तुं जूगो ठे, कारण के तारा साक्षी वसुने जूगो जाणी
देवताये मारी नाख्यो, तेथी तारा करतां विशेष पापी कोण ठे? ए. प्रमा-
णे कहीं लोकोये पर्वतने नगर वहार काढी मुक्यो. वाद महाकाल ना-
मनो असुर पर्वतनो सहायक थयो.

हवे रावणे नारदने पुत्र्युं के महाकाल असुर कोण हतो? नारदे क-
छुं के आ देशमां चरणायुगल नामनुं नगर ठे, तेनो अयोधन नामनो
राजा हतो, तेने दिति नामा जार्या हती. तेउने सुलसा नामा बहु रूपवा-
न् पुत्री थइ. सुलसानो स्वयंवर पिताये कर्यो. स्वयंवरमां बीजा अनेक
राजाउने बोलाव्या. आवेला सर्व राजाउमां सगर राजा प्रबल सत्तावा-
लो हतो. सगर राजानी मंदोदरी नामनी हजुरी दासी हती. ते सगरनी
आज्ञाथी प्रतिदिन अयोधन राजाना आवासमां जवा लागी. एक दिवस
दिति पोताना वगीचाना कदलीग्रहमां गइ, ते वखतें सुलसानी साथे
मंदोदरी पण त्यां प्रवृत्तपणे आवी दुषी रीते उनी रही. मंदोदरी गुप्त-
पणे सुलसा अने दिति वच्चे थती वात सांजलवा लागी. दितिये कछुं सु-
लसा! मारा मनमां तारा स्वयंवर माटे बहुज चिंता ठे. ते चिंता दूर
करवी ते तारे आधीन ठे, वास्ते जरा धिरज राखी मारी वात सांजल ?
श्रीरीपन्नदेव स्वामिने जरत अने वाहुवलि एवा वे पुत्रो थया. जरतनो
पुत्र सूर्ययश, अने वाहुवलिने चंद्रयश नामनो पुत्र थयो. जेउथी सूर्यवंश
अने चंद्रवंश चालेला ठे. चंद्रवंशमां मारो जाइ तृणविंडु नामा थयो,
अने सूर्यवंशमां तारा पिता (अयोधन) थया. तारा पितानी वेहेन सत्य-
यशा तृणविंडुनी जार्या थइ. तेने मधुपिंगल नामनो मारो जत्रीजो ठे.
हे सुंदरी! हुं तने ते मधुपिंगलने आपवा चाहुं तुं. अने तुं तो कोण
जाणे कोने वरीश ? आ शक्य मारा अंतःकरणमां ठे, वास्ते तारे स्वयं-
वरमां सर्व राजाउने तजी मारा जत्रीजा मधुपिंगलने वरवो. सुलसाये
मातानुं कहेवुं स्विकारुं. गुप्त रहेली मंदोदरीये सर्व वृत्तांत सांजली स-
सगर राजाने कह्यो. सगर राजाये पोताना विश्वचूति नामना पुरोहितने

आदेश कयों के एवी युक्ति करो के जेथी सुलसा मने स्वयंवरमां वरे. विश्वचूति मोटो कवि हतो. तेणे तत्काल राजाना लक्षणोनी संहिता बनावी. ते संहितामां एवी रचना करी के ते सांजलतांज देखनाराउं सगर राजाने शुभ लक्षणवालो जाणे, अने मधुपिंगलने लक्षण हीन जाणे. ते पुस्तक पेटीमां बंध करी राखी मुक्युं. ज्यारे सर्व राजाउं स्वयंवरमां एकठा थया, त्यारे सगरनी आझाथी विश्वचूतिये ते पुस्तक वहार काढ्युं. सगरे ते बखते कहुं के स्वयंवरमां वेसनार जे लक्षणहीन होय तेने कां तो मारी नाखवो, अथवा स्वयंवरथी वहार काढी मुकवो. आ कहेवुं सर्वेये अंगीकार क्युं. पुरोहिते पुस्तक वांचवुं शरु क्युं. जेम जेम पुस्तक वंचालुं गयुं तेम तेम मधुपिंगल पोताने लक्षणहीन मानी लज्जावान् थवा लाग्यो, अने पोतानी मेलेज स्वयंवरथी वहार निकली गयो. आखरे सुलसाये सगरने वरी लीधो. वीजा सर्व राजाउं पोतपोताने स्थानके गया. मधुपिंगल आ अपमानथी तापस थयो. बालतप करी साठ हजार वर्षना आयुवालो काल नामनो असुर परमाधामी थयो. अवधिज्ञानथी सगरनुं पुस्तक वनाववा संबधी सर्व कपट तेना जाणवामां आव्युं, तेथी विचार कयों के सगर राजा प्रमुखने हवे कोइ पण रीते मारुं. महाकालासुर तेना छिद्रो जोवा लाग्यो. ज्यारे शुक्तिमती नगरीनी नजीक पर्वतने जोयो, त्यारे ब्राह्मणनुं रूप धारण करी पर्वतनी पासे आवी कहुं के हे पर्वत! हुं तारा पितानो मित्र तुं, मारुं नाम शांडिल्य ठे. हुं तथा तारो पिता गौतम उपाध्यायनी पासे साथे जणता हता. मारा सांजलवामां आव्युं के नारद तथा वीजा लोकोये तने बहुज दुःखी कयों ठे, तेथी तारा पिताना संबधथी हुं तारो पद्म करवा आव्यो तुं. मंत्रोथी हुं लोकोने विमोहित करीश. एम कही पर्वतने संतलसमां मेलवी लोकोने नरकमां नाखवावास्ते ते असुरे बहुज व्यामोह कयों. व्याधि अने चूतादि उपद्रव युक्त लोकोने करी दीधा; पठी जे लोको पर्वतनुं कहेवुं मान्य करे तेउने सारा करी देतो हतो. शांडिल्यनी आझाथी पर्वत पण लोकोने निरूपद्रव करवा लाग्यो. उपकारथी लोको पर्वतना मतमां मलता थवा लाग्या. हवे ते असुरे सगर राजा तथा तेनी राणीउने बहुज नारे रोगादिनो उपद्रव कयों. राजा पण पर्वतनो सेवक बनी गयो.

पर्वते शांडिल्यनी साथे मल्ली तेना रोगो शांत कर्या. ह्वे पर्वते राजाने उपदेश कर्यो के हे राजन्! सौत्रामणि नामनो यज्ञ करी मद्यपान जो करवामां आवे तो तेमां बिलकुल दोष नथी. तथा गोसव नामा यज्ञमां अगम्य (चांडाली) स्त्री तथा माता, वृहेन, पुत्री प्रमुखनी साथे संजोग करवामां दोष नथी, अने मातृमेधमां मातानो अने पितृमेधमां पितानो, वध अंतर्वेदी कुरु क्षेत्रादिमां करवामां आवे तो दोष नथी. वल्ली कहुनी पीठ उपर अग्नि स्थापन करी तर्पण करवामां आवे, अने कदाचित् कहु न मले तो शुद्ध ब्राह्मणना मस्तकनी टटरी उपर अग्नि स्थापन करी होम करवामां आवे, कारण के टटरी पण कहुना जेवी होय ठे, तो ते वातमां हिंसा नथी. कारण के वेदोमां लख्युं ठे के यतः ॥ सर्वंपुरुषैववेदं यद्भूतं यद्भविष्यति ॥ इशानोयं मृतत्वस्य, यदन्नेनातिरोहति ॥ १ ॥ जावार्थः जे कांइ ठे ते सर्व ब्रह्मरूपज ठे, ज्यारे एकज ब्रह्म ठे, त्यारे कोण कोने मारे ठे? तेथी यथारुचि यज्ञोमां जीवहिंसा करो, अने ते जीवोना मांस जक्षण करो, तेमां कांइ पण दोष नथी, कारण के देवताना उद्देशथी मांस पवित्र थइ जाय ठे; इत्यादि उपदेश दइ सगर राजाने पोताना मतमां स्थापन करी अंतर्वेदी कुरु क्षेत्रादिमां पर्वत यज्ञ करावतो ह्वो. ते अवसरनो लाज लइ कालासुर राजसूयादि यज्ञो पण करावतो ह्वो. अने जे जीवोने यज्ञमां मारवामां आवता हता, तेउने देवमायाथी विमानमां वेसाडेला देखाडतो हतो; जेथी लोकोने यज्ञ करवा उपर प्रतीत थइ. लोको निशंक थइ जीवहिंसारूप यज्ञ करवा लाग्या, अने पर्वतनो मत बहुज प्रसार पाम्यो. सगर राजा पण यज्ञ करवामां बहुज तत्पर थयो. आखर सुखसा अने सगर वंने मरी नर्कमां गया. नर्कमां महा कालासुरे सगर राजाना जीवने अनेक प्रकारना दुःख दइ वैर लीधुं. ते कारणथी हे रावण! पापी पर्वतथी आ जीवहिंसारूप यज्ञ विशेषे करी प्रवर्त्तल ठे. हे राजन्! आ यज्ञनो तमेज निषेध कर्यो. आ कथा श्रवण करी रावणे नारदने प्रणाम कर्यो. नारदजी विदाय थया. जैनमतना शास्त्रोमां आ प्रमाणे वेदोनी उत्पत्ति ठे. ते आवश्यक सूत्र, आचारदिनकर अने त्रिपट्टिशलाकापुरूप चरित्र ग्रंथथी जाणवी.

वर्त्तमान कालमां जे चारे वेद ठे तेनी उत्पत्ति डाकर मोक्षमुखर

साहेव तेमना वनावेला संस्कृत साहित्य ग्रंथमां आ प्रमाणेलखे ठे. वेदोमां वे जाग ठे. एक ठंदो जाग, बीजो मंत्र जाग. ठंदो जागमां एवा प्रकारनुं कथन ठे के जाणे अज्ञानीर्जना मुखमांथी अकस्मात् वचनो निकलेलां होय. तेनी उत्पत्ति एकत्रीशशो वर्षे उपर थयेख ठे, अने मंत्रजाग वन्याने उगणत्रीशसो वर्षे थयां ठे. आ लखवामां शुं आश्चर्य ठे? कारण के कोश्ये उलट पालट करी नवीन वेदोवनाव्या पण होय. आ वेदो उपर अघट, सायण, रावण, महीधर अने शंकराचार्य प्रमुखे जाण्यो वनावेलां ठे. टीका, दीपिकानी रचना करी ठे. ते प्राचीन जाण्य, दीपिकाउने अयथार्थ जाणी दयानंद सरस्वति स्वामिये स्वमतानुसार नवीन जाण्य वनावी ठे. पंडित ब्राह्मणो दयानंद सरस्वतिनी जाण्यने प्रामाणिक मानता नथी. हवे देखवानुं मात्र ए ठे के परिणाम शुं आवे ठे? जैनमत्वालाउये तो ज्यारथी तेर्जना शास्त्रोमां लखवा मुजव आर्यवेद वगाडी नाखवामां आव्या, त्यारथी वेदोने मानवानुं तजी दीधेल ठे. ॥ इति वेदोत्पत्तिः ॥

ज्यारे श्रीरीपन्नदेव जगवान कैलास पर्वत उपर निर्वाण पाम्या, त्यारे सर्व देवता निर्वाण महोत्सव करवा आव्या. सर्व देवताउमां अन्निकुमार देवताये श्रीरीपन्नदेव जगवाननी चित्तामां अग्नि लगावी, त्यारथी आ श्रुति लोकोमां प्रसिद्ध थइ. “ अग्निमुखावे देवा ” अर्थात् अग्नि कुमार देवता सर्व देवताउमां मुख्य ठे; वली अल्पबुद्धिमानोये तो आ श्रुतिनो अर्थ एवो कयो के अग्नि, तेत्रीश क्रोड देवताउनुं मुखठे. प्रभुनुं निर्वाण-स्वरूप आवश्यक सूत्रथी जाणवुं.

ज्यारे देवताउये श्रीरीपन्नदेवजीनी दाढा विगेरे लीधी, त्यारे श्रावक ब्राह्मण मली देवताउने अति च्छक्तिथी याचना करता हवा. देवताउ ते बहु जनोने बहुयत्नाथी याचनाथी पीडायेला देखी कहेता हवा. अहो याचको! अहो याचको! त्यारथी ब्राह्मणो याचक कहेवावा लाग्या. वली ब्राह्मणो ते वखते श्रीरीपन्नदेवजीनी चित्तामांथी अग्नि लइ पोतपोताना धरमां स्थापनां करता हवा, ते कारणथी ब्राह्मणो “ आहिताग्नय ” कहेवावा लाग्या.

श्रीरीपन्नदेवजीनी चित्ता प्रज्वलित थइ रहा पठी दाढाप्रमुख सर्व

पर्वते शांडिह्यनी साथे मल्ली तेना रोगो शांत कर्या. हवे पर्वते राजाने उपदेश कर्यो के हे राजन्! सौत्रामणि नामनो यज्ञ करी मद्यपान जो करवामां आवे तो तेमां बिलकुल दोष नथी. तथा गोसव नामा यज्ञमां अगम्य (चांडाली) स्त्री तथा माता, वृद्देन, पुत्री प्रमुखनी साथे संजोग करवामां दोष नथी, अने मातृमेधमां मातानो अने पितृमेधमां पितानो, वध अंतर्वेदी कुरु क्षेत्रादिमां करवामां आवे तो दोष नथी. वल्ली कच्छुनी पीठ उपर अग्नि स्थापन करी तर्पण करवामां आवे, अने कदाचित् कच्छु न मले तो शुद्ध ब्राह्मणना मस्तकनी टटरी उपर अग्नि स्थापन करी होम करवामां आवे, कारण के टटरी पण कच्छुना जेवी होय ठे, तो ते वातमां हिंसा नथी. कारण के वेदोमां लख्युं ठे के यतः ॥ सर्वपुरुषैववेदं यद्भूतं यद्भविष्यति ॥ इशानोयं मृतत्वस्य, यदन्नेनातिरोहति ॥ १ ॥ ज्ञा-
 वार्थः जे कांइ ठे ते सर्व ब्रह्मरूपज ठे, ज्यारे एकज ब्रह्म ठे, त्यारे कोण कोने मारे ठे? तेथी यथारुचि यज्ञोमां जीवहिंसा करो, अने ते जीवोना मांस जक्षण करो, तेमां कांइ पण दोष नथी, कारण के देवताना उद्देश-
 थी मांस पवित्र थइ जाय ठे; इत्यादि उपदेश दइ सगर राजाने पोताना मतमां स्थापन करी अंतर्वेदी कुरु क्षेत्रादिमां पर्वत यज्ञ करावतो हवो. ते अवसरनो लाज लइ कालासुर राजसूयादि यज्ञो पण करावतो हवो. अने जे जीवोने यज्ञमां मारवामां आवता हुता, तेउने देवमायाथी विमानमां वेसाडेखा देखाडतो हतो; जेथी लोकोने यज्ञ करवा उपर प्रतीत थइ. लोको निशंक थइ जीवहिंसारूप यज्ञ करवा लाग्या, अने पर्वतनो मत बहुज प्रसार पाभ्यो. सगर राजा पण यज्ञ करवामां बहुज तत्पर थयो. आखर सुलसा अने सगर वंने मरी नर्कमां गया. नर्कमां महा कालासुरे सगर राजाना जीवने अनेक प्रकारना दुःख दइ वैर लीधुं. ते कारणथी हे रावण! पापी पर्वतथी आ जीवहिंसारूप यज्ञ विशेषे करी प्रवर्त्तल ठे. हे राजन्! आ यज्ञनो तमेज निषेध कर्यो. आ कथा श्रवण करी रावणे नारदने प्रणाम कर्यो. नारदजी विदाय थया. जैनमतना शास्त्रोमां आ प्रमाणे वेदोनी उत्पत्ति ठे. ते आवश्यक सूत्र, आचारदिनकर अने त्रिपटिशलाकापुरूप चरित्र ग्रंथथी जाणवी.

वर्त्तमान कालमां जे चारे वेद ठे तेनी उत्पत्ति डाक्टर मोहामुखर

साहच्य तेमना वनावेला संस्कृत साहित्य ग्रंथमां आ प्रमाणे लखे ठे. वेदोमां वे जाग ठे. एक ठंदो जाग, वीजो मंत्र जाग. ठंदो जागमां एवा प्रकारनुं कथन ठे के जाणे अज्ञानीउना मुखमांथी अकस्मात् वचनो निकलेलां होय. तेनी उत्पत्ति एकत्रीशशो वर्षे उपर थयेल ठे, अने मंत्रजाग वन्याने उगणत्रीशसो वर्षे थयां ठे. आ लखवामां शुं आश्चर्य ठे? कारण के कोश्ये उलट पालट करी नवीन वेदोवनाव्या पण होय. आ वेदो उपर अवट, सायण, रावण, महीधर अने शंकराचार्य प्रमुखे जाण्यो वनावेलां ठे. टीका, दीपिकानी रचना करी ठे. ते प्राचीन जाण्य, दीपिकाउने अर्थार्थ जाणी दयानंद सरस्वति स्वामिये स्वमतानुसार नवीन जाण्य वनावी ठे. पंडित ब्राह्मणो दयानंद सरस्वतिनी जाण्यने प्रामाणिक मानता नथी. हवे देखवानुं मात्र ए ठे के परिणाम शुं आवे ठे? जेनमतवालाउये तो ज्यारथी तेउना शास्त्रोमां लखवा मुजव आर्यवेद बगाडी नाखवामां आव्या, त्यारथी वेदोने मानवानुं तजी दीधेल ठे. ॥ इति वेदोत्पत्तिः ॥

ज्यारे श्रीरीपजदेव जगवान कैलास पर्वत उपर निर्वाण पाम्या, त्यारे सर्व देवता निर्वाण महोत्सव करवा आव्या. सर्व देवताउमां अग्नि कुमार देवताये श्रीरीपजदेव जगवाननी चित्तामां अग्नि लगात्री, त्यारथी आ श्रुति लोकोमां प्रसिद्ध थइ. “ अग्निमुखावे देवा ” अर्थात् अग्नि कुमार देवता सर्व देवताउमां मुख्य ठे; वली अल्पबुद्धिवानोये तो आ श्रुतिनो अर्थ एवो कयो के अग्नि, तेत्रीश फोड देवताउनुं मुखठे. प्रभुनुं निर्वाण-स्वरूप आवश्यक सूत्रथी जाणवुं.

ज्यारे देवताउये श्रीरीपजदेवजीनी दाढा विगेरे लीधी, त्यारे श्रावक ब्राह्मण मली देवताउने अति जक्तिथी याचना करता हवा. देवताउ ते बहु जनोने बहुयत्नाथी याचनाथी पीडायेला देखी कहेता हवा. अहो याचको! अहो याचको! त्यारथी ब्राह्मणो याचक कहेवावा लाग्या. वली ब्राह्मणो ते वखते श्रीरीपजदेवजीनी चित्तामांथी अग्नि लइ पोतपोताना घरमां स्थापनां करता हवा, ते कारणथी ब्राह्मणो “ आहिताग्नय ” कहेवावा लाग्या.

श्रीरीपजदेवजीनी चित्ता प्रज्वलित थइ रखा पठी दाढाप्रमुख सर्वदे-

वताउं लइ गया. शेष जइम रही ते ब्राह्मणोये पोते लीधी तथा थोडीथो-
डी लोकोने आपी. लोकोये पोताना मस्तक उपर त्रिपुंडाकारथी लगावी,
त्यारथी त्रिपुंड करवुं शरु थयुं. इत्यादि बहु व्यवहार ते वखतथी शरु थयो.

जरते कैलास पर्वत उपर सिंहनिपद्या नामनुं मंदिर बनाव्युं, तेमां
त्रिविष्यमां थनारा त्रेवीश तीर्थकरोनी तथा श्रीरीपन्नदेवजीनी मली चोवीश
प्रतिमाउंनी स्थापना करी, अने दंडरत्नथी पर्वतने एवी रीते ठोलवामां
आव्यो के जे उपर कोइ पुरुष पगोथी चडी शके नहि. पर्वतमां आठ
पगथीआं राख्यां जेथी कैलास पर्वतनुं नाम अष्टापद कहेवाय ठे, अने
त्यारथीज कैलास महादेवनो पर्वत कहेवाय ठे. महादेव अर्थात् मोटादे-
व ते श्रीरीपन्नदेव, अने तेनुं स्थान कैलास पर्वत जाणवुं.

जरत अने बाहुबलि वंने दीक्षा लइ मोक्षे गया. जरतनी पठी सू-
र्ययश गादी उपर वेठा. तेनी उंलाद सूर्यवंशी कहेवाइ. सूर्ययशनी गा-
दी उपर तेनो पुत्र महायश वेठो. तेज प्रमाणे अतिबल, महाबल, ते-
जवीर्य, कीर्तिवीर्य अने दंडवीर्य, अनुक्रमे पोतपोताना पितानी गादी
उपर वेठा, अने पोतपोताना राज्य यथाशक्ति चलावता ह्वा. जरत-
ना राज्यथी तेउंनुं राज्य अरधुं अर्थात् त्रण खंडनुं रहुं. दरेक अंते ज-
रतनी जेम राज्य ठोडी मोक्षमां गया. तेउंनी पठी गादी उपर असंख्य
पाट थइ. तेउंनी व्यवस्था चितांतर गंडिकाथी जाणवी. यावत् जीतश-
त्रु राजा थया. इति संक्षेपतः श्रीरीपन्नाधिकारः संपूर्णः

ह्वे श्री अजीतनाथ स्वामिना समयनुं स्वरूप लखीए ठीए. अयो-
ध्या नगरीमां जरतनी पठी असंख्य राजाउं थया वाद इद्वाकु वंशमां
जीतशत्रु राजा थया. विनीता नगरीनुं वीजुं नाम अयोध्या ठे. हाल जे
अयोध्या ठे, ते नही. प्राचीन अयोध्या कैलास पर्वतनी पासे ह्ती. न-
चीन अयोध्या तेना नामथी वसेली ठे. जीतशत्रु राजाने सुमित्र नाम-
नो वंधु युवराज ह्तो. जीतशत्रुनी विजया नामा राणी ह्ती. तेने चोद
स्वप्न पूर्वक अजीत नामना पुत्र थया. सुमित्रनी राणी यशोमतीने पण
चोद स्वप्न देखवाथी सगर नामना पुत्र थया. ज्यारे वंने यौवनवंत
थया त्यारे जीतशत्रु अने सुमित्र वंने दीक्षा लइ मोक्षरूप थया. ह्-
वे श्री अजीतनाथ राजा थया अने सगर युवराज थया. कंटलाएक

लाख कोडी सांगरोपम व्यतीत थये श्री संजवनाथजी त्रीजा तीर्थकर थया. राज्य सर्व सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तथा कुरुवंशी आदि राजाठमां रळुं. इति श्री अजीतनाथ तथा सगर चक्रवर्ती अधिकार.

श्रावस्ती नगरीमां इक्ष्वाकुवंशी जीतारि राजा राज्य करता हुता, तेने सेना नामा पटराणी हती, तेने संजव नामना पुत्र त्रीजा तीर्थकर थया, चोवीशे तीर्थकरना वर्णन प्रथम परिच्छेदमां यंत्रमां तेमज गद्यमां लखी आव्या ठीए. बीजा तीर्थकरोनो वचमां जे अंतर ठे तेपण यंत्रथी जाणी लेवुं. इती तृतीय तीर्थकर वृत्तांत.

तेमनी पठी अयोध्या नगरीमां इक्ष्वाकु वंशी संवर राजा थया. तेमर्न सिद्धार्था नामनी राणीनी कुखे अजिनंदन नामना चोथा तीर्थकर थया. वाद अयोध्या नगरीमां इक्ष्वाकु वंशी मेघ राजानी सुमंगला राणी. तेना पुत्र सुमतिनाथ नामना पांचमां तीर्थकर थया. पठी कोसंबी नगरीमां इक्ष्वाकु वंशी श्रीधर राजानी सुसीमा राणी, तेना पुत्र पद्मप्रज नामना षष्ठा तीर्थकर थया. पठी वाणारसी नगरीमां प्रतिष्ठ राजानी पृथ्वी नामा राणी, तेना पुत्र श्री सुपार्श्वनाथ नामना सातमा तीर्थकर थया. पठी चंद्रपुरी नगरीमां इक्ष्वाकु वंशी महासेन राजानी लक्ष्मणा नामा राणी, तेना पुत्र श्री चंद्रप्रज नामना आठमा तीर्थकर थया. पठी काकंदी नगरीमां इक्ष्वाकु वंशी सुग्रीव राजानी रामा नामा राणी, तेना पुत्र श्रीसुविधिनाथ, अपर नाम पुष्पदंत नामना नवमा तीर्थकर थया.

अर्हींआ सुधीतो सर्व ब्राह्मणो जैनधर्मी श्रावक तथा चारे आर्य वेदो जे ऋत राजाना समयमां रचवामां आव्या हुता ते जणता हुता. ज्यारे नवमा तीर्थकरनुं तीर्थ विच्छेद थयुं, त्यारे ब्राह्मणो मिथ्यादृष्टि तथा जैन धर्मना छेपी अने जगत्ना पूज्य थया. कन्या, जूमि अने गोदानादिना लेनारा थया. सर्व जगत्मां उत्तम थया, सर्वना कर्त्ता हर्त्ता अने मतोना मालेक वनी गया. सारांश ए ठे के सुनुं घर देखी कुतरो पण माल खाइ जाय ठे. वली जगत्मां जे जे पाखंड तथा अनेक तरेहना देवताठनी पूजा तथा जे जे बीजा पण कुमार्गो प्रचलित थया ठे, ते सर्व तेउंएज चलावेळ ठे. साक्षात् आदीश्वर जगंवांननी रचेली सृष्टि-

रूप अमृतमां जेर दाखल करनारा थया ठे, कारण के पूर्वे जैनमत तथा कपिलमत शिवाय बीजो कोइ पण मत नहोतो. कपिल मतवाला पण देव तो श्री आदीश्वर (रीपञ्चदेव) जगवाननेज मानता हता. निदान आ हुंडा अवसर्पिणिमां सर्व आश्चर्य गणाय ठे.

त्यार बाद जद्विलपुर नगरमां इक्ष्वाकु वंशी दृढरथ राजानी नंदा नामा राणी, तेना पुत्र श्री शीतलनाथ नामना दशमा तीर्थंकर थया. आ तीर्थकरना शासनमां हरिवंशनी उत्पत्ति थइ तेनी कथा लखीए ठीए.

कौशांबि नगरीमां वीरो नामनो. कोली रहेतो हतो. तेने वनमाला नामनी अत्यंत रूपवंती स्त्री हती. नगरना राजाये तेणीने हरण करी पोतानी स्त्री वनावी. वीरो कोली स्त्रीना विरहथी चावरो थइ गयो. हा वनमाला ! हा वनमाला ! एम बोलतो बोलतो नगरमां फरवा लाग्यो. एकदा वर्षाकालमां राजा वनमालानी साथे मेहेलना जरूखामां वेगो हतो. राजा राणीये वीराने ते हालतमां देखी बहु पश्चाताप कर्यो; ठेवट निश्चय कर्यो के आपणे आ काम बहुज बुरुं कर्युं, तेज बखत बीजली पडवाथी राजा राणी वने मरीने हरिवर्ष क्षेत्रमां स्त्री, पुरुष युगलीया थया. वीरो कोली राजा राणीनुं मरण सांजली राजी थयो, पठी तापस वनी तप करवा लाग्यो. अज्ञान तपना प्रजावथी किद्विप देवता थयो. अधिज्ञानथी राजा राणीने युगलीया थयेला देखी, विचार कर्यो के, आ जडक परिणामी तथा अद्वारंजी ठे, तेथी मरीने देवता थशे, तो पठी हुं मारुं वेर शीरीते लइश ? तेथी एवो उपाय करुं के, जेथी तेउं वने मरीने नर्कमां जाय. एवो विचार करी ते वनेने त्यांथी उगवी जरत क्षेत्रमां चंपा नगरीमां इक्ष्वाकु वंशी चंडकीर्ति राजा अपुत्रीउं गुजरी गयो हतो, अने हवे आ नगरीनो राजा कोण थशे ? एवी चिंतामां सर्व लोको जे आवी पड्या हता, तेउंने देवताये आ वनेने सोंप्या, अने कछुं के आ तमारो हरि नामनो राजा थशे. तेने तखतनशीन करो ? तेनी आ हरणी नामनी राणी ठे. तेउंने खावावास्ते तमारो फल मिश्रित मांस थापुं, अने तेउंने शिकार करवानी देव पाडवी. लोकोये तेज प्रमाणे कर्युं. तेउं वने पापमां आसक्त थवाथी मरीने नर्कमां गया. तेउंनी उळाद सर्व हरिवंशवाली कहेवाइ. आ वंशमां वसुराजा थया. इति श्रीहरिवंशोत्पत्ति.

लाख कोडी सांगरोपम व्यतीत थये श्री संजवनाथजी त्रीजा तीर्थकर थया. राज्य सर्व सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तथा कुरुवंशी आदि राजाउमं रळुं. इति श्री अजीतनाथ तथा सगर चक्रवर्ती अधिकार.

श्रावस्ती नगरीमां इद्वाकुवंशी जीतारि राजा राज्य करता हुता तेने सेना नामा पटराणी हती, तेने संजव नामना पुत्र त्रीजा तीर्थकर थया, चोवीशे तीर्थकरना वर्णन प्रथम परिच्छेदमां यंत्रमां तेमज गद्यमां लखी आव्या ठीए. बीजा तीर्थकरोनो वचमां जे अंतर ठे तेपण यंत्रथी जाणी लेवुं. इती तृतीय तीर्थकर वृत्तांत.

तेमनी पठी अयोध्या नगरीमां इद्वाकु वंशी संवर राजा थया. तेमनी सिद्धार्थ नामनी राणीनी कुखे अजिनंदन नामना चोथा तीर्थकर थया. वाद अयोध्या नगरीमां इद्वाकु वंशी मेघ राजानी सुमंगला राणी, तेना पुत्र सुमतिनाथ नामना पांचमां तीर्थकर थया. पठी कोसंबी नगरीमां इद्वाकु वंशी श्रीधर राजानी सुसीमा राणी, तेना पुत्र पद्मप्रज नामना ठठा तीर्थकर थया. पठी वाणारसी नगरीमां प्रतिष्ठ राजानी पृथ्वी नामा राणी, तेना पुत्र श्री सुपार्श्वनाथ नामना सातमा तीर्थकर थया. पठी चंद्रपुरी नगरीमां इद्वाकु वंशी महासेन राजानी लक्ष्मणा नामा राणी, तेना पुत्र श्री चंद्रप्रज नामना आठमा तीर्थकर थया. पठी काकंदी नगरीमां इद्वाकु वंशी सुग्रीव राजानी रामा नामा राणी, तेना पुत्र श्रीसुविधिनाथ, अपर नाम पुष्पदंत नामना नवमा तीर्थकर थया.

अहींआ सुधीतो सर्व ब्राह्मणो जैनधर्मी श्रावक तथा चारे आर्य वेदो जे ऋत राजाना समयमां रचवामां आव्या हुता ते जणता हुता. ज्यारे नवमा तीर्थकरनुं तीर्थ विच्छेद थयुं, त्यारे ब्राह्मणो मिथ्यादृष्टि तथा जैन धर्मना छेपी अने जगत्ता पूज्य थया. कन्या, जूमि अने गोदानादिना खेनारा थया. सर्व जगत्मां उत्तम थया, सर्वना कर्ता हर्ता अने मतोना मालेक बनी गया. सारांश ए ठे के सुनुं घर देखी कुतरो पण माल खाइ जाय ठे. वली जगत्मां जे जे पाखंड तथा अनेक तरेहना देवताउनी पूजा तथा जे जे बीजा पण कुमार्गो प्रचलित थया ठे, ते सर्व तेउणज चखावेळ ठे. साक्षात् आदीश्वर जगवाननी रचेली सृष्टि-

रूप अमृतमां जेर दाखल करनारा थया ठे, कारण के पूर्वे जैनमत तथा कपिलमत शिवाय बीजो कोइ पण मत नहोतो. कपिल मतवाला पण देव तो श्री आदीश्वर (रीपन्नदेव) जगवाननेज मानता हता, निदान आ हुंडा अवसर्पिणिमां सर्वे आश्चर्य गणाय ठे.

त्यार बाद जदिलपुर नगरमां इद्वाकु वंशी दृढरथ राजानी नंदा नामा राणी, तेना पुत्र श्री शीतलनाथ नामना दशमा तीर्थकर थया. आ तीर्थकरना शासनमां हरिवंशनी उत्पत्ति थइ तेनी कथा लखीए ठीए.

कौशांवि नगरीमां वीरो नामनो. कोली रहेतो हतो. तेने वनमाला नामनी अत्यंत रूपवंती स्त्री हती. नगरना राजाये तेणीने हरण करी पोतानी स्त्री बनावी. वीरो कोली स्त्रीना विरहथी बावरो थइ गयो. हा वनमाला ! हा वनमाला ! एम बोलतो बोलतो नगरमां फरवा लाग्यो. एकदा वर्षाकालमां राजा वनमालानी साथे मेहेलना जरूखामां वेठो हतो. राजा राणीये वीराने ते हावतमां देखी बहु पश्चाताप कर्यो; ठेवट निश्चय कर्यो के आपणे आ काम बहुज बुरू करुं, तेज वखत बीजली पडवाथी राजा राणी वंने मरीने हरिवर्ष क्षेत्रमां स्त्री, पुरुष युगलीया थया. वीरो कोली राजा राणीनुं मरण सांजली राजी थयो, पठी तापस वनी तप करवा लाग्यो. अज्ञान तपना प्रज्ञावथी किट्विष देवता थयो. अधिज्ञानथी राजा राणीने युगलीया थयेला देखी, विचार कर्यो के, आ जडक परिणामी तथा अद्वारंजी ठे, तेथी मरीने देवता थशे, तो पठी हुं मारुं बेर शीरीते लइश ? तेथी एवो उपाय करुं के, जेथी तेउ वंने मरीने नर्कमां जाय. एवो विचार करी ते वंनेने त्यांथी उठावी जरत क्षेत्रमां चंपा नगरीमां इद्वाकु वंशी चंडकीर्ति राजा अपुत्रीउं गुजरी गयो हतो, अने हवे आ नगरीनो राजा कोण थशे ? एवी चिंतामां सर्व लोको जे आवी पड्या हता, तेउने देवताये आ वंनेने सोंप्या, अने कलुं के आ तमारो हरि नामनो राजा थशे. तेने तखतनशीन करो ? तेनी आ हरणी नामनी राणी ठे. तेउने खावावास्ते तमारो फल मिश्रित मांस आपुं, अने तेउने शिकार करवानी टेव पाडवी. लोकोये तेज प्रमाणे करुं. तेउ वंने पापमां आसक्त थवाथी मरीने नर्कमां गया. तेउनी उलाद सर्व हरिवंशवाली कहेवाइ. आ वंशमां वसुराजा थया. इति श्रीहरिवंशोत्पत्ति.

श्री शीतलनाथजीनुं शासन पण विधेद गयुं. तेवीज्ज रीते पंदरमा तीर्थंकरसुधी सात तीर्थंकरोनां शासनो विधेद गयां; अने मिथ्याधर्म बहुज वृद्धि पाम्यो.

श्रीशीतलनाथ पठी सिंहपुरी नगरीमां इद्वाकु वंशी विष्णु राजानी विष्णुश्री नामाराणी, तेना पुत्र श्री श्रेयांसनाथ नामना अगीआरमां तीर्थंकर थया. ते समयमां वैताढ्य पर्वतथी श्रीकंठ नामनो विद्याधरनो पुत्र, पद्मोत्तर विद्याधरनी पुत्रीनुं हरण करी पोताना वनेवी, राक्षस वंशी लंकाना राजा कीर्तिधवलने शरणे गयो. कीर्तिधवले त्रणसं-योजन प्रमाण वानरद्वीप तेउने रहेवाने आप्यो. तेउना संतानोमांथी चित्र विचित्र विद्याधरोये विद्याथी वानरनुं रूप बनाव्युं. वली वानर द्वीपमां रहेवाथी. तथा वानरनुं रूप बनाववाथी वानरवंशी प्रसिद्ध थया. तेउनी उलादमां वाली तथा सुग्रीवादि थया ठे.

श्रेयांसनाथजीना समयमां पेहेला त्रिपृष्ठ नामना वासुदेव हरिवंशमां थया. तेनी उत्पत्ति आप्रमाणे—पोतनपुर नगरमां हरिवंशी जीतशत्रु नामनो राजा थयो. तेने धारणी नामा राणी हती. तेने अचल नामनो पुत्र अने मृगावती नामनी पुत्री थइ. मृगावती अत्यंत खुब सुरत हती, ते यौवनवंती थइ एटले तेना पिताये तेणीने पोतानी राणी बनावी लीधी. ते देखी लोकोये जीतशत्रु राजानुं नाम प्रजापति पाड्युं. अर्थात् पोतानी पुत्रीनो पति एवुं नाम राख्युं. तेज वखतथी वेदोमां आ श्रुति लखवामां आवी. “प्रजापति वैस्वाहुहितरमन्त्र्यध्यायद्विव नित्यन्य आहुपुर समित्यन्येता मृश्योञ्जूत्वा तदसावादित्यो जवत्” ॥ जावार्थः प्रजापति ब्रह्मा पोतानी पुत्री साये विषय सेवनने प्राप्त थता हवा. जैनमतवालाउने आ अर्थथी कांइ पण हानी नथी; परंतु जे लोकोये ब्रह्माजीने वेद कर्ता, हिरण्यगर्जना नामथी इश्वर मानेला ठे; अने आ कथाने पुराणोमां लखेली ठे, तेउनी फजेती तो अचइय वीजा मतवालाउ करशे. तेमां अमेशुं करीये? कारण के जे पुरुष पोताना हाथथी पोतानुं म्हों काळुं करे, तेने देखीने वीजाउ केम हांसी न करे? यद्यपि मीमांसाना वार्त्तिककार कुमारिले आ श्रुतिना अर्थनुं कलंक दूर करवावास्ते मनमानी कल्पना करेली ठे, तथा वर्तमानमां दयानंदसरस्वति स्वामिये पण वेद श्रुतियोना कलंक

दूर करवावास्ते पोतानी वनावेली जाण्यमां अर्थोनी अत्यंत तोड फोड करेली ठे, परंतु पुराणवाळाउयेजे कथा खखेली ते केवी रीते तुपावी शकशे? अमारा मतमां तो वेद श्रुति अने ब्रह्मा (प्रजापति) नो अर्थ यथार्थज करेल ठे. आ जीतशत्रु (प्रजापति) राजाने मृगावतीथी त्रिष्टु नामनो पुत्र थयो. ज्यारे त्रिष्टु अने अचल वंने यौवनवंत थया, त्यारे तेउये त्रिखंडना राजा अश्वघ्रीवनै मारी त्रण खंडनुं राज्य कर्युं.

त्यार पठी चंपापुरीमां इक्ष्वाकुवंशी वसुपुज्य नामनो राजा थयो, तेनी ज्या नामा राणी तेनाथी श्रीवासुपुज्य नामना वारमा तीर्थंकर थया. तेमना समयमां वीजा द्विष्टु वासुदेव अने अचल वलदेव थया, अने तेउना प्रतिशत्रु रावण समान तारक नामना वीजा प्रतिवासुदेव थया. आ सयं वासुदेव, चक्रवर्ती आदिनुं संपूर्ण वर्णन त्रेसठ शलाका पुरुष चरित्रथी जाणवुं.

त्यार पठी कपिलपुरनगरमां इक्ष्वाकुवंशी कृतवर्मा नामा राजा थया, तेनी श्यामा नामा राणीना पुत्र श्रीविमलनाथ नामना तेरमा तीर्थंकर थया. तेमना समयमां वीजा खयंजु वासुदेव, जड्र नामा वलदेव, अने मैरक नामना प्रतिवासुदेव थया.

त्यार पठी अयोध्या नगरीमां इक्ष्वाकुवंशी सिंहसेन राजा थया, तेनी सुयशा राणीना पुत्र श्री अनंतनाथ नामना चौदमा तीर्थंकर थया, तेमना समयमां चोथा पुरुपोत्तम वासुदेव, सुप्रज नामना वलदेव अने मधुकैटज नामना प्रतिवासुदेव थया.

त्यार पठी रत्नपुरी नगरीमां इक्ष्वाकुवंशी जानु नामना राजा थया, तेमनी सुव्रता नामनी राणीना पुत्र श्रीधर्मनाथ नामना पंदरमा तीर्थंकर थया. तेमना समयमां पांचमा पुरुपसिंह नामना वासुदेव, सुदर्शन नामना वलदेव, अने निशुंज नामना प्रतिवासुदेव थया. अर्हीआ सुधी पांच वासुदेव जे थया ते सवें अरिहंतना जक अर्थात् जैनधर्मी थया.

त्यार पठी पंदरमा धर्मनाथ अने सोलमा शांतिनाथजीना अंतरमां वीजा मधवा नामना चक्रवर्ती अने चो वनावेकुमार नामना चक्रवर्ती थया.

त्यार पठी हस्तिनापुरी नगरीमां इक्ष्वाकुवंशी विश्वसेन राजा तेमनी अचिरा राणीना पुत्र श्रीशांतिनाथ नामना सोलमा तीर्थंकर थया. ते प्रय-

म गृहवासमां तो पांचमा चक्रवर्ती थया, पठी दीक्षा लइ केवली थइ तीर्थकर थया.

त्यारपठी हस्तिनापुर नगरमां कुरुवंशी सूर नामना राजा थया, तेनी श्रीराणीना पुत्र श्रीकुंथुनाथ थया. प्रथम गृहस्थावासमां ठग चक्रवर्ती थया, पठी दीक्षा लइ सत्तरमा तीर्थकर थया.

त्यार पठी श्रीहस्तिपुर नगरमां कुरुवंशी सुदर्शन नामना राजा थया, तेनी देवी राणीना पुत्र श्री अरनाथ थया. ते गृहस्थावासमां सातमा चक्रवर्ती थया, अने दीक्षा लीधा पठी अठारमा तीर्थकर थया.

अठारमा अने उंगणीशमा तीर्थकरना अंतरमां आठमा, कुरुवंशी सुचूम नामना चक्रवर्ती थया. आ सुचूमना वखतमांज परशुराम थया. ते वंनेनो संवंध जैनमतना शास्त्रोने अनुसारे लखीये ठीये.

योगशास्त्रमां लख्युं ठे के वसंतपुर नामना नगरमां उष्टन्नवंशी अर्थात् जेनो कोइ संवंधी नही, एवो अग्नि क नामनो एक ठोकरो हतो. एकदा अग्नि कोइ सथवारा साथे देशांतर जतां मार्गमां साथथी चूलो पडतां जंगलमां एक तापसना आश्रममां गयो. कुलपति तापसे तेने पोतानो पुत्र करी राख्यो. अनुक्रमे अग्नि अत्यंत घोर तप करी मोटो तेजस्वी थयो. जगतमां यमदग्नि तापसना नामथी प्रसिद्ध थयो. ते अवसरे एक जैनमति विश्वानर नामनो देव तथा एक तापसोनो उक्त ध्वनंतरि नामनो देव, वंने जणा परस्पर विवाद करवा लाग्या. विश्वानरे कहुं के अरिहंतनो कथन करेलो धर्म प्रमाणिक ठे, ध्वनंतरिये कहुं के तापसोनो धर्म सत्य ठे. वंनेना गुरुनी परीक्षा करवी एम विश्वानरे सुचना करी. ते वंने देवोये कबुल करी. तेमां पण विश्वानरे कहुं के जैनमतना जघन्य गुरुनी परीक्षा करवी अने तापसोना उत्कृष्ट गुरुनी परीक्षा करी ते मारे कबुल ठे. प्रथम मिथिला नगरीनो पद्मरथ राजा जे नवाजे जैनधर्मी थइ जावयति थयो हतो, ते चंपानगरीमां गुरुनी पासे दीक्षा लेवा सारुं जतो हतो. तेने रस्तापां ते देवताउये दीगो. रस्तामां तेने दुःख देवावास्ते बहु कांटा कांकरां? यद्यः नाख्या, अने रस्ता शिवाय बीजा स्थानके बहु कीडा आदिर्नरुत्पत्ति करी. राजा जावयति होवाथी शुद्ध जाव पूर्वक, कोमल उघाडा पगे कांटा कांकरा उपर चाट्यो जाय

ॐ: पगमांथी रुधिरनी धारा तुटे ठे, तोपण जीववाली जूमि उपर पग मु-
कतो नथी. ते बखते देवताउंथे गीत नाटकनो बहु मोहक प्रारंज कर्यो,
तो पण राजा होजायमान थयो नही; तेथी वंने देवताउं सिद्ध पुत्रोनुं
रूप करी राजाने कहेवा लाग्या, हे महाजाग ! तमारुं आयुष्य हजु लावुं
ठे. तेथी खड्गद जोग विलास करो, कारण के यौवनमां तप करवो ते
वास्तविक नथी. ज्यारे वृद्ध थाउं, त्यारे दीक्षा लेजो. आ वात सांचली
राजाए कहुं के जो मारुं आयुष्य लावुं ठे, तो हुं बहुज धर्म करीश.
कारण के पाणी जेटहुं उंडुं होय ठे, तेटलीज कमलनी नाल पण वधी
जाय ठे, वली यौवनमां इंद्रियोनो जय करवो, तेज खरो तप ठे. हवे
वंने देवताउंने खातरी थइ के आ राजा तो कदापि चलायमान थाय ते-
वो नथी. पठी वंने देवताउं सर्वथी उत्कृष्ट जमदग्नि तापस पासे तेनी
परीक्षा करवा आव्या. तेउंए, जेनी बडवृद्धनी जटानी जेम, धरतीनी
साथे जटा लागी रही ठे, तथा जेना पगोमां सर्पनी वंचीउं वनी गइ
ठे, एवी स्थितिमां जमदग्नि तापसने दीगो. हवे वंने देवताउं देव-
मायाथी जमदग्निनी दाढीमां भाखो वनावी, चकला, चकली वनी, वंने
जणा मालामां वेठा. पठी चकलो चकलीने कहेवा लाग्यो के हुं हिम-
वंत पर्वत उपर जइश. चकलीए कहुं के हुं तने कदापि नहि जवा
दउं, कारण के तुं त्यां जइ कदाच कोइ चकलीमां आसक्त थइ जाय तो
मारा शुं हाल थाय ? चकलाए कहुं के जो हुं फरीने पाठो न आवुं तो
मने गौहत्यानुं पाप लागे. चकलीए कहुं के हुं आ तारा सोगनने मा-
नती नथी, जे हुं सोगन आवुं ते तुं कबुल करे, तो हुं तने जवा दउं. च-
कलाए कहुं जले तुं जे सोगन आपवानी होय ते कही दे ? चकलीए
कहुं के जो तुं कोइ चकलीनी साथे यारी करे तो, आ जमदग्नि ताप-
सनुं जे पाप ठे ते तने लागे एम सोगन खा. चकला चकलीना आ व-
चन सांचली जमदग्निने क्रोध उत्पन्न थयो, थने वंने हाथवती च-
कला चकलीने पकडी लीधा, थने तेउंने कहेवा लाग्यो के हुं पापनो
अत्यंत नाश करनार एवो महा डुप्कर तप करुं तुं, उतां हवे मारे एवुं
कयुं पाप वाकी रही गयुं ठे. के जेथी तमे मने पापी उरावो ठे ? चक-
लाए कहुं हे रुषि ! तुं अमारा उपर गुस्सो कर नही; कारण के अमे

असत्य बोल बोलता नहीं, बली तने जे तारा तपनुं अजिमान ठे, ते तारो तप निष्फल ठे, कारण के तमारा शास्त्रमां लख्युं ठे के “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति” अर्थात् पुत्र रहितनी गति नहीं, आ शुं तें शास्त्रमां सांज्ञक्युं नहीं ? तो जेनी शुभ्रगति न थइ तेनाथी अधिक पापी कोण ठे ? हवे जमदग्निए विचार कयों के अमारा शास्त्रमां तो जेम चकलाए कहुं तेमज ठे. तेथी फरी मनमां विचार आव्यो के, ज्यारे मारे स्त्री अने पुत्र नहीं, त्यारे मारो सर्व तप एवो ठे के, जेम पाणीना प्रवाहमां मुतरुं, तेवो ठे. हवे जमदग्निने मनमां स्त्रीनी चाहना थइ. आ प्रमाणे देखी ध्वनंतरि देवता जैन धर्मा थयो. वने देवताउं त्यांथी अदृश्य थइ गया. जमदग्नि त्यांथी उठी नेमिककोष्टक नगगरमां जीतशत्रु राजा पासे गयो. राजाने बहु पुत्रीउं हती, तेथी तेनी एक पुत्री मायुं, एवो विचार कयों. राजा पण रुषिने देखी आसनथी उठी वे हाथ जोडी प्रणाम करी कहेवा लाग्यो के आप शा वास्ते अत्रे पधार्या ठो ? मने आदेश करो ? आपनुं जे काम होय ते हुं करीश. जमदग्निए कहुं, हुं तारी पासे तारी एक कन्या मांगवा आव्यो तुं. राजाए कहुं, मारे (१००) सो पुत्रीउं ठे, तेमांथी जे तमारी चाहना करे, ते तमे सुखे लइ जाउं. जमदग्नि कन्याउंना मेहेलमां गया; अने कहेवा लाग्या के तमारामांथी जेने मारी धर्मपत्नी थवुं होय ते कही थो. ते राजपुत्रीउंए जटावाला, ताल पडेला तथा धोला केशवाला, दुर्बल अने जीख, मांगी खानारा जमदग्निने दीठो, अने तेनुं आ वचन सांज्ञक्युं, त्यारे सर्वे तेनी उपर थुंकवा लागी; अने कहेवा लागी के आवी वात करतां तने लज्जा आवती नहीं ? तेउंना अपमानथी जमदग्निने क्रोध चढ्यो, अने विद्याना प्रजावथी ते राजपुत्रीउंने महा कुरुपवान् बनावी दीधी, अने पोते त्यांथी निकली मेहेलोना आंगणामां आव्या; त्यां राजानी नानी पुत्री रेतीना ढगलामां रमती हती, तेने, हाथमां विजोरानुं फल लइ कहेवा लाग्यो के हे रेणुका ! तुं मने वांठे ठे ? ते वालिकाए विजोरं देखी हाथ पसार्यों, तेथी रुपिए कहुं के आ मने वांठे ठे, एम कही मुनिए तेने लइ लीधी. राजाए केटलीक गाय तथा धन आपी पुत्रीनो विवाह तेनी साथे विधि पुर्वक कयों. पठी जमदग्निए पोतानी सर्वे सादीउंने

स्नेहथी रूपाली करी, अने रेणुकाने लक्ष पोताना आश्रममां आव्या. ते मुग्धा, मधुर आकृति, हरिणाक्षीने प्रेमथी वृद्धि पमाडता हवा. आंगलीउं उपर दिवस गणतां अनुक्रमे ज्यारे रेणुका सुंदर यौवन रूप कामलीलायुक्त वनने प्राप्त थइ, त्यारे, जमदग्नि ए अग्निनी साक्षी ए रेणुकानी साथे फरी लग्न कर्युं, ज्यारे रेणुका रतुकावने प्राप्त थइ, त्यारे जमदग्नि कहेवा लाग्या के हे प्रिये ! हुं तारा वास्ते चरु साधुं हुं. " चरु ते होममां नाखवानी वस्तुउं कहेवाय ठे " जेना प्रतापथी सर्व ब्राह्मणोमां उत्तम प्रतापवालो तने एक पुत्र थशे. रेणुका ए कछुं हस्तिनापुरमां कुरुवंशी अनंतवीर्य राजानी साथे मारी एक वेहेन परणावी ठे. तेने वास्ते एक क्षत्रीय चरु पण साधो, पठी जमदग्नि ए ब्राह्मण चरु पोतानी जार्या वास्ते, अने क्षत्रिय चरु पोतानी जार्यानी वेहेन वास्ते सिद्ध कर्यो. हवे रेणुका ए मनमां विचार कर्यो के हुं जेम अटवीमां हरणीनी जेम रहुं हुं तेम, मारो पुत्र पण जंगलोमां तेवीज रीते रहेशे, तेथी क्षत्रिय चरु जो हुं नक्षण करुं तो मने राजपुत्र थाय, जेथी जंगलवासथी तुटे, एवो विचार करी क्षत्रिय चरु पोते खाइ लीधो, अने ब्राह्मण चरु पोतानी वेहेनने खवराव्यो. वंनेने पुत्रो प्रसव्या. रेणुका ए जे पुत्र प्रसव्यो तेनुं नाम राम पाड्युं, अने तेनी वेहेननां पुत्रतुं नाम कृतवीर्य पाड्युं. अनुक्रमे वंने मोटा थया. राम आश्रममां मोटो थयो, कृतवीर्य राजमेहेलोमां मोटो थयो. राम क्षत्रिय तेज देखाडवा लाग्यो. अन्यदा एक विद्याधर अतिसार रोगवालो ते आश्रममां आवी पढोंच्यो, अतिसारना कारणथी आकाशगामिनी विद्या सूखी गयो. ते मांदा विद्याधरनी रामे श्रौषध, पथ्यादिथी जाइनी जेम आसना वासना करी. विद्याधरे संतुष्ट थइ रामने परशुविद्या आपी. राम पण सरकडाना वनमां जइ ते विद्या सिद्ध करवा लाग्यो. ते विद्याना प्रजावथी राम जगत्मां परशुराम नामथी प्रसिद्ध थयो. एकदा रेणुका, जमदग्निनी आज्ञा लइ उक्कंठाथी पोतानी वेहेनने मलवावास्ते हस्तिनापुरमां गइ. रेणुकाने पोतानी साली जाणी अनंतवीर्य राजा मडकरी करवा लाग्यो. अनुक्रमे कामासक्त थवाथी निरंकुश थइ रेणुका साथे विषय सेवन करवा लाग्यो. अनंतवीर्यना जोगथी रेणुकाने एक पुत्र थयो, उतां विषयमां अ-

असत्य बोल बोलता नहीं, बली तने जे तारा तपनुं अजिमान ठे, ते तारो तप निष्फल ठे, कारण के तमारा शास्त्रमां लख्युं ठे के "अपुत्रस्य गतिर्नास्ति" अर्थात् पुत्र रहितनी गति नहीं, आ शुं तें शास्त्रमां सां-
 जल्युं नहीं ? तो जेनी शुजगति न थइ तेनाथी अधिक पापी कोण ठे ?
 हवे जमदग्नि विचार कयों के अमारा शास्त्रमां तो जेम चकलाए कहुं
 तेमज ठे. तेथी फरी मनमां विचार आव्यो के; ज्यारे मारे स्त्री अने
 पुत्र नहीं, त्यारे मारो सर्व तप एवो ठे के, जेम पाणीना प्रवाहमां सुत-
 रबुं, तेवो ठे. हवे जमदग्निने मनमां स्त्रीनी चाहना थइ; आ प्रमाणे दे-
 खी ध्वनंतरि देवता जैन धर्मी थयो. वने देवताउं त्यांथी अदृश्य थइ
 गया. जमदग्नि त्यांथी उठी नेमिककोटक नगगरमां जीतशत्रु राजा
 पासे गयो. राजाने बहु पुत्रीउं हती, तेथी तेनी एक पुत्री मायुं,
 एवो विचार कयों. राजा पण रुपिने देखी आसनथी उठी वे हाथ जोडी
 प्रणाम करी कहेवा लाग्यो के आप शा वास्ते अत्रे पधार्या ठो ? मने
 आदेश करो ? आपनुं जे काम होय ते हुं करीश. जमदग्नि कहुं, हुं
 तारी पासे तारी एक कन्या मांगवा आव्यो हुं. राजाए कहुं, मारे (१००)
 सो पुत्रीउं ठे, तेमांथी जे तमारी चाहना करे, ते तमे सुखे लइ जाउं.
 जमदग्नि कन्याउंना मेहेलमां गया; अने कहेवा लाग्यो के तमारामांथी
 जेने मारी धर्मपत्नी थवुं होय ते कही यो. ते राजपुत्रीउंए जटावाला,
 ताल पडेला तथा धोला केशवाला, दुर्बल अने जीख मांगी खानारा
 जमदग्निने दीगो, अने तेनुं आ वचन सांजल्युं, त्यारे सर्वे तेनी उपर
 थुंकवा लागी; अने कहेवा लागी के आवी बात करतां तने लज्जा आ-
 वती नहीं ? तेउंना अपमानथी जमदग्निने क्रोध चढ्यो, अने विद्याना
 प्रजावथी ते राजपुत्रीउंने महा कुरूपवान् बनावी दीधी, अने पोते
 त्यांथी निकली मेहेलोना आंगणामां आव्यो; त्यां राजानी नानी पुत्री
 रेतीना ढगलामां रमती हती, तेने, हाथमां विजोरानुं फल लइ कहे-
 वा लाग्यो के हे रेणुका ! तुं मने वांठे ठे ? ते वालिकाए विजोरुं देखी
 हाथ पसार्यों, तेथी रुपिए कहुं के आ मने वांठे ठे, एम कही मुनिए
 तेने लइ लीधी. राजाए केटलीक गाय तथा धन आपी पुत्रीनो विवाह
 तेनी साथे विधि पुर्वक कयों. पठी जमदग्निए पोतानी सर्वे सालीउंने

स्नेहशी रूपाली करी, अने रेणुकाने लक्ष पोताना आश्रममां आव्या. ते मुग्धा, मधुर आकृति, हरिणाक्षीने प्रेमशी वृद्धि पमाडता ह्वा. आंगलीउं उपर दिवस गणतां अनुक्रमे ज्यारे रेणुका सुंदर यौवन रूप कामलीलायुक्त वनने प्राप्त थइ, त्वारे, जमदग्निए अग्निनी साक्षीए रेणुकानी साथे फरी लग्न कर्युं, ज्यारे रेणुका रतुकालने प्राप्त थइ, त्वारे जमदग्नि कहेवा लाग्या के हे प्रिये ! हुं तारा वास्ते चरु साधुं तुं. “ चरु ते होममां नाखवानी वस्तुउं कहेवाय ते ” जेना प्रतापशी. सर्व ब्राह्मणोमां उत्तम प्रतापवालो तने एक पुत्र थशे. रेणुकाए कछुं हस्तिनापुरमां कुरुवंशी अनंतवीर्य राजानी साथे मारी एक वेहेन परणावी ठे. तेने वास्ते एक क्षत्रीय चरु पण साधो, पठी जमदग्निए ब्राह्मण चरु पोतानी जार्या वास्ते, अने क्षत्रिय चरु पोतानी जार्यानी वेहेन वास्ते सिद्ध कयों. हवे रेणुकाए मनमां विचार कयों के हुं जेम अटवीमां हरणीनी जेम रहुं तुं तेम, मारो पुत्र पण जंगलोमां तेवीज रीते रहेशे, तेथी क्षत्रिय चरु जो हुं जक्षण करुं तो मने राजपुत्र थाय, जेथी जंगलवासशी तुटे, एवो विचार करी क्षत्रिय चरु पोते खाइ लीधो, अने ब्राह्मण चरु पोतानी वेहेनने खवराव्यो. वंनेने पुत्रो प्रसव्या. रेणुकाए जे पुत्र प्रसव्यो तेनुं नाम राम पाड्युं, अने तेनी वेहेननां पुत्रनुं नाम कृतवीर्य पाड्युं. अनुक्रमे वंने मोटा थया. राम आश्रममां मोटो थयो, कृतवीर्य राजमेहेलोमां मोटो थयो. राम क्षत्रिय तेज देखाडवा लाग्यो. अन्यदा एक विद्याधर अतिसार रोगवालो ते आश्रममां आवी पहुँच्यो, अतिसारना कारणशी आकाशगामिनी विद्या चूली गयो. ते मांदा विद्याधरनी रामे औषध, पथ्यादिशी जाइनी जेम आसना वासना करी. विद्याधरे संतुष्ट थइ रामने परशुविद्या आपी. राम पण सरकडाना वनमां जइ ते विद्या सिद्ध करवा लाग्यो. ते विद्याना प्रज्ञावशी राम जगत्मां परशुराम नामशी प्रसिद्ध थयो. एकदा रेणुका, जमदग्निनी आज्ञा लइ उत्कंठाशी पोतानी वेहेनने मलवावास्ते हस्तिनापुरमां गइ. रेणुकाने पोतानी साली जाणी अनंतवीर्य राजा मश्करी करवा लाग्यो. अनुक्रमे कामासक्त थवाशी निरंकुश थइ रेणुका साथे विषय सेवन करवा लाग्यो. अनंतवीर्यना जोगशी रेणुकाने एक पुत्र थयो, उतां विषयमां अ-

तिलुब्ध एवो जमदग्निः दोष तरफ विलकुल दृष्टि नहि करतां रेणुकाने पुत्र सहित पोताना आश्रममां लाव्यो. ज्यारे परशुरामे पोतानी माताने पुत्र सहित दीठी, त्यारे अत्यंत क्रोधमां आवी परशुर्षी पोतानी माता तथा ते ठोकराना मस्तक कापी नांख्यां. ज्यारे आ वृत्तांत अनंतवीर्य राजाना जाणवामां आव्यो, त्यारे क्रोध युक्त, फोज साथे आवी जमदग्नि-नुं आश्रम वाळी जश्म कर्युं, सर्व तापसोने त्रास पमाड्यो. तापसोये जागतां जागतां जे रोखो कर्यो ते परशुरामे सांजड्यो; सर्व वृत्तांत जाणवामां आवतां परशुराम, राजानी सेना उपर परशु लश् चडी आव्यो. परशुर्षी राजाने तथा तेनी सेनाना सर्व सुजटोने काष्टनी जेम चीरी नाख्या. पठी पोताना आश्रममां चाड्यो गयो. हस्तिनापुरमां प्रधान राजपुरुषोये कृतवीर्यने राज्यसिंहासन उपर वेसाड्यो. कृतवीर्य उमरमां नानो-ह-तो. एक दिवस पोतानी माताना मुखर्षी पोताना पिताना मोतनुं वृत्तांत सांजड्यी क्रोधयुक्त थइ, जमदग्निने आश्रममां आवी मारी नांख्या. परशुरामं पितानो वध सांजड्यी क्रोधमां जाज्वल्यमान थइ हस्तिनापुर आवी कृतवीर्यने मारीने पोते राज्यसिंहासन उपर चडी वेठो, कारण के राज्य पराक्रमने आधीन ठे. हवे कृतवीर्यनी तारा नामा गर्जवती राणी परशुरामना जयर्षी जागीने कोइ जंगलमां तापसोना आश्रममां गइ. तापसोये दयार्षी ते राणीने पोताना मठना जोंयरामां निधाननी जेम गुप्त राखी. राणीये चौद स्वप्न सुचित पुत्रने जन्म आप्यो. तेनुं नाम सुजूम राख्युं. हवे परशुराम ज्यां ज्यां क्षत्रियनो योग मळे त्यां त्यां तेनो कुहाडो जाज्वल्यमान थतो होवार्षी दरेक क्षत्रियनो शिरछेद करतो. अन्यदा तारा राणी ज्यां गुप्तपणे पुत्रसहित रद्देडी हती त्यां परशुराम आव्यो. परशुरामनी परशु जाज्वल्यमान थइ. परशुरामे तापसोने पुठ्युं, अहींआ कोइ क्षत्रिय ठे ? तापसोये कळुं अमे गृहस्थावासमां क्षत्रियो हता. ते सांजड्यी परशुरामे तापसोनो आश्रम तजी दीधो. आखर सर्व ऋषियोने ठोडी सांतवार निःक्षत्रिय पृथ्वी करी. जेम अग्नि पर्वत उपर घासने वाकी राखती नथी, तेम परशुरामे जे जे क्षत्रिय राजाप्रमुख प्रसिद्ध हता, ते सर्वेने मारी, तेउनी दाढाथी एक थाळ जयों. हवे परशुरामे गुप्तपणे नि-
 : : पुठ्युं के मारुं मोत कोना हाथर्षी थशे ? निमित्तियाउये क-

छुं के जे थाल तमोये दाढाथी जरेल ठे, ते थालमां जे पुरुषना देखवाथी दाढानी क्षीर बनी जशे, अने आपना सिंहासन उपर वेसी जे ते क्षीरने खाशे, तेना हाथथी तमारुं मरण थशे. आ निमित्त सांचली परशुरामे दानशाला शुरू करी. दानशालानी आगल एक सिंहासननी रचना करी. ते उपर क्षत्रियोनी दाढावालो स्थाल राख्यो. हवे तापसोना आश्रममां प्रतिदिन तापसोना लाडथी उठरतो वृद्धनी जेम सुचूम वृद्धि पास्यो. ते अवसरे मेघ नामना विद्याधरे कोइ निमित्तियाने पुव्युं के मारी पद्मश्री नामनी कन्यानो कोण वर थशे? निमित्तियाये कछुं के सुचूम वर थशे; एम कही सुचूमनो वृत्तांत मेघ विद्याधरने कह्यो. मेघ विद्याधरे पोतानी पुत्री सुचूमने परणावी, अने सेवकनी जेम तेनी पासे रहेवा लाग्यो. एकदा सुचूमे पोतानी माताने पुव्युं हे माता! जेमां आपणे रहींये ठीये तेदलोज लोक ठे के तेनाथी अधिक पण ठे? माताये कछुं, लोक तो अनंत ठे, अने आ आश्रमस्थान तो मांखीना पग जेटली जगामां ठे. आ लोकमां बहुज प्रसिद्ध हस्तिनापुर नामतुं नगर ठे. ते नगरीमां तारा पिता कृतवीर्य नामना राजा राज्य करता हता, परंतु परशुराम तारा पिताने मारी हस्तिनापुरनो राजा बनी गयो ठे. ते परशुरामे निःक्षत्रिय पृथ्वी करेदी ठे. परशुरामना जयथीज अमे आ आश्रममां गुप्तपणे रहींये ठीये. माताना आ वचनो सांचली सुचूम मंगलना तारानी जेम लाल थयो. आश्रमथी निकली सिधो हस्तिनापुरमां आव्यो. लोकोये तेने दीगो, त्यारे विचारवा लाग्या के आवो अद्भुत सुंदर पुत्र कोनो हशे? पुठतां सुचूमे कछुं, हुं क्षत्रिय पुत्र तुं. लोकोये कछुं, तुं बलती अग्निमां पतंगीआनी जेम केम आव्यो? सुचूमे कछुं, परशुरामने मारवा आव्यो तुं. लोकोए तेने बालक जाणी तेना बोलवा उपर कांइ ख्याल न कर्यो. हवे सुचूम सिंहनी जेम पूर्वोक्त सिंहासन उपर जइ वेठो. तत्काल देवताना विनियोगथी दाढानी क्षीर बनी गइ. सुचूम ते खावा लाग्यो. रक्षपाल ब्राह्मणो तत्काल सुचूमने मारवा उठ्या, ते बखते मेघनाद विद्याधरे सर्व ब्राह्मणोने मारी काढ्या. आ वृत्तांत जाणी परशुराम कंपतो, दांत पीसतो, क्रोधथी जाज्वल्यमान थतो, परशु लइ सुचूमने मारवा आव्यो. सुचूमने मारवा परशु चलावी, परंतु ते परशु सुचूम

सुधी पहोंचतां पेहेलांज आगना अंगारानी जेम उलवाइ गइ. परशुनी विद्यादेवी सुचूमना पुण्य प्रजावथी परशु ठोडी नासी गइ. सुचूमे श-
स्त्रना अजावथी तत्काल थालज उठावीने परशुराम उपर फेंक्यो, ते
थालनुं चक्र बनी गयुं. ते चक्रे परशुरामनुं मस्तक कापी नांख्युं. ते
चक्रथीज सुचूम आठमो चक्रवर्ती थयो.

आ कथा उपर लौकिक शास्त्रमां नवीन कथा बनाववामां आवी ठे,
परंतु ते वास्तविक नथी. नवीन कथा एवी ठे के परशुराम परशुथी द्वा-
त्रियोने मारतो. मारतो रामचंद्रजी पासे पहोंच्यो, अने परशुथी रामचं-
द्रजीने मारवा लाग्यो. रामचंद्रजीये नम्रताथी तेनी पगचंपी करी, तेतुं
तेज हरी लीधुं, तेथी परशुरामनी परशु तेना हाथमांथी नीचे पडी गइ,
जे परशु ते फरीथी उपाडी शक्यो नही. इत्यादि. हवे सार खेवानो ए
ठे के— नवीन वात कोइ पण रीते साची ठरे तेम ठे ? परशुराम एक
अवतारी पुरुष हता. तेनी हीनता दूर करवा वास्ते श्रीरामचंद्रजीनो सं-
बंध लखी बनाव्यो ठे. ते संबंध बनावता एक अवतारना अंशने बीजा
अवतारे खेंची लीधो, तेमां परशुरामनी लघुता बतावी एटलुंज नहि पण
एवो पण विचार न कर्यों के बने अवतार अज्ञानी बनी जशे. ज्यारे
परशुराम पोते पोतानाज अंशने कुहाडाथी कापवा लाग्या, त्यारे तेना
करतां अधिक कोण अज्ञानी कहेवाय ? तेथी वास्तविक ए ठे के जेनी
पासे परशुरामनी परशु पडी गइ ते रामचंद्रजी न हता, परंतु ते आ-
ठमो सुचूम चक्रवर्ती हतो. ज्यारे सुचूम चक्रवर्ती थयो, त्यारे जेम पर-
शुरामे सातवार निःद्वित्रिय पृथ्वी करी हती, तेम पाठवा वेरथी. सुचूमे
एकवीश वार निर्वाहणी पृथ्वी करी. पोतानी जाण प्रमाणे कोइ पण ब्रा-
ह्मण जीवतो राख्यो नही. तेज कारणथी आ राजाउने ब्राह्मणोये दैत्य,
राक्षसना नामथी पुस्तकोमां लखेल ठे. वझे मरीने अधोगतिमां गया.
इति परशुराम तथा सुचूम चक्रवर्ती वृत्तांत.

सुचूम चक्रवर्ती पेहेलां तेज अंतरमां ठठा पुरुषपुंडरिक वासुदेव, आ-
नंद नामना बलदेव अने बलि नामना प्रतिवासुदेव थया, तथा सुचू-
मनी पठी तेज अंतरमां दत्त नामना सातमा वासुदेव, नंद नामना बल-
देव, अने प्रल्हाद नामना प्रतिवासुदेव थया.

त्यार पठी मिथिलानगरीमां इक्ष्वाकुवंशी कुञ्ज राजा थया, तेनी प्रजावती राणीनी पुत्री मङ्गिनाथ नामा उंगणीशमा तीर्थंकर थया.

त्यार पठी राजगृह नगरीमां हरिवंशी सुमित्र राजा थया, तेनी पद्मावती राणीना पुत्रं मुनिसुव्रत नामना बावीशमा तीर्थंकर थया. तेमना समयमां महापद्म नामना नवमा चक्रवर्ती थया. तेनो संबंध त्रेशठशलाकापुरुषचरित्रथी जाणवो, परंतु तेना ज्ञाश् विष्णुकुमारनो थोडो संबंध अर्हीआ लखीये ठीये.

हस्तिनापुर नगरमां पद्मोत्तर नामना राजानी ज्वालादेवी राणीने वे पुत्रो थया. मोटानुं नाम विष्णुकुमार अने नानानुं नाम महापद्म हतुं. ते अवसरे अवंती नगरीमां श्रीधर्म नामनो राजा हतो. तेनो मंत्री नमुचि के जेतुं वीजुं नाम बल हतुं. ते मिथ्यादृष्टि ब्राह्मण हतो. तेणे श्रीमुनिसुव्रतस्वामिना शिष्य सुव्रत आचार्यनी साथे पोतानामत संबंधी विवाद कयों. वादमां ते हारी जवाथी, रात्रिये तलवार लश् आचार्यने मारवा चाळ्यो. रस्तामां पग थंज्या. आ वृत्तांत राजाना जाणवामां आवतां तेणे नमुचिने राज्यनी हृदपार कयों. नमुचि (बल) त्यांथी निकली हस्तिनापुरमां युवराज महापद्मनी सेवा करवा लाग्यो. तेनाथी कोश् काममां तुष्टमान थश् जवाथी महापद्मे तेने वरदान आप्युं. कालानुक्रमे पद्मोत्तर राजा तथा विष्णुकुमार वंश्रे सुव्रताचार्यनी पासे दीक्षा लेता हवा. पद्मोत्तर राजा मोक्ष पास्या, अने विष्णुकुमार तपना प्रजावथी महा लब्धिवान् थया. अनुक्रमे सुव्रताचार्य फरी हस्तिनापुरमां आव्या. ते वखते नमुचिवले विचार कयों के आ अवसर वेर लेवानो ठे; तेथी महापद्म चक्रवर्तीने विनंति करी के, जेम वेदमां कहेल ठे तेम हुं एक महायज्ञ करवा इहुतुं, तेथी मने पूर्वोक्त आपेलुं वरदान सफल करो. महापद्मे कहुं सुखेथी मांग. नमुचिये कहुं के मने केटलाएक दिवससुधी आपनुं तमाम राज्य सत्तासहित आपो. ते सांजली महापद्म तेनी चाहना मुजव सर्व राज्यसत्ता आपी पोताना अंतःपुरमां चाळ्या गया. हवे नमुचिये अंदर आसन उपर वेगो. ते वखते जैन मतंना साधु शिवाय वीजा सर्व सन्यासी, त्रिहु, तेमज गृहस्थो जेटणा लश् नमस्कार करवा आव्या, ते

प्रसंगे नमुचिये कछुं के आ यज्ञ मंडपमां नथी आव्या एवा कोइ वाकी ठे ? लोकोये कछुं के जैनमतना सुव्रताचार्य शिवाय वीजा सर्वे दर्शनवालाउं आवी गया ठे. तत्काल नमुचिये क्रोधयुक्त थइ आचार्यने बोलाववा वास्ते सिपाइउंने मोकट्या, अने तेउंनी साथे कहेवरांयुं के राजा गमे तेवो होय तोपण सर्वने मानवा योग्य ठे, तेमां पण साधुउंने तो विशेष रीते मानवा योग्य ठे; कारण के राजाथी उपरांत एवा अनाथ लिंगीउंनी रक्षा करनार वीजो कोण ठे ? वली तमे अमने कांइ पण करवाने समर्थ नथी. कदापि तेउं अहींआ न आवे तो कहेवुं के तमे बहु अजिमानी ठो; तथा अमारा धर्मना निंदक ठो, तेथी मारा राज्यथी बहार निकली जाउं? जे रहेशे तेउंने हुं मारी नांखीश, अने तेमां मने पाप पण लागवानुं नथी. सिपाइउंना उपर मुजब जहांगीरी संदेसाथी आचार्ये आवी मीठा वचनथी कछुं के गृहस्थना काममांजवुं ते अमारो कटप (आचार) नथी. अमे अजिमानथी आव्या नथी एम आप समजशो नहि, कारण के साधुउं तो समजावथी पोताना धर्मकृत्योमां प्रवर्ते ठे. ते सांजली नमुचिवले कठोर वचनथी शांतवृत्तिवाला मुनियोने कछुं के, सात दिवसनी अंदर तमे सर्वे मारा राज्यनी बहार निकली जाउं, त्यार वाद जेउं रहेशे तेउंने हुं मारी नांखीश. ते हुकम सांजली सर्व मुनियो पोताना तपोवनमां गया, अने विचार करवा लाग्या के हवे शुं उपाय करवो ? एक साधुए विचार करी कछुं के महापद्म चक्रवर्तीना मोटा जाइ विष्णुमुनि लब्धिपात्र ठे, अने ते मेरुपर्वत उपर ठे, तेना कहेवाथी नमुचिवल प्रशांत थशे, ते कारणथी कोइ चारण साधु तेने अहींआ बोलावी लावे तो सारुं थाय. तत्काल एक साधु बोल्या के मारी त्यांसुधी जवानी शक्ति ठे, परंतु पाठा आववानी शक्ति नथी. गुरुए कछुं, तमने अहींआ विष्णुमुनि लइ आवशे, तमे जाउं. ते साधु एक क्षणमां लब्धिथी त्यां गया, अने विष्णुमुनिने सर्वे वृत्तांत संजलाव्यो. विष्णुमुनि तत्काल त्यांथी निकली साधुने साथे लइ गुरुनी पासे आव्या, अने वंदना करी. पठी गुरुनी आझाथी एकलाज राजसजामां आव्या. ते बखते नमुचिवल विना सजाना सर्वे लोकोये उठीने तेमने वंदना करी. विष्णुमुनिये धर्मोपदेश दइ कछुं के निःसंगी साधुउं साथे वेर खेडवुं ते महा नर्कवुं

कारण ठे, कारण के साधु कोइनुं वगाडता नथी. वली जगत् पण मोटा पुरुषोने नमस्कार करे ठे. कोइ शास्त्रमां मुनिनी निंदा करवी कही नथी, उतां पण आश्चर्यमात्र ए ठे के, तुष्ट तथा क्षणिक, राज्य पामी अधम पुरुष मुनिउनुं अपमान करी पोताने मुनिउं पासे नमस्कार कराववा चाहे ठे, वली नमुचिबलने तेमणे कछुं के तुं आ बुरुं काम करवुं जवा दे, जेथी सर्व साधुउं सुखे रहे; वली तुं मत्सरमां मग्न थइ पोतानुं पोते शावास्ते वगाडवा चाहे ठे? साधुउं चोमासामां विहार करता नथी, कारण के चोमासामां जीवोनी बहुज उत्पत्ति थइ जाय ठे. वली सर्व जगोए तारुंज राज्य ठे, तो सर्व साधु सात दिवसमां क्यां चाह्या जाय? विष्णुमहाराजना वचन सांजली नमुचिबल कुकाष्टनी जेम अक्कड थइ वोळ्यो के बहु बोलवानुं कांइ प्रयोजन नथी. पांच दिवस उपरांत जो तमारो साधु मारा राज्यमां रदेशे, तो हुं तेने चोरनी जेम वांधीश. वली तुं पण अमने मानवा योग्य ठे, तेथी तुं जइने साधुउंने कही दे के जेउंने जीववानी चाहना होय ते नमुचिना राज्यथी वहार चाह्या जाय, कारण के राज्य ब्राह्मणनुं ठे. वली तारा मानने खातर त्रण कदम अर्थात् त्रण पगलां जेदली जग्या आपु तुं, तेनी वहार कोइ साधुने देखीश, तो तेनो शिरछेद करीश. विष्णुमुनिये विचारुं के आ पुरुष, साम अर्थात् मीठा वचनोथी समजी, माने तेवो नथी. आ तो महा पापी अने साधुउंनो घातक ठे, तेथी तेनी जडज उखेडवी जोइये. एवो निश्चय करी अत्यंत कोपमां आवी विष्णुमुनिये वैक्रिय लब्धिथी पोतानुं शरीर एक लाख योजननुं बनाव्युं. एक पगलाथी जरत क्षेत्रादि माप्या, बीजुं पगलुं पूर्वापर समुद्र उपर धरी, त्रीजुं पगलुं नमुचिबलना मस्तक उपर मुक्युं, जेथी नमुचिबल सिंहासन उपरथी पडी जमीननी अंदर उतरी गयो. तत्काल मरण पामी नर्कमां गयो. देवताउंये विष्णुमुनिने मधुर गीत तेना कानमां संजलावी शांत कर्या, पठी शरीर संकोची गुरुपासे आवी आलोचना करी. पापनुं प्रायश्चित्त लइ विहार करी गया. जप, तप, करी संयम पाळी मोडे गया. आ कथाथी एम मालम पडे ठे के ब्राह्मणोये पुराणोमां जे लख्युं ठे के, विष्णु जगवाने वामनरूप करी यह कर्त्ता वली राजानी साथे ठखना करी. ते आज विष्णुमुनि अने नमुचिनी कथा समजवी. ते कथाने व-

गाडी.पोताना मतने अनुसारे कांइनी कांइ कथा वनावी लीधी ठे. सार काढवानो ए ठे के श्री जगवानने एवी शुं गरज हती के धर्मी तथा यज्ञ करनारा वलि राजा साथे ठलजेद करी तेने नुकशान करतुं? एतुं काम तो निःकेवल बुद्धिहीन पुरुषोनुं ठे, के पोतानी पुत्रियो तथा परस्त्रीयो साथे विषय सेवन करवानी वातो करवी. वली जगवान असत्य बोड्या, वीजा पासे असत्य बोलाव्युं, चोरी करी, वीजानी साथे कुशील सेवन कर्युं, ठलथी वीजाने मार्या, कपटना काम कर्या. इत्यादि काम तो नीच जनोने करवा योग्य ठे. श्री वीतराग, सर्वज्ञ परमेश्वर आवां काम कदापि करता नथी. एवां काम करनारने, परमेश्वर, जूलथी पण न मानवा जोइये इति विष्णुमुनि तथा नमुचिवलनो संबंध.

वीशमा अने एकवीशमा तीर्थकरना अंतरमां श्री अयोध्या नगरीना दशरथ राजानी कौशल्या राणीना पद्म (रामचंद्र) नामना पुत्र थया. ते आठमा बलदेव; अने दशरथ राजानी सुमित्रा राणीना पुत्र नारायण (लक्ष्मण) थया, ते आठमा वासुदेव थया. जेनो शत्रु, रावण प्रतिवासुदेव लंकानो राजा थयो. आ सर्व वृत्तांत जगत्मां प्रसिद्ध ठे. आ त्रणेंनुं यथार्थ चरित्र पद्मचरित्रथी जाणवुं. लौकिक रामायणमां रावणना दश मस्तकनी जे वीना लखेली ठे, ते वास्तविक नथी. मनुष्यने स्वप्नाविक रीते दश मस्तक कदापि होइ शकतां नथी. पद्मचरित्रना प्रथम अनुयोगमां लख्युं ठे के रावणनी पासे वडीलोनी परंपराथी नव माणिकनो एक मोटो हार चाड्यो आवतो हतो. रावणे वाड्यावस्थाथी पोताना गलामां ते पेहेरी लीधो हतो. नवे माणिक बहुज मोटां हतां. चार माणिक एक वाजुना स्कंध उपर अने पांच माणिक वीजी वाजुना स्कंध उपर हारमां जडेलां रहेतां. अने तेमां नव मुखो देखातां हतां. दसमुं रावणनुं असल मुख; तेज कारणथी दसमुखवालो रावण कहेवातो हतो. रावणना समयथीज हिमालयमां वडीनाथनुं तीर्थ उत्पन्न थयेल ठे. तेनी उत्पत्ति जैनमतना शास्त्र मुजव आ प्रमाणे जणाय ठे. ते मूर्ति, असली पार्श्वनाथनी हती, तेनुंज नाम वडीनाथ राखवामां आव्युं. तेनुं संपूर्ण स्वरूप गद्यबंध पार्श्वपुराणथी जाणवुं.

त्यार पठी मिथुला नगरीमां इक्ष्वाकु वंथी विजयसेन राजानी विप्रा

राणीना पुत्र श्री नमिनाथ नामना एकवीशमा तीर्थकर थया. तेना समयमां हरिपेण नामना दशमा चक्रवर्ती थया; तथा एकवीशमा अने वावीशमा तीर्थकरना अंतरमां अगीआरमा जय नामा चक्रवर्ती थया.

त्यार पठी सौरीपुर नगरमां हरिवंशी समुद्रविजय राजानी शिवा-
देवी राणीना पुत्र श्री अरिष्टनेमि नामना वावीशमा तीर्थकर थया,
तेना समयमां तेमना काकाना पुत्र नवमां कृष्ण वासुदेव अने राम (व-
लज्ज) बलदेव थया. तेना प्रतिशत्रु जरासिंधु प्रतिवासुदेव थया. ते-
मां कृष्ण अने बलदेव तो जगत्मां बहुज प्रसिद्ध ठे; कारण के लोको
श्री कृष्ण वासुदेवने साक्षात् इश्वर तथा इश्वरना अवतार, जगत्कर्त्ता
माने ठे. आ वात कृष्ण वासुदेव जीवता ठतां तो बिलकुल हतीज न-
हि, परंतु तेमना मरण पठी लोको कृष्ण वासुदेवने इश्वरावतार मा-
नवा लाग्या ठे. शा कारणथी तेम मानवा लाग्या, तेनो हेतु त्रेशठ श-
लाका पुरुष चरित्रमां आ प्रमाणे लखेल ठे:

ज्यारे कृष्ण वासुदेवे कोशंबी वनमां पोतानुं शरीर ठोड्युं, एटले त-
त्काल बालुप्रजा पृथ्वी (पाताल) मां गया. बलज्जजी एकसो वर्षे
सुधि जैनदीक्षा पाळी पांचमां ब्रह्म देवलोकमां गया. अवधिज्ञानथी
पोताना जाइ श्री कृष्णने पातालमां त्रीजी पृथ्वीमां देखी, जाइना स्ने-
हथी वैक्रिय शरीर बनावी श्री कृष्णनी पासे पहोंच्या. श्रीकृष्णने आ-
लिंगन करी कछुं के हुं बलज्ज नामनो तमारा पाठला जवनो जाइ हुं.
तमारी उपरना स्नेहथी अहींआ तमने मलवा आव्यो हुं. हवे तमारा
सुखने वास्ते हुं शुं करुं ते तमो फरमावो ? एम कही बलज्जजीए कृ-
ष्णने पोताना हाथ उपर लीधा. कृष्णनुं शरीर तत्काल पारानी जेम
हाथ उपरथी जमीन उपर ढली पड्युं, अने पोताना मूल स्वरूपे बनी
गयुं. ते प्रमाणे प्रथम आलिंगन करवाथी, तथा वृत्तांत कहेवाथी अने
हाथ उपर उपाडवाथी कृष्णे पण जाण्युं के आ मारो पूर्व जवनो अति
बलज्ज जाइ बलज्ज ठे. हवे कृष्णे संत्रमथी उठी नमस्कार कयो, त्यारे
बलज्जजीए कछुं, हे जाइ ! श्री नेमिनाथजीए आपने कछुं हतुं के
आ विषयसुख महा दुःखदायक ठे, ते तमे प्रत्यक्ष अनुभव कयो, बली
कर्मनियंत्रित एवां तमने हुं स्वर्गमां पण लइ जवाने शक्तिवान् नथी,

परंतु तमारा स्नेहथी तमारी पासे रहेवा इतु तुं. कृष्णे कछुं के हे जाइ ! तमो अत्रे रहेवा ठतां पण, मारे करेला कर्मनुं फल तो अवश्य जोगवानुंज ठे, परंतु मने आ दुःखथी ते दुःख बहुज अधिक लागे ठे के:- तुं, द्वारिका तथा सकल परिवार दग्ध थइ जवाथी एकलो कोशंबी वनमां जरा कुमारना तीरथी मृत्यु पाम्यो, जेथी मारा शत्रुठने सुख अने मारा मित्रोने दुःख थयुं. जगत्मां सर्व यदुवंश वदनाम थयो. ते कारणथी हे जाइ ! तमो जरतखंडमां जइ चक्र, शारंग, शंख, तथा गदा धारण करनारुं, पीला वस्त्रवालुं, अने गरुडनी ध्वजावालुं, मारुं रूप बनावी, विमानमां वेसी, लोकोने ते प्रमाणे वतावो, तथा नील वस्त्रवालुं तालध्वज, हल, मुशल, शस्त्रने धारण करेलुं एवुं तमारुं रूप पण विमानमां वेसी लोकोने वतावो, अने सर्व जगोए लोकोने कहो के, राम कृष्ण एवा अमे वंने अविनाशी ठइए, तथा स्वेत्ताविहारी ठइए. ज्यारे लोकोने आ सत्य प्रतीत थइ जशे, त्यारे अमारो सर्व अपयश दूर थइ जशे. श्री कृष्णनुं पूर्वोक्त सर्व कथन श्री बलजड्जजीए स्विकारी दीथुं. बलजड्जजी जरतखंडमां आवी कृष्ण बलजड्जनुं रूप करी सर्व जगोए विमानमां वेसी, लोकोने कहेवा लाग्या के, हे लोको ! तमे कृष्ण बलजड्जनी अर्थात् अमो वंनेनी सुंदर प्रतिमा बनावी, इश्वरनी बुद्धिथी, अति आदर सत्कारथी, तेनी पूजा जक्ति करो ? कारण के अमेज जगतना रचनारा ठइए, अने स्थिति, संहार करनारा पण अमेज ठइए. अमे पोतानी इच्छा पूर्वक स्वर्ग (वैकुण्ठ) मांथी चाह्या आवीए ठइए, अने फरी अमारी इच्छा प्रमाणे स्वर्गमां जइए ठीए. द्वारिकानी रचना अमेज करी हती, अने अमेज द्वारिकानो संहार कर्यो ठे, कारण के ज्यारे अमे वैकुण्ठमां जवानी इच्छा करीए ठीए, त्यारे द्वारिका सहित पोतानो सर्व वंश नाश करी चाह्या जइए ठीए. अमारी उपरांत बीजो कोइ कर्त्ता हर्त्ता नथी. आ प्रमाणे बलजड्जजीनुं कहेवुं सांजली सर्व नगर तथा गामोना लोको, कृष्ण बलजड्जजीनी प्रतिमा, सर्व जगोए बनावी पूजवा लाग्या. जेथी बलजड्जजी प्रतिमा पूजनाराठने धन, धान्यादि अनेक वस्तुठनो लाज आपी सुखी करता हता. तेज कारणथी बहु लोको हरिजक्त थइ गया. ज्यारथी तेठ जक्त थया त्यारथी पुस्तको बनावी कृ-

ष्णजीने पूर्णब्रह्म परमात्मा इश्वरादि अनेक नामोष्ठी लखी तेमनी स्तु-
ति करवा लाग्या. ज्यारथी बलजडजीए कृष्णनी पूजा करावी, त्यार-
थीज लोकोए कृष्णनो इश्वरावतार मान्यो हीय, एम केम न होय ?
लौकिक शास्त्रोमां कृष्णने थयाने पांच हजार वर्ष थयां ठे, अने उपर
मुजवना वृत्तांतने पण पांच हजार वर्ष थयां ठे. ते वंने तपासतां उपर
मुजव वन्यानी हकीकत साची सावीत थाय ठे.

बावीसमा अने त्रेवीसमा तीर्थकरना अंतरमां वारमा ब्रह्मदत्त ना-
मना चक्रवर्ती थया. त्यार पठी वाणारसी नगरीमां इक्ष्वाकु वंशी अ-
श्वसेन राजा थया. तेनी वामा राणीना पुत्र श्री पार्श्वनाथ नामना त्रेवी-
समां तीर्थकर थया.

त्यार पठी कृत्रियकुंड नगरमां इक्ष्वाकुवंशी सिद्धार्थ नाममा राजा-
नी त्रिसला राणीना पुत्र श्री वर्द्धमान (महावीर) स्वामि चोवीसमां च-
रम तीर्थकर थया. जगतखंडमां वर्त्तमानमां जैनमत जे प्रचलित ठे, ते
महावीरस्वामिना शासनथीज चाळे ठे, अने जे शास्त्रो रचायेलां ठे, ते
सर्वे तेमना उपदेश अनुसारेज रचायेलां ठे. श्री महावीरस्वामिनुं सर्व
वृत्तांत जोतुं होय तो आवश्यकसूत्रवृत्ति, कल्पसूत्रवृत्ति तथा महा-
वीरचरित्रादि ग्रंथोष्ठी अवलोकन करतुं.

इति श्री तपगढीय मुनि श्री गणि मणिविजय तद्विष्य मुनि बुद्धि-
विजय तद्विष्य मुनि आत्माराम आनंदविजय विरचिते जैनतत्त्वा-
दर्शे श्री रीपजादि महावीर पर्यंत पूर्ववृत्तांतनिरूपणनाम एकादश
परिच्छेदः समाप्तः ॥ ११ ॥

॥ अथ द्वादश परिच्छेद प्रारंभः ॥

आ परिच्छेदमां श्री महावीर स्वामिथी वर्त्तमान समय सुधितुं वृत्तांत
लखीए ठीए. श्री महावीर जगवानना अग्यार शिष्य मुख्य हता. सर्व
साधु शिष्यो चौद हजार हता. तेजमां ११ मुख्य हता. तेमना नाम. १
इंद्र चूति, (गौतमस्वामि) २ अग्निचूति, ३ वायूचूति, ४ व्यक्तस्वामि,
५ सुधर्मास्वामि, ६ मंडितपुत्र, ७ मौर्यपुत्र, ८ अंबकंपित, ९ अचलत्रा-
ता, १० मैतार्य. श्री जगवानथी दीक्षित, ठत्रीश हजार साध्वीउं थइ.

श्री जगवंतना अनेक राजाउ जक्त (सेवक) हता, जेउ श्रावक हता, तेउ मध्येथी केटलाएकना नाम, श्रेणिक राजा, उदायन, कोणिक, उदायी, वत्सदेशना उदायन, चेटक, नवमल्लिककृत्रिय जाति, नवलेडिक कृत्रियजाति, चंद्रप्रद्योत, श्वेतराजा, विजयराजा, नंदिवरुन राजा, हस्तिपालराजा. इत्यादि. सामान्य गृहस्थो आनंद, कामदेव, शंख, पुष्कली प्रमुख श्रावको, तथा जयंती, रेवती, सुलसा प्रमुख श्राविकाउ लाखो हती. श्रावक समुदायमां एक श्रावक सत्यकी नामनो अविरति सम्यग्दृष्टि हतो. तेनुं चरित्र आवश्यक शास्त्रमां नीचे प्रमाणे लखेल ठे.

विशाला नगरीमां चेटक राजानी पुत्री सुज्येष्ठा नामनी हती; तेणीये कुमारी अवस्थामां दीक्षा लीधी हती, अर्थात् साध्वी थइ हती. ते एकदा उपाश्रयनी अंदर सूर्यनी सन्मुख आतापना लेती दती, ते अवसरे पेढाल नामनो परिव्राजक (संन्यासी) विद्यासिद्ध हतो, ते पोतानी विद्यातुं दान करवावास्ते पात्र पुरुषनी तपास करतो हतो. विचार एवो हतो के, जो ब्रह्मचारिणीनो पुत्र होय तो दान आपवाने उत्तम पात्र गणाय. हवे ते संन्यासीये एकदा रात्रिये सुज्येष्ठाने नम्रपणे शीतनी आतापना लेती दीठी, ते समये धुंध विद्यार्थी अंधारामां तेणीने अचेत करी तेणीनी योनिमां पोताना वीर्यनो संचार कर्यो. ते अवसरे सुज्येष्ठा ऋतुधर्मने प्राप्त थइ हती, तेथी तेणीने गर्ज रह्यो. हवे साध्वीउना समुदायमां गर्जनी चर्चा थवा लागी, परंतु अतिशय ज्ञानीये कहुं के सुज्येष्ठार्ये कोइनी साथे विषयसेवन करेल नथी, अने विद्याधर संवंधी सर्व वृत्तांत कह्यो, जेथी सर्वनी शंका दूर थइ गइ. योग्य समये सुज्येष्ठाने पुत्र थयो, ते पुत्रने श्रावकोये पोताने घेर पाळी मोटो कर्यो, तेनुं नाम सत्यकी पाड्युं. एकदा सत्यकी, साध्वीउनी साथे श्री महावीर जगवानना समवसरणमां गयो हतो, ते अवसरे कालसंदीपक नामनो एक विद्याधर श्री महावीरस्वामिने नमस्कार करी पुठवा लाग्यो के हे जगवन् मने कोनाथी जय ठे? जगवंते कहुं के आ सत्यकी नामना ठोकराथी, तने जय ठे. ते सांजली एकदा कालसंदीपक सत्यकीनीपासे गयो, तेनी अवज्ञा करी कहेवा लाग्यो के शुं तुं मने मारीश ? एम कही जोरावरीथी सत्यकीने पोताना पगवधे नाख्यो, ते समये तेनो पिता पेढाल आवी पहोंचवाथी तेनुं संरक्षण

क्युं. पठी पेढाले पोतानी सर्व विद्या सत्यकीने आपी. सत्यकी महारो-
हिणी विद्यानुं साधन करतो हतो. सत्यकीनो रोहिणी विद्या साधन क-
रवानो आ सातमो जव हतो. रोहिणी विद्या साधतां सत्यकीनो जीव
पांच जवसुधी जीव (प्राण) थी मायों गयो. ठठा जवमां पोतानुं आयुष्य
ठ महिना वाकी रहेते ठते रोहिणी विद्या साधवानी इठा थवाथी ते
इठा पार पाडवानो आरंज कयों नहि; परंतु आ सातमां जवमां रोहिणी
विद्या साधवानो आरंज कयों. तेनी विधि लखीये ठीये.

अनाथ मृतक मनुष्यने चितामां सलगावे, अने आला चामडाने श-
रीर उपर लपेटी डावा पगना अंगुठा उपरज उजा रही ज्यांसुधी ते चि-
तामां काष्ठ सलग्या करे त्यांसुधी मंत्रनो जाप करे. आ विधि प्रमाणे स-
त्यकी विद्या साधतो हतो. ते वखते कालसंदीपक विद्याधर पण त्यां आवी
पहोंच्यो. तेणे चितामां लाकडां नाखी सात दिवससुधी अग्नि बुजावा
दीधो नहि. जेथी सत्यकीनी दृढता देखी रोहिणी देवी साक्षात् प्रगट
थइ, कालसंदीपकने कहेवा लागी के तुं विघ्न कर नहि? कारण के हुं सत्यकी
उपर तुष्टमान थइ सिद्ध थयेली तुं. रोहिणी देवीये तत्काल सत्यकीने
कछुं के हे सत्यकी! तारा शरीरमां हुं कये रस्तेथी प्रवेश करुं? सत्यकीये
कछुं, मस्तक उपरथी प्रवेश कर? रोहिणीये मस्तकने रस्तेथी प्रवेश कयों,
जेथी सत्यकीने मस्तकमां खाडो पडी गयो. देवीये तुष्टमान थइ मस्त-
कना खाडानी जगाये त्रीजा नेत्रनो आकार बनाव्यो. हवे सत्यकी त्रण
नेत्रवालो प्रसिद्ध थयो. एकदा सत्यकीये वीचार कयों के पेढाले मारी
माता, जे राजानी कुमारी कन्या हती तेने वगाडेली ठे, तेथी तेने शि-
क्षा करवी जोइये, एम निश्चय करी, तेणे पोताना पिता पेढालने मारी
नांख्यो. जेथी लोकोये सत्यकीनुं नाम रुद्र (जयानक) पाडी दीधुं, का-
रण के जेणे पोताना पिताने मारी नांख्यो, तेना करतां वीजो कोण व-
धारे जयानक कहेवाय? हवे सत्यकीये विचार कयों के कालसंदीपक
मारो दुश्मन ठे, ते कयां ठे? ज्यारे सांजलवामां आव्युं के ते अमुक ज-
गाये ठे, त्यारे ते तेनी पासे पहोंच्यो. कालसंदीपक तेने देखी जाग्यो,
सत्यकीये तेनी पूंठ पकडी. कालसंदीपक नीचे उंचे, ज्यां त्यां जागतो
रह्यो, परंतु सत्यकीये तेनो पीठो मुक्यो नहि. अनुक्रमे कालसंदीपके स-

त्यकीने जूल थापमां पाडवावास्ते त्रण नगर वनाढ्यां, सत्यकीये विद्याथी त्रणे नगरने सलगावी दीधां, ठेवटे कालसंदीपक नासीने लवण समुद्रना पाताल कलशामां चाळ्यो गयो. सत्यकीये त्यां जइ कालसंदीपकने मार नांख्यो. पठी सत्यकी विद्याधर चक्रवर्ती थयो. त्रण संध्यासमये सर्व तीर्थ करोने वंदना करी नाटक करतो हवो. जेथी इंजे सत्यकीनुं नाम महेश्वर पाड्युं. महेश्वर (सत्यकी) ने वे शिष्यो थया. एक नंदीश्वर, वीजो ना दीया. नादीयाने विद्याना बलथी बलद वनावी लेवामां आवतो, अने तेना उपर वेसी महेश्वर अनेक क्रीडा, कुतुहल करतो हतो. महेश्वर श्रीमहावीर जगवंतनो अविरति सम्यग्दृष्टि श्रावक हतो, परंतु अत्यंत कामी हतो, अने ब्राह्मणोनी साथे तेने बहुज वेर हतुं, तेथी विद्याना बलथी तेणे सेंकडो ब्राह्मणोनी कुमारी कन्याउने विषयसेवन करी वगाडी हती. अनुक्रमे वीजा लोकोनी तथा राजा प्रमुखथी बहु तथा पुत्रीउनी साथे ते विषय सेवन करवा लाग्यो, परंतु तेनी विद्याना जयथी कोइ तेने कांइ पण कही शकतुं नहोतुं. जे कोइ तेनी आडे आवतो, ते मायों जातो हतो. महेश्वरे विद्याना बलथी एक पुष्पक नामतुं विमान वनाव्युं, तेमां वेसी पोतानी इष्टा मुजव फरतो हतो. ए प्रमाणे तेनो काळ व्यतीत थतो हतो. एकदा महेश्वर उज्जयनी नगरीमां आव्यो. त्यां चंद्रप्रद्योत राजानी शिवा नामनी राणी शिवाय वीजी सर्वे राणीउनी साथे तेणे विषय जोग कर्यो. वीजा लोकोनी बहु, पुत्रीउं प्रमुखने पण वगाडवा लाग्यो; जेथी चंद्रप्रद्योतने अत्यंत चिंता थवा लागी. तेणे विचार कर्यो के एवो कोइ उपाय करीये के जेथी महेश्वरनो विनाश थइ जाय; तेनी विद्याने लीधे कांइ पण उपाय चाळ्यो नहि. हवे ते नगरमां उमा नामनी एक अत्यंत रुपवंत वेश्या रहती हती. तेनो एवो नियम हतो के जे कोइ तेने अमुक संख्यानुं धन आपे, ते तेनी साथे विषय सेवन करे. एकदा महेश्वर ते वेश्याने घेर गयो. वेश्याये तेने आदर सत्कार करी तेनी सन्मुख वे फूलो राख्यां, एक खिलेलुं, अने वीजुं खिल्याविनानुं. महेश्वरे खिलेला फूल तरफ पोतानो हाथ पसायों, त्यारे उमाये खिल्या वगरनुं फूल महेश्वरना हाथमां आप्युं, अने कळुं के आ फूल (कमल) तमारा योग्य ठे. महेश्वरे पुळुं के आ कमल मारा योग्य केम ? त्यारे उमाये कळुं के आ

खिल्याविनाना कमल समान कुमारी कन्या ठे, जे तमने जोग करवा-
वास्ते वल्लभ ठे, अने हुं तो खिलेला फूल समान तुं. महेश्वरे कछुं के तुं
पण मने अति वल्लभ ठे. ए प्रमाणे वार्तालाप करी बंत्रे जणाउं विषयमां
आसक्त थयां. महेश्वर उमाना हावजावधी तेनेज घेर रहेवा लाग्यो.
उमाये महेश्वरने पोताने आधीन करी दीधो, जेथी उमानुं वचन महेश्व-
श्वर उल्लंघन करी शकतो नहोतो. ए प्रमाणे केटलोएक काल व्यतीत
थयो, त्यारे चंद्रप्रद्योते उमाने बोलावी बहुज आदर सत्कार तथा धन
आपी कछुं के तुं महेश्वरने आ वात पुठ? के एवो कोइ समय ठे, के जे
वखते तमारी पासे कांइ पण विद्या रहेती नथी? उमाये युक्तिपूर्वक पूठी
कहेवानुं वचन आप्युं. हवे उमाये महेश्वरने पुठ्युं हे स्वामि ! मने एक
जातनी बहुज वीक ठे. आपनी विद्या कोइ वखते जती रहे ठे के केम?
तेनो खुलासो करो, जेथी मने निरांत थाय. महेश्वरे कछुं हे वल्लभे ! तुं
विचार कर नहि. मारी विद्या जती नथी. मात्र ज्यारे हुं मैथुन सेवन
करुं तुं, त्यारे मारी पासे कांइ पण विद्या रहेती नथी, अर्थात् ते वखते
मारी विद्या चालती नथी. हवे उमाये महेश्वरनी सर्व विना चंद्रप्रद्यो-
तने कही दीधी, जेथी चंद्रप्रद्योते उमाने कछुं के अमारो महेश्वरने
मारवानो विचार ठे, जेथी तारी साथे ते जोग जोगवतो होय, अने तेने
मारीये एवी गोठवण कर. उमाये कछुं के मने मारवी नहि. राजाये
कछुं के बहु सारुं. पठी युक्ति प्रमाणे चंद्रप्रद्योते उमाना घरमां सुजटोने
गुप्त राख्या. ज्यारे महेश्वर उमानी साथे विषय सेवनमां मग्न थइ वंनेना
शरीरो परस्पर एक शरीरवत् थइ गयां, त्यारे राजाना सुजटोये वंनेने
कापी नांख्या, अने नगरनो उपद्रव दूर कयो. हवे महेश्वरनी सर्व वि-
द्याउये महेश्वरना शिष्य नंदीश्वरने पोतानो अधिष्ठाता बनाव्यो. ज्यारे
नंदीश्वरे पोताना गुरुने उपर मुजब विटंवनाथी मार्यानी वात सांजली,
त्यारे विद्याथी उल्लयनी उपर शिला विकुर्वा; अने कहेवा लाग्यो के हे मारा
दासो ! हवे तमे क्यां जशो ? हुं सर्वने चूर्ण करी नाखुं तुं. हुं सर्व शक्ति-
मान् इश्वर तुं. क्रोड्नो मार्यो मरतो नथी. हुं सदा अविनाशी तुं. आ
जयानक वचनोथी लोको बहुज डरवा लाग्या, सर्वे लोको विनंति करी
पगे पडवा लाग्या, तथा सर्वेये कछुं के अमारा अपराध क्षमा करो. नंदी

श्वरे कहुं के तमे तेज श्वस्थामां अर्थात् उमाना जगमां महेश्वरतुं लिंग स्थापन करी पूजा करो, तोज हुं तमोने जीवता ठोडुं. लोकोये तेज प्रमाणे अंगीकार करी पुजा करवी शरु करी. नंदीश्वरे तेज प्रमाणे अनेक गाम, नगरोमां लोकोने डरावी मंदिरो वंधाव्यां, तेमां पूर्वोक्त आकारे जगमां लिंग स्थापन करी पूजा करावी, आ श्रीमहावीरना अविरती स-म्यग्रहृष्टि श्रावक महेश्वरनी उत्पत्ति ठे.

श्री महावीर स्वामिना समयमां राजगृह नगरमां श्रेणिक राजानी चेलणा राणीने कोणिक नामनो पुत्र थयो. कोणिकने तेना पिता श्रेणिकनी साथे पूर्व जन्मतुं वेर हतुं, तेथी कोणिक मोटो थतां तेणे श्रेणिकने गादीउपरथी उठाडी, पकडीने पांजरामां केद कर्यो; अने राज्यगादी उपर पोते वेठो. एकदा पोतानी माता चेलणाए प्रसंगवशात् कोणिकने कहुं के तुं तारा पिताने जेवो वहालो हतो, तेवो कोइ पण वीजो पुत्र वहालो न होतो, कारण के ज्यारे तुं बालक हतो, त्यारे तारी आंगली पाकी हती, जेथी तने रात्रिए विलकुल निद्रा आवती न होती, अने आखी रात तुं रोया करतो हतो. ते वखते तारा पिता तारी आंगलीने पोताना मुखमां लइ तने आराम थवा माटे ते पाकेली आंगलीतुं रुधिर तथा पर चुसी, शुकी काढतां हता; इत्यादि अनेक प्रकारथी तारा पिताये तारी उपर स्नेह करेल ठे, अने तें तो पूर्वना उपकारनो वदलो तेने पांजरामां घाली केद राखवारुप करेलो ठे. माटे वाह ! पुत्र ! तारी लायकी केटली कहुं ? माताना आ प्रमाणेना वचनो सांजली कोणिक बहुज दुःखी थयो, अने पोताथी थयेला अकार्यने माटे रोवा लाग्यो, अने विचार कर्यो के हुं पोतेज जइ पिताश्रीने मारा हाथथी पांजरामांथी कहाडी राज्य सिंहासन उपर बेसाडुं. एवा निश्चयथी कुहाडो लइ दोडतो पितानी पासे थाव्यो. श्रेणिके विचार कर्यो के कोणिक कुहाडो लइ दोडतो मारी उपर थावे ठे, जेथी थाजे मने कंची रीते कमोतथी मारशे ? एवा नयथी श्रेणिक कांश्क खाइने मरी गया. ज्यारे कोणिके पोताना पिताने मरी गयेला दीठा त्यारे ते घहुज रोयो तथा कुट्या लाग्यो, अने अत्यंत शोकमां निमग्न थयो. ज्यारे राजगृहनी घदार तथा अंदर श्रेणिकना राजमेहेसो तथा सिंहासनादि देगतो, त्यारे ते अत्यंत विलगीर थतो.

श्यां दुःखथी राजगृह नगर ठोडी तेणे चंपानगरी पोतानी राज्यधानी वनावी, अने त्यां रद्देवा लाग्योः तो पण पितानी सेवा मारार्थी थइ नहि अने पितानुं अकार्यथी मोत्त थयुं. एवा वारंवार विचार आववाथी ते बहुज दुःखमां रद्देवा लाग्यो. पठी मंत्रीउण एकमत करी प्रवृत्तपणे एक पुस्तक वनाव्युं, तेमां एवुं कथन लखाव्युं के, जे पुत्र पोताना मरण पामेला पिताने वास्ते, पिंडप्रदान, वस्त्रजोड, आचूपण, शय्या प्रमुख ब्राह्मणोने आपे ठे, ते सर्व श्राद्धादि सामग्री तेना पिताने प्राप्त थाय ठे. आ पुस्तकने धुमाडावाला मकानमां राखी धुमाडाथी प्राचीन (जुना) पुस्तकजेवुं वनावी दीधुं. पठी आ पुस्तक कोणिक राजाने संजलाव्युं. कोणिके पण पितानी ऋक्ति वास्ते पिंडप्रदानादिमां बहुज धन वापर्युं. त्यारथीज मरीगयेला पाठल पिंडप्रदान श्राद्धादि प्रवृत्त थयेल ठे. जगत्मां पण प्रसिद्ध ठे के कर्ण राजाये श्राद्ध चलावेल ठे, ते आज कोणिक राजानुं नाम लोकोण कर्ण राजा करी लखी दीधुं ठे.

हवे प्रयाग तीर्थनी उत्पत्ति लखीए ठीए. अन्निकासुत जैनाचार्य अत्यंत वृद्ध थइ जतां, गंगानदी उतरतां केवलज्ञान पाम्या, अने ज्यां प्रयाग ठे, त्यां पोतानुं शरीर ठोडी मुक्ति पाम्या, ते स्थले देवताउण मुनिनो निर्वाण महोत्सव कर्यो, त्यारथी प्रयाग तीर्थनो महिमा थयो. महावीर स्वामिना वखतमां जे राजा प्रमुख तथा व्यवहारादिनुं स्वरूप हतुं, तथा जैनमतनो विस्तार हतो ते सर्वनुं स्वरूप आवश्यकसूत्र, वीरचरित्र, अने वृहत्कल्पदि शास्त्रोथी जाणवुं.

श्री महावीर स्वामिना समयमां राजगृह नगरमां श्रेणिक राजा थया. तेनी पाठल कोणिक, श्रेणिकना मरण पठी कोणिके चंपानगरी वसावी, आ अधिकार पूर्वे कह्यो; हवे कोणिकना मरण पठी तेनो पुत्र उदायी राजा थयो, ते कोणिकनी पाठल तेना मरण पठी उदास थवाथी चंपा ठोडी पाडलीपुत्र (पटना) वसावी पोतानी राज्यधानी करतो हवो.

श्री महावीर जगवंत विक्रम संवत्थी (४७७) वपे पद्देलों पावापुरी नगरीमां हस्तिपाल राजानी पुरातन राज्यसत्तामां वढोंतेर वर्षनुं आयुष्य जोगवी कार्तिक वदी अमावास्यानी रात्रिए पाठले प्रहरे पद्दासने वेठा थकां शरीरादि शेष चारे कर्मनी सर्व उपाधी ठोडी निर्वाण

पाम्या. ते समये मोटा शिष्योमां गौतमस्वामि तथा सुधर्मास्वामि, आ वेज शिष्यो विद्यमान होता. वाकीना नवे शिष्यो श्री महावीर जगवंत विद्यमान थकां, एक मासना अनशन करी केवलज्ञान पामी मुक्ति पाम्या होता. अगीआरे मोटा शिष्यो ज्ञातिना ब्राह्मण होता. चार वेद अने ठ वेदांगादि सर्व शास्त्रोना वेत्ता होता. अगीआरे शिष्योना मली (४४००) चउमालीससो विद्यार्थीउं होता. तेउंनो वृत्तांत लखीएठीए. ज्यारे श्री महावीर जगवंतने केवलज्ञान उत्पन्न थयुं, ते समये मध्यपापा नगरीमां सोमलं नामनो द्विज यज्ञनो, आरंज करतो हतो. ते यज्ञ प्रसंगे सर्व ब्राह्मणोमां श्रेष्ठ पूर्वोक्त गौतमादि आगीआरे आचार्योने आमंत्रण कर्तुं हतुं. ते यज्ञचूमिनी इशान दिशाए महासेन नामना उद्यानमां श्री महावीर जगवंतनुं समवसरण रत्न, सुवर्ण, रौप्यमय, अनुक्रमे त्रण गढ संयुक्त देवोए वनाव्युं. ते समवसरणनी वचमां सिंहासन उपर वेसी श्री महावीर जगवंत उपदेश आपवा लाग्या. ते समये आकाश मार्गे, सेंकडो विमानोमां वेठा थका, चारे प्रकारना देवताउं जगवंत श्री महावीर स्वामिना दर्शन वास्ते तेमज उपदेश श्रवण करवा आवता होता. तेउंने देखी यज्ञ करनारा ब्राह्मणोए जाण्युं के आ सर्व देवो साक्षात् अमारा यज्ञनी आहुतीउं लेवा आवे ठे. एटला-मां देवताउं तो यज्ञचूमिने ठोडी जगवानना चरणोमां जइ हाजर थया. वली वीजा लोको पण श्री महावीर जगवंतना दर्शन करी तथा उपदेश सांजली गौतमादि पंडितोने कहेवा लाग्या के, आजे आ नगरीनी बहार, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी जगवान् आव्या ठे. तेनुं रुप एवुं ठे के तेनुं यथार्थ वर्णन करवाने कोइ पण शक्तिवान् नथी; अने तेनो उपदेश एवो ठे के तेमां कांइ पण संशय पडतो नथी, वली लाखो देवताउं तेमना चरणोनी सेवा करे ठे; जेथी आजे अमारुं अत्यंत मोटुं जाग्योदय थयुं, के एवा सर्वज्ञ अरिहंत जगवंतना दर्शन अमे पाम्या. ज्यारे गौतमजीए लोकोना मुखथी सर्वज्ञ एवुं वचन सांजव्युं, त्यारे तेमना मनमां इर्ष्यारुप अग्नि सलग्नी उठी; अने धोली उठ्या के, माराथी अधिक अने सर्वज्ञ वीजो कोण ठे ? हमणांज जइ तेना सर्वज्ञपणाने परास्त करुं तुं, इत्यादि अनेक गर्व युक्त वचनो कहाड्यां; पठी श्री महावीर जगवंतनी पासे ते पढौंच्या.

दूरधीज श्री जगवंतने चोत्रीश अतिशय संयुक्त, तथा इंद्रो, देवो अने मनुष्योधी परिवृत दीठा. देखतांज बोलवानी शक्ति मंद थइ गइ. जगवंतनी सन्मुख जतांज, श्री जगवंते तेमने बोलाव्या. हे गौतम इंद्रभूति ! तमे आख्या ? गौतमजीए मनमां विचार्युं के, मारुं नाम पण आ जाणे ठे; परंतु तेमां शुं आश्चर्य ? जगत्मां प्रसिद्ध एवा मने कोण जाणतुं नथी ? मारुं नाम लेवाथी हुं कांइ तेने सर्वज्ञ मानुं नहि; परंतु मारा मननां जे संशय ठे, ते संशय जो ते दूर करे तो हुं तेने सर्वज्ञ मानुं. तत्काल जगवंते कहुं हे गौतम ? तमारा मनमां आ संशय ठे— जीव ठे के नहि ? अने ते संशय तमने वेदोनी परस्पर विरुद्ध श्रुतियोधी थयेल ठे. ते श्रुतियो कहीये ठीये.

“ विज्ञान घन एवैतेज्यो भूतेज्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्यसंज्ञास्तीत्यादि ” तेनाथी विरुद्ध, आ श्रुति ठे, “ सवै अयमात्मा ज्ञानमय इत्यादि ” आ श्रुतियोनो अर्थ तमारा मनमां जेम जासन थाय ठे, तेम हुं तमने कहुं हुं ते सांजलो. प्रथम श्रुतिनो अर्थ तमे आ प्रमाणे करो ठे— नीलादि रूप होवाथी विज्ञानज चैतन्य ठे, विशिष्ट जे नीलादि तेथी जे घन ते विज्ञानघन, ते विज्ञानघन आ प्रत्यक्ष परिच्छिद्यमान रूप पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, आ पांचे भूतोधी उत्पन्न थइ फरी तेनी साथेज नाश थइ जाय ठे, अर्थात् भूतोनो नाश थवाथी, तेनी साथे विज्ञानघननो पण नाश थइ जाय ठे, ते कारणथी प्रेत्य संज्ञा नथी, अर्थात् मरण पठी फरी परलोक गमन, नर, नारकादि जन्म थतो नथी. आ श्रुतिथी जीवनी नास्ति अर्थात् तेनो अज्ञाव सिद्ध थाय ठे. हवे वीजी श्रुति कहे ठे के— आ आत्मा ज्ञानमय अर्थात् ज्ञान स्वरूप ठे, इत्यादि. तेथी आत्मानी सिद्धि थाय ठे. आ बंने श्रुतियो परस्पर विरोधी होवाथी कांइ निश्चय थइ शकतो नथी. वली वीजा पण आत्माना स्वरूपमां परस्पर विरोधी मत ठे. कोइ कहे ठे के, यत्तः ॥ एतावानेव पुरुषो, यांवा निन्द्रियगोचरः ॥ जडे वृक्षपदं पश्य, यद्ब्रह्मदंत्यवदुश्रुताः ॥ १ ॥ वली वीजा मतवाला कहे ठे के यतः ॥ “ न रूपं जिह्मवः पुद्गलः ” अर्थात् आत्मा अमूर्त ठे. वली एक आगम एवुं कहे ठे के यतः ॥ “ अकर्त्ता निर्गुणो चोक्ता आत्मा ” अर्थात् अकर्त्ता, सत्व, रज, तम, आ त्रण गुणोधी रहित सुख

दुःखनो ज्ञागवनार आत्मा ठे. आ प्रमाणे जुदाजुदा मतो ठे, तेमां सत्य कोण अने असत्य कोण? परस्पर विरोधी होवाची सर्व तो सत्य थइ शकता नथी, वली युक्ति प्रमाणथी पण मृत्युपठी आत्मानुं परलोक गमन सिद्ध थइ शकतुं नथी. हे गौतम? पूर्वोक्त तमारा मनमां संशय ठे. तेनो उत्तर तमने कहुं तुं ते सांजलो? पठी श्री जगवंते गौतमस्वामिनो संशय दूर करवावास्ते वेदना पदोनो यथार्थ अर्थ कही संजलाव्यो, ते सर्व अधिकार मूलआवश्यक तथा श्री विशेषावश्यक ग्रंथोथी जाणवो. ग्रंथ वधवाना तथा अति गहन थवाना सबवथी में अहींआ लखेल नथी. अगीआरे गणधरोनां संशय दूर करवाना कथनना चार हजार श्लोको ठे. ज्यारे गौतमजीनो संशय दूर थयो, त्यारे गौतमजी पोताना पांचसो विद्यार्थीजनी साथे दीक्षा लइ श्रीजगवंतना प्रथम शिष्य (गणधर) थया.

इंद्रचूलिए दीक्षा लीधी, एम सांजली तेमना जाइ अग्निचूति अत्यंत अजिमान युक्त वचनो बोलवा लाग्या, अने लोकोने कहेवा लाग्या के, मारा जाइने इंद्रजाळीआए कपटथी जीती पोतानो शिष्य बनावेल ठे, परंतु ते इंद्रजाळीआने हरावी हमणांज हुं मारा जाइने पाठो लइ आबुं. एम बोली ते जगवंत श्री महावीरस्वामि पासे आब्या. ज्यारे जगवंतने दीक्षा त्यारे मननो सर्व वेग नरम पडी गयो, अने बोलवानी शक्ति पण रहि नहि. मनमां अद्भूत आश्चर्य पाम्या, कारण के तेबुं रुप तेणे कदि दीतुं पण न होतुं, तेम सांजल्युं पण न होतुं. जगवंते तेने नाम लइ बोलाव्या. अग्निचूलिए विचार्युं के, मारुं नाम पण आ जाणे ठे, परंतु तेमां कांइ नवाइ नथी, हुं प्रसिद्ध तुं, तेथी मने कोण जाणतुं नथी? परंतु मारा मनमां जे संशय ठे, ते दूर करे तो, हुं तेने सर्वइ मानुं. जगवंते कहुं, हे अग्निचूति! तमारा मनमां आ संशय ठे—“कर्म ठे के नहि” आ संशय तमने परस्पर विरुद्ध एवा वेद पदोथी थयेल ठे. तमे वेद पदोनो यथार्थ अर्थ जाणता नथी, तेथी तेम थयेल ठे. ते वेद पद आ ठे. “ पुरुष एवे दंभि सर्वयद्भूतं यच्च जाव्यं उता मृतत्व स्येशानो यदन्नेनाऽतिरोहति यदेजति यन्नेजति यद्दूरेयदुअंतिके पदंतरस्य यद्भुत सर्वस्यास्य बाह्यत इत्याद ” तेनाथी विरुद्ध आ श्रुति ठे. यतः ॥ “ पुण्यः पुण्येनेत्यादि ” आ श्रुतियोनो अर्थ तमारा मनमां आ प्रमा-

णे ज्ञासन थाय ठे. पुरुष अर्थात् आत्मा, एव शब्द अवधारण वास्ते ठे. ते-अवधारण कर्म तेमज प्रधानादिना व्यवच्छेद वास्ते ठे, “ इदं सर्व ” अर्थात् आ सर्व प्रत्यक्ष वर्तमान चेतन वस्तु, यद्भूतं अर्थात् जे भूत-कालमां थयेल ठे, अने जविष्यमां थशे, एवो जे संसार अने मुक्ति ते सर्व पुरुष आत्मा ब्रह्मज ठे, “ त्रिं ” अत्र वाक्यालंकारमां ठे, तथा. उत शब्द अतिशब्दना अर्थ वास्ते ठे, अने अपि शब्द समुच्चय अर्थ वाची ठे. अमृतत्वस्य अमरणज्ञावनो अर्थात् मोक्षनो “इत्सानः” प्रभुः अर्थात् स्वामि ठे. “यदिति यच्चैति” च अक्षरनो लोप थवाथी यदिति थयो, अर्थात् अन्नथी जे वृद्धिने प्राप्त थाय ठे “यदेजति” जे चाले ठे, एवा जे पशुआदि, अने जे चालता नथी एवा जे पर्वतादि, अने जे दूर ठे एवा जे मेरु आदि, तथा जे समीप ठे एवा जे शरीर आदि, पूर्वोक्त सर्व पदार्थ, पुरुष अर्थात् ब्रह्मज ठे “यतउअंतिके” उ अक्षर अवधारणार्थमां ठे. आ श्रुतिथी कर्मनो अज्ञाव सिद्ध थाय ठे, अने वीजी श्रुतिथी तथा शास्त्रांतरोथी कर्मनी सिद्धि थाय ठे. वली युक्तिथी कर्म सिद्ध यतां नथी, कारण के अमूर्त्त आत्माने मुर्त्तिमान् कर्म केवी रीते लागे ? ते कारणथी कर्म ठे के नहि, एवो तमारा मनमां संशय ठे. एम कही जगवाने वेद-श्रुतियोनो अर्थ यथास्थित तेमने समजावी, तेमनो पूर्वपक्ष खंडन कर्यो, ते विस्तारथी मूलावश्यक तथा विशेषावश्यक शास्त्रथी जाणवुं. एवी रीते अग्निचूति ए पण पोताना शिष्यो साथे गौतमजीनी जेम दीक्षा लीथी.

अग्निचूतिनी दीक्षानी वात सांजली त्रीजा वायुचूति आव्या. वने जाइए दीक्षा लेवाथी वायुचूतिने विद्यानुं अग्निमान न रछुं. मनमां विचार कर्यो के जगवानने वंदना करवा जाउं, एवा विचारथी आवी जगवंतने नमस्कार कर्यो. जगवंते कछुं के हे वायुचूति! तमारा मनमां संशय ठे. परंतु तमे क्षोत्रथी पुढी शकता नथी. तमने संशय ठे. ते आ ठे—जे जीवठे ते देहज ठे, अने आ संशय तमने विरुद्ध वेदश्रुतियोथी थयेल ठे, तमे ते वेदपदोनो अर्थ बराबर जाणता नथी, ते वेदपद आ ठे. “विज्ञानघन इत्यादि” प्रथम गणधरनी श्रुति जाणवी. ते श्रुतिथी. देहथी न्यारो जीव (आत्मा) सिद्ध थतो नथी, अने ते श्रुतिथी विरुद्ध श्रुति आ ठे— “सत्येनलज्यस्तपसाह्येपब्रह्मचर्येण नित्यज्योतिर्मयोद्दिशु-

ज्ञेयं पश्यंति धीरा यतयः संयतात्मान इत्यादि” आश्रुतिधी देहधी जिज्ञा आत्मा सिद्ध थाय ठे, आ तमारा मनमां संशय ठे. जगवाने सर्व संशय दूर कर्यो. वायुजूतिए पोताना पांचसो शिष्यो साथे दीक्षा लीधी.

वायुजूतिनी जेम वाकीना आठे आचार्यो अनुक्रमे आव्या. चोथा अव्यक्तजी आव्या. तेमना मनमां संशय हतो के, पांच जूत ठे के नहि? आ संशय विरुद्ध श्रुतियोधी थयो हतो. परस्पर विरुद्ध श्रुतियो आ ठे— “स्वप्नोपमवैसकलमित्येव ब्रह्मविधिरंजसाविज्ञेय इत्यादीनि,” तेनाधी विरुद्ध श्रुति, “द्यावापृथिवीजनयनूदेव इत्यादि;” तथा पृथिवी देवता, अप देवता इत्यादि, तेनो अर्थ तमारा मनमां आ प्रमाणे नासन थाय ठे—स्वप्न सरखुं संपूर्ण जगत् ठे, वै निपात अवधारणार्थे ठे. “एष ब्रह्मविधि” अर्थात् आ परमार्थ प्रकारठे. अंजसा एटले सिद्धा न्यायधी जाणवा योग्य ठे; आ श्रुति पांचे जूतोनो अज्ञाव कथन करे ठे, बीजी श्रुतियो पांचे जूतोनी सत्ता कथन करे ठे, आ तमारा मनमां संशय ठे. तमारा मनमां एवो पण संशय ठे के—युक्तिधी पांच जूतो सिद्ध थता नधी. श्री जगवाने तेमनो पूर्वपक्ष खंडन करी वेदपदोनो यथार्थ अर्थ समजाव्यो. ते अधिकार उक्त ग्रंथोधी जाणवो. अव्यक्तजीए पण पोताना पांचसो शिष्यो साथे दीक्षा लीधी.

पांचमा सुधर्म नामना आचार्य आव्या, तेमनो अधिकार पण पूर्वोक्त रीते जाणवो. श्रीजगवाने कछुं के तमारा मनमां आ संशय ठे—मनुष्यादि सर्व जेवा आ जवमां ठे, तेवाज जविष्यना जन्ममां उत्पन्न थायठे, के मनुष्य पण पशुआदि थइ जाय ठे? आ संशय तमने परस्पर विरुद्ध वेदश्रुतियोधी थयेल ठे. ते वेदश्रुतियो आ ठे— “पुरुषोवैपुरुषत्वमश्रुते पशवः पशुत्वं इत्यादीनि” तेनाधी विरुद्ध श्रुति— “श्रगासोवै-पपजायते यःसपुरीपोदह्यत इत्यादि” आ सर्व श्रुतियोनो अर्थ जगवाने तेमने यथार्थ समजावी तेमनो संशय दूर कर्यो. तेमणे पोताना पांचसो शिष्यो साथे दीक्षा लीधी.

ठठा मंडिक पुत्र आव्या. तेमना मनमां संशय हतो के—बंध, मोह ठे के नहि? आ संशय पण विरुद्ध वेदश्रुतियोधी थयो ह्यो. ते श्रुतियो आ ठे—“स एष विगुणो विचुर्न वप्पते. संसरति वा न मुच्यते मोचयति वा ॥

एषवाह्यमज्यंतरंवावेद इत्यादीनि” आ श्रुतिनो अर्थ तमारा मनमां आ प्रमाणे जासन थाय ठे. आ जीव सत्त्वादि गुणरहित सर्वगत सर्वव्यापी, पुण्यपापथी तेने बंध थतो नथी, अने संसारमां ते ब्रमण पण करतो नथी, कर्मोथी टुटतो नथी, अने बंधनो अज्ञाव होवाथी, बीजाउने कर्मोथी ठोडावंतो पण नथी, आ प्रमाणेना कथनथी आत्मा अकर्ता ठे, तेज फरीथी वतावे ठे—आ पुरुष पोताना आत्माथी जिन महत् अहंकारादि, तेमज अज्यंतर एवुं पोतानुं स्वरूप जाणतो नथी, कारण के जाणवुं ते ज्ञानथी थाय ठे, अने ज्ञान, प्रकृतिनो धर्म ठे, प्रकृति अचेतन ठे; तेथी बंध मोक्ष नथी. आ श्रुतिथी बंध मोक्षनो अज्ञाव सिद्ध थाय ठे, तेनाथी विरुद्ध श्रुति आ ठे—“नहि वे शरीरस्य प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति अशरीरं वा वसंतं प्रियाप्रिये नस्पृशत इत्यादीनि” जावार्थ—शरीर सहितने सुख दुःखनो अज्ञाव कदापि थतो नथी. तात्पर्य ए ठे के—संसारी जीव सुख दुःखथी रहित थतो नथी, अने कारणना अज्ञावथी अमूर्त आत्माने सुखदुःख स्पर्श करी शकता नथी. आ श्रुतिथी बंधमोक्ष सिद्ध थाय ठे; तथा तमारा मनमां एम पण ठे के—युक्तिथी पण बंध मोक्ष सिद्ध थता नथी. इत्यादि संशयनो जगवाने यथार्थ खुदासो करी तेमनो संशय दूर कर्यो; पठी मंडितपुत्रे पोताना साडा त्रणसो शिष्योनी साथे दीक्षा लीधी.

सातमा मौर्यपुत्र आव्या. तेमना मनमां आ संशय ठे— देवता ठे किंवा नहि ? आ संशय परस्पर विरुद्ध वेदश्रुतियोथी थयेलो ठे, ते श्रुतियो आ ठे—“स एष यज्ञायुधी यजमानोऽजसास्वर्गलोकं गच्छति इत्यादीनि” आ श्रुतियो स्वर्ग तथा देवताउनी सिद्धि करे ठे. तेनाथी विरुद्ध श्रुति आ ठे—“अपामसोमं अमृता अन्नम अगमामद्योतिर्विदामदेवान् ॥ किं नूनमस्मान् तृणवदरातिः किमुधुत्ति रमृतमर्त्यस्येत्यादीनि” तथा “कोजानाति मायोपमान् गीर्वाणानिंश्यमवरुणकुबेरादीन् इत्यादि” आ श्रुतिनो जावार्थ तमारा मनमां आ प्रमाणे जासन थाय ठे— पाणी पीता थकां अर्थात् सोम लतानो रस पीता थकां अमृत (अमरण) धर्मवाला अमे थया ठीए, ज्योति, स्वर्ग अने देवताने अमे जाणता नथी. वही देवता अमे थया ठीए ते पण जाणता नथी, देवता तृणनी जेम

अमने शुं करी शके ठे? आ श्रुति अजाव प्रतिपादन करे ठे. वली आ श्रुति जावनी प्रतिपादक ठे—“ धूर्त्तिजरा अमृतमर्त्यस्य ” अमृतत्व प्राप्त पुरुषने शुं करी शके ठे? आ श्रुतियोनो यथार्थ अर्थ समजावी श्रीज-गवंते तेमनो संशय दूर कख्यो. पठी तेमणे पोताना साडा त्रणसो ठात्रोनी साथे दीक्षा लीधी.

आठमा अकंपित आव्या. तेमना मनमां नर्क ठे के नहि? एवो संशय हतो. ते संशय पण परस्पर विरुद्ध वेदश्रुतियोथी थयो हतो, ते श्रुतियो आ ठे— “नारकोवै एष जायते यः शूद्रान्नमश्नाति इत्यादि” जावार्थ—जे ब्राह्मण शूद्रनुं अन्न खाय ठे ते नारकी थाय ठे. आ श्रुतिथी नर्क सिद्ध थाय ठे; तथा “नह्वै प्रेत्यनरके नारकाः संतीत्यादि” आ श्रुतिथी नर्कनो अजाव सिद्ध थाय ठे. आ श्रुतियोनो यथार्थ अर्थ श्रीज-गवंते समजावी तेमनो संशय दूर कख्यो. पठी अकंपितजीए पोताना त्रणसो ठात्रोनी साथे दीक्षा लीधी.

नवमा अचलत्राता आव्या. तेमना मनमां संशय हतो के—पुण्यपाप ठे के नहि? आ संशय वेदनी परस्पर विरुद्ध श्रुतियोथी थयो हतो. ते श्रुतियो आ ठे— “पुरुष एवेदं त्रिसर्वइत्यादि” बीजा गणधरनी जेम. तेनाथी विरुद्ध श्रुति आ ठे— “पुण्यं पुण्येन कर्मणा जवति, पापं पापेन कर्मणा जवति इत्यादि” आ श्रुतिथी पुण्य पाप सिद्ध थाय ठे. आ संशय तेमना जगवंते दूर कख्यो. तेमणे पण पोताना त्रणसो ठात्रो साथे दीक्षा लीधी.

हवे दसमा मेतार्थ आव्या. तेमना मनमां एवो संशय हतो के—परलोक ठे के नहि? आ संशय वेदनी परस्पर विरुद्ध श्रुतियोथी थयो हतो. ते श्रुतियो आ ठे— “विज्ञानघन इत्यादि” प्रथम गणधरनी जेम आ श्रुति अजाव सूचक ठे, तथा “सवै अयं आत्मा ज्ञानमय इत्यादि” आ श्रुति जावप्रतिपादक ठे. तेमनो यथार्थ अर्थ समजावी जगवंते संशय दूर कख्यो. पठी मेतार्थजीए पोताना त्रणसो ठात्रो साथे दीक्षा लीधी.

हवे ठेला (अगीआरमा) प्रजासजी आव्या. तेमना मनमां संशय हतो के—निर्वाण ठे के नहि? ते श्रुतियो आ ठे—“जरामर्यं वा एतत् सर्वं यदग्निहोत्रं” जावार्थ—अग्निहोत्र जीवहिंसा संयुक्त ठे, अने जन्म-

मरणनुं कारण ठे, उतां अग्निहोत्र निरंतर करवो एम वेदमां कथन करेख ठे, जेथी एवो क्यो समय ठे के जे वखते मोक्ष प्राप्त करवालुं कर्म करीये ? ते कारणथी आत्मानो मोक्ष (निर्वाण) कदापि थइ शकतो नथी, तेनाथी विरुद्ध श्रुति आ ठे- “ छे ब्रह्मणी वेदितव्ये परमपरं च तत्र परं सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्मेति ” आ श्रुति मोक्षप्राप्ति सूचवे ठे. आ श्रुतियोनो यथार्थ अर्थ श्री जगवंते समजावी तेमनो संशय हूर कर्यो. पठी प्रजासजीए पोताना ब्रणसो ठात्रो साथे दीक्षा लीधी.

श्री महावीर जगवंतने वैशाख सुद दशमीना रोज मध्यपापानगरीना महासेन वनमां पूर्वोक्त (४४००) शिष्यो थया. पठी राजपुत्र तथा श्रेष्ठि पुत्रादि अने राजपुत्री तथा श्रेष्ठिपुत्री तथा अने राजा तथा राणी प्रमुख अनेक मनुष्योए दीक्षा लीधी.

अनुक्रमे जगवंत श्री महावीरस्वामि आयुष्य पूर्ण थये पावापुरीमां मोक्ष प्राप्त करता हवा. तेज रात्रिए इंद्रचूति (गौतमस्वामि) ने केवलज्ञान उत्पन्न थयुं. इंद्रोए निर्वाण महोत्सव कर्यो, अने सुधर्मा स्वामिने श्री महावीरस्वामिनी गादी उपर स्थापन कख्या. श्री गौतमस्वामिने गादी उपर स्थापन. कर्या तेनुं कारण ए ठे के केवलज्ञानी पुरुष, कोइ गादीपति थइ शकता नथी, कारण के केवली तो तेमने जे कांइ पुठवामां आवे तेनो उत्तर पोताना ज्ञानथीज आपे ठे, परंतु एम कहेता नथी के, हुं अमुक तीर्थकरना कथन मुजव कहुं हुं, ते कारणथी केवलज्ञानी गादीपति थता नथी. जो गादीपति थाय तो तीर्थकरना शासननो लोप थाय, जे कदापि थतुं नथी, कारण के अनादि रीतिने केवली केम उद्यापन करे ? तेज कारणथी श्रीगौतमस्वामि गादीपति थया नहि, अने श्री सुधर्मास्वामिने गादि उपर विराजमान करवामां आव्या.

१ श्री सुधर्मस्वामि पचास वर्ष गृहस्थावासमां रह्या, त्रीश वर्षसुधी श्रीमहावीर जगवंतनी चरण सेवामां रह्या, श्रीजगवंतना निर्वाण पठी वार वर्षसुधी उद्भव्य रह्या, अने आठ वर्ष केवलीपर्याय पाली मोक्षे गया. जगवंत श्री महावीरस्वामि पठी श्रीगौतमस्वामि केवलज्ञान पामी वार वर्ष जीवता रह्या. श्रीगौतमस्वामिना निर्वाण पठी श्रीसुधर्मास्वामिने केवलज्ञान प्राप्त थयुं. श्री सुधर्मस्वामिनुं आयुष्य (१००) एकसो

वर्षेणुं हतुं. तेउं श्री महावीरस्वामि पठी वीश वर्षे मोक्षे गया.
 २ श्री सुधर्मस्वामिनी पाट उपरं श्री जंबुस्वामि वेठा. राजगृहनगर-
 निवासी श्री रीपत्तदत्त शेठनी धारणी नामनी स्त्रीना कुखथी तेउं जन्म्या
 हता. नव्वाणु क्रोड सोनैया तथा आठ स्त्रीउंनो त्याग करी तेउंये दीक्षा
 लीधी. सोल वर्षे गृहस्थावासमां रह्या, वीश वर्षे व्रतपर्याय, अने चमा-
 लीस वर्षे केवलपर्याय पाली श्री महावीरना निर्वाण पठी चोसठमे
 वर्षे मोक्षे गया.

श्री जंबुस्वामि पठी चरतक्षेत्रमां दश वावतो विच्छेद गइ. तेना नाम,
 १ मनःपर्यायज्ञान, २ परमावधिज्ञान, ३ पुलाकलब्धि, ४ आहारकशरीर
 ५ कृपकश्रेणि, ६ उपशमश्रेणि, ७ जिनकद्विपमुनिनी रीति, ८ परिहार-
 विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्मसंपराय चारित्र अने यथाख्यात चारित्र, ९ केव-
 लज्ञान, १० मोक्षप्राप्ति. श्री महावीरस्वामि केवलज्ञान पाम्या पठी
 चौद वर्षे जमाळी नामनो प्रथम निन्हव थयो, अने सोल वर्षे तिष्यगुप्त
 नामनो वीजो निन्हव थयो. श्री जंबुस्वामिनुं आयुष्य (८०)
 एंशी वर्षेणुं हतुं.

३ श्री जंबुस्वामिनी पाट उपर श्री प्रजवस्वामि वेठा. तेनी उत्पत्ति
 आ प्रमाणे ठे— विंध्याचल पर्वत नजीक जयपुर नामनुं नगर हतुं, तेनो
 विंध्य नामनो राजा हतो. तेने वे पुत्रो थया, एक मोटो प्रजव, वीजो
 ठोटो प्रजव. मोटो प्रजव कोइ कारणसर गुस्से थइ जयपुर नगरथी
 वहार निकळी विंध्याचलनी विपम जगामां गाम वसावी रहेवा लाग्यो,
 अने चोरी, रस्तानी लुंठ, धाडचोरी, जवरीथी पकडवुं विगेरे कृत्यो करी
 पोतानी आजीविका चलावतो हतो. एकदा पांचसे चोरनो समुदाय
 लइ राजगृह नगरमां जंबुजीनुं घर लुंठवा आव्यो. जंबुस्वामीए तेने
 प्रतिबोध कख्यो. ते प्रतिबोधथी तेणे पांचसे चोरोनी साथे जंबुस्वामि-
 सहवर्तमान दीक्षा लीधी. इत्यादि श्री जंबुस्वामि तथा प्रजवस्वामिनो
 अधिकार जंबुचरित्र तथा परिशिष्ट पर्वथी जाणवो. प्रजवस्वामि त्रीश
 वर्षे गृहस्थपर्याय, चमालीस वर्षे व्रतपर्याय, अने अगीआर वर्षे युगप्र-
 धान पदवी, सर्व आयु पंचासी वर्षेणुं जोगवी श्रीमहावीरस्वामि पठी
 पंचोतेर वर्षे स्वर्गे गया.

४ श्रीप्रज्ञवस्वामिनी पाट उपर श्री शिष्यंजवस्वामि वेठा. जेउए मनक साधु वास्ते श्रीदशवैकालिक सूत्रनी रचना करी. तेनी उत्पत्ति आ प्रमाणे—एकदा प्रस्तावे प्रज्ञवस्वामिने रात्रिना विचार थयो के मारी पाट उपर कोण वेसरो ? ज्ञानवलथी विचारतां सर्व संघमां पोतानी पाट योग्य कोइ देखवामां आव्युं नही, तेथी पर दर्शनवालाउं तरफ ज्ञानवलथी देखवा लाग्या. अनुक्रमे तेमणे राजगृह नगरमां शिष्यंजव जट्टने यज्ञ करतां थकां, पोतानी पाट योग्य दीठा. तत्काल प्रज्ञवस्वामि विहार करी सपरिवार राजगृह नगरमां आव्या. पोताना वे साधुने आदेश कयों के तमे यज्ञस्थानमां जइ जिह्वावास्ते धर्मलाज कहो, अने यज्ञ करनाराउंने आ प्रमाणे कहो— “अहोकष्टमहोकष्टं तत्त्वं विज्ञायते नहि” वंने साधुए गुरुना आदेश मुजव पूर्वोक्त सर्व कर्तुं. ज्यारे ब्राह्मणोए “अहोकष्टं” इत्यादि श्रवण कर्तुं, ते वखते यज्ञवाडामां शिष्यंजव ब्राह्मणने यज्ञदीक्षा लेवानी हती, तेथी तेउं यज्ञवाडाना दरवाजामां उजा हता, जेथी तेमणे पण मुनियोनुं “अहोकष्टं” इत्यादि श्रवण कर्तुं. तत्काल तेउं विचारवा लाग्या के आवा उपशमप्रधान साधु कदापि असत्य बोलता नथी, तेथी तेमना मनमां संशय थयो, जेथी उपाध्यायने पुठ्युं के तत्व शुं ठे? उपाध्यायजीए कहुं के चार वेदमां जे कथन करेल ठे तेज तत्वठे, वेद उपरांत वीजुं तत्व नथी. शिष्यंजवे कहुं के तमे दक्षिणाना लोचथी मने तत्व वतावता नथी. वली रागद्वेषरहित, निर्मम, निःपरिग्रह, शांत, दांत, महंत एवा मुनियोनुं कथन कदापि असत्य होतुं नथी, तेथी हवे तमे मारा गुरु नथी, तमे तो जन्मथी जगत्ने उगवानी वाजी रची वेठा ठो, माटे शिक्षायोग्य ठो; वास्ते कां तो मने तत्व वतावो ? अने तेम नहि करशो तो तलवारथी हुं तमारुं शिरछेद करीश. एम कहेतांज अत्यंत क्रोधना आवेशमां आवी जवाथी मियानथी तलवार बहार काढी. उपाध्याये प्राणांत कष्ट देखी कहुं के अमारा वेदोलवार बहार काढी. उपाध्याये प्राणांत कष्ट देखी कहुं के अमारा वेदोमां पण एमज लखेल ठे, तथा अमारी आम्नाय पण एवीज ठे के ज्यारे कोइ अमारुं शिरछेद करवा आवे त्यारेज तत्व कहेवुं, अन्यथा नही. तेथी हवे हुं तमने तत्व कहुं ठुं. आ यज्ञस्थंजनी नीचे अहंतनी प्रतिमा स्थापन करेली ठे, अने तेनी प्रद्यन्न रीते नीचेज पूजा करवामां आवे ठे.

तेना प्रजावधी यज्ञना सर्वं विघ्नो दूरं यद् जायते: जो यज्ञस्थंजनीचे अर्हंतनी प्रतिमा न राखवामां आवे तो महातपा सिद्धपुत्र तथा नारद, आ वंने यज्ञने विध्वंस करी नाखे ठे. पठी उपाध्यायजीए स्थंज उखेडी अर्हंतनी प्रतिमा वतावी, अने कळुं के आ प्रतिमा जे देवनी ठे, ते देव, श्री अर्हंतनो कथन करेलो धर्म, जीवदया रूप तत्व ठे; अने आ जे वेदप्रतिपाद्य यज्ञ ठे; ते सर्व हिंसात्मक रूप होवार्थी विडंबन रूप ठे, परंतु शुं करीए? जो अमे एम न करीए तो अमारी आजीवि का चालती नथी. हवे तुं तत्व समजी ले, अने मने ठोडी दे; तथा परमार्हत यद् जा. कारण के में तने मारा पेटने वास्ते बहु दिवस रखाव्यो ठे. गुरुनुं शुद्ध अंतःकरण अथेळुं जाणी शिष्यंजवे तेने नमस्कार कर्यो, अने कळुं के यथार्थ तत्त्वनो प्रकाश करवार्थी तमे हवे साचा उपाध्याय ठे. एम कही तुष्टमान यद् यज्ञनी सर्व सामग्री सुवर्णपात्रादि शिष्यंजवे उपाध्यायने आपी दीधी, अने प्रजवस्वामि पासे जद् तत्त्वुं स्वरूप पुठी दीक्षा दीधी. तेमनो शेष वृत्तांत परिशिष्टपर्व ग्रंथथी जाणी लेवो. शिष्यंजव स्वामि अठावीश वर्षे गृहस्थावास, अग्नीश्रार वर्षे सामान्य साधु, अने तेत्रीश वर्षे युगप्रधानाचार्य पदवी जोगवी, सर्व आयु वासठ वर्षेनुं जोगवी श्रीमहावीर जगवंत पठी अठाळुं वर्षे स्वर्गे गया.

५ श्रीशिष्यंजवस्वामिनी पाट उपर यशोज्ञस्वामि वेग. ते बावीस वर्षे गृहस्थवास, चौद वर्षे व्रतपर्याय, पचास वर्षे युगप्रधान पदवी. सर्व आयु ठासी वर्षेनुं जोगवी श्रीमहावीर पठी (१४७) वर्षे स्वर्गे गया.

६ श्री यशोज्ञस्वामिनी पाट उपर एक संज्ञूतविजय अने बीजा ज्ञवाहुस्वामि, आ वंने वेग. संज्ञूतविजयजी वेंतालीस वर्षे गृहवास, चालीस वर्षे व्रतपर्याय अने आठ वर्षे युगप्रधान पदवी, सर्व आयु नेवु वर्षेनुं जोगवी स्वर्गमां गया. श्रीज्ञवाहुस्वामिए १ आवश्यक निर्युक्ति, २ दशवैकालिक निर्युक्ति, ३ उत्तराध्ययन निर्युक्ति, ४ आचारांग निर्युक्ति, ५ सूत्रकृतांग निर्युक्ति, ६ सूर्यप्रज्ञप्ति निर्युक्ति, ७ रीपिज्ञापित निर्युक्ति ८ कल्पनिर्युक्ति, ९ व्यवहार निर्युक्ति, १० दशानिर्युक्ति, आ दश निर्युक्तियो तथा १ कल्प, २ व्यवहार, ३ दशाश्रुतस्कंध, आ षण नवमा पूर्वमांघी उद्धार करी घनाव्या. बली ज्ञवाहुसंहिता नामनुं अति विस्तारबाहुं

ज्योतिष शास्त्र वनाव्युं. उपसर्गहरस्तोत्र वनाव्युं. एवीरीते जैनमतवालाठ
उपर बहुज उपकार कर्यो. जडवाहुस्वामिने वराहमिहिर नामना एक सगा
चाइ हता, ते प्रथम तो जैनमतना साधु थया हता, पठी साधुपणुं तजी
दीधुं, तेमणे वराही संहिता वनावी. विक्रमादित्यनी सजामां जे वराह
मिहिर पंडित हता ते वीजा वराहमिहिर थया ठे. संहिताकारक ते नहीं.
तेमनुं सर्व वृत्तांत परिशिष्ट पर्वथी जाणवुं. श्रीजडवाहुस्वामि पीसतालीस
वर्ष गृहस्थावास, सत्तर वर्ष व्रतपर्याय, चौद वर्ष युगप्रधान, सर्व आयु
ठोंतेर वर्षनुं जोगवी श्रीमहावीर पठी (१९०) वर्षे स्वर्ग गया.

श्री संज्ञूतविजय तथा श्रीजडवाहुस्वामिनी पाठ उपर श्रीस्थूल-
जडस्वामि वेठा. तेमनो सर्व वृत्तांत परिशिष्ट पर्व ग्रंथथी जाणवो. १ प्र-
जवस्वामि, २ शिष्यंजवस्वामि, ३ यशोजडस्वामि, संज्ञूतविजय, ५ ज-
डवाहुस्वामि, ६ स्थूलजड. आ ठ आचार्यो चौद पूर्वना वेत्ता हता. श्री
स्थूलजडजी त्रीस वर्ष गृहस्थावास, चोवीस वर्ष व्रतपर्याय, पीसतालीस
वर्ष युगप्रधान पदवी, सर्व आयु नवाणुं वर्षनुं जोगवी श्रीमहावीर पठी
(२१५) वर्षे स्वर्गमां गया. श्रीमहावीर पठी वसे चौद वर्षे आयाठ आ-
चार्यनो शिष्य त्रीजो निन्हव थयो.

स्थूलजडजीना समयमां नवनंदोनुं (१५५) एकसो पंचावन वर्षनुं
राज्य उत्थापी चाणाक्य ब्राह्मणे चंद्रगुप्त राजाने राज्यसिंहासन उपर
वेसाड्यो. चंद्रगुप्तना वंशजोए (१०८) वर्षसुधी राज्य कर्युं. चंद्रगुप्तना
पितानुं नाम मोरपाल हुतुं, तेथी चंद्रगुप्तनो मौर्यवंश कहेवाय ठे. चंद्र-
गुप्त जैनमती आवक राजा हतो. चंद्रगुप्त तथा नव नंदोनुं वृत्तांत परि-
शिष्ट पर्व, उत्तराध्ययनवृत्ति तथा आवश्यकवृत्तिथी जोइ लेवुं.

श्रीस्थूलजडस्वामि पठी उपरना चार पूर्व, प्रथम संहनन, प्रथम
संस्थान विच्छेद थइ गयां. श्रीमहावीर पठी (२२०) वर्षे अश्वमित्र ना-
मनो चोथो क्कणिकवादि निन्हव थयो. श्रीस्थूलजडजीना समयमां वार
वर्षनो दुकाल पड्यो, त्यारे चंद्रगुप्तनुं राज्य हुतुं; तथा श्रीमहावीर पठी
(२२८) वर्ष वित्यावाद गंग नामनो पांचमो निन्हव थयो.

८ श्री स्थूलजडजी पठी तेमना वे शिष्यो एक आर्यमहागिरि तथा
वीजा सुहस्ति सूरि आठमी पाठ उपर वेठा. आर्यमहागिरिना शिष्य

१ वकुल, २ वलिस्सह, वलिस्सहना शिष्य श्री उमास्वातिजी तथा, जेमणे तत्त्वार्थादि सूत्रनी रचना करी, उमास्वातिजीना शिष्य श्यामाचार्य, जेमणे पन्नवणा सूत्रनी रचना करी. आ श्यामाचार्य श्री महावीर पढी त्रणसो ठोंतेर वर्षे स्वर्गे गया. आर्यमहागिरिजी त्रीस वर्षे गृहवास, चालीस वर्षे व्रतपर्याय, त्रीस वर्षे युगप्रधान पदवी, सर्व आयु एकसो वर्षनुं जोगवी स्वर्गे गया.

श्रीसुहस्तिसूरिये एक जिखारीने दीक्षा आपी, ते जिखारी काल करी चंद्रगुप्तना वंशमां तेना पुत्र विंडुसार, विंडुसारनो पुत्र अशोक, अशोकनो पुत्र कुणाल, कुणालनो पुत्र संप्रति नामनो राजा थयो. संप्रति राजाये जैनधर्मनी बहुज वृद्धि करी. श्री कल्पसूत्रना प्रथम उद्देशामां श्री महावीरस्वामिना समयमां वर्तमान समय सरखावतां बहु थोडा देशोमां जैनधर्म लखेल ठे. मारवाड, गुजरात, दक्षिण, पंजाव विगेरे देशोमां जे जैनधर्म प्रवर्त्ते ठे, ते संप्रति राजाना समयथीज प्रवर्त्ते ठे. यद्यपि वर्त्तमानमां जैनी राजा नही होवथी जैनधर्म सर्व स्थले नथी, परंतु संप्रति राजाना समयमां जैनधर्म चारत वर्षमां सर्वत्र हतो, तथा उन्नतिपर हतो, कारण के संप्रति राजानुं राज्य मध्य खंड तथा गंगा अने सिंधुपार सर्व देशोमां हतुं. संप्रति राजाये धर्मवृद्धिमाटे पोताना नोकरोने जैनसाधुर्त्त वनावी, पोतानी आज्ञा माननारा राजार्त्तशक, यवन, फारसादि देशोमां हता, ते देशोमां पण मोकळ्या हता. तेउये ते राजार्त्तने जैनना साधुर्त्तना आहार, विहार, आचारादि सर्व वताव्या हता, तेमज समजाव्या हता. वाद साधुर्त्तनो विहार ते देशोमां करावी ते देशना लोकोने जैनधर्मी कर्या हता. संप्रति राजाये (७७०००) नवाणुं हजार जीर्णोद्धार जिनमंदिरोना कराव्या; तथा (२६०००) ठवीस हजार नवा जिनमंदिरो वं धाव्यां; सोना, चांदी, पीतल, पाषाण प्रमुखनी सवाकोड प्रतिमा वनावी. तेमना वनावेला मंदिर, नाडोल, गीरनार, शत्रुंजय, रतलाम प्रमुख अनेक स्थले अमे देखेल ठे. संप्रति राजानी प्रतिमा तो अमे सेंकडो दीठी ठे. संप्रति राजानुं संपूर्ण वृत्तांत परिशिष्ट पर्वादि ग्रंथोथी जाणवुं.

सुहस्ति सूरिये उज्जयननी रेहेनारी जज्जा शेवाणीना पुत्र अवंतीसुकमालने दीक्षा आपी. जे स्थले अवंतीसुकमाले काल कयों, ते स्थले

तेनेज अमे धर्मलाज कहीये ठीये. वली एम पण नथी के तमे अमने वंदना नथी करी. तमे पण पोताना मनथी वंदना करी ठे. मनज सर्व का-र्योंमां प्रधान ठे, ते कारणथी अमे धर्मलाज कह्यो ठे, अने तमोए पण मारी परिद्धावास्तेज मनथी नमस्कार करेल ठे. विक्रम राजाए तुष्टमान थइ हाथीथी नीचे उतरी सर्व संघनी समझ आचार्यने वंदना करी. एक क्रोड सोनामहोर जेट मुकी, आचार्यें सोनामहोर लीधी नही, कारण के तेउ त्यागी हता. राजाये पण पाठी लीधी नहि. आखर आचार्यनी आ-ज्ञाथी संघना गृहस्थोये जीर्णोद्धारमां वापरी दीधी. राजाना दफतरमां तो आ प्रमाणे लखेलुं ठे. श्लोक ॥ धर्मलाज इति प्रोक्ते, दूराडुव्रितपा-णये ॥ सूरये सिद्धसेनाय, ददौ कोटिं धराधिपः ॥ १ ॥ श्रीविक्रम रा-जानी सन्मुख सिद्धसेनदिवाकरे एम पण कह्युं हतुं के ॥ गाथा ॥ पुण्णे वास सहस्से, सयंमि वरिसाण नव नवइ कलिए ॥ होइ कुमर नरिंदो, तुह विक्रमराय सारिठो ॥ १ ॥ अर्थः पुण्य एवां एक हजार एकसो न-वाणुं वर्षें, हे विक्रमराय तमारा जेवोज कुमारपाल नृप थशे. अन्यदा सि-द्धसेनजी चित्रकूटमां गया. चित्रकूटमां एक अति प्राचीन जिनमंदिर हतुं, तेमां एक बहु मोटो स्थंज तेमना देखवामां आव्यो. कोइने पुठ्युं के, आ स्थंज शानो ठे? तेणे कहुं के पूर्वाचार्योये तेमां रहस्य पुस्तको मु-केलां ठे, आ स्थंज विविंध औपध डव्यनो वनेलो, वज्जनी जेम जला-दिथी अनेद्य ठे. कोइथी आ स्थंज खोली शकातो नथी. ते सांजली सि-द्धसेनजीये ते स्थंजनी गंध लइ प्रत्यौपधरस तेना उपर ठांट्यो, तेथी क-मलनी जेम स्थंज खिली गयो. तेमां पुस्तक दीगां. तेमांथी एक पुस्तक लइ वांचतां प्रथम पत्रमां वे विद्या लखेली प्राप्त थइ. एक सरसव विद्या, वीजी सुवर्णविद्या. सरसव विद्यानुं ए वल हतुं के कार्य आवी पडे त्यारे मांत्रिक जेटला सरसव जलाशयमां नांखे, तेटला अस्वार वेतालीसे हथी-आर सहित वहार आवे, परदलनो जंग करी कार्य सिद्ध थयेथी अदृश्य थइ जाय. हेम विद्यार्थी कांइ पण मेहेनतविना शुरू हेम कोटि गमे ते धातुथी थइ शके. आ वंने विद्या सिद्धसेनजीये सारी रीते लीधी. उपरांत आगल वांचवा जाय ठे के स्थंज बंध थइ गयो, सर्व पुस्तको वचमां रही गयां, अने आकाशवाणी थइ के तुं आ पुस्तकोने वांचवाने योग्य नथी,

क्यों तेमांथी कांश्क लखीए ठीएः— “नवि मारिये नवि चोरिये, परदार-गमन निवारिये ॥ थोवाधो वंदाइयें, सग्गिमट्टे मट्टे जाइये ॥ १ ॥ वली वोलवा तथा नाचवा लाग्या ॥ ठंड ॥ कालो कंवल नीचो वट्ट, ठाठें ज-रिउ दीवडो थट्ट ॥ एवड पडीउ नीले जाड, अवर किसो ठे सग्ग नि-लाड ॥ २ ॥ इत्यादि गोपो सांजली बहुज खुशी थया, अने कहेवा लाग्या के वृद्धवादि सर्वज्ञ ठे, अमने केवो मीगे, कानने सुखदायक तथा अ-मारा योग्य उपदेश कयों. सिद्धसेन तो कांइ जाणतो नथी. गोपोनो नि-र्णय सांजली सिद्धसेनजीए वृद्धवादिने कळुं हे जगवन् ! तमे मने दीक्षा आपी पोतानो शिष्य वनावो, कारण के मारी प्रतिज्ञा ठे के जो गोपो मने हायों कहे तो हुं हायों, अने तमारो शिष्य हुं वनुं. वृद्धवा-दिए कळुं के आ गोपोनी सजामां वाद विवाद शो ? ते प्रमाणेना वाद-विवादथी. हारजीत कहेवाय नहि. तमे जगुपुर (जरुच) मां राजस-जामां चालो; सजा समझ मारो तमारो वाद विवाद थशे. सिद्धसेन-जीए कळुं के हुं जले विद्वान् होउं, परंतु अवसरनो जाण नथी, अव-सरना ज्ञाता तमे ठो, तेथी मने हायों समजी दीक्षा आपो. सिद्धसे-नजीए पूर्वोक्त कह्या ठतां वृद्धवादि आचार्य तेने राज्यसजामां विवाद करवा सारु लइ आव्या. राज्यसजा समझ विवाद थयो, तेमां सिद्ध-सेनजीनो पराजय थयो, तेणे आचार्य पासे दीक्षा लीधी, गुरुए तेनुं ना-म कुमुदचंद्र पाड्युं. पठी ज्यारे आचार्य पदवी आपी त्यारे फरी सि-द्धसेन दिवाकर नाम राख्युं. पठी वृद्धवादि तो अन्यत्र विहार करी ग-या, अने सिद्धसेन दिवाकर अवंती (उज्जयिन) मां गया. उज्जयिननो संघ सन्मुख आव्यो, अने सिद्धसेन दिवाकरने सर्वज्ञपुत्र एवुं विरुद आप्युं, एम विरुदावली वोलतां अवंती नगरीना चोकमां आव्या. ते अवसरे विक्रमादित्य राजा हाथी उपर चडेला सन्मुख आवता मळ्या. राजाए सर्वज्ञपुत्र एवुं विरुद सांजली तेनी परिक्षा वास्ते हाथी उपर वेठा वेठांज मनथी तेमने नमस्कार कयों. आचार्यें तत्काल धर्मलाज कह्यो. राजाये पुठ्युं, वंदना कर्या विना आपे मने धर्मलाज केम आप्यो ? जुं धर्मलाज बहु सस्तो ठे ? आचार्यें कळुं, आ धर्मलाज कोड चिंतामणि रलोथी पण अधिक ठे, जे कोइ अमने वंदना करे ठे,

तेनेज अमे धर्मलाज कहीये ठीये. वली एम पण नथी के तमे अमने वंदना नथी करी. तमे पण पोताना मनथी वंदना करी ठे. मनज सर्व कायोंमां प्रधान ठे, ते कारणथी अमे धर्मलाज कह्यो ठे, अने तमोए पण मारी परिक्षावास्तेज मनथी नमस्कार करेल ठे. विक्रम राजाए तुष्टमान थइ हाथीथी नीचे उतरी सर्व संघनी समक्ष आचार्यने वंदना करी. एक क्रोड सोनामहोर जेट मुकी, आचार्ये सोनामहोर लीधी नही, कारण के तेउ त्यागी हता. राजाये पण पाठी लीधी नहि. आखर आचार्यनी आ-ज्ञाथी संघना गृहस्थोये जीर्णोद्धारमां वापरी दीधी. राजाना दफतरमां तो आ प्रमाणे लखेलुं ठे. श्लोक ॥ धर्मलाज इति प्रोक्ते, दूराडु द्वितपा-णये ॥ सूरये सिद्धसेनाय, ददौ कोटिं धराधिपः ॥ १ ॥ श्रीविक्रम रा-जानी सन्मुख सिद्धसेनदिवाकरे एम पण कह्युं हतुं के ॥ गाथा ॥ पुण्णे वास सहस्से, सयंमि वरिस्ताण नव नवइ कल्पिए ॥ होइ कुमर नरिंदो, तुह विक्रमराय सारिणो ॥ १ ॥ अर्थः पुण्य एवां एक हजार एकसो न-वाणुं वर्षे, हे विक्रमराय तमारा जेवोज कुमारपाल नृप थशे. अन्यदा सि-द्धसेनजी चित्रकूटमां गया. चित्रकूटमां एक अति प्राचीन जिनमंदिर हतुं, तेमां एक बहु मोटो स्थंज तेमना देखवामां आव्यो. कोशने पुठ्युं के, आ स्थंज शानो ठे? तेणे कह्युं के पूर्वाचार्योये तेमां रहस्य पुस्तको मु-केलां ठे, आ स्थंज विविंध औपध ड्रव्यनो वनेलो, वज्रनी जेम जला-दिथी अजेद्य ठे. कोइथी आ स्थंज खोली शकातो नथी. ते सांचली सि-द्धसेनजीये ते स्थंजनी गंध लइ प्रत्यौषधरस तेना उपर गंठ्यो, तेथी क-मलनी जेम स्थंज खिली गयो. तेमां पुस्तक दीठां. तेमांथी एक पुस्तक लइ वांचतां प्रथम पत्रमां वे विद्या लखेली प्राप्त थइ. एक सरसव विद्या, वीजी सुवर्णविद्या. सरसव विद्यानुं ए वल हतुं के कार्य आवी पडे त्यारे मांत्रिक जेटला सरसव जलाशयमां नांखे, तेटला अस्वार वेतालीसे हथी-आर सहित वहार आवे, परदखनो जंग करी कार्य सिद्ध थयेथी अदृश्य थइ जाय. हेम विद्याथी कांइ पण मेहेनतविना शुरू हेम कोटि गमे ते धातुथी थइ शके, आ वंने विद्या सिद्धसेनजीये सारी रीते लीधी. उपरांत आगल वांचवा जाय ठे के स्थंज बंध थइ गयो, सर्व पुस्तको वचमां रही गयां, अने आकाशवाणी थइ के तुं आ पुस्तकोने वांचवाने योग्य नथी,

आगल बांचीश नहि, बांचीश तो तत्काल मरण पामीश. सिद्धसेनजीये डरीने विचार कयों के वे विद्या मली तेपण सारुं थयुं. चित्रोडथी विहार करी सिद्धसेनजी पूर्व देशमां कुमारपुरमां गया, तेनो राजा देवपाल नामनो हतो, तेने प्रतिबोधि दृढ जैनधर्मा कयों. राजा निरंतर सिद्धांत श्रवण करवा लाग्यो, एम केटलोएक काल व्यतीत थयो. एकदा राजा गुप्त रीते गुरुजी पासे आव्यो; आंसुथी नेत्र जरी कहेवा लाग्यो के, हे जगवन् थमो बहुज पापी ठइये, तेथी आपनी अति उत्तम गोष्टीनो रस पी शकता नथी. अमे बहुज संकटमां आवी पड्या थीये. आचार्ये पुब्बुं, तमोनो शुं संकट ठे? राजाये कछुं, मारा बैरी राजाउं बहु ठे, तेउं एकत्र थइ मारुं राज्य लइ लेवा चाहे ठे. आचार्ये कछुं राजन्! आकुल व्याकुल थाउं नहि, तमोने हुं सहाय तुं, हवे तमारे शी चिंता ठे? राजा आहिंमतथी बहुज खुशी थयो; पठी आचार्ये राजाने पूर्वोक्त बने विद्याउं आपी समर्थ कयों. ते विद्याउंथी परदल जंग थइ गयुं. तेमनो सर्व सरंजाम लूटी लीधो. राजा आचार्यनो परम जक्त थइ गयो. आचार्य पण सुखमां पडी शिथिलाचारी थइ गया. आ स्वरूप वृद्धवादिजीना सांजल वामां आव्युं. उपाश्रयना दरवाजा पासे उजा रही कहेवराव्युं के एक बुढो बादी आव्यो ठे. सिद्धसेने बोलावी पोतानी सन्मुख वेसाड्या. वृद्धवादी पोतानुं सर्व शरीर वस्त्रथी ढांकी बोल्या—“अण फुद्धियफुद्धमतोडहिं मारोवामोडिहिं मणु कुसुमेहिं ॥ अच्चि निरंजणंजीण, हिं ड हिकाइ वणेणवणु ॥ १ ॥ सिद्धसेनने विचार करतां आनो अर्थ सुज्यो नहि, त्यारे विचारवा लाग्या के मारा गुरु तो नहि होय? एमनी उक्तिनो माराथी अर्थ थइ शकतो नथी, एम धारी फरी जोयुं तो गुरुने उलख्या. गुरुने पगे पडी वारंवार दमा मागवा लाग्या, अने पद्यनो अर्थ पुठवा लाग्या. वृद्धवादीजीए कछुं “अप्राप्त फल एवा फुलने तोड नहि, जावार्थ के आ योग कल्पवृक्ष ठे, जे योग रूप वृक्षना यम नियम तो मूल ठे, ध्यान रूप मोटुं थड जेनुं ठे, समता, कवित्व, वक्तृत्व, यश, प्रताप, मारण, उच्चाटन, स्तंजन, वशीकरणादि सिद्धियो तेना पुष्प ठे, अने केवलज्ञान फल ठे. हजी तो योगकल्पवृक्षने फुलोज लागेलां ठे, ते ज्ञान रूप फलथी आगल फलशे, तेथी आ अप्राप्त फल, पुष्पोने

शा वास्ते घोडे ठे ? तथा पांच महाव्रत रूप रोपा ठे, तेने मरोड नहि.
मनरूप पुष्पोथी निरंजन जिनराजने पूज; वनथी वन शुं जम्या करे
ठे ? राजसेवादि बूरा नीरस फल शुं प्राप्त करे ठे ? गुरुना उपदेशथी
सिद्धसेनजी शिक्षा पाम्या. राजाने पुठी गुरु साथे अन्यत्र विहार करी
गया, अने निविड चारित्र पालवा लाग्या, अनेक आचार्योथी पूर्वोनुं
ज्ञान प्राप्त कर्युं. वृद्धवादिनो स्वर्गवास थयो. वाद एकदा सिद्धसेन-
जीए सर्व संघ एकठो करी कहुं के मारो विचार सर्व आगमोने सं-
स्कृत ज्ञापामां करी देवानो थयो ठे, श्री संघे कहुं, शुं तीर्थकर, गणधर
संस्कृत जाणता न होता ? तेउए अर्थ मागधी ज्ञापामां आगमो शा वा-
स्ते कर्या ? आ प्रमाणे कहेवाथी आपने पारांचिक नामनुं प्रायश्चित्त
आवे ठे, आप पोते विचारी ल्यो ? अमे आपने शुं कहीए ? सिद्धसेने
विचार करी कहुं के हुं मौन धरी वार वर्षेनुं पारांचिक प्रायश्चित्त लइ
गुप्त रीते मुखवस्त्रिका, रजोहरणादि लिंग राखी, अवधूत रूप धारण
करी फरीश. एम बोली गद्यनो त्याग करी नगरादिमां पर्यटन करवा
लाग्यां. वार वर्षे व्यतीत थये उज्जयिन नगरीमां महाकालना मंदि-
रमां शेफालिका पुष्पोथी रंगेलां वस्त्र पेहेरी सिद्धसेन आवी वेठा. नम-
स्कार करता नथी, तेथी पूजारी प्रमुख लोकोए कहुं के तमे महादेवने
नमस्कार केम करता नथी ? सिद्धसेन बोलताज नथी. एम लोकपरं-
पराथी श्रवण करतां विक्रमादित्य पण त्यां आव्या, अने कहुं “ क्षीर
लिखित्तो जित्तो किमिति त्वया देवो न बंधते ” सिद्धसेनजीए कहुं हे
राजन् ! मारा नमस्कारथी तमारा देवनुं लिंग फाटी जशे, पठी तमोने
बहुज दुःख थशे, ते कारणथी हुं नमस्कार करतो नथी. राजाए कहुं,
लिंग फाटे तो फाटवाद्यो, परंतु तमे नमस्कार करो. तत्काल सिद्धसेन
पद्मासने वेसी कहेवा लाग्या, सांजलो ! पठी प्रथम छात्रिंशिकाथी देवनुं
स्तवन करवा लाग्या, यथा ॥ स्वयंभुवं जूतसहस्रनेत्र, मनेक मेकाक्षर
ज्ञावलिंगं ॥ अव्यक्त मव्याहत विश्वलोक, मनादि मध्यांतम पुण्य पापं
॥ १ ॥ इत्यादि प्रथमज श्लोक बोलवाथी लिंगमांथी धुमाडा निकलवा
लाग्या, एटले लोको बोलवा लाग्या के शिवजीनुं त्रीजुं नेत्र खुद्युं ठे,
हमणांज आ जित्तुकने नेत्रना अग्निथी जडम करी देशे. तत्काल विज-

लीनां तेजनी जेवो तडतडात करतो प्रथम अग्नि निकळ्यो, पठी श्री पार्श्वनाथजीतुं विंव प्रगट थयुं; एटले वादी सिद्धसेनजीए कल्याणमंदिरादि स्तवनो करी द्दामा मागी. विक्रमादित्य बोलवा लाग्या के हे जगवन् आ अट्ट पूर्व आश्चर्य शुं वताव्युं? आ नवा देव कोण ठे? वली आ प्रगट शा वास्ते थया? एम पुठतां सिद्धसेन सूरिए अवंती-सुकमाल तथा तेना पुत्र महाकाल संबंधी अने ब्राह्मणोए कालानुसारे वल पामी मूर्ति नीचे दवावी शिवलिंग स्थापन करी देवासंबंधी सर्व वृत्तांत कळ्यो. वली कळ्युं के शासन देवताए मारी स्तुतिथी शिवलिंग फाडीने वचमांथी आ प्रतिमा प्रगट करी ठे. हवे तमे सत्य असत्यनो निर्णय करो. विक्रमादित्य आ कार्यथी संतोप पामी देवनी समद गुरु-मुखथी वार व्रत रहण करता हवा, अने मंदिरना खर्च वास्ते एकसो गाम आपता हवा, तथा सिद्धसेन महाराजनी बहु प्रशंसा करी पोताना स्थाने गया. वादींइ सिद्धसेनने संघे अति तुष्टमान थइ संघमां लीधा, अने आचार्य पदवी पूर्वनी जेम आपी.

एकदा प्रस्तावे सिद्धसेन दिवाकर विहार करतां मालव देशना उँकार नगरमां गया. नगरना जक्त श्रावकोए आचार्यने विनंति करी के, हे जगवन् आ नगरनी समीप एक गाम हतुं तेमां सुंदर नामनो राजपुत्र गामनो अधिपति हतो. तेने बे स्त्रीठ हती. एक स्त्रीने प्रथम पुत्री जन्मी. ते पुत्रीवाली स्त्रीए विचार कयों के मारी शोकने पुत्र न थाय तो सारुं. पुत्र थशे तो ते पतिने बह्वज थशे, तेथी दाइ (सुयाणी) ने मली अक्सरनो लाज लइ पोतानी शोकना. जन्मेला पुत्रने वहार फेंकावी दीधो, अने तत्कालनी मरेली पुत्री तेनी पासे मुकी दीधी. जे पुत्रने वहार फेंकी दीधो हतो, तेने कुलदेवीए गायतुं रुप करी उठेयों. ज्यारे ते आठ वर्षनो थयो त्यारे आँकार नगरना शिवमंदिरना अधिकारी जरटे तेने देख्यो, अने तेने पोतानो चेलो बनाव्यो. एकदा प्रस्तावे कान्यकुब्ज देशनो राजा चक्षुशंध हतो, ते दिग्विजय करवावास्ते पडाव नाखी रह्यो हतो, रात्रिमां नानात्रेलाने शिवजक्त व्यंतर देवताए कळ्युं के शेष जोग राजाने आपजे, जेथी तेनी आंखो सारी थशे. तेणे तेम कर्थाथी राजानी आंख सारी थइ गइ. राजाए एकसो गाम मंदिरना खर्च

वास्ते आप्यां. अने आ मोटुं शिवमंदिर पण तेणेज वंधाव्युं. अमने आ नगरना मिथ्यादृष्टि वलवान होवाथी जिनमंदिर वनाववा देता नथी, तेथी आपने विनंति करीये ठीये के आ मंदिरथी अधिक अमारुं मंदिर आ नगरमां वने तोज अमोने संतोष थाय. आप सर्व वावतमां समर्थ ठो. तेजनी विनंति ध्यानमां लइ वार्दीइ अवंती नगरमां आब्या. विक्रमादित्यना मेहेल पासे आवी दरवानना मुखथी राजाने कहेवराव्युं— “दिदृक्षुर्जिह्वुरायातस्तिष्ठति द्वारिवारितः ॥ हस्तन्यस्त चतुःश्लोक, उतागष्ठ-तुगष्ठतु ॥ १ ॥ ते श्लोक सांजली विक्रमादित्ये श्लोक तेना उत्तरमां लखी मोकळ्यो. “दत्तानि दश लक्षाणि, शासनानि चतुर्दश ॥ हस्तन्यस्तचतुःश्लोकः, उतागष्ठतु गष्ठतु ॥१॥ ते श्लोक वांची आ चार्ये कहेवराव्युं के जिह्वु आपने मलवा चाहे ठे. धन लेता नथी. राजाये तेमने सन्मुख बोलाव्या, अने पिठान थइ एटले आदर सत्कार करी कहेवा लाग्या के गुरुजी बहु दिवसे दर्शननो लाज आप्यो. आचार्ये कळुं धर्मकार्योमां लागवाथी बहु दिवसो व्यतीत थया, चिरकाले आववुं थयुं. आ चार श्लोको श्रवण करो. यथा ॥ अपूर्वेयं धनुर्विद्या, जवता शिक्षिता कुतः ॥ मार्गणोधः समञ्ज्येति, गुणोयातिदिगन्तरे ॥ १ ॥ सरस्वती स्थिता वक्त्रे, लक्ष्मी करसरोरुहे ॥ कीर्तिः किं कुपिता राजन्, येन देशांतरंगता ॥ २ ॥ कीर्ति स्तेजातजाड्येव चतुरंजोधिमज्जानात् ॥ आतपाय धरानाथ, गता मार्त्तडमंडलं ॥ ३ ॥ सर्वदा सर्वदोसीति, मिथ्यासंस्तूयसे जनैः ॥ नारयोलेजिरे पृष्ठं, नवद्वःपरयोपितः ॥ ४ ॥ आ चार श्लोको सांजली राजा अत्यंत खुशी थया. गुरुने विनंति करवा लाग्या के, मारा राज्यमां जे कांइ सारजूत होय ते मागो, हुं आपने अर्पण करुं. आचार्ये कळुं, मारे तो कांइ पण चाहना नथी, परंतु उँकार नगरमां चतुर्द्वारि जैनमंदिर शिवमंदिरथी श्रेष्ठ तथा उंचुं वनावो, अने प्रतिष्ठा पण करावो; राजाये गुरुना फरमान मुजब कर्युं. जैनमतनी प्रजावना देखी श्री संघ अति संतुष्ट थयो. इत्यादि अनेक प्रकारे जैनधर्मेनी प्रजावना करी दक्षिण देशमां प्रतिष्ठान पुरमां जइ ते अनशन करी देवलोक प्राप्त करता हवा. त्यांथी संघे एक जट्टने सिद्धसेन सूरिना खबर आपवा तेमना गष्ट पासे मोकळ्या. जट्टे सूरियोनी सजामां जइ अर्थ श्लोक कह्यो, अने वारंवार ते अर्थ श्लोकज बोलवा लाग्यो, यथा ॥

स्फुरन्ति वादिखद्योतः, सांप्रतं दक्षिणापथे ॥ ज्यारे वारंवार आ अर्थ श्लोक सिद्धसेनजीनी वेहेन एक साध्वी हतां, तेमणे सांजळ्यो, त्यारे सिद्ध सारस्वत मंत्रथी वाकीनो अर्थ श्लोक तेमणे पुर्ण कर्यो. यथा ॥ नूनमस्तं गतोवादी, सिद्धसेनो दिवाकरः ॥ १ ॥ पठी ते चट्टे सर्व वृत्तांत कव्यो. संघने अत्यंत शोक थयो. ॥ इति सिद्धसेन दिवाकर संबंध.

सुहस्ति आचार्य त्रीश वर्ष गृहस्थावास, चौवीस वर्ष व्रतपर्याय, ते ताळीस वर्ष युगप्रधान पदवी, सर्वायु एकसो वर्षेनुं जोगवी, श्री महावीर पठी (१७१) वर्ष पठी स्वर्गें गया.

ए श्री सुहस्ति सूरिनी पाट उपर श्रीसुस्थित सूरि तथा सुप्रतिबद्ध सूरि नामना वे शिष्यो वेठा. तेज्ये क्रोडो वार सूरि मंत्रनो जाप कर्यो, तेथी गद्यनुं नाम कोटिक श्री संघे राख्युं. सुधर्मस्वामिथी आठ पाट सुधी तो अणगार, निर्ग्रथ गद्य नाम हतुं. बीजुं कोटिक नाम थयुं.

१० श्री सुस्थित सूरिनी पाट उपर श्री इंद्रदिन्न सूरि थया. आ अवसरमां श्री महावीरथी (४५३) वर्ष पठी गर्दजिह्व राजानो उद्येद करनार बीजा कालिकाचार्य थया, तेनी कथा कल्पसूत्रमां कथन करेदी वे. वली श्री महावीरथी (४५३) वर्ष पठी भृगुकव (चरुच) मां श्री आर्य खपुटाचार्य विद्याचक्रवर्ती थया. तेनो प्रबंध श्री प्रबंधचिंतामणि ग्रंथ, तथा हारिज्जडी आवश्यकनी टीकाथी जाणवो. वली प्रजावक चरित्रमां एम लख्युं ठे के, श्रीमहावीरथी (४७४) वर्ष पठी श्री खपुटाचार्य तथा (४६४) (४६७) वर्ष पठी आर्यमंगु, वृद्धवादि, पादालित्त, तथा सिद्धसेन दिवाकर थया. जे सिद्धसेन दिवाकरे विक्रमादित्यने जैनधर्मां कर्यां ते विक्रमादित्य श्रीमहावीरथी (४७०) वर्षे थया. ते वर्षे आ प्रमाणे थयां. जे रात्रिये श्री महावीरस्वामि निर्वाण पाम्या, ते दिवसे अवंती नगरीमां पालक नामना राजानो राज्याजिपेक थयो. आ पालक चंद्रप्रद्योतनो पौत्र हतो. तेनुं राज्य (६०) साठ वर्षे रहुं. तेनी पठी श्रेणिकनो पुत्र कोणिक अने कोणिकनो पुत्र उदायी, ज्यारे पुत्रविना मरण पाम्यो, त्यारे तेनी गादी उपर नंद नामनो नाइ वेठो. तेनी गादी उपर सर्वे नंद नामना नव राजा थया. तेनुं राज्य (१५५) वर्षे सुधी रहुं. नवमा नंदनी गादी उपर मौर्यवंशी चंद्रगुप्त राजा थयो. तेनो पुत्र बिंडुसार, तेनो पुत्र

अशोक, अशोकनो पुत्र कुणाल, अने कुणालनो पुत्र संप्रति महाराज थयो. मौर्यवंशजोनुं सर्वे राज्य (१०८) वर्षे सुधी रह्युं. पूर्वोक्त सर्वे राजा प्रायः जैनधर्मीं हता. तेउनी पठी त्रीश वर्षे सुधी पुष्पमित्र राजातुं राज्य रह्युं. त्यार वाद बलमित्र, ज्ञानुमित्र, आ वंने राजाउये (६०) वर्षे सुधी राज्य कर्युं. त्यार पठी नजवाहन राजाये (४०) वर्षे सुधी राज्य कर्युं. त्यार पठी गर्दजिह्वनुं राज्य (१३) वर्षे रह्युं. वाद चार वर्षे शकोनुं राज्य रह्युं. पठी शकोनो विक्रमादित्ये पराजय करी पोतातुं राज्य स्थापन कर्युं. आ सर्वे मल्ली (४९०) वर्षो थयां.

श्री इंद्रदिन्नसूरिनी पाट उपर श्री दिन्नसूरि वेठा. १२ श्रीदिन्नसूरिनी पाट उपर श्री सिंहगिरि सूरि वेठा. १३ सिंहगिरिजीनी पाट उपर श्री वज्रस्वामि वेठा. श्री वज्रस्वामि वाढ्यावस्थाथी जातिस्मरण ज्ञान-वाला हता. तेउने आकाशगामिनी विद्या पण हती. तेउये वीजा चार वर्षीं डुकालमां संघनुं रक्षण कर्युं; वली दक्षिणमां वौड्ढोना राज्यमां श्री जिनेंद्र पूजावास्ते पुष्पो पण तेमणे दावी आप्यां, अने वौड्ढराजाने जैनमती बनाव्यो. वज्रस्वामी दश पूर्वधर हता, जेनाथी श्री वज्रशाखा उत्पन्न थइ. तेमनो प्रबंध आवश्यक वृत्तिथी जाणवो. श्रीवज्रस्वामि श्रीमहावीर पठी चारसो ठहुं वरसे विक्रमादित्यना संवत २६ मां जन्म्या. आठ वर्षे घरमां रह्या. चमालीश वर्षे साधु पर्याय, अने ठत्रीस वर्षे युगप्रधान पदवी, सर्वायु अठाशी वर्षेनुं जोगवी स्वर्गें गया. आ आचार्यना समयमां जावडशाह शेठे श्री शत्रुंजय तीर्थ उपर संवत (१०८) मां तेरमो उद्धार कर्यो. ते वखते श्री वज्रस्वामिये प्रतिष्ठा करी. श्री वज्रस्वामि श्रीमहावीरस्वामि पठी (५०४) वर्षे स्वर्गें गया. श्री वज्रस्वामिना समयमां दशमुं पूर्व, चोथुं संहनन अने चोथुं संस्थान-व्यवच्छेद गयां. श्री सुहस्ति सूरि आठमां अने श्री वज्रस्वामि तेरमां, तेउनी पाटनी वचमां वीजी पटावलीउमां १ श्रीगुणसुंदर सूरि, २ श्री कालिकाचार्य, ३ श्री स्कंधिलाचार्य, ४ श्री रेवतमित्रसूरि, ५ श्रीधर्मसूरि, ६ श्री जडगुताचार्य, आ सात अनुक्रमे युग प्रधान आचार्यो थया. वली श्री महावीरथी (५३३) वर्षे पठी श्री आर्यरक्षितसूरिये सर्वे शा-स्त्रोना अनुयोग पृथक् पृथक् कही दीधा. आ प्रबंध आवश्यकवृत्तिथी

जाणवो. श्री महावीरथी (५४८) में वर्षे त्रैराशिमतने जीतनारा श्रीगुप्तसूरि थया. तेमनो प्रबंध श्री उत्तराध्ययननी वृत्ति तथा विशेषावश्यक सूत्रथी जाणवो. जेणे त्रैराशिमत प्रगट कर्यो, तेनुं नाम रोहगुप्त हतुं, ते श्रीगुप्त सूरिनो चेलो हतो. तेनुं उलुक गोत्र हतुं. ज्यारे रोहगुप्त गुरुनी साथे वादमां पराजय पास्यो, अने कदाग्रह न ठोड्यो, त्यारे अंतरंजीका नगरीना वलश्री राजाये तेने राज्य बहार कर्यो. ते रोहगुप्ते कणाद नामनो शिष्य कर्यो, अने तेने १ ड्रव्य, २ गुण, ३ कर्म, ४ सामान्य, ५ विशेष, ६ समवाय, आठ पदार्थोनुं स्वरूप बताव्युं, पठी कणादे वैशेषिक सूत्र बनाव्यां. त्यारथी वैशेषिक मत चाड्यो.

१४ श्रीवज्रस्वामिनी पाट उपर चौदमा श्री वज्रसेन सूरि वेठा. ते उं डुकाळमां श्री वज्रस्वामिना आदेशथी सोपारक पत्तनमां गया. ते नगरमां जीनदत्त नामना शेठना घरमां इश्वरी नामनी तेनी पत्नीए लाख रुपैआ खरची एक अन्ननी हांडी रांधवा चडावी हती, तेमां जेर नांखवा जती हती, कारण के, तेउये धार्युं के अन्न तो मळतुं नथी, अने डुकाळ मंटवानो नथी, जेथी जेर खाइ घरना सर्व आदमीउये मरवानो निश्चय कर्यो हतो, ते अवसरे श्री वज्रसेन सूरि ते स्थळे आवी पहाँच्या. तेउने तेमणे कळुं के तमे जेर खाळ नही, आवती काळे सुकाल थइ जशे. ते उपरथी तेउये जेर खाळुं नहि. श्री गुरुना वचन मुजव सुकाल थयो, अने शेठना चारे पुत्रोये दीक्षा दीधी. तेउना नाम. १ नागेंड, २ चंद्र, ३ निवृत्त, ४ विद्याधर. ते चारेथी स्वस्व नामना चार कुल थयां. श्रीवज्रसेन सूरि नव वर्षे सुधी गृहवासमां रह्या. (११६) वर्षे सुधी साधुपर्याय अने त्रण वर्षे युगप्रधान पदवी, सर्वायु (१२८) वर्षेनुं जोगवी, श्रीमहावीरथी (६२०) वर्षे पठी खगें गया. श्रीवज्रस्वामी अने श्रीवज्रसेनसूरिनी वचमां श्रीआर्यरक्षितसूरि तथा श्रीडुर्वलिका पुष्पसूरि, आ वे युग प्रधानो थया. श्री महावीरथी (५८४) वर्षे पठी सातमो निन्हव थयो, तथा श्री महावीरथी (६०९) वर्षे पठी श्रीकृष्ण सूरिनो शिष्य शिवज्ञूति नामनो हतो, तेणे दिगंबर मत चलाव्यो. ते अधिकार श्रीविशेषावश्यकदिथी जाणवो.

१५ श्री वज्रसेन सूरिनी पाट उपर श्री चंद्र सूरि वेठा. तेमना नाम-
i गछनुं नाम पण चंद्र गछ थयुं. १६ श्री चंद्रसूरिनी पाट उपर श्री

सामंतजडसूरि थया. तेउं पूर्वगत श्रुतना ज्ञाता हता. तेउं वैराग्यरं-
गथी रंगाया हता, अने जंगलोमां रहेता हता, तेथी लोकोये चंड गष्ठनुं
नाम वनवासी गह्व राख्युं. १७ श्री सामंतजड सूरिनी पाट उपर श्रीवृद्ध
देवसूरि थया. तथा श्री महावीरथी (५९५) वर्षे पठी कोरंट नगरना
नाहड नामना मंत्रीये; सत्यपुरमां जीनमंदिर बंधाव्युं, तेमां श्री महा-
वीर स्वामिनी प्रतिमानी प्रतिष्ठा श्री जङ्गक सूरिये करी. ते प्रतिमा
“जयउ वीर सच्चरिमंडण” कहेवाय ठे. १८ श्री वृद्धदेव सूरिनी पाट
उपर श्री प्रद्योतन सूरि थया.

१९ श्री प्रद्योतन सूरिनी पाट उपर श्रीमानदेव सूरि थया. तेमना सू-
रिपदस्थापनावसरे वंने स्कंधो उपर सरस्वती अने लक्ष्मी साक्षात् देखी
आ महान् पुरुष चारित्रथी ज्रष्ट थइ जशे, एवा विचारथी खिन्नचित्तवाला
गुरुने देखी, तेमणे गुरुनी पासे एवो नियम कयों के, जक्तिवाला गृहस्थना
घरनी जिह्वा लेवी नही, तथा डुध, दहीं इत्यादि ठये विगयनो त्याग
कयों. तेमना आ प्रमाणे तपना प्रजावथी नडोलपुरमां (पालीनी पासेना
गाममां) १ पद्मा, २ जया, ३ विजया, ४ अपराजीता, आ चार देवीउं
तेमनी सेवा करती हती. ते देखी केटलाएक मूर्ख लोको कहेवा लाग्या
के आ आचार्य स्त्रीसंग केम करे ठे? ते प्रमाणे घोलनाराउने ते देवी-
उंये शिक्षा करी. तेमना समयमां तिहिला (गजनी) नगरीमां बहु आ-
वको हता, तेउंमां मरकीनो उपद्रव थवाथी, तेउंनी शांतिवास्ते श्रीमान-
देव सूरिये नडोलपुरथी शांतिस्तोत्र वनावी मोकव्युं.

श्रीमानदेव सूरिनी पाट उपर श्री मानतुंग सूरि गया. तेमणे जक्ता-
मर स्तवननी रचना करी वाण अने मयुर जेवा पंडितोनी विद्याथी चम-
त्कार पामेला वृद्ध जोज राजाने प्रतिवाधयो; तथा जयहर स्तवन रची
नागराजाने वश कयों. वली जक्तिजर इत्यादि स्तवनोनी पण तेमणे र-
चना करेली ठे. प्रजावक चरित्रमां प्रथम श्रीमानतुंग सूरिनुं चरित्र व-
र्णवेल ठे, अने पठी देवसूरिना शिष्य प्रद्योतन सूरि, अने तेमना शिष्य
श्री मानदेव सूरिनो प्रबंध लखेल ठे, परंतु तेथी शंका न करवी, कारण
के प्रजावक चरित्रमां वीजा पण केटलाएक प्रबंधो आगल पाठल
कथन करेल ठे.

११ श्री मानतुंग सूरिनी पाट उपर श्रीवीर सूरि थया. श्रीवीर सूरिये श्री महावीर पठी (७७०) वर्षे पठी नागपुरमां श्री नमिनाथ अहंतनी प्रतिमानी प्रतिष्ठा करी ॥ यदुक्तं ॥ नागपुरे नमिजवन, प्रतिष्ठया महित सौजाग्यः ॥ अजवह्नीराचार्य, खिजिः शतैः साधिकै राज्ञः ॥ १ ॥

१२ श्रीवीर सूरिनी पाट उपर श्री जयदेवसूरि वेठा. (१३) श्रीजयदेवसूरिनी पाट उपर श्री देवानंद सूरि वेठा. आ अवसरमां श्री महावीरथी (८४५) वर्षे पठी बह्वजी नगरी त्रुटी; तथा (८८२) वर्षे पठी चैत्येस्थिति, तथा (८८६) वर्षे पठी ब्रह्म छिपिका. (१४) श्री देवानंद सूरिनी पाट उपर श्री विक्रमसूरि वेठा. (१५) श्रीविक्रम सूरिनी पाट उपर श्री नरसिंह सूरि वेठा. यतः ॥ नरसिंह सूरिरासी, दतोऽखिलग्रंथ-पारगोयेन ॥ यद्वो नरसिंह पुरे, मांसरतिस्व्याजीताखगिरा ॥१॥ (१५) श्री नरसिंह सूरिनी पाट उपर श्री समुद्रसूरि वेठा. यतः ॥ वसंततिलकावृत्तम् ॥ खोमीण राजकुलजोपि समुद्रसूरि, गंठं शशाम किल यः प्रवणः प्रमाणी ॥ जीत्वा तदाक्षपनकान् स्ववशं वितेने, नागद्रदे जुजगनाथ नमस्य तीर्थम् ॥ १ ॥ (१७) श्री समुद्र सूरिनी पाट उपर श्रीमानदेव सूरि थया. यतः ॥ वसंततिलका वृत्तम् ॥ विद्या समुद्र हरिजद्र मुनीन्द्रमित्रं, सूरि वञ्चूव पुनरेवहि मानदेवः ॥ मांद्यात् प्रयातमपियोनघ सूरि मंत्र, लेज्जैविका मुखगिरा तपसोज्जयंते ॥ १ ॥ श्रीमहावीरथी एक हजार वर्षे पठी सत्यमित्र आचार्यनी साथे पूर्वनो व्यवहेद. थयो. श्रीवज्रसेनसूरि अने सत्यमित्र आचार्यनी वचमां १ श्री नागहस्ति, २ श्रीरेवतीमित्र, ३ ब्रह्मह्नीप, ४ नागार्जुन, ५ जूतदित्र, ६ श्री कालकसूरि, आ ठ युगप्रधान अनुक्रमे थया. युगप्रधानो मध्येना सुधर्म इंद्रथी वंदायेत्ता अने प्रथमानुं योग सूत्रोना सूत्रधार कल्प श्री कालिकाचार्ये श्री महावीरथी (९९३) वर्षे पठी पांचमथी चोथनी संवत्सरी करी; अने श्री महावीरथी (१०५५) वर्षे पठी अने विक्रमादित्यथी (५८५) वर्षे पठी याकिनी साधवीना धर्मपुत्र श्रीहरिजद्र सूरि स्वर्गवास पाम्या; तथा (१११५) वर्षे पठी श्री जीनजद्रगणि युगप्रधान थया. आ जीनजद्रगणि ध्यानशतकना कर्ता, हरिजद्र सूरिना ग्रंथ उपर टीका करनार २० श्री बीजा जीनजद्र ठे, आ कथन पटावलिमां ठे, परंतु श्री जीन-

नङ्गणिक्रमाश्रमणं आयुष्य (१०४) वर्षे तु हतुं, ते कारणधी जो हरिञ्ज सुरिना वखतमां विद्यामान होय तोपण विरोध नथी.

१७ श्रीमान देवसूरिनी पाट उपर श्री विबुधप्रज्ञसूरि थया. (१९) श्रीविबुध प्रज्ञसूरिनी पाट उपर श्री जयानंद सूरि थया. (३०) श्री जयानंद सूरिनी पाट उपर श्रीरविप्रज्ञसूरि थया, तेमणे श्री महावीर पठी (११७०) वर्षे नडोल नगरमां श्री नेमिनाथ जगवाननी प्रतिष्ठा करी, श्रीमहावीर पठी (११९०) वर्षे उमास्वाति युगप्रधान थया. (३१) श्री रविप्रज्ञसूरिनी पाट उपर श्री यशोदेव सूरि थया. श्री महावीरधी (११७१) वर्षे पठी अने विक्रम संवत (७०२) मां वनराज, चावडा वंशना राजाये गुजरातमां अणहिलपुर पाटण वसाव्युं; वनराज जैन मतानुसारी राजा हतो. विक्रम संवत ७०० ना जादरवासुद त्रीजने दिवसे वप्प-जट्ट आचार्यनो जन्म थयो, जेणे ग्वालियरना आम नामना राजाने जैनी वनाव्यो. तेनुं चरित्र प्रबंध चिंतामणि ग्रंथधी जाणवुं.

३२ श्री यशोदेव सूरिनी पाट उपर श्री प्रद्युम्नसूरि थया. (३३) श्री प्रद्युम्नसूरिनी पाट उपर श्रीमान देवसूरि थया, जेमणे उपधान वाच्य ग्रंथनी रचना करी (३४) श्री मानदेव सूरिनी पाट उपर श्रीविमलचंद्र सूरि थया. (३५) श्रीविमलचंद्रसूरिनी पाट उपर श्री उद्योतन सूरि थया. श्री उद्योतन सूरि अर्बुदाचल (आबु) पर्वत उपर यात्रा करवा आव्या. त्यां देली गाम नजीक मोटावड वृद्धनी ठायामां वेसी, पोतानी पाटनी वृद्धि थवा वास्ते सारुं मुहूर्त देखी श्री महावीरधी (१४६४) वर्षे पठी अने विक्रम संवत (९९४) वर्षे पठी पोतानी पाट उपर श्री सर्वदेव प्रमुख आठ आचार्यनी स्थापना करी; केटलाएक मात्र सर्वदेव सूरिनी स्थापना करी एम कथन करे ठे. मोटा वडवृद्ध नीचे सूरि पदवी देवाधी वनवासी गढनुं नाम वडगढ पांचमुं थयुं. "प्रधान शिष्य संतत्या, ज्ञानादि गुणैः प्रधान चरितैश्च वृद्धत्वाद्बृहद्गढ इत्यपि."

३५ श्री उद्योतन सूरिनी पाट उपर श्री सर्वदेवसूरि थया; केटलाएक श्री प्रद्युम्नसूरि तथा उपधान ग्रंथ कर्ता श्रीमान देवसूरि आ वंने आचार्योने पट्टधर मानता नथी. तेजना अक्षिप्राय प्रमाणे श्री सर्वदेवसूरि चोत्रीसमी पाट उपर थया. श्री सर्व देवसूरि गौतमस्वामिनी

२१ श्री मानतुंग सूरिनी पाट उपर श्रीवीर सूरि थया. श्रीवीर सूरिये श्री महावीर पठी (७७०) वर्षे पठी नागपुरमां श्री नमिनाथ अहंतनी प्रतिमानी प्रतिष्ठा करी ॥ यदुक्तं ॥ नागपुरे नमिजवन, प्रतिष्ठया महित सौजाग्यः ॥ अजवह्नीराचार्य, खिजिः शतैः साधिकै राज्ञः ॥ १ ॥

२२ श्रीवीर सूरिनी पाट उपर श्री जयदेवसूरि वेठा. (२३) श्रीजयदेवसूरिनी पाट उपर श्री देवानंद सूरि वेठा. आ अवसरमां श्री महावीरथी (८४५) वर्षे पठी बल्लजी नगरी त्रुटी; तथा (८८२) वर्षे पठी चैत्येस्थिति, तथा (८८६) वर्षे पठी ब्रह्म छिपिका. (२४) श्री देवानंद सूरिनी पाट उपर श्री विक्रमसूरि वेठा. (२५) श्रीविक्रम सूरिनी पाट उपर श्री नरसिंह सूरि वेठा. यतः ॥ नरसिंह सूरिरासी, दतोऽखिलग्रंथ-पारगोयेन ॥ यद्वो नरसिंह पुरे, मांसरतिस्त्वाजीताखगिरा ॥१॥ (२५) श्री नरसिंह सूरिनी पाट उपर श्री समुद्रसूरि वेठा. यतः ॥ वसंततिलकावृत्तम् ॥ खोमीण राजकुलजोपि समुद्रसूरि, गंठं शशाम किल यः प्रवणः प्रमाणी ॥ जीत्वा तदाक्षपनकान् स्ववशं वितेने, नागददे जुजगनाथ नमस्य तीर्थम् ॥ १ ॥ (२७) श्री समुद्र सूरिनी पाट उपर श्रीमानदेव सूरि थया. यतः ॥ वसंततिलका वृत्तम् ॥ विद्या समुद्र हरिजद्र मुनीन्द्रमित्रं, सूरि वञ्ज्व पुनरेवहि मानदेवः ॥ मांथात् प्रयातमपियोनघ सूरि मंत्र, लेज्जविका मुखगिरा तपसोज्जयंते ॥ १ ॥ श्रीमहावीरथी एक हजार वर्षे पठी सत्यमित्र आचार्यनी साथे पूर्वनो व्यवहोद थयो. श्रीवज्रसेनसूरि अने सत्यमित्र आचार्यनी वचमां १ श्री नागहस्ति, २ श्रीरेवतीमित्र, ३ ब्रह्मद्वीप, ४ नागार्जुन, ५ जूतद्वित्र, ६ श्री कालकसूरि, आ ठ युगप्रधान अनुक्रमे थया. युगप्रधानो मध्येना सुधर्म इंद्रथी वंदायेला अने प्रथमानुं योग सूत्रोना सूत्रधार कल्प श्री कालिकाचार्ये श्री महावीरथी (९९३) वर्षे पठी पांचमथी चोथनी संवत्सरी करी; अने श्री महावीरथी (१०५५) वर्षे पठी अने विक्रमादित्यथी (५८५) वर्षे पठी याकिनी साधवीना धर्मपुत्र श्रीहरिजद्र सूरि स्वर्गवास पाम्या; तथा (११२५) वर्षे पठी श्री जीनजद्रगणि युगप्रधान थया. आ जीनजद्रगणि ध्यानशतकना कर्ता, हरिजद्र सूरिना ग्रंथ उपर टीका करनार होवाथी वीजा जीनजद्र ठे, आ कथन पटावलिमां ठे, परंतु श्री जीन-

जङ्गणिक्रमाश्रमणं आयुष्य (१०४) वर्षेणुं हतुं, ते कारणधी जो हरिजङ्ग सूरिना वखतमां विद्यामान होय तोपण विरोध नथी.

२७ श्रीमान देवसूरिनी पाट उपर श्री विबुधप्रज्ञसूरि थया. (२९) श्रीविबुध प्रज्ञसूरिनी पाट उपर श्री जयानंद सूरि थया. (३०) श्री जयानंद सूरिनी पाट उपर श्रीरविप्रज्ञसूरि थया, तेमणे श्री महावीर पठी (११७०) वर्षे नडोल नगरमां श्री नेमिनाथ जगवाननी प्रतिष्ठा करी. श्रीमहावीर पठी (११९०) वर्षे उमास्वाति युगप्रधान थया. (३१) श्री रविप्रज्ञसूरिनी पाट उपर श्री यशोदेव सूरि थया. श्री महावीरथी(१२७२) वर्षे पठी अने विक्रम संवत (७०२) मां वनराज, चावडा वंशना राजाये गुजरातमां अणहिलपुर पाटण वसाव्युं; वनराज जैन मतानुसारी राजा हतो. विक्रम संवत ७०० ना जादरवासुद त्रीजने दिवसे वप्प-जट्ट आचार्यनो जन्म थयो, जेणे ग्वालियरना आम नामना राजाने जेनी वनाव्यो. तेनुं चरित्र प्रबंध चिंतामणि ग्रंथथी जाणवुं.

३२ श्री यशोदेव सूरिनी पाट उपर श्री प्रद्युम्नसूरि थया. (३३) श्री प्रद्युम्नसूरिनी पाट उपर श्रीमान देवसूरि थया, जेमणे उपधान वाच्य ग्रंथनी रचना करी (३४) श्री मानदेव सूरिनी पाट उपर श्रीविमलचंद्र सूरि थया. (३५) श्रीविमलचंद्रसूरिनी पाट उपर श्री उद्योतन सूरि थया. श्रीउद्योतन सूरि अर्बुदाचल (आबु) पर्वत उपर यात्रा करवा आव्या. त्यां टेली गाम नजीक मोटावड वृद्धनी ठायामां वेसी, पोतानी पाटनी वृद्धि थवा वास्ते सारुं सुहूर्त देखी श्री महावीरथी (१४६४) वर्षे पठी अने विक्रम संवत (९९४) वर्षे पठी पोतानी पाट उपर श्री सर्वदेव प्रमुख आठ आचार्यनी स्थापना करी; केटलाएक मात्र सर्वदेव सूरिनी स्थापना करी एम कथन करे ठे. मोटा वडवृद्ध नीचे सूरि पदवी देवाधी वनवासी गठनुं नाम वडगठ पांचमुं थयुं. “प्रधान शिष्य संतत्या, ज्ञानादि गुणैः प्रधान चरितैश्च वृद्धत्वाद्बृहन्न इत्यपि”

३५ श्री उद्योतन सूरिनी पाट उपर श्री सर्वदेवसूरि थया; केटलाएक श्री प्रद्युम्नसूरि तथा उपधान ग्रंथ कर्ता श्रीमान देवसूरि आ वंने आचार्योने पट्टधर मानता नथी. तेजना अजिप्राय प्रमाणे श्री सर्वदेवसूरि चोत्रीसमी पाट उपर थया. श्री सर्व देवसूरि गौतमस्वामिनी

जेम सुशिष्य लब्धिमान होता. तेमणे विक्रम संवत (१०१०) पठी राम-
सैन्य पुरमां श्रीरीपञ्जदेव जगवाननी तथा श्रीचंद्रप्रज्ञ स्वामिनी प्रतिष्ठा
करी, अने चंडावतीमां कुंकण मंत्रीने प्रतिबोधी दीक्षा आपी. तेमणे चं-
डावतीमां जैनमंदिर बंधाव्युं हतुं. विक्रम संवत (१०१९) वर्षे पठी ध-
नपाल पंडिते देशी नाममालानी रचना करी, तथा विक्रम संवत (१०९५)
वर्षे पठी थिरापडीय गहमां वादी वैताल श्रीशांतिसूरि थया, तेमणे श्री
उत्तराध्ययन उपर टीका करी.

३९ श्री सर्वदेवसूरिनी पाट उपर श्रीदेवसूरि थया, तेमने रूपश्री एतुं
राजाये विरुद थ्याप्युं. (३७) श्री देवसूरिनी पाट उपर बीजा श्री सर्व-
देवसूरि थया. जेमणे यशोज्ञ तथा नेमिचंद्र प्रमुख आठ आचार्योंने
आचार्य पदवी आपी. श्री महावीरथी (१४९६) वर्षे पठी तह्लिलानुं
नाम गजनी राखवामां थ्याव्युं. (३९) श्री सर्व देवसूरिनी पाट उपर
श्री यशोज्ञसूरि तथा नेमिचंद्रसूरि बने गुरु ज्ञाडुं बेठा. विक्रम संवत
(११३५) पठी तथा अन्य कथन मुजव (११३९) वर्षे पठी नवांगीवृत्ति
करनारा श्रीअज्ञयदेवसूरि महाराज स्वर्गवास पाम्या; अने कूर्चपुर गठी
चैत्यवासी जीनेश्वरसूरिना शिष्य श्री जीनवल्लभ सूरिये चित्रकूटमां श्री
महावीर स्वामिना ठ कळ्याणकनी प्ररुपणा करी.

४० श्री यशोज्ञसूरि तथा श्री नेमिचंद्रसूरिनी पाट उपर श्रीमुनि-
चंद्रसूरि थया. जेउये यावत् जीव मात्र सौवीर पाणी पीवानुं राखी, सर्व
विगयनो त्याग कर्यो. वली तेउये श्रीहरिचंद्रसूरिकृत अनेकांतजयपता-
का प्रमुख अनेक ग्रंथोनी पंजीका करी, तथा उपदेशवृत्ति, योगविंदुवृत्ति
प्रमुख अनेक वृत्तिउनी रचना करवाथी जगत्मां तार्किक शिरोमणि एवा
विरुदथी प्रसिद्ध थया. आ आचार्य महा वैराग्यवान् निस्पृही थया. वि-
क्रम संवत (११५९) वर्षे पठी चंद्रप्रज्ञथी पौर्णिमीयक. मतोत्पत्ति थइ.
चंद्रप्रज्ञने प्रतिबोधवावास्ते श्रीमुनिचंद्रसूरिये पाहिक सप्ततिकानी रचना
करी. श्रीमुनिचंद्रसूरिना शिष्य वादी श्री अजीतदेवसूरि तथा देवसूरि-
प्रमुख थया. श्री अजीतदेवसूरिये अणहिलपुर पाटणमां श्री सिद्ध-
राज जयसिंह राजानी सज्जामां अनेक विद्वानो साथे वाद करी चोरासी
वादथी सर्व वादीउने पराजय पमाड्या. ते प्रसंगे दिगंबर मतना चक्रवर्ती,

श्रीकुमुदचंद्र आचार्यने पण वादमांजीती लीधा, अने दिगंबरोनो पाटणमां प्रवेश बंध कराव्यो. आ विना अत्यारसुधी प्रसिद्ध ठे. तेउये विक्रम. संवत (१२०४) मां फलवर्द्धि ग्राममां चैत्यविंवोनी प्रतिष्ठा करी, तथा आरासणामां श्रीनेमिनाथनी प्रतिष्ठा करी. तेउए (८४०००) चोरासी हजार श्लोक प्रमाण स्याद्वाद रत्नाकर नामना ग्रंथनी रचना करी, अने तेमनाथी मोटा नामांकित चोवीश आचार्योनी शाखा थइ. तेउनो जन्म संवत (११३४) दीक्षा संवत (११५२) सूरिपद संवत (११७४) मां प्राप्त थयुं. संवत (१२२०) आ-वण कृष्ण सप्तमी गुरुवारनारोज तेमनो स्वर्गवास थयो. तेमना समयमां श्री देवचंद्रसूरिना शिष्य त्रण क्रोड ग्रंथना कर्ता, कल्किकालमां सर्वइ विरुद धारक, पाटणना कुमारपालना प्रतिबोधक, सवालक श्लोक प्र-माण. पंचांग व्याकरणना कर्ता श्री हेमचंद्रसूरि विद्यासमुद्र थया, ते-मनो विक्रम संवत (११४५) मां जन्म, संवत (११५०) दीक्षा, संवत (११६६) मां सूरि पद अने संवत (१२२७) मां स्वर्गवास थयो. ते-मनुं संपूर्ण चरित्र श्री प्रबंधचिंतामणि तथा श्रीकुमारपालचरित्रथी जाणवुं.

श्रीमुनिचंद्र सूरिनी पाट उपर श्री अजीतदेवसूरि थया. तेमना स-मयमां संवत (१२०४) मां खरतरोत्पत्ति, तथा संवत (१२३३) मां आं-चलिक मतोत्पत्ति, तथा संवत (१२३६) मां सार्द्धपौर्णिमीयक मतो-त्पत्ति, तथा संवत (१२५०) मां आगमिक मतोत्पत्ति थइ. श्रीवीर ज-गवानथी (१६७२) वर्षे वागजट मंत्रीए श्री शत्रुंजय तीर्थ उपर चौदमो उद्धार कराव्यो. ते प्रसंगे साडा त्रण क्रोड रुपीआनो व्यय कयो.

४२ श्री अजित देवसूरिनी पाट उपर श्री विजयसिंह सूरि थया. जे-उए विवेकमंजरी शुद्ध करी. तेमना मोटा शिष्य श्री सोमप्रज्ञसूरि थया. तेउ शतार्थिकारक अर्थात् एकेक श्लोकना सो सो अर्थ निकळे एवां काव्योनी रचना करनारा थया, वीजा मणिरत्न सूरि थया. (४३) श्रीविजयसिंह सूरिनी पाट उपर श्री सोमप्रज्ञसूरि तथा श्रीमणिरत्न सूरि थया. (४४) सोमप्रज्ञ सूरि तथा श्रीमणिरत्न सूरिनी पाट उपर श्रीजगच्चंद्रसूरि थया. जेमणे पोताना गढने शिथिल देखी गुरुनी आ-ज्ञाथी वैराग्य रसना समुद्र चैत्रवाल गठीय श्रीदेवचंद्र उपाध्यायनी स-हायथी क्रिया उद्धार कयो, अने हीरला जगच्चंद्र सूरि थया; कारण के ते-

मणे चितोडना राजानी सजामां वत्रीस दिगंबर आचार्यों साथे वाद कर्यों, जेमां तेउ हीरानी जेम अजेव्य रह्या, तेथी राजाए तेमने हीरला जगचंद्र सूरि एवं विरुद आप्युं. वली तेमणे जावजीव आचाम्ल तपनो अजिग्रह कर्यों. वार वर्ष तप करतां थयां एटले चितोडना राणये तेमने तपा एवं विरुद आप्युं. संवत (११७५) मां वडगठनुं नाम तपगठ थयुं. आ प्रमाणे ठ नामो थयां. १ नियंथ, २ कोटिक. ३ चंद्र, ४ वनवासी, ५ वडगठ, ६ तप गठ. आ ठ नामोना प्रवृत्त करनारा हेतुरुप आचार्यों थया. तेना नाम १ श्रीसुधर्मस्वामि, २ श्रीसुस्थितसूरि, ३ श्रीचंद्रसूरि, ४ श्री सा-
मंतज्ञसूरि, ५ श्री सर्वदेवसूरि ६ श्री जगचंद्रसूरि.

४५ श्री जगचंद्र सूरिनी पाट उपर श्री देवेंद्र सूरि थया. तेमणे माल-
वानी उज्जयिन नगरीमां जीनचंद्र नामना मोटा शेठना वीरधवल नामना पुत्रनो विवाह निमित्ते महोत्सव थइ रह्यो हतो, ते वीरधवल कुमारने प्रतिबोध करी संवत (१३०१) मां दीक्षा आपी; त्यार वाद तेना जाइने पण दीक्षा आपी, तेउ दीर्घकालसुधी मालवा देशमां विहार करता रह्या. वाद देवेंद्रसूरि गुजरातमां स्तंजतीर्थमां आख्या; त्यां प्रथमथी श्री वि-
जयचंद्रसूरि गीताथोंने पृथक् पृथक् वस्त्रोनी पोटलीउं आपे ठे, नित्य वि-
गय खावानी आझा आपे ठे, निरंतर वस्त्र धोवानी तथा फल, शाक क्षे-
वानी अने निवि प्रत्याख्यानमां विगयगत लेवानुं कहे ठे, तथा आर्यानो
लावेलो आहार साधु वापरे एवी आझा आपे ठे, वली दिन प्रत्ये द्वि-
विध प्रत्याख्यान, अने गृहस्थोने अवर्जीने वास्ते प्रतिक्रमण करावानी
आझा आपे ठे, तथा संविज्ञागने दिन तेमने घेर गीतार्थ जाय, खेपनी
संनिधि राखवी, तत्कालनुं उष्णोदक गृहण करवुं; इत्यादि काम करवाथी
केटलाएक शिथिलाचारी साधुने साथे लइ सदोष पौषधशालामां रह्या ठे.
आ विजयचंद्र आचार्यनी उत्पत्ति आ प्रमाणे ठे. मंत्री वस्तुपालना
घरमां विजयचंद्र नामनो दफतरी हतो, ते कोइ अपराधथी केदखाना-
मां गयो. तेवामां तेने श्री देवज्ञ उपाध्यायजीए दीक्षा लेवानी प्र-
तिज्ञां करावी कारागृहथी मुक्त कराव्यो. पठी तेणे दीक्षा लीधी. बुद्धि-
बलथी बहुश्रुत थयो, परंतु अजिमाना होवाथी मंत्री वस्तुपाले कहुं
के आ सूरिपद आपवा योग्य नथी. आ प्रमाणे वस्तुपाल मंत्रीनी मना

उत्तां श्री जगच्चंद्र सूरिण श्री देवचंद्र उपाध्यायना कहेवाची तेने सूरि-
पद आप्युं; वही एवी धारणाची सूरिपद आपवामां आव्युं के विजय-
चंद्र देवेंद्र सूरिने सहायक थरो. विजयचंद्र बहु वखत सुधी श्री देवें-
द्रसूरिनी साथे विनयवान् शिष्यनी जेम वर्तता रह्या, परंतु ज्यारे मा-
लवा देशमां देवेंद्रसूरि आव्या, त्यारे ते वंदना करवाने पण आव्या न-
हि; वाद श्री देवेंद्र सूरिजीए कहेवराव्युं के एकज वस्तिमां आप वार
वर्ष सुधि केम रह्या ? विजयचंद्रे उत्तरमां कहेवराव्युं के, शांत दांतने
वार वर्ष सुधी एक जगामां रहेवाची कांइ दोष नथी. संविज्ञ साधुज
सर्वे, देवेंद्रसूरिनी साथे रह्या. देवेंद्र सूरिजी अनेक संविज्ञ साधुना स-
मुदायनी साथे उपाश्रयमांज रह्या. विजयचंद्र सूरिनो समुदाय वडी
शाखामां रहेवाची लोकोए तेमनुं नाम वृजू पौशाखिक राख्युं, अने दे-
वेंद्रसूरिना समुदायनुं नाम लघु पौशाखिक राख्युं. स्तंजतीर्थना चोक-
मां कुमारपालविहारमां धर्मदेशा नामे मंत्री वस्तुपाले चारे वेदोना
निर्णयकारक स्वसमय परसमयना जाणकार श्री देवेंद्रसूरिजीने वंदना
करी बहुमान आप्युं. वाद श्री देवेंद्रसूरिजी विजयचंद्रनी उपेक्षा करी
विचरता थका अनुक्रमे पालणपुरमां आव्या. चोराशी धनाढ्य शेठीआ
तथा अनेक जन समुदाय निरंतर व्याख्यान श्रवण करवा आवता ह-
ता; शास्त्रना श्रोता पुरुषो अनेक हता. पालणपुरमां व्याख्यान श्रवण
करवा आवनाराज निरंतर एक मूडा प्रमाण अक्षत अने सोल मण सो-
पारी दर्शनावसरे चढावता हता, जैनशासननी बहुज उन्नति थइ रहि
हती; ते अवसरे सुइ धर्मी लोकोए गुरुजीने विनंति करी के हे जग-
वन् ! आप अहींआ कोइने आचार्य पदवी आपी अमारा मनोरथ पूर्ण
करो. गुरुजीए उचित जाणी विक्रम संवत (१३१३) मां पालणपुरमां
वीरधवलने श्री विद्यानंद नाम दइ सूरिपद आप्युं. तेमना अनुज जी-
मसिंहने धर्मकीर्ति उपाध्यायनी पदवी आपी. ते अवसरे प्रवहादन-
विहारना सौवर्ण कपिशिर्ष मंडपमां कुंकुमनी वृष्टि थइ, तेथी लोको व-
हुज आश्चर्य पाम्या. श्री विद्यानंद सूरिजीए विद्यानंद नामनुं नवीन
व्याकरण वनाव्युं. यदुक्तं ॥ विद्या नंदाजिधं येन, कृतं व्याकरणं नवं ॥
जाति सर्वोत्तमं स्वल्प, सूत्रं बह्वर्थ संग्रहं ॥१॥ वाद श्री देवेंद्रसूरिजी फरी

मालवामां विहार करता हवा. श्री देवेंद्र सूरिजीए जे ग्रंथोनी रचना करी ठे, तेना नाम. १ श्राद्धदिनकृत्यसूत्रवृत्ति, २ नव्यकर्मग्रंथ पंचक सूत्र वृत्ति, ३ सिद्ध पंचाशिका सूत्र वृत्ति, ४ धर्मरत्न वृत्ति, ५ सुदर्शन चारित्र, ६ त्रण ज्ञाप्य, ७ वृंदारवृत्ति, ८ सिरि उसह्वरुमाण प्रमुख स्तवनो. कोइ कहे ठे के श्राद्धदिनकृत्य सूत्र तो चिरंतन आचार्यनुं करेल ठे. श्री देवेंद्र सूरिनो मालवा देशमां विक्रम संवत (१३२७) मां स्वर्गवास थयो. दैवयोगथी विद्यापुरमां तेर दिवस पठी श्री विद्यानंद सूरिनो पण स्वर्गवास थयो. बाद ठमास पठी सगोत्रसूरिए श्री विद्यानंद सूरिना वंधु श्री धर्मकीर्ति उपाध्यायने सूरिपद आपी श्री धर्मधोप सूरि नाम आप्युं.

४६. श्री देवेंद्र सूरिनी पाटउपर श्री धर्मधोप सूरि थया. जेमणे मंडपाचलमां शा. श्री पृथ्वीधरने पंचम अनुव्रत लेतां ज्ञानथी निषेध कयो. आचार्ये ज्ञानथी जाण्युं के आ पुरुषनुं व्रत जंग थइ जशे, ते कारणथी जयथी निषेध कयो. बाद पृथ्वीधर मंडपाचल राजानो मंत्री थयो. धनवृद्धिथी धनद समान थइ गयो. तेणे चोरासी जीनमंदिर तथा सात ज्ञानना जंडार कराव्या; तथा शत्रुंजय तीर्थ उपर एकवीश धडी प्रमाण सुवर्ण खरची रूपामय श्री रीपजदेवजीनुं मंदिर वंधाव्युं. कोइ कहे ठे के ठप्पन धडी प्रमाण सुवर्ण आपी इंद्रमाल पेहेरी, धरती नगरमां कोइ साधमीने ब्रह्मचारीना वेप आपवाना अवसरमां पृथ्वीधरने महा धनाढ्य जाणी तेनी जेट करी, ते वखते पृथ्वीधरे तेज वेप गृहण करी तेज दिनथी अर्थात वत्रीस वर्षनी उमरमां ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर्तुं. तेने जांजण नामनो एकज पुत्र हतो. तेणे श्री शत्रुंजय तथा उज्जयंत गिरिना शिखर उपर बार योजन प्रमाण सुवर्ण रूपमय एक ध्वजा चढावी. तेमणे सारंगदेव राजा पासे कर्पूरनुं मेहेसुल वंध कराव्युं, तथा मंडपाचलमां गुरुना प्रवेश महोत्सवमां (७२०००) रूपे आनो खर्च कयो.

श्री धर्मधोप सूरिए देवपत्तनमां शिष्योनी विनंतिथी मंत्रमय स्तुति वनावी. वली स्वध्यानना बलथी, वज्रस्वामिए स्वशक्तिथी पुरातन कपर्दी यहु जे मिथ्यादृष्टि थइ गयो हतो तेने नवीन कपर्दी यहुथी

दूर क्यों हतो, ते मिथ्यादृष्टि कपर्दीने प्रतिबोधी श्री जिनविद्योने अ-
 धिष्ठाता क्यों; तथा जेमनी पासे समुद्रना अधिष्ठाताए समुद्रना तरं-
 गोथी रत्न ढोकन कर्या. एकदा प्रस्तावे कोइ दुष्ट स्त्रीए कामणयुक्त
 वडां वनावी साधुने वहोराव्यां, परंतु श्री धर्मघोष सूरिजीए ते वडां
 धरती उपर फेंकावी जमीनमां परिठावी दीधां. ते स्त्रीने मंत्रथी पकडावी
 ज्यारे बहु दुःखी अइ, त्यारे दयाथी ठोडी दीधी. वली विद्यापुरमां पहां-
 तरीउनी स्त्रीउए धर्मघोषजीने व्याख्यानरसना जंग वास्ते मंत्रथी कं-
 ठमां केशगुच्छक करी दीधो, ते ज्यारे सूरिजीना जाणवामां आंठ्युं त्यारे
 ते स्त्रीउने स्तंजन करी दीधी. ज्यारे ते स्त्रीउए आजीजी करी के हवे प-
 ठी अमे आपना गठने उपद्रव नहि करीए, त्यारे गुरुजीए संघना बहु
 आग्रहथी तेमने ठोडी दीधी. वली उज्जयिनममां एक योगी जैनना
 साधुउने रहेवा देतो न होतो; ज्यारे श्री धर्मघोष सूरि त्यां आव्या,
 त्यारे ते योगीए साधुउने कछुं के हवे अहींआं आव्या ठो तो सावचेत
 अइ रहेजो. साधुउए कछुं अमे पण जोइए ठीए के तमे शुं करो ठो ?
 योगीए साधुउने दांत फाडी बताव्या, त्यारे साधुउए तेने कोणी वता-
 वी. साधुउए सर्व समाचार पोताना गुरुजीने कह्या. वाद योगीए धर्म-
 शालामां विद्याना बलथी बहु उंदरो वनाव्या, जेथी साधुउ बहु डरवा
 लाग्या, पठी गुरुजीए घडाना मुख उपर वल्र ढांकी एवो मंत्रजप क्यों
 के, जेथी ते योगी आराटि करतो आवी गुरुना पगमां पड्यो, अने पो-
 ताना अपराध माटे दामा मागवा लाग्यो. वली कोइ नगरमां शाकिनी-
 उनां जयथी मंत्रथी दरवाजा बंध करवामां आवता हता, एकदा मंत्र
 विना दरवाजा बंध करवामां आव्या, जेथी रात्रिए शाकिनीउए उपद्रव
 क्यों. गुरुजीए तेमने विद्याथी स्तंजित करी अने उपद्रव दूर क्यों. ए-
 कदा रात्रिए गुरुजीने सर्पना डंसथी जेर चड्युं, गुरुजीए संघने गजरा-
 येलो देखी कछुं के दरवाजामां कोइ पुरुष पोताना मस्तक उपर का-
 एनो चारो लइ आवशे, तेमां विपापहार एक बेलडी आवशे, ते बेलडी
 घसीने डंख उपर लगावी देजो, जेथी जेर उतरशे. संघे तेज प्रमाणे
 कर्तुं जेथी जेर उतरी गयुं, अने गुरु साजा थया. वाद ते दिवसथी
 गुरुए जावजीव ठ विगयनो त्याग क्यों, अने निरंतर जुवारनी रोटली.

मालवामां विहार करता हवा. श्री देवेंद्र सूरिजीए जे ग्रंथोनी रचना करी ठे, तेना नाम. १ श्राद्धदिनकृत्यसुत्रवृत्ति, २ नव्यकर्मग्रंथ पंचक सूत्र वृत्ति, ३ सिद्ध पंचाशिका सूत्र वृत्ति, ४ धर्मरत्न वृत्ति, ५ सुदर्शन चारित्र, ६ त्रण ज्ञाप्य, ७ वृंदारवृत्ति, ८ सिरि उसहवर्द्धमाण प्रमुख स्तवनो. कोइ कहे ठे के श्राद्धदिनकृत्य सूत्र तो चिरंतन आचार्यनुं करेल ठे. श्री देवेंद्र सूरिनो मालवा देशमां विक्रम संवत (१३२७) मां स्वर्गवास थयो. देवयोगथी विद्यापुरमां तेर दिवस पठी श्री विद्यानंद सूरिनो पण स्वर्गवास थयो. वाद ठमास पठी सगोत्रसूरिए श्री विद्यानंद सूरिना वंधु श्री धर्मकीर्ति उपाध्यायने सूरिपद आपी श्री धर्मधोष सूरि नाम आप्युं.

४६ श्री देवेंद्र सूरिनी पाटउपर श्री धर्मधोष सूरि थया. जेमणे मंडपाचलमां शा. श्री पृथ्वीधरने पंचम अनुव्रत लेतां ज्ञानथी निषेध कयों. आचार्ये ज्ञानथी जाण्युं के आ पुरुषनुं व्रत जंग थइ जशे, ते कारणथी ज्ञयथी निषेध कयों. वाद पृथ्वीधर मंडपाचल राजानो मंत्री थयो. धनवृद्धिथी धनद समान थइ गयो. तेणे चोरासी जीनमंदिर तथा सात ज्ञानना जंडार कराव्या; तथा शत्रुंजय तीर्थ उपर एकवीस धडी प्रमाण सुवर्ण खरची रूपामय श्री रीपजदेवजीनुं मंदिर वंधाव्युं. कोइ कहे ठे के ठप्पन धडी प्रमाण सुवर्ण आपी इंद्रमाल पेहेरी, धरती नगरमां कोइ साधर्मीने ब्रह्मचारीना वेप आपवाना अवसरमां पृथ्वीधरने महा धनाढ्य जाणी तेनी जेट करी, ते वखते पृथ्वीधरे तेज वेप गृहण करी तेज दिनथी अर्थात वत्रीस वर्षनी उमरमां ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर्युं. तेने जांजण नामनो एकज पुत्र हतो. तेणे श्री शत्रुंजय तथा उज्जयंत गिरिना शिखर उपर चार योजन प्रमाण सुवर्ण रूपमय एक ध्वजा चढावी. तेमणे सारंगदेव राजा पासे कर्पूरनुं मेहेसुल वंध कराव्युं, तथा मंडपाचलमां गुरुना प्रवेश महोत्सवमां (७२०००) रूपे-आनो खर्च कयों.

श्री धर्मधोष सूरिए देवपत्तनमां शिष्योनी विनंतिथी मंत्रमय स्तुति बनावी. बली स्वध्यानना बलथी, वज्रस्वामिए स्वशक्तिथी पुरातन कपर्दी यक्ष जे मिथ्यादृष्टि थइ गयो हतो तेने नवीन कपर्दी यक्षथी

दूर कर्षो हतो, ते मिथ्यादृष्टि कपर्दीने प्रतिबोधी श्री जिनर्विवोनो अ-
धिष्ठाता कर्षो; तथा जेमनी पासे समुद्रना अधिष्ठाताए समुद्रना तरं-
गोष्ठी रत्न ढोकन कर्षां. एकदा प्रस्तावे कोइ दुष्ट स्त्रीए कामणयुक्त
वडां वनावी साधुने वहोराव्यां, परंतु श्री धर्मघोष सूरिजीए ते वडां
धरती उपर फेंकावी जमीनमां परिगवी दीधां. ते स्त्रीने मंत्रष्ठी पकडावी
ज्यारे बहु दुःखी अइ, त्यारे दयाष्ठी ठोडी दीधी. वली विद्यापुरमां पहां-
तरीउनी स्त्रीउए धर्मघोषजीने व्याख्यानरसना जंग वास्ते मंत्रष्ठी कं-
ठमां केशगुच्छक करी दीधो, ते ज्यारे सूरिजीना जाणवामां आंवायुं त्यारे
ते स्त्रीउने स्तंजन करी दीधी. ज्यारे ते स्त्रीउए आजीजी करी के हवे प-
ठी अमे आपना गठने उपद्रव नहि करीए, त्यारे गुरुजीए संघना बहु
आग्रहष्ठी तेमने ठोडी दीधी. वली उज्जयिनममां एक योगी जैनना
त्यारे ते योगीए साधुउने कहुं के हवे अर्हीआं आब्या ठो तो सावचेत
अइ रहेजो. साधुउए कहुं अमे पण जोइए ठीए के तमे शुं करो ठो ?
योगीए साधुउने दांत फाडी वताव्या, त्यारे साधुउए तेने कोणी वता-
वी. साधुउए सर्व समाचार पोताना गुरुजीने कह्या. वाद योगीए धर्म-
शालामां विद्याना बलष्ठी बहु उंदरो वनाव्या, जेष्ठी साधुउ बहु डरवा
लाग्या, पठी गुरुजीए घडाना मुख उपर वल्ल ढांकी एवो मंत्रजप कर्षो
के, जेष्ठी ते योगी आराटि करतो आवी गुरुना पगमां पड्यो, अने पो-
ताना अपराध माटे क्षमा मागवा लाग्यो. वली कोइ नगरमां शाकिनी-
उनां जयष्ठी मंत्रष्ठी दरवाजा बंध करवामां आवता हता, एकदा मंत्र
विना दरवाजा बंध करवामां आब्या, जेष्ठी रात्रिए शाकिनीउए उपद्रव
कर्षो. गुरुजीए तेमने विद्याष्ठी स्तंजित करी अने उपद्रव दूर कर्षो. ए-
कदा रात्रिए गुरुजीने सर्पना डंसष्ठी जेर चड्युं, गुरुजीए संघने गजरा-
खेलो देखी कहुं के दरवाजामां कोइ पुरुष पोताना मस्तक उपर का-
एनो चारो लइ आवशे, तेमां विपापहार एक बेलडी आवशे, ते बेलडी
घसीने डंख उपर लगावी देजो, जेष्ठी जेर उतरशे. संघे तेज प्रमाणे
कर्षुं जेष्ठी जेर उतरी गयुं, अने गुरु साजा थया. वाद ते दिवसष्ठी
गुरुए जावजीव ठ विगयनो लाग कर्षो, अने निरंतर जुवारनी रोदली.

नीरस जाणी खाता रह्या, श्री धर्मघोष सूरिजीए रचेला ग्रंथोना नाप. १ संघाचारजाण्यवृत्ति, २ सुश्रधम्मैतिस्तव, ३ कायस्थिति, जवस्थिति, ४ चोवीस तीर्थकरना चोवीस स्तवन, ५ स्रस्ताशमेंत्यादि स्तोत्रं, ६ देवेंडैरनिशं इति श्लेष स्तोत्रं, ७ यूयं युवात्व मितिश्लेष स्तुतीउं, ८ जयवृषजेत्यादि स्तुति. आ जय वृषजेत्यादि स्तुति करवानो हेतु ए ठे के, एक मंत्रीए आठ यमक एक काव्यरची कछुं के आवुं काव्य हाल कोइ रची शकतुं नथी, गुरुए कछुं के नास्ति नथी, मंत्रीए कछुं के आप करी बतावो, जेथी गुरुजीए जय वृषज इत्यादि ठ स्तुति एक रात्रिमां वनावी जीत उपर लखी बतावी, जे वांची मंत्री बहुज चमत्कार पाम्या. गुरुजीए तेने प्रतिवोधी जैनी कयों. श्री धर्मघोष सूरि विक्रम संवत (१३५७) मां स्वर्गवास पाम्या.

४७ श्री धर्मघोषसूरिनी पाट उपर श्री सोमप्रज्ञसूरि थया. जेमणे नमीउण इत्यादि आराधन सूत्र कयों. तेमनो संवत (१३१०) जन्म, संवत (१३२१) दीक्षा, संवत (१३३२) सूरि पद. जेउने अगीआरे अंगोसूत्रार्थ कंठस्थ हतां. तथा “ गुरुजिर्गीयमानायां मंत्र पुस्तकायां यत्तत् चरित्रं मंत्रपुस्तिकांच ” एम कही ते मंत्रपुस्तकोने ग्रहण करता हवा; कारण के बीजो कोइ योग्य न हतो. श्री सोमप्रज्ञसूरिये जलकुंकण देशमां अपकायनी विराधनाना जयथी, अने मरु देशमां शुक्र जलनी दुर्लजताथी साधुउंनो विहार बंध कयों. जीमपट्टीमां वे कारतक मास थया, जेथी सोमप्रज्ञजीये प्रथम कारतकनी एकादशीनारोज विहार कयों, कारण के तेममा जाणवामां आव्युं के जीमपट्टीनो जंग थइ जशे, जेथी जंग थया पठी जे रह्या ते दुःखी थया. तेमना ग्रथोनां नाम. १ जीतकल्पसूत्र, २ यत्राखिल इत्यादि स्तुतिउं, ३ जीतेनयेन इत्यादि स्तुतिउं, ४ श्री मद्यर्म्म इत्यादि. तेमना मोटा शिष्य विमलप्रज्ञसूरि, श्री परमानंद सूरि, श्री पद्मतिळकसूरि तथा श्री सोमविमलसूरि हता. जे दिवसे श्री धर्मघोषसूरि स्वर्गवास पाम्या, तेज दिवसे संवत (१३५७) मां श्री सोमप्रज्ञसूरिजीये श्री विमलप्रज्ञसूरिने सूरिपद आप्युं; कारण के तेउये पोतानुं आयु अल्प ठे एम. जाण्युं. श्री सोमप्रज्ञसूरि (१३७३) मां देवलोक पाम्या.

४७ श्री सोम प्रज्ञसूरिनी पाट उपर श्री सोमतिलक सूरि थया. तेम-
नो संवत (१३५५) माघ मासमां जन्म, संवत (१३६९) मां दीक्षा,
संवत (१३७३) मां सूरि पद अने संवत (१४१४) मां स्वर्गवास थयो.
तेमना ग्रंथना नाम. १ वृहन् नव्य क्षेत्र समास सूत्र, २ सत्तरिसयगण,
३ यत्राखिल जय वृषज खस्ताशर्म प्रमुखनी वृत्ति, ४ श्री तीर्थराज
चतुर्थस्तुति तद्वृत्ति, ५ शुभजावानत० श्रीमद्वीरस्तुति इत्यादि कमल-
बंधस्तव, ६ शिवशिरसि श्री नाजि संभव० श्री शैवेय० इत्यादिस्तवन.
श्रीसोमतिलक सूरिये अनुक्रमे १ श्री पद्मतिलक सूरि, २ श्री चंद्रशेखर
सूरि, ३ श्रीजयानंद सूरि, श्री देवसुंदरसूरिने सूरिपद आप्यां. तेमां श्री
पद्मतिलकसूरि, श्री सोमतिलकसूरिथी पर्यायमां वडा हता, ते एक वर्ष
जीवता रह्या, तेउ महा वैराग्यवान् हता. श्रीचंद्रशेखरसूरि संवत(१३७३)
मां जन्म(१३७५) मां दीक्षा,(१३९३) मां सूरिपद पाम्या. तेमना ग्रंथना नाम.
१ उषितजोजन कथा, २ यवराज रुपि कथा, श्रीमत्तंत्रकहार बंधादि स्त-
वन. जेमना मंत्रोथी वीजा मंत्रवादीउ हारी जता. उपडव करनारा गृह,
हरिका, डुर्जर मृगराज, श्वान, शुरिति दूर थइ जता हता. श्री जयानंद
सूरि संवत (१३७० मां जन्म, (१३९२) आपाढ सुद ७ शुक्रवार दि-
वसे धारा नगरीमां व्रत ग्रहण, (१४१०) मां सूरिपद पाम्या, अने (१४४१)
मां स्वर्गवास पाम्या. तेमना ग्रंथ. १ श्री स्थूलजड चरित्र, २ देवाः प्र-
जोयं प्रमुखस्तवन.

४८ श्री सोमतिलक सूरिनी पाट उपर श्री देवसुंदरसूरि थया. तेम-
नो संवत (१३९६) मां जन्म, (१४०४) मां दीक्षा, (१४१०) मां
आणहिलपुर पाटणमां सुरिपद; देव सुंदरसूरि महा योगान्यासी, मंत्र तं-
त्रनी रीझिना मंदिर, स्यावर जंगम विपापहारी, जन, अनल, व्याल,
हरिना जयना नाश करनारा, अतीत अनागत निमित्तना वेत्ता, राजमंत्री
प्रमुखना पुजनीक हता. श्री देवसुंदर सूरिना पांच शिष्य थया, १ श्री
ज्ञानसागरसूरि, २ श्री कुलमंडनसूरि, ३ श्री गुणरत्न सूरि, ४ श्री सोम-
सुंदरसूरि, ५ श्री साधुरत्नसूरि. श्रीज्ञानसागर सूरिनो संवत (१४०५)
मां जन्म, (१४१७) मां दीक्षा, (१४४१) मां सूरिपद, (१४६०) मां
स्वर्गवास थयो. तेमना रचेला ग्रंथ. श्री आवाश्यक, उधनिर्युक्ति प्रमुख अ-

नेक ग्रंथोनी अच्युरी, श्रीमुनिसुव्रत स्वामि स्तवन, घनौघनखंड पार्श्वना-
थादि स्तवन. श्रीकुलमंडन सूरिनो संवत (१४०९) मां जन्म, (१४१७)
मां दीक्षा, (१४४२) मां सूरिपद, (१४५५) मां स्वर्गवास थयो. तेमना
रचेला ग्रंथ. सिद्धांतालापकोद्धार, विश्व श्रीधर इत्यादि, अष्टादशारचक्र
स्तव, गरीजं तथा हार स्तवादय. श्री गुणरत्नसूरिना रचेला ग्रंथ, १ क्रिया-
रत्नसमुच्चय, षट्दर्शन समुच्चय बृहद्वृत्ति, श्री साधुरत्नसूरिनो रचेलो
ग्रंथ १ यतिजीकल्पवृत्ति ठे

५० श्री देव सुंदर सूरिनी पाट उपर श्री सोमसुंदर सूरि थया, ते-
मनो संवत (१४३०) मां जन्म, (१४३७) मां दीक्षा, (१४५०) वा-
चकपद, (१४५७) मां सूरिपद, अने (१४६९) मां स्वर्गवास थयो.
तेमनो (१७००) साधुनो परिवार, महाक्रियापात्र हतो. ते देखीने
केटलाएक पाखंडी लोकोए तेमनो वध करवा वास्ते एक हजार माण-
सने लालच आपी मोकळ्या; जे मकानमां रात्रिना गुरुए संथारो कयों
हतो, ते मकानमां वध करनाराजं थावी संताइ रखा; तेजं गुरुजीने मा-
रवानी तैयारी करता हता तेवामां चंद्रमाना प्रकाशथी गुरुजीने पासुं
फेरवतां रजोहरणथी प्रथम भुंजता दीक्षा, ते देखी तेजना मनमां वि-
चार आव्यो के:- निद्रामां पण आ पुरुष कुड्र प्राणियोनी रक्षा करे
ठे, अने आपणे तो तेमनो वध करवा आव्या ठीए, माटे आपणामां
अने तेनामां केटलो अंतर ठे ? तेथी मनमां पापथी डरी गुरुना चरण-
कमलमां पडी अंपराध खमावता हवा. तेमना रचेला ग्रंथ योगशास्त्र,
उपदेशमाला, पडावश्यक, नवतत्त्वादि वालावबोध, ज्ञाप्यावचूर्णि, कट्या-
णिकस्तोत्र प्रमुख. तेमना शिष्य श्रीमुनिसुंदरसूरि, कृष्ण सरस्वती विरु-
द धारक, श्रीजय सुंदरसूरि, तथा महाविद्या विंडवन टिपनक कारक श्री
जुवनसुंदरसूरि, जेमने एकादश अंग सूत्रार्थ कंठस्थ हतां, तथा चोथा
जीनसुंदरसूरि, आ चार तेमना प्रतापी शिष्य थया, जेमणे श्रीराणकपुरमां
श्रीधनाकृत चौमुख विहारमां श्रीरीपजादि अनेक शत विंघोनी प्रतिष्ठा करी.

५१ श्रीसो मसुंदरसूरिनी पाट उपर श्रीमुनिसुंदरसूरि थया. तेमणे
अनेक प्रासाद, पद्मचक्र, षटकारक, क्रियागुप्तक, अर्द्धत्रम, सर्वतोऽङ्ग,

मुरज, सिंहासन, अशोक, जेरी, समवसण, सरोवर, अष्टमहाप्राति-
हार्यादि नवीन त्रिंशति बंध, तर्क प्रयोगादि अनेक चित्राक्षर, छ्यक्षर,
पंचवर्ग परिहारादि अनेक स्तवमय त्रिदशतरंगिणी नामनी एकसो
आठ हाथ लांबी पत्रिका लखी गुरुजी उपर मोकली, तथा चातुर्वेद्य
विशारदनिधि, उपदेशरत्नाकर प्रमुख अनेक ग्रंथोनी रचना करी. वली
जेमनुं श्री स्तंजतीर्थमां दकूरखाने “ वादीगोकुलसंड ” एवुं नाम प्र-
सिद्ध कर्तुं. जेमने दक्षिणमां “ वालसरस्वती ” एवुं नाम प्राप्त थयुं.
तेउं आठ वर्ष गणनायक, अने त्रण वर्ष युगप्रधान पदमां रखा. तेउं
एकसो आठ वर्तुलिकानादौपलक्षक, वाढ्यावस्थामां पण एक सहस्र श्लोक
नवीन दररोज कंठे करी लेता हुता. वली तेमणे “ संतिकरं ” नामनुं
समहिम्न स्तवन करी योगिनीकृत मरकीनो उपद्रव दूर कयों. चोवीश
वार विधिथी सूरि मंत्रनुं आराधन कर्तुं, अने चौद वार, धारा नगरी
प्रमुख नगरना स्वामि, पांच राजाउण पोतपोताना देशमां जेमना उप-
देशथी अमारिका ढंडेरो पिटाव्यो, तथा शिरोहीना सहस्रमह्य राजाने
पण अप्रमार प्रवृत्त करी, तेमनो तीडनो उपद्रव टाळ्यो. तेमनो विक्रम
संवत (१४३६) मां जन्म, (१४४३) मां दीक्षा, (१४६६) मां वाचक
पद, (१४७८) सूरिपद; जे वखते वृद्धनगरीना शाह देवराजे (३२०००)
रूपीआ महोत्सवमां खरच्या, तथा (१५०३) कारतक सुद पडवाने
दिवसे तेमनो स्वर्गवास थयो.

५२ श्री मुनिसुंदर सूरिनी पाट उपर श्री रत्नशेखर सूरि थया. ते-
मनो (१४५७) मां जन्म, (१४६३) मां दीक्षा, (१४८३) मां पंडित
पद, (१४९३) मां वाचकपद, (१५०२) मां सूरिपद, (१५१७) पोस
वदीठठना रोज स्वर्गवास थयो. जेमने स्तंज तीर्थमां वांबी नामना
जट्टे वाल सरस्वती नाम आप्युं. तेमना रचेला ग्रंथ. श्राद्धप्रतिक्रमण-
वृत्ति, श्राद्धविधि सूत्र वृत्ति, लघुक्षेत्र समास, आचारप्रदीप प्रमुख
अनेक ठे. जेमना समयमां लुंका नामना लिखारी (लहीआ) ए संवत
(१५०८) मां जीन प्रतिमा उत्थापक लुंका नामनो मत चलाव्यो. ते
मतमां (१५३३) मां जाणा नामनो ते मतना वेपनो धारण करनार प्र-
थमं साधु थयो. ते मतनी उत्पत्ति आ प्रमाणे थइ.

गुजरात देशमां अमदावादमां दशा श्रीमालि ज्ञातिनो लुंका नामनो लिखारी रहेतो हतो; ते ज्ञानसागर यतिना उपाश्रयमां पुस्तक लखी, ते आमदानीथी-पोतानुं गुजरान चलावतो हतो. एकदा प्रस्तावे एक ग्रंथ लखतां; ते ग्रंथनां सात पाना लख्या विना गोडवी दीधां. ज्यारे पुस्तक वांचवामां आव्युं, त्यारे तेने पुथ्युं के, सात पाना लख्या विना केम रहेवा दीधां? लुंकाए ते वावत सिद्धो उत्तर नहि आपतां, पुठनारने आडा श्रवला कारण वतावी, लडवा मांड्युं. लोकोए ते वखते तेनी लुंचाइ देखी, तेने मार मारी उपाश्रयमांथी हांकी काढ्यो, अने नगरमां जाहेर कर्युं के तेणे उपर मुजव काम कर्युं ठे, तेथी तेनी पासे कोइए ग्रंथ लखाववो नहि. वाद लुंको लाचार थवाथी छेप राखी अमदावादथी उंतालीस कोस दूर लींवडी नगरमां आव्यो. लींवडीमां लुंकानी ज्ञातिनो लखमशी नामनो एक वाणीउं राज्यमां कारजारी हतो, तेनी पासे ते बहुज रोयो अने कढपांत कर्यो. लखमशीए पुथ्युं तमने शुं दुःख ठे? त्यारे तेणें कहुं के, अमदावादमां हुं जगवाननो सत्य मत कथन करवा लाग्यो, जेथी तपगठना श्रावकोए मने बहुज माय्यो. हवे हुं आपनी पासे आव्यो हुं, जो आप मारा मददगार थाउं तो, हुं सत्य मत प्रगट करूं. लखीमशीए कहुं, लींवडीना राज्यमां तमे वेसक तमारो सत्य मत प्रगट करी. उपदेश करो. हुं तमोने मदद आपीश, खान पान संवंधी फिकर करवी नहि, तमारी पासे शास्त्र पण श्रवण करीश. ते उपरथी लुंको श्री महावीर जगवंतना साधुउंनी तथा जीनप्रतिमानी उत्थापना करवा लाग्यो. शुद्ध साधुउंने कहेवा लाग्यो के, तेउं ब्रह्मचारी ठे, निर्दयी ठे, मीथ्या ज्ञाननो उपदेश करे ठे, इत्यादि मनमानी निंदा करवी शरु करी. शास्त्रोमां पण जे जे शास्त्रोमां जीनप्रतिमानी जीकर न होती ते ते शास्त्रोनेज साचा मानवा लाग्यो, अने जेमां जेमां थोडो थोडो जीनप्रतिमानो अधिकार हतो, तेना पाठोना अर्थ कुयुक्तियोथी कांइना कांइ समजाववा लाग्यो. मात्र एकत्रीश शास्त्र साचां ठे, एम प्ररुपवा लाग्यो, तेमां पण आवश्यक सूत्रने तो विलकुल घगाडी, कांइनुं कांइ घनावी, लोकोने स्वकपोलकट्टिपत कहेवा लाग्यो, कारण के आवश्यकमां बहु स्थले जीनप्रतिमानो अधिकार ठे. एक दिवस लुंकाने

कोइए कछुं के जैन दीक्षा लीधा विना शास्त्र ज्ञानवानो व्यवहार सूत्रमां निषेध करेल ठे, तो तमे गृहस्थ यइने शास्त्र केम वांचो ठो ? लुंकाए कछुं के, हुं व्यवहार सूत्रनेज सत्य मानतो नथी. आ प्रमाणे प्ररुपणा पचीस वर्ष करी, परंतु लुंकाना उपदेशथी कोइ पण साधु थयो नहि. ज्यारे संवत (१५३३) नी शाल आबी, त्यारे पूर्वोक्त ज्ञाणा वाणीआए लुंकाना उपदेशथी वेप पेहेयों. तेनुं नाम ज्ञाणारिख पाड्युं. तेनो शिष्य संवत (१५६७) मां रूपजी थयो, तेनो शिष्य संवत (१५७७) मां जीवाजीरिख थयो, तेनो शिष्य संवत (१५७९) मां वृद्धवरसिंहजी थयो, तेनो शिष्य (१६०६) मां वरसिंहजी थयो, तेनो शिष्य संवत (१६४९) मां जसवंतजी थयो. आ लुंपक मतनी त्रण शाखा थइ. १ गुजराती, २ नागोरी, ३ उत्तराधी. इति लुंपकमतोत्तत्ति.

५३ श्री रत्नशेखर सूरिनी पाट उपर श्री लक्ष्मीसागर सूरि थया. तेमनो (१४६४) मां जन्म, (१४९०) मां दीक्षा, (१५०१) वाचक पद, (१५०७) सूरिपद. (५४) श्री लक्ष्मीसागर सूरिनी पाट उपर श्री सुमतिसाधु सूरि थया. (५५) श्री सुमतिसाधु सूरिनी पाट उपर श्री हेमविमल सूरि थया. तेउ शिथिल साधुउंनी वचमां रखा, तो पण पोते साधुनो आचार उल्लंघन कयों नहि, तेथी केटलाएक दिवस पठी बहु साधुउण शिथिलपणुं तजी दीधुं. वली रुपि हरगिरि, रुपि श्रीपति, रुपि गणपति प्रमुख बहु जनोए लुंपक मतनो त्याग करी श्री हेमविमल सूरि पासे दीक्षा लीधी. ते अक्सरे संवत (१५६२) मां कडवा नामना एक वाणीआए कडवो मत चलाव्यो, अने त्रण शुइ मानी, तेमज आ कालमां कोइ साधु देखाता नथी एवो पंथ चलाव्यो. वली संवत (१५७०) मां लुंकामतमांथी निकली वीजा नामना वेपधारीए वीजो मत चलाव्यो, जेने लोको विजयगछ कहे ठे. संवत (१५७२) मां नागपुरीआ तपगछमांथी निकली उपाध्याय पार्श्वचंडे पोताना नामथी पासचंदीउ मत चलाव्यो.

५६ श्रीहेमविमल सूरिनी पाट उपर श्रीसुविहितमुनि चुडामणि, कुमततम नाश करवाने सूर्य समान श्री आनंदविमल सूरि थया. तेमनो संवत (१५४७) मां जन्म (१५५२) मां दीक्षा, (१५७०) मां

गुजरात देशमां अमदावादमां दशा श्रीमालि ज्ञातिनो लुंका नामनो लिखारी रहैतो हतो; ते ज्ञानसागर यतिना उपाश्रयमां पुस्तक लखी, ते आमदानीथी-पोतानुं गुजरान चलावतो हतो. एकदा प्रस्तावे एक ग्रंथ लखतां, ते ग्रंथनां सात पाना लख्या विना गोडवी दीधां. ज्यारे पुस्तक वांचवामां आव्युं, त्यारे तेने पुव्युं के, सात पाना लख्या विना केम रहेवा दीधां ? लुंकाए ते वावत सिद्धो उत्तर नहि आपतां, पुठनारने आडा अवला कारण बतावी, लडवा मांळ्युं. लोकोए ते वखते तेनी बुच्चाइ देखी, तेने मार मारी उपाश्रयमांथी हांकी काढ्यो, अने नगरमां जाहेर कर्युं के तेणे उपर मुजव काम कर्युं ठे, तेथी तेनी पासे कोइए ग्रंथ लखाववो नहि. वाद लुंको लाचार थवाथी छेप राखी अमदावादथी ठेंतालीस कोस दूर लींवडी नगरमां आव्यो. लींवडीमां लुंकानी ज्ञातिनो लखमशी नामनो एक वाणीउं राज्यमां कारचारी हतो, तेनी पासे ते बहुज रोयो अने कटपांत कर्यो. लखमशीए पुव्युं तमने शुं दुःख ठे ? त्यारे तेणें कळुं के, अमदावादमां हुं जगवाननो सत्य मत कथन करवा लाग्यो, जेथी तपगछना श्रावकोए मने बहुज मायों. हवे हुं आपनी पासे आव्यो लुं, जो आप मारा मददगार थाउं तो, हुं सत्य मत प्रगट करूं. लखीमशीए कळुं, लींवडीना राज्यमां तमे वेसक तमारो सत्य मत प्रगट करी उपदेश करो. हुं तमोने मदद आपीश, खान पान संवंधी फिकर करवी नहि, तमारी पासे शाख पण श्रवण करीश. ते उपरथी लुंको श्री महावीर जगवंतना साधुउंनी तथा जीनप्रतिमानी उत्थापना करवा लाग्यो. शुद्ध साधुउंने कहेवा लाग्यो के, तेउं प्रष्टचारी ठे, निर्दयी ठे, मीथ्या ज्ञाननो उपदेश करे ठे, इत्यादि मनमानी निंदा करवी शरु करी. शास्त्रोमां पण जे जे शास्त्रोमां जीनप्रतिमानी जीकर न होती ते ते शास्त्रोनेज साचा मानवा लाग्यो, अने जेमां जेमां घोडो थोडो जीनप्रतिमानो अधिकार हतो, तेना पाठोना थयें कुयुक्तियोथी फांइना फांइ समजाववा लाग्यो. मात्र एकप्रीश शाख साचां ठे, एम प्ररुपवा लाग्यो, तेमां पण आवश्यक सूत्रने तो विसकुल पगाटी, फांइतुं फांइ पनाथी, लोकोने हकपोलकट्टिपत कहेवा लाग्यो, कारण के थापश्यकमां यदु स्वसे जीनप्रतिमानो अधिकार ठे. एक दियस सुंफाने

कोइए कहुं के जैन दीक्षा लीधा विना शास्त्र जणवानो व्यवहार सूत्रमां निषेध करेल ठे, तो तमे गृहस्थ थइने शास्त्र केम वांचो ठो ? लुंकाए कहुं के, हुं व्यवहार सूत्रनेज सत्य मानतो नथी. आ प्रमाणे प्ररुपणा पचीस वर्ष करी, परंतु लुंकाना उपदेशथी कोइ पण साधु थयो नहि. ज्यारे संवत (१५३३) नी शाल आवी, त्यारे पूर्वोक्त जाणा वाणीआए लुंकाना उपदेशथी वेप पेहेयों. तेनुं नाम जाणारिख पाड्युं. तेनो शिष्य संवत (१५६७) मां रूपजी थयो, तेनो शिष्य संवत (१५७७) मां जीवाजीरिख थयो, तेनो शिष्य संवत (१५७९) मां वृद्धवरसिंहजी थयो, तेनो शिष्य (१६०६) मां वरसिंहजी थयो, तेनो शिष्य संवत (१६४९) मां जसवंतजी थयो. आ लुंपक मतनी त्रण शाखा थइ. १ गुजराती, २ नागोरी, ३ उतराधी. इति लुंपकमतोत्तति.

५३ श्री रत्नशेखर सूरिनी पाट उपर श्री लक्ष्मीसागर सूरि थया. तेमनो (१४६४) मां जन्म, (१४९०) मां दीक्षा, (१५०१) वाचक पद, (१५०७) सूरिपद. (५४) श्री लक्ष्मीसागर सूरिनी पाट उपर श्री सुमतिसाधु सूरि थया. (५५) श्री सुमतिसाधु सूरिनी पाट उपर श्री हेमविमल सूरि थया. तेउ शिथिल साधुउंनी वचमां रह्या, तो पण पोते साधुनो आचार उल्लंघन कयों नहि, तेथी केटलाएक दिवस पठी बहु साधुउंए शिथिलपणुं तजी दीधुं. वली रुपि हरगिरि, रुपि श्रीपति, रुपि गणपति प्रमुख बहु जनोए लुंपक मतनो त्याग करी श्री हेमविमल सूरि पासे दीक्षा लीधी. ते अक्सरे संवत (१५६२) मां कडवा नामना एक वाणीआए कडवो मत चलाव्यो, अने त्रण थुइ मानी, तेमज आ कालमां कोइ साधु देखाता नथी एवो पंथ चलाव्यो. वली संवत (१५७०) मां लुंकामतमांथी निकली वीजा नामना वेपधारीए वीजो मत चलाव्यो, जेने लोको विजयगठ कहे ठे. संवत (१५७२) मां नागपुरीआ तपगठमांथी निकली उपाध्याय पार्श्वचंडे पोताना नामथी पासचंडीउं मत चलाव्यो.

५६ श्रीहेमविमल सूरिनी पाट उपर श्रीसुविहितमुनि चुडामणि, कुमततम नाश करवाने सूर्य समान श्री आनंदविमल सूरि थया. तेमनो संवत (१५४७) मां जन्म (१५५२) मां दीक्षा, (१५७०) मां

सूरिपद. आनंदविमल सूरिना साधुर्त्त शिथिलाचारी पण हता; तोपण तेमना वैराग्यरंगनो जंग थयो नहोतो. ज्यारे तेउये जोयुं के जीनप्र-
 तिमाना निषेध करनाराउ बहुज वधी गया, अने शुद्ध साधुर्त्त श्रद्धपमात्र
 रह्या, तथा उत्सूत्र प्ररुपणरूप जलप्रवाहमां जव्य जनो पण तणावा ला-
 ग्या, त्यारे मनमां दयादृष्टि लावी, पोताना गुरुनी आझाथी, केटलाएक
 संविद्ध साधुर्त्तने साथे लइ संवत (१५७२) मां शिथिलाचारनो परि-
 हार करी क्रिया उद्धार कर्यो. देशमां विहार करी अनेक जव्य जनो
 उद्धार कर्यो. अनेक शेठोना पुत्रोने धन कुटुंबना मोहनो त्याग कराव
 दीक्षा आपी. वली सोरापूना राजा पासे एवो करार लखाव्यो के जे जी-
 ते अमारा देशमां रहे, अने हारे ते अमारा देशमांथी निकली जाय
 वली तूणसिंह नामना श्रावक के जेमने वादशाहे पालखी आपी हती, अने
 जेमने वादशाहे मलिक श्री नगदल एवुं विरुद्ध आप्यु हतुं, ते तूणसिंह
 श्रावके विनंति करी के साधुर्त्तने सोरठ देशमां विहार करावो; तेथी सु-
 रुजीये गणि जगर्पिने साधुर्त्तनी साथे सोरठ देशमां विहार करवा मो-
 कल्या. वली जेसलमेर प्रमुख मारवाड देशमां जलनी दुर्लजताथी पूव
 श्री सोमप्रज सूरिये साधुर्त्तनो विहार बंध कर्यो हतो, ते मारवाड देश
 कुमतिव्याप्त न थइ जाय, ते सारुं ते देशना जीवो उपर अनुकंपा लावी
 तथा लाज जाणी, साधुर्त्तने आझा करी के तमे मारवाडमां विहार करी
 कुमतिमतनुं खंडन करो. ते अवसरे लघुवयमां शियलथी श्री स्थूलिचक्र
 समान वैराग्यनिधि, निस्पृहावधि, जावजीव जघन्यथी जघन्य पष्ठ तपना
 करनारा अने पारणाने दिन आचाम्बलना करनारा एवा अजिग्रहधारी
 महोपाध्याय श्री विद्यासागरगणिये मारवाड देशमां विहार कर्यो. तेमणे
 जेसलमेरादिमां खरतरोने, मेवाड देशमां वीजामतियोने, अने मोखी आ-
 दिमां लुंका मतियोने प्रतिबोधी श्रावाक वनाव्या, ते आजसुधी प्रसिद्ध
 ठे. वली पार्श्वचंद्रकदाग्रही हतो. वीरमगाममां ते पार्श्वचंद्र साथे वाद करी
 तेने निरुत्तर कर्यो; अने बहु जनोने जैनधर्म अंगीकार कराव्यो. तेज
 प्रमाणे मालव प्रमुख देशोमां विहार करी धर्मनी प्रवर्ती करी. श्री विद्या-
 सागर उपाध्यायजीये तप गछनी फरी वृद्धि करी, अने क्रिया उद्धार
 कर्यापठी श्री आनंदविमल सूरिजी चौद वर्षसुधी जघन्यथी पण नियत

तप वर्जी, ठगथी कमतप करता न होता. वली तेमणे चतुर्थ, षष्ठ तपथी वीश स्थानकनी आराधना करी; अने संवत (१५६६) मां नव दिनतुं अनशन करी स्वर्गे गया.

५७ श्री आनंदविमल सूरिनी पाट उपर श्री विजयदान सूरि थया. जेमणे स्तंजतीर्थ, अमदावाद, महीशानक, गंधार बंदर प्रमुखमां महा महोत्सव पूर्वक अनेक जीनबिंवीनी प्रतिष्ठा करी. जेमना उपदेशथी वादशाह महमदना मान्य मंत्री गलराजा, अपर नाम मलिक श्रीनगदले श्री शत्रुंजय तीर्थनो मोटो संघ काढ्यो. वली जेमना उपदेशथी गांधार नगरना श्रावक रामजीये तथा अमदावादन शा. कुंवरजी प्रमुखे श्री शत्रुंजय उपर चौमुख, अष्टापदादि जीनमंदिरो बंधाव्या. गिरनार उपर जीर्ण प्रासादोनो उद्धार कराव्यो. जेमनो सूर्यनी जेम उदय थवाथी वादी रुपी ताराउं अदृश्य थवा लाग्या. श्रीविजयदान सूरि सर्व सिद्धांतना पारगामी, अखंडित प्रतापवाला तथा अप्रमत्त अने रुपे श्री गौतममुनिवत् हता, तेउ गुजरात, मालवा, कछ, मारवाड, तथा कुंकणादि देशोमां अतिबद्ध विहार करता हवा. महातपस्वी, जावजीव मात्र घी शिवाय सर्व विगंयना त्यागी हता. जेमणे एकादशांग सूत्र अनेकवार शुरु कर्या, बहु जनोने धर्म प्राप्त कराव्यो. तेमनो संवत (१५५३) मां जन्म, संवत (१५६२) मां दीक्षा, (१५७७) सूरि पद, अने (१५६२) मां वटपल्लीमां अनशन करी स्वर्गे गया.

५८ श्री विजयदान सूरिनी पाट उपर श्री हीरविजय सूरि थया. जेमनो संवत (१५७३) मां मागसर सुद ए ना रोज प्रव्हादनपुर निवासी उका जातीना शा. कुरानी ज्ञार्या नाथीना उदरथी जन्म थयो. संवत (१५७६) कारतक वदी २ ना रोज पाटणमां तेमने दीक्षा प्राप्त थइ, तथा (१६०७) मां नारदपुरीमां श्री रीपन्नदेवजीना मंदिरमां पंडित पद (१६०८) माहा सुद ५ ना रोज नारदपुरीमां वरकाणक पार्श्वनाथ सनाथे नेमजीन प्रासादे वाचक पद, (१६१०) शिरोही नगरमां सूरिपद प्राप्त थयुं. जेमना सौजाग्य, वैराग्य, निःस्पृहतादि गुणोने वचन गोचर करवाने बृहस्पतिमां पण चातुर्यता न होती. जेमना स्तंजतीर्थना विहारमां श्रद्धावानोये एककोरुपीआ प्रजावनादि धर्मकृत्योमां खरच्या;

सूरिपद. आनंदविमल सूरिना साधुठ शिथिलाचारी पण हता; तोपण तेमना वैराग्यरंगनो जंग थयो नहोतो. ज्यारे तेउये जोयुं के जीनप्रतिमाना निषेध करनाराठ बहुज वधी गया, अने शुद्ध साधुठ श्रवणमात्र रखा, तथा उत्सूत्र प्ररुणरूप जलप्रवाहमां जव्य जनो पण तणावा लाग्या, त्यारे मनमां दयादृष्टि लावी, पोताना गुरुनी आझाथी, केटलाएक संविद्ध साधुठने साथे लइ संवत (१५७२) मां शिथिलाचारनो परिहार करी क्रिया उद्धार कयो. देशमां विहार करी अनेक जव्य जनो उद्धार कयो. अनेक शेठोना पुत्रोने धन कुटुंबना मोहनो त्याग करावी दीक्षा आपी. वली सोरापूना राजा पासे एवो करार लखाव्यो के जे जीते ते अमारा देशमां रहे, अने हारे ते अमारा देशमांथी निकली जाय. वली तूणसिंह नामना श्रावक के जेमने वादशाहे पालखी आपी हती, अने जेमने वादशाहे मलिक श्री नगदल एवं विरुद आप्यु हतुं, ते तूणसिंह श्रावके विनंति करी के साधुठने सोरठ देशमां विहार करावो; तेथी रुजीये गणि जगर्पिने साधुठनी साथे सोरठ देशमां विहार करवा मो कल्या. वली जेसलमेर प्रमुख मारवाड देशमां जलनी दुर्लजताथी पूत्रे श्री सोमप्रज सूरिये साधुठनो विहार बंध कयो हतो, ते मारवाड देश कुमतिव्याप्त न थइ जाय, ते सारुं ते देशना जीवो उपर अनुकंपा लावी तथा लाज जाणी, साधुठने आझा करी के तमे मारवाडमां विहार करी कुमतिमतनुं खंडन करो. ते अवसरे लघुवयमां शियलथी श्री स्थूलिजड समान वैराग्यनिधि, निस्पृहावधि, जावजीव जघन्यथी जघन्य पष्ठ तपना करनारा अने पारणाने दिन आचाम्लना करनारा एवा अग्निग्रहधारी महोपाध्याय श्री विद्यासागरगणिये मारवाड देशमां विहार कयो. तेमणे जेसलमेरादिमां खरतरोने, मेवाड देशमां बीजामतियोने, अने मोखी आदिमां लुंका मतियोने प्रतिबोधी श्रावक वनाव्या, ते आज सुधी प्रसिद्ध ठे. वली पार्श्वचंद्रकदाग्रही हतो. वीरमगाममां ते पार्श्वचंद्र साथे वाद करी तेने निरुत्तर कयो; अने बहु जनोने जैनधर्म अंगीकार कराव्यो. तेज प्रमाणे मालव प्रमुख देशोमां विहार करी धर्मनी प्रवर्ती करी. श्री विद्यासागर उपाध्यायजीये तप गठनी फरी वृद्धि करी, अने क्रिया उद्धार कर्पापठी श्री आनंदविमल सूरिजी चौद वर्षसुधी जघन्यथी पण नियत

तप वर्जा, ठठथी कमतप करता न होता. वली तेमणे चतुर्थ, पष्ट तपथी वीश स्थानकनी आराधना करी; अने संवत (१५६६) मां नव दिननुं अनशन करी खगें गया.

५७ श्री आनंदविमल सूरिनी पाट उपर श्री विजयदान सूरि थया. जेमणे स्तंजतीर्थ, अमदावाद, महीशानक, गंधार वंदर प्रमुखमां महा म-होत्सव पूर्वक अनेक जीनविंवीनी प्रतिष्ठा करी. जेमना उपदेशथी वा-दशाह महमदना मान्य मंत्री गलराजा, अपर नाम मलिक श्रीनगदले श्री शत्रुंजय तीर्थनो मोटो संघ काढ्यो. वली जेमना उपदेशथी गांधार नगरना श्रावक रामजीये तथा अमदावादना शा. कुंवरजी प्रमुखे श्री शत्रुंजय उपर चौमुख, अष्टापदादि जीनमंदिरो वंधाव्या. गिरनार उपर जीर्ण प्रासादोनो उद्धार कराव्यो. जेमनो सूर्यनी जेम उदय थवाथी वादी रुपी ताराळ अदृश्य थवा लाग्या. श्रीविजयदान सूरि सर्व सिखांतना पा-रगामी, अखंडित प्रतापवाला तथा अप्रमत्त अने रुपे श्री गौतममुनिवत् हुता, तेज गुजरात, मालवा, कछ, मारवाड, तथा कुंकणादि देशोमां थ-प्रतिवर्द्ध विहार करता ह्वा. महातपस्वी, जावजीव मात्र घी शिवाय सर्व विगंयना त्यागी हुता. जेमणे एकादशांग सूत्र अनेकवार गुरू कर्यां, बहु जनोने धर्म प्राप्त कराव्यो. तेमनो संवत (१५५३) मां जन्म, संवत (१५६२) मां दीक्षा, (१५७७) सूरि पद, अने (१५६२) मां वटप-ह्वीमां अनशन करी खगें गया.

५८ श्री विजयदान सूरिनी पाट उपर श्री हीरविजय सूरि थया. जे-मनो संवत (१५७३) मां मागसर सुद ए ना रोज प्रव्हादनपुर निवासी उका जातीना शा. कुरानी जार्या नाथीना उदरथी जन्म थयो. संवत (१५६६) कारतक वदी २ ना रोज पाटणमां तेमने दीक्षा प्राप्त थइ, तथा (१६०७) मां नारदपुरीमां श्री रीपन्नदेवजीना मंदिरमां पंडित पद (१६०८) माहा सुद ५ ना रोज नारदपुरीमां वरकाणक पार्श्वनाथ सनाथे नेमजीन प्रासादे वाचक पद, (१६१०) शिरोही नगरमां सूरि-पद प्राप्त थयुं. जेमना सौजाग्य, वैराग्य, निःस्पृहतादि गुणोने वचन गो-चर करवाने बृहस्पतिमां पण चातुर्यता न होती. जेमना स्तंजतीर्थना वि-हारमां श्रद्धावानोये एककोरुपीआ प्रजावनादि धर्मकृत्योमां खरच्या;

वली जेमना चरण विन्यासना प्रतिपदमां वे मोहोर तथा एक रुपीठ मोचन कर्यो. जेमनी सेवामां श्रद्धालु श्रावकोये मोतीना साथीया कर्यो. वली श्रीगुरुजीये शिरोही नगरमां श्रीकुंथुनाथ स्वामिनी प्रतिष्ठा करी, तथा नारदपुरमां अनेक सहस्रविंवीनी प्रतिष्ठा करी. श्री गुरुराजना विहारमां युगप्रधान अतिशय देखवामां आवता हता. वली अमदावादमां लुंका मतना पुज्य ऋषि मेघजीये, पोतानो लुंकामत दुर्गतिनो हेतु जाणी पोतानी आचार्यपदवी, रजनी जेम ठोडी दइ, पचीस यतियोनी साथे सकल राजाधिराज वादशाह श्री अकबरशाहनी आज्ञा पुर्वक वादशाही वाजींत्र वजावता थकां महामहोत्सव पूर्वक श्रीसूरिजीनी पासे दीक्षा लीधी, आवी विना कोइ आचार्यना समयमां वनी नहोती. वली श्री गुरुजीना उपदेशथी अकबर वादशाहे पोताना सर्व राज्यमां एक वर्षमां ठ महिनासुधी जीवहिंसा बंध करी, तथा जजीआवेरो बंध कर्यो, तेमनुं विस्तारथी चरित्र जाणवुं होय तो श्री हीरसौजाग्य काव्य श्रवलोकन करवुं. अहींआ मात्र संक्षेपथी विना लखीये ठीये.

एकदा प्रस्तावे प्रधान पुरुषोना मुखथी अकबरशाहे श्री हीरविजय सूरिना निरुपम शम, दम, संवेग, वैराग्यादि गुणो श्रवण कर्यो. जेथी सूरिजीने पोतानुं नामांकित फुरमान भोकली बहुमान पुरस्सर गंधार वंदरथी आग्रानी नजीकना फत्तेपुर नागरमां दर्शन करवाने, वादशाहे बोलाव्या. गुरुजी अनेक चव्य जीवोने उपदेश आपतां, अनुक्रमे विहार करता थकां संवत (१६३९) ज्येष्ठ वद १३ दिने फत्तेपुरमां आव्या. ते स्थले वादशाहना शिरोमणि प्रधान अच्युतफजल द्वारा श्रीविमलहर्ष गणि प्रमुख अनेक मुनियोना परिवार सहित, वादशाह साथे मेलाप कर्यो. ते अवसरे वादशाहे बहु आदर सत्कार करी सूरिजीने सजामां वेसाड्या. वादशाहे सूरिजीने परमेश्वरनुं स्वरूप, गुरुनुं स्वरूप, तथा धर्मनुं स्वरूप शुं ठे ? तथा परमेश्वर केवी रीते प्राप्त थाय ? इत्यादि धर्मविचार पुठ्या. सूरिजीए मधुर वाणीथी वादशाहने कथुं के जेनामां अढार छूण न होय ते परमेश्वर ठे, पंच महाव्रतादि धारण करनारा गुरु ठे, अने आत्मानो शुद्ध स्वभाव, ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूप ठे, ते धर्म ठे; इत्यादि विस्तार पूर्वक वादशाहे गुरुजी पासे धर्मोपदेश श्रवण कर्यो.

जेथी आग्रार्थी अजमेर सुधी प्रतिकोश कुवा मिनारा सहित कराव्या. जीवहिंसा बंध करी अने दयावान् थया. वाद अकबर वादशाह एकदा अति तुष्टमान थइ जवाथी कहेवा लाग्या के हे प्रभु ! आप पुत्र, कलत्र, धन, स्वजन, देहादि, ममत्व रहित ठो, तेथी आप सोनुं, चांदी तो लेता नथी, परंतु अमारा मकानमां जैनमतना पुरातनी पुस्तको बहु ठे, ते आप लेवानो अनुग्रह करो. वादशाहना बहु आग्रहथी श्री गुरुजीए सर्व पुस्तक लइ आग्रा नगरना ज्ञानचंडारमां स्थापन कर्यां. वाद गुरुजी एक प्रहरसुधी वादशाहनी साथे धर्मगोष्ठी करी वडा आडंबरथी उपाश्रयमां आव्या. ते वखते लोकोमां जैनमतनी बहुज उन्नति थइ. ते वरसे आग्रा नगरमां चोमासुं करी सोरीपुर नगरे श्री नेमिनाथनी यात्रा करवा गया. ते स्थले श्री रीपजदेव अने नेमिनाथजीनी बहु पुरातनी प्रतिमाउंनी तथा तत्कालना वनावेला श्री नेमिनाथना चरणोनी प्रतिष्ठा करी. वाद आग्रावां शा० गानसिंह कल्याणमहाना वनावेला श्री चिंतामणि पार्श्वनाथादि विंवोनी प्रतिष्ठा करी; ते श्रीचिंतामणि पार्श्वनाथ आजसुधी आग्रामां प्रसिद्ध ठे. पठी श्री गुरुजी फरी फत्तेपुर नगरमां गया, अने अकबर वादशाहने मढ्या. ते प्रसंगे एक प्रहर धर्मगोष्ठी करी, तथा धर्मोपदेश कर्यो. वादशाह कहेवा लाग्या के, में आपने दर्शनोत्कंठित थइ हूर देशथी बोलाव्या, अने विनंति करी, परंतु आप अमारी पासेथी कांइ पण लेता नथी, तेथी फरीथी विनंति करीए ठीए; आपने जेरुचे ते अमारी पासेथी मांगी लेवुं जोइए, जेथी अमारो मनोरथ सफल थाय. ते सांजली गुरुजीए सम्यक् विचार करी कछुं के, आपना सर्वराज्यमां पर्युषणना आठ दिवसोमां कोइ पण जानवरनो बध न थाय, तथा बंधीवानो मुक्त थाय, आ अमारी मांगणी ठे. वादशाहे गुरुने निलोंजी शांत, दांत जाणी कछुं के आठ दिवस तमारी तरफथी अने चार दिवस मारी तरफथी सर्व मली वार दिवस सुधी अर्थात् जादरवा वद १० थी ते ते जादरवासुद ६ सुधी कोइ पण जानवरने मारा राज्यमां मारवा-मां आवशे नहि. पठी वादशाहे सोनाना अक्षरोथी लखावी ठ परवाना श्री गुरुजीने आप्या. ते ठ फुरमान (परवाना) आ प्रमाणे. १ श्री गुजरात देशनो, २ मालव देशनो, ३ अजमेर देशनो, ४ दिल्ली फत्तेपुर:

ना देशनो, ५ लाहोर, मुलतान मंडलनो, ६ श्री गुरुजीने पासे राखवानो. पूर्वोक्त पांचे देशना साधारण फुरमान, ते ते देशमां मोकली अमारि पडह वगडाव्यो; जेथी वादशाहना हुकमथी, नहोता जाणता एवा सर्व आर्य, अनार्य कुलमंडपमां दयारुप वेळ विस्तारवान् थइ गइ. वंधीवान जनोने पण वादशाहे गुरुपासेथी उठी तत्काल मुक्त कर्या. वली एक कोशना तलाव उपर पोते जइ, अनेक देशवालाउण, अनेक जातिना जानवरो वादशाहने जेट मोकळ्यां हतां, ते सर्वेने पोताना हाथथी ठोडी दीधां. वादशाहनी साथे गुरुजीने अनेकवार मेलाप थयो, अने अनेक जीनमंदिर तथा उपाश्रयोनो उपद्रव वादशाहे दूर कर्यां. ज्यारे श्री हीरविजय सूरि वीजे देश विहार करवा लाग्या, त्यारे वादशाहे तेमने जे फुरमान लखी आप्यो तेनी नकल आ स्थले लखीए ठीए.

जलालुद्दीन वादशाह
अकबर वादशाह
गाजीतुं फुरमान

अकबर मोहरनी वंशावली
जलालुद्दीन अकबर वादशाह
हुमायुन वादशाहाना पुत्र
बाबर वादशाहना पौत्र
उमर शेख मीरजाना पुत्र
सुलतान अबुस इदना पुत्र
सुलतान महम्मद शाहना पुत्र
मीरशाहना पुत्र
अमीर तैमुर साहि किरानना पुत्र

देश मालवा, अकबरा
वाद, लाहोर, मुलतान, अमदा
वाद, अजमेर, मीरत, गुजरात
वंगाला, तथा हाल जे जे

मारा तावामां मूलक ठे ते सर्वेना सुधा, मुसद्दी, करोरी तथा जागीरदार सर्वेने मालम थाय के, अमारो संपूर्ण इरादो एवो ठे के सर्व रैयतना मनने संतोप पमाडवो; कारण के रैयतना मनने संतोप ते परमेश्वरनी एक मोटी मेहेरवानी ठे. वली विशेष रीते वृद्धावस्थामां मारो एवो इरादो ठे के, मारुं सारुं इछनारी सर्व रैयत सुखी रहे, ते कारणथी हरेक धर्मना लोकोमांथी जे सारा विचारवाला, परमेश्वरनी जक्ति करवा मां पोतानी उमर पुरी करनारा ठे, तेउने दूर दूर देशोथी में मारी पासे बोलाव्या, अने तेउनी परिह्वा करी, तेमने मारी सोवतमां राखुं हुं,

अने तेमनी वातो सांचळी हुं बहु खुशी थाळं हुं. ते प्रमाणे करता थकां मारा सांचळवामां आबुं के श्रीहीरविजयसूरि, जैनश्वेतांवर मतना आचार्य गुजरातना वंदरोमां परमेश्वरनी ऋक्ति करे ठे; में तेमने मारी पासे बोलाव्या, तेमनी मुलाकात करी हुं बहु खुशी थयो हुं. केटलाएक दिवस पठी ज्यारे तेठेण पोताने वतन जवानी रजा मांगी, ते प्रसंगे तेठेण अरज करी के, गरीब परवरनी मरजीथी आ प्रमाणे हुकम थवो जोश्ये;

सिद्धाचलजी, गीरनाजी, तारंगाजी, आबुजीनो पहाड जे गुजरातमां ठे, केशरीआनाथजी, राजगृहना पांच पहाड, तथा समेतशिखर उर्फ पार्श्वनाथनो पहाड जे वंगालामां ठे, ते पहाडो उपर तथा नीचे, सर्व, मंदीरोनी कोठीउमां तथा सर्व ऋक्ति करवानी जगाळमां, तथा जे जे तीर्थनी जगाळ, जैनश्वेतांवर धर्मनी मारा तावाना मुलकोमां होय, ते पहाडो, मंदीरो तथा जगानी आसपास कोइ पण आदमीए कोइ पण जनावर मारवुं नहि. आ प्रमाणे तेमणे अरज करी. ते आचार्य बहु दूरथी अमारी पासे आव्या ठे, अने तेमनी अरज वाजवी अर्थात् सत्य ठे. यद्यपि आ अरज मुसलमानी मतथी विरुद्ध ठे, तो पण परमेश्वरने पिठाननारा आदमीउनो आ दस्तुर ठे के— कोइ कोइना धर्ममां दखल न करे, अने तेमनो रिवाज वहाल राखे. ते कारणथी आ अरज मारी समजमां साची लागे ठे, के सर्व पहाड तथा पूजानी जगा बहु वखतथी जैनश्वेतांवरी धर्मवालानी ठे, ते कारणथी तेमनी अरज कबुल करवामां आवी ठे, के सिद्धाचलनो पहाड, गीरनारनो पहाड, तारंगाजीनो पहाड, केशरीआजीनो पहाड, आबुनो पहाड, राजगृहना पांच पहाड, तथा समेतशिखर उर्फ पार्श्वनाथनो पहाड जे वंगालाना मुलकमां ठे, ते सर्व पुजाळनी जगाळ, तथा पहाड नीचे तीर्थनी जगाळ जे मारा राज्यमां ठे, तथा गमे ते ठेकाणे जैनश्वेतांवरी धर्मनी जगा होय ते हीरविजय जैन श्वेतांवरी आचार्यने आपवामां आवी ठे; अने तेमणे सारी रीते परमेश्वरनी ऋक्ति करवी जोश्ये.

वली एक वात आ पण याद राखवी जोश्ये के, आ जैनश्वेतांवरी धर्मना पहाडो, पूजानी जगा तथा तीर्थनी जगा, जे में श्री हीरविजयजी सूरिने आपेल ठे, ते सर्व जगाळ हकीकतमां तो जैनश्वेतांवर धर्म-

वाखाउंनीज ठे, तेथी ज्यां सुधी सूर्यथी दिन रोशन रहे, अने ज्यांसुधी चंद्रमाथी रात रोशन रहे, त्यां सुधी आ फुरमाननो हुकम जैनश्वेतांबरी धर्मना लोकोमां सूर्य तथा चंद्रमानी जेम प्रकाशित रहे; अने कोइ आदमी तेमने हरकत न करे. वली कोइ आदमीए ते पहाडो उपर, तेनीनीचे तथा तेनी आसपास पुजानी जगाउंमां तथा तीर्थनी जगाउंमां जानवर मारवुं नहि; तथा आ हुकम मुजव अमल करवो. आ हुकमथी फरवुं नहि; तथा नवीन सनद मांगवी नहि. लखी तारीख ७ मी माह उरदी वहेस मुतावेक माह रवीयुल अवल सन् ३७ जुलसी. आ अकबर बादशाहना फुरमाननी नकल ठे.

वली थानसिंहनी करावेली तथा वीजा शाह डुजणमह्वनी करावेली श्री जीनप्रतिमाउंनी प्रतिष्ठा, लाखो रुपीआ महोत्सवमां वपरावी, करी. प्रथम चातुर्मास, आग्रामां, वीजो फत्तेपुरमां, वीजो जिरामनगरमां अने चोथो फरी आग्रामां, ए रीते कर्यां. वाद बादशाहनी गोष्ठी वास्ते श्री शांतिचंद्र उपाध्यायने राखीने, श्री गुरुजी पोते मेहेडता तथा नागपुरमां चातुर्मासि करी शिरोही नगरमां गया, त्यां नवा चतुर्मुख प्रासादमां श्री आदिनाथना विंवनी तथा श्री अजीतनाथ प्रासादमां श्री अजीतनाथजीनां विंवनी प्रतिष्ठा करी. अनुक्रमे अर्बुदाचल यात्रा करवा गया. अहीआं श्री शांतिचंद्र उपाध्याये नवीन कृपारस कोश नामनो ग्रंथ रची अकबर बादशाहने श्रवण कराव्यो; ते श्रवण करवाथी बादशाहने दयानी बहुज वृद्धि थइ. तेथी आ प्रमाणे थयुं. बादशाहना जन्मना दिवसथी एक मास, पर्युपणना वार दिवस, सर्व रविवार, सर्व संक्रातिना दिवसो, नवरोजनो मास, सर्व इदना दिवसो, सर्व मिहर वासरा, सर्व सोफीअनादिन, इत्यादि सर्व मली एक वर्षमां ठ महीना सुधी जीवहिंसा बंध करावी. तेना फुरमान लखाव्या; जे फुरमानो आजसुधी अमारा लोकोनी पासे ठे. श्री हीरवीजय सूरिए जैनमतनी वृद्धि तथा उन्नति बहुज करी, तेमां कांइ पण शंका नथी. मुसलमानो पण तेमनाथी दयावान् थया. तेमणे स्तंजतीर्थे संवत (१६४६) मां स्तंज तीर्थवासी शा० तेजपालना वनावेला मंदिरमां प्रतिष्ठा करी.

एण श्री हीरविजय सूरिनी पाट उपर श्री विजयसेन सूरि थया.

तेमनो संवत् (१६०४) मां जन्म, (१६१३) माता पिता सहित दीक्षा, (१६२६) पंडितपद, (१६२७) उपाध्यायपद पूर्वक आचार्यपद, (१६५२) जहारकपद, अने (१६७१) मां स्तंजतीर्थे स्वर्गवास थयो. तेमना वेख-हर्ष तथा परमानंद, वे शिष्योए अकबर वादशाहना पुत्र जाहांगीरने धर्म श्रवण करावी प्रतिबोध कयों, अने जाहांगीर वादशाहथी फुरमान कराव्यो, तेनी नकल नीचे मुजव.

उरुदीन महम्मद
जहांगीर वादशाह
गाजीनुं फुरमान

जहांगीरनी मोहोरमां वंशावली
उरदीन महम्मद जहांगीर वादशाह
अकबर वादशाह
हुमायुन वादशाह
बाबर वादशाय
मीरजी उमरशेख
सुलतान अबुसइस
सुलतान मीरजा मोहम्मशाह मीरा-
शाह- अमीर तैमुर साहिब किरान

मारा सर्व राज्यमां तथा विशेष करी गुजरातना सुबा, भोटा हाकेम, कीफायत करनारा आमील, जागीरदार, करोरी तथा सर्व खाताना कारकुनोने मालम थाय के, परमेश्वरने पिठाननारा जे लोक ठे, तेनो एवो दस्तूर ठे के, हरेक मतना तथा कोमना लोकोज मात्र नहि, परंतु सर्व जीव सुखी रहे, तेम करवुं. हालमां वेखहरख तथा परमानंद य-तियोए डुनीआनी रक्षा करनाराउना दरवारमां आवी, तखतनी पासे उजा रही अरज करी के:- विजयसेन सूरि तथा विजयदेव सूरि, ते-मज जेउं सारी बुद्धिवाखा लोको ठे, तेउं इश्वरनी जक्ति करे ठे, तेमज प्रार्थना करे ठे; तथा वेखहरख अते परमानंद यतियोनी परमेश्वरने राजी राखवानी हकीकत, अमे बहु सारी रीते जाणी लीधी, तेथी डु-नियाने तावे करनारनो एवो हुकम थयो के:- कोइ आदमीए आ जैन लोकोना मंदिरोमां तथा धर्मशालामां उतरवुं नहि, तथा कारण विना अडचण करवी नहि. जो ते लोको फरीथी नवा वनाववा चाहे तो ते-उने कोइ रीते मना तथा हरकत करवी नहि. वली तेउना साधुउना

उपाश्रयमां तो कोइए पण उतरवुं नहि. वली जो ते लोको सोरठमां श-
 ङुंजय तीर्थनी यात्रा करवा वास्ते जाय तो कोइ पण आदमीए ते यात्रा-
 लुठ पासे कांइ पण मांगवुं नहि, तथा लालच करवी नहि. वली सद-
 रहु वेखहरख अने परमानंद यतिनी अरज तथा खायेस उपर बहुज
 नारे हुकम आ थाय ठे के, दर अठवाडीआमां रविवार तथा गुरुवार
 तथा दर महिनामां सुद पडवाने रोज तथा इदने दिवसे तथा दर व-
 र्षमां नवरोज अने माहशहरयुरमां जे अमारो मुवारक दिन ठे, तेमां
 एक एक वर्षना हिसाव प्रामाणे मारा सर्व राज्यमां कोइ जीवनी हिं-
 सा न थाय, तथा शिकारनुं काम, पक्षीयोनुं पकडवुं, मारवुं, तथा मा-
 ठलां मारवा, इत्यादि सर्व बंध करवुं. वली तेवी रीतना बीजा पण काम
 पूर्वोक्त दिवसोमां न थवा जोइए. आ वात जरूरनी ठे के पूर्वोक्त हुकम
 मुजब हमेशां चलाववानी कोशिश करवी; तथा मारा फुरमानना हुक-
 मथी कोइ फरे नहि, वीरुद्ध चाखे नहि. लखी० ता० माह सहर युरमे
 सन् ३ जुलसी. आ फुरमान खांजां हानना चोपानीआमां तथा सेवक
 अलीतकीना वर्त्तमान पत्रमां दाखल कर्यो. तरजुमो करनार मुनशी
 सैयद अबडुला मीयां साहेब उरैजी.

६० श्री विजयसेन सूरिनी पाट उपर श्री विजयदेव सूरि थया. ते-
 मनो संवत् (१६३४) जन्म (१६४३) दीक्षा, (१६५५) पंडितपद,
 (१६५६) उपाध्याय पद पूर्वक आचार्यपद, (१६७१) मां स्वर्गवास थयो.
 ६१ श्री विजयदेव सूरिनी पाट उपर श्री विजयसिंह सूरि थया. तेमनो
 (१६४४) जन्म, (१६५४) दीक्षा, (१६७३) वाचकपद, (१६७२) सू-
 रिपद (१७०७) मां स्वर्गवास थयो. ६२ श्री विजयसिंह सूरिनी पाट
 उपर श्री विजयप्रनसूरि थया. तेमनो संवत् (१६७५) जन्म, (१६७५)
 दीक्षा, (१७०२) पंडितपद, (१७१०) उपाध्यायपद, (१७१३) नट्टा-
 रक पद, (१७४५) मां स्वर्गवास थयो. तेमना समयमां मुखबंधा डुं-
 ढीयानो पंथ प्रगट थयो, तेनी उत्पत्ति कहिए ठीए.

सुरत शेहेरमां शा० वीरजी बोहरा अटकनो दशा श्रीमाखि वाणीठ
 रहेतो हतो. तेने फुली नामनी वाल विघवा एक पुत्री हती. तेणे एक
 लवजी नामनो ठोकरो दत्तक लीधो. ते लवजीने लुंकाना उपाश्रयमां न-

एवा मोकल्यो. तेने यतियोनी संगतथी वैराग्य उत्पन्न थयो. तेथी लुं-
काना यति घजरंगजीनो ते शिष्य थयो. वे वर्ष पठी ते पोताना गुरुने
कहेवा लाग्यो के, जेवो शास्त्रमां साधुनो आचार ठे, तेवो तमें केम पा-
लता तथी ? गुरुए कल्लुं के पंचम कालमां शास्त्रोक्त सर्व क्रिया थइ श-
कती नथी. लवजीए कल्लुं के तमे त्रष्टाचारी ठो; तेथी मारा गुरु हवे
तमे नहि. हुं तो पोतेज संयम फरीने लइश. ए प्रमाणे क्लेश करी ल-
वजी रुपिए लुंका मतनी गुरुदीक्षा ठोडीने, पोतानी साथे चीजा वे य-
तियो लीधा. १ चाणो, २ सुखजी. त्रणेए पोतपोतानी मेले दीक्षा ली-
थी; अने मुख उपर लुगडानी पट्टी बांधी. तेमना नवीन वेश देखी को-
इ श्रावके तेमने प्रथम तो रहेवा जगा न आपी, तेथी तेउं खंडेर मका-
नमां जइ रह्या. गुजरातमां खंडेर थइ गयेला मकानने हुंड कहे ठे. लो-
कोए तेवा मकानमां तेउंने रहेतां देखी तेउंनुं नाम हुंडीया राक्खुं, तेउं
त्रणेने नवो मत चलाववामां बहु क्लेश जोगववो पळ्यो, परंतु तेउंनो
त्याग देखी केटलाएक लुंका मतियो तेमने मानवा लाग्या; कारण के
गाडरीआ प्रवाहनी रीति जगतमां प्रचलित ठे. ते मुजव जोला, अ-
ज्ञान लोको उपरनो डोल देखी रागी थइ जाय ठे; वली गुजरातना लो-
कोनो बहु जाग एवो हठग्राही ठे के, जे वात पकडी, ते वातने बहु
मुस्केलीथी ठोडे ठे; तेथी गुजरात देशमांज जैन मतना केटलाएक फां-
टा निकलेला ठे. वाद ते लवजीनो शिष्य सोमजी नामनो उंसवाल
बाणीउं, अमदावादन काखुपरनो रेहेनार थयो. तेणे सूर्यनी आतापना
बहुज करी. तेना चेलाना नाम. १ हरिदासजी २ प्रेमजी, ३ गीरधर-
जी, ४ कानजी प्रमुख थया, अने लुंकामतना कुंवरजीना चेलो पण ते-
मना शिष्य थया, तेमना नाम. १ श्रीपाल, २ असीपाल, ३ धरमस्ती, ४
हरजी, ५ जीवाजी, ६ समरथ, ७ तोडुजी, ८ मोहनजी, ९ सदानंदजी,
१० गोधाजी. एक गुजरातवासी धर्मदास ठीपाए पोतानी मेले मुंड मुं-
डावी, मुख उपर पट्टी बांधी, पोते हुंडीयानो साधु ठे, एम प्रसिद्ध कथुं.
हरिदासनो चेलो वृंदावन थयो, वृंदावननो चेलो जवानीदास थयो,
जवानीदासनो चेलो लाहोर निवासी मलूकचंद थयो. मलूकचंदनो म-
हासिंह, महासिंहनो खुशालराय, खुशालरायनो ठजमल, ठजमलनो

रामलाल, अने रामलालना वे शिष्य, रामरत्न तथा अमरसिंह, आ वं-
नेने अमे देखेला ठे. ते वंनेना चेला वसंतराय तथा रामवद्व विगेरे जी-
वता ठे. तेउ पंजाव देशमां वर्तमानमां फर्या करे ठे.

जीवाजीनो चेलो लालचंद थयो, अने लालचंदनो चेलो अमरसिंह
थयो. ते मारवाड देशमां आव्यो; तेमना परिवारमां नानकजी थयो.
जेना चेला हालमां अजमेर तथा कृष्णगढ जीह्यामां बहु फरे ठे. एक
श्यामिदास, जेना परिवारमां कन्हरीराम, लेखराज, तखतमल प्रमुख
हालमां मारवाडमां रहे ठे; तथा बुंदीकोटामां अने मालवामां, लाल-
चंद, गणेशजी, गोर्वींदरामजी, थया, तथा अमीचंद, हुकमचंद, उद-
यचंद, फतेचंद, ज्ञानजी, ठगन, मगन, देवकरण अने पन्नालाल
प्रमुख फरे ठे, तेउ पण हरिदासनाज चेला ठे. वढी अमरसिंहना
चेला दीपचंद, दीपचंदना धर्मदास, धर्मदासना जोगंराज, जोग-
राजना हजारीमह्व, हजारीमह्वना लालजीराम, लालजीरामना गंगा-
राम, गंगारामना जीवणमह्व, जे वर्तमानमां दिह्वीनी आसपासना गा-
मोमां फरे ठे; तथा अमरसिंहना परिवारमां धनजी, मनजी, नाथुराम
अने ताराचंद प्रमुख थया ठे, जेमना चेला, रतिराम तथा नंदलाल थ-
या. नंदलालनो चेलो रुपचंद अने रुपचंदनो विहारी जे पंजावमां कोट
जगरावांदि गामोमां फरे ठे; तथा कानजी अने धर्मदास ठीपीना चे-
लाउं दीपचंद, गोपालजी प्रमुख लींवडी, वढवाण, मोरवी. गोंडल, जेत-
पुर, राजकोट, अमरेली, घांगधरा प्रमुख जालावाड काठीयावाड अने
हालार प्रमुखना गामोमां फरे ठे. धर्मदास ठीपीना चेला धनाजी, धना-
जीना जुदरजी, जुदरजीना रघुनाथजी, जैमलजी, गुमानचंद, डुर्गदास,
कन्हरीराम, रत्नचंद, हमीरमह्व, कचौरीमह्व प्रमुख वर्तमानमां मारवा-
डमां फरे ठे, ते प्रसिद्ध ठे.

रघुनाथजीनो चेलो नखमजी संवत (१७१७) मां थयो. जेणे तेरा-
पंथ प्रगट कयों. तेना चेला चारमल, हेमजी, रायचंद, जीतमह्व थया,
जीतमह्वनी गादी उपर हाल मेघजी ठे. आ मुखवंधा जेटला साधुउं
ठे, तेउनो पंथ संवत (१७०९) नी सालथी घाल्यो ठे. तेमनोमत ज्या-
रथी निरह्यो ठे, त्यारथी आज सुधी तेमना मतमां कोइ पण विह्वान

थयेल नथी; कारण के ते लोको कहे ठे के, व्याकरण, काव्य, कोश, उंद, अलंकार प्रमुख जणवाथी, तथा तर्कशास्त्र जणवाथी बुद्धि धगडी जाय ठे. आ अज्ञानपणाना कारणथीज तेउ परस्पर बहु द्वेष राखे ठे. कश्क मनमानी कद्विपत वातो वनावी लहे ठे. एक वीजानो पग जामवा देता नथी, मनमां माने ठे के, मारा फलाणा गृहस्थ चेलाने फलाणो जोलवशे, इत्यादि अनेक कारणोथी परस्पर इष्यां बहुज राखे ठे. आ वातमां शंका लागे तेणे मारवाडमां जइ प्रत्यक्ष अनुभव करवो, तेमना आचार, व्यवहार, वेप, श्रद्धा, प्ररुपणा प्रमुख जैनमतना शास्त्रानुसार नथी. वली वीजा मतवालाउं पण जे जैनमतना बहु लोकोने गंदा, कढं-गा माने ठे, तेउ मात्र आ हुंढीथाउंनाज आहार, व्यवहारनी रीत देखीने तेम माने ठे. विशेष शुं लखुं, तेउनी अज्ञानतानो अनुभव तेउनी साथेना परिचयथीज थाय ठे, वास्तवमे आ लोको जैनमतथी तदन वि-परीत चालनारा होवाथी जैनात्तास ठे. इति हुंढक मतोत्पत्ति.

६३ श्री विजयप्रज्ञ सूरिनी पाट उपर श्री विजयरत्न सूरि थया. ६४ श्री विजयरत्न सूरिनी पाट उपरश्री विजयक्षमा सूरि थया. ६५ श्री विज-यक्षमासूरिनी पाट उपर श्री विजयदया सूरि थया. ६६ श्री विजयदया सूरिनी पाट उपर श्रीविजयधर्म सूरि थया. ६७ श्री विजयधर्म सूरिनी पाट उपर श्री जीनेंद्र सूरि थया. ६८ श्री जीनेंद्र सूरिनी पाट उपर श्री देवेन्द्र सूरि थया. ६९ श्री देवेन्द्र सूरिनी पाट उपर श्री विजयधरणेंद्र सूरि थया; वर्तमानमां तेमनी पाट उपर श्री राजेंद्रसूरि ठे, ते विद्यमान विचरे ठे.

एकसठमी पाट उपर श्री विजयसिंह सूरि हता, तेमना शिष्य श्री सत्यविजय गणि थया, तेमज महोपाध्याय, पद शास्त्र वेत्ता, न्यायवि-शारद, महावैश्याकरणि, तार्किकशिरोमणि, बुद्धिसमुद्र श्री यशोविज-य गणि थया. तेउ वंने ए श्री विजयसिंह सूरिनी आज्ञा लइ गठमां क्रियाशिथिल साधुउने देखी, तथा हुंढक मतना पाखंडनो प्रचार दूर करवा वास्ते क्रिया उद्धार कयों. श्री यशोविजय गणिए काशीना पंडि-तोमां जयपताकानो जुंडो प्राप्त कयों, अने गुजरात प्रमुख देशोमां प्र-तिमां उठापक कुलिंगीउना मतरुप अंधकारने प्रतिमाशतकादि अनेक ग्रंथोना तेजथी दूर कयों. तेमना रचेल्ल महान् ग्रंथो, अध्यात्मसार, स्या-

छाप कल्पलता, शास्त्रसमुच्चयवृत्ति, मध्ववादी सूरिकृत नयचक्र उद्धारदि अनेक मोटा (१००) सो ग्रंथ ठे.

श्री सत्यविजय गण्णिजी क्रिया उद्धार करी श्री आनंदघनजीनी साथे बहु वर्ष सुधी वनवासमां रह्या; तथा महा तपस्या योगान्यास प्रमुख कर्युं. ज्यारे बहुज वृद्ध थइ गया, अने पगमां चालवानी शक्ति न रही, त्यारे अणहिलपुर पाटणमां आवी रह्या. तेमना उपदेशथी वे शिष्य थया. गणि कपुरविजय पंडित, २ पंडित कुशलविजयजी. गणि कपुरविजयजीए अनेक अर्हत विंवोनी प्रतिष्ठा करी, अने अनेक गाम तथा शेहेरमां धर्मनी वृद्धि करी, महाप्रज्ञाविक थया. श्री गणि कपुरविजयजीने वे शिष्य थया; १ पंडित वृद्धिविजयगणि, २ पंडित क्षमाविजय गणि. श्री पंडित क्षमाविजय गणिना शिष्य पंडित श्री जीनविजय गणि, तेमना शिष्य पंडित श्री उत्तम विजय गणि, तेमना शिष्य पंडित पद्मविजयगणि, तेमना शिष्य पंडित रुपविजय गणि, तेमना शिष्य पंडित कस्तुरविजय गणि, तेमना शिष्य मुनि मणिविजय गणि तेमना शिष्य मुनि बुद्धिविजय गणि, तेमना शिष्य पंडित मुक्तिविजय गणि, तेमना हस्तथी दीक्षित लघु. गुरुत्रातु आ जैनतत्त्वादर्श ग्रंथना लखनार मुनि आत्माराम (आनंदविजयजी) इति तपगढ गुरु आवलि संपूर्ण.

वर्तमान समयमां नवीन पंथ मुख्यत्वे करी जे निकळ्या ठे ते लखीए ठीए:- गुजरात देशमां स्वामिनारायणनो पंथ, वंगालामां ब्रह्मसमाजनो पंथ, पंजावमां लुधीआना नजीक जयणीगाजनिवासी त्रखाणसिख जातिना उपदेशथी कूकापंथ, कोयलमां मौलवी अहमदशाहना नबिन फिरका, तथा दयानंदसरस्वति स्वामिनो प्रगट करेलो आर्यसमाज पंथ, इत्यादि केटलाएक मतो, पुरातनी अनेक मतोनो त्याग करी निकलेला ठे. मत काढनाराउंए एम मान्युं लागे ठे के आपणी बुद्धि समान प्राचीन पंडितोनी बुद्धि न होती, तथा तेउ प्राचीन ग्रंथो जेम के वेदो, उपनिषदो प्रमुखने यथार्थ समजता न होता. अमने तो कांइ हरकत नथी, परंतु जो कदापि आवी रीते नवीन नवीन मतो निकलता रद्देशे, तो कोइ दिवस ब्राह्मादि मताधिकारीउंनो गरास टली जशे, तथा धर्म अने नियम कायम रद्देशे नहि.

इति श्री तप गङ्गीय मुनिगणी श्रीमणिविजय तद्विष्य मुनि श्रीबुद्धि
विजय तद्विष्य मुनि आत्माराम आनंद विजय विरचिते जैन तत्त्वादशे
गुरु आवलि कथनरूप द्वादशः परिच्छेदः संपूर्ण. ॥ ३२ ॥

इति मुनिश्रीआत्माराम आनंदविजयजी
विरचित द्वादश परिच्छेदरूप जैन-
तत्त्वादश ग्रंथः समाप्तः

पानुं	लीटी	अशुद्ध	शुद्ध.	पानुं	लीटी	अशुद्ध	शुद्ध.
७	११	आदिपं	आदिप	२०४	१५	प्रकृतिव	प्रतिकुल
८	२०	परहितकारी होय	परहितकारी	२०७	१४	पांचेडीयवादां ठे	पांचेडीय ठे
९	२८	लांठन	लंठन	२०७	२३	अपर्याप्त	अपर्याप्तो
१४	२६	काचवानुंचिह	काचवानुं चिन्ह	२०९	५	अनुपरत	अनुपहत
१७	११	लांठनना नाम	लंठनना नाम	२१०	१४	अंगारापखुलमां	अंगाराप्रमुखमां
१८	११	लांठन नाम	लंठन नाम	२१४	८	पराजवमां	परजवमां
२०	११	लांठननां नाम	लंठनना नाम.	२१५	१३	आतापनामकर्ग	आतापनामकर्म
२२	११	लांठन नाम	लंठन नाम	२१६	१७	पुण्यपापा	पुण्यपाप
२४	११	लांठन नाम	लंठन नाम	२२०	२३	त्यानद्धि	त्यानद्धि
२६	११	लांठन नाम	लंठन नाम	२२१	१२	ककेश	क्केश
२८	११	लांठनना नाम	लंठनना नाम	२२४	५	हुंड	हुंडक
३०	११	लांठन नाम	लंठन नाम	२३४	२०	प्रकानी	प्रकारनी
३२	११	लांठन नाम	लंठन नाम	२३८	१८	सह	सहे
३६	१८	स्वारि	स्वारि	२४४	८	आय ठे	थया ठे
३७	२६	स्तुति ठे ?	स्तुतिना ठे ?	२४६	१०	एवाज	एवा जे
३८	२	परमेश्वरपणायें	परमेश्वरपणाये	२४७	७	जीववाणीने	जिनवाणीने
४८	४	जीवोएं	जीवोए	२४८	१३	तेनो	तेनु
७६	१२	रजवामां	रचवामां	२५४	२२	लोचआहार	लोमआहार
८३	१६	क्यां ठे	कया ठे	२५६	१७	तेवोज	नेठंज
८४	२९	तो अदत्त	तो गुरु अदत्त	२५८	२९	जेठनेज.	जेठनो
८६	१०	सातमा	सातमी	२६१	६	बुटवानेज	बुटवाने
८६	१८	वीजी	वीजा	२६२	५	शुद्धांजोनिधि	शब्दांजोनिधि
८८	२३	वर्जनान्	वर्जनात्	२६२	२१	खरूप	स्वरूप
९२	६	प्रप्रमुख	प्रमुख	२६४	१४	अनिष्टयोगार्त	अनिष्टसंयोगार्त
९६	१	अनेकतरेथी	अनेकतरेहथी	२६५	६	मनुष्यापूर्वी	मनुष्यानुपूर्वि
९७	५	प्रांशुक	प्राशुक	२७२	४	ध्यानमांज	ध्यानमांज
९७	१८	पुरीप	पुरीस	२७२	२७	अशुद्ध	अशुच
१०४	१	घांत्रिंशति	घांत्रिंशति	२७८	२२	अतिप्रयत्न	अतिप्रयत्न
१०४	२	चिंतन	चिंतयन	२८०	२०	क्रमोक्रमे	क्रमेक्रमे
१५१	२	जीजासा	जीजासा	२८३	११	एवां वीजो	एवा वीजा
१५३	५	अत्मा	आत्मा	२८७	२	केवलीसमुद्घात	केवलीसमुद्घात
१९९	१७	वस्ते	वास्ते	२९०	१	रूपतापन्नने	रूपतापने
२०१	१४	वर्तमानमान	वर्तमान	२९१	११	धरतो	करतो
२०१	२७	आह	आहा	२९४	१४	मुनिश्रीद	मुनिश्रीमद्

पानुं	लीटी	अशुद्ध	शुद्ध.	पानुं	लीटी	अशुद्ध	शुद्ध.
२९९	२५	प्राणी	प्राणी	४२०	५	हृदयण	न्दयण
३०१	१०	शिष्यागणे	शिष्याणीयोने	४२०	७	मंगीअ	मंगीआ
३२७	२७	साक्षत्	साक्षत्	४२०	२३	जिनत्तु	जिन्नत्तु
३३१	६	राखवायो	राखवानो	४२१	२२	खोणणत्त	खोणत्तणत्त
३३४	२५	निचार	विचार	४२३	१३	निश्राकृत	निश्राकृत
३३५	५	आतिचार	अतिचार	४२३	१६	जिनमंमिरो	जिनमंदिरो
३३६	२२	आधीन	आधीन	४२३	२३	असंविम	असंविम
३४०	१२	गणुं	णुं	४२३	२६	निर्जंगना	निर्जंगना
३४२	७	जगत्ती	जगत्	४२३	२९	विधि	विधिनी
३४७	३३	फेवल	फवल	४२४	३	ईया	ईया
३५२	१९	अर्थी	अर्थी	४२४	२१	सिद्ध	सिद्ध
३५२	१९	फालफुट	तालफुट	४२५	४	मोहप्रदात्री	मोहप्रदायी
३५३	२४	बहु	बहु	४२५	७	तदासा	तदासा
३६७	९	अजीविका	अजीविका	४२९	७	प्रमुखयी	प्रमुखनी
३७४	२९	खलिये	खलिये	४२९	१७	वटीनीत	वटीनीति
३९२	२४	मण	पण	४३०	६	दिशा	दिशाए
३९६	१४	आगर	आगर	४३०	२२	अव्ययी	अव्यनी
३९७	२७	फुलोना	फुलोना	४३०	२२	असवारी	अस्वारी
४०१	४	अंगीकर	अंगीकार	४३०	२७	कागला	कोगला
४०१	१४	जे	जो	४३२	४	वदक	वदक
४०१	१७	आये	आये	४३२	२६	वैय्यावच	वैय्यावच
४०२	५	सारोद्धार	सारोद्धार	४३३	१७	प्रमुख	प्रमुखनी
४०६	१७	सम्यक्त्य	सम्यक्त्य	४३६	१९	प्रमुखमां	प्रमुख
४०६	२४	पुराचारा	पुराचाराः	४३७	२३	स्नात्रप्रजावना	स्नात्र, प्रजावना
४०६	२५	धियंते	धियन्ते	४३७	१४	परजावना	प्रजावना
४०७	१९	रेशमि	रेशमी	४३९	१३	खमासणां	खमासमणां
४०७	२०	अर्हत	अर्हत	४३९	१९	कुस्थान	कुस्थम
४०७	२९	लोकापहास्य	लोकोपहास्य	४४०	२६	रागप्रस्त	रोगप्रस्त
४०९	९	राज्यचिह्न	राज्यचिन्ह	४४५	२७	विराधी	विराधी
४१३	२९	मालाधर	मालाधर	४४६	४	दागीन	दागीना
४१५	२३	चेइआण	चेइआणं	४४७	२२	न्युनादिक	न्युनाधिक
४१६	२३	केवली	केवली	४५३	४	करत्त	करत्त
४१९	२६	जिनविचं	जिनविचं	४५५	४	परतीचिंको	परतीचिंत
४१९	२७	जाणरुव	जिणरुवं	४५६	२७	तर्जना करे	तर्जना न करे

पातुं	लीटी	अशुद्ध	शुद्ध	पातुं	लीटी	अशुद्ध	शुद्ध
६२	३	ते	के	५१५	१७	तमे कहो ?	तमे कहो वे
६४	१०	बोलावा	बलावा	५१७	२६	कांकणी	काकणी
६८	१२	बोज	बोजो	५१९	२३	सुहफजाए	सुरफाए
७१	२०	चेचतन	नचेतन	५२०	१४	धी	धी
७७	१९	जावस्थिति	जवस्थिति	५२०	२४	समुज्जा	सुज्जा
७७	११	च्यवन	चवन	५२५	१	धेर	धेर
७७	४	परिणाम	परिमाण	५२६	२८	कह्यो	कह्यो
७६	२२	ज्राहा	ज्राह	५२८	२८	ससगर	सगर
७७	११	अनदंडर्थीर्थ	अनर्थदंडर्थी	५२९	९	सर्वेये	सर्वोये
७८	१०	सम्यक्त्व	सम्यक्त्व	५२९	१५	अवधिज्ञान	अवधिज्ञान
७८	१४	धी	धी	५३१	२७	स्थापनां	स्थापन
७८	२९	अधर्मी	अधर्मी	५३६	७	अग्नीआरमां	अग्नीआरमा
७८	१९	पडोकोश	पडोश	५३६	२२	प्राप्त अता	करता
७९	५	विहाह	विवाह	५३८	६	हस्तिपुर	हस्तिनापुर
७९	२०	जेम	तेम	५४०	१०	नगगर	नगर
७९	४	बंध	बंध	५४४	२२	निर्ब्राह्मणी	निर्ब्राह्मण
७९	१०	जिनप्रतिमां	जिनप्रतिमा	५४५	६	विष्णुकुमार	विष्णुकुमार
७९	१	पेथके	पेथडे	५४८	२९	वंशी	वंशी.
७९	१९	सम्यक्त्व	सम्यक्त्व	५५१	११	नाममा	नामना
७९	१४	जावजीव	जावजीव	५५२	११	दती	हती
७९	१५	पेथके	पेथडे	५५२	१३	विचार	तेनो विचार
७९	१५	ज्व	ज्व्य	५५४	१२	प्रमुखथी	प्रमुखनी
७९	१९	माठा	माठा	५५८	९	आग्नीआरे	आग्नीआरे
८०	६	आलोवे	आलोवे	५५९	२४	निश्चय	निश्चय
८०	४	अर्हत	अर्हत	५६०	१	जागवनार	जोगवनार
८०	१९	विज्ञान	विज्ञान	५६०	२८	इत्यादि	इत्यादि
८०	१२	प्रथम	प्रथम	५६१	२	सर्व	सर्व
८०	५	वृत्तज	वृत्तज	५६५	१०	तथा अने	अने
८०	१०	न्यूनवर्पना	न्यून एक वर्पना	५६५	१६	स्थापन. कर्या	स्थापन न कर्या
८०	१७	विचार	विचार	५६८	८	परमार्हत	परमार्हत
८०	२७	ओपधानुयोग	ओपधानुयोग	५६८	२२	गृहवास	गृहस्थवास
८०	२९	सखीये	सखीये	५७१	१४	मने	अने
८१	१४	जिज्ञा	जिज्ञा	५७२	२	ओवाधो	ओवाधो
८३	२१	देवोये	देवताउये				